
॥ श्रीजिनाय नमः ॥ श्रीसद्गुरुभ्यो नमः

॥ रत्नसमुच्चय ॥



॥ मंगलाचरण ॥



ॐकारं बिंदुसंयुक्तं । नित्यं ध्यायंति योगिनः ॥
कामदं मोक्षदं चैव । ॐकाराय नमोनमः ॥ १ ॥

॥ कवित ॥

र उदार अगम्म अपार । संसारमें सार पदारथनांमी ॥
ऽ समृद्धि सरूप अनूप । भयो सबही सिर भूप सुधामी ॥
। यंत्रमें ग्रंथके पंथमें । जाकुं कियो धुर अंतरजांमी ॥
ो इष्ट वसे परमेष्ट । सदा ध्रमसी करै ताहि सलामी ॥ १ ॥
निसदिस नमायके सीस । जपो जगदीश सही सुखदाता ॥
ो जगतमें कीरति जागत । भागतहे सब ईत असाता ॥
ारिंद दिणिंद फणिंद । नमाएहें वृंद आनंद विधाता ॥
धरम्मको धीर धराधर । ध्यान धरे ध्रमसी गुण ध्याता ॥ २ ॥

॥ अथ गुरुमहिमा नमस्कार ॥

॥ जिणकी महिमें ? । जिनदीनो महा इक ग्यान नगीनो ॥
ग्यो भ्रम सो तम देखत । पूर जग्यो परकास नगीनो ॥
देतहि दूनो वधे । अरु खायोहि खूटत नांहि खजीनो ॥
साय कियो गुरुराय । तिणें ध्रमसी पदपंकज लीनो ॥ १ ॥

अज्ञानतिमिरान्धानां । ज्ञानाञ्जनशलाकया ॥ पु. ॥
नेत्रमुन्मीलितं येन । तस्मै श्रीगुरुवे न[illegible] ॥ ९ ॥

कोऽर्थःपुत्रेण जातेन । यो न विद्वान् न भक्तिमान् ॥ १०
उपदेशो हि मर्खाणां । प्रकोपाय न शांतये ॥
पयःपानभुजंगानां । केवलं विषवर्द्धनं ॥ ११ ॥
मातृवत्परदाराश्च । परद्रव्याणि लोष्टवत् ॥
आत्मवत्सर्वभूतानि । विकंते धर्मबुद्धयः ॥ १२ ॥

॥ अथ सन्धिसूत्र ॥

॥ सिद्धोवर्णः समाम्नायः तत्र चतुर्द्दशादौस्वराः दशसमा तेषांद्वाद्वावन्योऽन्यस्यसवर्णौ पूर्वोह्रस्वः परोदीर्घः स्वरोवर्णः वर्ज नामी एकारादीनिसंध्यक्षराणि कादीनिव्यंजनानि तेवर्गापंचप वर्गाणांप्रथमद्वितियौ शषसश्चघोषाः घोषवंतोऽन्ये अनुनासिकाः ङ ञणनमाः अनतस्थाः यरलवाः ऊष्माणः शषसहाः अःइतिविसर्ज्जनीयः कःइतिजिह्वामूलीयः पःइत्युपध्मानीयः अं इत्यनुस्वारः पूर्वपरयोरर्थोपलब्धौपदम् अस्वरंव्यंजनं परंवर्णनयेत् अनतिक्रमयन् विश्लेषयेत् लोकोपचारात्ग्रहणसिद्धिः इतिसंधौसूत्रतः प्रथमश्चरणसमाप्तः ॥

॥ हितोपदेशः ॥

ॐअर्हतोभगवंतइंद्रमहिताः । सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता ॥
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः । पूज्या उपाध्यायकाः ॥
श्रीसिद्धांतसुपाठका मुनिवरा । रत्नत्रयाराधकाः ॥
पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं । कुर्वंतु वो मंगलं ॥ १ ॥

अर्थः—(एते पंचपरमेष्ठिनः प्रतिदिनं वः युष्माकं मंगलंकुर्वंतु) यहजो पंचपरमेष्ठिपदहे सो हमेसां तुमभव्यजीवोंकूं मंगलकरो. केसेकहे पंचपरमेष्ठि (अर्हतोभगवंतइंद्रमहिता) प्रथम परमेष्टि श्री अरिहंतदेव आठकर्मरूप अंतरंगवेरियोकों हणे सो अरिहंत कहीजे [illegible] केवलज्ञान केवलदर्शन संयुक्तहे फेर

अर्थहे ॥ सूर्य १ ज्ञान २ महात्म ३ यश ४ वैराग्य ५ मुक्ति ६ रूप ७ वीर्य ८ प्रयत्न ९ इच्छा १० श्री लक्ष्मी ११ धर्म १२ ऐश्वर्य १३ योनि १४ इन चवदे अर्थमेंसें दो अर्थकूं वर्जकर बाकी १२ अर्थ अरिहंत भगवंतमेंहे एकतो सूर्य १ दुसरी योनि २ यह दो टालके फेर श्री अरिहंत भगवंत केसेंकहें (इंद्रमहिता) चोसठ इंद्रोंसें पूजनीक बारेगुणोसें विराजमानहै सो बारे गुण एसेहें प्रथमतो अरिहंतमें अद्भुत रूप होताहे रोग उर पसीना उर मैलरहित बहुत खसबोदार सरीर होताहे १ सासोश्वासमें कमलके फूल जेसी खसबो होतीहे २ लोही उर मांस गउके दुध जेसा स्वेत होताहे ३ आहार नीहारकी विधि अद्दस्य होतीहे अर्थात् चर्मचक्षुवालेकों दिखाई नहीं देता ४ यह च्यार अतिशयगुण जन्मसेंही होताहे उर बाकीके आठगुण केवलज्ञान उत्पन्न भये बाद होताहे अशोकवृक्ष १ भगवानके सरीरसें बारेगुणा ऊंचा होताहे जिसकी छाया बेठनेसें रोगसोकादिक दूर होताहे १ सुरपुष्पवृष्टिः देवतोंके समूह गोडे पर्यंत पंचरंगेफूलोंकी वरसात करे आकाससे गिरते सीधे गिरे । बींट नीचा रहे पांखडी ऊपर रहे २ । (दिव्यध्वनि) एक योजन तक देवता मनुष्य तिर्यंच सब जीव अपणी२ भाषामें यथावस्थित समझै एसा उनोंकों मालम देवेके भगवान हमारी बोलीमेंही उपदेश दे रहेहें सोही बात सिद्धांतोंमें कहाभीहे ॥ गाथा ॥ एगाइंगिराणेगे । संदेहदेहिणंसमंछित्ता ॥ तिहुअणमणुसासंता । अरिहंताहुंतिमेसरणं १ । ३ ॥ चामर ४ भगवानके दोनों तरफ इंद्र चम्मर ढोलता रहै ४ ॥ आसनञ्च ५ भगवंतके जी ... कूं इंद्रादिक देव रचित फटिकरत्नका सिंहासण रहै ५ ॥ भा... ६ भगवानके पिछाडी भामंडल रहे जिस्सें भव्यजीव भ... तरफ देखसके भगवंतके च्यारमुख च्यारुंदिसामें दीखादेनेके... ... पूर्वदिशामें मुख करके बैठे उर तीन दिशा... जी

तिमा व्यंतर देवता स्थापन करै लेकिन् भगवानके अतिशयसैं च्यारोंहीदिसामैं ढारेपरखदाकूं अपने सामने उपदेश देतेभये दिखाइदेवे ६ ॥ दुंदुभी ७ आकाशमैं देव ते देवदुंदुभीवाजित्र वजावे ७ ॥ ठातपत्रं ८ भगवंतके विहारकी वखत मस्तकपर तीन छत्र रहै ८ ॥ यह आठगुण देवतोंके किये होतेहे एसे अरिहंत देवाधिदेव चोतीस अतिशय विराजमान पेंतीस वचनगुण सोभित एकहजार आठ लक्षणालंकृत अठारे दूषणरहित शांत दांत कृपासागर त्रैलो-क्यनाथ तीन जगत्के गुरु वर्त्तमान कालमैं महाविदेह क्षेत्रमें के-वलज्ञान केवलदर्शनसैं लोकालोकका भाव देखतेभये पृथ्वीमंडल-पर भव्यजीवोंके मनोरथ पूरणथके विचरतेहैं एसे अनंत गुणसैं विराजमान अरिहंत देवाधिदेव श्री संघमैं सदा मंगल करो १ ॥ (सिद्धाश्रसिद्धिस्थिता) दूसरे पदमैं श्री सिद्धमहाराजकूं नमस्कार हुवे केसेकहें श्री सिद्धमहाराज अष्ट कर्मरूपकाष्ठकों शुक्लध्यानरूप अग्निसैं भस्मकर सिद्धगतिकों प्राप्तभये अनंतज्ञान अनंतदर्शन अ-नंतचारित्र अनंततप अनंतवीर्य संयुक्त जन्म जरा मरणरोग सोक भयादिकसैं रहित चवदे राजलोकमैं सव जीवोंके मनोगतभाव एकस-मयमैं जाणते उर देखतेथके लेकिन् आत्मगुणोंमे मग्न रहेभये एसे श्रीसिद्धमहाराज श्रीसंघमैं सदा मंगल करो ॥ २ ॥ (आचार्या-जिनशासनोन्नतिकरा) तीसरे पदमैं श्रीआचार्यमहाराजकूं नम-स्कार हुवे केसेकहे श्रीआचार्यमाहाराज छत्तीसगुणोंसैं विराजमान मुक्तिमार्गके साधक कर्मशत्रूकेविराधक पंचाचारपालक अवुधजीव-प्रतिबोधक क्षमागुणभंडार समदृष्टी तरण तारण धर्मकेधोरी जिन-शासनके उन्नतिके करणेवाले एसे परमउपगारी श्रीआचार्यमहा-राज श्रीसंघमैं सदा मंगल करो ३ ॥ (पूज्याउपाध्यायका श्रीसि-द्धांतसुपाठका) चोथे परमेष्ठिपदमैं श्रीउपाध्यायमहाराजकूं नम-स्कार हुवे केसेकहे श्रीउपाध्यायमहाराज ...

णकार नयनिक्षेपागमापर्यायसंयुक्त सिद्धांतकेपढाणेवाले २५ गुणोंसें विराजमान एसे श्रीउपाध्याय महाराज श्रीसंघमें सदा मंगल करो ४ ॥ (मुनिवराःरत्नत्रयाराधकाः) पंचम परमेष्टिपदमें सरब साधूमुनिराजजी केसेकहें श्रीसाधूमुनिराज ज्ञान १ दर्शन २ चारित्र ३ इन तीन रत्नोंकें आराधक पांचे सुमतेसमता तीने गुप्ते-गुप्ता छकायके पीहर कुरकीसंबल चारित्रपात्र मोक्षमार्गके साधक एसे सब साधूमुनिराज सत्ताईस गुणोंसें सोभित श्रीसंघमें सदा मंगल करो ५ ॥ इति हितोपदेश दोनोके कल्याणार्थे ॥

॥ अथत्रिगुंजिननाम ॥

॥ अतीतचोवीसी ॥

१ श्रीकेवलज्ञानीजी — २ श्रीनिर्व्वाणीजी ॥
३ श्रीसागरजी — ४ श्रीमहायसजी
५ श्रीविमलदेवजी — ६ श्रीसर्व्वानुभूतिजी
७ श्रीश्रीधरजी — ८ श्रीदत्तस्वामीजी
९ श्रीदामोदरजी — १० श्रीसुतेजनाथजी
११ श्रीस्वामीजी — १२ श्रीमुनिसुव्रतजी
१३ श्रीसुमतिनाथजी — १४ श्रीशिवगतिजी
१५ श्रीअस्तागजी — १६ श्रीनमिश्वरजी
१७ श्रीअनिलनाथजी — १८ श्रीयशोधरजी
१९ श्रीकृतार्थजी — २० श्रीजिनेश्वरजी
२१ श्रीशुद्धमतोजी — २२ श्रीशिवकरजी
२३ श्रीस्यन्दनजी — २४ श्रीसंप्रतिस्वामीजी

॥ वर्त्तमानचोवीसी ॥

१ श्रीऋषभदेवजी — २ श्रीअजितनाथ[illegible]
३ श्रीसंभवनाथजी — ४ श्रीअभिनंदनजी
५ श्रीसुमतिनाथजी — ६ श्रीपद्मप्रभूजी

७	श्रीसुपार्श्वनाथजी	८	श्रीचंद्राप्रभूजी
९	श्रीसुविधनाथजी	१०	श्रीशीतलनाथजी
११	श्रीश्रेयांसजी	१२	श्रीवासुपूज्यजी
१३	श्रीविमलनाथजी	१४	श्रीअनंतनाथजी
१५	श्रीधर्मनाथजी	१६	श्रीशांतिनाथजी
१७	श्रीकुंथुनाथजी	१८	श्रीअरनाथजी
१९	श्रीमल्लिनाथजी	२०	श्रीमुनिसुव्रतस्वामीजी
२१	श्रीनमिनाथजी	२२	श्रीनेमनाथजी
२३	श्रीपार्श्वनाथजी	२४	श्रीमहावीरस्वामीजी

अनागतचोवीसी ॥

१	श्रीपद्मनाभजी	२	श्रीसूरदेवजी
३	श्रीसुपार्श्वजी	४	श्रीस्वयंप्रभुजी
५	श्रीसर्वानुभूतिजी	६	श्रीदेवश्रुतजी
७	श्रीउदयप्रभुजी	८	श्रीपेढालजी
९	श्रीपोट्टिलप्रभूजी	१०	श्रीशतकीर्त्तिदेवजी
११	श्रीसूव्रतनाथजी	१२	श्रीअममनाथजी
१३	श्रीनिष्कषायदेवजी	१४	श्रीनिष्पुलाकदेवजी
१५	श्रीनिर्ममनाथजी	१६	श्रीचित्रगुप्तनाथजी
१७	श्रीसमाधिनाथजी	१८	श्रीसंवरनाथजी
१९	श्रीयसोधरजी	२०	श्रीविजयनाथजी
२१	श्रीमल्लिप्रभूजी	२२	श्रीदेवप्रभूजी
२३	श्रीअनन्तप्रभूजी	२४	श्रीभद्रंकरजी

॥ वीसविहरमाननामानि ॥

१	श्रीसिमंधरजी	२	श्रीयुगमंधरजी
३	श्रीबाहूजी	४	श्रीसुबाहूजी
५	श्रीसुजातजी	६	श्रीस्वयंप्रभूजी

७ श्रीऋषभाननजी	८ श्रीअनन्तवीर्यजी
९ श्रीसूरप्रभूजी	१० श्रीविमलजी
११ श्रीवज्रधरजी	१२ श्रीचंद्राननजी
१३ श्रीचंद्रबाहुजी	१४ श्रीभुजंगजी
१५ श्रीनेमप्रभजी	१६ श्रीईश्वरजी
१७ श्रीवयरसेनजी	१८ श्रीमहाभद्रजी
१९ श्रीदेवयशाजी	२० श्रीअजितवीर्यजी

॥ च्यारसाश्वतातीर्थंकरनाम ॥

१ श्रीऋषभाननजी	२ श्रीचंद्राननजी
३ श्रीवारिषेणजी	४ श्रीवर्धमानजी

एते चत्वारनाम्ना जिना साश्वतैव भवंति ॥

॥ अथ सोले सतीनाम ॥

१ श्रीब्राह्मीजी	२ चंदनबालाजी
३ श्रीराजीमतीजी	४ श्रीद्रोपदीजी
५ श्रीकौशल्याजी	६ श्रीमृगावतीजी
७ श्रीसुलसाजी	८ श्रीशीताजी
९ श्रीसुभद्राजी	१० श्रीशिवाजी
११ श्रीकुंतीजी	१२ श्रीशीलवतीजी
१३ श्रीदवदंतीजी	१४ श्रीपुष्पचूलाजी
१५ श्रीप्रभावतीजी	१६ श्रीपद्मावतीजी

इत्यादि वडी२ सतियोंकों त्रिकाल२ वंदना ॥

॥ ॐपरमेष्ठिने नमः ॥

॥ अथवा ॥

॥ श्रीश्रावकस्य विधिसंयुक्त देवसिराइ ॥

॥ प्रतिक्रमणादि सूत्रम् ॥

॥ तत्र प्रथम ॥

॥ प्राभातिक सामायिक विधिप्रारंभः ॥



॥ अथ नवकारमंत्रः ॥

॥ णमो अरिहंताणं ॥ १ ॥ णमो सिद्धाणं ॥ २ ॥ णमो आयरियाणं ॥३॥ णमो नुवझायाणं ॥ ४ ॥ णमो लोए सव्वसाहूणं ॥ ५ ॥ एसो पंच णमुक्कारो ॥ ६ ॥ सव्वपावप्पणासणो ॥ ॥ ७ ॥ मंगलाणं च सव्वेसिं ॥ ८ ॥ पढमं हवइ मंगलं ॥ ए ॥ इति ॥ १ ॥ यह नवकार तीन बेर गुण कें थापनाजीकी थापना करे, तब तेरे बोल चिंतवे, सो कहते हैं ॥

॥ अथ थापनाचार्यजीकी तेरे पडिलेहणा ॥

॥ शुद्ध स्वरूप धारुं ॥ १ ॥ ज्ञान ॥ १ ॥ दर्शन ॥ २ ॥ चारित्र ॥ ३ ॥ सहित सद्दहणा शुद्धि ॥ १ ॥ प्ररूपणा शुद्धि ॥ ॥ २ ॥ दर्शन शुद्धि ॥ ३ ॥ सहित पांच आचार पालुं ॥ १ ॥ पलावुं ॥ २ ॥ अनुमोडुं ॥ ३ ॥ मनोगुप्ति ॥ १ ॥ वचन गुप्ति ॥ ॥ २ ॥ कायगुप्ति ॥ आदरुं ॥ ३ ॥ एवं तेरे बोल श्रीधर्मरत्नप्रकरणसूत्रवृत्तिमें कहे हैं ॥ इति ॥ २ ॥

॥ पीछें गुरुजीके सामने अथवा थापनाचार्यजीके सामने खमा हो कें तीन खमासमण देवे, सो लिखते हैं ॥

॥ अथ खमासमण ॥

इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावणिज्जाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि ॥ इति ॥ ३ ॥

॥ अथ सुगुरुने शीतो सुखपृछा ॥

॥ इछकार भगवन् सुहराइ, सुहदेवसी, सुख तप शरीर निरा बाध सुखसंयम यात्रा निर्वहोछोजी? स्वामी शाता छेजी? इति ॥ ॥ ४ ॥ एम गुरुने कही नमस्कार करे, तेवारें गुरु कहे देवगुरु प्रसाद ॥

॥ पीछें नीचें बैठकें जिमणा हाथ नीचा करकें अभुठि उमि कहे पीछें खमासमण देकें इछाकारेण संदिस्सह भगवन् सामायिक लेवा मुहपत्ती पडिलेहुं? गुरु कहे, पडिलेह. पीछें इछं कही दूजी खमासमण देई मुहपत्ती पडिलेहे ॥

॥ अथ मुहपत्ती पडिलेहणके पच्चीस बोल लिखते हैं ॥

सूत्र, अर्थ साचो सद्दहुं ॥ १ ॥ सम्यक्त्व मोहनी ॥ २ ॥ मिथ्यात्व मोहनी ॥३॥ मिश्र मोहनी ॥४॥ परिहरुं. यह चार बोल मुहपत्ती खोलती बिरीयां कहणां ॥

॥ कामराग ॥ १ ॥ स्नेहराग ॥ २ ॥ दृष्टिराग ॥ ३ ॥ परिहरुं ॥ यह सात बोल प्रथम कहीजें ॥

॥ सुगुरु ॥ १ ॥ सुदेव ॥ २ ॥ सुधर्म ॥ ३ ॥ आदरुं ॥ ॥ कुगुरु ॥ १ ॥ कुदेव ॥ २ ॥ कुधर्म ॥ ३ ॥ परिहरुं ॥ ज्ञान ॥ १ ॥ दर्शन ॥ २ ॥ चारित्र ॥ ३ ॥ आदरुं ॥ यह नव पडिलेहण डावे हाथे करीयें ॥

॥ ज्ञानविराधना ॥ १ ॥ दर्शनविराधना ॥ २ ॥ चारित्रविराधना ॥ ३ ॥ परिहरुं ॥ मनोगुप्ति ॥ १ ॥ वचनगुप्ति ॥ २ ॥ कायगुप्ति ॥ ३ ॥ आदरुं ॥ मनोदंड ॥ १ ॥ वचनदंड ॥ २ ॥ कायदंड ॥ ३ ॥ परिहरुं ॥ यह नव पडिलेहण जिमणे हाथसें करणी ॥ यह पच्चीश बोल मुहपत्तीके जानने ॥

॥ अब अंगकी पच्चीश पडिलेहण लिखते हैं ॥

॥ कृष्णलेश्या ॥ १ ॥ नीललेश्या ॥ २ ॥ कपोतलेश्या ॥ ३ ॥ ए तीनुं नीलाडे मस्तकें परिहरुं ॥

॥ ऋद्धिगारव ॥ १ ॥ रसगारव ॥ २ ॥ शाता गारव ॥३॥ ए तीनुं मुखें परिहरुं ॥

॥ मायाशल्य ॥ १ ॥ नियाणाशल्य ॥ २ ॥ मिछादंसणं-शल्य ॥ ३ ॥ ए तीन हीये परिहरुं ॥

॥ क्रोध ॥ १ ॥ मान ॥ २ ॥ ए दोय जिमणे खंन्ने परिहरुं ॥

॥ माया ॥ १ ॥ लोन्न ॥ २ ॥ ए दोय मावे खंन्ने परिहरुं ॥

॥ हास्य ॥ १ ॥ रति ॥ २ ॥ अरति ॥ ३ ॥ ए तीन मावे हाथे परिहरुं ॥

॥ न्नय ॥ १ ॥ शोक ॥ २ ॥ दुगंछा ॥ ३ ॥ ए तीन जिमणे हाथे परिहरुं ॥

पृथ्वीकाय ॥ १ ॥ अप्पकाय ॥ २ ॥ तेऊकाय ॥ ३ ॥ ए तीन मावे पगे परिहरुं ॥

॥ वाउकाय ॥ १ ॥ वनस्पतिकाय ॥ २ ॥ त्रसकाय ॥३॥ ए तीन जिमणे पगे परिहरुं ॥ इति मुहपत्ति पमिलेहणा संपूर्णा ॥५॥

॥ पीछैं खमा होय कें इछामि खमासमणका पाठ कहे कें इछाकारेण संदिस्सह न्नगवन् ॥ सामायिक संदिस्सावुं ? गुरु कहे संदिस्सावेह ॥ पीछैं इछं कहे कें फेर खमासमण दे कें इछा० ॥ न्न० ॥ सामायिक ठाउं ? गुरु कहे ठाएह ॥

॥ पीछैं इछं कही खमासमण देइ थोमो जुकी तीन नव-कार गणी इछाकारेण संदिस्सह न्नगवन् पसाउ करी सामायिक दंमक उच्चरावोजी ॥ गुरु कहे उच्चरावेमो ॥ पीछैं करेमि न्नंते सामाइयं इत्यादि सामायिक सूत्र तीन वार उच्चरे ॥

॥ अथ सामायिकनुं पच्चख्खाण ॥

॥ करेमि न्नंते सामाइयं, सावज्जं जोगं पच्चख्खामि ॥ जाव नियमं पज्जुवासामि ॥ दुविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं;

न करेमि, न कारवेमि, तस्स भंते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ इति ॥ ६ ॥

॥ पीछें खमासमण दे कें इच्छाकारेण संदिस्सह भगवन् इरियावहियं पडिक्कमामि॥ गुरु कहे पडिक्कमह. पीछें इच्छं कही ॥ इच्छामि पडिक्कमिउं इरियावहियाएइत्यादि पाठ कहे, सो लिखते हैं॥

॥ अथ इरियावहियं ॥

॥ इच्छाकारेण संदिस्सह भगवन् ॥ इरियावहियं पडिक्कमामि ॥ इच्छं इच्छामि पडिक्कमिउं ॥ १ ॥ इरियावहियाए विराहणाए ॥ २ ॥ गमणागमणे ॥ ३ ॥ पाणक्कमणे बीयक्कमणे हरियक्कमणे ॥ उसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मक्कड संताणा संकमणे ॥ ४ ॥ जे मे जीवा विराहिया ॥ ५ ॥ एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चउरिंदिया पंचिंदिया ॥ ६ ॥ अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संघट्टिया परियाविया ॥ किलामिया उद्दविया ठाणाउ ठाणं संकामिया जीवियाउ ववरोविया ॥ तस्समिच्छामि दुक्कडं ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ तस्स उत्तरी ॥

॥ तस्स उत्तरीकरणेणं ॥ पायच्छित्त करणेणं ॥ विसोहीकरणेणं ॥ विसल्लीकरणेणं ॥ पावाणं कम्माणं ॥ णिग्घायणट्ठाए ॥ ठामि काउस्सग्गं ॥ ८ ॥

॥ अथ अन्नत्थ उससिएणं ॥

॥ अन्नत्थ उससिएणं नीससिएणं खासिएणं छीएणं जंभाइएणं उड्डुएणं वायनिसग्गेणं भमलिए पित्तमुच्छाए ॥ १ ॥ सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं ॥ सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं ॥ सुहुमेहिं दिट्ठिसंचालेहिं ॥ २ ॥ एवमाइएहिं आगारेहिं ॥ अभग्गो अविराहिउ ॥ हुज्ज मे काउस्सग्गो ॥ ३ ॥ जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि ॥ ४ ॥ तावकायं ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं वोसिरामि ॥ ५ ॥ इति ॥ ९ ॥ इहां चार नवकार अथवा एक लोगस्सको काउसग्ग करे,

करे. पीछें णमो अरिहंताणं कहे कें काउस्सग्ग पारकें मुखसें प्रगट लोगस्स कहे, सो लिखते हैं ॥

॥ अथ लोगस्स ॥

॥ लोगस्स उज्जोअगरे ॥ धम्म तित्थयरे जिणे ॥ अरिहंते कित्तइस्सं ॥ चउवीसंपि केवली ॥ १ ॥ उसभ मजिअं च वंदे ॥ संभव मभिणं दणं च सुमइं च ॥ पउमप्पहं सुपासं ॥ जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥ २ ॥ सुविहिं च पुप्फदंतं ॥ सीअल सिज्जंस वासु पुज्जं च ॥ विमल मणंतं च जिणं ॥ धम्मं संतिं च वंदामि ॥ ३॥ कुंथुं अरं च मल्लिं ॥ वंदे मुणिसुव्वयं नमि जिणं च ॥ वंदामि रिठ नेमिं ॥ पासं तह वद्धमाणं च ॥ ४ ॥ एव मए अभिथुआ ॥ वि हुय रय मला पहीण जरमरणा ॥ चउवीसंपि जिणवरा ॥ तित्थय रामे पसीयंतु ॥ ५ ॥ कित्तिय वंदिय महिया ॥ जे ए लोगस्स उ त्तमा सिद्धा ॥ आरुग्ग बोहिलाभं ॥ समाहिवर मुत्तमं दिंतु ॥ ६॥ चंदेसु निम्मलयरा॥ आइच्चेसु अहियं पयासयरा ॥ सागरवरगंभीरा ॥ सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥ ७ ॥ सव्वलोए० ॥ इति ॥ १० ॥

॥ पीछें खमासमण देइ इच्छा० ॥ भगवन् बैसणो संदि स्सावुं ? गुरु कहे संदिस्सावेह ॥ पीछें इच्छं कहे कें वली खमा-समण दे कर ॥ इच्छा० ॥ भगवन् वेसणो ठाउं ? गुरु कहे ठाएह ॥ फेर इच्छं कहे कें खमासमण दे कर इच्छा० ॥ भ० ॥ सिज्झाय संदिस्सावुं ? गुरु कहे संदिस्सावेह ॥ पीछें इच्छं कहे के वली खमासमण दे कर इच्छा० ॥ भग० ॥ सिज्झाय करुं? गुरु कहे करेह ॥ फेर खमासमण दे कें इच्छा खडे हो कर आठ नवकार कह कर सज्झाय करे. तथा जो शीतकालादि होवे तो खमासमण दे कें इच्छा० ॥ भ० ॥ पांगरणो संदिस्सावुं ? गुरु कहे संदिस्सावेह ॥ पीछें इच्छं कह कर खमासमण दे कर इच्छा० ॥ भ० ॥ पांगरणो पडिग्गाहुं? गुरु कहे पडिग्गाहेह ॥ पीछें इच्छं क

भी वस्त्र ग्रहण करे तथा सामायिकवंत अथवा पोसासहित श्रावक वांदे तो "वंदामो" एसो कहे. और जो कोई दूसरो वांदे तो, सिझाय करेह. एसें कहे ॥ इति प्राभातिक सामायिक ॥

॥ अथ राइ प्रतिक्रमणविधि प्रारंभः ॥

॥ प्रथम एक खमासमण दे के इछा० ॥ भ० ॥ चैत्यवंदन करुं ? गुरु कहे करेह ॥ पीछें इछं कही जयउ सामि जयउ सामि इत्यादि कहे, सोही लिखते हैं ॥

॥ अथ सकलतीर्थंकरनमस्कारो लिख्यते ॥

॥ जयउ सामिय जयउ सामिय, रिसह सेत्तुंजि उजिंति ॥ ॥ पहु नेमिजिण, जयउ वीर सच्चउरिमंडण ॥ १ ॥ भरुअच्छेह मुणिसुव्वय, महुरिपास उह डुरिय खंमण ॥ अवरविदेहिंज तिछ-यर, चिहुंदिसि विदिसि जं केवि ॥ तीआणागय संपयं, वंडु जिण सवेवि ॥ २ ॥

॥ कम्मभूमिहिं कम्मभूमिहिं पढम संघयणि ॥ उक्कोसउ सत्त-रिसउ, जिणवराण विहरंत लप्पई ॥ नवकोडीहिं केवलिण, कोडि सहस्स नव साहु संपइ ॥ संपइ जिणवर वीस मुणि, बिहुं कोडीहिं चरनाण ॥ समणह कोडी सहस्स डुई, थुणिजइ निच्च विहाण ॥ १ ॥ सत्ताणवइ सहस्सा, लख्खा छप्पन्न अठ कोडीउ ॥ चउ-सय छायासीआ, तिल्लुक्के चेइए वंदे ॥ २ ॥ वंदे नव कोडि सयं, पणवीसं कोडि लख तेवन्ना ॥ अठवीस सहस्सा, चउसय अठा-सिया पडिमा ॥ ३ ॥ ११ ॥

॥ अथ जंकिंचि ॥

॥ जं किंचि नाम तिछं ॥ सग्गे पायाले माणुसे लोए जाइं जिणबिंबाइं ॥ ताइं सव्वाइं वंदामि ॥ १ ॥ इति ॥ १ इस के मस्तक सवस्त्र विराजे,

॥ अथ नमुत्थुणं वा शक्रस्तव ॥

नमुत्थुणं अरिहंताणं, भगवंताणं ॥ १

ञ्गराणं, सयं संबुद्धाणं ॥ २ ॥ पुरिसुत्तमाणं, पुरिससीहाणं, पुरिसवरपुंडरीआणं, पुरिसवरगंधहत्थीणं ॥ ३ ॥ लोगुत्तमाणं, लोगनाहाणं, लोगहिआणं, लोगपईवाणं, लोगपज्जोअगराणं ॥ ४ ॥ अभयदयाणं, चक्खुदयाणं ॥ मग्गदयाणं, सरणदयाणं, बोहिदयाणं ॥ ५ ॥ धम्मदयाणं, धम्मदेसियाणं ॥ धम्मनायगाणं, धम्मसारहीणं, धम्मवरचाउरंतचक्कवट्टीणं ॥ ६ ॥ अप्पडिहय वरनाणदंसण धराणं, विअट्ट छउमाणं ॥७॥ जिणाणं जावयाणं, तिन्नाणं तारयाणं, बुद्धाणं बोहयाणं, मुत्ताणं मोअगाणं ॥ ८ ॥ सव्वन्नूणं सव्वदरिसिणं, सिव मयल मरुअ मणंत मक्खय मव्वाबाह मपुणरावित्ति ॥ सिद्धि गइ नामधेयं ॥ ठाणं संपत्ताणं, नमो जिणाणं, जिअ भयाणं ॥ ए ॥ जेअ अईआ सिद्धा ॥ जेअ भविस्संति णागए काले ॥ संपइअवट्टमाणा ॥ सव्वे तिविहेण वंदामि ॥ १३ ॥

॥ अथ जावंति चेइआइं ॥

॥ जावंति चेइआइं ॥ उड्ढेअ अहेअ तिरिअ लोएअ ॥ सव्वाइं ताइं वंदे ॥ इहसंतो तत्थ संताइं ॥ १ ॥ इति ॥ १४ ॥

॥ अथ जावंत केवि साहू ॥

॥ भगवन् जावंत केवि साहू ॥ भरहेरवय महाविदेहे अ ॥ सव्वेसिं तेसिं पणउ ॥ तिविहेण तिदंड विरयाणं ॥१॥ इति ॥१५॥

॥ अथ परमेष्ठिनमस्कारः ॥

॥ नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यः ॥

॥ अथ उपसर्गहरस्तवनं ॥

॥ उवसग्गहरं पासं ॥ पासं वंदामि कम्मघणमुक्कं ॥ विसहर विसनिन्नासं ॥ मंगलकल्लाणआवासं ॥ १ ॥ विसहरफुलिंगमंतं कंठे धारेइ जो सया मणुओ ॥ तस्स गहरोगमारी ॥ [illegible] जरा जंति उवसामं ॥ २ ॥ चिट्ठउ दूरे मंतो ॥ तुज्झ पणामो [illegible] नरतिरिएसुवि जीवा ॥ पावंति न दुक्ख

॥३॥ तुह सम्मत्ते लद्धे ॥ चिंतामणि कप्पपायवब्भहिए ॥ पावंति अविग्घेणं ॥ जीवा अयरामरं ठाणं ॥ ४ ॥ इअ संथुओ महायस ॥ भत्तिब्भरनिब्भरेण हिअएण ॥ ता देव दिज्ज बोहिं ॥ भवे भवे पासजिणचंद ॥ ५ ॥ इति ॥ १६ ॥

॥ अथ जयवीअराय ॥

॥ जय वीअराय जगगुरु ॥ होउ ममं तुह पभावओ भयवं॥ भवनिव्वेओ मग्गा, णुसारिआ इट्ठ फलसिद्धी॥ १ ॥ लोगविरुद्धच्चाओ ॥ गुरुजणपूआ परत्थकरणं च ॥ सुहगुरुजोगोतव्वय, ण सेवणा आभव मखंडा ॥ २ ॥ १७ ॥

॥ इत्यादि जयवीयराय पर्यंत चैत्यवंदन करे ॥ पीछैं खमासमण दे कैं इच्छा० ॥ भ० ॥ कुसुमिणदुसुमिण राई पायच्छित्त विसोहणत्थं काउस्सग्ग करुं ? गुरु कहे करेह पीछैं इच्छं कह कर कुसुमिण दुसुमिण राई पायच्छित विसोहणत्थं करेमि काउस्सग्गं ॥ अन्नत्थ ऊससिएणं ॥ इत्यादि पाठ कहे कैं सोले नवकार अथवा चार लोगस्सका चंदेसु निम्मलयरा पर्यंत चिंतन कर कैं काउस्सग्ग करे ॥ पीछैं णमो अरिहंताणं कह कर काउस्सग्ग पारीकैं मुखसैं एक लोगस्सका पाठ प्रगट कहे, जो रात्रिमैं गुण संबंधि मोटको दूषण लागो होवे तो काउस्सग्गमांहे ॥ सागर वरगंभीरा ॥ पर्यंत चिंतवे ॥ इति संप्रदाय ॥

॥ अब पडिक्कमणां ठायवेका अवसर हुवा ॥ जब खमासमण देइ श्रीआचार्यजी मिश्र कहि कैं वांदियैं ॥ १ ॥ खमासमण देइ श्रीउपाध्यायजी मिश्र कहिके वांदिये ॥ २ ॥ खमासमण देइ जंगम युगप्रधान वर्त्तमान भट्टारक श्रीपूज्यजीका नाम ले कैं वांदियैं ॥ ३ ॥ खमासमण देइ कैं सर्व साधुजीकुं वांदियैं ॥ ४ ॥ इस चार खमासमणासैं पडिक्कमणां ठावी गोडालीयैं बैठ कैं मस्तक नाय कर दोनुं हाथे मुहपत्ती मुहके दे कर ॥ सवस्सविराइहे,

॥ इत्यादि पाठ कहे. परंतु इच्छाकारेणसंदिस्सह इच्छं इस माफक न कहे ॥

॥ अथ सव्वस्सवि ॥

॥ सव्वस्सवि देवसिअ डुचिंतिअ डुप्भासिय दुच्चिठिअ इच्छा कारेण संदिस्सह भगवन् इच्छं० ॥ तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ इति ॥ १८ ॥ सवेरका देवसिके ठिकाने राइयं ऐसा पाठ कहे ॥

॥ पीछैं नमुत्थुणं कह कें खडा होय कें ॥ करेमि भंते सामाइयं सावज्जं जोगं पच्चक्खामि ॥ इत्यादिक पाठ कहे ॥ पीछैं इच्छामि काउस्सग्गं जो मे राइउ० ॥ यह पाठ कहे ॥ सो लिखतें हैं ॥

॥ अथ इच्छामिठामि ॥

॥ इच्छामि ठामि काउस्सग्गं ॥ जो मे देवसिउ अइआरो कउ ॥ काइउ वाइउ माणसिउ ॥ उस्सुत्तो उम्मग्गो अकप्पो ॥ अकरणिज्जो ॥ डुज्झाउ ॥ दुव्विचिंतिउ अणायारो ॥ अणिच्छिअव्वो ॥ असावगपाउग्गो ॥ नाणे तह दंसणे चरित्ताचरित्ते ॥ सुए सामाइए ॥ तिन्हं गुत्तीणं ॥ चउन्हं कसायाणं ॥ पंचन्हमणुव्वयाणं ॥ तिन्हं गुणव्वयाणं ॥ चउन्हं सिक्खावयाणं ॥ बारसवियस्स सावगधम्मस्स ॥ जं खंम्डिअं जं विराहिअं ॥ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ॥ इति ॥ इहां देवसियंके ठिकानें राइयं कहेनां ॥ इति ॥ १९ ॥

॥ पीछैं तस्सउत्तरी० ॥ अन्नड उससिएणं कह कर चारित्रशुद्धि निमित्त चार नवकार अथवा एक लोगस्सका काउस्सग्ग करी पारि कें दर्शन शुद्धि निमित्ते प्रगट लोगस्स कही सव्वलोए अरिहंत चेइआणं ॥ करेमि काउस्सग्गं वंदण वत्तिआए ॥ इत्यादि कहना सो लिखते हैं ॥

॥ अथ वंदणवत्तिआए ॥

॥ वंदणवत्तिआए, पूअण वत्तिआए ॥ सक्कार वत्तिआए, सम्माणवत्तिआए ॥ बोहिलाभ वत्तिआए ॥ निरुवसग्ग वत्तिआए

॥ १ ॥ सद्धाए मेहाए धीईए ॥ धारणाए अणुप्पेहाए ॥ वढमाणी ए गमि काउस्सग्गं ॥ २ ॥ इति ॥ २० ॥

पीछैं अन्नछ० कही चार नवकार अथवा एक लोगस्सका काउस्सग्ग करकें पारकें ज्ञानाचार शुद्धि निमित्त पुस्करवरदी० ॥ सुयस्स भगवउ करेमि काउस्सग्गं ॥ इत्यादि पाठ कहे, सो लिखते हैं ॥

॥ अथ पुस्करवरदी ॥

॥ पुस्करवरदीवढे, धायइसंडे अ जंबुदीवेअ ॥ भरहे रवय विदेहे, धम्माइगरे नमंसामि ॥ १ ॥ तमतिमिरपडलविद्धं, सणस्स सुरगणनरिंदमहिअस्स ॥ सीमाधरस्स वंदे, पप्फोडिअ मोहजाल स्स ॥ २ ॥ जाई जरामरण सोगपणासणस्स, कल्लाण पुरकलवि सालसुहावहस्स ॥ को देवदाणव नरिंदगणच्चिअस्स, धम्मस्स सार मुवलप्र करे पमायं ॥ ३ ॥ सिद्धेभो पयउ णमो जिणमए, नंदी सया संजमे ॥ देवं नाग सुवन्न किन्नर गण, स्सब्भूअ भावच्चिए ॥ लोगो जन्न पइठिउ जगमिणं, तेलुक्कमच्चा सुरं ॥ धम्मो वढउ सा सउ विजयउ, धम्मुत्तरं वढउ ॥ ४ ॥ इति ॥ २१ ॥ सुअस्स भ गवउ करेमि काउस्सग्गं वंदणवत्तिआए० ॥ ए पाठ पूर्ण कह कर अन्नथूससिएणं कह कें आठ नवकार अथवा दो लोगस्सका काउ स्सग्ग करे. काउस्सग्गके मांहे आजुणा चार प्रहर चिंतवे. सो आ गें लिखेंगे. पीछैं सिद्धाणं बुद्धाणंका पाठ कहे, सो लिखते हैं ॥

॥ अथ सिद्धाणं बुद्धाणं ॥

॥ सिद्धाणं बुद्धाणं, पारगयाणं परंपरगयाणं ॥ लोअग्ग मु-वगयाणं, नमो सया सवसिद्धाणं ॥ १ ॥ जो देवाणवि देवो, जं देवा पंजली नमं संति ॥ तं देव देव महिअं, सिरसा वंदे महावी रं ॥ २ ॥ इक्कोवि नमुक्कारो, जिणवरवसहस्स वद्धमाणस्स ॥ सं सारसागराउ तारेइ नरं व नारिं वा ॥ ३ ॥ उज्जिंत सेल सिहरे,

दिरका नाणं निसीहिआ जस्स ॥ तं धम्मचक्कवट्टिं, अरिठ नेमिं न मंसामि ॥ ४ ॥ चत्तारि अठ दस दो, यवंदिया जिणवरा चउवीसं ॥ परमठ निठिअठा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥ ५ ॥ इति ॥ १२ ॥

॥ अथ वेयावच्चगराणं ॥

॥ वेयावच्चगराणं संतिगराणं ॥ सम्मदिठि समाहिगराणं ॥ इति ॥ करेमि काउस्सग्गं ॥ अन्नठ० ॥ इति ॥ १३ ॥

॥ पीछें संडासा प्रमार्जन पूर्वक बेठ कें तीसरे आवस्सग सूत्र वादणां निमित्तें मुहपत्ती पडिलेहुं ? गुरु कहे पडिलेह ॥ मुहपत्ती पडिलेहे. पीछें वांदणां दे. तिनका विधि कहते हैं ॥

॥ अवग्रहके बाहिर उना हुआ आधा नीचा नम कर इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावणिज्जाए निसीहिआए अणुजाणह मे मिउग्गहं. इतना पाठ कह कर नूमि प्रमार्जन करता हुआ निसीहि कह कें कछुक अवग्रहमें प्रवेश कर कें संडासा प्रमार्जन कर कें उकडू बेठ के डावे हाथमें मुहपत्ती ले कें डावे कानसें ले कें जिमणा कान पर्यंत निलाड पूंजी, मुहपत्ती आगें रख कें तिसके मध्य नागमें गुरुचरणकी कल्पना कर कें ॥ अहो कायं इत्यादि आवर्त्त कर कें कछुक नीचा नम कर मस्तकें अंजलि कर कें गुरु सन्मुख दृष्टि स्थापन कर कें ॥ खमणिज्जो ने किलामो ॥ इत्यादि पाठ कहे. पीछें फेर ॥ जत्ता ने ॥ इत्यादि आवर्तन कर कें खडा होकें पीछें पगसें नूमि पूंजता हुआ अवग्रहसें बाहिर निकल कें स्वस्थान पर आवे. जहां आवस्सियाए ॥ इत्यादि पाठ सर्व कहे, सो लिखते हैं ॥

॥ अथ सुगुरुवांदणां ॥

॥ इच्छामि खमासमणो वंदिउं, जावणिज्जाए निसीहिआए ॥ अणुजाणह मे मिउग्गहं निसीहि ॥ अहो कायं काय संफासं, खमणिज्जो ने किलामो ॥ अप्पकिलंताणं बहु सुनेण ने, दिवसो

वइक्कंतो जत्ता मे जवणिज्जं च मे, खामेमि खमासमणो ॥ देवसिअं वइक्कम्मं आवसिआए, पडिक्कमामि खमासमणाणं ॥ देवसिआए, आसायणाए ॥ तित्तीसन्नयराए जं किंचि मिच्छाए, मणडुक्कडाए, वयडुक्कडाए कायडुक्कडाए कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सव्वकालिआए, सव्व मिच्छोवयाराए, सव्वधम्माइक्कमणाए ॥ आसायणाए जो मे अइआरो कउ, तस्स खमासमणो पडिक्कमामि ॥ निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ १ ॥ दूजी वारके वांदणें आवसिआए ए पद न कहेना, अने राइयें राइउ वइक्कंतो, तथा चउमासीयें चउमासीउ वइक्कंतो, पक्खीयें पक्खो वइक्कंतो, संवच्छरीयेसंवच्छरीउ वइक्कंतो ॥ एसीतरेंपाठकहेनां ॥ इति ॥ २४ ॥

॥ अथ देवसियं आलोउं ॥

॥ इच्छाकारेण संदिस्सह भगवन् देवसियं आलोउं इच्छं ॥ आलोएमि, जो मे० ॥ इति ॥ २५ ॥ देवसियंके ठिकाने राइयं कहेनां ॥

॥ पीछें रात्रि संबंधि अतिचार गुरु समक्ष आलोवे; सो कहेते हैं ॥

॥ अथ आलोयण लिख्यते ॥

॥ आजुणा चार प्रहर दिवसमें जे में जीव विराध्या होय ॥ सात लाख पृथिवीकाय ॥ सात लाख अप्पकाय ॥ सात लाख तेउकाय ॥ सात लाख वाउकाय ॥ दश लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय ॥ चउदे लाख साधारण वनस्पतिकाय ॥ दोय लाख बेइंद्रियं ॥ दोय लाख तेंद्रिय ॥ दोय लाख चौरिंद्रिय ॥ चार लाख देवता ॥ चार लाख नारकी ॥ चार लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय ॥ चउदे लाख मनुष्य ॥ एवं चार गतिके चौराशी लाख जीवायोनिमें, माहारे जीवें जे कोइ जीव हण्यो होय, हणाव्यो होय, हणतां प्रत्यें भलो जाण्यो होय, ते सवे हुं मन वचन कायायें करी मिच्छा मि डुक्कडं ॥ इति ॥ २६ ॥

॥ अथ अढारे पापस्थानक आलोउं ॥

॥ प्राणातिपात ॥ १ ॥ मृषावाद ॥ २ ॥ अदत्तादान ॥३॥ मैथुन ॥ ४ ॥ परिग्रह ॥ ५ ॥ क्रोध ॥ ६ ॥ मान ॥ ७ ॥ माया ॥ ८ ॥ लोभ ॥ ए ॥ राग ॥ १० ॥ द्वेष ॥ ११ ॥ कलह ॥ १२ ॥ अभ्याख्यान ॥ १३ ॥ पैशुन्य ॥ १४ ॥ रति ॥ अरति ॥१५॥ परपरिवाद ॥ १६ ॥ मायामृषावाद ॥ १७ ॥ मिथ्यात्वशल्य ॥ १८ ॥ ए अढारे पापस्थानक सेव्यां होय, सेवराव्यां होय, सेवना प्रत्यें भलां जाण्यां होय, ते सवे हुं मनें, वचनें, कायायें करी तस्स मिछा मि डुक्कडं ॥

॥ ज्ञान, दर्शन, चारित्र, पाटी, पोथी, ठवणी, कवली, नवकरवाली, देव गुरु धर्मकी आशातना करी होय ॥ पन्नरे कर्मादानोकी आसेवना करी होय ॥ राजकथा, देशकथा, स्त्रीकथा, भक्तकथा करी होय. और जो कोई पाप पर निंदा कीधुं होय, कराव्युं होय, करतां अनुमोद्युं होय सो सर्व मन वचन, कायायें करकें, दिवस अतिचार आलोयणे कर कें पडिक्कमणामे आलोउं ॥ तस्स मिछा मि डुक्कडं ॥ इति आलोयणं ॥ इहां प्रभातके पडिक्कमणेमें दिवसके ठिकाने रात्रिका पाठ कहेना ॥ इति ॥ २८ ॥

॥ पीछें सवस्सवि राइयं ॥ इत्यादि पाठ कहे. तिहां इछाका० ॥ भ० ए पद कहनेसें आलोया हुआ अतिचारका प्रायश्चित मागे ॥ गुरु कहे पडिक्कमह ॥ पीछें इछं तस्स मिछामि डुक्कडं कह कें संडासा प्रमार्जन कर कें आसन पर बैठे कें जिमणा गोडा ऊंचा रख कें डावा गोडा नीचें कर कें ऐसें कहे कि भगवन्! सूत्र भणुं? तव गुरु कहे भणेह ॥ पीछें इछं कहि कें तीन नवकार अरु तीन वार करेमि भंते ॥ भण कें इछामि पडिक्कमिउं जो मे रा० इत्यादि कह कर ॥ तं निंदे तंच गरिहामि

पर्यंत वंदिता सूत्र कहे. सो लिखते हैं ॥ पीछैं खमा हो कें अभुठि ओमि आराहणाए इत्यादि संपूर्ण कहे, सो लिखते हैं ॥

॥ अथ श्रावक वंदितासूत्र ॥

॥ वंदित्तु सव्व सिद्धे, धम्मायरिए अ सव्वसाहू अ ॥ इछामि पडिक्कमिउं, सावगधम्माइआरस्स ॥ १ ॥ जो मे वयाइआरो, नाणे तह दंसणे चरित्ते अ ॥ सुहुमो अ बायरो वा, तं निंदे तं च गरिहामि ॥ २ ॥ डुविहे परिग्गहंमि, सावज्जे बहुविहे अ आरंभे ॥ कारावणे अ करणे, पडिक्कमे देवसियं सव्वं ॥ ३ ॥ जं बद्धमिंदिएहिं, चउहिं कसाएहिं अप्पसत्थेहिं ॥ रागेण व दोसेण व, तं निंदे तं च गरिहामि ॥ ४ ॥ आगमणे निग्गमणे, ठाणे चंकमणे अणाभोगे ॥अभिओगे अ निओगे, पडिक्कमे० ॥ ५ ॥ संका कंख विगिंछा, पसंस तह संथवोकुलिंगीसु ॥ सम्मत्तस्स इआरे, पडिक्कमे० ॥ ६ ॥ छक्काय समारंभे, पयणे अ पयावणे अ जे दोसा ॥ अत्तठाय परठा, उभयठा चेव तं निंदे ॥ ७ ॥ पंचण्हमणुव्वयाणं, गुणव्वयाणं च तिण्ह मइयारे ॥ सिक्खाणं च चउण्हं, पडिक्कमे० ॥ ८ ॥ पढमे अणुव्वयंमि, थूलग पाणाइवाय विरईओ ॥ आयरिअ मप्पसत्थे, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ ९ ॥ वह बंध छविछेए, अइ भारे भत्त पाण वुछेए ॥ पढमं वयस्स इआरे, पडिक्कमे० ॥ १० ॥ बीए अणुव्वयंमि, परिथुलगअलिअ वयण विरईओ ॥ आयारिअमप्पसत्थे, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ ११ ॥ सहसा रहस्स दारे, मोसुवएसे अ कूडलेहे अ ॥ बीयं वयस्स इआरे, पडिक्कमे० ॥ १२ ॥ तइए अणुव्वयंमि, थूलग परदव्वहरण विरईओ ॥ आयरिअ मप्पसत्थे, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ १३ ॥ तेनाहडप्पओगे, तप्पडिरूवे विरुद्ध गमणे अ ॥ कूडतुल कूडमाणे, पडिक्कमे० ॥ १४ ॥ चउत्थे अणुव्वयंमि, निच्चं परदारगमण विरईओ ॥ आयरिअ मप्पसत्थे, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ १५ ॥ अपरिग्गहिआ इत्तर, अणंग वीवाह तिव्व

अणुरागे ॥ चनत्थ वयस्स इआरे, पमिक्कमे० ॥ १६ ॥ इत्तो अणुव्वए पं, चमंमि आयरिअ मप्पसत्थंमि ॥ परिमाण परिच्छेए, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ १७ ॥ धण धन्न खित्त वत्थू, रुप्प सुवन्ने अ कुविअ परिमाणे ॥ डुपए चनप्पयंमि, पमिक्कमे० ॥ १८ ॥ गमणस्स य परिमाणे, दिसासु उट्टं अहेअ तिरिअं च ॥ वुम्हिसइअंतरद्धा, पढमंमि गुणव्वए निंदे ॥ १९ ॥ मज्जंमि अ मंसंमि अ, पुप्फे अ फले अ गंधमल्ले अ ॥ उवन्नोग परिन्नोगे, बीयंमि गुणव्वए निंदे ॥ २० ॥ सच्चित्ते पमिवद्धे ॥ अपोल डुप्पोलिअं च आहारे ॥ तुच्छोसहि जरकणया, पमिक्कमे० ॥ २१ ॥ इंगाली वणसाम्ही, न्नाम्ही फोम्ही सुवज्जए कम्मं ॥ वाणिज्जं चेव दं, त लख रस केस विसविसयं ॥ २२ ॥ एवं खु जंतपिल्लण, कम्मं निल्लंछणं च दवदाणं ॥ सरदह तलाव सोसं, असई पोसंच वज्जिज्जा ॥ २३ ॥ सत्थग्गि मसल जंतग, तण कठे मंत मूल न्नेसज्जे ॥ दिन्ने दवाविएवा, पमिक्कमे० ॥ २४ ॥ न्हाणू वट्टण वन्नग, विलेवणे सद्दरूव रसगंधे ॥ वत्थासण आन्नरणे, पमिक्कमे०॥ २५ ॥ कंदप्पे कुक्कुइए, मोहरि अहिगरण न्नोग अइरित्ते ॥ दंमंमि अणठाए, तइयंमि गुणव्वए निंदे ॥ २६ ॥ तिविहे डुप्पणिहाणे, अणवठाणे तहा सइ विहुणे, ॥ सामाइअ वितहकए, पढमे सिक्खावए निंदे ॥ २७ ॥ आणवणे पेसवणे, सद्दे रूवे अ पुग्गलखेवे ॥ देसावगा सियंमि, बीए सिक्खावए निंदे ॥ २८ ॥ संथा रुच्चारविही, पमाय तह चेव न्नोयणान्नोए ॥ पोसह विहि विवरीए, तइए सिक्खावए निंदे ॥ २९ ॥ सच्चित्ते निक्खिवणे, पिहिणे ववएस मत्सरे चेव ॥ कालाइक्कम दाणे, चनत्थे सिक्खावए निंदे ॥ ३० ॥ सुहिए अ डुहिए सुअ, जामे असंजएस अणुकंपा ॥ रागेणव दोसेणव, तंनिंदे तं च गरिहामि ॥ ३१ ॥ साहूसु संविन्नागो, न कन्न तव चरण करण जुत्तेसु ॥ संते फासु अ दाणे

तं निंदे तं च गरिहामि ॥३२॥ इहलोए परलोए, जीविअ मरणे अ आसंस पओगे ॥ पंचविहो अइआरो, मा मझ हुज्ज मरणंते ॥३३॥ काएण काइअस्स, पडिक्कमे वाइअस्स वायाए ॥ मणसा माणसिअस्स, सव्वस्स वयाइआरस्स ॥ ३४ ॥ वंदणवय सिक्खागा, रवेसु सन्ना कसाय दंडेसु ॥ गुत्तीसु अ समिईसु अ, जो अइआरो अ तं निंदे ॥ ३५ ॥ सम्मद्दिठि जीवो, जइ विहुपावं समायरे किंचि ॥ अप्पोसि होइ बंधो, जेण न निद्धंधसं कुणइ ॥ ३६ ॥ तं पिहुसपडिक्कमणं, सप्परिआवं सउत्तरगुणं च ॥ खिप्पं उवसामेइ, वाहिव सुसिक्खिउ विज्जो ॥ ३७ ॥ जहा विसं कुठगयं, मंत मूल विसारया ॥ विज्जा हणंति मंतेहिं, तो तं हवइ निव्विसं ॥ ३८ ॥ एवं अठविहं कम्मं, राग दोस समज्जिअं ॥ आलोयंतो अ निंदतो, खिप्पं हणइ सुसावउ ॥ ३९ ॥ कय पावोवि मणुस्सो, आलोइअ निंदिय गुरुसगासे ॥ होइ अइरेग लहुउ, उहरिअ भरुव्व भारवहो ॥ ४० ॥ आवस्स एण एएण, सावउ जइवि बहुरउ होइ ॥ दुक्खाण मंत किरिअं, काही अचिरेण कालेण ॥ ४१ ॥ आलोअणा बहुविहा, नयसंभरिआ पडिक्कमणकाले ॥ मूल गुण उत्तरगुणे, तं निंदे तं च गरिहामि ॥ ४२ ॥ तस्स धम्मस्स केवलि पन्नत्तस्स ॥ अब्भुठिउमि आरा, हणाए विरउमि विराहणाए ॥ तिविहेण पडिक्कंतो, वंदामि जिणे चउवीसं ॥ ४३ ॥ जावंति चेइआइं० ॥ ४४ ॥ जावंत केवि साहू० ॥ ४५ ॥ चिर संचिय पाव पणासणीइ, भवसयसहस्स महणीए ॥ चउवीस जिण विणिग्गय कहाइं, वोलंतु मे दिअहा ॥ ४६ ॥ मम मंगल मरिहंता, सिद्धा साहु सुअं च धम्मो अ ॥ सम्मद्दिठी देवा, दिंतु समाहिं च बोहिं च ॥ ४७ ॥ पडिसिद्धाणं करणे, किच्चाण मकरणे पडिक्कमणे ॥ असद्दहणे अ तहा, विवरीय परूवणाए अ ॥ ४८ ॥ खामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु मे ॥ मित्तीमे सव्व भूएसु, वेरं

मज्ज न केणइ ॥ ४९ ॥ एव मइं आलोइअ, निंदिअ गरहिअ डुगं-छिअं सम्मं ॥ तिविहेण पडिक्कंतो, वंदामि जिणे चउव्वीसं ॥ ५० ॥ इति ॥१५॥ इहां प्रभातके पडिक्कमणमें देवसिके ठीकाने राइयं कहना ॥

॥ पीछें दो वादणां देकर अवग्रहमांहिथकोज कहे ॥ इछा-का० ॥ सं० ॥ भ० ॥ अप्नुठिउमि अप्निंतर ॥ राइयं खामेमि ? गुरु कहे खामेह ॥ संडासा प्रमार्जन पूर्वक गोडाली वैठ के, बे बांह पडिलेहि ॥ मुहपत्ती वामहाथसूं मुखें देई, दक्षिण हाथ गुरु सामो करी ॥ नीचो नम्यो थको जंकिंचि अप्पत्तियं ॥ इत्यादि संपूर्ण कहे ॥

॥ अथ अप्नुठिउ ॥

॥ इछाकारेण संदिस्सह भगवन् अप्नुठिउमि अप्निंतर देव-सिअ खामेउं ॥ इछं खामेमि देवसियं जंकिंचि अप्पत्तियं भत्ते पाणे विणए वेआवच्चे आलावे संलावे उच्चासणे ॥ समासणे अंतर भासाए उवरिभासाए ॥ जं किंचि ॥ मज्ज विणय परिहीणं सुहु-मंवा वायरं वा ॥ तुप्ने जाणह अहं न जाणामि ॥ तस्स मिछामि डुक्कडं ॥ इति ॥

॥ इहां गुरु पण मिछामि डुक्कडं कहे. पीछें बे वांदणां देई भूमि प्रमार्जन करता हुआ पगसें अवग्रह बाहिर आय कें आयं-रिय उवज्जाए इत्यादि तीन गाथा कहे, सो लिखते हैं ॥

॥ अथ आयरिय उवज्जाए ॥

॥ आयरिअ उवज्जाए, सीसे साहम्मीए कुलगणे अ ॥ जे मे कया कसाया, सवे तिविहेण खामेमि ॥ १ ॥ सवस्स समण संघस्स, भगवउ अंजलिं करिअ सीसे ॥ सवं खमावइत्ता, खमामि सवस्स अहयंपि ॥ २ ॥ सवस्स जीवरासिस्स, भावउ धम्मो निहिअ निअ चित्तो ॥ सवं खमावइत्ता, खमामि सवस्स अहयंपि ॥ ३ ॥

पीछें करेमि भंते इछामि ठामि काउस्सग्गं तस्सुत्तरी० ॥ श्रीमहावीर स्वामी छमासि तप चिंतवणा निमित्तं करेमि काउस्सग्गं अन्नत्थू० ॥ कहि कें काउस्सग्ग करे, काउस्सग्गमें श्रीवीरकृत छम्मासी तप चिंतवन करे ॥ चोवीश नवकार अथवा छ लोगस्सका काउस्सग्ग करे, काउस्सग्ग पारिकें प्रगट लोगस्स कहे ॥ ॥ छठे आवश्यककी मुहपत्ती पडिलेहुं ? गुरु कहे पडिलेह ॥ मुहपत्ती पडिलेही वे वांदणां देई सकल तीर्थनाम लइ नमस्कार करे, सो लिखे हैं.

॥ अथ सकल तीर्थ नमस्कार ॥

॥ स्रग्धरा वृत्तम् ॥

॥ सद्भक्त्या देवलोके रविशशिभवने, व्यंतराणां निकाये, नक्षत्राणां निवासे ग्रहगणपटले तारकाणां विमाने ॥ पाताले पन्नगेंद्रे स्फुटमणिकिरणे ध्वस्तसांद्रांधकारे, श्रीमत्तीर्थंकराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि वंदे ॥ १ ॥ वैताढ्ये मेरुशृंगे रुचकगिरिवरे कुंडले हस्तिदंते, वस्कारे कूटनंदीश्वरकनकगिरौ नैषधे नीलवंते ॥ शैले चैत्रे विचित्रे यमकगिरिवरे चक्रवाले हिमाद्रौ ॥ श्रीम० ॥ २ ॥ श्रीशैले विंध्यशृंगे विमलगिरिवरे ह्यर्बुदे पावके वा, सम्मेते तारके वा कुलगिरिशिखरेऽष्टापदे स्वर्णशैले ॥ सह्याद्रौ वैजयंते विमलगिरिवरे गुर्जरे रोहणाद्रौ ॥ श्रीम० ॥ ३ ॥ आघाटे मेदपाटे क्षितितटमुकुटे चित्रकूटे त्रिकूटे, लाटे नाटे च घाटे विटपिघनतटे हेमकूटे विराटे ॥ कर्णाटे हेमकूटे विकटतरकटे चक्रकूटे च भोटे ॥ श्री० ॥ ४ ॥ श्रीमाले मालवे वा मलयिनि निषधे मेखले पिछले वा, नेपाले नाहले वा कुवलयतिलके सिंहले केरले वा ॥ डाहाले कोशले वा विगलितसलिले जंगले वा ढमाले ॥ श्रीम० ॥ ५ ॥ अंगे वंगे कलिंगे सुगतजनपदे सत्प्रयागे तिलंगे, गौडे चौडे मुरंडे वरतरद्रविडे उद्रियाणे च पौंडू ॥ आर्द्रे माद्रे पुलिंद्रे द्रविडकवलये,

कान्यकुब्जेसुराष्ट्रे ॥ श्री० ॥ ६ ॥ चंदायां चंद्रमुख्या गजपुरमथुरापत्तने चोज्जयिन्यां, कौशांब्यां कोशलाया कनकपुरवरे देवगिर्यां च काश्यां ॥ रासक्ये राजगेहे दशपुरनगरे भद्दिले ताम्रलिप्यां ॥ श्री० ॥ ७ ॥ स्वर्गे मर्त्येऽतरिक्षे गिरिशिखरह्रदे स्वर्णदीनीरतीरे, शैलाग्रे नागलोके जलनिधिपुलिने भूरुहाणां निकुंजे ॥ ग्रामेऽरण्ये वने वा स्थलजलविषमे दुर्गमध्ये त्रिसंध्यं ॥ श्रीम० ॥ ८ ॥ "श्रीमन्मेरौ कुलाद्रौ रुचकनगवरे शाल्मलौ जंबुवृक्षे, चौज्जन्ये चैत्यनंदे रतिकररुचके कौंडले मानुषांके ॥ इक्षुकारे जिनाद्रौ च दधिमुखगिरौ व्यंतरे स्वर्गलोके, ज्योतिर्लोके भवंति त्रिभुवनवलये यानि चैत्यालयानि" ॥ ९ ॥ इत्थं श्रीजैनचैत्यस्तवनमनुदिनं ये पठंति प्रवीणाः, प्रोद्यत्कल्याणहेतुं कलिमलहरणं भक्तिभाजस्त्रिसंध्यम् ॥ तेषां श्रीतीर्थयात्राफलमतुलमलं जायते मानवानां, कार्याणां सिद्धिरुच्चैः प्रमुदितमनसां चित्तमानंदकारि ॥ १० ॥ इति चैत्यवंदनं संपूर्णम् ॥ इति ॥ २२ ॥

पीछें गुरुमुखें पच्चरकाण करि कें ॥ इच्छामोनि सट्ठियं कहि कें गुरु एक गाथाकी स्तुति कहे.

॥ पीछेंणमो खमासमणाणं णमोऽर्हत्सि० ॥ कह कर. परसमय तिमिरतरणिं ए तीन गाथा कहीजें सो लिखते हैं ॥

॥ अथ परसमय तिमिरतरणिं ॥

॥ परसमय तिमिरतरणिं, भवसागर वारि तरण वरतरणिं ॥ रागपराग समीरं, वंदे देवं महावीरम् ॥ १ ॥ निरुद्ध संसार विहारकारि, दुरन्तभावारिगणा निकामं ॥ निरन्तरं केवलिसत्तमा वो, भवावहं मोहभरं हरंतु ॥ २ ॥ संदेहकारिकुनयागमरूढगूढ, संमोहपंकहरणामलवारिपूरम् ॥ संसारसागरसमुत्तरणोरुनावं, वीरागमं परमसिद्धिकरं नमामि ॥ ३ ॥ परिमलभरलोभालीढलोलालिमाला, वरकमलनिवासे हारनीहारहासे ॥ अविरलभवविकारागार

विच्छित्तिकारं, कुरु कमलकरं मे मङ्गलं देविसारम् ॥ ४ ॥ इति ॥ २३ ॥ अथवा संसारदावानी तीन गाथा कहेवे, सो लिखते हैं ॥

॥ अथ संसारदावा स्तुति ॥

॥ संसारदावानलदाहनीरं, संमोहधूलीहरणे समीरम् ॥ माया रसादारणसारसीरं, नमामि वीरं गिरिसारधीरम् ॥ १ ॥ भावावनाम सुरदानवमानवेन, चूलाविलोलकमलावलिमालितानि ॥ संपूरिताभिनतलोकसमीहितानि, कामं नमामि जिनराजपदानि तानि ॥ २ ॥ बोधागाधं सुपद पदवी नीरपूराभिरामं, जीवाहिंसाविरललहरीसंगमागाहदेहम् ॥ चूलावेलं गुरु गममणी संकुलं दूरपारं, सारं वीरागमजलनिधिं सादरं साधु सेवे॥ ३॥ आमूला लोलधूली बहुल परिमला लीढलोलालिमाला. झंकारा रावसारा मलदलकमलागारभूमीनिवासे ॥ छायासंभारसारे वरकमलकरे तारहाराभिरामे, वाणीसंदोहदेहे भवविरहवरं देहि मे देवि सारम् ॥ ४ ॥ इति ॥ २४ ॥

॥ इत्यादि तीन गाथा भणी, शक्रस्तव कहे. पीछैं खमा हो कर अरिहंत चेइयाणं करेमि काउस्सग्गं ॥ वंदणवत्तिआए० अन्नत्थू० ॥ इत्यादि पाठ कहि कें ॥

॥ काउस्सग्गमांहे एक नवकार चिंतवी ॥ एक श्रावक प्रथम काउस्सग्ग पारी नमोऽर्हत्सिद्धा० कही ॥ एक गाथा स्तुति कहे, सो लिखते हैं ॥

॥ अश्वसेन नरेसर, वामादेवी नंद ॥ नव कर तनु निरुपम, नील वरण सुखकंद ॥ अहि लंछण सेवित, पउमावइ धरणिंद ॥ प्रह ऊठी प्रणमूं, नित प्रति पास जिणंद ॥ १ ॥ ए गाथा एक जण कहे ॥ दूसरे सब काउस्सग्गमांहे रह्या हुआ सुणे ॥ पीछैं णमो अरिहंताणं कहि कें काउस्सग्ग पारे ॥ इस तरे आगें पण जाणणां ॥ पीछैं लोगस्स कहे ॥ सवलोए अरिहंत चेईआणं वंदण

वत्ति० ॥ अन्नत्थू० ॥ इत्यादि कहि कें ॥ एक नवकारका काउस्सग्ग करी पारि कें दूजी स्तुति कहे, सो लिखते हैं ॥

॥ कुल गिरिवेयड्ड, कणयाचल अभिराम ॥ मानुषोत्तर नंदी, रुचक कुंडल सुखगाम ॥ भुवणेसुर व्यंतर, जोइस विमाणी नाम ॥ वर्त्ते ते जिणवर, पूरो मुझ मन काम ॥ २ ॥

॥ पीछें पुस्करवरदीवड्ढे कहि कें सुयस्स भगवओ० वंदण० अन्नत्थू० कही ॥ एक नवकारका काउस्सग्ग पारि कें ॥ त्रीजी स्तुति कहे, सो लिखते,

॥ जिहां अंग इग्यारे, बार उपंग छ छेद ॥ दस पयन्ना दाख्या, मूल सूत्र चउभेद ॥ जिन आगम षट्द्रव्य, सप्त पदारथ जुत्त ॥ साम्भलि सद्दहतां, त्रूटे करम तुरत्त ॥ ३ ॥

॥ पीछें सिद्धाणं बुद्धाणं० ॥ कह कें वेयावच्चगराणं० ॥ अन्नत्थू० कही ॥ एक नवकारका काउस्सग्ग करी पारि कें णमोऽर्हत्सिद्धा० कह कें चोथी स्तुति कहे, सो लिखते हैं ॥

॥ पउमावई देवी, पार्श्व यक्ष परतक्ष ॥ सहु संघनां संकट, दूर करेवा दक्ष ॥ समरो जिनभक्ति, सूरि कहे इक चित्त ॥ सुख सुजस समापो, पुत्त कलत्र बहु वित्त ॥ ४ ॥ इति ॥ ३५ ॥

॥ पीछें नीचा बैठ कें णमोत्थूणं० कहि कें ॥ तीन खमासमणें पूर्वोक्त रीतें ॥ आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु वांदे ॥

॥ अथवा केई ठिकाने जिमणो हाथ नीचो करि, मुखें मुहपत्ती देई अड्डाइज्जेसु कहे हैं, सो लख्ते हैं ॥ इति संप्रदाय ॥

॥ अथ अड्डाइज्जेसु ॥

॥ अड्डाइज्जेसु ॥ दीव समुद्देसु ॥ पन्नरससु कम्मभूमीसु ॥ जावंत केवि साहू ॥ रयहरण गुच्छपडिग्गहधारा पंचमहव्वयधारा ॥ अठारसहस्स सीलंगधारा ॥ अक्खयायारचरित्ता ॥ ते सव्वे सिरसा मणसा मत्थएण वंदामि ॥ इति ॥

॥ इतना विधि किया पीछें स्थिरता हुवे तो खमासमण तीन बखत देई ॥ इच्छाकारेण संदिस्सह भगवन् ॥ चैत्यवंदन करुं जी. यह पाठ कह कर चैत्यवंदन करे, सो लिखते हैं ॥

॥ अथ चैत्यवंदन ॥

॥ जय जय त्रिभुवन आदिनाथ, पंचमगति गामी ॥ जय जय करुणा शांत दांत, भवि जनहितकामी ॥ जय जय इंद नरिंद वृंद, सेवित सिरनामी ॥ जय जय अतिशयानंतवंत, अंतर्गत-जामी ॥ १ ॥ पूरव विदेह विराजता ए, श्री सीमंधर स्वाम ॥ त्रिकरणशुद्ध त्रिहुं कालमें, नितप्रति करूं प्रणाम ॥ २ ॥ जं किंचिनाम तित्थं० ॥ नमोत्थूणं० जावंति चेइआ० जावंत केवि साहू० ॥ भर णमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः ॥ तक कहि कें सीमंधरजीका स्तवन कहे, सो लिखते हैं ॥ ३७ ॥

॥ अथ सीमंधरजिनस्तवनम् ॥

॥ जगजीवन जग वालहो ॥ ए देशी ॥

॥ श्रीसीमंधर साहिबा, वीनतडी अवधार लाल रे ॥ परम पुरुष परमेसरू, आतम परम आधार लाल रे ॥ श्री० ॥ केवल ज्ञान दिवाकरु, भांगे सादि अनंत लाल रे ॥ भासक लोकालोक के, ज्ञायक ज्ञेय अनंत लाल रे ॥ श्री० ॥ १ ॥ इंद्र चंद्र चक्कीसरू, सुर नर रहे कर जोड लाल रे ॥ पदपंकज सेवे सदा, अणहूंता इक कोड लाल रे ॥ श्री० ॥ २ ॥ चरण कमलपिंजर वसे, मुज मन हंस नित मेव लाल रे ॥ चरण शरण मोहि आशरो, भव भव देवाधिदेव लाल रे ॥ श्री० ॥ ३ ॥ अधम उधारण छो तुम्हें, दूर हरो भव दुःख लाल रे ॥ कहे जिनहर्ष मया करी, देजो अविचल सुख लाल रे ॥ श्री० ॥ ४ ॥ इति ॥ ३८ ॥

॥ पीछें जयवीयराय० वंदणवत्तियाए० ॥ अन्नत्थू० क.

कें ॥ एक नवकारका काउस्सग्ग करे ॥ पारि कें नमोऽर्हत्सिद्धा० कही ॥ एक थुईनी गाथा कहे, सो लिखते हैं ॥

॥ महीमंम्रणं पुन्नसोवन्न देहं, जणाणंदणं केवलन्नाणगेहं ॥ महाणंदलच्छी बहुबुद्धिरायं, सुसेवाम सीमंधरं तित्थरायं ॥ १ ॥ इम होज थिरता हुवे तो, श्रीसिद्धाचलजीका चैत्यवंदन करे, सो लिखते हैं ॥

॥ अथ श्रीसिद्धाचलजीनुं चैत्यवंदन ॥

॥ जय जय नाभि नरिंद, नंद सिद्धाचल मंम्रण ॥ जय जय प्रथम जिणंद चंद, भव दुःख विहंम्रण ॥ जय जय साध सुरिंद विंद, वंदिय परमेसर ॥ जय जय जगदानंद कंद, श्रीरिषभ जिणेसर ॥ अमृतसम जिन धर्मनो ए, दायक जगमें जाण ॥ तुऊ पद पंकज प्रीति धर, निशिदिन नमत कल्याण ॥ १ ॥ जं किंचि नामतित्थं० ॥ णमोत्थुणं ॥ जावंति चेइआइं० ॥ जावंत केवि साहू० ॥ णमो-ऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यः तक कहि कें श्री सिद्धाचल-जीका स्तवन कहे, सो लिखते हैं ॥ ३ए ॥

॥ अथ श्रीसिद्धाचल स्तवनम् ॥

॥ सिद्धाचल गिरि भेट्यां रे ॥ धन्य भाग्य हमारां ॥ विम-लाचलगिरि० ॥ एह गिरिवरनो महिमा महोटो, कहेतां न आवे पारा ॥ रायण रूख समोसर्या स्वामी, पूर्व नवाणूं वारा रे ॥ ध० ॥ १ ॥ मूलनायक श्रीआदिजिनेश्वर, चोमुख प्रतिमा चार ॥ अष्ट द्रव्यसें पूजो भावें, समकित मूल आधारारे ॥ ध० ॥ २ ॥ दूर देशथी हुं इहां आयो, श्रवण सुनी गुण तोरा ॥ पतित उद्धारण विरुद तुमारा, एह तीरथ जग सारा रे ॥ ध० ॥ ३ ॥ भाव भक्तिसें प्रभू गुण गावे, अपना जन्म सधारा ॥ जात्रा करि भविजन शुभ भावें, नरक तिर्यंच गति वारा रे ॥ ध० ॥ ४ ॥ संवत अढारे त्र्यासी मास आषाढे, वदि आठम भो ... ५ ॥

प्रनुके चरण परतापसिंहमें, कुमारतन प्रनु प्यारा रे ॥ ध० ॥५॥

॥ पीछैं जयवीयराय० ॥ वंदणवत्तियाए० ॥ अन्नत्थू० ॥ कहिकें एक नवकारका काउस्सग्ग करी ॥ पारि कें नमोऽर्हत्सिद्धा० ॥ कहि कें॥

॥ शेत्रुंजगिरि नमियें, ऋषनदेव पुंमरीक ॥ शुन्न तपनो महिमा, सुणि गुरु मुख निरवीक ॥ शुद्ध मन उपवासें, विधिशुं चैत्यवंदनाक ॥ करियें जिन आगल, टाली वचन अलीक ॥ १ ॥ इति ॥ ४१ ॥ पीछें फुरसद होवे तो पमिलेहण करे, सो लिखते हैं॥

॥ अथ पडिलेहण ॥

॥ खमासमण देई इच्छाकारेण संदिस्सह नगवन् ॥ पमिलेहण संदिस्साउं ? गुरु कहे, संदिस्साएह ॥ बीजे खमासमणें ॥ ॥ इच्छाका० ॥ सं० ॥ न० ॥ पमिलेहण करुं ? गुरु कहे, करेह ॥ पीछें इच्छं कही ॥ मुहपत्ती पमिलेहे ॥ इमहीज दोइ खमासमणे अंग पमिलेहण संदिस्साउं ॥ अंगपमिलेहण करुं, कहीके धोतियुं कणदोरो पमिलेहि कें ॥ खमासमण देई इच्छाकार नगवन् पसाउ करी पमिलेहण पमिलेहावो जी. एम कही ॥ थापनाचार्य पमिलेह रक्खे, अने जो गुर्वादिक थापनाचार्य पमिलेहे, तो पण खमासमण देई आग्या मागे, पीछें खमासमण देई ॥ इच्छा० ॥ सं० ॥ न० ॥ मुहपत्ती पमिलेहुं ? गुरु कहे पमिलेहेह ॥ पीछें इच्छं कही ॥ मुहपत्ती पमिलेहि ॥ दोय खमासमणें ॥ इच्छाका० ॥ सं० ॥ न० ॥ उहि पमिलेहण संदिस्साउं ॥ उही पमिलेहण करुं ॥ एम कही कंबल वस्त्रादि पमिलेहे ॥ पीछें पोषधशाला प्रमार्जी काजो, विधिशुं परठवी खमासमण देई इरियावही पमिक्कमे ॥ ए मूलविधि जाणवो ॥ इतनी स्थिरता न होवे, तोन्नी दृष्टिपमिलेहण तो अवश्य करणी ॥ अबन्नी प्राये एही करते दिखते हैं ॥

॥ अब सामायिक पारणेका विधि कहे हैं ॥

॥ पीछें सामायिक पारे ॥ एक खमासमण देई ॥ मुहपत्ती पडिलेहे ॥ फिर खमासमण देई ॥ इच्छा० ॥ सं० ॥ भ० ॥ सामायिक पारुं ॥ गुरु कहे पुणोवि कायव्वो, पीछें यथाशक्ति कही वली खमासमण देई कहे. इच्छाका० ॥ सं० ॥ भ० ॥ सामायिक पारेमि ॥ गुरु कहे आयारो न मोत्तव्वो ॥ पीछें तहत्ति कही, अर्द्ध नमि ऊन्नो थको, तीन नवकार गुणी नीचो गोडालीयें वेसी मस्तक नमावी ॥ भयवं दसण्णभद्दो ॥ इत्यादिगाथा कहे, सो लिखते हैं ॥

॥ अथ भयवं दसण्णभद्दो ॥

॥ भयवं दसण्ण भद्दो, सुदंसणो थूलिभद्द वयरोय ॥ सफली कयगिहचाया, साहू एहं विहा हुंती ॥ १ ॥ साहूण वंदणेणं, नासइ पावं असंकिया भावा ॥ फासु अदाणे निज्जर, अभिग्गहो नाण माईणं ॥ २ ॥ छउमच्छो मूढमणो, कित्तिय मित्तंपि संभरइ जीवो ॥ जं च न संभरामि अहं, मिच्छामि डुक्कडं तस्स ॥ ३ ॥ जं जं मणेण चिंतिय, मसुहं वायाइ भासियं किंचि ॥ असुहं काएण कयं, मिच्छामि डुक्कडं तस्स ॥ ४ ॥ सामाइय पोसहसं, ठियस्स जीवस्स जाइ जो कालो ॥ सो सफलो बोधव्वो, सेसो संसार फलहेऊ ॥५॥ सामायिक विधें लीधुं विधें कीधुं, विधि करतां अविधि आशातना लगी होय, दश मनका, दश वचनका, वारह कायाका, वत्तीस दूषणमांहि जो कोइ दूषणलगा होय, सो सहु मन कर, वचन कर, कायायें करी मिच्छामि डुक्कडं ॥ इति सामायिक पोसह पारवानी गाथा ॥

॥ अथवा पहिलां सामायिक पारी कें, पीछें पडिलेहण करे. इहां यथायोग्य अवसरें गुरुकूं सुहराइ पूछै ॥

दूसरा खमासमण देवे, श्रीजिनपति सूरिजीकी सामाचारीमें इसें कह्यो हे ॥ इति सामायिक पारणविधि ॥

॥ अथ संध्याकाल सामायिक विधिर्लिख्यते ॥

॥ पिठले पहोरे धर्मशाला प्रमार्जी वस्त्रादिक पडिलेहे, जो अंधेरो आयो हुवे, तो दृष्टिपडिलेहण करे ॥ पीठें गुरु आगें अथवा थापनाचार्यजी आगें आवी भूमि प्रमार्जी आसण वाम पास मूकी खमासमण देई कहे ॥ इच्छाका० ॥ सं० ॥ भ० ॥ सामायिक मुहपत्ती पडिलेहुं ? गुरु कहे पडिलेहेह, इच्छं कही ॥ फिर खमासमण देई मुहपत्ती पडिलेहे ॥ पीठें खमासमण देई ॥ इच्छाका० ॥ सं० ॥ भ० ॥ सामायिक संदिस्साउं ? गुरु कहे संदिस्सावेह ॥ फिर खमासमण देई इच्छाका० ॥ सं० ॥ भ० ॥ सामायिक ठाउं ? गुरु कहे, ठाएह ॥ इच्छं कहो फिर खमासमण देई ॥ अर्द्धावनत थई तीन नवकार गुणी कहे. इच्छकार भगवन् ! पसाउ करी सामायिक दंडक उच्चरावो जी ॥ गुरु कहे उच्चरावेमो ॥ पीठें करेमि भंते सामाइयं ॥ इत्यादि सामायिक सूत्र गुरु वचन अनुभापण करतो थको तीन वार उच्चरी खमासमण देई ॥ इच्छाका० ॥ सं० ॥ भ० ॥ इरियावहियं पडिक्कमामि ? गुरु कहे पडिक्कमेह ॥ पीठें इच्छं कही ॥ इच्छामि पडिक्कमिउं ॥ इरियावहियाए इत्यादि पाठसें इरियावहियं पडिक्कमी ॥ एक लोगस्सका काउस्सग्ग करी, णमो अरिहंताणं कही, काउस्सग्ग पारी मखें प्रगट लोगस्स कही, नीचें बैठ कें मुहपत्ती पडिलेहि वांदणां देई कहे. इच्छाकार भगवन् ! पसाउ करी पच्चख्काण करावोजी. पी गुरु, दिवस चरिम पच्चख्काण करावे ॥ गुरु अभावें थापना समक्ष अथवा स्वमुखें, अथवा वडेरा साधर्मी मुखें पच्चखे ॥ जो तिविहार उपवास कीधो हुवे, तो मुहपत्ती पडिलेहि करे ॥ वांदणां न देवे, अने जो चउविहार उपवास हुवे, तो ख्काण करवुं ठे नही ॥ ते माटें मुहपत्ती नाहिं पडिलेहे विस्तार विधि है ॥ पीठें एक खमासमण देई इच्छाका० ॥ सं

न० ॥ सिझाय संदिस्साउं ? गुरु कहे, संदिस्सावेह. पीछैं इच्छं कही वली खमासमण देई ॥ इच्छा० ॥ सं० ॥ न० ॥ सिज्झाय करुं ? गुरु कहे करेह ॥ पीछैं इच्छं कही ॥ खमासमण देई ॥ ऊभो थको मधुर स्वरैं आठ नवकारनी सिज्झाय करे ॥ पीछैं खमासमण देई ॥ इच्छा० ॥ सं० ॥ न० ॥ बेसणुं संदिस्साउं ? गुरु० संदिस्सावेह ॥ फिर खमासमण देई इच्छा० ॥ सं० ॥ न० ॥ बेसणुं ठाउं ? गुरु कहे, ठाएह ॥ पीछैं इच्छं कही जो शीत कालादि हुवे तो खमासमण देई ॥ इच्छा० ॥ सं० ॥ न० ॥ पांगरणुं संदिस्साउं ? गुरु कहे, संदिस्सावेह ॥ फिर खमासमण देई ॥ इच्छा० ॥ सं० ॥ न० ॥ पांगरणुं पडिग्गहाउं ? गुरु कहे पडिग्गहाएह ॥ पीछैं इच्छं कही शुभ ध्यान करे ॥ इति संध्यासामायिक विधिः ॥

॥ अथ देवसि पडिक्कमण विधिर्लिख्यते ॥

॥ प्रथम त्रण खमासमण देई ॥ इच्छा० ॥ सं० ॥ न० ॥ चैत्यवंदन करुं ? गुरु कहे करेह, पीछैं इच्छं कही ॥ जय तिहुयण कहे ॥ जिसमैं पक्खी तथा चउमासी तथा संवच्छरीके रोज तीस गाथा कहेनी ॥ और दिनोमैं तो पांच गाथा पहेलेकी, और दोय गाथा पिछाडीकी, एवं सात गाथा कहेनेकी प्रवृत्ति देखणेमैं आवे हैं. अब जयतिहुअण लिखते हैं ॥

॥ अथ जयतिहुअण लिख्यते ॥

॥ जय तिहुअण वरकप्परुक्ख जय जिण धन्नंतरि, जय तिहुअण कल्लाणकोस दुरिअक्करि केसरि ॥ तिहुअण जण अविलंघिआण भुवणत्तय सामिअ, कुणसु सुहाइं जिणेस पास थंभणय पुर ॥१॥ तइ समरंत लहंति झत्ति वर पुत्त कलत्तहिं, धन्न सुवन्न हिरन्न पुन्न जण भुंजहि रज्जहि ॥ पिक्खहि मुक्ख असंखसुक्ख तुह पसाइण, इय तिहुअण वरकप्परुक्ख सुक्खहि कुण मह जिण ॥ ॥ जरजज्जर परिजुन्न कन्नन्नट्ठ सुकुट्ठिण, चक्खुक्खीण खएण खुन्न

निरसल्लिअसूलिण ॥ तह जिण सरणरसायणेण लहु हुंति पुणसव, जय धणंतरि पास महवि तुहुं रोगहरो भव ॥ ३ ॥ विज्जाजोइस मंततंतसिद्धिउ अपयत्तिण, भुवणब्भुअ अठविह सिद्धि सिज्झइ तुह नामिण ॥ तुह नामिण अपवित्तउवि जण होइ पवित्तउ, तं तिहुअण कल्लाणकोस तुह पास निरुत्तउ ॥ ४ ॥ खुद्द पवत्तइ मंत तंत जंताइं विसुत्तइ, चरथिरगरलगहुग्गखग्गरिउवग्गविगंजइ ॥ दुत्थियसत्थ अणत्थ घत्थ नित्थारइ दय करि, दुरिअई हरउ सुपासदेव दुरिअकरिकेसरि ॥ ५ ॥ तुह आणा थंभेइ भीमदप्पुद्धर सुरवर, रक्कस जक्क फणिंद विंद चोरानलजलहर ॥ जलथलचारिरउद्दखुद्द पसुजोइणि जोइअ, इय तिहुअणअविलंघिआण जय पास सुसामिअ ॥ ६ ॥ पत्थिअ अत्थ अणत्थ तित्थभत्तिप्भर निब्भर, रोमंचंचिअचारुकाय किंनरनरसुरवर ॥ जसुसेवहिं कमकमलजुअल पक्खालिअ कलिमलु, सो भुवणत्तयसामि पास महमद्दउ रिउबलु ॥ ७ ॥ जय जणकमलमरालमय पंजरकुंजर, तिहुअणजण आणंदचंद देणयर ॥ जय मइमेइणि वारिवाह जयजंतुपिआमह, पासनाह नाहत्तणकुणमह ॥८॥ बहु विहवण्णुअवण्णु धिरउपसहि, मुक्कधम्मुकामउकाम नर नियनियसत्थहि ॥ पुरहि दरिसणत्थ बहु नाम पसिद्धउ, सो जोइ अमण हिरण्ण पास पवद्धउ ॥ ए ॥ भयविब्भल रणझणिरदसण पासरय, तरलिअ नयणविसण्णुसुण्णुगग्गिरगिरकरुणय ॥ २ सरंति हुंति नरनासिअ गुरुदर, मह विज्झविसज्झसइ पास कुंजर ॥ १० ॥ पइंपासविविअसंतनित्तपत्तंतपविसिय, वाहपवाहपवूढरूढ दुहदाहसुपुलइय ॥ मण्णहिंमण्णसउण्ण पुणअप्पांसुरनर, इय तिहुअण आणंदचद जय पास जिणेसर ॥ ११ ॥ कल्लाणमहेसुघंटटंकारवपिल्लिअ, वल्लिरमल्लमहल्लभत्तिसुरवरगंअ ॥ हल्लुप्फलिअ पवत्तयंति भवणेहिमहूसव, इय तिहुअ

आणंदचंद जय पाससुहुप्रव ॥ १२ ॥ निम्मल केवल किरणनियरविहुरिअ तमपहयर, दंसिअ सबलपयत्थवित्थरिअ पहाभर ॥ कलिकलुसिअ जण धूअलोयलोयणहअगोयर, तिमिरइं निरुहर पासनाह भुवणत्तय दिणयर ॥ १३ ॥ तुह समरणजलवरिससित्त माणव मइ मेइणि, अवरावरसुहुमत्थबोह कंदलदलरेणि ॥ जायइ फलभरभरिय हरिय दुहदाह अणोवम, इयमइ मेइणि वारिवाह दिसिपास मइं मम ॥ १४ ॥ कय अविकल कल्लाणवल्लिउल्लूरियदुहवणुं, दाविअसग्गपवग्गमग्ग दुग्गइगम वारणुं ॥ जय जंतुह जणएणतुल्लजंजणियहियावहु, रम्म धम्म सो जयउ पास जय जंतु पिआमह ॥ १५ ॥ भूवणारसनिवास दरिअपरदरिसणदेवय, जोइणिपूअणखित्तवाल खुद्दासुर पसुवय ॥ तुह उत्तठ सुनठ सुठु अविसंठुल चिठ्ठहिं, इय तिहुअण वणसिंह पास पावाइ पणासहिं ॥ १६ ॥ फणिफणफारफुरंतरयण कर रंजिअ नहयल, फलिणी कंदलदलतमाल निलुप्पलसामल ॥ कमठासुर उवसग्गवग्ग संसग्गअगंजिअ, जय पच्चक्कजिणेस पास थंभणय पुरठिअ ॥ १७ ॥ मइमणतरलपमाणनेय वायाविविसंठलु, नियतणुरवि अविणयसहाव आलसविहलंघलु ॥ तुहमाहप्पपमाणदेव कारुणपवित्तउ, इयम इमाअवहीरपासपालहिविलवंतउ ॥ १८ ॥ किंकिंकप्पिउणेयकलुणकिंकिंवनजंपिउ, किं वनचिठ्ठिउकिठ्ठदेवदीणयमविलंबिउ ॥ कासुनकिय निप्फल्लललुअह्लेहिंउहत्तइं, तहविन पत्तउताण किंपि पइं पहु परिचत्तइं ॥ १९ ॥ तुहुं सामिह तुहुं माय वप्प तुहुं मित्तपियंकरु, तुहुं गइ तुहुं मइ तुंहिज ताण तुहुं गुरु खेमंकरु ॥ हउं दुहभरभाराअवराउ राउलनिब्भग्गउ, लीणउ तुह कमकमल सरणजिणपालहि चंगउ ॥ २० ॥ पइंकिविकयनीरोयलोयकिविपावियसुहसय, किविमइंमंतमहंतकेवि किविसाहियसिवपय ॥ किवि गंजिअरिउवग्गकेविजसधवलिअ भूअल, मइं अवही-

रहिकेणपास सरणागयवच्छल ॥ २१ ॥ पच्चुवयारनिरीहनाहनिप्पन्नपयोअण, तुहुं जिण पासपरोवयार करुणिक्कपरायण ॥ सत्तुमित्त सम चित्तवित्तिनयनिंदअसममण, मा अवहीरिअजुग्गउविमइं पासनिरंजण ॥ २२ ॥ हउं बहुविहदुहतत्तगत्ततुहुं दुहनासणपरु, हउं सुयणहकरुणिक्कगण तुहुं निरुकरुणाकरु ॥ हउंजिण पासअसामिसालु तुहुं तिहुअणसामिअ, जं अवहीरहि मइं झखंतइय पासन सोहिअ ॥ २३ ॥ जुग्गाजुग्ग विभागनाहनहुजोअणतुहसम, भवणुवयारसु हावभाव करुणारससत्तम ॥ समविसमइ किंघण नएइ भुविदाहुसमंतउ, इय दुहबंधव पासनाह मइं पाल थुणंतउ ॥ २४ ॥ नयदीणहदीणयमुएवि अन्नविकिविजुग्गय, जं जोइयउवयारुकरइउवयारसमुज्जय ॥ दीणह दीणनिहीणजेणतुहनाहिणचत्तउ, तो जुग्गउअहमेव पासपालहिमइं चंगउ ॥ २५ ॥ अहअन्नविजुग्गयविसेसकिविमन्नहि दीणह, जं पासविउवयारुकरइ तुहनाह समग्गह ॥ सुच्चिअकिल कल्लाणुजेण जिण हुम्ह पसीयह, किं अन्नुंण तंचेव देव मामइंअवहीरह ॥ २६ ॥ तुह पत्थण नहु होइ विहल जिणजाणउ किं पुण, हउं दुक्खिउ निरुसत्तचत्तदुक्कहु उस्सुयमण ॥ तं मन्नउ निमिसेण एण एउविजइ लब्भइ, सच्चं जं भुक्खियवसेण किं उंबरु पच्चइ ॥ २७ ॥ तिहुअणसामिअ पासनाह मइं अप्पपयासिउ, किज्जउ जं नियरूवसरिसुनमुणंउवहुं जंपिउ ॥ अण्णु ण जिणजगतुहसमोविदक्खिणदयासउ, जइंअवगिणसि तुंहिजअहहाकिंहोइसहयासउ ॥ २८ ॥ जइ तुहरूविणकिणविपेअ पाइणवेलंविउ, तउजाणुंजिणपास तुम्ह हउंअंगीकरिअउ ॥ इयमइच्छिअ जं न होइ सातुहउहावण, रक्खंतह नियकित्तिणे थ जुज्जइअवहीरण ॥ २९ ॥ एवमहारिहजत्तदेवइयन्हवणमहूसउ, जं अणलिय गुणगहण तुम्ह मुणिजणअणिसिद्धउ ॥ इय मइं पसिसुपासनाहथंभणयपुरठिअ, इय मुणिवरसिरि अभयदेव विन्नवइ

आणिंदिअ ॥ ३० ॥ इति श्रीस्तंभनकतीर्थराजश्रीपार्श्वनाथस्तवनम् ॥

पीछे जय महायस कहे, सो लिखते हैं ॥

॥ अथ जय महायस प्रारंभः ॥

॥ जय महायस जय महायस जय महाभाग जय चिंतिय सुह फलय ॥ जय समत्थ परमत्थजाणय, जय जय गुरु गरिम गुरु ॥ जय दुहत्त सत्ताण ताणय, थंभणयठिय पासजिण ॥ भविय ह भीम भवत्थु, भव अवणं ताणं तं गुण ॥ तुरुत्ति संज नमोत्थु ॥ १ ॥ इति ॥

॥ पीछें शक्रस्तव कह कें खडा हो कर अरिहंत चेइयाणं० ॥ करेमि काउस्सग्गं वंदणवत्तिआए० ॥ अन्नत्थू० ॥ इत्यादि पाठ कह कें काउस्सग्गमांहे एक नवकार चिंतवी एक श्रावक काउस्सग्ग पारी नमोऽर्हत्सिद्धा० ॥ कही एक गाथा स्तुति कहे, सो लिखते हैं

॥ अथ महावीरजिनस्तुति प्रारंभः ॥

॥ मूरति मन मोहन, कंचन कोमल काय ॥ सिद्धारथ नंदन, त्रिशलादेवी समाय ॥ मृगनायक लंछन, सात हाथ तनु मान ॥ दिनदिन सुख दायक, स्वामी श्रीवर्द्धमान ॥ १ ॥

॥ ए स्तुति एक श्रावक कहे. अरु दूसरे श्रावक सब काउस्सग्गमें रहे थके सुने. पीछें णमो अरिहंताणं कह कें काउस्सग्ग पारे. इसीतरें आगें पण स्तुतिकी चारों गाथामें जान लेनां.

॥ पीछें लोगस्स कह कर सवलोए अरिहंत चेइयाणं वंदणवत्ति० ॥ अन्नत्थू० ॥ कहि कें एक नवकारका काउस्सग्ग करे. पारि कें उक्त स्तुतिकी दूसरी गाथा कहे, सो लिखते हैं ॥

॥ सुर नर किन्नर, वंदित पद अरविंद ॥ कामित भर पूरण, अभिनव सुरतरु कंद ॥ भवियणनें तारे, प्रवहण सम नि-

शिरीस ॥ चोवीशे जिनवर, प्रणमुं विशवा वीस ॥ यह दूसरी गाथा कहि कें काउस्सग्ग पारे. पीछैं पुक्खरवरदी० वंदणवत्तिआए० अन्नत्थू० कहि कें, एक नवकारका काउस्सग्ग कर कें, पारि कें उक्त स्तुतिकी तीसरी गाथा कहे, सो लिखते हैं ॥

॥ अरथें करि आगम, भाख्या श्रीभगवंत ॥ गणधरने गूंथ्या, गुणनिधि ज्ञान अनंत ॥ सुरगुरु पण महिमा, कहि न शके एकंत ॥ समरुं सुखसायर, मन शुद्ध सूत्र सिद्धांत ॥ ३ ॥ यह गाथा कहि कें सिद्धाणं बुद्धाणं० ॥ वेयावच्चगराणं अन्नत्थू० ॥ कही काउस्सग्ग पारी उक्त स्तुतिकी चोथी गाथा कहे, सो लिखते हैं ॥

॥ सिद्धायिकादेवी, वारे विघन विशेष ॥ सहु संकट चूरे, पूरे आश अशेष ॥ अहोनिश कर जोडी, सेवे सुर नर इंद ॥ जंपे गुण गण इम, श्रीजिनलाभ सूरिंद ॥ ४ ॥ इति महावीरजिन स्तुतिः ॥ यह चोथी स्तुति कहिकें बैठ कें नमोत्थुणं कहे, पीछैं एक खमासमण देई कें श्रीआचार्य मिश्र दूसरा खमासमण दीये. पछैं श्रीउपाध्यायजी मिश्र तीसरा खमासमणदे कर श्रीवर्त्तमान आचार्यजीका नाम ले कें मिश्र चोथे खमासमणमें सर्व साधुजीमिश्र इसी तरें कह कर गोडालोयें बैठ कें मस्तक नमावी सव्वस्सवि देवसिय० इत्यादि कह कर तस्स मिच्छामि दुक्कडं कहे, परंतु 'इच्छाकारेण संदिस्सह इच्छं' ए पद न कहे ॥

॥ पीछैं खडे हो कर करेमि भंते सामाइयं० ॥ इच्छामि ठामि काउस्सग्गं जो मे देवसिओ० ॥ तस्सुत्तरि० ॥ अन्नत्थू० ॥ इत्यादि कहि कें, आठ नवकारका काउस्सग्ग करे. काउस्सग्गमांहे आजूरा चउ प्रहरमें ॥ इत्यादि पाठ मनमें चिंतवी, णमो अरिहंताणं कही काउस्सग्ग पारि कें प्रगट लोगस्स कहे ॥

॥ पीछैं संमासा प्रमार्जन पूर्वक वैठ कें तीसरे आवश्यक सूत्र वांदणां मुहपत्ती पमिलेहुं ? गुरु कहे पमिलेहेह. पीछैं मुहपत्ती पमिलेहि कें वांदणां देवे. पीछैं अवग्रहमांहिज उनो थको इच्छा० ॥ सं० ॥ न० ॥ देवसियं आलोउं, एसा कहे. तव गुरु कहे आलोएह. पीछैं इच्छं आलोएमि० ॥ यह पाठ कह कें अतिचार आलोवे. पीछैं सवस्सवि देवसियं इत्यादिथी मांमाने इच्छाकारेण संदिस्सह पर्यंत कहे, तव गुरु पमिक्कमह. यह पाठ कहे ॥

॥ पीछैं इच्छं तस्स मिच्छामि डुक्कमं कहि कें संमासा प्रमार्जि प्रमार्जित नूमियें आसन पर वैठ कें नगवन् ! सूत्र नणुं एसा कहे. तव गुरु कहे नणेह. पीछैं इच्छं कही तीन नवकार गणी, तीन करेमि नंते नणीने इच्छामि पमिक्कमिउं जो मे देवसिउ इत्यादि कही एक श्रावक वंदित्तु कहे. दूसरा सव सुने. पीछैं खमा हो कर अप्नुट्ठिउमि आराहणाए इत्यादि संपूर्ण पाठ कही, दो वांदणां देवे, अरु अवग्रहमांहिज खमा हुवा इच्छा० ॥ सं० ॥ न० ॥ अप्नुट्ठिउमि अप्निंतर देवसियं खामेउं ? गुरु कहे, खामेह ॥

॥ पीछैं इच्छं खामेमि देवसियं कहि कें गोमालीयें वैठ कें वाम हाथे मुहपत्ती मुखें धर कें दक्षिण हाथ गुरु सन्मुख कर कें सर्व पाठ कहे. पीछैं विधिसेंती दो वांदणां दे कर आयरिय उवज्झाय इत्यादि त्रण गाथा कहिकें करेमि नंते सामाइयं इच्छामि गमि काउस्सग्गं इत्यादि कही चारित्र शुद्धि निमित्तें करेमि काउस्सग्गं अन्नत्थू० ॥ कहि कें आठ नवकार अथवा दो लोगस्सका काउस्सग्ग करी पारि कें पीछैं दर्शनशुद्धि निमित्तें प्रगट लोगस्स कही सवलोए अरिहंत चेइयाणं० ॥ वंदणवत्ति० अन्नत्थू० ॥ कहि कें एक लोगस्सका काउस्सग्ग करी पारि कें ज्ञान शुद्धि निमित्तें पुस्करवरदीवड्ढे कहि कें सुयस्स नगवउ० ॥ वंदणवत्ति० ॥ अन्नत्थू०

॥ कहि कें एक लोगस्सका काउस्सग्ग करे. पीछैं पारि कें सिद्धाणं बुद्धाणं० कहि कें वेयावच्चगराणं न कहे. पीछैं सुयदेवयाए करेमि काउस्सग्गं अन्नत्थू० ॥ कही एक नवकारनो काउस्सग्ग करे. पीछैं गुरुका योग न होवे तो एक श्रावक काउस्सग्ग पारिकें णमो अर्हत्सिद्धा० कहि कें श्रुत देवताकी स्तुति कहे. गुरु हुवे तो गुरु कहे. और दूजा सर्व स्तुति सुण कें काउस्सग्ग पारे. अब श्रुतदेवताकी स्तुति कहे, सो लिखते हैं ॥

॥ अथ श्रुतदेवताकी स्तुति ॥

॥ सुवर्णशालिनी दयाद्, द्वादशांगी जिनोद्भवा ॥ श्रुतदेवी सदा मह्य, मशेषश्रुतसंपदम् ॥ १ ॥ पीछैं खित्तदेवयाए, करेमि काउस्सग्गं० ॥अन्नत्थू० ॥ कहि कें, एक नवकार चिंतवी पूर्वली परें क्षेत्रदेवताकी स्तुति कहे, सो लिखते है.

॥ अथ क्षेत्रदेवताको स्तुति ॥

॥ यासां क्षेत्रगताः संति, साधवः श्रावकादयः ॥ जिनाज्ञां साधयंतस्ता, रक्षंतु क्षेत्रदेवताः ॥ १ ॥ इति ॥

॥ पीछैं खमा हुवा एक नवकार कही, संडासा प्रमार्जि उकडू बैठ कें छठ्ठे आवश्यककी मुहपत्ती पडिलेहुं ? गुरु कहे पडिलेहेह.

॥ पीछैं मुहपत्ती पडिलेही विधिशुं दो वांदणां देइ कें वरकनक कहे, सो लिखते हैं.

॥ अथ वरकनक प्रारंभः ॥

॥ ॐ वरकणय संख विद्रुम, मरगय घण सन्निहं विगय मोहं ॥ सित्तरि सयं जिणाणं, सवामर पूइयं वंदे ॥ स्वाहा ॥ १ ॥ ॐ जवणवय वाण मंतर, जोइसवासविमाण वासीय ॥ जे केवि दुठ्ठदेवा, ते सव्वे उवसमंतु मे स्वाहा ॥१॥ पच्चरकाण नहिं लिया होय तो करे ॥ सामायिक चोइसत्थो पडिक्कमणां, वांदणां, काउ॰

स्सग्ग, पञ्चरकाण, व आवश्यक सांधतां कानो, मात्रा, उंगो अ धिको अक्षर ऊंचो नीचो कह्यो होय, ते सर्वे मन, वचन, कायायें करी मिच्छामि दुक्कडं ॥ इच्छामो अणुसठिं० ॥ कही बैठे. प ठें गुरु एक स्तुति कह्या पीछें श्रावक समस्त, मस्तकें अंजलि करिकें णमो खमासमणाणं ॥ णमोऽर्हत्सिद्धा० ॥ कही ॥ णमोऽस्तु वर्द्धमानाय० इत्यादि तीन स्तुति कहे. श्राविका णमो खमासमणाणं, कही संसारदावाकी स्तुति कहे.

॥ अथ नमोऽस्तु वर्द्धमानाय ॥

॥ नमोऽस्तु वर्द्धमानाय, स्पर्द्धमानाय कर्मणा ॥ तज्जयावाप्तमोक्षाय, परोक्षाय कुतीर्थिनाम् ॥ १ ॥ येषां विकचारविंदराज्या, ज्यायः क्रमकमलावलिं दधत्या ॥ सदृशैरिति संगतं प्रशस्यं, कथितं संतु शिवाय ते जिनेन्द्राः ॥ २ ॥ कषायतापार्द्दितजंतुनिर्वृतिं, करोतियो जैनमुखांबुदोद्गतः ॥ स शुक्रमासोद्भववृष्टि सन्निभो, ददातु तुष्टिं मयि विस्तरोगिराम् ॥ ३ ॥ श्वसितसुरभिगंधा लीढभृङ्गीकुरङ्गं, मुखशशिनमजस्रं बिभ्रती या बिभर्ति ॥ विकच कमलमुच्चैः साऽस्त्वचिंत्यप्रभावा, सकलसुखविधात्री प्राणभाजां श्रुताङ्गी॥४॥ इति॥

॥ यह तीन गाथा कहि कें पीछें णमोत्थुणं० कह कें एक श्रावक खमासमण दई कहे:—इच्छाका० ॥ सं० ॥ भ० ॥ स्तवन भणुं ? दूसरा खमासमण देई कहे ॥ इच्छा० ॥ सं० ॥ भ० ॥ स्तवनभणुं स्तवन सांभलुं ? गुरु कहे, भणेह सांभलेह. पीछें आसन पर बैठ कें नमोऽर्हत्सिद्धा० ॥ कहि कें नमो स्तवन कहे, सो लिखते हैं ॥

॥ अथ श्री चिंतामणि पार्श्वजिनस्तवनम् ॥

॥ भविका श्रीजिनबिंब जुहारो, आतम परम आधारो रे ॥ भ० ॥ श्री० ॥ जिनप्रतिमा जिन सारखी जाणो, न करो शंका

कांई ॥ आगम वाणीने अनुसारें, राखो प्रीते सवाई रे ॥ ज० श्री० ॥ १ ॥ जे जिनबिंब स्वरूप न जाणे, ते कहियें किम जाणे ॥ भूला तेह अज्ञानें जरिया, नहिं तिहां तत्त्व पिछाणे रे ॥ ज० ॥ श्री० ॥ २ ॥ अंबड श्रावक श्रेणिक राजा, रावणप्रमुख अनेक ॥ विविधपरें जिन जगति करंता, पाम्या धर्म विवेक रे ॥ ज० ॥ श्री० ॥ ३ ॥ जिन प्रतिमा बहु जगतें जोतां, होय निश्चय उपगार ॥ परमारथ गुण प्रगटे पूरण, जो जो आर्द्र कुमार रे ॥ ज० ॥ श्री० ॥ ४ ॥ जिनप्रतिमा आकारें जलचर, छे बहु जलधि मझार ॥ ते देखी बहुला मत्स्यादिक, पाम्या विरतिप्रकार रे ॥ ज० ॥ श्री० ॥ ५ ॥ पांचमा अंगें जिनप्रतिमानो, प्रगटपणें अधिकार ॥ सूरियाज सुर जिनवर पूज्या, राय पसेणी मझार रे ॥ ज० ॥ श्री० ॥ ६ ॥ दशमें अंगें अहिंसा दाखी, जिन पूज्या जिनराज ॥ एहवा आगम अरथ मरोडी, करिये केम अकाज रे ॥ ज० ॥ श्री० ॥ ७ ॥ समकितधारी सतीय द्रौपदी, जिन पूज्या मन रंगें ॥ जो जो एहनो अरथ विचारी, छठे ज्ञाता अंगें रे ॥ ज० ॥ श्री० ॥ ८ ॥ विजयसुरें जिम जिनवर पूजा, कीधी चित्त थिर राखी ॥ द्रव्य जाव बिहुं जेदें कीनी, जीवाजिगम ते साख रे ॥ ज० ॥ श्री० ॥ ए ॥ इत्यादिक बहु आगम साखें, कोइ शंका मति करजो ॥ जिनप्रतिमा देखी नित नवली, प्रेम घणो चित्त धरजो रे ॥ ज० ॥ श्री० ॥ १० ॥ चिंतामणि प्रनु पास पसायें, सरधा होजो सवाई ॥ श्रीजिनलाज सुगुरु उपदेशें, श्रीजिनचंद्र सवाई रे ॥ ज० ॥ श्री० ॥ ॥ ११ ॥ इति श्रीचिंतामणि पार्श्वजिन स्तवनम् ॥

॥ पीछें तीन खमासमणें आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु वांदी, इच्छाकारेण संदिसह भगवन्, अढाइज्जेसु कहनां, फेर खमासमणे ॥ इच्छाका० ॥ सं० ॥ ज० ॥

देवसि पाय छित्त विशुद्धि निमित्तं काउस्सग्ग करुं? गुरु कहे, करेह. पीछैं इछं कहि कें देवसि पायछित्त विशुद्धि निमित्तं करेमि काउस्सग्गं अन्नत्थू० ॥ कहि शोले नवकार अथवा चार लोगस्सका काउस्सग्ग करे, पारी कें लोगस्स कहे.

॥ पीछैं खमासमण दे कर इछाका० ॥ सं० ॥ भ० ॥ खुद्दोवद्दव उहावणठ्ठं करेमि काउस्सग्गं ॥ अन्नत्थू० ॥ इत्यादि कहा. शोल नवकार अथवा चार लोगस्सका काउस्सग्ग करे, पारि कें प्रगट लोगस्स कहे. पीछें खमासमण देई ॥ सज्झाय संदिस्साउं फेर खमासमण देई सज्झाय करुं? तीन नवकार गुणीजें. पीछें खमासमण देई कें ॥ इछा० ॥ सं० ॥ भगवन् चैत्यवंदन करुं जी ॥ ऐसा कह कर थंभणा पार्श्वनाथजीका चैत्यवंदन करे, सो लिखते हे ॥

॥ अथ श्रीथंभणा पार्श्वनाथजीका चैत्यवंदन ॥

॥ श्रीसेढीतटिनीतटे पुरवरे श्रीस्तंभने स्वर्गिरौ, श्रीपूज्याभयदेवसूरिविबुधाधीशैः समारोपितः ॥ संसिक्तः स्तुतिभिर्जलैः शिव फलं स्फूर्जत्फणापल्लवः, पार्श्वः कल्पतरुः समे प्रथयतां नित्यं मनोवांछितम् ॥ १ ॥ आधि व्याधिहरो देवो, जीरावल्लीशिरोमणिः ॥ पार्श्वनाथो जगन्नाथो, नित्यनाथो नृणां श्रिये ॥ इति ॥

॥ पीछें नमोत्थुणंसें लेकें जयवीयराय सुधी कहे ॥ पीछें खमासमणपूर्वक मस्तक नमावी 'सिरि थंभणयठ्ठिय पास सामिणो०' इत्यादि दोय गाथा कहे, सो लिखते हे.

॥ अथ श्रीथंभणयठ्ठियपाससामिणो ॥

॥ श्री थंभणयठ्ठियपाससामिणो सेस तित्थसामीणं ॥ तित्थ समुन्नय कारणं, सुरासुराणं च सव्वेसिं ॥ १ ॥ एस महं सरणठ्ठं, काउस्सग्गं करेमि सत्तीए ॥ भत्तीए गुण सुठ्ठियस्स, संघस्स समुन्नय निमित्तं ॥ २ ॥ इति ॥

॥ श्रीथंजणा पार्श्वनाथजी आराधवा निमित्तं करेमि काउ- स्सग्गं ॥ पीछें खमा दो के वंदणव० ॥ अन्न० ॥ कही चार लोग- स्सका काउस्सग्ग करि कें पीछें पारी प्रगट लोगस्स कही कें ॥ श्रीखरतरगच्छ सिणगारहारजंगम युगप्रधान जट्टारक दादाजी श्री जिनदत्त सूरिजी चारित्र चूमामणीजी आराधवा निमित्तं करेमि काउस्सग्गं ॥ अन्नछू० कहि कें, एक लोगस्सका काउस्सग्ग करे, पीछें प्रगट लोगस्स कह कें

॥ श्रीखरतरगच्छ सिणगारहार जंगमयुग प्रधान जट्टारक दा- दाजी श्रीजिन कुशल सूरिजी चारित्र चूमामणिजी आराधवा निमित्तं करेमि काउस्सग्गं ॥ अन्नछू० कहि कें एक लोगस्सका काउस्सग्ग करे. पीछें प्रगट लोगस्स कहि बैठ कें मावो गोमो ऊंचो करि कें खमासमण देई कें, इच्छा० ॥ सं० ॥ ज० ॥ चैत्यवंदन करुं जी, ऐसें कहि कें चैत्यवंदन करे.

॥ अथ चउक्कसाय ॥

॥ चउक्कसाय पमिमल्लुल्लूरण, डुज्जय मयण बाण मुसुमूरण ॥ सरस पियंगु वन्नु गय गामिउ, जयउ पास जुवणत्तय सामिउ ॥ १ ॥ जसु तणु कंति कमप्पसिणिद्धउ, सोहइ फणमणि किरणा लिद्धउ ॥ नंनव जलहर तमिल्लय लंछिय, सो जिणु पासु पयछय वंछिय ॥ २ ॥

॥ अर्हन्तो जगवंत इंद्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता, आ- चार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायकाः ॥ श्रीसिद्धांतसु- पाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः, पंचैतें परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वंतु वो मंगलम् ॥ १ ॥

॥ पीछें नमुत्थुणंसें ले कें जयवीयराय पर्यंत कहि के पक्खी, चउम्मासी अरु संवच्छरीके रोज तो बमी शांति सुणे, परंतु और

दिनोंमें छोटी शांति सुणे, सो लिखते हैं.

॥ अथ लघुशांतिस्तवः ॥

॥ शांतिं शांतिनिशांतं, शांतं शांताऽशिवं नमस्कृत्य ॥ स्तोतुः शांतिनिमित्तं, मंत्रपदैः शांतये स्तौमि ॥ १ ॥ उमिति निश्चितवचसे, नमो नमो भगवतेऽर्हते पूजाम् ॥ शांति जिनाय जयवते, यशस्विने स्वामिने दमिनाम् ॥ २ ॥ सकलातिशेषकमहा, संपत्तिसमन्विताय शस्याय ॥ त्रैलोक्यपूजिताय च, नमोनमः शांतिदेवाय ॥ ३ ॥ सर्वामरसुसमूह, स्वामिकसंपूजिताय निजिताय ॥ भुवनजनपालनोद्यत, तमाय सततं नमस्तस्मै ॥ ४ ॥ सर्वदुरितौघनाशन, कराय सर्वाशिवप्रशमनाय ॥ दुष्ट ग्रह भूतपिशाच, शाकिनीनां प्रमथनाय ॥ ५ ॥ यस्येति नाम मंत्र, प्रधानवाक्योपयोगकृततोषा ॥ विजया कुरुते जनहित, मिति च नुता नमत तं शांतिम् ॥ ६ ॥ भवतु नमस्ते भगवति, विजये सुजये परापरैरजिते ॥ अपराजिते जगत्यां, जयतीति जयावहे भवति ॥ ७ ॥ सर्वस्यापि च संघस्य, भद्र कल्याण मंगलप्रददे ॥ साधूनां च सदा शिव, सुतुष्टिपुष्टिप्रदे जीयां ॥ ८ ॥ भव्यानां कृतसिद्धे, निर्वृति निर्वाणजननि ! सत्त्वानाम् ॥ अभय प्रदाननिरते, नमोस्तु स्वस्तिप्रदे तुभ्यम् ॥ ९ ॥ भक्तानां जन्तूनां, शुभावहे नित्यमुद्यते देवि ! ॥ सम्यग्दृष्टीनां धृति, रति मति बुद्धि प्रदानाय ॥ १० ॥ जिनशासननिरतानां, शांतिनतानां च जगति जनतानाम् ॥ श्रीसंपत्कीर्त्ति यशो, वर्द्धिनि ! जय देवि दिजयस्व ॥ ११ ॥ सलिलानल विषविषधर, दुष्ट ग्रह राज रोगरणभयतः ॥ राक्षस रिपुगण मारी, चौरेतिश्वापदादिभ्यः ॥ १२ ॥ अथ रक्ष रक्ष सुशिवं, करु कुरु शांतिं च कुरु कुरु सदेति ॥ तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं, कुरु कुरु स्वस्तिं च कुरु कुरु त्वं ॥ १३ ॥ भगवति गुणवति शिवशांति, तुष्टि पुष्टिस्वस्तिह कुरुकुरु जनानाम् ॥

उमिति नमो नमो ह्राँ, ह्रीं ह्रूँ ह्रः यः क्षः ह्रीं फट् फट् स्वाहा ॥ १४॥ एवं यन्नामाक्षर, पुरस्सरं संस्तुता जया देवी ॥ कुरुते शांतिं नमतां, नमो नमः शांतये तस्मै ॥ १५ ॥ इति पूर्वसूरि दर्शित, मंत्रपद-विदर्भित: स्तवः शांतेः ॥ सलिलादिभय विनाशी, शांत्यादिकरश्च भक्तिमताम् ॥ १६ ॥ यश्चैनं पठति सदा, शृणोति भावयति वा यथायोग्यम् ॥ स हि शांतिपदं यायात्, सूरिः श्रीमानदेवश्च ॥१७॥ उपसर्गाः क्षयं यांति, छिद्यंते विघ्नवल्लयः ॥ मनः प्रसन्नतामेति, पूज्यमाने जिनेश्वरे ॥ १८ ॥ सर्वमंगल मांगल्यं, सर्व कल्याण कारणम् ॥ प्रधानं सर्व धर्माणां, जैनं जयति शासनम्॥१८॥ इति॥

॥ पीछैं चीराककका अथवा बीजलीका चांदणा पड्या होय तो इरियावहि० तस्सुत्तरी० अन्नत्थ० कहि कैं, एक लोगस्सका काउ-स्सग्ग करे, प छैं प्रगट लोगस्स कही पूर्वलो परें सामायिक पारे, पीछैं एक स्तवन दादाजोको कहे ॥ इति देवसी पडिक्कमण विधिः संपूर्णः ॥

॥ अथ कमलदलस्तुतिः ॥

॥ कमलदलविपुलनयना, कमलमुखी कमलगर्भसमगौरी ॥ कमले स्थिता भगवती, ददातु श्रुतदेवता सौख्यम् ॥ १ ॥ ज्ञाना-दिगुणयुतानां, स्वाध्यायध्यानसंयमरतानाम् ॥ विदधातु भुवनदेवी, शिवं सदा सर्वसाधूनाम् ॥ २ ॥ यस्याः क्षेत्रं समाश्रित्य, साधुभिः साध्यते क्रियाः ॥ सा क्षेत्रदेवता नित्यं, भूयान्नः सुखदायिनी ॥ ३ ॥ इति क्षेत्रदेवता स्तुतिः ॥

॥ कल्याणकमला गेह, नीलदेहं महासहं ॥ नवखंडाभिधं पार्श्वं, सदा ध्यायामि मानसे ॥

॥ अथ छुटक चैत्यवंदनस्तुतिर्लिख्यते ॥

॥ तत्र प्रथम श्रीपार्श्वजिन स्तुतिः ॥

॥ सकलकुशलवल्ली, पुष्करावर्त्तमेघो, दुरिततिमिरजानुः, कल्पवृक्षोपमानः ॥ जवजलनिधिपोतः सर्वसंपत्तिहेतुः, स जवतु सततं वः, श्रेयसे श्रीपार्श्वदेवः ॥ १ ॥ इति श्रीपार्श्वजिन० ॥

॥ अथ जिनस्तुतिः ॥

॥ दर्शनाद्दुरितध्वंसी, वंदनादिच्छितप्रदः ॥ पूजानात्पूरकः श्रीणां, जिन साक्षात्सुरद्रुमः ॥ २ ॥ इति ॥

॥ अथ आदिजिन स्तुतिः ॥

॥ सुवर्णवर्णं गजराजगामिनं, प्रलंबबाहुं सुविशाललोचनम् ॥ नरामरेंद्रैः स्तुतपादपंकजं, नमामि जक्त्या रुषजं जिनोत्तमम् ॥ ३ ॥ इति आदिजिनस्तुतिः

॥ अथ शांतिजिन स्तुतिः ॥

॥ सोलम जिनवर शांतिनाथ, सेवो शिर नामी ॥ कंचन वरण शरीर कांपि, अतिशय अजिरामी ॥ अचिरा अंगज विश्वसेन, नरपति कुलचंद ॥ मृगलंठन धर पद कमल, सेवे सुरनरवृंद ॥ जुगमां अमृत जेहवी ए, जास अखंमित आण ॥ एक मनें आराधतां, लहियें कोमि कल्याण ॥ ४ ॥ श्रीशांतिनाथस्तुतिः ॥

॥ अथ नेमिनाथस्तुतिः ॥

॥ सह सम प्रणमुं नेमिनाथ, जिनवर जयवंत ॥ यादवकुल अवतंस हंस, उत्तम गुणवंत ॥ समुद्रविजय शिवा देवी जास, मति सहित उदार ॥ सुंदर श्याम शरीर ज्योति, सोहे सुखकार ॥ गढ गिरनारें जिण लह्युं ए, अमृत पद अजिराम ॥ तास क्षमा कल्याण मुनि, निशिदिन नमत कल्याण ॥ ५ ॥ इति श्रीनेमिनाथ०

॥ अथ श्रीपार्श्वनाथ स्तुतिः ॥

॥ पुरसादाणी पास नाह, नमियें मन रंग ॥ नील वरण अश्वसेन नंद, निरमल निःशंक ॥ कामित पूरण कलप साख, वामा- सुत सार ॥ श्रीगोमी पुर स्वामि नाम, जपियें निरधार ॥ त्रिभु- वनपति त्रेवीशमो ए, अमृत सम जसु वाण ॥ ध्यान धरंतां एहनुं, प्रगटे परम कल्याण ॥ ६ ॥ इति पार्श्वनाथ स्तुतिः ॥

॥ अथ श्रीमहावीर स्तुतिः ॥

॥ वंदूं जगदाधार सार, शिव संपत्ति कारण ॥ जन्म जरा मरणादि रूप, भव ताप निवारण ॥ श्रीसिद्धारथ तात मात, त्रिशला तनुजात ॥ सोवन वरण शरीर वीर, त्रिभुवन विख्यात ॥ अमृतरूपें राजतो ए, चोवीशमो जिनराय ॥ क्षमाप्रमुख कल्याण मुणि, आपो करि सुपसाय ॥ ७ ॥ इति श्री महावीर० ॥

॥ अथ पाक्षिकादि पडिकमणविधिर्लिख्यते ॥

॥ तिहां प्रथम वंदित्तु सूत्र पर्यंत देवसिक पडिक्कमी ॥ १॥ खमासमण देई देवसी आलोइयं पडिक्कंता ॥ इच्छा० ॥ सं० ॥ भ० ॥ पक्खिय मुहपत्ती पडिलेहुं ? चउमासीएं चउमासियं मुह- पत्ती, संवच्छरीये संवच्छरी मुहपत्ती पडिलेहुं ? एम कहे. पीछें गुरु कहे, पडिलेहेह ॥ पीछें इच्छं कहे, दूजी खमासमण देइ, मुहपत्ती पडिलेही, वांदणां देई, तिह [illegible] पक्खो वइक्कंतो ॥ चउमासी पडि० ॥ चउमासीउ वइक्कंतो संवच्छरीमें संवच्छरो वइक्कंतो. एम य[illegible]ोमुं कहे ॥ पीछें गुरु कहे. पुण्यवंतो देवसीने स्थानकें पा- प्रति[illegible]मासिक सांवच्छरिक भणजो. छींक जयणा करजो. म[illegible] शास[illegible]डिक्कमजो, खासें सो विवरा शुद्ध खासजो. मांडलमें सा[illegible] राज श्री, पछैं सघलाही तहत्ति कहे ॥ पीछें कवी ॥ इच्छाका[illegible]संदिसह भ० ॥ भ० ॥ संबुद्धा खामणेणं ॥ अब्भुट्ठिओमि अब्भिं-

तर पक्खियं ॥ ३ ॥ खामेऊं ? गुरु कहे, खामेह ॥ पछैं मस्तकें अंजलि करतो थको, इच्छं खामेमि पक्खियं ॥ ३॥ कह्यो, गोमंडलीयें बेसी मस्तक नमावी दक्षिण हाथ गुरु साहामो करी, मुहपत्ती मुखें देई ॥ पक्खियें पनरसण्हं दिवसाणं पनरसण्हं राईणं जं किंचि-अप्पत्तियं ॥ इत्यादि सर्व पाठ कहे, चउमासें चउण्हं मासाणं अ-ठण्हं पक्खाणं वीसोत्तरसो राइंदियाणं जं किंचि अप्पत्तियं ॥ इत्यादि कहे. संवछरीयें दुवालसण्हं मासाणं चउवीसण्हं पक्खाणं तिन्निसय-सठिराइंदियाणं ॥ जं किंचि अप्पत्तियं इत्यादि कहे ॥ तेवारें गुरु पण मिच्छामि दुक्कडं कहे ॥ तिहां वोय साधु उचरता हुवे तो पा-खियें तीन, चउमासीयें पांच, संवछरीयें सात साधुने खमावे ॥ ॥ पीछें उठी अवग्रहमांहि रह्यो कहे ॥ इच्छा० ॥ सं० ॥ भ० ॥ पक्खियं आलोवुं ? गुरु कहे आलोएह ॥ पीछें इच्छं आलोएमि, जो मे पक्खिउ ॥ ३ ॥ अइयारोकउ, इत्यादि सूत्र भणी ॥ संक्षेपे अथवा विस्तारें पाखी चउमासी संवछरी, अतिचार आलोवे, सो लिखते ह ॥

॥ अथ बृहदतिचारा लिख्यंते ॥

॥ नाणंमि दंसणंमिय, चरणंमि तवेय तहय विरियंमि ॥ आयरणं आयारो, इअ एसो पंचहा भणिओ ॥ १ ॥ ज्ञानाचार १, दर्शनाचार २, चारित्राचार ३, तपाचार ४, वीर्याचार ५. एवं पांच विधि आचारमांहि जिको अतिचार पक्ष दिवसमांहि सूक्ष्म, वादर, जाणतां अणजाणतां हुओ होई, ते सहू मन, वचन, कायाइं करी मिच्छामि दुक्कडं ॥

॥ अथ ज्ञानाचारना आठ अतिचार ॥

॥ काले विणए बहुमाणे, उवहाणे तहय निन्हवणे ॥ वंजण

अत्थ तदुभए, अठविहो नाण मायारो ॥ १ ॥ ज्ञानः—कालवेला-मांहि पढिउं गुणिउं नहो, अकालें पढिउं, विनय हीन बहुमाने हीन उपधान हीन श्री उपाध्यायकनें नही पढिउं, अथवा अनेरा-कने पढिउं अनेरो गुरु कह्यो व्यंजन अर्थ तदुभय कूडो पढ्यो, देव वांदणे पडिक्कमणे सिझाय करतां, पढतां, गुणतां, कूडो अक्षर काने मात्रें अधिको ओछो आगल पाछल भण्यो, सूत्र अर्थ कूडा भण्या, भणीनें वोसार्यो, तपोधन तणे धर्मे काजो अण ऊधरे दांडो अण-पडिलेही, वसती अणसोधी, असिझाई अणोझा कालवेलामांहि दशवैकालिक प्रमुख सिद्धांत भण्यो गुण्यो, योग वह्यां पखें भण्यो ज्ञानोपगरण पाटो, पोथी, ठवणो, कवली, नवकरवाली, सांपडा सांपडो वही दस्तरी ओलीया कागल प्रमुखप्रतें आशातना हुई, पग लागो थूंक लागो ओसासे मूक्यो कनें छतां आहार नीहार कीधो, ज्ञानद्रव्य भक्षण भक्षण उपेक्षण कीधो, प्रज्ञापराधें विणाश्यो विणसतो उवेख्यो, छती शक्तें सार संभाल न कीधी, ज्ञानवंत प्रतें मच्छर वह्यो, अवज्ञा आशातना कीधी, कोई प्रतें भणतां गुणतां प्रद्वेष मत्सर अंतराय अपघात कीधो. मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधि-ज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, केवलज्ञान. ए पांच ज्ञानतणी असद्दहणा कीधी, कोई तोतडो बोबडो हस्यो, वितर्क्यो आपणा जाणपणा तणो गर्व चिंतव्यो, अष्टविध ज्ञानाचार विषइओ जिको अतिचार पक्ष दिवसमांहे सूक्ष्म, बादर, जाणता, अजाणतां, हुवो होय, ते सहु मन वचन कायाइं करी मि० ॥

॥ दर्शनाचारना आठ अतिचार ॥

॥ निस्संकिय निकंखिअ, निव्वितिगिछा अमूढदिट्ठी अ ॥ उववूह थिरीकरणे, वच्छल पभावणे अठ ॥ १ ॥ देव गुरु धर्म तणे विषे निःशंकपणो न कीधो, तथा एकांत निश्चय धर्यो नहीं,

सचलाइ मत भला छे, एहवी श्रद्धा कीधी, धर्मसंबंधिया फलतणे विषे निःसंदेह बुद्धि धरी नही. चारित्रिया साधु साधवी तणां मल-मलीन गात्र देखी दुगंछा उपजावी, मिथ्यात्वीतणी पूजा प्रभावना देखी, मूढदृष्टिपणो कीधो, संघमांह गुणवंततणी अनुपबृंहणा अ-स्थिरी करण अवात्सल्य अप्रीति अभक्ति चितवी. संघमांहे थिरीक-रण वात्सल्य शक्ति छते प्रभावना न कीधी. देवद्रव्य विनाशिउं, विणसंतुं उवेखीउं. छतो शक्ते सार संभाल न कीधी, साधर्मिकशुं कलह कर्म कीधुं, जिन भवन तणी चोराशी आशातना कीधी, गुरुप्रते तेत्रीश आशातना कीधी, अधोतवस्त्रे देवपूजा कीधी, तिहुं ठाम पाखें देवपूजा, वासकूपी कलश तणो ठबको लागो, मुखतणी वाफ लागी, ठवणारिय हाथथकी पडीओ, पडिलेहवो वीसारयो, नवकरवालीनें पग लागो, दर्शनाचार विषईओ जिको अतिचार० ३

॥ चारित्राचारना आठ अतिचार ॥

॥ पणिहाणजोगजुत्तो, पंचहि समिईहिं तिहि गु[illegible] चरित्तायारो, अट्ठविहो होइ नायव्वो ॥ १ ॥ इरियासमिती [illegible] सासमिती २, एषणासमिती ३, आयाणभंडमत्तनिक्खेवणा[illegible] ४, उच्चारपासवणखेलजल्लसंघाणपारिठावणीयासमिती ५. म[illegible] १. वचनगुप्ति २, कायगुप्ति ३, ए पंच समिती तीन गुप्ति. [illegible]पें पाली नहीं ॥ साधु तणे सदैव श्रावक तणे पोसह प[illegible]ण लीधे अष्टविध चारित्राचार विषईओ जिको अतिचार० ॥ ४ ॥

॥ विशेषतः श्रावकतणे धर्मे श्रीसम्यक्त्वमूल बारह व्रत श्री सम्यक्त्वतणा पांच अतिचारः—संका कंख विगिच्छा, पसंस तह संथवो कुलिंगीसु ॥ संकाः--श्रीअरिहंत तणी बल अतिशय ज्ञान लक्ष्मी गांभीर्यादिक गुण, शाश्वती प्रतिमा चारित्रियानां चारित्र जिनवचन तणो संदेह कीधो. आकांक्षाः--ब्रह्मा विष्णु महेश्वर क्षेत्र-

पाल गोगो गोत्रदेवता ग्रह पूज्या विणाइग हनुमंत इत्येवमादिक ग्राम गोत्र देश नगर जूजूआ देव देहरानां प्रभाव देखी रोगें आतंकें इहलोक परलोकार्थें पूज्या मान्या, बौद्ध सांख्यादिक संन्यासी भरडा भगत लिंगिया योगी दरवेश अनेराई दर्शनियानो कष्ट मंत्र चमत्कार देखी, परमार्थ जाण्या विण भूल्या, अनुमोद्या, कुशास्त्र शीख्यां, सांभल्यां, शराध संवत्सरी होली बलेव माहीपूनिम अजापडिवो प्रेतबीज गोरत्रीज विणायगचोथ नागपांचम झूलणाछठ शीलसातम भ्रो आठम नउली नवम अहवदसम व्रत इग्यारस वत्सवारस धनतेरस अनंतचौदश आदित्यवार उत्तरायण नवोदक, जाग भोग उतारणा कीधा, पिंपल पाणी घाल्यां घलाव्यां घर बाहिर कूई तलाव नदी समुद्र कुंडमें पुण्य हेतु स्नान कीधां, दान दीधां, ग्रहण शनिश्चर माहमास नवरात्रि नाहिया, अजाणनां थाप्यां, अनेराई व्रत व्रतोलां कीधां, कराव्यां. वितिगिच्छाः—धर्मसंबंधिया फल तणो संदेह कीधो. जिण अरिहंत धर्मना आगर विश्वोपकार सागर मोक्षमार्ग दातार देवाधिदेव बुद्धें शुद्ध भावें न पूज्या, न मान्या, महात्माना भात पाणी तणी दुगंछा कीधी, कुचारित्रिया देखी चारित्रिया ऊपरें अभाव हुओ मिथ्यात्वी तणी प्रभावना देखी प्रशंसा कीधी, प्रीति माडी, दाक्षिणलगें तेहनो धर्म मान्यो ॥ श्रीसमकितविषे अनेरो जिको अतिचार पक्ष दिवसमांहि सूक्ष्म, बादर, जाणतां अजाणतां हुओ होय, ते सहू मन, वचन, कायाइं करी मिच्छामि० ॥ १ ॥

॥ पहिले प्राणातिपात विरमणव्रतें पांच अतिचार. वह बंध छविच्छेए, अइभारे भत्तपाण वुच्छेए ॥ द्विपद चउपद प्रतें रीशवशें गाढो घाउ प्रहार घाल्यो, गाढे बंधन बांध्यां, घणे भारे पोड्या, निर्लांछन कर्म कीधां. चारा पाणी तणी वेला सार सं-

आल न कीधो, लहिणे देणे किणहीप्रतें लंघाव्युं, तेणें भूखे आपण जिम्या. अणगल पाणी वावर्युं, रूडे गल्युं नहीं, गलाव्युं नहीं, अणगल पाणी झील्यां लूगडां धोयां, इंधण अणशोध्युं बाल्युं. साप कानखजूरा सुलहलां मांकड जूआ गोगिंडा साहतां मूआं, दूखव्यां, रूडे थानक न मूक्या, कोडी मकोडा उदेही घीवेली कातरा चूडेली पतंगिया डेडकां अलसिया इली कूति डांस मसा वगतरा माखी प्रमुख जे कोई जीव विणठा चांपिया दूहव्या माला हलावतां पंखी काग चिडकलानां इंडां फूटां, अनेरा एकेंद्रियादिक जिके जीव विणठा चाप्या, दूहव्या, हालतां चालतां अनेरे कांइ काम काज करतां निध्वंसपणुं कीधुं. जीव रक्षा रूडे न कीधी, संखारो सूकव्यो, सुल्या धान तावडे दीधां, दलाव्यां, भरडाव्यां, खाटला तावडे झाटक्या, मूक्या, मूकाव्या, जीवाकुल भूमि लीपावी, वाशी गार राखी रखावी, दलणे खांडणे लीपणे रूडी जयणा न कीधी. आठम चउदशना नियम भांग्या, धूणी करावी ॥ पहिला प्राणातिपात व्रत विषइओ अनेरो० ॥ १ ॥

॥ बीजुं स्थूल मृषावाद विरमणव्रतें पांच अतिचार ॥

॥ सहसा रहस्सदारे, मोसुवएसे य कूड लेहे य ॥ सहसात्कारः—किणहिक प्रतें अजुक्तो आल दीधो, किणहिक प्रतें एकांतें वात करतां देखी तुम्हें तो राजविरुद्ध चिंतवो छो. इत्यादिक कह्युं. स्वदार मंत्र भेद कीधो, अनेराई किणहीनो मंत्र आलोच मर्म प्रकाश्यो, किणहीनें कूडी बुद्धि दीधी, कूडो लेख लिख्यो, कूडी साख भरी, थापण मोसो कीधो, कन्या ढोर गाय भूमि संबंधिया लेहणें देवणें व्यवसाय वाद वदावदि करतां मोटकुं झूठ बोल्युं, हाथ पग भरी गाल दीधी, कडका मोड्या, अधर्म्म वचन बोल्यां ॥ बीजे मृषावाद व्रत विषइ० ॥

॥ त्रीजे अदत्तादानविरमण व्रतना पाच अतिचार ॥ तेनाहडप्पओगे. घर बाहिर क्षेत्र खले पराई वस्तु अणमोकलावी लीधी, दीधी, वावरी, चोरीनी वस्तु मोल लीधी, चोर धाडीत प्रतें संबल दीधुं, संकेत कर्युं विरुद्ध राज्यातिक्रम कीधो, नवा पुराणां सरस विरस सजीव निर्जीव वस्तु तणा भेल संभेळ कीधा, खोटे तोल मानें माप वहोर्‍यां, दाणचोरी कीधो, साटे लांच लीधी, माता पिता पुत्र कलत्र परिवार वंची जूदो गांठ कीधी, किणहोनें लेखे पलेखे भुलव्युं, पडी वस्तु ओलवी लीधी, त्रीजे अदत्तादान व्रत विषइओ० ॥

॥ चोथे स्वदार संतोष मैथुनव्रतें पांच अतिचार ॥ अपरिग्गहिया इत्तर, अणंग वीवाह तिव्वअणुरागे ॥ अपरिगृहीतागमन, इत्वरपरिगृहितागमन. विधवा वेश्या स्त्री कुलाङ्गना स्वदार शोकतणे विषे दृष्टिविपर्यास कीधो, सराग वचन बोल्यां, आठम चउदस अनेराई पर्व तिथि तणा नियम भांग्या, घरघरणां कीधां, कराव्यां, अनुमोदीयां, कुविकल्प चिंतव्या, अनङ्गक्रीडा कीधो, पराया विवाह जोड्या काम भोगतणेविषे तीव्राभिलाष कीधो, कुस्वप्न लाधां, नट विट पुरुषशुं हांसुं कीधुं, चोथें मैथुन व्रत वि०

॥ पांचमे परिग्रहपरिमाणव्रतें पांच अतिचार ॥ धण धन्न खित्त वत्थू ॥ धन धान्य क्षेत्र वस्तु रूप्प सुवर्ण कुप्प द्विपद चतुष्पद नव परिग्रह तणा नियम उपरांत वृद्धि देखी मूर्च्छा लगें संक्षेप न कीधो, माता पिता पुत्र कलत्रादि तणे लेखें कीधो, परिग्रह परिमाण लेई पढ्यो नहीं. पढी वीसारिओ, नियम वीसारिओ ॥ पांचमे परिमाण व्रतविषइओ० ॥

॥ छट्ठे दिग्विरमणव्रतें पांच अतिचार ॥ गमणस्सय परिमाणे ॥ ऊर्द्धदिसि अधोदिसि तिर्यग्दिसि जायवा आयवा तणो

नियम जे कोई अजाणे भागो, एक गमा संकोडी बीजी गमा वधारी, विस्मृति लगें अधिक भूमि गया, पाठवणी आघी मोकली ॥ छठे दिग्व्रत वि० ॥ ६ ॥

॥ सातमे भोगोपभोग परिमाण व्रत ॥ जेहना भोजन आश्री पांच अतिचार अने करमहूंती पन्नरे, एवं वीश अतिचार॥ सच्चिते पडिबद्धे, अपोल दुप्पोलयं च आहारे०सच्चित्त तणे नियम लीधे अधिक सच्चित्त लीधुं, तथा सच्चित्त मली वस्तु अपक्काहार दुपक्काहारे तुच्छौषधि तणुं भक्षण कीधुं. होला उंबी पहुंक काकडी भडथां कीधां, सुल्यां धान प्रमुख भक्षण कीधां ॥ सच्चित्त दव्व विगई, पाणह तंबोलवत्थ कुसुमेसु ॥ वाहण सयण विलेवण, बंभ दिसि ण्हाण भत्तेसु ॥ १ ॥ ए चवदे नियम दिन प्रते संभार्या संक्षेप्या नहिं, लेई नियम भांग्या. बावीस अभक्ष, बत्तीस अनंतकायमांहि आदुं मूला गाजर पींडालू सूरण सेलरां काची आंबली गोल्हां खाधां, चोमासा प्रमुखमांहे वासी कठोलनी रोटी खाधी. त्रिहुं दिवसनुं दही लीधुं, मधु महुडां माखण माटी वेंगण पीलू पीचू पंपोटा पींपी विष हीम करहा घोल वडां अणजाण्यां फल टींबरुं अथाणुं आमणबोर काचुं मीठुं, तिल खसखस काचां कोठिंबडां खाधां, रात्रिभोजन कीधुं, लगबगती वेलायें व्यालू कीधुं, दिवस उग्या विण शिराव्या तथा पन्नरे कर्मा-दान इंगालिकम्मे, वणकम्मे, साडीकम्मे, भाडीकम्मे, फोडीकम्मे दंत वाणिज्ये, लक्ख वाणिज्ये, रस वाणिज्ये, केश वाणिज्ये, विष वाणिज्ये, जंत पीलणकम्मे, निल्लंछणकम्मे, दवग्गिदावणया, सर दह तलाव सोसणया, असई पोसणया, ए पांच वाणिज्य पांच कर्म्म, पांच सामान्य, महारंभ लहाला कराव्या. इंटवाह नीवाह पचाव्या, धाणी चणा पक्वान्न करी वेच्या. वासी माखण तपाव्यां, अंगीठा

कोधा कराव्या, तिलादिक संचीया, फागुण मास उपरांत राख्या; कूकडा सूडा प्रमुख पोष्या, अनेरुं जे कांई बहु सावद्य कठोर कर्मादिक समाचर्युं ॥ सातमा भोगोपभोग व्रत विषइओ० ॥

॥ आठमा अनर्थ दंड विरमणव्रतना पांच अतिचार ॥ कंदप्पे कुक्कुइए० ॥ कदर्प्प लगें विटनी परें हास्य कुतूहल मुखादि अंग कीधी, मूरखपणा लगें कुणहोने असंबद्ध वाक्य बोल्या. कटारो कुसि कुहाडा रथ ऊखल मूसल अगन घरटी आदिक री मेल्या, माग्यां आप्यां, कणक वस्तु ढोर लेवराव्यां, अ- ांइ पापोपदेश दीधो, अंघोल नाहण, दांतण, पगधोअण तेल अधिक आण्यां, हींडोले हींच्या, राजकथा देशकथा था स्त्रीकथा पराइ वात कीधी, आर्त्त रौद्र ध्यान ध्यायां, ा वचन बोल्या, करडका मोड्या, संभेडा लाया, भेंसा सांढ डा, मिंढा श्वानादि जूझतां कलह करतां जोयां, खाधी लगें खाई चिंतवी माटो मीठुं कण कपासिया काजविण चांप्या, उपर बयठा, आले वनस्पति खुंदी, छास पाणी विरस तेल आम्लवेतरस बेरजादिक तणां भाजन उघाडां मूक्यां. ते कीडो कंथुआ माखी उंदर गिरोली प्रमुख जीव विणठा, सूडा जीव क्रीडा हेतें बांधी राख्या, घणी निद्रा कीधी, राग द्वेष ने ऋद्धि परिवार वांछी एकनें मृत्युहाणि विमासी आठमा व्रतवि० ॥

नवमा सामायिकव्रतनें पांच अतिचार ॥ तिविहे दुप्पणिहाणे सामायिक लीधे मन आहट दोहट चिंतव्युं, वचन सावद्य बोल्युं, काय अण पडिलेह्युं हलाव्युं, छती वेलाइं सामायिक न लीधुं, सामायिक लई उघाडे मुख बोल्या, ऊंघ आवी कोधी, वीज दीवा तणी उजाही लागी. कण कपासोया माटो मीठुं नील फूल

हरिकायना संघट्ट हुआ, पुरुष तिर्यंचना संघट्ट हुआ. तथा स्त्री तिर्यंची आभडी, मुहपत्तीयो संघट्टी, सामायिक अण पूरउं पारिउं पारवुं वीसारिउं, नवमे सामायिक व्रतविषइयो० ॥

॥ दशमे देशावकाशिक व्रतें पांच अतिचार ॥ आणवणे पेसवणे० ॥ आणवणप्पओगे पेसवणप्पओगे सद्दाणुवाइ रूवाणु- वाइ वहिया पुग्गल क्खेवे ॥ नियमित भूमिकामांहिवाहिर थको कांइ अणाव्युं, आप कन्हाथी वाहिर मोकल्या, साद करी रूप देखाडी कांकरी नाखी आपणपणुंछतुं जणाव्युं ॥ दशमे देशाव- कासिग व्रतविषइयो० ॥ १० ॥

॥ इग्यारमे पोषधोपवास व्रतें पांच अतिचार ॥ संथारुच्चार विही, पमाय तह चेव भोअणा भोए० ॥ पोसह लीधे संथारा तणी भूमि वाहिरला थंडिला दिवसें शोध्यां पडिलेह्यां नहीं, मातरुं अण- पडिलेहुं वावरिउं, अणपुंजी भूमिकाइं परठविउं, परठवतां चिन्तवणा न कीधी, अणुजाणहजस्सुग्गहो न कह्यो. परठव्यां पुठें वार त्रण वोसिरामि वोसिरामि न कह्युं. पोसहशालामांहि पइसतां नीसरतां निस्सही आवस्सही कहेवी वीसारी, पृथ्वीकाय, अप्पकाय तेऊकाय वाउकाय वनस्पतिकाय त्रसकाय तणा संघट्ट परिताप उपद्रव हुआ संथारा पोरसि तणो विधि भणवो वीसारिओ. पोरसिमांहि उंघ्या अविधि संथारुं पाथर्युं, काल वेलायें पडिक्कमणुं न कीधुं, पारणा दिक तणी चिंता निपजावी, कालवेला देव वांदवा वीसारिया पोसह असूरो लीयो, सवारो पारयो, पर्व तिथि आवी पोस लीधो नही ॥ इग्यारमे पोषधोपवास व्रतविषइयो० ॥

॥ वारमे अतिथि संविभागव्रतें पांच अतिचार ॥ सच्चि निक्खवणे० ॥ सच्चित्तवस्तु हेठे ऊपरि थके महातमा प्रतें असूझ दान दीधुं, अदेवा तणी बुद्धें सूझतुं फेडी असूझतुं कीधुं, दे

तणी वुद्धें असूझतुं फेडी सूझतुं कीधुं, आपणुं फेडी परायुं कीधुं, विहरवा वेला टलि गया असुर करी महातमा तेड्या, मत्सरलगें दान दीधुं, गुणवंत आवे भगति न साचवी, छती शक्ति साधर्मिक वात्सल्य न कीधुं, अनेराइ धर्म्म क्षेत्र सीदाता छती शक्तें उद्धर्या नही ॥ वारमे अतिथि संविभाग व्रतविषइयो० ॥

॥ संलेहणा तणा पांच अतिचार. इहलोए परलोए० ॥ इहलोका संसप्पउगे परलोगासंसप्पउगे जीविआसंसप्पउगे मरणा संसप्पउगे कामभोगासंसप्पउगे इहलोक मनुष्यभव मान महत्व लोक तणी सेवा ठकुराई बलदेव वासुदेव चक्रवर्ति पद वांछयां. परलोक इंद्र अहमिंद्र देवाधिदेव पदवी वांछी, सुख आव्ये जीववा तणी वांछा कीधी, दुःख आव्ये मरवातणी वांछा कीधी, कामभोग तणी इच्छा कीधी ॥ संलेहणाव्रतवि० ॥

॥ तपाचार वारभेदे ॥ छ अभ्यंतर, छ बाहिर, अणसणमूणोयरिया, अणसण कहीयें उपवास, ते पर्वतिथि छती शक्त कीधुं नही. ऊणोदरी ते पांच सात कवल ऊणा रह्या नही, द्रव्य संक्षेप विगय प्रमुख परमाण कीधुं नहीं. आसनादिक काय किलेश न कीधो, संलीणता अंगोपांग संकोच्यां नहीं, नवकारसी पोरसी गंठसी मूठसी साढपोरसि पुरिमढ्ढ एकासणो बेआसणो नीवी आंबिल प्रमुख पच्चक्खाण पारवां वीसार्यां. वेसतां नवकार भण्यो नही, ऊठतां दिवसचरिमं न कीधुं, नीवी आंबिल उपवासादिक तप करी काचुंपाणी पीधुं, वमन थयुं ॥ वाह्य तपव्रत विषइयो० ॥

॥ अभ्यंतर तप॥ पायच्छितं विणओ० गुरुकनें मन सुद्धें आलोयणा लीधी नही, गुरुदत्त प्रायश्चित तप लेखा शुद्ध पुहचाडयुं नहीं, देव गुरु संघ साहम्मो प्रतें विनय साचव्यो नही; वाचना पृच्छना परावर्त्तना अनुप्रेक्षा धर्मकथा लक्षण पंचविध सिज्झाय

कीधी नहीं, धर्म्मध्यान शुक्लध्यान ध्यायुं नही, कर्म क्षय निमित्त लोगस्स दस वीसनो काउस्सग्ग न कीधो॥ अभ्यंतर तप विषइयो० ॥

॥ वीर्याचारना तीन अतिचार ॥ अणगूहिय बलविरीओ, परिक्कमइ जो जहुंत ठाणेसु ॥ जुंजइअ जहा थामं, नायव्वो वीरियायारो ॥ १ ॥ पढवे गुणवे विनय वेयावच्च देवपूजा सामायिक दान शील तप भावना प्रमुख धर्म्म कृत्यतणे विषे मन वचन कायतणुं छतुं बल वीर्य गोपव्युं, रूडां पंचाङ्ग खमासमण न दीधां, वेठां पडिक्कमणुं कीधुं ॥ वीर्याचारव्रत विषइयो० ॥

॥ नाणाइ अठ अइ वय, समसंलेहण पण पनर कम्मेसु ॥ बारस तवविरिअ तिगं, चउवीसं सय अईयारा ॥ १ ॥ पडिसिद्धाणं करणे० ॥

॥ जिनप्रतिषिद्धबावीस अभक्ष्य बत्तीस अनंत काय बहुबीज भक्षण महाआरंभ महापरिग्रहादिक कीधां, नित्यकृत्य देवपूजा सामायिकादिक तथा तीर्थ यात्रादिक न कीधां, जीवाजीवादि विचार सद्दहिया नहीं, आपणी कुमति लगें उत्सूत्र प्ररूपणा कीधी; प्राणातिपात १, मृषावाद २, अदत्तादान ३, मैथुन ४, परिग्रह ५, क्रोध ६, मान ७, माया ८, लोभ ९, राग १०, द्वेष ११; कलह १२, अभ्याख्यान १३, परपरिवाद १४, पैशून्य १५, अरतिरति १६, मायामृषावाद १७, मिथ्यात्वशल्य १८. ए अढारह पापस्थानकमांहि जे कांइ कीधो कराव्यो अनुमोद्यो ॥ एवं प्रकार श्रावक धर्मे श्री सम्यक्त्व मूल बारह व्रत चोवीसां सो अतिचार मांहि जिको कोइ अतिचार पक्ष दिवसमांहि सूक्ष्म बादर जाणता अजाणतां हुवो होय ते सहू मन वचन कायायें करी मिच्छामि दुक्कडं ॥ इति श्रीश्रावकोंके बारह व्रतका अतिचार संपूर्ण ॥

॥ पीछें सव्वस्सवि पक्किय ॥ इत्यादि इच्छाकारेण संदिस्सह पर्यंत कहे. तेवारें गुरु कहे. चनछ्ठेण पम्किक्कमह, चनमासे छट्ठेण पम्किक्कमह, संवच्छरीयें अट्ठमेण पम्किक्कमह. इच्छं तस्स मिच्छामि डुक्कमं कही. द्वादशावर्त्त वांदणां देवे. पीछें इच्छाकारेण संदिस्सह जगवन्, देवसियं आलोइयं पम्किक्कंता ॥ १ ॥ पत्तेयखामणेणं, अप्नुठ्ठिनमि आप्निंतरपक्कियं ॥ २ ॥ खामेकं? गुरु कहे खा० ॥ पीछें इच्छं खामेमि पक्कियं ॥ ३ ॥ इत्यादि पाठ सर्व पूर्वें कह्यो, तिम कही मिच्छामि डुक्कमं देई खमावे, पीछें बे वांदणां देई. जगवन्! देवसियं आलोइयं पम्किक्कंता पक्कियं ॥ ३ ॥ पम्किक्कमावह ? गुरु कहे सम्मं पम्किक्कमह. पीछें इच्छं कही करेमि जंते सामाइयं॥इच्छामि गमि कानस्सग्गं जो मे पक्किन ॥३॥ इत्यादि कही, तस्सुत्तरी० अन्नत्रू०॥कही॥ कानस्सग्ग करे, गुरु, पाखीसूत्र कहे, ते सांजले, अने गुरुथकी जूदा पम्किक्कमता हुवे, तो एक श्रावक खमासमण देई कहे. जगवन्! सूत्र जणुं? गुरु कहे, जणेह. एसो वचन मनमें धारी॥इच्छं कही, नजो थको, हाथ जोमी मुहपत्ती मुखें देई, तीन नवकार कही, मधुर स्वरें सूत्रार्थ मनमें चिंतवतो वंदित्तु सूत्र गुणे. बीजा श्रावक करेमि जं ते० इच्छामि गमि कानस्सग्ग तस्सुत्तरी० अन्नत्रू० कही कानस्सग्गमें रह्या सुणे. सूत्रप्रांतें णमो अरिहंताणं कही. कानस्सग्ग पारी, नजा थका तीन नवकार गुणी बेसे. पीछें ॥ ३ ॥ नवकार ॥ ३ ॥ करेमि जं ते कही, इच्छामि पम्किक्कमिनं जो मे पक्किन ॥ ३ ॥ इत्यादि कही, वंदित्तु सूत्र गुणे, पम्किक्कमे देवसियं सव्वं ॥ एहने ठिकाणें पम्किक्कमे पक्कियं, चनम्मासियं संवच्छरियं सव्वं कहे. पीछें नगी, अप्नु- ठ्ठिओमि आराहणाए इत्यादि पूर्ण जणी, खमासमण देई इच्छा० ॥ सं० ॥ ज० ॥ मूलगुण नत्तरगुण अतिचार विशुद्धि निमित्तं, कानस्सग्ग करूं ? गुरु कहे करेह. पीछें इच्छं कही, करेमि जंते

सामा० इच्छामि ठामि काउस्सग्गं तस्सु० अन्नत्थू० इत्यादि कही, पाखीयें बार लोगस्स चउमासियें वीस लोगस्स संवच्छरीयें चालीस लोगस्सनो काउस्सग्ग करे, एक नवकार ऊपर, काउस्सग्ग करी. पारी लोगस्स कहे. बेसी मुहपत्ती पडिलेही, बे वांदणां देई इच्छा० ॥ सं० ॥ ज० ॥ समाप्ति खामणेणं ॥ अब्भुट्ठिओमि अभिंतर प- क्खियं ॥ ३ ॥ खामेऊं ? गुरु कहे खामेह. पीछें इच्छं खामेमि पं- क्खियं ॥ इत्यादि पाठ पूर्वें कह्यो. तिम कहे, पीछें इच्छाका० ॥ सं०॥ज०॥पाखी॥३॥ खामणां खामू ? गुरु कहे, पुण्यवंतो चार वेर खमासमण देई. तीन तीन नवकार कही, पाखी ॥ ३ ॥ समाप्त खामणां खामेह, पीछें श्रावक एक खमासमण देई. मस्तक नीचुं नमावी, तीन नवकार गुणे, इम चार वार कहे, पीछें गुरु कहे नित्थारग पारगाहोह. पीछें श्रावक कहे. इच्छं इच्छामि अणुसट्ठिं कही, गुरु कहे, पुण्यवंतो पाखीने लेखे, एक उपवास अथवा दोय आं- बिल अथवा तीन नीवी, अथवा चार एकासणां, अथवा बे हजार सज्झाय करी, एक उपवासनी पेठें पूरज्यो, पाखीनें स्थानकें देवसिक जाणजो. एम चउमासे ए सर्व डुगुणो कहणो, संवच्छरीयें त्रिगुणो कहणो. पीछें जिणें तप कीधो हुवे ते पइट्ठियं कहे, न कीधो हुवे ते तहत्ति कहे ॥ पीछें बे वांदणां देई, अब्भुट्ठिओमि अ- भिंतर देवसियं खामेमि इत्यादि कहे. पीछें बे वांदणा देई. आय- रिय उवज्झाए० तीन गाथा कहे, इम आगें सर्व विधि देवसिक पडिक्कमणानी करे, पण इतरो विशेष है. श्रुतदेवतानो काउस्सग्ग करी स्तुति कहे. पीछें भवण देवयाए करेमि काउस्सग्गं. इत्यादि विधें भवनदेवताको काउस्सग्ग करी स्तुति कहे, सो लिखते हैं.

॥ अथ भुवनदेवता स्तुति ॥

॥ चतुर्वर्णाय संघाय, देवी भुवनवासिनी ॥ निहत्य दुरि- तान्येषा, करोतु सुखमक्षयम् ॥ १ ॥

...देवतानो काउस्सग्ग करे, तथा तीने पर्वे वडा स्तवन अजितशांति कहणी, लघु स्तवन उपसर्गहर स्तोत्र कहणो, तथा पडिक्कमणो पूरो हुवा पीछे एक श्रावक गुर्वाज्ञायें, नमोऽर्हत्सि-द्धा० कही, वडी शांतिका स्तोत्र कहे, बीजा सर्व सुणे, जिणनें रात्रि पोसह न हुवे, ते पोसह सामायिक पारी सांभले ॥ इति पाक्षिकादि तीन पडिक्कमणविधि ॥

॥ अथ दस पच्चख्खाणविचार लिख्यते ॥

॥ तिहां प्रथम चउदे नियम संभारे, सो इस तरें पच्चख्खाण करे ॥ उग्गए सूरे नमुक्कार सहियं मुंठसहियं पच्चख्खाइ चउविहंपि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं विगइउ पच्चख्काइ. अन्नत्थणा-भोगेणं सहसागारेणं लेवालेवेणं गिहित्थसंसिठेणं उख्खित्तविवेगेणं पडुच्चमख्खिएणं पारिठावणियागारेणं महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्ति-यागारेणं देसावगासियं भोगपरिभोगं पच्चख्काइ. अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरइ ॥ इति नवकारसी पच्चख्काण ॥ १ ॥

॥ तथा जो श्रावक नियम संभारे नहिं, सो विगइका उर देसावगासिकका आगार न पच्चख्के. निकेवल नवकारसी आदिक पच्चख्काण करे. सो लिखते हैं ॥

॥ उग्गए सूरे नमुक्कार सहियं पच्चख्काइ ॥ चउविहंपि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं अन्न० ॥ सह० वोसिरामि ॥ इति नव-कारसी पच्चख्काण ॥ आगार ॥ २ ॥

॥ पोरसी मुंठसी पच्चख्कामि, उग्गए सूरे चउविहंपि आहारं ...णं खाइमं साइमं अन्न०॥ सहसा०॥ पच्छन्नकालेणं दिसा... साहुवयणेणं सव्व० विगइउ पच्चख्कामि. इत्यादि पूर्वकी

परें कहणां ॥ इति पोरिसी पच्चरकाण ॥ २ ॥ आगार ॥ ६ ॥

॥ इस माफक साढ पोरसीका पच्चरकाण जाणना. इतना विशेष है, पोरसिं पच्चरकाइके ठिकाने इहां साढपोरसिं पच्चरकाइ कहणां ॥ इति साढ पोरसिपच्चरकाण ॥ आगार ॥ ६ ॥

॥ सूरे उग्गए पुरिमढं अवढं वा पच्चरकाइ, चउविहंपि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं अन्न० ॥ सह० ॥ पच्छ० ॥ दिसामो० ॥ साहु ॥ मह० ॥ सव्व० ॥ विगइउ पच्चरकाइ इत्यादि पूर्ववत् ॥ इति पुरिमढपच्चरकाण ॥ ३ ॥ आ० ॥ ७ ॥

॥ पोरसिं साढ पोरसिं वा पच्चरकाइ, उग्गए सूरे चउविहंपि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं अन्न० सह० पच्छ० दिसा० साहु० सव्व० एकासणं विआसणं वा पच्चरकाइ. दुविहं तिविहंपि आहारं असणं खाइमं साइमं अन्न० सह० सागारिआगारेणं आउट्टणपसारेणं गुरुअब्भुट्ठाणेणं पारि० मह० सव्व० देसावगासियं० इत्यादि पूर्ववत् ॥४॥ इति एकासण विआसण पच्चरकाण ॥आ०८॥

॥ पोरसिं साढ पोरसिं वा पच्चरकाइ. उग्गए सूरे चउविहंपि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं अन्न० सह० पच्छन्नका० दिसा० साहु० सव्व० एकासणं एगठाणं पच्चरकाइ. दुविहं तिविहं चउविहंपि आहारं असणं खाइमं साइमं अन्न० सह० सागारिआगारेणं गुरुअब्भुट्ठाणेणं पारिठाव० मह० सव्व० देसाव० इत्यादि पूर्ववत् ॥ ५ ॥ इति एकलठाणा पच्चरकाण ॥ आगार ॥ ७ ॥

॥ पोरसिं साढ पोरसिं वा पच्चरकाइ. उग्गए सूरे चउविहंपि आहारं असणं पाणं खाइमं सा० अन्न० सह० पच्छ० दिसामो० साहु० सव्व० आयंबिलं पच्चरकाइ. अन्नत्थ० सह० लेवालेवेणं गिहत्थसंसिट्ठेणं उक्खित्तविवेगेणं पारिठा० मह० सव्व० एकासणं पच्चरकाइ. तिविहंपि आहारं असणं खाइमं साइमं अन्न० सह०

सागारिआगारेणं आनंटणपसारेणं गुरुअप्नुठाणेणं पारिठा० मह० सव० वोसिरइ ॥ ६ ॥ इति आंबिल पच्चरकाण ॥ आगार ॥ ए ॥

॥ पोरसिं साढ पोरसिं वा पच्चख्खाइ. नुग्गए सूरे चनव्विहंपि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं अस्सन्न० सह० पच्च० दिसा० साहु० सव्व० ॥ निव्विगइयं पच्चख्खामि. अस्स० सह० लेवालेवेणं गिहचसंसिठेणं नखित्तविवेगेणं पमुच्चमख्खिएणं पारि० मह० सव्व० एकासणं पच्चख्खाइ. तिविहंपि आहारं असणं खाइमं साइमं अस्स० सह० सागा० आनंट० गुरु० पा० मह० सव्व० देसावगासियं नोगपरिन्नोगं पच्चख्खामि. अस्स० सह० मह० सव्व० वोसिरामि ॥ इति नीवी पच्चख्खाण ॥ आगार ॥ ए ॥

॥ सूरे नुग्गए अप्नत्तठं पच्चख्खामि. चनव्विहंपि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं अस्स० सह० मह० सव्व० देसावगासियं नोगपरिन्नोगं पच्चख्खामि. अस्स० सह० म० सव्व० वोसिरामि ॥ इति चनविहार नपवास पच्चख्खाण ॥ ए ॥

॥ सूरे नुग्गए अप्नत्तठं पच्चख्खामि. तिविहंपि आहारं असणं खाइमं साइमं अ० सह० पाणाहार पोरसिं साढ पोरसिं पुरिमढ अवढं वा पच्चख्खाइ अस्स० सह० पच्च० दिसा० साहु० सव्व० देसावगासियं नोगपरिन्नोगं पच्चख्खामि. अ० स० म० सव्व० वोसिरामि ॥ इति तिविहार नपवास पच्चख्खाण ॥

॥ पोरसिं साढ पोरसिं पुरिमढ अवढं वा पच्चरकामि. नुग्गए सूरे चनव्विहंपि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं अ० सह० पच्च० दिसा० साहु० सव्व० एकासणं एगठाणं दत्तियं पच्चख्खामि. तिविहं चनव्विहंपि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं अस्स० सह० सागा० गुरु० मह० सव्व० विगइन पच्चख्खामि. इत्यादि पूर्ववत्. देसावगासियं इत्यादि पूर्ववत् ॥ इति दत्तिपच्चख्खाण ॥ ए ॥

॥ दिवसचरिमं पच्चख्खाइ, चउव्विहंपि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं अण० सह० मह० सव्व० वोसिरइ ॥ इति दिवसचरिम पच्चख्खाण ॥ १० ॥

॥ दिवसचरिमं पच्चख्खामि डुविहंपि आहारं असणं खाइमं अण० सह० मह० सव्व० वोसिरामि, देसावगासियं पूर्ववत् ॥इति दिवसचरिम डुविहार पच्चख्खाण ॥ ए ॥

॥ पाणहार दिवसचरिमं पच्चख्खामि अन्न० सह० मह० सव्व० वोसिरामि ॥ इति पाणहार उपवासरो पच्चख्खाण ॥ ए ॥

॥ नवचरिमं पच्चख्खाइ तिविहंपि चउव्विहंपि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं अन्न० सह० मह० सव्व० वोसिरइ ॥ आगार ॥ ४ ॥नवचरिम, दो आगारकान्नी होय ॥ इति नवचरिम पच्चखाण ॥

॥ तथा इग्गहिज गंठिसहि मुठिसहि अंगुठसहि प्रमुख अन्निग्रह पच्चख्खाणकेन्नी ए चार आगार, अन्न० सह० मह० सव्व० वोसिरइ ॥ पांचमो चोलपट्टागारेणं सो साधुकों होय ॥ इति अन्निग्रह पच्चख्खाण ॥

॥ अहणं नंते तुह्माणं समीवे देसावगासियं पच्चख्खामि दव्वउ खित्तउ कालउ नावउ दव्वउणं देसावगासियं खित्तउणं उत्र वा अन्नत्थवा कालउणं मुहुत्तधारणाप्रमाणें जावनियमं पच्चख्खामि नावउणं जावगहेणं न गहिज्जामि छलेणं न छलिज्जामि असेणकेवि रायंकेण वा एसो परिणामो न पमिवज्जइ ता अन्निग्गह अणत्थणान्नोगेणं सहस्सागारेणं महत्तरागारेणं सवसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरइ ॥ इति देसावगासी पच्चख्खाण ॥

॥ तथा साधु पच्चखाण करे, तव देसावगासी नही पच्चखे, अरु तिविहार उपवासमें आंबिलमें नीवीमें एकासण प्रमुखमें पाणस्सका ६ आगार पच्चखे सो दिखावे हैं, पाणस्स लेवामेण वा,

अलेवाडेण वा अच्छेण वा बहुलेण वा ससित्थेण वा असित्थेण वा वोसिरइ ॥

॥ अथ पच्चख्खाण आगार संख्या ॥

॥ दोचेव नमुक्कारो आगार छच्च हुंति पोरसिए ॥ सत्तेवउ पुरमिड्ढे, एगासणंमि अठेव ॥ १ ॥ सत्ते गठाणस्सउ, अठेवय आयंबिलंमि आगारा ॥ पंच वयऽनाडे, छप्पाणे चरिमचत्तारि ॥ २ ॥ पंच चउरो अभिग्गहे, निवीए अठनवय आगारा ॥ अप्पावरणे पंचउ, हवंति सेसेसु चत्तारि ॥ ३ ॥ इति आगार संख्या ॥

॥ अथ पच्चखाणके आगारोका अर्थ लिख्यते ॥

॥ उग्गएसूरे नमुक्कार सहियं पच्चख्खाइ चउविहंपि आहारं ॥ अर्थः—इहां गुरु कहे पच्चख्खाइ. शिष्य कहे पच्चख्खामि. पच्चख्खाइका अर्थ सब जगे अंगीकार वांची जाणना. जेसें सूरज उदय हुआ पीछे नवकारसी व्रत अंगीकार करूं. यह पच्चख्खाण मुहुर्त्त कहते दो घड़ी काल उपरांत जहां तक नवकार गुणकर पारूं नहीं तहां तक चउवि० च्यारोंही आहारका त्यागरूप व्रत अंगीकार करूं. सो च्यार प्रकारका आहार इस मुजब है. असन कहते अन्न, चावल, गहूं, मुंग, चणा, ज्वार, वगेरे सब अनाज सात गहूं जवकूं आदि लेकर सब तरेका आटा सब तरेका साग तरकारी लडू वगेरे सब तरेका पकवांन सूरणादिक सब तरेका कंद दूध दही रोटी राब घाट सब पतली उर नरम वस्तु हींग वेसण सूंफ लूंण सेंधवादिक इत्यादिक सब असणमांहि जाणना ॥१॥ पाणं इसका अर्थ आछण जवोदक तुषोदक तंडुलोदक गरमपाणी शुद्धोदक कहते सब अप्पकाय ॥२॥ खाइमं कहते खादिम सूखड़ी नालेर खजूर द्राख सेक्या अनाज आंबा केला काकड़ी अखरोट खारक विदाम वगेरह सब जातका मेवा सब जातका फल खादंम जाणना ॥३॥ साइमं कहते

स्वादिम तंबोल सूंठि मिरच पींपर हरड़े बहेड़ा आंबला तुलछी कसेला काथा मोलेठी तज तमालपत्र इलायची लोंग वायविड़ंग अजमा अजमोद कुलिंजन कबाबचीणी कचूर नागरमोथा कांटासेलिया कुंभटिआ पांनसुपारी पोहकरमूल जवासाकीजड़ वावची बांवल-छाल धवछालि खेजड़ेकीछालि खयरसार यह सब स्वादिम वस्तु जाणना ॥ ४ ॥ अब अनाहार चीजे कहतेहैं नींबकीछालि जड़ पांन सिली गोमूत्र गिलोय चिरायता अतीस कूड़ेकीछालि चंदन-कीराख रोहिणीकीछालि पींपलामूल वच धमासा रींगणी एलिया चिरमी कथर वोरकीजड़ इत्यादिक अनाहार चीज इच्छा मुजब छो-ड़णा यह जो इच्छाविना अनिष्टपणे लेवे तब ता अनाहारहे अगर जो इच्छा संयुक्त लेवे तो आहारका दूषण लगे. पच्चख्खाणका अर्थ जाणे विगर जो पच्चख्खाण करे सो अंधा पच्चख्खाणहे इस वास्ते संक्षेप मात्र आगारोंका अर्थ लिखतेहे. जिस पच्चख्खाणमें जितना आगार होय सो रखकर हमारे पच्चख्खाणहे. अन्नच्छणाभोगेणं कहिये अना-भोग टालके किया जो पच्चख्खाण. अत्यंत भूल जाणेसें कोइभी चीज भूलके मुंमे डालली होय लेकिन् जाणे बाद तत्काल उसी वखत पीछा नाख देवे तो पच्चख्खाणमें भंग नही. उर जाणे बाद भक्षण करे तो पच्चखाण निश्चे भंग होय ॥१॥ पच्छन्नकालेणं कहते कालकी प्रच्छन्नता. आकाशमें गर्द उड़ती होय आकाशमें बद्दल छाये होय तेसेइ पहाड़कीउंट आजावे सूरज नही दीखे तब भ्र-ममसुं पच्चख्खाणका वखत पूरा हुवा जाणकर भोजन करे तो व्रत भंग नही ॥२॥ दिसामोहेणं कहतां दिसा भूलकर पूरबकूं पश्चिम जाणकर पच्चखाणका काल पूरा हुये विगर भोजन कर लेवे तो व्रत भंग नही ॥३॥ सहस्सागारेणं कहतां सहसात्कार कहीतें उता-लके योगसें अथवा अकस्मात् विलोवते तोजते घी वगेरेका छीं-

मूंमें गिर जाय तो व्रत भंग नही ॥४॥ साहूवयणेणं कहतां साधूके वचनसें उग्घाडा पोरसीआदिक भरम संयुक्त सुणकर पच्चरकाणका काल पूरा हुवा जाणकर भोजन करे तो व्रत भंग नही ॥५॥ सब समाहिवत्तियागारेणं कहतां पच्चरकाणका काल पूरा होणेसें पहली अकस्मात् शूलादिक रोग उपजे उसकरके परणामोंकी थिरता रहै नही आर्त्तरौद्र ध्यान होय तब उसका रोग मिटाणे वास्ते ओषधादिक पथ्य देवे वा आप लेवे तो पच्चरकाण भंग नही ६ महत्तरागारेणं कहतां पच्चरकाणसें जितनी निर्ज्जरा होय उस निर्ज्जरासें ज्यादा निर्ज्जराका कारण अथवा हरकिसीसें वण नही आवे एसा जो चैत्य संघादिकका प्रयोजन होणेसें पच्चरकाणका काल पूरण भये विगर ही भोजन कर लेवे तो व्रत भंग नही ७ सागारीआगारेणं कहतां गृहस्थ देखतां साधू भोजन करे नही एसी जिनराजकी आज्ञा हे इस वास्ते कोइ साधूने एकासणादिक पच्चरकाण कर भोजन करणे वेठाहे उस वखत कोइ गृहस्थ साधू पास चला आवे. तब साधू उस ठिकाणेसें ऊठकर उर ठिकाणे जाकर भोजन करे तो व्रत भंग नही उर गृहस्थकूं इसमें एसा आगार हे जिस पुरुषकी निजर लगती होय तो उस पुरुषके आणेसें एकासणेवाला उठकर उर ठिकाणे जाकर भोजन करेतो व्रत भंग नही ॥ ८ ॥ आउट्टणपसारेणं कहतां पग प्रमुख एकठा करणासें अथवा पसारणेसें थोडासा आसन चल जाय तो व्रत भंग नही ॥९॥ गुरु अब्भुट्ठाणेणं कहतां आपका गुरु आणेसें तथा आपसें कोइ वडा पुरुष आणेसें विनयके वास्ते भोजन करतां एकाशनादिकमें आसन छोड खडा हो जावे तोभी व्रत भंग नही ॥१०॥ पारिट्ठावणियागारेणं कहतां सब पच्चरकाणमें यह आगार साधुकाहे. जिस आहारके परठणेसें बहुत जीवकी विराधना होती जाणकर गुरु कहे यह आहार परठो मत सरस आहार हे तब

एकाशनादि व्रतधारी साधू गुरुके आज्ञासें दुसरी वखतन्नी आहार करे तो व्रत न्नंग नही ॥११॥ लेवालेवेणं कहतां न्नोजन करणेका थाल प्रमुख न्नाजन उसके अंदर घृतादिक विगय द्रव्यका अंसलगान्नया हे उसकूं हाथ वगेरेसें पूछ नाखा उस परन्नी किंचित्वे मालम सालगारहे उसमें आयंबिलादि व्रतवाला न्नोजन कर लेवे तो व्रत न्नंग नही ॥१२॥ उरिकत्तविवेगेणं कहतां आयंबिलादि पच्चखाणमें नही खाणे योग्यजो विगय द्रव्य प्रमुख उसका फरस खाणें योग्य द्रव्यसें हो गया होय वो चीज खाणेमें आवे तो व्रत न्नंग नही लेकीन् जो विगय आदि देकर पतला द्रव्य सो हाथसें उगाय सके नही एसे द्रव्यसें फरस हुआ होय तो उसके खाणेसें व्रत न्नंग नही ॥१३॥ गिहत्थसंसिठेणं कहतां न्नोजन पुरषे जिसलेती एसी कुरठी आदि देकर न्नाजन विगय प्रमुख द्रव्यसें वेमालम खरन्नी होय प्रत्यक्ष निजरसें कदाचित्मालम न होय तव जो उसही वासणसें न्नोजन पुरसे तोन्नी व्रत न्नंग नही १४ पडुच्चमुख्खिएणं कहतां सर्व था लूखी रोटी खाखरा प्रमुख द्रव्य किंचित्मात्र घृतादिकसें वेमालम चोपरूणेमें आयाहे लेकिन् घृतादिकका स्वाद नही मालम देता हे तो नीवी पच्चख्खाणमें उस द्रव्यकूं खाणेमें आवे तो व्रत न्नंग नही उर जो धारविगय लेवे तो व्रत न्नंग होय ॥ १५ ॥ इति पनरें पच्चख्खाणका आगारार्थ संपूर्ण ॥

॥ अथ साधू प्रतिक्रमणसूत्र लिख्यते ॥

॥ चत्तारिमंगलं अरिहंतामंगलं सिद्धामंगलं साहूमंगलं केवलिपन्नत्तो धम्मोमंगलं १ चत्तारिलोगुत्तमा अरिहंतालोगुत्तमा सिद्धालोगुत्तमा साहूलोगुत्तमा केवलिपन्नत्तो धम्मोलोगुत्तमो २ चत्तारिसरणं पवज्जामि अरिहंतेसरणंपवज्जामि सिद्धेसरणंपव्वज्जामि साहूसरणंपव्वज्जामि केवलिपन्नत्तं धम्मंसरणंपव्वज्जामि ३ इच्छामि पडिक्कमिउं

पगामसिज्झाए निगामसिज्झाए संथाराउवट्टणाए परियट्टणाए आउंट-
णाए पसारणाए छप्पइयासंघट्टणाए कुइए कक्कराइए छीए जंभाइए
आमोसे ससरक्खामोसे आउलमाउलाए सोअणवत्तियाए इत्थीविप्प-
रियासिआए दिट्ठीविप्परियासिआए मणविप्परिआसियाए पाण-
भोयणविप्परिआसिआए जोमेदेवसिउ अइयारोकउ तस्समिच्छामि-
दुक्कडं पडिक्कमामि गोयरचरिआए भिखायरिआए उग्घाडकवाड उ-
ग्घाडणाए साणावच्छादारा संघट्टणाए मंडीपाहुडिआए बलिपाहु-
डिआए ठवणापाहुडिआए संकिएसहस्सागारे अणेसणाए पाणेस-
णाए आणभोयणाए पाणभोयणाए बीअभोयणाए हरियभोयणाए
पच्छाकम्मियाए पुराकम्मिआए अदिट्ठहडाए दगसंसट्ठहडाए रयसंसट्ठ-
हडाए पारिसाडनिआए पारिठावणिआए उहासणभिक्खाए जंउ-
ग्गमेणं उप्पायणेसणाए अपरिशुद्धं पडिग्गहिअं परिभुत्तंवा जंनप-
रिठवणिअं तस्समिच्छामिदुक्कडं पडिक्कमामि चाउक्कालं सिज्झायस्स
अकरणयाए उभउकालं भंडोवगरणस्स अप्पडिलेहणाए अप्पमज्ज-
णाए दुप्पमज्जणाए अइक्कमे वइक्कमे अइयारे अणायारे जो मे देव-
सिउ अइआरो कउ तस्स मिच्छामि दुक्कडं पडिक्कमामि एगविहे
असंजमे पडिक्कमामि दोहिं बंधणेहिं रागबंधणेणं दोसबंधणेणं
पडिक्कमामि तिहिं दंडेहिं मणदंडेणं वयदंडेणं कायदंडेणं
पडिक्कमामि तिहिं गुत्तीहिं मणगुत्तीए वयगुत्तीए कायगुत्तीए
पडिक्कमामि तिहिं सल्लेहिं मायासल्लेणं नीयाणसल्लेणं मिच्छादं-
सणसल्लेणं पडिक्कमामि तिहिं गारवेहिं इड्ढीगारवेणं रसगारवेणं
सायागारवेणं पडिक्कमामि तिहिं विराहणाहिं नाणविराहणाए
दंसणविराहणाए चारित्तविराहणाए पडिक्कमामि चउहिं क-
साएहिं कोहकसाएणं माणकसाएणं मायाकसाएणं लोहकसाएणं
पडिक्कमामि चउहिं सन्नाहिं आहारसन्नाए भयसन्नाए मेहुणसन्ना

ए परिग्गहसत्राए पडिक्कमामि चउहिं विगहाहिं इत्थिकहाए भत्त-कहाए देसकहाए रायकहाए पडिक्कमामि चउहिं झाणेहिं अट्टेणं झाणेणं रुद्देणंझाणेणं धम्मेणंझाणेणं सुक्केणंझाणेणं पडिक्कमामि पंचहिं किरियाहिं काइयाए अहिगरणियाए पाउसियाए पारतावणीआए पाणायवायकिरियाए पडिक्कमामि पंचहिं कामगुणेहिं सद्देणं रूवेणं रसेणं गंधेणं फासेणं पडिक्कमामि पंचहिं महव्वएहिं पाणाइवायाउविरमणं मुसावायाउवेरमणं अदिन्नादाणाउ मेहुणाउवेरमणं परिग्गहाउवेरमणं पडिक्कमामि पंचहिं इरिआसमिईए भासासमिईए एसणासमिईए आयाणभं खेवणासमिईए उच्चारपासवण खेलजल्लसंघाणपारिठावणि ईए पडिक्कमामि छहिं जीवनिकाएहिं पुढविकाएणं अ तेउकाएणं वाउकाएणं वणस्सईकाएणं तस्सकाएणं पडिक्कमामि छहिं लेसाहिं किन्हलेसाए नीललेसाए काउलेसाए तेउलेसाए पउमलेसाए सुक्कलेसाए पडिक्कमामि सत्तहिं भयठाणेहिं अठहिं मयठाणेहिं नवहिं बंभचेरगुत्तीहिं दसविहे समणधम्मे एगारसहिं उवासगपडिमाहिं बारसहिं भिक्खुपडिमाहिं तेरसहिं किरियाठाणेहिं चउदासहिं भूयगामेहिं पनरसहिं परमाहम्मिएहिं सोलसएहिं गाहाहिं सतरसविहे असंजमे अठारसविहे अबंभे इगुणवीसाए नायज्झयणेहिं वीसाए असमाहिठाणेहिं इकवीसाए सबलेहिं बावीसाए परीसहेहिं तेवीसाए सुयगडज्झयणेहिं चउवीसाए अरिहंतेहिं पचवीसाए भावणाहिं छव्वीसाए दसाकप्पववहाराणं उद्देसणकालेणं सत्तावीसाए अणगारगुणेहिं अठावीसाए आयारपकप्पेहिं एगुणतीसाए पावसुअप्पसंगेहिं तीसाए मोहणीअठाणेहिं इगतीसाए सिद्धाइगुणेहिं बत्तीसाए जोगसंगहेहिं तित्तीसाए आसायणाए अरिहंताणं आसायणाए सिद्धाणंआसायणाए आयरिआणंआसायणाए उवज्झायाणंआ-

सायणाए साहूणंआ० साहूणीणंआ० सावयाणंआ० सावियाणंआ० दे वाणंआसाय० देवीणंआ० इहलोगस्सआ० परलोगस्सआ० केवलिपन्न-त्तस्सधम्मस्सआ० सदेवमणुआसुरस्सलोगस्सआ० सव्वपाणनूअजी-वसत्ताणंआ० कालस्सआ० सुअस्सआ० सुयदेवयाएआसा० वायणा रिअस्सआ० जंवाइद्धं वच्चामेलिअं हीनक्करिअं अच्चक्करिअं पयहीणं विणयहीणं जोगहीणं घोसहीणं सुठुदिन्नं, दुठुपडिच्छियं अकालेक-उसज्झाउ कालेनकउसज्झाउ असज्झाइए सज्झाइयं सज्झाइए नसज्झा-इयं तस्स मिच्छामि दुक्कडं णमो चउवीसाए तित्थयराणं उसभाइ-माहावीरपज्जवसाणाणं इणमेव निग्गंथं पावयणं सच्चं अणुत्तरं के-वलियं पडिपुन्नं नेआउयं संसुद्धं सल्लगत्तणं सिद्धिमग्गं मुत्तिमग्गं निज्जाणमग्गं निव्वाणमग्गं अवितहमविसंधि सव्वदुक्खपहीणमग्गं इत्थठियाजीवा सिज्झंति बुज्झंति मुच्चंति परिनिव्वायंति सव्वदुक्खाण-मंतंकरंति तंधम्मं सद्दहामि पत्तियामि रोएमि फासेमि पालेमि अ-णुपालेमि तंधम्मं सद्दहंतो पत्तिअंतो रोअंतो फासंतो पालिंतो अणु-पालिंतो तस्स धम्मस्स केवलिपन्नत्तस्स अब्भुट्ठिउमि आराहणाए विरउमि विराहणाए असंजमं परिआणामि संजमं उवसंपज्जामि अबंभं परिआणामि बंभंउवसंपज्जामि अकप्पं परिआणामि कप्पं उवसंपज्जामि अन्नाणं परिआणामि नाणं उवसंपज्जामि अकिरिअं परिआणामि किरिअं उवसंपज्जामि मिच्छत्तं परिआणामि सम्मत्तं उवसंपज्जामि अबोहिं परिआणामि बोहिं उवसंपज्जामि अमग्गं प-रिआणामि मग्गं उवसंपज्जामि जं संभरामि जं च न संभरामि जं पडिक्कमामि जं च न पडिक्कमामि तस्स सव्वस्स देवसिअस्स अइयारस्स पडिक्कमामि समणोहं संजय विरय पडिहय पच्चक्खाय पावकम्मे अनियाणो दिठिसंपन्नो मायामोसविवज्जिउ अढाइज्जेसु दीवसमुद्देसु पन्नरसकम्मभूमीसु ॥ जावंतिकेविसाहू, रयहरणगुछ

परिग्गहधारा ॥ पंचमहव्वयधारा, अठार सहस्स सीलंगधारा ॥ अरकवयायार चरित्ता, ते सव्वे सिरसा मणसा मत्थएणवंदामि ॥ खामेमि सव्वजीवे, सव्वे जीवा खमंतुमे॥ मित्ति मे सव्व भूएसु, वेरं मझं नकेणई ॥१॥ एवमहं आलोइय, नंदिअ गरहिय डुगंछियं सम्मं ॥ तिविहेण पडिक्कंतो, वंदामि जिणेचउव्वीसं ॥२॥ इतिश्री साधू प्रतिक्रमणसूत्रं समाप्तं ॥

॥ अथ पक्खी सूत्र लिख्यते ॥

॥ तित्थंकरे अतित्थे, अतित्थसिद्धेय तित्थसिद्धेअ ॥ सिद्धेयजिणेयरिसी, महरिसि नाणं च वंदामि ॥ १ ॥ जेयइमंगुणरयणसायर, मविरातिऊणं तिन्निसंसारा ॥ ते मंगलं करित्ता, अहमविआराहणाभिमुहो ॥ २ ॥ मम मंगलमरिहंता, सिद्धा साहू सुयं च धम्मोय ॥ खंती गुत्ती मुत्ती, अज्जवया मद्दवं चेव ॥ ३ ॥ लोगंमि संजया जं करंति, परम रिसि देसियमुपारं ॥ अहमवि उवठिउंतं, महव्वय उच्चारणं काउं ॥ ४ ॥ सेकिंतं महव्वय उच्चारणा महव्वय उच्चारणा पंचविहा पन्नत्ता राई भोयण वेरमणछठा तंजहा सव्वाउ पाणाइवायाओ वेरमणं सव्वाउ मूसावायाउ वेरमणं सव्वाउ अदिन्नादाणाउ वेरमणं सव्वाउमेहुणाउवेरमणं सव्वाउपरिग्गहाउवेरमणं सव्वाउराइभोयणाउवेरमणं तत्थ खलु पढमे भंते महव्वए पाणाइवायाउवेरमणं सव्वं भंते पाणाइवायं पच्चक्खामि से सुहुमं वा वायरं वा तसं वा थावरं वा नेवसयं पाणे अइवाएज्जा नेवन्नेहि पाणे अइवायाविज्जा पाणे अइवायंतेवि अन्नेनसमणुजाणामि जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्नंनसमणु जाणामि तस्स भंते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि से पाणाइवायाए चउव्विहे पन्नते तंजहा दव्वउ खित्तउ कालउ भावउ दव्वउणं पाणाइवाए छसुजीवनिकाएसु खित्तउणं पाणा

इवाए सयलर्लोए कालउणं पाणाइवाए दियावा राउवा भावउणं पाणाइवाए रागेण वा दोसेण वा जंपियमए इमस्स धम्मस्स केवलि पन्नत्तस्स अहिंसा लक्खणस्स सच्चाहिट्ठियस्स विणयमूलस्स खंती-पहाणस्स अहिरमसोवस्सियस्स उवसमप्पभवस्स नव बंभचेर गुत्तस्स अप्पयमाणस्स भिखावित्तियस्स कुक्खीसंबलस्स निरग्गिसरणस्स संपक्खालियस्स चत्तदोसस्स गुणगाहियस्स निवियारस्स निव्वि-त्तीलक्खणस्स पंचमहव्वयजुत्तस्स असंनिहिसंचयस्स अविसंवाइयस्स संसारपारगामियस्स निव्वाण गमण पज्जवसाणफलस्स पुव्विं अन्नाण याए असवणयाए अबोहिए अणभिगमेणं अभिगमेणवा पमाएणं रा-गदोस पडिवद्धयाए बालयाए मोहयाए मंदयाए किड्डयाए तिगारव-गरुयाए चउक्कसाउवगएणं पंचेंदियवसट्टेणं पडिपुन्नभारियाए साया-सोक्ख मणुपालयंतेणं इहं वा भवे अन्नेसुवा भवग्गहणेसु पाणाइ-वाउ कउवा कारिउवा कीरंतोवा परेहिं समणुन्नाउ तं निंदामि ग-रिहामि तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं अइयं निंदामि प-डुपन्नं संबरेमि सव्वं पाणाइवायं जावज्जीवाए अणिस्सिउहिं नेव सयंपाणे अइवाएज्जा नेवन्नेहिं पाणे अइवायाविज्जा पाणे अइवा-यंतेवि अन्नेनसमणुजाणामि तंजहा अरिहंतसक्खियं सिद्धसक्खियं साहुसक्खियं देवसक्खियं अप्पसक्खियं एवं हवइ भिक्खूवा भिक्खू-णीवा संजयविरय पडिहय पच्चक्खाय पावकम्मे दियावा राउवा एगोवा परिसागउवा सुत्तेवा जागरमाणेवा एस खलु पाणाइवायस्सवेरमणे हिएसुहे खमेनिस्सेसिए आणुगामिए पारगामिए सव्वेसिं पाणाणं सव्वेसिं भूयाणं सव्वेसिं जीवाणं सव्वेसिं सत्ताणं अदुक्खणयाए अ-सोयणयाए अजूरणयाए अतिप्पणयाए अपीडणयाए अपरियाव-णियाए अणुद्दवणयाए महत्थे महागुणे महाणुभावे महापुरिसाणु-चिन्ने परमरिसिदेसिए पसत्थे तं दुक्खक्खयाए कम्मक्खयाए मोक्ख

याए बोहिलाभाए संसारुत्तारणाए त्तिकट्टु उवसंपज्जित्ताणं विहरामि
पढमे भंते महव्वए उवट्ठिओमि सव्वाउ पाणाइवायाउवेरमणं ॥ १ ॥
अहावरेदोच्चेभंते महव्वए मुसावायाउवेरमणं सव्वं भंते मुसावायं
पच्चक्खामि से कोहावा लोहावा भयावा हासावा नेवसयं मुसंवाइज्जा
नेवन्नेहिं मुसंवायाविज्जा मुसंवायंतेवि अन्नेनसमणुजाणमि
जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न क-
रेमि न कारवेमि करंतंपि अन्नंनसमणुजाणामि तस्स भंते पडि-
क्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि से मुसावाए चउ-
व्विहे पन्नत्ते तंजहा दव्वउ खित्तउ कालउ भावउ दव्वउणं मुसा-
वाए सव्वदव्वेसु खित्तउणं मुसावाए लोएवा अलोएवा कालउणं
मुसावाए दियावा राउवा भावओणं मुसावाए रागेणवा
दोसेणवा जंपियमए इमस्स धम्मस्स केवलिपन्नत्तस्स अहिंसालक्ख
णस्स सच्चाहिट्ठियस्स विणय मूलस्स खंतीपहाणस्स अहिरन्नसोवन्नि
यस्स उवसमप्पभवस्स नव बंभचेर गुत्तस्स अप्पयमाणस्स भिक्खा-
वित्तियस्स कुक्खीसंबलस्स निरग्गिसरणस्स संपक्खालियस्स चत्तदो-
सस्स गुणगाहियस्स निव्वियारस्स निवित्तीलक्खणस्स पंचमहव्व-
यजुत्तस्स असंनिहिसंचियस्स अविसंवाइयस्स संसारपारगामियस्स
निव्वाणगमणपज्जवसाणफलस्स पुव्विंअन्नाणयाए असवणयाए अ-
बोहिए अणभिगमेणं अभिगमेणवा पमाएणं रागदोसपडिबद्धयाए
बालयाए मोहयाए मंदयाए किड्डयाए तिगारवगरुयाए चउकसाउवग
एणं पंचेंदियवसट्टेणं पडिपुन्नभारियाए सायासोक्खमणुपालयंतेणं इह
वाभवे अन्नेसुवा भवग्गहणेसु मुसावाओ भासिओवा भासाविओवा
भासिज्जंतो वा परेहिं समणुन्नाओ तं निंदामि गरिहामि तिविहं तिवि
हेणं मणेणं वायाए काएणं अइयं निंदामि पडिपन्नं संवरेमि अणागयं
पच्चक्खामि सव्वं मुसावायं जावज्जीवाए अणिस्सिउहं नेवसयंमुसंवा

ज्जा नेवन्नेहिं मुसंवायाविज्जा मुसंवायंतेवि अन्नंनसमणुजाणामि तंजहा अरिहंतसक्खियं सिद्धसक्खियं साहूसक्खियं देवसक्खियं अप्पसक्खियं एवं हवइ भिक्खूवा भिक्खुणीवा संजयविरयपडिहय पच्चक्खाय पावकम्मे दियावा राउवा एगउवा परिसागउवा सुत्तेवा जागरमाणेवा एस खलु मुसावायस्सवेरमणे हिएसुहे खमे निस्सेसिए आणुगामिए पारगामिए सव्वेसिं पाणाणं सव्वेसिं भूयाणं सव्वेसिं जीवाणं सव्वेसिं सत्ताणं अदुक्खणयाए असोयणयाए अजूरणयाए अतिप्पणयाए अपीडणयाए अपरियावणयाए अणुद्दवणयाए महत्थे महागुणे महाणुभावे महापुरिसाणुचिन्ने परमरिसिदेसियपसत्थे तं दुक्खखयाए कम्मक्खयाए मोक्खयाए बोहिलाभाए संसारुत्तारणाए त्तिकट्टु उवसंपज्जित्ताणं विहरामि दोच्चे भंते महव्वए उवट्ठिओमि सव्वाउ मुसावायाओवेरमणं २ अहावरे तच्चे भंते महव्वए अदिन्नादाणाउवेरमणं सव्वं भंते अदिन्नादाणं पच्चक्खामि से गामेवा नगरेवा रन्नेवा अप्पंवा बहुंवा अणुंवा थूलंवा चित्तमंतंवा अचित्तमंतंवा नेवसयं अदिन्नं गिण्हिज्जा नेवन्नेहिं अदिन्नं गिण्हाविज्जा अदिन्नं गिण्हंतेवि अन्नंनसमणुजाणामि जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्नंनसमणुजाणामि जावज्जीवाए तस्स भंते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि से अदिन्नादाणे चउव्विहे पन्नत्ते तंजहा दव्वओ खित्तओ कालओ भावओ दव्वओणं अदिन्नादाणे गहणधारणिज्जेसु दव्वेसु खित्तओणं अदिन्नादाणे गामेवा नगरेवा रन्नेवा कालओणं अदिन्नादाणे दियावा राओवा भावओणं अदिन्नादाणे रागेणवा दोसेणवा जंपियमए इमस्स धम्मस्स केवलिपन्नत्तस्स अहिंसालक्खणस्स सच्चाहिट्ठियस्स विणयमूलस्स खंतिप्पहाणस्स अहिरन्नसुवन्नियस्स उवसमप्पभवस्स नवबंभचेरगुत्तस्स अप्पयमाणस्स भिक्खावित्तियस्स कुक्खीसंबलस्स

निरग्गिसरणस्स संपक्खालियस्स चत्तदोसस्स गुणगाहियस्स नि-व्वियारस्स निव्वित्तोलक्खणस्स पंचमहव्वयजुत्तस्स असंनिहिसंचि-यस्स अविसंवाइयस्स संसारपारगामियस्स निव्वाणगमणपज्जवसाण फलस्स पुव्विंअन्नाणयाए असवणयाए अबोहिए अणभिगमेणं अभिगमेणवा पमाएणं रागदोसपडिवद्धयाए बालयाए मोहयाए मंदयाए किड्डयाए तिगारवगरुयाए चउक्कसाउवगएणं पंचेंदियवसट्टेणं पडिपुन्नभारियाए सायासुक्खमणुपालयंतेणं इहंवाभवेअन्नेसुवा भवग्गहणेसु अदिन्नादाणं गहियंवा गाहावियंवा घिप्पंतंवा परेहिंसमणुन्नाओ तं निंदामि गरिहामि तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं अइयं निंदामि पडुप्पन्नंसंबरेमि अणागयं पच्चक्खामि सव्वं अदिन्नादाणं जावज्जीवाए अणिस्सिओहं नेवसयं अदिन्नं गिण्हिज्जा नेवन्नेहिं अदिन्नं गिन्हाविज्जा अदिन्नंगिन्नंतेवि अन्नंनसमणुजाणामि तंजहा अरिहंतसक्खियं सिद्धसक्खियं साहूसक्खियं देवसक्खियं अप्पसक्खियं एवं हवइ भिक्खूवा भिक्खुणीवा संजयविरय पडिहयपच्चक्खाय पावकम्मे दियावा राओवा एगओवा परिसागओवा सुत्तेवा जागरमाणेवा एस खलु अदिन्नादाणस्सवेरमणे हिएसुहे खमे निस्सेसिए आणुगामिए पारगामिए सव्वेसिं पाणाणं सव्वेसिं भूयाणं सव्वेसिं जीवाणं सव्वेसिं सत्ताणं अदुक्खणयाए असोयणयाय अजूरणयाय अतिप्पणयाय अपीडणाय अपरियावणियाय अणुद्दवणयाय महत्थे महागुणे महाणुभावे महापुरिसाणुचिन्ने परमरिसिदेसिय पसत्थे तं दुक्खक्खयाय कम्मक्खयाय मोहक्खयाय बोहिलाभाय संसारुत्तारणाय त्तिकट्टु उवसंपज्जित्ताणं विहरामि तच्चे भंते महव्वए अब्भुट्ठिओमि स-व्वाओ अदिन्नादाणाओवेरमणं ॥ ३ ॥ अहावरे चउत्थे भंते मह-व्वए मेहुणाओवेरमणं सव्वं भंते मेहुणं पच्चक्खामि से दिव्वंवा माणुसंवा तिरिक्खजोणियंवा नेवसयं मेहुणंसेविज्जा नेवन्नेहिं मेहुणं-

सेवाविज्जा मेहुणंसेवंतेवि अन्नेनसमणुजाणामि जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्नंनसमणुजाणामि तस्स भंते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि। अप्पाणं वोसिरामि से मेहुणे चउव्विहे पन्नत्ते तंजहा दव्वओ खित्तओ कालओ भावओ दव्वओणं मेहुणे रूवेसुवा रूवसहगएसुवा खित्तओणं मेहुणे उढ्ढलोएवा अहोलोएवा तिरियलोएवा कालओणं मेहुणे दियावा राओवा भावओणं मेहुणे रागेणवा दोसेणवा जंपियमए इमस्स धम्मस्स केवलिपन्नत्तस्स अहिंसालख्खणस्स सच्चाहिट्ठियस्स विणयमूलस्स खंतिपहाणस्स अहिरन्नसोवन्नियस्स उवसमप्पभवस्स नववंभचेरगुत्तस्स अप्पयमाणस्स भिख्खावित्तियस्स कुख्खीसंबलस्स निरग्गिसरणस्स संपख्खालियस्स चत्तदोसस्स गुणगाहियस्स निव्वत्तीलख्खणस्स पंचमहव्वयजुत्तस्स असंनिहिसंचियस्स अविसंवाइयस्स संसारपारगामिस्स निव्वाणगमणपज्वात्रसाणफलस्स पुव्विंअन्नाणयाए असवणयाए अवोहिए अणभिगमेणं अभिगमेणवा पमाएणं रागदोसपडिबद्धयाए वालयाए मोहयाए मंदयाए किड्डयाए तिगारवगरुयाए चउक्कसाओवगएणं पंचेंदियवसट्टेणं पडिपुन्नभारियाए सायासोख्खमणुपालयंतेणं इहंवाभवे अन्नेसुवा भवग्गहणेसु मेहुणंसेवियंवा सेवावियंवा सेविज्जंतोवा परेहिं समणुन्नाओ तंनिंदामि गरिहामि तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं अइयं निंदामि पडुप्पन्नंसंवरेमि अणागयं पच्चख्खामि सव्वंमेहुणं जावज्जीवाए अणिस्सिओहं नेवसयंमेहुणंसेविज्जा नेवन्नेहिंमेहुणंसेवाविज्जा मेहुणंसेवंतेवि अन्नंनसमणुजाणामि तंजहा अरिहंतसख्खियं सिद्धसख्खियं साहुसख्खियं देवसख्खियं ... पसख्खियं एवं हवइभिख्खूवा भिख्खुणीवा संजयविरयपडिहयपच्चख्खायपावकम्मे दियावा राओवा एगओवा परिसागओवा सुत्तेवा जागरमाणेवा

एसखलु मेहुणस्सवेरमणे हिएसुहे खमे निस्सेसिए आणुगामिए पार-
गामिए सव्वेसिंपाणाणं सव्वेसिंभूयाणं सव्वेसिंजीवाणं सव्वेसिं
सत्ताणं अदुक्खणयाए असोयणयाए अजूरणयाए अतिप्पणयाए
अपीडणयाए अपरियावणियाए अणुद्दवणयाए महत्थे महागुणे
महाणुभावे महापुरिसाणुचिन्ने परमरिसिदेसिए पसत्थे तंदुक्खक्खयाए
कम्मक्खयाए मोहखयाए वोहिलाभाए संसारुत्तारणाए त्तिकट्टु उव-
संपज्जित्ताणं विहरामि चउत्थे भंते महव्वए उवट्ठिओमि सव्वाओ
मेहुणाओवेरमणं ४ अहावरेपंचमे भंते महव्वए परिग्गहाओ वेरमणं
सव्वं भंते परिग्गहं पच्चक्खामि से अप्पंवा वहुंवा अणुंवा थूलंवा चित्त-
मंतंवा अचित्तमंतंवा नेवसयं,परिग्गहं परिगिण्हिज्जा नेवन्नेहिंपरिग्गहं
परिगिण्हाविज्ञा परिग्गहंपरिगिन्नंतेवि अन्नेनसमणुजाणामि जा-
वज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं नकरेमि नकार-
वेमि करंतंपि अन्नंनसमणुजाणामि तस्स भंते पडिक्कमामि
निंदामि गरिहामि अप्पाणंवोसिरामि से परिग्गहे चउव्विहेपसत्ते
तंजहा दव्वओ खित्तओ कालओ भावओ दव्वणं परिग्गहे सचि
त्ताचित्तमीसेसु दव्वेसुखित्तओणं परिग्गहे गामेसुवा नगरेसुवा रन्ने
सुवा कालओणं परिग्गहे दियावा राओवा भावओणं परिग्गहे
अपग्घेवा महग्घेवा रागेणवा दोसेणवा जंपियमए इमस्स धम्मस्स
केवलिपन्नत्तस अहिंसालक्खणस्स सच्चाहिट्ठियस्स विणयमूलस्स
खंतिपहाणस्स अहिरन्नसोवन्नियस्स उवसमप्पभवस्स नववंभचेरगु
त्तस्स अप्पयमाणस्स भिक्खावित्तियस्स कुक्खीसंवलस्स निरग्गि
सरणस्स संपक्खालियस्स चत्तदोसस्स गुणगाहियस्स निव्वियारस्स
निव्वित्तीलक्खणस्स पंचमहव्वयजुत्तस्स अविसंवाइयस्स संसारपा-
रगामियस्स निवाण गमण पज्जवसाणफलस्स पुव्विंअन्नाणयाए अस
वणयाए अवोहिए अणभिगमेणं अभिगमेणवा पमाएणं राग-

दोस पडिबद्धयाए बालयाए मोहयाए मंदयाए किड्डयाए तिगारव-
गरुयाए चउक्कसाउवगएणं पंचेंदियवसट्टेणं पडिपुन्नभारियाए साया-
सोक्खमणुपालयंतेणं इहंवाभवे अन्नेसुवा भवग्गहणेसु परिग्गहो ग-
हिउवा गाहाविउज्ञा घिप्पंतोवा परेहिंसमणुन्नाउ तंनिंदामि गरि-
हामि तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं अइयंनिंदामि पडुप्प-
न्नंसंवरेमि अणागयंपञ्चक्खामि सव्वंपरिग्गहं जावज्जीवाए अणिस्सि-
उहिं नेवसयंपरिगिण्हिज्जा नेवन्नेहिंपरिग्गहंपरिगिण्हाविज्ञा परिग्गहं-
परिगिण्हंतेवि अन्नेनसमणुजाणामि तंजहा अरिहंतसक्खियं सिद्ध-
सक्खियं साहुसक्खियं देवसाखियं अप्पसक्खियं एवंहवइभिक्खूवा भि-
क्खुणीवा संजयविरयपडिहय पञ्चक्खाय पावकम्मे दियावा राउवा
एगउवा परिसागउवा सुत्तेवा जागरमाणेवा एसखलुपरिग्गहस्स-
वेरमणे हिएसुहे खमे निस्सेसिए आणुगामिए पारगामिए सव्वेसिं
पाणाणं सव्वेसिंभूयाणं सव्वेसिंजीवाणं सव्वेसिंसत्ताणं अदुक्खणयाए
असोयणयाए अजूरणयाए अतिप्पणयाए अपीडणयाए अपरियाव-
णियाए अणुद्दवणयाए महत्थे महागुणे महाणुभावे महापुरिसाणुचिन्ने
परमरिसिदेसियपसत्थे तंदुक्खक्खयाए कम्मक्खयाए बोहिलाभाए सं-
सारुत्तारणाए त्तिकट्टु उवसंपज्जिताणं विहरामि पंचमे भंते महव्वए
उवट्ठिउमि सव्वाउपरिग्गहाउवेरमणं ५ अहावरेछट्ठे भंते महव्वए रा-
इभोयणाउवेरमणं सव्वं भंते राईभोयणं पञ्चक्खामि सेअसणंवा पाणंवा
खाइमंवा साइमंवा नेवसयंराइंभुंजिज्जा नेवन्नेहिंराइंभुंजाविज्ञा राइंभुं-
जंतेवि अन्नेनसमणुजाणामि जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं
वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्नंनसमणुजाणामि
तस्स भंते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणंवोसिरामि से राई-
भोयणे चउव्विहेपसत्ते तंजहा दव्वउ खित्तउ कालउ भावउ दव्वउणं
राईभोयणे असणेवा पाणेवा खाइमेवा साइमेवा खित्तउणं राईभोयणे

समयखित्ते कालओणं राईभोयणे दियावा रत्तिंवा भावओणं राईभोयणे तित्तेवा कडुएवा कसाएवा अंबिलेवा महुरेवा लवणेवा रागेणवा दोसेणवा जंपियमए इमस्स धम्मस्स केवलिपन्नत्तस्स अहिंसालक्खणस्स सच्चाहिट्ठियस्स विणयमूलस्स खंतिप्पहाणस्स अहिरन्नसोवन्नियस्स उवसमप्पभवस्स नव बंभचेरगुत्तस्स अप्पयमाणस्स भिरकावित्तियस्स कुक्खीसंबलस्स निरग्गिसरणस्स संपरकालियस्स चत्तदोसस्स गुणगाहियस्स निव्वियारस्स निव्वित्तीलरकणस्स पंचमहव्वयजुत्तस्स असंनिहिसंचिअस्स अविसंवाइयस्स संसारपारगामियस्स निव्वाणगमणपज्जवसाणफलस्स पुव्विंअन्नाणयाए असवणयाए अबोहिए अणभिगमेणं अभिगमेणवा पमाएणं रागदोसपडिवद्धयाए बालयाए मोहयाए मंदयाए किड्याए ,तिगारवगरुयाए चउक्कसाओवगएणं पंचेंदियवसट्टेणं पडिपुन्नभारियाए सायासोखमणुपालयंतेणं इहंवा भवे अन्नेसुवा भवग्गहणेसु राईभोयणं भुत्तंवा भुंजावियंवा भुज्जंतंवा परेहिंसमणुन्नाओ तंनिंदामि गरिहामि तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं अइयंनिंदामि पडुपन्नंसंवरेमि अणागयं पच्चरकामि सव्वंराइ भोयणं जावज्जीवाए अणिस्सिओहं नेवसयं राईभुंजिज्जा नेवन्नेहिंराईभुंजाविज्जा राईभुंजंतेवि अन्नंनसमणुजाणामि तंजहा अरिहंतसक्खियं सिद्धसक्खियं साहुसक्खियं देवसक्खियं अप्पसक्खियं एवंहवइभिक्खूवा भिक्खुणीवा संजयविरय पडिहय पच्चक्खायपावकम्मे दियावा राओवा एगओवा परिसागओवा सुत्तेवा जागरमाणेवा एसखलुराईभोयणस्सवेरमणे हिएसुहेखमे निस्सेसिए आणुगामिए पारगामिए सव्वेसिंपाणाणं सव्वेसिंभूयाणं सव्वेसिजीवाणं सव्वेसिंसत्ताणं अदुक्खणयाए असोयणयाए अजूरणयाए अतिप्पणयाए अपीडणयाए अपरियावणियाए अणुद्दवणयाए महत्थेमहागुणे महाणुभावे महापुरिसाणुचिन्ने परमरिसि;

देसिए पसत्थे तंदुख्खख्खयाए कम्मख्खयाए मोहखयाए बोहिलाभाए संसारुत्तारणाए तिकट्टु उवसंपज्जित्ताणं विहरामि छट्ठे भंते महव्वए उवट्ठिओमिसव्वाओ राईभोयणाओ वेरमणं ॥ ६ ॥ इच्चेइयाइं पंच-महव्वयाइं राईभोयणवेरमणछट्ठाइं अत्तहियट्ठाइं उवसंपज्जित्ताणंविह-रामि अप्पसत्थायजेयोगा परिणामायदारुणा पाणाइवायस्सवेरमणे एसवुत्ते अइक्कमे ॥ १ ॥ तिव्वरागायजाभासा तिव्वदोसातहेवय मुसावायस्सवेरमणे एसवुत्तेअइक्कमे ॥ २ ॥ उग्गाहंअजाइत्ता अव-दिन्नेवउग्गहे अदिन्नादाणस्सवेरमणे एसवुत्ते अइक्कमे ॥ ३ ॥ सद्दा-रूवारसागंधा फासाणंचविआरणा मेहुणस्सवेरमणे एसवुत्ते अइ-क्कमे ॥ ४ ॥ इच्छापुच्छायगेहीय कंखालोभेअदारुणे परिग्गहस्सवेरमणे एसवुत्तेअइक्कमे ॥ ५ ॥ दंसणनाणचरित्ते अविराहित्ताठिओसमण-धम्मे पढमंवयमणुरख्खे विरयामोपाणाइवायाओ ॥ ६ ॥ दंसणना-णचरित्ते अविराहित्ताठिओसमणधम्मे बीयंवयमणुरख्खे विरियामो-अलियवयणाओ ॥ ७ ॥ दंसणनाणचरित्ते अविराहित्ताठिओसमण-धम्मे तइयंवयमणुरख्खे विरियामोअदिन्नादाणाओ ॥ ८ ॥ दंसण-नाणचरित्ते अविराहित्ताठिओसमणधम्मे चउत्थंवयमणुरख्खे विर-यामोमेहुणाओ ॥ ९ ॥ दंसणनाणचरित्ते अविराहित्ताठिओसम-णधम्मे पंचमंवयमणुरख्खे विरियामोपरिग्गहाओ ॥ १० ॥ दंसण-नाणचरित्ते अविराहित्ताठिओसमणधम्मे छट्ठंवयमणुरख्खे विरयामो-राईभोयणाओ ॥ ११ ॥ आलियाविहारसमिओ जुत्तोगुत्तोठिओसमण-धम्मे पढमंवयमणुरख्खे विरियामोपाणाइयाओ ॥ १२ ॥ आलियवि-हारसमिओ जुत्तोगुत्तोठिओसमणधम्मे बीयंवयमणुरख्खे विरियामो-अलियवयणाउ ॥ १३ ॥ आलियाविहारसमिउ जुत्तोगुत्तोठिउसमणधम्मे तईयंवयमणुरख्खे विरियामो अदिन्नादाणाउ ॥ १४ ॥ आलियाविहार-समिउ जुत्तोगुत्तोठिउसमणधम्मे चउत्थंवयमणुरख्खे विरियामोमेहु-

णाउ ॥ १५ ॥ आलियविहारसमिउ जुत्तोगुत्तोठिउसमणधम्मे पंच-
मंवयमणुरक्खे विरयामो परिग्गहाउ ॥ १६ ॥ आलियविहारस-
मिउ जुत्तोगुत्तोठिउसमणधम्मे छठंवयमणुरक्खे विरयामोराईभोयणा
उ ॥ १७ ॥ आलियविहारसमिउ जुत्तोगुत्तोठिउसमणधम्मे तिविहे-
णपडिक्कंतो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ १८ ॥ सावज्जजोगमेगं मिच्छत्तं
एगमेवअन्नाणं परिवज्जंतोगुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ १९ ॥ अण-
वज्जजोगमेगं सम्मत्तंएगमेवनाणंतु उवसंपन्नोजुत्तो रक्खामिमहव्वए-
पंच ॥ २० ॥ दोचेवरागदोसे दोन्नियझाणाइंअट्टरुद्दाइं परिवज्जंतो-
गुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ २१ ॥ दुविहंचरित्तंधम्मं दोन्नियझाणाइं-
धम्मसुक्काइं उवसंपन्नोजुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ २२ ॥ किण्हा-
नीलाकाऊ तिन्नियलेसाऊअप्पसत्थाउ परिवज्जंतोगुत्तो रक्खामि-
महव्वएपंच ॥ २३ ॥ तेउपम्हासुक्का तिन्नियलेसाउसुप्पसत्थाउ उव-
संपन्नोजुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ २४ ॥ मणसामणसच्चविऊ
वायासच्चेणकरणसच्चेण तिविहेणविसच्चविउ रक्खामिमहव्वएपंच
॥ २५ ॥ चत्तारियदुहसिज्जा चउरोसन्नातहाकसायाय परिवज्जंतो
गुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ २६ ॥ चत्तारियसुहसिज्जा चउव्विहं-
संवरंसमाहिंच उवसंपन्नोजुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ २७ ॥
पंचेवयकामगुणे पंचेवयअण्हवेमहादोसे परिवज्जंतोगुत्तो रक्खामिम-
हव्वएपंच ॥ २८ ॥ पंचेंदियसंवरणं तहेवपंचविहमेवसज्झायं उवसंप-
न्नोजुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ २९ ॥ छज्जीवनिकायवहि छप्पिय-
भासाउअप्पसत्थाउ परिवज्जंतोगुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ ३० ॥
छविहमब्भिंतरियं वज्झंपियछविहंतवोकम्मं उवसंपन्नोजुत्तो रक्खामि-
महव्वएपंच ॥ ३१ ॥ सत्तभयट्ठाणाइं सत्तविहंचेवनाणविब्भंगा परिव-
ज्जंतोगुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ ३२ ॥ पिंडेसणपाणेसण उग्गहं-
सत्तिक्कयामहज्झयणा उवसंपन्नोजुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ ३३ ॥

अट्ठमयट्ठाणाइं अट्ठयकम्माइंतेसिबंधिच परिवज्जंतोगुत्तो रक्खामि महव्वएपंच॥३४॥ अट्ठयपवयणमाया दिट्ठाअट्ठविहनिट्ठिअट्ठेहिं उवसंपन्नोजुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ ३५ ॥ नवपावनियाणाइं संसारत्थायनवविहाजीवा परिवज्जंतोगुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ ३६ ॥ नवबंभचेरगुत्तो दुनवविहंबंभचेरपडिसुद्धं उवसंपन्नोजुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ ३७ ॥ उवघायंचदसविहं असंबरंतहयसंकिलेसंच परिवज्जंतोगुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ ३८ ॥ चित्तसमाहिठाणा दसचेवदसाउसमणधम्मंच उवसंपन्नोजुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ ३९ ॥ आसायणंचसव्वं तिगुणं एक्कारसंविवज्जंतो परिवज्जंतोगुत्तो रक्खामि महव्वएपंच ॥ ४० ॥ एवंतिदंडविरउ तिगरणसुद्धोतिसल्लनिसल्लो तिविहेण पडिक्कंतो रक्खामिमहव्वएपंच ॥४१॥ इच्चेयंमहव्वयउच्चारणं थिरत्तं सल्लुद्धरणं धिइवलंववसाउ साहणट्ठोपावनिवारणं निकायणा भावविसोही पडागाहरणं निज्जूहणा राहणा गुणाणं संबरजोगो पसत्थज्झाणो वउत्तया जुत्तया नाणे परमट्ठो उत्तमट्ठो एसखलुतित्थंकरेहिं रइरागदोस महणेहिं देसिउ पवयणस्ससारो छज्जीवनिकाय संजमं उवइसिउं तिल्लुक्क सक्कयंठाणं अब्भुवगया नमोत्थुते सिद्धबुद्धमुत्तनीरय निस्संग माणमूरण गुणरयण सायर मणंत मप्पमेय नमोत्थुते महय महावीरवद्धमाणस्स नमोत्थुतेअरहउ नमोत्थुते भगवउ त्तिकट्टु इच्चेसा खलुमहव्वयउच्चारणाकया इच्छामोसुत्तकित्तणं काउं नमोतेसिंखमासमणाणं जेहिंइमंवाइयं छव्विहमावस्सयं भगवंतं तंजहा सामाइयं चउवीसत्थउ वंदणयं पडिक्कमणं काउसग्गो पच्चक्खाणं सव्वेहिं विएयंमि छव्विहे आवस्सए भगवंते ससुत्ते सअत्थे सग्गंथे सनिज्जुत्तीए ससंगहणीए जेगुणावा भावावा अरहंतेहिं भगवंतेहिं पन्नत्तावा परूवियावा तेभावे सद्दहामो पत्तियामो रोएमो फासेमो पालेमो अणुपालेमो तेभावे सद्दहंतेहिं पत्तियंतेहिं रोयंतेहिं

फासंतेहिं पालंतेहिं अणुपालंतेहिं अंतोपरकखस्स अंतोचउमासीए अंतो संवच्छरस्स जंवाइयं पढियं परियट्टियं पुच्छियं अणुपेहियं अणुपालियं तंदुरकखरकखयाए कम्मरकखयाए मोहखयाए बोहिलाभाए संसारुत्ता रणाए त्तिकट्टुउवसंपज्जित्ताणं विहरामि अंतोपरकखस्स जंनवाइयं नप ढियं नपरियट्टियं नपुच्छियं नाणुपेहियं नाणुपालियं संतेबले संतेवी रिए संतेपुरिसक्कारपरिक्कमे तस्सआलोएमोपडिक्कमामो निंदामो गरि हामो विउट्टेमो विसोहेमो अकरणयाए अब्भुट्ठेमो अहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तंपडिवज्जामो तस्समिच्छामिदुक्कडं नमोतेसिंखमासमणाणं जे हिंइमंवाइयं अंगबाहिरियं उक्कालियं भगवंतं तंजहा दसवेयालियं कप्पियाकप्पियं चुल्लकप्पसुयं महाकप्पसुयं उववाइयं रायप्पसेणीयं जीवाभिगमो पन्नवणा महापन्नवणा नंदीअणुयोगदाराइं देविंद थुओ तंदुलवेयालियं चंदाविज्झयं पमायप्पमायं वीयरागसुयं विहार कप्पो चरणविसोही आउरपच्चरकखाणं महापच्चरकखाणं सव्वेहिंपिए यंमि अंगबाहिरिए उक्कालिए भगवंते ससुत्ते सअत्थे सग्गंथे सन्नि ज्जुत्तीए ससंगहणीए जेगुणावा भावावा अरिहंतेहिं भगवंतेहिं प न्नत्तावा परूवियावा तेभावे सद्दहामो पत्तियामो रोएमो फासेमो पालेमो अणुपालेमो तेभावेसद्दहंतेहिं पत्तियंतेहिं रोयंतेहिं फासंतेहिं अणुपालंतेणं अंतोपरकखस्स जंवाइयं पढियं परिअट्टियं पुच्छियं अणु पेहियं अणुपालियं तंदुरकखरकखयाए कम्मरकखयाए मोहखयाए बोहि लाभाए संसारुत्तारणाए त्तिकट्टु उवसंपज्जित्ताणंविहरामि अंतोप रकखस्स जंनवाइयं नपढियं नपरियट्टियं नपुच्छियं नाणुपेहियं नाणुपा लियं संतेबले संतेवीरिए संतेपुरिसक्कारपरिक्कमे तस्स आलोएमो प डिक्कमामो निंदामो गरिहामो विउट्टेमोविसोहेमो अकरणयाए अब्भुट्ठे मो आहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जामो तस्समिच्छामिदुक्कडं न मोतेसिं समासमणाणं जेहिंइमंवाइयं अंगबाहिरियं उक्कालियं भगवंतं

तंजहा उत्तरज्झयणाइं दसाउकप्पोववहारो इसिभासियाइं महानिसीहं जंबुद्दीवपन्नत्ती सूरपन्नत्ती चंदपन्नत्ती दीवसागरपन्नत्ती खुड्डियाविमाणपविभत्ती महल्लियाविमाणपविभत्ती अंगचूलिया वंगचूलिया विवाहचूलिया अरुणोववाए वरुणोववाए गरुलोववाए वेसमणोववाए वेलंधरोववाए देविंदोववाए उठ्ठाणसुए समुठ्ठाणसुए नागपरियावलियाउ निरयावलियाउ कप्पियाउ कप्पवडिंसयाउ पुप्फियाउ पुप्फचुलियाउ वह्नीदसाउ आसीविसभावणाउ दिठ्ठीविसभावणाउ चारणसुमिणभावणाउ महासुमिणभावणाउ तेअग्गिनिसग्गाणं सव्वेहिंपिएयंमि अंगबाहिरए उक्कालिए भगवंते ससुत्ते सअत्थे सग्गंथे सन्निजुत्तीए ससंगहणीए जे गुणावा भावावा अरिहंतेहिं भगवंतेहिं पन्नत्तावा परूवियावा तेभावेसद्दहामो पत्तियामो रोएमो फासेमो पालेमो अणुपालेमो ते भावे सद्दहंतेहिं पत्तियंतेहिं रोयंतेहिं फासंतेहिं पालंतेहिं अणुपालंतेहिं अंतोपख्खस्स जंवाइयं पढियं परियट्टियं पुच्छियं अणुपेहियं अणुपालियं तंदुख्खख्खयाए कम्मख्खयाए मोहख्खयाए बोहिलाभाए संसारुत्तारणाए त्तिकट्टु उवसंपज्जित्ताणं विहरामि अंतोपख्खस्स जंनवाइयं नपढियं नपरियट्टियं नपुच्छियं नाणुपेहियं नाणुपालियं संते बले संतेवीरिए संतेपुरिसक्कारपरिक्कमे तस्स आलोएमो पडिक्कमामो निंदामो गरिहामो विउट्टेमो विसोहेमो अकरणयाए अप्भुठ्ठेमो अहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तंपडिवज्जामो तस्स मिच्छामिदुक्कडं नमोतेसिंखमासमणाणं जेहिंइमंवाइयं दुवालसंगंगणिपिडगं भगवंतं तंजहा आयारो सूयगडो ठाणो समवाउ विवाहपन्नत्ती नायाधम्मकहाउ उवासगदसाउ अंतगडदसाउ अणुत्तरोववाइअदसाउ पण्हावागरणं विवागसुयं दिठ्ठिवाउ सुदिठ्ठिसुहाउ सव्वेहिं पिएयंमि दुवालसंगे गणिपिडगे भगवंते ससुत्ते सअत्थे सग्गंथे सन्निजुत्तीए ससंगहणीए जेगुणावा भावावा अरिहंतेहिं भगवंतेहिं पन्नत्तावा परूवियावा तेभावे स

द्दहामो पत्तियामो रोएमो फासेमो पालेमो अणुपालेमो तेभावे सद्द हंतेहिं पत्तियंतेहिं रोयंतेहिं फासंतेहिं पालंतेहिं अणुपालंतेहिं अंतो पख्खस्स जंवाइयं पढियं परियट्टियं पुच्छियं अणुपेहियं अणुपालियं तं दुख्खख्कयाएकम्मख्खयाए मोहख्खयाए बोहिलाभाए संसारुत्तारणाए त्तिकट्टु उवसंपज्जत्ताणं विहरामि अंतोपख्खस्स जंनवाइयं नपढियं नप रियट्टियं नपुच्छियं नाणुपेहियं नाणुपालियं संतेबले संतेवीरिए संतेपुरिस क्कारपरिक्कमे तस्सआलोएमो पडिक्कमामो निंदामो गरिहामोविउट्टेमो विसोहेमो अकरणयाए अभ्भुट्ठेमो अहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिव ज्जामो तस्समिच्छामिदुक्कडं नमोतेसिंखमासमणाणंजेहिंइमंवाइयं दुवाल संगं गणिपिडगं भगवंतं सम्मंकाएण फासंति पालंति पूरंति तीरंति किट्टं ति सम्मंआणाए आराहंति अहंचनाराहेमि तस्समिच्छामिदुक्कडं ॥ सुय देवयाभगवई, नाणावरणीयकम्मसंघायं ॥ तेसिंखवेउसययं, जेसिं सुयसागरेभत्ती १ इति पाक्षिकसूत्रं समाप्तं ॥

॥ अथ अष्टपुहरी पोसह विधि लिख्यते ॥

॥ रात्रिनी पाछली घडियें निद्रा दूर करीने, पंचपरमेष्ठिस्मरण करी, गृहचिंता परिहरी, पर्व दिवसथकी प्रथम दिवसें पडिलेही राख्यां, जे पोसहनां उपगरण, ते लेई, पोसहशालायें थापनाचार्य समीपें, अथवा गुरुनो संयोग हुवे तो गुरुनी पासें आवी, भूमि प्रमार्जी एक खमासमण देई, इरियावहि पडिक्कमि पीछें खमासमण देई, ॥ इच्छाका० ॥ सं० ॥ भ० ॥ पोसह मुहपत्ती पडिलेहुं ? गुरु कहे, पडिलेहेह. इच्छं कही खमासमण देई, मुहपत्ती पडिलेहे. पीछें उभो थई, खमासमण देई इच्छाका० ॥ सं० ॥ भ० ॥ पोसह संदिस्साउं ? गुरु कहे, संदिस्सावेह, पीछें इच्छं कही, खमासमण देई. इच्छाका० ॥ सं० ॥ भ० ॥ पोसह ठाउं ? गुरु कहे

गाएह, पीछें इछं कही खमासमण देई ऊनो थई, आधो शरीर नमावी मुखें मुहपत्ती देई, मधुरस्वरें तीन नवकार गुणी कहे. इ-छकार भगवन् पसाउ करी, पोसह दंमक उच्चरावो ? गुरु कहे उ-च्चरावेमो ॥ पीछें करेमि भंते पोसहं ॥ इहांसें ले के अप्पाणं वो-सिरामि ॥ तक कहे. अब पोसहका पच्चख्खाण लीये, सो लिखते हैं.

॥ अथ पोसहका पच्चरकाण प्रारंभः ॥

॥ करेमि भंते पोसहं, आहार पोसहं, देसउ सव्वउ वा, सरीरसक्कार पोसहं, सव्वउ बंभचेर पोसहं, सव्वउ अव्वावार पोसहं, सव्वउं चउविहे पोसहे, सावज्जं जोगं पच्चख्खामि, जावदिवसं अहो-रत्तिं वा पज्जुवासामि, दुविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं, न करेमि न कारवेमि, तस्स भंते पमिक्कमामि निंदामि, गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि.

॥ ए पाठ तीन वार गुरुवचन अनुभाषण करतो उच्चरे ॥ पीछें एक खमासमणें ॥ इछाका० ॥ सं० ॥ भ० ॥ सामायिक मुहपत्ती पमिलेहुं ? गुरु कहे, पमिलेहेह. बीजी खमासमण देई मुहपत्ती पमिलेहे. पीछें दोय खमासमणें सामायिक संदिस्साउं ? सामायिक ठाउं ? कही, खमासमण देई. अर्धावनतगात्र ऊभो थको तीन नवकार, गुनी तीन करेमि भंते उच्चरी दोय खमासमणें बे-सणो संदिस्साउं ? बेसणो ठाउं ? कही, पीछें दोय खमासमणें सि-ज्झाय संदिस्साउं ? सिज्झाय करुं ? कही खमासमण देई ऊभो थको, आठ नवकारनो सिज्झाय करे. शीतादि परिसहें दोय खमासमणें, पांगरणुं संदिस्साउं ? पांगरणुं पमिग्घाउं ? कहे. ए सर्व सामायिक-विधि पूर्वें कह्यो छे. तिमहीज करवो, पण इतनो विशेष छे. पहिलां इरियावही पमिक्कमी छे, तेमाटें इहां सामायिक दंमक उच्चर्यां पीछें इरियावही नही पमिक्कमीजें ॥ पीछें चैत्यवंदन, जयवीयराय,

सूधी करी कुसुमिण डुस्समिण काउस्सग्ग करे, पीछें पडिक्कमण-वेलासीम सिज्झाय ध्यान करे. पीछें पूर्वोक्त रीतें पडिक्कमण करे, पण इतरो विशेष के च्यारे थुइयें देव वांद्या पीछें खमासमण देई कहे ॥ इच्छाका० ॥ सं० ॥ ज० ॥ बहुवेलं संदिस्साउं? गुरु कहे, संदिस्सावेह. पीछें इछं कही खमासमण देइ कहे. इच्छाका० ॥ सं० ॥ ज० ॥ बहुवेलं करुं? गुरु कहे, करेह ॥ पीछें इछं कही, तीन खमासमणें श्री आचार्यजी मिश्र १, श्रीउपाध्यायजी मिश्र २, त्रीजे सर्वसाधु वांदी, कम्मभूमिहिं कम्मभूमिहिं इत्यादि नमस्कार जणे, जो पडिलेहणवेला नाहिं हुवे, तो सीमंधरस्वामीनुं चैत्यवंदनादि करी, सिज्झाय करे. हवे पडिलेहण वेला पडिलेहण करे. ते विधिपूर्वं आ ग्रंथना ३२ पृष्ठमां लिख्यो छे तो पण संक्षेपें फेर लखीयें छैयें. दोय खमासमणें,इच्छाका० ॥ सं० ॥ ज० ॥ पडिलेहण करुं ? कही मुहपत्ती पडिलेहे. पीछें दोय खमासमणें अंग पडिलेहण संदिस्साउं ? अंग पडिलेहण करुं ? कहे. पीछें गुरुवचनें इछं कही. धोतियो कणदोरो पडिलेही वस्त्र पहेरी, खमासमण देई, इछकार जगवन्! पसाउ करी, पडिलेहण करावो जी ॥ एम कही, स्थापनाचार्य पडिलेही स्थापे, अने जो गुर्वादिक स्थापनाचार्य पडिलेहे, तो पण खमासमण देई उक्त रीतें आग्या मागे. पीछें खमासमण देई ॥ इच्छाका० ॥ सं० ॥ ज० ॥ उपधि मुहपत्ती पडिलेहुं ? गुरु कहे, पडिलेहेह. पीछें इछं कही, मुहपत्ती पडिलेही दोय खमासमणे ॥ इच्छाका० ॥ सं० ॥ ज० ॥ उही पडिलेहण संदिस्साउं? गुरु कहे, संदिस्सावेह. उही पडिलेहण करुं? गुरु कहे, करेह.

॥ अथ २४ थंडिलां पडिलेहणपाठ लिख्यते ॥

॥ आगाढे आसन्ने उच्चारे पासवणे अणहियासे ॥ १ ॥ आ-

गाढे मझे उच्चारे पासवणे अणहियासे ॥ २ ॥ आगाढे दूरे उच्चारे पासवणे अणहियासे ॥ ३ ॥ आगाढे आसन्ने पासवणे अणहियासे ॥ ४ ॥ आगाढे मझे पासवणे अणहियासे ॥ ५ ॥ आगाढे दूरे पासवणे अणहियासे ॥ ६ ॥ आगाढे आसन्ने उच्चारे पासवणे अहियासे ॥ ७ ॥ आगाढे मझे उच्चारे पासवणे अहियासे ॥ ८ ॥ आगाढे दूरे उच्चारे पासवणे अहियासे ॥ ९ ॥ आगाढे आसन्ने पासवणे अहियासे ॥ १० ॥ आगाढे मझे पासवणे अहियासे ॥ ११ ॥ आगाढे दूरे पासवणे अहियासे ॥ १२ ॥ अणागाढे आसन्ने उच्चारे पासवणे अणहियासे ॥ १३ ॥ अणागाढे मझे उच्चारे पासवणे अणहियासे ॥ १४ ॥ अणागाढे दूरे उच्चारे पासवणे अणहियासे ॥ १५ ॥ अणागाढे आसन्ने पासवणे अणहियासे ॥ १६ ॥ अणागाढे मझे पासवणे अणहियासे ॥ १७ ॥ अणागाढे दूरे पासवणे अणहियासे ॥ १८ ॥ अणागाढे आसन्ने उच्चारे पासवणे अहियासे ॥ १९ ॥ अणागाढे मझे उच्चारे पासवणे अहियासे ॥ २० ॥ अणागाढे दूरे उच्चारे पासवणे अहियासे ॥ २१ ॥ अणागाढे आसन्ने पासवणे अहियासे ॥ २२ ॥ अणागाढे मझे पासवणे अहियासे ॥ २३ ॥ अणागाढे दूरे पासवणे अहियासे ॥ २४ ॥ ए थंमिलपमिलेहण पाठ कह्या ॥

॥ यह चोवीस थंडिलां कहां कहां करनां ? सो लिखते हैं.

॥ ६ थंमिला शय्याके दोनुं तरफ दहिणें पासे ३, वाम पासे ३, पमिलेहे ॥ ६ थंमिलां दरवज्जेके ज्ञीतर पासें दहिणें ३, वामें ३ पमिलेहे ॥ ६ थंमिलां दरवज्जेके बाहर दोनु पासें पमिलेहे ॥ ६ थंमिलां जिहां उच्चार प्रस्त्रवणकी जगा होवे, ते दोनुं तरफ पमिलेहे ॥ इति २४ थंमिलां पमिलेहणविधिः संपूर्णः ॥

पीछें इच्छं कही, कंबल वस्त्रादि पमिलेही पोसह शाला प्र

आर्जी काजो विधिशुं परठवी, एक खमासमण देई इरियावही पमिक्कमे. इहां आचार दिनकरमें कह्यो छे. दोय खमासमणें इच्छा का० ॥ सं० ॥ न० ॥ वसती संदिस्साउं ? वसती पमिलेहुं ? कही वसती मात्रो प्रमुख प्रमार्जे. इत्यादि पण विधिप्रपा प्रमुखमें न कह्यो ॥

॥ हवे एक खमासमणें ॥ इच्छाका० ॥ सं० ॥ न० ॥ सिझाय संदिस्साउं ? गुरु कहे, संदिस्सावेह. बीजे खमासमणें ॥ इच्छाका० ॥ सं० ॥ न० ॥ सिझाय करुं ? गुरु कहे करेह. पीछें इच्छं कही नवकार एक कथन पूर्वक उपदेशमाला प्रमुख सिझाय करी, नवकार एक कही धर्मध्यान करे, नणे, गुणे. वखाण सुणे. इम करतां पूर्ण पहुर दिन चढयां. उग्घाडा पोरिसी अथवा. बहुपमिपुन्ना पोरिसी कही, खमासमण देई, इरियावही पमिक्कमी दोय खमासमणें ॥ इच्छाका० ॥ सं० न० ॥ पमिलेहण करुं ? गुरु वचनें इच्छं कही. मुहपत्ती पमिलेही पान नोजन पात्र पमिलेही राखे. पीछें सिझाय ध्यान करे ॥

॥ हवे कालवेलायें आवस्सही पूर्वक देहरे जई पांचे शक्रस्तवें देववांदण विधि दो प्रकारसें लिखते हैं ॥

॥ तीन प्रदक्षिणा देई. तीन वार नमस्कार करी, नूमि प्रमार्जी, पुरुष हुवे तो प्रनुजीके दक्षिण पासें वेसे, स्त्री हुवे तो वाम पासें वेसे. पीछें ॥ इच्छाका० सं० ॥ न० ॥ चैत्यवंदन करुं ? इच्छं कही, चैत्यवंदन कहे. पीछें नमोत्थुणं कहे. खमासमण देई इरियावही पमिक्कमे. एक लोगस्सनो काउस्सग करे. मुखें लोगस्स कहे. संथासा प्रमार्जी वेसे. तीन तथा चार तथा पांच आदि देई नमस्कार कहे. "जं किंचि नाम तिछं" इत्यादि कही पीछें नमोत्थुणं कहे. उन्नो थई अरिहंत चेईयाणं करेमि काउस्सग्गं वंदणवत्ती०

अन्नत्थू० कही, एक नवकारनो काउस्सग्ग करे. पारी एक थुईकी गाथा कहे ॥ पीछें लोगस्स० सव्वलोए अरि० वंदणव० अन्नत्थू कही एक नव० पारी दूरी थुईकी गाथा कहे. पीछें पुक्खरवरदी० सुअस्स भग० वंदण० अन्नत्थू कही एक नवकार० पारी तीसरी थुईकी गा० पीछें सिद्धाणं बुद्धाणं० वेयावच्चगराणं० अन्नत्थू० इत्यादि कथन पूर्वक चोथी थुइकी गाथा कह कर, बैठकें नमोत्थूणं कहे. फेर अरिहंतचेई० कहे. इसी तरें चार थुइयें देव वांदी बेसें नमोत्थूणं कहे. नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय इत्यादि कही पीछें स्तवन कहे, पीछें जयवीयराय कही. नमोत्थूणं सव्वे तिविहेण वंदामि पर्यंत कहे ॥ एम पांचे शक्रस्तवें देववंदन विधि जाणवो ॥

॥ ए विधि प्रवचनसारोद्धार प्रमुख ग्रंथमें कह्यो छे. तथा चैत्यवंदन वृहद्भाष्यमें एम कह्यो छे ॥ नमस्कार कथनें पूर्वक शक्रस्तव कही, इरियावही प्रतिक्रमणादि करें; वली नमस्कार कथनपूर्वक शक्रस्तव कही दोय वार चार थुईसें देव वांदे. फेर शक्रस्तव कही "जावंति चेइयाइं" गाथा भणी खमासमण पूर्वक जावंति के० बीजी गाथा कही, स्तवन कहे. वली नमोत्थूणं कही जयवीयराय कहे ॥ इति देववंदन विधिः ॥

॥ पीछें निस्सही पूर्वक पोसहशाला मांहे आवी, इरियावही पडिक्कमे. पीछें सिज्झाय ध्यान करे, जो तिविहार उपवास कियो हुवे, तो पच्चक्खाण वेला पूर्ण हुवां जल पीणेकूं पच्चक्खाण पारे ॥

॥ हवे पच्चक्खाण पारणेका विधि लिखते हैं ॥

॥ खमासमण देई इरियावही पडिक्कमे. फिर एक खमासमण ॥ इच्छा० ॥ सं० ॥ भ० ॥ पच्चक्खाण पारवा मुहपत्ती पडिलेहुं ? गुरु कहे, पडिलेहेह ॥ पीछें इच्छं कही खमासमण देई, मुहपत्ती पडिलेहे. फेर एक खमासमण देई, इच्छाका० ॥ सं० ॥

ज्ञ० ॥ पाणहार अमुक पच्चख्खाण पारुं ? गुरु कहे, पुणोवि काय०वो. पीछें यथाशक्ति कही, खमासमण देई इच्छाका० ॥ सं० ॥ ज्ञ० पाणहार पारुं ? गुरु कहे, आयारो न मोत्त०वो. पीछें तहत्ति कही, अमुक पच्चख्खाण चउविहार कर्यो, एम एक नवकार गुणी पच्चख्खाण फासियं, पालियं, सोहियं, तीरियं, किट्टियं, आराहियं, जं च न आराहियं, तस्स मिच्छामि दुक्कडं, कही ॥ चैत्यवंदन करे. क्षणमात्र सिज्झाय करी यथासंभवें अतिथिसंविभाग करी पाणीपीवे॥

॥ तथा उपधानवाही हुवे, तो पोरिसी प्रमुख पच्चख्खाण पारी आहार करे. पीछे आसण बैठो थकोहीज दिवस चरिम पच्चख्खे, पीछें इरियावही पडिक्कमी चैत्यवंदन करे. ए चैत्यवंदन आहार संवरण निमित्तें छे ॥ इति पच्चख्खाण पारणेका विधि ॥

॥ पीछें जो बहिर्भूमि जावणो हुवे, तो आवस्सही कही उपयोगी थको, निर्जीव थंडिले जई; अणुजाणह जस्सुग्गहो कही पूर्व, उत्तर, सूर्य, ग्रामादिकने पूंठि अण देई, मलमूत्र परिठवे, प्राशुकजलें शुद्ध थई तीन वार वोसिरामि, एहवुं कहिवे करी मलमूत्र वोसिरावी, पोसहशालायें निस्सही पूर्वक पेसी इरियावही पडिक्कमे. खमासमण देई कहे ॥ इच्छाका० ॥ सं० ॥ ज्ञ० ॥ गमणागमणं आलोयहं ? गुरु कहे, आलोएह. पीछें इच्छं कही गमणागमण आलोवे ॥ ते इम आवस्सही करी, प्राशुक देशें जई, संडासा पूंजी, थंडिलो पडिलेही, उच्चार प्रश्रवण वोसिरावी, निस्सही करी, पोसहशालायें आव्यो ॥ आवंति जंतेहिं जं खंडियं, जं विराहियं, तस्स मिच्छा मि दुक्कडं, एम कही वेसे. पीछें पडिलेहण वेला सीम सिज्झाय ध्यान करे ॥

॥ हवे पाछले पहुरे इरियावही पडिकमी खमासमण देई कहे, इच्छाका० ॥ सं० ॥ ज्ञ० ॥ पडिलेहण करुं ? गुरु कहे करेह.

इछं कही दूजे खमासमणे इछाका० ॥ सं० ॥ ज० ॥ पोसहशाला प्रमार्जु ? गुरु कहे, प्रमार्जेह. पीछें इछं कही, मुहपत्ती पडिलेही दोय खमासमणें अंग पडिलेहण संदिस्साउं ? अंग पडिलेहण करुं ? कहे. पीछें गुरु वचनें इछं कही मुहपत्ती पडिलेही दंडासणो पूंजणी प्रमुखनें प्रमार्जी पोसहशाला प्रमार्जें. पीछें काजो शुद्ध करी, उद्धरी एकांतें विखरतो परठवी इरियावही पडिक्कमी, खमासमण पूर्वक कहे ॥ इछकार भगवन् पसाउ करी पडिलेहणां पडिलेहावोजी ॥ पीछें स्थापनाचार्य पडिलेही स्थापे. गुरुसमीपें अथवा थापनाचार्य समीपें एक खमासमण देई ॥ इछाका० ॥ सं० ॥ भ० ॥ मुहपत्ती पडिलेहुं ? गुरु कहे, पडिलेहेह. पीछें इछं कही खमासमण देई, मुहपत्ती पडिलेहे. पीछे दोय खमासमणें ॥ इछाका० ॥ सं० ॥ भ० सिद्धाय संदिस्साउं ? सिद्धाय करुं ? उक्त रीतें क्षणमात्र सिद्धाय करी तिविहार उपवास कीधो हुवे तो गुरु साखें पाणिहार पच्चक्खे ॥ उपधानवाही प्रमुख आहार कीधो हुवे, तो वांदणां दोय देई, पच्चक्खाण करे. पीछें एक खमासमण देई ॥ इछाका० ॥ सं० ॥ भ० ॥ उपधि थंडिला पडिलेहण संदिस्साउं ? बीजे खमासमणें ॥ इछाका० ॥ सं० ॥ भ० ॥ उपधि थंडिला पडिलेहुं? गुरु वचनें इछं कही, दोय खमासमणें ॥ इछाका० ॥ सं० ॥ भ० ॥ बेसणो संदिस्साउं बेसणो ठाउं ? कही बेसे. वस्त्र कंबलादि पडिलेहे. पुंजणी हुवे, तो ते पण मुहपत्तीशुं पडिलेहे. उपवासी तो छे तेमाटें सर्व पाछो कडिपट्टो धोतीयो कणदोरो पडिलेहे, उपधानवाही प्रमुख भोजन कीधो हुवे तो कडिपट्टादि पडिलेह्यां. पीछें वस्त्र कंबलादि पडिलेहे. ए विशेष छे ॥ पीछें कालवेला सीम सिद्धाय ध्यान करे. पीछें उच्चार प्रश्रवण २४ थंडिला पडिलेहे, जो चउदश हुवे, तो पाखी चउमासी पडिक्कमणो करे, संवछरीयें

संवत्सरी पडिक्कमणो करे. तिहां देवसी पडिक्कमणो पूर्वे लिख्यो छे, तिमहज करे, पण इतरो विशेष छे ॥ इच्छा० ॥ देवसियं आलो एमि इत्यादि देवसी आलोयां पीछें " गमणे कमणे चंकमणे " इत्यादि पाठ कहे. खुद्दोवद्दव काउस्सग्ग कियां पीछें दोय खमासमणें ॥ इच्छाका० ॥ सं० ॥ भ० सिझाय संदिस्साउं ? सिझाय करुं ? कही बैठो थको तीन नवकार प्रमुख सिझाय करे ॥ इति ॥

॥ पाक्षिकादि तीन पडिक्कमणविधि आगें एही पुस्तकमें लिख गये हैं. वहांसें जान लेना.

॥ हवे पडिक्कमणो हुवा पीछें साधुको वेयावच्च करी पोरसी सीम सिझाय ध्यान करे. जो लघुनीति प्रमुख करवी हुवे, आसज्ज कहेतो थको, भूमि प्रमाजें थंडिल स्थानकें जई, देहशंका निवारे प्रश्रवण वोसिरावी, स्वस्थानकें आवे. भगवन् ! बहु पडिपुन्ना पोरसी एम कही खमासमण देई इरियावही पडिकमे, पीछें राई संथारा विधि करे ॥

॥ हवे राई संथारा विधि कहे छे ॥

॥ खमासमण देई ॥ इच्छाका० सं० ॥ भ० ॥ राइ संथारा मुहपत्ती पडिलेहुं ? गुरु कहे, पडिलेहह. पीछें इच्छं कही, खमासमण देई मुहपत्ती पडिलेहे. एक खमासमणें ॥ इच्छाका० ॥ सं० ॥ भ० ॥ राइ संथारो संदिस्साउं ? बीजे खमासमणें ॥ इच्छाका० सं० ॥ भ० राई संथारो ठावुं ? पीछें गुरु वचनें इच्छं कही, चउक्कसाय पडिमल्लुल्लूरण इत्यादि नमस्कार कथन पूर्वक जयवीयराय सूधी चैत्यवंदन करे. भूमि प्रमार्जी, संथारो उत्तर पट्टो पाथरे. पीछें शरीर प्रमार्जी निस्सही निस्सही एम कही संथारे बेसी, तीन नवकार तीन करेमि भंते उच्चरी ॥ णमो खमासमणाणं, गोयमाईणं महामुणीणं. अणजाणह जिठिज्जा अणजाणह परम गुरु

इत्यादि राइ संथारा गाथा जणी, वाम हाथ सिराणें देई सोवे. निद्रा नावे जां सीम मुनिवर चरित्र चिंतवे, पसवाडो फेरे तो शरीर संथारो प्रमार्जी फेरे, जो देह शंकायें ऊठे, तो पूर्वोक्त विधें देहशंका निवारी, इरियावही पडिक्कमे ॥ पीछैं जघन्यें पण तीन गाथानी सिझाय करी सोवे ॥ इति राइ संथारा विधि कह्यो ॥

॥ हवे रात्रिनें पाछिले पहोर ऊठी, नवकारादि गुणी, इरियावही पडिक्कमे. खमासमण देई कुसुमिण डुस्सुमिण काउस्सग्ग करी, पूर्वोक्त विधें सामायिक लेवे, इहां इरियावही न पडिक्कमे. पीछैं दोयखमासमणें सिझाय संदिस्सावी आठ नवकार गुणी, पडिक्कमण वेला सीम सिझाय करे. पडिक्कमण वेला हुवां पडिक्कमणो पूर्वली परें करे, पण इतरो विशेष छे, के राइ आलोयां पीछैं संथारा उवट्टणकी इत्यादि पाठ कहे. एम संपूर्ण पडिक्कमणो करी पडिलेहण वेलायें पूर्वोक्त विधें पडिलेहण करी, धर्मशाला पूंजी काजो ऊद्धरी इरियावही पडिक्कमे. दोय खमासमणें सिझाय संदिस्सावी, उपदेशमाला प्रमुख सिझाय करे. पीछैं पोसह पारे ॥

॥ अथ पोसहपारणेका विधि लिखते हैं ॥

॥ खमासमण देई मुहपत्ती पडिलेहे. फेर खमासमण देई कहे ॥ इच्छाका० ॥ सं० ॥ उ० ॥ पोसह पारुं? गुरु कहे, पुणोवि कायवो. पीछैं यथाशक्ति कही, खमासमण देई कहे ॥ इच्छा० ॥ सं० ॥ उसंबंधी सह पारयुं ? गुरु कहे, आयारो न मो- [illegible] ॥. पीछैं नहकिया, प[illegible]छैं दोसमण देई अर्धावनत गात्रें उभो [illegible] तीन [illegible] पडिलेहण [illegible]मासमण देई, मुहपत्ती पडिलेहे, पीछैं [illegible] [illegible]समण देई [illegible] पडिलेहे. य[illegible]का० ॥ सं० ॥ उ० सामायिक पारुं ? [illegible] कहे पुणो [illegible] विधही, [illegible]छैं यथाशक्ति कही, खमासमण देई [illegible] ॥ [illegible] सामायिक पारयुं ? गुरु कहे आ- [illegible]च्छाका० ॥

थारो न मोत्तव्वो. पीछें तहत्ति कही खमासमण देई अर्धावनत्त गात्रें जन्नो थको हाथ जोड्यां- मुहपत्ती मुखें दियां थकां तीन न वकार गुणी संथारा पमिलेहे. गोमालीयें बेसी मस्तक नमावी, " जयवं दसन्नद्दो " इत्यादि जावनारूप गाथा कहे. पीछें पोस हना जपगरण संवरी, देहरे जई देव जुहारे. घरे आवी आहार निष्पन्न हुवो देखी साधु समीपें आवे, अतिथि संविजागव्रत सा- चवण निमित्तें साधु जणी निमंत्रणा करी, घरे ले जावे, साधु प ण शुद्ध आहार लेई, स्वस्थानकें आवे, तिवार पीछें साधुनें जे आ हार दीधो, तेहनोहीज शेष आहार आप करे ॥ इति आठ पुहरी पोसह ग्रहण पारण विधिः ॥

॥ हवे दिन ऊग्या पीछें पोसह ले, तेहनो विधि कहे छे ॥

॥ घरथकी निश्चिंत थई धर्मस्थानकें आवी, सर्व जपगरण पमिलेही, कचरो विधिशुं परठवी इरियावही पमिक्कमे. खमास- मण पूर्वक आग्या मागी, पोसह मुहपत्ती पमिलेहे, आगें पोसह ग्रहणका विधि पूर्वे लिखा है. तिमहिज जाणवो. पण दिवस पो- सहहीज करणो हुवे, तो पोसह दंमक उच्चरतां जावदिवसं पज्जु- वासामि, एहवो पाठ कहे. अने जो अठपुहरी करवो हुवे, तो जाव अहोरत्तिं पज्जुवासामि एहवो पाठ कहे. पछें सामायिक विधि सर्व करी चैत्यवंदन कुसुमिणदुस्समिण काउस्समग्ग करी पमिक्कमण करी दोय खमासमणें बहुवेलं संदिसावणें इत्यादि करे... जो पमिक्कमणो गुरु साथें करयो हुवे, तो ...मन पूर्वक ...वीयर... पमिलेही राख्यां जे वस्त्र, ते पहेरी पोसह सारो उत्तर पट्टो प... ...विधि करी दोय खमासमणें बहुवेलं संदिस्सावे २, ...न कही संथारे ... मणो करयो हुवे, तो गुरुपासें आवी ...णमो खमासमण ... जूदो पमिक्क- करी, आलोयण खामणादि निमित्तें ...ज्जा अणुजाणह... ...यक सर्व विधि ...फलेही ने वांदणां

देई ॥ इच्छाका० सं० ॥ भ० ॥ राइयं आलोउं ? गुरु कहे, आलोएह. पीछें राई आलोवे, फेर एक खमासमण देई ॥ इच्छाका० ॥ सं० भ० ॥ अब्भुठ्ठिओमि अभिंतर, राईयं खामेमि ? गुरु कहे खामेह. पीछें सब पाठ कहे, राई खामे, पहिलां पडिक्कमणामें नवकारसी पच्चख्यो थो तेमाटें पीछें गुरु साखें पच्चख्काण उपवासनो करे. पीछें दोय खमासमणें वहुवेलं संदिस्सावे ॥ ए तीन प्रकारका विकल्प जाणनां. हवे पडिलेहण तो पूर्वें करी छे, तो पण आदेश मागवो. ते एम खमासमण देई॥ इच्छाका० ॥ सं०॥ भ० ॥ पडिलेहण संदिस्साउं ? बीजे खमासमणें पडिलेहण करुं ? कही मुहपत्ती पडिलेहे. पीछें इमहीज दोय खमासमणें अंग पडिलेहण संदिस्सावी मुहपत्ती पडिलेहे. पीछें वली खमासमण देई इच्छकार भगवन् ! पसाउ करी पडिलेहण पडिलेहावो जी. एम कहे, पीछें एक खमासमण देई ॥ इच्छाका० ॥ सं० ॥ भ० ॥ उपधि मुहपत्ति पडिलेहुं ? कही कोई वस्त्र अणपडिलेह्यो राख्यो हुवे, तो पडिलेहे. नहीं तो वली आसण पडिलेहे. दोय खमासमणें सिझाय संदिस्सावी उपदेशमाला प्रमुख सिझाय करे. आगें सर्व क्रिया पूर्वें अठ पुहरी पोसहमें लिखी है. तिमहीज जाणवी, पण इहां अठ पुहरी पोसह तो पाछली रातें वली सामायिक न लेवे. जिणे [illegible]स संबंधी चउ पुहरी पोसह लीधो हुवे, ते पाछले पुहर पच्चख्काण किया, पीछें दोय खमासमणें उहरी पडिलेहण संदिस्साउं ? उहरी पडिलेहण करुं ? कहे, पण थंडिला पद न कहे. [illegible] थंडिला नहीं पडिलेहे.यह निःकेवल दिन संबंधी पोसह [illegible]पणने थंडिला नहीं पडिलेहे.यह निःकेवल दिन संबंधी पोसह अ[illegible] करणेमें [illegible]ष विधिही, सो बताई ॥ इति दिनसंबंधी पोसह संग्रहणविधिः ॥

॥ अथ रात्रि संबंधि चउपुहरी पोसहनो विधि कहे हैं ॥

॥ तिहां जिणे प्रथम चउ पुहरी दिवस पोसो उच्चरयो है. पीछैं संध्याना पडिलेहण करतां रात्रि पोसहनो भाव थयो, तो पच्चरकाण कियां पीछैं दोय खमासमणें पोसह मुहपत्ती पडिलेही तीन नवकार गुणी तीन वार पोसह दंडक उच्चरे. तिहां जाव रत्तिं पज्जुवासामि एम पाठ उच्चरे, पीछें सामायिक विधि पूर्वे लिख्यो तिम करे पण सामायिक उच्चरयां पीछैं दोय खमासमणें सिझाय संदिस्सावी आठ नवकार कही बेसणो संदिस्सावी, पांगरणो संदिस्सावी, पीछें दोय खमासमणें ॥ इछाका० ॥ सं० ॥ भ० ॥ उंडी थंडिलां पडिलेहण संदिस्साउं उंडी थंडिलां पडिलेहण करुं? गुरु कहे, करेह. इच्छं कही उपधि पडिलेहे. आगें सर्व क्रिया पूर्वे लिखी तिम जाणवी. तथा जे श्रावक उपवासी तो व्यग्रपणें दिवसें पोसह न करी शक्यो, ते रात्रि पोसहनो भाव थये, पाछले पहुर धर्मस्थानकें आवे. जो वसती प्रमार्जी हुवे, तो सरयो, नही तो वसती प्रमार्जी, काजो परिठवी सर्व उपगरण पडिलेही इरियावही पडिक्कमे. पीछैं चउविहार पच्चरकाण करी दोय खमासमणें पोसह मुहपत्ती पडिलेही दोय खमासमण दे पोसह संदिस्सावे. फेर खमासमण देई, तीन नवकार गुणी, ती[illegible] वार पोसह दंडक उच्चरे. तिहां दिवसेसंरत्तिं पज्जुव[illegible] पडिक्कमणे[illegible] [illegible]था हुवे, तो रत्तिं पज्जुवासामि कहे. पीछैं बिहुं ख[illegible] [illegible] मुहपत्ती पडिलेहे. दोय खमासमण देई, [illegible] [illegible]स्सावे. फेर खमासमण देई, तीन नवकार गुणी, [illegible] [illegible] उच्चरे. दोय खमासमण देई सिझाय संदिस्सावी [illegible] [illegible]धि करी दोय कहे. फेर दो खमासमण देई, बेसणो संदिस्सावे [illegible] जूदो. पडिक- खमासमण देई, पांगरणुं संदिस्सावे. पीछैं बे ख[illegible]यक सर्व विधि

पडिलेहण संदिस्सावी, मुहपत्ती पडिलेहे. फेर बे खमासमण देई, ठंडी थंडिलां पडिलेहण संदिस्सावी जो अणपडिलेह्यो उपगरण हुवे तो पडिलेहे. जो सर्व उपगरण पडिलेह्यां हुवे, तो पण था नक शून्यता टालवा भणी वली आसण पडिलेही, पडिक्कमण वे ला सांम सिझाय ध्यान करे. पीछैं उच्चार प्रश्रवणना २४ थंडिला पडिलेही पडिक्कमणो करे. तथा पाछली रातें वली सामायिक न लेवे. इतना निकेवल रात्रिसंबंधि पोसह लेवाना विकल्प जाणवा ॥ इति रात्रि पोसहविधिः संपूर्णः ॥

॥ अथ ठाणेक्कमणे चंकमणे लिख्यते ॥

॥ ठाणेक्कमणे चंकमणे आउत्ते अणाउत्ते ॥ हरिअकायसंघट्टे बीयकायसंघट्टे थावरकायसंघट्टे छप्पइयासंघट्टे सबस्सवि देवसिअ, दुच्चिंतिय दुब्भासिय दुच्चिठिअ ॥ इच्छाकारेण संदिस्सह, इच्छं तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ॥ १ ॥ संथाराउवट्टणकी, आउट्टणकी, परिअट्टण की, पसारणकी, छप्पइयासंघट्टणकी, अचक्खुविसयकायकी, सवस्स विराहिअ, दुच्चिंतिअ, दुब्भासिअ, दुच्चिठिय, इच्छाकारेण संदिस्सह, इच्छं तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ॥ १ ॥ इति ॥

॥ अथ देववांदणमें अथवा प्रातःकाल संध्याकालके प्रतिक्रमणमें कहनेकी स्तुति ॥

लवे. जिण

॥ तत्र प्रथम बीजकी स्तुति ॥

पुहर पच्चक्खाण

[illegible]रुणं पुन्नसोवन्नदेहं, जणाणंदणं केवलन्नाणगेहं ॥

दिस्साउं ? उह्र स[illegible] बुद्धिरायं, सुसेवामि सीमंधरं तित्थरायं ॥ १ ॥

गने थंडिला न[illegible] [illegible]ण जाया, नवस्संति ते सब्ब भवाण ताआ

प, ण करणेमें दि[illegible] [illegible] वट्टमाणा, सुहं दिंतु ते मे तिलोयप्पहा-

[illegible]हणविधिः ॥ [illegible]तार कुवार पोयं, कलंका वली पंकपक्खाल

तोयं ॥ मणोवंछियछे सुमंदारकप्पं, जिणंदागमं वंदिमो सुमहप्पं ॥ ३ ॥ विकोसे जिणंदाणणंजोजलीणा, कलारूव लावन्न सोहग्ग पीणा ॥ वहं तस्स चित्तंमि णिच्चं पि झाणं, सिरी जारई देहि मे सुद्धनाणं ॥ ४ ॥ इति श्रीसीमंधरजीनी स्तुति ॥ १ ॥

॥ अथ पंचमी स्तुतिः ॥

॥ पंचानंतकसुप्रपंचपरमानंदप्रदानक्षमं, पंचानुत्तरसीमदिव्य पदवीवश्याय मन्त्रोत्तमम् ॥ येन प्रोज्ज्वलपंचमीवरतपो व्याहारि तत्कारिणां, श्रीपंचाननलांछनः स तनुतां श्रीवर्द्धमानः श्रियम् ॥ १ ॥ ये पंचाश्रवरोधसाधनपराः पंचप्रमादीहराः, पंचाणुव्रतपंच सुव्रतविधिप्रज्ञापनासादराः ॥ कृत्वा पंचहृषीकनिर्जयमथो प्रासा गतिं पंचमीं, तेऽमी संतु सुपंचमीव्रतभृतां तीर्थंकराः शंकराः ॥२॥ पंचाचारधुरीणपंचमगणाधेशेन संसूत्रितं, पंचज्ञानविचारसारकलितं पंचेषुपंचत्वदम् ॥ दीपाभं गुरुपंचमारतिमिरेष्वेकादशी रोहिणी, पंचम्यादिफलप्रकाशनपटुं ध्यायामि जैनागमम् ॥ ३ ॥ पंचानां परमेष्ठिनां स्थिरतया श्रीपंचमेरुश्रियां, भक्तानां भविनां गृहेषु बहुशो या पंचदिव्यं व्यधात् ॥ प्रह्वो पंचजने मनोमतकृतौ स्वारल पश्चालिका, पंचम्यादितपोवतां भवतु सा सिद्धायिका त्रायिका ॥ ४ ॥ इति श्रीज्ञानपंचमीस्तुतिः ॥

॥ अथ अष्टमीस्तुतिः ॥

॥ चउवीसे जिनवर, प्रणमुं हुं नितमेव ॥ आठो पडवे [illegible] चंद्रप्रभुनी सेव ॥ मूरति मन मोहे, जाणे पूनि[illegible] दुःख जाये, पामे परमानंद ॥ १ ॥ मिलि चोस[illegible] जीना पाय ॥ इंद्राणी अपछर, कर जोडी साव[illegible] द्वीपें मिलि सुरवरनी कोड ॥ अढाइ मन्[illegible] ॥ २ ॥ शेत्रुंजा शिखरें जाणी [illegible]

पडिक्कमणै [illegible] ते पडिलेही [illegible] विधि करी दोय जूदो पडिक्क- [illegible]यक सर्व विधि पडिलेही ने वांदणां

गणधर मुनि परिवार ॥ भविय़णनें तारे, देई धरम उपदेश ॥ दूध साकरथी पण, वाणी अधिक विशेष ॥ ३ ॥ पोसो पडिक्कमणुं, करियें व्रत पच्चरकाण ॥ आठम तप करतां, आठ करमनी हाण ॥ आठ मंगल थाये, दिन दिन कोडि कल्याण ॥ जिनसूखसूरि कहे, इम जीवत जनम प्रमाण ॥ इति अष्टमी स्तुति ॥

॥ अथ मौनैकादशीस्तुतिः ॥

॥ अरस्य प्रव्रज्या नमिजिनपतेर्ज्ञानमतुलं, तथा मल्लेर्जन्म व्रतमपमलं केवलमलं ॥ वलक्षैकादश्यां सहसि लसदुद्दामसहसि, क्षितौ कल्याणानां क्षपति विपदः पंचकमदः ॥ १ ॥ सुपर्वेंद्रश्रेण्या गमनगमनैर्भूमिवलयं, सदा स्वर्गत्येवाहमहमिकया यत्र सलयं ॥ जिनानामप्यापुः क्षणमतिसुखं नारकसदः, क्षितौ० ॥ २ ॥ जिना एवं यानि प्रणिजगदुरात्मीयसमये, फलं यत्कर्तॄणामिति च विदितं शुद्धसमये ॥ अनिष्टारिष्टानां क्षितिरनुभवेयुर्बहुमुदः, क्षि० ॥३॥ सुराः सेंद्राः सर्वे सकलजिनचंद्रप्रमुदिता, स्तथा च ज्योतिष्काखिलभवननाथाः समुदिताः ॥ तपो यत्कर्तॄणां विदधति सुखं विस्मितहृदः, क्षितौ० ॥ ४ ॥ इति मौनैकादशीस्तुतिः ॥

॥ अथ पार्श्वजिनस्तुति ॥ हरिगीत च्छंद ॥

ध॥ ढेंढेंकि धपमप, धुधुमि धोंधों, ध्रसकिधर, धपधोरवं ॥ [illegible] दों दांग्डिदि दांग्डिदिकि, द्रमकि द्रण रण, द्रेणवं ॥ [illegible] झणणरणरण, निजकि निजजन, रंजनं ॥ सुर सवे. जिणे [illegible] एतु सुलदं, पार्श्वजिनपतिमज्जनं ॥ १ ॥ कटरेंगिं [illegible] पुदर पच्चरकाण [illegible] गरुदां धुधुकि धुटनट, पाटवं ॥गुणगुणण गुणगण, दिससानं ? नह [illegible] गुणगण, गौरवं ॥ झझि झेंकि झूंझूं, झणझस [illegible] ाने थंम्झिा नदे [illegible] निजजन, सज्जना ॥ कलयंति कमला, क [illegible] करो ले, ण करणेमें दि [illegible] मदेजिनाः ॥ २ ॥ ठकि ठूंकि ठेंठें, ग [illegible]

[illegible] ादणविधिः ॥

ह्रिंक, ठह्रिंपट्टा, ताड्यते ॥ तललोंकि लोंलों, त्रेंषि त्रेंषिनि, मेंषिमेंषि नि, वाद्यते ॥ ँनैं ँनैं कि ँनैं ँनैं, थुंगि थुंगिनि, धोंगिधोंगिनि, कल रवे ॥ जिनमतमनंतं, महिम तनुतां, नमति सुरनर, मुच्छवे ॥ ३॥ धुंदांकि धुंदां, धुधुद्दि धुंदां धुधुद्दि दोंदों, अंबरे॥ चाचपट चचपट, रणकि रोंरों रुणरण रुंरुं, रुंवरे ॥ तिहां सरगमपधुनि, निधपमगरस, सस ससस सुर, सेवता ॥ जिननाट्यरंगे, कुशलमुनि शं, दिशतु शासन, देवता ॥ ४ ॥ इति श्रीजिनकुशलसूरिजीकृत पार्श्वजिन० ॥

॥ अथ आंबिलकी स्तुति ॥

॥ निरुपम सुखदायक जगनायक लायक शिवगति गामी जी, करुणासागर निजगुण आगर शुभ समता रस धामी जी ॥ श्रीसिद्धचक्र शिरोमणि जिनवर ध्यावे जे मन रंगें जी, ते मानव श्रीपालतणी परें पामे सुख सुर संगेंजी ॥१॥ अरिहंत सिद्ध आचारिज पाठक, साधु महा गुणवंता जी ॥ दरिसण नाण चरण तप उत्तम, नवपद जग जयवंता जी ॥ एहनुं ध्यान धरंतां लहियें, अविचल पद अविनाशी जी, ते सघला जिननायक नमियें, जिणें ए नीति प्रकाशी जी ॥ २ ॥ आसूमास मनोहर तिम वलि, चैत्रक माग लगीशें जी ॥ उजवाली सातमथी करियें, नव आंबिल नव दिवसें जी ॥ तेर सहस वलि गुणियें गुणणुं, नवपद केरो म[illegible] जी ॥ इण परि निर्मल तप आदरियें, आगम साख [illegible] पडिक्कम[illegible] विमल कमलदललोयण सुंदर, श्रीचक्केसरि देवी, ॥ [illegible]जो पढ़ें गुण रक्षक भविजन केरां, विघ्न हरो सुर सेवी जी, [illegible] दुःक सद्गुरु, श्रीजिनभक्ति मुनिंदा जी ॥ इति [illegible] पडिलेही जीतणे, श्रीजिनलाभ सूरिंदा जी ॥ ४ ॥ इति [illegible]धि करी दोय दीपें

॥ अथ पजूसणकी स्तुति ॥ [illegible] जूदो पडिक्क-

॥ १ ॥ ॥ वलि वलि हुं ध्यावुं गाउं जिनवर [illegible]यक सर्व विधि

[illegible] पडिलेही ने वांदणां

सण, दाख्यां धरमनी शीर ॥ आषाढ चौमासें हूंती दिन पंचास, पडिक्कमण संवछरी करियें त्रण उपवास ॥ १ ॥ चउवीशे जिनवर पूजा सत्तर प्रकार, करियें जलें जावें जरियें पुण्य जंमार ॥ वलि चैत्य प्रवाडें फरतां लाज अनंत, इम परव पजूसण सहुमें महिमावंत ॥ २ ॥ पुस्तक पूजावी नव वांचनायें वंचाय, श्रीकल्प सूत्र जिहां सुणतां पाप पुलाय ॥ प्रतिदिन परजावना धूप अगर उस्केव, इम जवियण प्राणी परव पजूसण सेव ॥ ३ ॥ वलि साहम्मीवछल करियें वारंवार, केइ जावना जावे केइ तपसी शीलधार ॥ अरुदीह पजूसण एम सेवत आणंद, सुयदेवी सांनिध कहे जिनलाज सूरिंद ॥ ४ ॥ इति श्रीपर्यूषणप० ॥

॥ अथ नेमनाथजीकी स्तुति ॥

॥ सुर असुर वंदिय पाय पंकज मयणमल्लअक्षोजितं, घन सघनश्याम शरीर सुंदर शंख लंछन शोजितं ॥ शिवादेवि नंदन त्रिजग वंदन जविक कमल दिनेश्वरं, गिरनार गिरिवर शिखर वंदूं नेमिनाथ जिने ॥ सुहम॰ १ ॥ अष्टापदें श्रीआदिजिनवर वीर जिन पावापुरिं, [illegible]इंदसमुज्जल॰ पुरिय सीधा नेम रेवय गिरिवरे ॥ समेतशिखरें [illegible]पणाया [illegible]र मुगति पहुता मुनिवरू, [illegible] ॥ ४ ॥ इा[illegible] लेह वंदूं सथ[illegible]तिपद सुखकरू ॥ २ ॥ इग्यार [illegible] दश पयन्ना जाणियें, छ छेद ग्रंथ प्रसङ्ग अङ्ग [illegible]णियें ॥ अनुयोग द्वार उदार नंदीसूत्र जिन [illegible] वृत्ति चूर्णी जाष्य पेंतालीश आगम ध्याइयें [illegible]सें शालक दोय जेहने सदा जवियण सुखकरू, [illegible] सुंदर डुरिय दोहग अपहरू ॥ गिरनार मंमण [illegible]रणपंकज सेवियें, श्रीसंघ सहुनें सदा मंगल करो [illegible] ॥ इति गिरनारमंमण श्रीनेमि॰ ॥

लवे. जिण[illegible]

पुहर पच्चक्खाण[illegible]

दिस्साउं ? उच्ची

अने थंभिला जेट[illegible]

हण करसेमें दि[illegible]

ग्रहणविधिः ॥

॥ अथ दीपमालिकास्तुतिः ॥

॥ पापायां पुरि चारुषष्ठतपसा पर्यंकपर्यासनः, क्ष्मापालप्रमुदस्तपालविपुलश्रीशुक्लशालामनु ॥ गोसे कार्त्तिकदर्शनागकरणे तूर्यारकांते शुभे, स्वातौ यः शिवमाप पापरहितं संस्तौमि वीरप्रभुम् ॥ १ ॥ यज्ज्ञानगमनोभव व्रतवरज्ञानाकरासिकणे, संभूयाशु सुपर्वसंततिरहो चक्रे महस्तत् क्षणात् ॥ श्रीमन्नाभिभवादिवीरचरमास्ते श्रीजिनाधीश्वराः, संघायानघचेतसे विदधतां श्रेयांस्यनेनांसि च ॥ २ ॥ अर्थात्पर्वमिदं जगाद जिनपः श्रीवर्द्धमानाभिव, इत्तत्पश्चाद्गणनायका विरचयांचक्रुस्तरां सूत्रतः ॥ श्रीमत्तीर्थसमर्थनैकसमये सम्यग्दृशां भूस्पृशां, भूयाद्भावुककारकप्रवचनं चेतश्चमत्कारि यत् ॥ ३ ॥ श्रीतीर्थाधिप तीर्थभावनपरा सिद्धायिका देवता, चंचच्चक्रधरा सुरासुरनता पायादपायादसौ ॥ अर्हन् श्रीजिनचंद्रगीस्सुमतिनो भव्यात्मनः प्राणिनो, या चक्रेऽवमकष्टहस्तिनिधने शार्दूलविक्रीडितम् ॥ ४ ॥ इति दीपमालिकास्तुतिः ॥

॥ अथ थुईसंग्रह मनोहर लिखते ॥

॥ अथ वीसविहरमानजीनी स्तुति ॥

पंचविदेहविषे विहरंता, गुणधर जिनेसर जगजयवंता ॥ [illegible] कमल तसु नामूं सीस । अहनिस समरूं ते जगदीस [illegible] मेरुपासे झलकंता । सोहे वीस महा गजदंता ॥ [illegible] ते ऊपर [illegible] जिनहर वीस । ते जिनवर प्रणमूं निसदीस ॥२॥ [illegible] आदर कहिय [illegible] सुविसाल अंग । थानक वीस भण्या तिहां चंग ॥ [illegible] इसा ऊपर जे [illegible] आणे रंग । ते नर पामे सुख अभंग ॥ ३ ॥ [illegible] वर्द्धमानदेवी [illegible] सुदीस । पूरे मुझ मनतणी जगीस ॥ संघतणा जे [illegible] करता [illegible] निवारे ॥ [illegible] ॥ ४ ॥

॥ पार्श्वजिन स्तुतिः ॥

समदमोत्तमवस्तुमहापणं । सकलकेवलनिर्मलसद्गुणं ॥ नगरजेसलमेरविभूषणं । भजति पार्श्वजिनं गतदूषणं ॥ १ ॥ सुरनरेश्वरनम्रपदांबुजाः । स्मरमहीरुहभंगमतंगजाः ॥ सकलतीर्थकराः सुखकारका । इह जयंतु जगज्जनतारकाः ॥ २ ॥ श्रयति यः सुकृती जिनशासनं । विपुलमंगलकेलिविलासनं ॥ प्रबलपुन्यरमोदयधारिका । फलति तस्य मनोरथमालिका ॥३॥ विकटसंकटकोटिविनाशिनी । जिनमताश्रितसौख्यविकाशिनी ॥ नरनरेश्वरकिन्नरसेविता । जयतु सा जिनसासणदेवता ॥ ४ ॥

॥ अथ ऋषभदेवस्तुति प्रतिपदाकी ॥

॥ वरमुत्तियहारसुतारगणं । वरचित्तकलत्तसुपत्तधणं ॥ पंकयवप्पयदेवगणं । सिरिअवुय वंदू आदिजिणं ॥ १ ॥ तियलोयनमंसियपायजुआ घणमोहमहीरुहमत्तगया ॥ परिपालिअनिखलजीवदया । मम हुंति जिनागमसुरकसया ॥ २ ॥ पणयंगिमहातमरोरहरं । कल्लाणपयोरुहवुद्धिकरं ॥ सुहमग्गकुमग्गपयासकरं । पणमामि जिणागममन्दिकरं ॥ ३॥ सिरइंदसमुज्जलगायलया । सुहझाणविणम्मियएगलया ॥ असुरिंदसुरेंदसुरप्पणया । मम [illegible] सुहाणि कुणेसुसा ॥ ४ ॥ [illegible]ति ऋषभदेवस्तुतिप्रतिपदाकी ॥

[illegible]थ आदिजिन प्रतिपदा स्तुति ॥

॥ प्र[illegible]रम पुरुषपरमेसर, परमातमपद धारीजी । प्रथम जिनेसर प्रथ[illegible]रेसर, प्रथम परम उपगारी जी ॥ योगीसर जिनराज जगतगुरु, सहजानंद स्वरूपोजी । ऋषभजिनेसर लोकदिनेसर, आतमसंपद भूपोजी ॥ १ ॥ पांच भरत वलि पांचे एरवत, [illegible]ंच विदेह मझारोजी । काल अतीत अनंता जिनवर, पाम्या सिवपद सारोजी । वलिय अनागत काल अनंता, थास्ये इणहीं प्रका

रोजी । संप्रति काले वीस विदेहे, वंदु बहु सुखकारोजी ॥ २ ॥ अरथे श्रीजिनराज वखाण्या, गूंथ्यां श्रीगणधारोजी । अंग दुवालस अतिसे उत्तम, अरथ विविध विस्तारोजी ॥ गुण परजय नय भंग प्रमाणे, जिहां षट्द्रव्य विचारोजी । ते आगम मन शुद्ध आराध्यां तूटे कर्मविकारोजी ॥ ३ ॥ सुंदर रूप अनूपम सोहे, श्री चक्केसरि देवीजी । श्रीजिनसासन सानिध करणो द्यो, वंछित नित सेवीजे ॥ कल्याण कारण जेहनी सेवा, संघ सकल सुख कंदाजी । श्रीजिनचंद मुणिंद पसाये, कहे जिनहर्ष सुरिंदाजी ॥ ४ ॥ इति ॥

॥ अथ अजितनाथ स्तुति ॥

विश्वनायक लायक जितशत्रु विजया नंद । पयजुग नित प्रणमे देव अने देविंद ॥ भवलहरी गहरी सव मन धरी अमंद । श्रीसूरतसहिरे वंदो अजितजिनंद ॥ १ ॥ आठ प्रातीहारज अतिशय वलि चोतीस । दिलरंजन देसन तेहना गुणपेंतीस ॥ अगणित ऋद्धिधारी आचारीमां ईस । एह गुणना धारक वंदु जिन चोवीस ॥ २ ॥ सुद्ध अरथ अनोपम जिन भावित सिद्धांत । स्याद्वादनयादिक हेतुयुक्ति नवि भ्रांत ॥ पापकरदमपाणी सदगतिनी सहनाणी । सुणिये नित भविका आगमकेरी वाणी ॥३॥ सासणनी साची देवी सानिधकारी । दुःखकष्टनिवारण सेवीजे सुखकारी ॥ साचे मन समरे ते सुख लाभ अपारी । जिनलाभ पयंपे होज्यो जयश्कारी ॥ ४ ॥ इति अजितनाथस्तुति ॥

॥ अथ श्रीमहावीर स्तुति अणोझारी ॥

॥ यदंह्रिनमतादेव । देहिनःसंति सुस्थिताः ॥ तस्मै नमोस्तु वीराय ॥ सर्वविघ्नविघातिने ॥ १ ॥ सुरपतिनतचरणयुगान् । नाभेयजिनादिजिनपतिं ॥ नौमि यद्वचनपालनपरा । जलांजलिंददतु दुःखेभ्यः ॥ २ ॥ वदंति वृंदारुगणाग्रतो जिनाः । सदर्थतो यद्रचयंति

सूत्रतः ॥ गणाधिपास्तीर्थसमर्थनक्षणे । तदंगिनामस्तुमतंनुमुक्तये ॥ ३॥ शक्रः सुरासुरवरैस्सहदेवताभिः । सर्वज्ञशासनसुखायसमुद्यताभिः ॥ श्रीवर्द्धमानजिनदत्तमतप्रवृत्तान् । भव्यान् जनानवतु नित्यममङ्गलेभ्यः ॥ ४ ॥ इतिमहावीरस्तुति अणोफारी ॥

॥ अथ लघ्वी स्त्रीछंदसि वीर स्तुतिः ॥

॥ वीरं देवं नित्यं वंदे १ जैनाः पादा युष्मान् पांतु २ जैनं वाक्यं भूयाद्भूत्यै ३ सिद्धा देवी दद्यात्सौख्यं ॥ ४ ॥ इति लघ्वी स्त्रीछंदसि वीर स्तुतिः ॥

॥ अथ श्री वीरजिन स्तुतिः ॥

॥ मूरति मनमोहन कंचन कोमल काय, सिद्धारथ नंदन त्रिसलादेवी सुमाय ॥ मृगनायक लंछन सात हाथ तनु मांन, दिन२ सुखदायक स्वामि श्रीवर्द्धमान ॥ १ ॥ सुर नरवर किन्नर वंदित पद अरविंद, कामित भरपूरण अभिनव सुरतरुकंद ॥ भवियणने तारे प्रवहणसम निसदीस, चोवीसे जिनवर प्रणमुं विसवावीस ॥ २ ॥ अरथे करि आगम भाख्या श्रीभगवंत, गणधर ते गूंथ्या गुणनिधि ज्ञान अनंत ॥ सुरगुरु पिण महिमा कह न सके एकांत, समरुं सुखदायक मन सुध सूत्र सिद्धांत ॥ ३ ॥ सिद्धायिका देवी वारे विघन विशेष, सहू संकट चूरे पूरे आस अशेष ॥ अहनिसि कर जोडी सेवे सुरनर इंद, जंपे गुणगण इम श्रीजिनलाभ सूरिंद ॥ ४ ॥ इति वीरजिन स्तुति ॥

॥ अथ श्रीचतुर्विंशति जिनानां पंचकल्याणक स्तुतिः ॥

॥ नाभेयं संभवं तं, अजियसुविहयं, नंदणं सुव्वयवा ॥ सुप्पासं पउमनाहं, सुविधशसिपहुं, सीयलं वासुपूज्यं ॥ श्रेयांसं धर्मशांतिं, विमलअरिजिनं, मल्लिकुंथुं अणंतं, नेमिं पासं च वीरं, नमिभ विनमिसौ, पंच कल्लाण एसु ॥ १ ॥ गब्भे झाणेसु जम्मे,

वय गहणखणे, केवले लोयकाले, पढ्ढा णिव्वाणठाणे, पगवणा समए, संथुआ भावसारं ॥ देवेहिं दाणवेहिं, भवणवणसए, विंतरे किंन्न रेहिं, । तं मझं दिंतु मोरकं, सयलजिनवरा, पंच कल्लाण एसु ॥ २॥ देकं तित्थंकराणं, जमिहअणुवमं, भावतित्थंकरंतं । सवन्नूणं च पासा, अहमविनियमा, जायए सवकालं ॥ अन्नुन्नप्पत्तिएहिं, नियगममहणं, बीयअंकूररूवं । अवावाहं जिणाणं, जयन पवयणं, पंच कल्लाण एसु ॥३॥ गोरीगंधारकाली, नरवरमहिषी, हंससंगोरिहढा । सवढामाणमं वा, वरकमलकरा, रोहिणीभत्तअंवा ॥ पन्नत्ती भत्तपउमा, धणइसर णाई, खित्तगेहाइवासा । संतिं संघे कुणंतु, गहगणसईया, पंच क ल्लाण एसु ॥४॥ इतिश्रीचतुर्विंशतिजिनानांपंचकल्याणकस्तुति ॥

॥ अथ श्रीशत्रुंजय स्तुतिः ॥

॥ श्रीसेत्रुंजमंरूण आदिदेव । हूं अहनिस समरूं तास सेव ॥ रायणतल पगलां प्रजूतणा । पूजि सफल फल सोहामणा ॥१॥ तेवीस तीर्थंकर समवसरया । विमलाचल ऊपर गुण भरया॥ गिरि कम्णे आया नेमनाथ । ते जिनवर मेलो मुगतिसाथ ॥२॥ सोहम सांमी उपदिस्या । जंबुगणधरने मन वस्या ॥ पुंरूरगिरि महिमा जे मांह। ते आगम समरूं मनउछाह ॥ ३ ॥ चक्केसरि गोमुख क वरूयक । मन वंछित पूरण कल्पवृक्ष ॥ सिद्धक्षेत्रसिहरे सहदेव ता । भणे नंदिसूरि तुम पाय सेवता ॥३॥ इतिश्रीसत्रुंजयस्तुति ॥

॥ अथ नेमजिन स्तुतिः ॥

॥ गिरनार सिखरपर नेमनाथ सुपहाण । दीक्षा, वर केवल ज्ञान अने निरवांण ॥ जसु तीन कल्याणक सुखकर सुरतरुकंद। तसु भवियण प्रणमो पायधुगलअरविंद ॥ १ ॥ अष्टावय चंपा पावापुर गुन्न गाण । आदि वारम जिण चउवीसम जिणजाण ॥ अजिता दि वीसे [illegible], सिवपुर वास । समेतशिखरपर प्रणमं अधिक

उल्हास ॥ १ ॥ जिणवर मुख हूंती सुणि त्रिपदी ततकाल । गणधारक गूंथ्या द्वादश अंग विशाल ॥ नयभंग पदारथ सत्तश नव तत्त । भवियणने तारे सायर जिम बोहित्थ ॥ ३ ॥ चक्केसरि अंबा पउमादेवि प्रत्यक्ष । श्रीसंघ मनोरथ पूरे बासुरवृक्ष ॥ ध्यावे सुख पावे श्रीजिनलाभ सूरीस । जिनवर सुप्रसादे आस फले सुजगीस ॥ ४ ॥ इतिनेमजिनस्तुतिः ॥

॥ अथ श्रीशितलजिन स्तुतिः ॥

॥ सुख समकितदायक कामित सुरतरुकंद । दृढरथ नृप राणी नंदाकेरो नंद ॥ भद्दिलपुर स्वामी फेडे भवना फंद । चित चोखे नमिये श्रीशीतलजिनचंद ॥१॥ अतीत अनागत हुआ होस्ये अनंत । संप्रति काले जे क्षेत्र विदेह विचरंत ॥ त्रिहुं भवणे ठवणा सासय असासय हुंत । ते सगला त्रिकरण प्रणमुं श्रीअरिहंत ॥ २ ॥ कालिक उत्कालिक अंग अनंग पविठ । नयभंग निखेपा स्याद्वाद मितसिठ ॥ भविजन उपगारी भारी जिन उपदेश । श्रुत श्रवणे सुणतां नासे कोडि कलेश ॥ ३ ॥ ब्रह्मजक्ष असोका सासन सुरि सुविचार । संघ सानिधकारी निरमल समकित धार ॥ चिंता दुख चूरे पूरे मनह जगीस । ध्यान तेहनो धरिये कहे जिनलाभसूरिस ॥ ४ ॥ इति श्रीशीतलजिनस्तुतिः ॥

॥ अथ समवसरणविचारगर्भित स्तुतिः ॥

॥ मिल चोविह सुरवर विरचे त्रिगडो सार । अढी गाउ ऊंचो पिहुलो जोयण पार ॥ विच कनकसिंहासन पद्मासन सुखकार । श्रीतीरथनायक बैसे चोमुखधार ॥ १ ॥ तीन छत्र सिरि ऊपर चामर ढोले इंद । देवदुंदुभि वाजे भांजे कुमति फंद । गोयम भामंडल पूंठे झलके जांण दिनंद । तिहुअण जन भवि मन ॥ भ सयल जिनंद ॥ २ ॥ द्रव्य भाव सुठवणा नाम निक्षेप जिन

जिण गणद्दर नाख्या सूत्र सिद्धांत मझार ॥ जिनवरनी पमिमा जिन सरखी सुखकार । शुन्न नावे वंदो पूजो जग जयकार ॥३॥ फुख हरणी मंगल करणी जिनवर वाणी । नवछेद कृपाणी मीठी अमिय समाणी ॥ मन शुद्धे आणी प्रतिवूजो नवि प्राणी । सुय देवि पसायें पामे जयति सुनाणी ॥ ४ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीचैत्री पुनम स्तुति ॥

॥ सेत्रुंजगिरि नमिये ऋषनदेव पुंमरीक । शुन्न तपनी म हिमा सुण गुरुमुख निरन्नीक ॥ शुद्द मन उपवासे विधिसुं चैत्य वंदनीक । करिये जिन आगल टालो वचन अलीक ॥ १ ॥ शक्र स्तवनादिक प्रथम तिलक दस वीस । अक्षत गिणतीसे चढता तिम चालीस ॥ पंचासनी पूजा नावड इम जगदीस । तेहिज नित प्र णमूं स्वामी जिन चोवीस ॥ २ ॥ सुदि पक्षनी पूनम चेत्र मास शुन्न वार । विधिसेती लहिये आगम साख विचार ॥ इन सोलें वरसलग धरिये ज्ञान उदार । करतां नर नारी पामे नवनो पार ॥ ३ ॥ सोवन तन चरणे नयने तिम अरविंद । चक्केसरीदेवी से विय नर सुरवृंद ॥ कामित सुखदायक पूरय मन आणंद । जंपे गणनायक श्रीजिनलान्नसूरिंद ॥ ४ ॥ इतिश्रीचैत्रीपूनमस्तुतिः ॥

॥ अथ नवपदस्तुति ॥

॥ समरुं सुखदायक मन सुध वीर जिनंद । जिण नवपद महिमा नाषी ज्ञान दिणंद ॥ आसु मधु उज्जल सातमथी नव दीन । नव आंबिल करिये मन धरि अधिक जगीस ॥ १ ॥ अरि हं... वलि सिद्ध आचारज उवज्ञाय । मुनि दरसण तिम वलि नाण नविय... तव आय ॥ प्रतिपदनो गुणनो गुणिये दोय हजार । सहु शुन्न ... पूजा कीजे अष्ट प्रकार ॥ २ ॥ बारस अमवत्तीस पण वी ... ... । सगसठ इक्कावन सितर पच्चास प्रकार ॥ इण

संख्या काउसग परदक्षा परिणाम । आगम भाषित विधि इम कीजे अभिराम ॥ ३ ॥ चक्केसरिदेवी तिम विमलेसर जक्ख । श्री पालतणीपर पूरे वंछित सुख ॥ इण विधि आराधो सिद्धचक्र भवि प्राणी । जिनहर्ष वदे नित श्रीजिनचंदनी वाणी ॥ ४ ॥ इति ॥

॥ अथ वीस स्थानक स्तुतिः ॥

॥ शिवसुख दाता जगत विख्याता पूरण अभिनव कामी जी । ज्ञानादिक गुण चेतनरूपी चिदानंदघन धामीजी ॥ थानक वीसे आगम भणिया वीतराग गुण भुक्ताजी । जे नर अंतर आतम ध्यावे सिवरमणी वर युक्ताजी ॥ १ ॥ अरिहंत सिद्ध प्रवचन सूरी थिवर पाठक मुनि सारोजी । ज्ञानी दरसन विनय चारित्र ब्रह्मचारज क्रियधारोजी ॥ तपसी गणधर जिण चारित्री नाण श्रुत तिछ भूपोजी । ए पद निज भवि भावे सेवे तेहिज ब्रह्म सरूपो जी ॥ २ ॥ दोय सहस गुणनो प्रत्येकें च्यार सया उपवासोजी । द्रव्यभावसें विधि परकासे तीर्थंकर पद खासोजी ॥ तीजे भव वर वीस थांनकनी सेव करे भव्य प्राणीजी । समकित बीजे जे निज आतम आरोपे चित्त आणीजी ॥ ३ ॥ सुरतरुसम तप फल हे मोटो श्रीसुरदेवि सहाईजी । खरतर गछ जिन आज्ञाधारी पाटोधर वरदाईजी ॥ जिन सौभाग्यसूरिंद पसाथैं हंस सूरिंद गुण गावेजी । संघ सकलकुं सानिधकारी मन वंछित फल पावेजी ॥ ४ ॥ इतिश्रीवीसस्थानक स्तुति ॥

॥ अथ वीस स्थानक स्तुति ॥

॥ अरिहंत सिद्ध पवयण आचारज थिवराण । उवझाय साहू दंसण विनय पहाण ॥ चारित्त ब्रह्म किरिया तपि गोयम जनभाण । संयम नाणी श्रुत संघ सेवो वीसे ठाण ॥ १ ॥ उत्कृष्टे जिनवर एकसो सित्तर धीर । वलि काल जघन्ये जिन

वीर गंभीर ॥ जिन थाय अनंत अतीत अनागत काल । ए वीसे थानक आराधी गुणमाल ॥ २ ॥ आवश्यक वे वेला जिनवंदन त्रिण काल । थानकपद गिणवो सहस दोय सुकमाल ॥ काउसग गुण स्तवना पूजा प्रभावना सार । इम शासन वछल करतां भव वनो पार ॥ ३ ॥ समरीजे अहनिशि गुणरागी सुर साथ । जख्क जख्कणी सुरपती वेयावच कर नाथ ॥ थानकतप विधसुं जे सेवे मन रंग । देवचंद आणाये सानिध करे तसु चंग ॥ ४ ॥ इति ॥

॥ अथ नवपद स्तुति ॥

॥ अनुपम गुण आगर सुख्क सागर वंदित सुरनर वृंदाजी ॥ नवपदमांहि मुख्य वखाण्या ऋषभादिक जिनचंदाजी ॥ भाव धरी ने जे भवि वंदे छेदे कर्म निकंदाजी । नृप श्रीपालतणीपर ध्यावो पावो सुख्क अमंदाजी ॥ १ ॥ अरिहंत सिद्ध सूरि उवझाया सकल मुनि सुखकारीजी । दंसण नाण चरण तप नवपद धारे चित संभारीजी ॥ नवमें भव भवि सिवपद पावे प्रवचन वाणी साखीजी । वीरजिनंदे ज्ञानानंदे गौतम आगे भाखीजी ॥ २॥ द्वादस आठ छत्तीसे गुण वलि पणवीस सगवीस सारोजी । सत्सठ इक्कावन वलि जैती सितर पच्चास प्रकारोजी ॥ आसू चैत्रक मास धवल पख सातम थी नव दिहसेंजी । तेरसहस नव पदनो गुणनो नव आंबिल नव दिहसेंजी ॥ ३ ॥ विमलयक्ष चक्केसरीदेवी रिध सिध वंछित दाता जी । इणी नव विधि युक्ते सेवे ते पामे सुखशाताजी । खरतर गछ जिन आज्ञाकारी पाटोधरपद भुक्ताजी । जिन सौभाग्यसूरिंद पसाये हंससूरिंद गुण भक्ताजी ॥ ४ ॥ इतिश्रीनवपदस्तुति ॥

॥ अथ शत्रुंजय स्तुति ॥

॥ विमलाचल मंडन जिनवर आदिजिणंद । निरमम निरमोही [illegible] दिणंद ॥ जे पूर्व निवाणूं वार धरी आनंद । सेत्रुंजगि-

रिसिखरे समवसरया सुखकंद ॥ १ ॥ इण चउवीसीमां ऋषन्नादिक जिनराय । वलि काल अतीते अनंत चोवीसी थाय ॥ ते सवि इण गिरवर आवी फरसी जाय । इम न्नावी काले आवस्ये सवि मुनिराय ॥ २ ॥ श्रीऋषन्ननना गणधर पूंडरीक गुणवंत । द्वादस अंग रचना कीधी जेण महंत ॥ सव आगममांहे सेत्रुंज महिम महंत । न्नाखी जिन गणधर सेवो करि थिर चित्त ॥ ३ ॥ चक्केसरि गोमुह कवम्ड पमुह सुर सार । जसु सेवा कारण आपे इंद्र नदार ॥ देवचंद्रगणि न्नाखे न्नविजनने आधार । सव तीरथमाहे सिद्धाचल सिरदार ॥ ४ ॥ इतिसेत्रुंजयस्तुति ॥

॥ अथ श्रीशांतिनाथ स्तुति ॥ एक

॥ शांति जिनेश्वर जग ज्ञवेसर आचरा नदर अवतारि गुणा । विश्वसेन नृप नंदन जगगुरु हस्थापुर सुख करियाजी जाय ॥ नपद्रव मारि विकारी शांत करी संचरियाजी । जे न्नवि गुणिये कारण ध्यावे ते हुय गुणगण दरियाजी ॥ १ ॥ वर्त्तमान जिनधान । सुखकारण अतीत अनागत वंदोजी । बारे चक्री नव नारायण वण प्रतिचक्री आनंदोजी ॥ रामादिक जे पुरष सलाका वंदत पाप निकंदोजी । द्रव्य निक्षेपे जिनसम जाणो काटे न्नवन्नय वंदोजी ॥ २ ॥ अंग नपांगे जिनवर प्रतिमा श्रीजिन सरखी न्नाखीजी । द्रव्य न्नाव विहुं न्नेदे पूजा महानिसीथे साखीजी ॥ विषय निवृत्ती सतत् आरंन्ने विनय तपो ते जाणोजी । शुन्नयोगे नहि आरंन्नकारी न्नगवइ अंग प्रमाणोजी ॥ ३ ॥ थापना सत्ये देवी निर्वाणी श्रीसंघने सुखकारीजी । कारणथी सव कारज सीझे जिनवर आज्ञा धारीजी ॥ श्रीजिनकीर्त्ति सूरीश्वर गच्छपति पाठक श्रीऋद्धिसारीजी । समकितधारी देव सदाई सुखसंपत्त दातारीजी ॥ ४ ॥ इतिश्रीशांतिनाथजिनस्तुतिः ॥

॥ अथ श्रीसीमंधरजिन दूज स्तुति ॥

॥ मन सुद्ध वंदो भावे भविअण श्रीसीमंधर रायाजी । पांचसें धनुष प्रमाण विराजित कंचनवरणी कायाजी ॥ श्रेयांस नरपति सत्यकि नंदन वृषभलंछन सुखदायाजी । विजय भली पुखलावइ विचरे सेवे सुरनर पायाजी ॥ १ ॥ काल अतीत जे जिनवर हूआ होस्ये वलिय अनंताजी । संप्रति काले पंच विदेहे वरते वीस विख्याताजी ॥ अतिशयवंत अनंत जिनेसर जगवंधव जगत्राताजी । ध्यायक ध्येय स्वरूप जे ध्यावे पावे शिवसुख साताजी ॥ २ ॥ अरथे श्रीअरिहंत प्रकाशी सूत्रे गणधर आणीजी । मोह मिथ्यात्त नवपद तिमिर नासन अभिनव सूर समाणीजी ॥ भवोदधि तरणी ने जे भवतरणी नय निक्षेप पहाणीजी । ए जिनवाणी अमिय पावो सुखदायी भविप्राणीजी ॥ ३ ॥ शासणदेवी सुरनर सेवी मुनि सुगुली माईजी । विघन विदारण संपत्तिकारण सेवकजन भाईजी ॥ त्रिभुवनमोहनी अंतरजामनी जग जस ज्योति सवाईजी । सांनिधकारी संघने होयज्यो श्रीजिनहर्ष सदाईजी ॥ ४ ॥ इतिश्रीसीमंधरजिनदूजस्तुति ॥

॥ अथ श्रीज्ञानपंचमी स्तुति ॥

॥ पंच अनंत महंत गुणाकर पंचम गति दातार । उत्तम पंचम तपविधि वायक ज्ञायक भाव अपार ॥ श्रीपंचानन लांछन लांछित वंछित दान सुदक्ष । श्रीवर्द्धमान जिनंदसु वंदो ध्यावो भविजन पक्ष ॥ १ ॥ पूरण पंच महाश्रव रोधक बोधक भव्य उदार । पंच अनुव्रत पंच महाव्रत विधि विस्तारक सार ॥ जे पंचेंद्रिय दम सिव पहुता ते सगला जिनराय । पांचम तप धर भविअण उपर नुग्रिर करी सुपसाय ॥ २ ॥ पंचाचार धुरंधर जुगवर पंचम गणधर जाण । पंच ज्ञान विचार विराजित भाजत मद पंच वाण

॥ पंचम काल तिमरभरमांहे दीपकसम सोभंत । पांचम तपफल मूल प्रकासक ध्यावो जिनसिद्धंत ॥ ३ ॥ पंच परम पुरुषोत्तम सेवाकारक जे नरनार । निरमल पांचम तपना धारक तेह भणी सुविचार ॥ श्रीसिद्धायिकादेवी अहनिशि आपो सुख अमंद । श्रीजिनलाभ सुरिंद पसाये कहे जिनचंद मुणिंद ॥ ४ ॥ इतिज्ञानपंचमीस्तुति ॥

॥ अथ श्रीमौन एकादशी स्तुति ॥

॥ अरनाथ जिनेश्वर दीक्षा नमिजिन ज्ञान । श्रीमल्लि जनम व्रत केवलज्ञान प्रधान ॥ इग्यारस मिगसर सुदि उत्तम अवधार । ए पंच कल्याणक समरीजे जयकार ॥ १ ॥ इग्यारे अनुपम एक अधिक गुण धार । इग्यारे बारे प्रतिमा देसक धार ॥ इग्यारे दुगुणा दोय अधिक जिनराय । मन सूधे सेव्यां सब संकट मिट जाय ॥ २ ॥ जिहां वरस इग्यारे कीजे व्रत उपवास । वलि गुणनो गुणिये विधिसेती सुविलास ॥ जिन आगमवाणी जाणी जगत प्रधान । इक चित्त आराधो साधो सिद्ध विधान ॥ ३ ॥ सुर असुर भुवण वण सम्यग् दरसणवंत । जिनचंद सुसेवक वेयावच्च करंत ॥ श्रीसंघ सकलमें आराधक बहु जाण । जिनशासन देवी देव करो कल्याण ॥ ४ ॥ इतिश्रीमौनएकादसीस्तुति ॥


॥ अथ रोहणी स्तुति ॥

॥ जयकारी जिनवर वासुपूज्य अरिहंत । रोहिण तपनो फल भाख्यो श्रीभगवंत ॥ नरनारी भावे आराधो तप एह । सुख संपत लीला लक्ष्मी पामे तेह ॥ १ ॥ ऋषभादिक जिनवर रोहणी तप सुविचार । जिनमुख परकासे बेठी परखदा बार ॥ रोहिण दिन कीजे रोहिणनो उपवास । मन वंछित लीला सुंदर भोगविलास ॥ २ ॥ आगममें एहनो बोल्यो लाभ अनंत । विधसुं परमारथ साधे सुधो संत । दुखदो

ष्ग तेहनो नासि जाय सब दूर । बलि दिन२ अंगे वाधे अधिको नूर ॥ ३ ॥ महिमा जग मोटो रोहिण तप फल जाण । सौन्नाग्य सदा जे पामे चतुर सुजाण ॥ नित घर२ महोछव नित नवला सिणगार । जिनशासनदेवी लब्धिरुची जयकार ॥ ४ ॥ इति ॥

॥ अथ पख्खी चौदश स्तुति ॥

॥ प्रथम तीर्थंकर आदि जिनेश्वर जाकी कीजे सेव, गच्छ चोरासी जेहने थाप्या जाकी करणी एह ॥ तेहने पाखी चोदस कीजे बीजे अंग कहाय, पाखी सूत्र प्रथम तुम देखो जिम२ संशय जाय ॥ १ ॥ चउवीसे जिनपूजा कीजे मानो जिनकी आण, कल्पसूत्रनी पाखी चोदस जोवो चतुर सुजांण ॥ इण पर ठाम२ तुम देखो चउदस पख्की होय, नूला कांइ न्नमो तुम प्राणी साचो जिनधर्म जोय ॥ २ ॥ चवदसरे दिन पाखी कीजे सूत्रांकेरी साख, न्नविक जीव इम मन आराधो टीका चूरणी न्नाख ॥ आवश्यक सूत्र इण पर बोले चउदसरे दिन पाखी, चउद पुरवधर इणपर बोले ते निश्चल मन राखी ॥ ३ ॥ श्रुतदेवी इक मन आराधो मन वंछित फल होय, जे जे आज्ञा सूधी पाले ज्यांनो विघन हरेय ॥ सेवक इणपर करे वीनती सूधो समकित पाय, खरतरगच्छ मंरूण कुमति विहंरूण माणिक्य सूरि गुरुराय ॥ ४ ॥ इति पख्की चोदस थुइ संपूर्ण ॥



॥ अथ सप्त स्मरणानि प्रारभ्यंते ॥

॥ तत्र प्रथमं ॥

॥ श्री बृहदजितशांतिस्मरणं लिख्यते ॥

॥ अजिअं जिअसवन्नयं, संतिं च पसंतसवगयपावं ॥ जय गुरु संति गुणकरे, दोन्नि जिणवरे पणिवयामि ॥ १ ॥ गाहा ॥

ववगय मंगुल भावे, तेहं विउल तवनिम्मल सहावे ॥ निरुवम महप्प भावे, थोसामि सुदिठ सप्भावे ॥ २ ॥ गाहा ॥ सव्व डुक्खप्पसंतीणं, सव्व पावप्पसंतिणं ॥ सया अजिय संतीणं, नमो अजिअ संतिणं ॥ ३ ॥ सिलोगो ॥ अजिय जिण सुहप्पवत्तणं, तव पुरिसुत्तम नामकित्तणं ॥ तह य धिइ मइ प्पवत्तणं, तवय जिणुत्तम संतिकित्तणं ॥ ४ ॥ मागहिआ ॥ किरिआविहि संचिअ कम्म किलेसविमुक्खयरं, अजिअं निचिअं च गुणेहिं महामुणि सिद्धिगयं ॥ अजिअस्स य संति महा मुणिणोवि अ संतिकरं, सययं मम निवुइ कारणयं च नमंसणयं ॥ ५ ॥ आलिंगणयं ॥ पुरिसा जइ डुक्खवारणं, जइअ विमग्गह सुक्खकारणं ॥ अजिअं संतिं च भावउ, अभयकरे सरणं पवज्जहा ॥ ६ ॥ मागहिआ ॥ अरइ रइ तिमिर विरहिअ, मुवरय जरमरणं, सुर असुर गरुल भुयगवई, पयय पणिवइअं ॥ अजिअ महमविअ, सुनय नय निउणमभयकरं, सरणमुवसरिअ भुवि दिविज, महिअं सयय मुवणमे ॥ ७ ॥ संगययं ॥ तं च जिणुत्तम मुत्तम नित्तम सत्तधरं, अज्जव मद्दव खंतिविमुत्ति समाहि निहिं ॥ संतिअरं पणमामि दमुत्तम तित्थयरं, संति मुणी मम संति समाहिवरं दिसउ ॥ ८ ॥ सोवाणयं ॥ सावत्थिपुव्वपत्थिवं च वरहत्थि मत्थय पसत्थ वित्थिन्न संथिअं थिर सरिछ वछं मयगल लीलायमाण वर गंधहत्थि पत्थाण पत्थियं संथवारिहं हत्थिहत्थ बाहुं धंतकणग रुअग निरुवहय पिंजरं पवर लक्खणो वचिअ सोम्म चारु रूवं सुइ सुहमणाभिराम परम रमणिज्ज वरदेव डुंडुहि निनाय महुरयर सुहगिरं ॥ ९ ॥ वेढउ ॥ अजिअं जिआरिगणं, जिअ सव्वभयं भवो हरिउं ॥ पणमामि अहं पयउ, पावं पसमेउ मे भयवं ॥ १० ॥ रासालुद्धउ ॥ कुरु जणवय हत्थिणाउर नरीसरो पढमं तउ महाचक्कवट्टिभोए महप्पभावो जो बाहत्तरि पुरवर सहस्सवर नगर णिगम

जणवय वई बत्तीसारायवर सहस्साणु आयमग्गो चउदस वररयण नव महानिहि चउसठि सहस्स पवर जुवईण सुंदर वइ चुलसी हय गय रह सय सहस्स सामी छन्नवइगाम कोडि सामी आसिजो भारहंमि भयवं ॥ ११ ॥ वेड्ढउ ॥ तं संतिं संतियरं, संतिन्नं सव्व भया ॥ संतिं थुणामि जिणं, संतिं वि हेउ मे ॥ १२ ॥ रासाणंदिअयं ॥ इक्खागु विदेह नरीसर, नरव सहा मुणिवसहा ॥ नव सारयससि सकलाणण, विगय तमा विहु अरया ॥ अजिउत्तम तेअ गुणेहिं महामुणि, अमिय बलाविउल कुला ॥ पणमामि ते भवभय मूरण, जग सरणा मम सरणं ॥ १३ ॥ चित्तलेहा ॥ देव दाणविंद चंद सूरवंद हठ तुठ जिठ परम, लठ रूव धंत रुप्प पट्ट सेअ सुद्ध निद्ध धवल ॥ दंतपंति संति स त्ति कित्ति मुत्ति जुत्ति गुत्ति पवर, दित्त तेअवंदधेअ सव्वलोअ भावि अ प्पभावणे अ पइसमे समाहिं ॥ १४ ॥ नारायउ ॥ विमल स सिकलाइरेअसोम्मं, वितिमिरसूर कलाइरेअ तेअं ॥ तियसवइगणा इरेअ रूवं, धरणिधर प्पवराइरेअ सारं ॥ १५ ॥ कुसुमलया ॥ सत्ते अ सया अजिअं, सारीरे अबले अजिअं ॥ तव संजमअ अजिअं, एस अहं थुणामि जिणं अजिअं ॥ १६ ॥ भूअगपरिरिंगिअं ॥ सोम्मगुणेहिं पावइ न तं नवसरय ससी, तेअ गुणेहिं पावइ न तं नवसरय रवी ॥ रूवगुणेहिं पावइ न तं तिअस गणव इ, सारगुणेहिं पावइ न तं धरणिधरवइ ॥ १७ ॥ खिज्जिअयं ॥ तित्थवर पवत्तयं तमरयरहिअं, धीरजणथुअच्चिअं चुअ कलिकलुसं ॥ संतिसुहप्पवत्तयं तिगरण पयउ, संतिमहं महा मुणिं सरण मु वणमे ॥ १८ ॥ ललिअयं ॥ विणउणय सिरिरइ अंजलि, रिसि गण संथुअं थिमिअं ॥ विबुहाहिव धणवइ नरवइ, थुअ महिअच्चिअं बहुसो ॥ अइ रुग्गय सरय दिवायर, समहिअ सप्पभं तवसा ॥

गयणंगण वियरण समुइअ, चारण वंदिअं सिरसा ॥ १ए॥ किसलय माला ॥ असुर गरुल परिवंदिअं, किन्नरोरग णमंसिअं ॥ देव कोमि सयसंथुयं, समणसंघ परिवंदिअं ॥२०॥ सुमुहं ॥ अन्नयं अणहं अरयं अरुयं ॥ अजिअं अजिअं पयन पणमे ॥२१॥ विज्जुविलसिअं ॥ आग यावर विमाण, दिव्वकणग रह तुरय पहकर सएहिं हुलिअं ॥ स संन्नमो अरण खुन्निअ लुलिअ चल कुंमलंगय तिरीम सोहंत मन लिमाला ॥ २२ ॥ वेढ्न ॥ जं सुरसंघा सासुर संघा, वेर विनत्ता नत्ति सुजुत्ता, आयर नूसिअ संन्नमपिंमिअ, सुट्ठु सुविह्मिअ सव्व लोघा ॥ नत्तम कंचण रयण परूविअ नासुर नूसण नासुरिअंगा, गाय समोणय नत्तिवसागय पंजलिपेसियसीस पणामा ॥ २३ ॥ रयणमाला ॥ वंदिऊण थोऊणतो जिणं, तिगुणमेवय पुणोपया हिणं ॥ पणमिऊणय जिणं सुरासुरा, पमुइआ सन्नवणाइतो गया ॥ २४ ॥ खित्तयं ॥ तं महामुणिमहंपि पंजलि, राग दोस नय मोह वज्जिअं ॥ देवदाणव नरिंद वंदिअं, संति मुत्तम महातवं नमे ॥ २५ ॥ खित्तयं ॥ अंबरंतरविआरणिआहिं, ललिअहंस वहुगामि णिआहिं ॥ पीण सोणियण सालणिआहिं, सकल कमल दललो अणिआहिं ॥२६॥ दीवयं ॥ पीण निरंतर थणनरविणमिय गायल याहिं, मणिकंचण पसिढिलमेहल सोहिअ सोणितमाहिं ॥ वरखिं खिणि नेनर सतिलय वलय विनूसणियाहिं, रइकर चनर मणो हर सुंदर दंसणियाहिं ॥ २७ ॥ चित्तखरा ॥ देवसुंदरीहिं पाय वंदिआहिं वंदिआय जस्स ते सुविक्कमाकमा अप्पणो निमालएहिं मंमणोमुणप्पगारएहिं केहिं केहिं वीअवंग तिलय पत्तलेह नामएहिं चिल्लएहिं संगयं गयाहिं नत्ति सन्निविठ वंदणागयाहिं हुंति ते वंदि आ पुणो पुणो ॥ २८ ॥ नारायन ॥ तमहं जिणचंदं, अजिअं जिअमोहं ॥ धुअसव्वकिलेसं पयन पणमामि ॥ २ए ॥ नंदिअयं ॥

थुअवंदिअस्सारिसिगण देवगणेहिं, तो देव वहूहिं पयउ पणमिअ स्सा ॥ जस्स जगुत्तमसासणयस्सा, भत्तिवसागयपिंडिअआहिं ॥ देव वरच्छरसा बहुआहिं, सुरवर रइगुण पंडिअआहिं ॥ ३० ॥ भासुरयं ॥ वंस सद्द तंति ताल मेलिए तिउरकराभिराम सद्द मी सएकए अ, सुइसमाणणेअ सुद्ध सज्ज गीअ पाय जालघंटिआहिं ॥ वलय मेहला कलावनेउराभिराम सद्द मीसए कए अ देवनट्टिआहिं ॥ हाव भाव विब्भमप्पगारएहिं नच्चिऊण अंग हारएहिं वंदिआय जस्सते सुविक्कमाकमा ॥ तयं तिलोअ सव्व सत्त संतिकारयं पसंत सव्व पाव दोस मेसहं नमामि संतिमुत्तमं जिणं ॥३१॥ नारायउ॥ वत्त चामर पडागजूअ जव मंडिआ, झयवर मगर तुरय सिरिवच्छ सुलंछणा ॥ दीव समुद्द मंदर दिसागयसोहिआ, सत्थिअ वसह सी हसिरिवच्छसुलंछणा ॥ ३२ ॥ ललिअयं ॥ सहावलट्ठा समप्पइट्ठा, अदोस दुट्ठागुणेहिं जिट्ठा ॥ पसायसिट्ठा तवेण पुट्ठा, सिरीहिं इट्ठा रिसीहिं जुट्ठा ॥ ३३ ॥ वाणवासिआ ॥ ते तवेण धुअसव्वपावया, सव्वलोअहिअ मूल पावया ॥ संथुआ अजिअ संति पायया, हुंतु मे सिव सुहाणदायया ॥ ३४ ॥ अपरांतिया ॥ एवं तव बल वि उलं, थुअं मए अजिअ संति जिणजुयलं ॥ ववगय कम्म रयमलं, गइं गयं सासयं विमलं ॥ ३५ ॥ गाहा ॥ तं बहुगुणप्पसायं, मु क्ख सुहेण परमेण अविसायं ॥ नासेउ मे विसायं, कुणउअ परि साविअ पसायं ॥ ३६ ॥ गाहा ॥ तं मोएउ अनंदिं, पावेउअ नं दिसेणमभिनंदिं ॥ परिसाइवि सुहनंदिं, मम य दिसउ संजमे नंदिं ॥ ३७ ॥ गाहा ॥ पक्खिअ चाउम्मासिय, संवच्छरिए अवस्स भणिअव्वो ॥ सोअव्वो सव्वेहिं, उवसग्ग निवारणो एसो ॥ ३८ ॥ जो पढइ जोअनिसुणइ, उभउ कालंपि अजिअ संतिथयं ॥ न हु हुंति तस्स रोगा, पुव्वुप्पन्ना विनासंति ॥ ३९ ॥ जइ इच्छह परम

पयं, अहवा किरिं सुविच्छरूं भुवणे ॥ ता तेलुक्कुद्धरणे, जिणव यणे आयरं कुणह ॥ ४० ॥ गाहा ॥ इति श्रीवृहदजितशांतिस्त वनं प्रथमस्मरणम् ॥ १ ॥

॥ अथ द्वितीय लघुअजितशांतिस्मरणम् ॥

॥ उल्लासिक्क मनक्क निग्गयपहा दंडच्छलेणंगिणं, वंदारूण दिसंत इव पयडं निव्वाणमग्गावलिं ॥ कुंदिंदुज्जल दंतकंति मिसउ नीहंत नाणंकुरु, केरे दोविउ इज्ज सोलस जिणे थोसामि खेमंकरे ॥ १ ॥ चरम जलहिनीरं जोमिणिज्जं जलीहिं, खय समय समीरं जो जणिज्जा गईए ॥ सहल नहय लंवा लंघए जो पएहिं, अजिअ म हव संतिं सो समच्छो थुणेउं ॥ २ ॥ तहविहु बहुमाणु ल्लासभत्ति प्भरेण, गुणकणमिवकित्ती हामि चिंतामणि व ॥ अलमहव अचिंता णंतसामच्छओसिं, फलहइ लहु सव्वं वंछिअं णिच्छिअं मे ॥ ३ ॥ सय लजयहिआणं नाममित्तेण जाणं, विहडइ लहु दुग्ग निछदोघट्टथट्टं ॥ नमिरसुर किरीडू ग्गिछ पायारविंदे, समय मजिअ संती ते जि णिंदे भिवंदे ॥ ४ ॥ पसरइ वरकित्ती वट्ठए देहदित्ती, विलसइ भुवि मित्ती जायए सुप्पवित्ती ॥ फुरइ परमतित्ती होइ संसारछित्ती, जिणजुअ पयभत्ती हीअ चिंतोरुसत्ती ॥ ५ ॥ ललियपयपयारं भू रिदिव्वंगहारं, फुडगणरसभावो दारसिंगारसारं ॥ अणमिसरमणीज दंसणच्छे अभोया, इव पुणमणि वंधा कास नट्टोवयारं ॥ ६ ॥ थुणइ अजिअसंती ते कया सेस संती, कणयरयपसंगा छज्जए जा णिमुत्ती ॥ सरभस परिरंभा रंभनिव्वाणलच्छी, घणथणघुसि णिकु प्पंकपिंगीकयव्व ॥ ७ ॥ बहुविहनयभंगं वच्छणिच्चं अणिच्चं, सदसद णभिलप्पा लप्पमेगं अणेगं ॥ इय कुनय विरुद्धं सुप्पसिद्धं तु जेसिं, वयण मवय णिज्जं ते जिणे संभरामि ॥ ८ ॥ पसरइ तिअ लोए ताव मोहंधयारं, भमइजय मसण्णं तावमिच्छत्तछण्णं ॥ फुरइ फुरूप

संता एांतएाएं सुपूरो, पयम्म मजिअसंती जाए सूरो न जाव ॥ए॥ अरि करि हरि तिएहु एहंबु चोरा हिवाही, समर म्मर मारी रुद्द खुद्दो वसग्गा ॥ पलय मजिअसंती कित्तणे झत्तिजंती, निविम्मतरत सोहा न्नक्करालुंखिअ व ॥ १० ॥ निचिअइुरिअदारु दित्तझाणग्गि जाला, परिगय मिव गोरं, चिंतिअं झाण रूवं ॥ कणय निहसरेहा कंतिचोरं करिज्जा, चिरथिर मिह लच्छिं गाढसंथंन्निअव ॥ ११ ॥ अम्मविनिवम्मिआणं पद्धिवुत्तासिआएं, ललहि लहरि हीरं ताण गुत्ति ठियाणं ॥ जलिअ जलण जाला लिंगिआणं च झाणं, जणयइ लहु संतिं संतिनाहा जिआणं ॥ १२ ॥ हरि करि परिकिसं पक्क पाइक्कपुसं, सयलपुहवि रज्जं छम्मिअं आण सज्जं ॥ तण मिव पम्मि लग्गं जेन्निणामुत्तिमग्गं, चरण मणुपवसा हुंतु ते मे पसस्सा ॥१३॥ ठणससिवयणाहिं फुल्लनित्तुप्पलाहिं, अणन्नरनमिरीहिं मुठिगिज्झोद रीहिं ॥ ललिअ न्नुअलयाहिं पीण सोणिठणीहिं, सयसुर रमणीहिं वंदिआ जेसि पाया ॥ १४॥ अरिस किम्मि न्नकुठ गंठि कासाइसार, खय जर वण लूआ सारसोसोदराणि ॥ नहमुह दसणच्छी कुच्छिक णाइरोगे, मह जिणजुअ पाया सुप्पसाया हरंतु ॥ १५ ॥ इय गुरु उहतासे पक्किए चाउमासे, जिणवर दुगथुत्तं वच्छरे वा पवित्तं ॥ पढइ सुणाइ सिन्झा एइ झाएइ चित्ते, कुणइ मुणइ विग्घं जेण घा एइ सिग्घं ॥ १६ ॥ इय विजयाजियसत्तुपुत्त सिरिअजिअ जिणे सर, तह अइराविससेण तणइ पंचम चक्कीसर ॥ तिछंकर सोल सम संति जिणवल्लह संथुअ, कुरु मंगल मम हर दुडरिअमखिलं पि थुणंतह ॥ १७ ॥ इति श्रीलघुअजितशांतिस्तवनं द्वितीयं० ॥

॥ अथ नमिऊणनामकं तृतीयं स्मरणम् ॥

॥ नमिऊण पणय सुरगण, चूमामणि किरणरंजिअं मुणि णो ॥ चलणजुअलं महान्नय, पणासणं संथवं वुच्छं ॥ १ ॥ सम्मिय

कर चरण नह मुह, निवुड्ड नासा विवन्न लावन्ना ॥ कुठ महारो गानल, फुलिंग निद्दड्ढ सव्वंगा ॥ २ ॥ ते तुह चलणा राहण, सलिलंजलिसेय वुढ्ढिय च्छाया ॥ वण दवदड्ढा गिरिपा यव व पत्ता पुणो लच्छिं ॥ ३ ॥ डुव्वाय खुभ्भिय जलनिहि, उप्रम्भड कल्लोल नीसणारावे ॥ संभ्रंत नय विसंठुल, निद्धामय मुक्कवावारे ॥ ४ ॥ अविदलिअ जाणवत्ता, खणेण पावंति इच्छिअं कूलं ॥ पास जिण चलण जुअलं, निच्चंचिअ जे नमंतिनरा ॥ ५ ॥ खर पवणुद्धुअ वणदव, जालावलि मिलिय सयल डुम गहणे ॥ डझ्झंत मुद्धमिय वहु, नीसरणरव नीसणंमि वणे ॥ ६ ॥ जगगुरुणो कमजुअलं, निव्वाविअ सयल तिहुअणान्नोअं ॥ जे संन्नरंति मणुआ, न कुणइ जलणो नयं तेसिं ॥ ७ ॥ विलसंत नोग नीसण, फुरिआरुण नयण तरल जीहालं ॥ उग्गन्नुअंगं नवजल य, सन्नहं नीसणायारं ॥ ८ ॥ मन्नंत कीरू सरिसं, दूर परिछुढ्ढ विसम विस वेगा ॥ तुह नामस्कर फुम्सि द्ध, मंत गुरुआ नरा लोए ॥ ए ॥ अम्वीसु नि ल्ल तक्कर, पुलिंद सद्दल सद्दनीमासु ॥ नयविहुर वुन्नकायर, उल्लुरिअ पहिअ सत्थासु ॥ १० ॥ अविलुत्तविह वसारा, तुह नाह पणाम मत्तवावारा ॥ ववगय विग्घा सिग्घं, पत्ता हिय इच्छियं ठाणं ॥ ११ ॥ पज्जलिआनलनयणं, दूरवियारियमुहं महाकायं ॥ नह कुलिसघायविअलिअ, गइंदकुंनत्थलान्नोअं ॥ १२ ॥ पणय ससंन्नम पछिव, नहमणिमाणिक्क पमिअ पमिमस्स ॥ तुह वयण पहरणं धरा, सीहं कुद्धंपि नह गणंति ॥ १३ ॥ ससिधवल दंतमुसलं, दीह करुल्लाल वढ्ढि उच्छं, महु पिंग नयणजुअलं, ससलिल नवजल हरारावं ॥ १४ ॥ नीमं महागइंदं, अच्चासन्नंपि ते नवि गिणंति ॥ जे तुम्ह चलणजुअलं, मुणिवइ तुंगं समल्लीणा ॥ १५ ॥ समरम्मितिरकखग्गा, य पविद्ध उद्धुय कबंधे ॥ ... निणि

न्न करि कल, ह मुक्क सिक्कार पवरंमि ॥ १६ ॥ निज्जिय दप्पुद्धर रिउ, नरिंद निवहा न्नडा जसं धवलं ॥ पावंति पाव पसमिण, पासजिण तुह प्पन्नावेण ॥ १७ ॥ रोग जल जलण विसहर, चोरारि मइंद गय रण न्नयाइं ॥ पास जिणनाम संकि, त्तणेण पसमंति सव्वाइं ॥ १८ ॥ एवं महा न्नयहरं, पास जिणिंदस्स संथ वमुआरं ॥ न्नविय जणाणंदयरं, कल्लाण परंपरनिहाणं ॥ १९ ॥ राय न्नय जक्क रक्कस, कुसुमिण डुस्सनुण रिक्क पीडासु ॥ सं ऊासु दोसु पंथे, उवसग्गे तहय रयणीसु ॥ २० ॥ जो पढइ जो अ निसुणइ, ताणं कइणो य माणतुंगस्स ॥ पासो पावं पसमिउ, सयल न्नुवणच्चिअ चलणो ॥ २१ ॥ इति श्रीपार्श्वजिन स्तवनं तृतीयस्मरणं संपूर्णम् ॥ ३ ॥

॥ अथ गणधर देवस्तुति चतुर्थ स्मरण प्रारंभः ॥

॥ तं जयउ जय तित्थं, जमित्थ तित्थाहि वेण वीरेण ॥ सम्मं पवत्तिअंन्न, व सत्त संताणसुह जणयं ॥ १ ॥ नासिअ सय लकिलेसा, निहय कुलेसा पसढ सुहलेसा ॥ सिरिवद्धमाण तित्थ, स्स मंगलं दिंतु ते अरिहा ॥ २ ॥ निद्दढकम्म वीआ, वीआपरमि ठिणो गुणसमिद्धा ॥ सिद्धा तिजय पसिद्धा, हणंतु डुत्थाणि तित्थ स्स ॥ ३ ॥ आयार मायरंता, पंचपयारं सया पयासंता ॥ आय रिआ तह तित्थं, निहय कुतित्थं पयासंतु ॥ ४ ॥ सम्मसुअ वाय गावा, यगाय सिअवाय वायगा वाए ॥ पवयण पडिणीय कए, वणिंतु सव्वस्स संघस्स ॥ ५ ॥ निव्वाणसाहणुज्जिअ, साहूणं जणिअ सव्व साहज्जा ॥ तित्थप्पन्नावगा ते, हवंतु परमातिस्तो जइणो ॥ ६ ॥ जेणाणुगयं नाणं, निव्वाणफलं च चरणमवि न्नणियं ॥ तित्थस्स दंसणं तं, मंगलमुवणेउ सिद्धियरं ॥ ७ ॥ निम्मलमणि किरणसमो, सम्मग्ग न्नणिग न्नणिअ हुय नम्मो ॥ गुणसुट्ठिअस्स संघवं तुच्छं ॥ लं सम्मसि

इ दिसन ॥ ८ ॥ रम्मो चरित्त धम्मो, संपाविअ भवसत्त सिवसु म्मो ॥ नीलेस किलेसहरो, हवउ सया सयल संघस्स ॥ ९ ॥ गुणगण गुरुणो गुरुणो, शिवसुह मइणो कुणंतु निउस्स ॥ सिरिवद्धमाण पहुपय, फिअस्स कुसलं समग्गस्स ॥ १० ॥ जियपफिवरक्काजरका, गोमुह मायंग गयमुह पमुरका ॥ सिरि वंभ संति सहिआ, कय नयरक्का सिवं दिंतु ॥ ११ ॥ अंबा पफिहयमिंवा, सिद्धा सिद्धाइआ पवयणस्स ॥ चक्केसरि वइरुट्टा, संति सुरा दिसउ सुरकाणि ॥ १२ ॥ सोलस विज्जा देवी, उदिंतु संघस्स मंगलं विउलं ॥ अछुत्ता सहिआउ, विस्सुअ सुयदेवयाउ समं ॥ १३ ॥ जिण सासण कय रक्का, जरका चउवीस सासण सुरावि ॥ सुहभावा संतावं, तिछस्स सया पणासंतु ॥ १४ ॥ जिणपवयणंमि निरया, विरहा कुपहाउ सव्व हासवे ॥ वेयावच्च गरा विअ, तिछस्स हवंतु संतिकरा ॥ १६ ॥ जिणसमय सुद्धमग्ग, ... भवाण जणिअ साहज्जो ॥ गीयरई गीयजसो, सपरिवारो ... नउ ॥ १६ ॥ निहयुर... जलथल, वण पव्वय वासि ... उ ॥ जिण सासण ... तत्पूत, दुहाणि सव्वाणि निहणंतु ... ॥ दसदिसिवालास ... मद ... सजया नवगहा सनरकत्ता ॥ ... ॥ ... गावकरे ... पहरेहिं ॥ १८ ॥ सहका ... राहु ... लपवेज्जा ... ॥ सघे सघन्न सुहं, दिसंतु ... टएहिं, सविधिवः ... ॥ ... त्रैलोक्य ... पिसर, जोइस वणोणिआ ... स संघस्स ॥ १९ निर्वाणी २, सागर ... ॥ आइं तिछस्स ॥ २० ... य जे देवा ॥ धरणिंद श्रीधर ७, दत्त ८, ... ॥ ... उस्स भ ... के जस्स जलंतं, ... १२, सुमति १३, ... पि विल ... वीरो, ... नमो नमो अनिल १७, यशोधर ... ॥ ... ह नासणं ... जस्स जाविसासणं जो, शिवकर २२, स्यन ... ... जय सासणं ॥ कृणं ...

वंहा दिसंतु तित्थस्स ॥ सव्व जिणाणं गणिहा, रिणो एहं वंदिअं सव्वं ॥ २३ ॥ सिरि वद्धमाण तित्था, हिवेण तित्थं समप्पिअं जस्स ॥ सम्मं सुहम्म सामी, दिसउ सुहं सयल संघस्स ॥ २४ ॥ पय इणन्नहिआ जे, नहाण दिसंतु सयल संघस्स ॥ इयरसुगु, नक्कु म म्मं, जिणगणहर कहिय कारिस्स ॥ २५ ॥ इय जो दुस्सव्वं तस्स नत्थि किंपि जए ॥ जिणदत्ताणाए मुही होई ॥ २६ ॥ इति श्री गणधरदेवस्तुतिः ॥

॥ अथ गुरुपारतंत्र्यनामक पंचमं स्मरणं ॥

॥ मयरहिअं गुणगण रयण, सायरं सायरं पणमिऊण ॥ सुगुरुजण पारतंतं, उवहिव्व थुणामि तं चेव ॥ १ ॥ निम्महिय मोह जोहा, निहय विरोहा पणठ संदेहा ॥ पणयंगि वग्ग दाविय, सुह संदोहा सुगुण गेहा ॥ २ ॥ पत्तसु जइत्त सोहा, समत्त तित्थ जणिय संखोहा ॥ पडिभग्ग मोह जोहा, दंसिय सुमहत्थ सत्थोहा ॥ ३ ॥ परिहरिअ सत्तवाहा, हय दुह दाहा सिवंब तरु साहा ॥ संपाविअ सुहलाहा, खीर समुद्दुव्व अगाहा ॥ ४ ॥ सुगुणजण जणिअ पुज्जा, सज्जो ॥ निरवज्ज गहिअ पवज्जा ॥ सिवसुह साहण सज्जा, जयगिरि गुरु चूजय परिसज्जा ॥ अज्जसुहम्म प्पमुहा, गुणगण निवहा सुरिंद विहिय पंचपयारं तित्थं नामं, नामं न पणासइ जिणाणं ॥ ६ ॥ तह पयासंतु देवो, देवायरिअ दुरंत नवहारी ॥ सिरि नेमि वायगा वाए ॥ पवरिणो सुगुरु ॥ ७ ॥ सिरि वद्धमाण सूरिस्स ॥८॥ निव्वाणसाहुविप्पो ॥ पडिहय कसाय पसरो, सरीर तित्थप्पभावयगाते, हवंतु पसाति चीर चोर चप्पर, ण पच्चलो सिं नाणं, निव्वाणफलं च चरणमवि समनंद, तऊाणंतपणय सुगुण जणविणय सिक्खियरं ॥ ९ ॥ नित्थमणि स्स अणहिल्ल वाडए ॥ सुय सम्मो ॥ गुणसुहिअस संयमं गया ॥ १० ॥ ह

तर आया, रवि, स्फुरंतु सर्वंद सूरिमय तिमिरं ॥ सूरेसव सूरि
सीवा, जिद लद्दिर करोग्गेण ॥ ११ ॥ मुक्करत्त पत्त कित्ती, पय
न लोहे, अधनर वेला जी पढ्य परवाइ दित्ती, जिणचंद जई
जे, जिहां धणी कहिवा त नवंग सुत्तव, रयणुकोसो पयासिअ
, इहां शंसती सुणसो नाथजणमण, कयसंतो सो विगय दोसो ॥
भविजन व जग सहु कहे, सार, परूवणा करणबंधु रोवणिअं
तीरथ मच्छि जे तारवुं, तझापवरो परम पसमथरो ॥ १४ ॥ कय
पंचमी दीअजी, विन आयग भग संदेहो ॥ गय समय दप्प द
गुण गावे विथे, विबुध कहेतो ॥ १५ ॥ श्रीमभव काणसमिअ
त चंगे रे भ नवि सारो जी ॥ नीसेस सत्त गुरुत्त, सूरी जिणभग
तारे, सां०, नहि कोइ लखिरदिअ सत्तरणो, चतरगुत्तग ए नाथ,
भव भय तुम वचन प्रमाणमहणो, उदमुदो सहइ जस्स: परमेश्व
जग प्यारो। करूं जगनाथ ॥ नेत्तल, दंतगणो गलिअ सात विस्मयो
मां० १॥ १ ॥ व० था० ए सूरि जिणवल्लहो होत्था तया मुनीश ॥
अलख अ॥ व० ॥ सरवर [illegible] कदाचिदपीकितो
[illegible] १० ॥ पावापुर [illegible] मसुन्मयख, माम्राति रूपममलं
[illegible] स्ताद्दा ॥ छतानं [illegible]
[illegible] नवंकर [illegible] ॥ त्रैलोक्यनाथाः, त्रै
णकरो ॥ २० ॥ [illegible] त्रैलोक्योद्योतकराः ॥
जयइ नियह जिणदत्त [illegible] त्रैलोक्य [illegible] महायश ४, विम
१२ ॥ इति श्रीगुरुपा निर्वाणी २, सागर ॥ [illegible] ए, सुतेजा १०,
॥ श्रीधर ७, दत्त ८, [illegible] १४, [illegible]
॥ सिग्धमवहरउ १२, सुमति १३, [illegible] १८, जि
पासजिणो अंत्तपत्तनिल १७, यशोधर [illegible]
पसुहा, गणवइणो; शिवकर २२, स्यन्द [illegible]
े, व सुव्वयंत कुां [illegible] पदाम्य [illegible]

वच काया करि त्रिगुणाकरि त्रिअंक ॥ तेतीस सहस सत सात-असी निःसंक॥ ७ ॥ वलि करण करावण अनुमति त्रिगुण किद्द ॥ इकलक्ख सहसइग तिसय चालीस प्रसिद्ध ॥ अतीत अनागत वर्त्तमान वलिकाल जे अइयविराधना तिणि त्रिगुण संन्नाल ॥ ८ ॥ तीन लाख सहस च्यार वेसै अधिक तेथाय ॥ अरिहंत प्रमुख वह साखै ठगुण न्नाय ॥ इम लाख अढारह वलि सहस चउवीस ॥ इकसो वीसोत्तर हुइ संख्या निसदीस ॥ ए ॥

॥ ढाल ४ थी ॥ चोपइनी ॥ ए देशी ॥

॥ इण परि मिच्छामि डुक्कडं देई न्नविक तरया न्नवजल नि धिकेई ॥ तरे अछै वलि आगलि तरिसी ॥ निरमल केवल लखमी वरिसी ॥ १० ॥ इरियावही धरम गंगाजल ॥ न्हाण करै आतम करि निरमल ॥ सें मुखन्नाषै वीर जिणेसर ॥ सूत्रकरि गूंथे ते श्रुतधर ॥ ११ ॥ इम पडिक्कमी मुनिवर अइमत्तो ॥ वीरसीस केवल पदपत्तो ॥ त्रिकरण सुध तसु पय प्रणमी जै ॥ मानव जनम सफल इम कीजै ॥ १२ ॥

॥ कलश ॥

॥ इम वीरजिणवर ग्यान दिणयर सयललोय सुहंकरो ॥ तियलोय सामि सिद्धिगामी सुद्ध धरम धुरंधरो ॥ उवझाय लक्ष्मी किर्ति सीसै जैनवाणी मन धरी ॥ गणि लब्धिवल्लभ तवन करि इम संथुण्यो न्नावै करी ॥ १३ ॥ इति इरियावही मिच्छामि डुक्कडं संख्या स्तवनं ॥

॥ अथ पंच समवाय स्तवन ॥

॥दोहा॥ सिद्धारथ सुत वंदीए, जगदीपक जिनराज॥ वस्तु-सवि जाणीए, जस आगमथी आज ॥ [illegible] स्याद्वादथी संपजे, [illegible] विख्यात ॥ सत न्नंग रचना [illegible]ना, बंधन

बेसे वात ॥ २ ॥ वाद वदे नय जूजुआ, आप आपणें ठाम ॥ पूरण वस्तु विचारतां, कोइ न आवे काम ॥ ३ ॥ अंध पुरुषे ग्रह्यो गज, ग्रह्यो अवयव अकेक ॥ दृष्टिवंत लहे पूर्ण गज, अवयव मिली अनेक ॥ ४ ॥ संगति सकल नयें करी, जुगति योग शुद्ध बोध ॥ धन्य जिनशासन जग जयो, जिहां नहीं किशो विरोध ॥ ५ ॥

॥ ढाल ॥ १ ॥ राग आशावरी ॥

श्रीजिनशासन जग जयकारी स्याद्वाद शुद्ध रूप रे ॥ नय एकांत मिथ्यात्व निवारण, अकल अभंग अनूपरे ॥ ६ ॥ ॥ श्री० ॥ कोइ कहे ए कालतणे वस, सकल जगत गत होय रे ॥ कालै ऊपजै विणसे काले, अवर न कारण कोइ रे ॥ ७ ॥ श्री० ॥ कालै गर्भ धरै जग वनिता ॥ कालै जनमे पूत रे ॥ कालै बोलै कालै चाले, कालै काले घरसूत रे ॥ ८ ॥ कालै दूधथकी दही थायै, कालै फल परपाक रे ॥ विविध पदारथ काल उपावै, अंत करे बे वाक रे ॥ ९ ॥ श्री० ॥ जिन चउवीसै बार चक्कवै, वासुदेव बलवंत रे ॥ कालै कवलित कोइ न दीसै, जसु करता सुर सेव रे ॥ १० ॥ ॥ श्री० ॥ उत्सर्प्पिणी अवसर्प्पणी आरा, वै वै जूजूये भांते रे, षट् ऋतु काल विशेष विचारो ॥ भिन्न २ दिन रात रे ॥ ११ ॥ श्री० ॥ कालै बाल विलास मनोहर, यौवन काला केश रे ॥ बुढपणे हुये बलि २ दुर्बल, सकत नहीं लवलेस रे ॥ १२ ॥ श्री० ॥

॥ ढाल ॥ २ री ॥ गिरुवा गुण श्रीवीरजी ॥ ए देशी ॥

तव [illegible]भाववादी वदे जी, काल किसुं करै रंक ॥ वस्तु स्वभावे नीपजे जी, [illegible]तिमज निस्संक ॥ १३ ॥ सुविवेक विचारो जुओ [illegible]स्तु स्वभाव [illegible] आंकणी ॥ उत्ते योग योवनवतीजी, वांझणि जणै बाल ॥ [illegible]हो महिला मुखै जी, करतल ऊगै न वाल [illegible] ॥ सु० ॥ [illegible]भाव नवि संपजै जी, किमहु पदारथ कोय ॥

अंब न लागे नींबमें जी, बाग वसंते जोय ॥ १५ ॥ सु० ॥ मोरपं ख कुण चीतरे जी. कुण करै संध्यारंग ॥ अंग विविध सब जीवना जी, सुंदर नयण कुरंग ॥ १६ ॥ सु० ॥ काटा बोर बंबूलना जी, कुणें अणियाला कीध ॥ रूप रंग गुण जूजूआ जी ॥ तस फल फल प्रसिद्ध ॥ ॥ १७ ॥ सु० ॥ विसहर मस्तकै नित वसै जी, मणि हरै विस ततकाल, परवत थिर चल बायरो जी, ऊरध अगननी झाल ॥ १८ ॥ ॥ सु० ॥ मच्छ तुंब जलमां तिरै जी, बूडै काग पाहाण ॥ पंख जाति गयणे फिरे जी ॥ इण परै सहिज विनाण ॥ १९ ॥ सु० ॥ वाय सुंठथी उपशमें जी, हरमे करै विरेच ॥ सीझै नही कण कांगमो जी ॥ सकल स्वभाव अनेक ॥ २० ॥ सु० ॥ देस विशेषै काठनो जी, भुंयमां थायै पाखाण ॥ संख अस्थिनो नीपजे जी, क्षेत्र स्वभाव प्रमांण ॥ २१ ॥ सु० ॥ रवि तातो सशि सीयलो जी, भव्यादिक बहु भाव ॥ षट् द्रव्य आपापणा जी, न तजे कोइ सुभाव ॥ ॥ २२ ॥ सु० ॥

॥ ढाल ॥ ३ ॥ कपूर हुवै अति ऊजलो रे ॥ ए देसी ॥

काल किसुं करे बापमो रे, वस्तु स्वभाव अकज्ज ॥ जो न होय भवतव्यता जी, तो किम सीझै कज्ज रे ॥ २३ ॥ प्राणी म करो मन जंजाल, ए तो भावी भाव निहाल रे ॥ प्रा० ॥ ए. आकणी ॥ जलधि तरै जंगल फिरै जी, कोडि यतन करै कोय ॥ अणभावी होवे नही जी, भावी होय ते होय रे ॥ २४ ॥ प्रा० ॥ आंबे मोर वसंतमां जी, झालै केइ लाख ॥ [illegible] केइ खांखटी जी, केइ आंबा केइ साख रे ॥ प्रा० ॥ २५ ॥ [illegible] जिम भवतव्यता जी, जिण जिण दिसे न जाय ॥ पर[illegible] मानसतणो जी, तृण जिम पूठे धाय रे ॥ प्रा० ॥ २६ ॥ [illegible] हो मै पिण चिंतव्युं जी, आवी मिल ततकाल ॥ घरमां सोनं [illegible] जी नियत कर

विसराल रे ॥ प्रा० ॥ २७ ॥ आठमो चक्री सुभूमिते जी, समुद्र पड्यो विकराल ॥ ब्रह्मदत्त चक्री तणांजी, नयण हरे गोवाल रे ॥ प्रा० ॥ २८ ॥ कोकूहा कोयल करे जी, किम राखीस रे प्राण ॥ आहेमी सर ताकियो जी, ऊपर भमे सीचाण रे ॥प्रा० ॥२९॥ आहेमी नागे मस्यो जी, बाण लग्यो सीचाण ॥ कोकूहो ऊमी गयो जी, कोइ नियत परमाण रे ॥ प्रा० ॥ ३० ॥ सस्त्र हण्या संग्राममां जी, रात पड्या जीवंत ॥ मंदिरमांहे मानवी जो, राख्याही न रहंत रे ॥ प्रा० ॥ ३१ ॥

॥ ढाल ४ थी ॥ मारुणी मनोहरणी ॥ ए देशी ॥

काल स्वभाव नियत मति कूडी, करम करे ते थाय ॥ करमे नरय तिरिय नर सुर गति, जीव भवंतरे जाय ॥ ३२ ॥ चेतन चेतज्यो रे करम न छूटे कोय ॥ ए आंकणी ॥ करमैं राम वस्या वनवासे, सीता पामी आल ॥ कर्मै लंकापति रावणनुं, राज्य थयो विसराल ॥ ३३ ॥ चे० ॥ कर्मै कीमी कर्मै कुंजर ॥ कर्मे नर गुणवंत ॥ कर्मै रोग सोग दुख पीमित, जनम जाये बिलसंत ॥ ३४ ॥ चे० ॥ कर्मै वरस लगे रिसहेसर, उदक न पामे अन्न ॥ कर्मै जिननें जोग निमा रै, खीला रोप्या कन्न ॥ ३५ ॥ ॥ चे० ॥ कर्मै एक सुखपाले बैसे, सेवक सेवे पाय ॥ एक हय गय चढया चतुरनर, एक आगल ऊजाय ॥ ३६ ॥ चे० ॥ उद्यम मांनी अंधतणी पर, जग हीमै हाहूतो ॥ कर्मै वली ते लहै सकल फल, सुखभर सेजे सूतो ॥ ३७ ॥ चे० ॥ ऊंदर एके कीधो उद्यम ॥ करंमीयो करकोले ॥ मांहे घणा दिवसनो भूखो, नाग रह्यो रुमफोलै ॥ चे० ॥ ३८ ॥ बिवर करी मूषक तसु मुखमां, दीयै आपणूं देह ॥ मार्ग लही वन नाग पधारया, कर्म मर्म जोवो गुह ॥ चे० ॥ ३९ ॥

॥ ढाल ५ मी ॥ तो चाढियो घन मान गजे ॥ ए देशी ॥

हिव उद्यमवादी भणे ए, ए च्यारे असमर्थ तो ॥ सकल पदारथ साधवा ए, उद्यम एक समरथ तो ॥ ४० ॥ उद्यम करतां मानवी ए, स्युं नवि सीझै काज तो ॥ रामें रयणायर तणी ए, लीधो लंका राज तो ॥ ४१ ॥ करम नियत ते अणुसरै ए, जेहमां सत्व न होय तो ॥ देवल वाघमुख पंखिया ए, पिण पैसंता जोय तो ॥ ४२ ॥ विन उद्यम कीम नीकले ए, तिल मांहेथी तेल तो ॥ उद्यमथी ऊंची चढे ए, जोवो एकेंद्रिय वेल तो ॥ ४३ ॥ उद्यम करतां इक समें ए, जेह न सीझै काज तो ॥ ते फिर उद्यमथी हुवे ए, जो नवि आवे वाज तो ॥ ४४ ॥ उद्यम करि ऊरयां विना ए, नवि रंधायै अन्न तो ॥ आवी न पड़ै कोलियो ए, मुखमां क्षेपे जतन्न तो ॥ ४५ ॥ कर्म पूत उद्यम पिता ए, उद्यम कीधा कर्म तो ॥ उद्यमथी दूरे टलै ए, जोउ कर्मनो मर्म तो ॥ ४६ ॥ दृढप्रहार हत्या करी ए, कीधा पाप आरंभ तो ॥ उद्यमथी खट मासमां ए, आप थया अरिहंत तो ॥ ४७ ॥ टीपैं२ सरवर भरै ए, कां करे २ पाल तो ॥ गिर जेहवा गढ नीपजे ए, उद्यम सकत निहाल तो ॥ ४८ ॥ उद्यमथी जलबिंदुउ ए, करे पाहाणमां गाम तो ॥ उद्यमथी विद्या भणै ए, उद्यम जोड़ै दाम तो ॥ ४९ ॥

॥ ढाल ६ ॥ ए छिंडी किहां राखी ॥ ए देसी ॥

ए पांचेही वाद करंतां, श्रीजिन चरणे आवे ॥ अमिय रसै जिन वयण सुणीनें, आणंद अंग न मावे रे ॥५०॥ प्राणी समकित मति मन आणो ॥ नय एकांत म ताणो रे ॥ ॥ प्रा० ॥ ते मिथ्या मति जांणो रे ॥ प्रा० ॥ ए आंकणी ॥ ए पाचे समवाय मिल्यां विन, कोइ काज न सीझै ॥ अंगुल जोगै

कवल तणी पर, जे बूझै ते रीझै रे ॥ प्रा० ॥ ५१ ॥ आग्रह आणी कोइ एकनें, एहमां दिये वडाई ॥ पिण सेना मिल सकल रणांगण, जीते सुभट लडाई रे ॥ प्रा० ॥ ५२ ॥ तंतु स्वभावे पट उपजावै, काल क्रमें वणाई ॥ भवितव्यता होय ते नीपजे, नही तो विघन घणाई रे ॥ प्रा० ॥ ५३ ॥ तंतुवाय उद्यम भोक्तादिक, भाग्य सवल सहकारी ॥ ए पांचे मिल सकल पदारथ, उतपत जोवो विचारी रे ॥ प्रा० ॥ ५४ ॥ नियत वसे हलु कर्म थईनें, निगोदथकी नीकलियो ॥ पुण्यें मनुज भवादिक पांमी, सद्‌गुरुनें जइ मिलियो रे प्रा० ॥ ५५ ॥ भवथितनो परपाक थयो तब, पंडित वीर्य उल्लसियो ॥ भव्य स्वभावे शिवगति गांमी, शिवपुर जइनें वसियो रे ॥ ... ॥ वर्द्धमान जिन इण पर वीनवै, सासन नायक गा... णी, स्याद्वाद रस पावो रे ॥ प्रा० ॥ ५७ ॥

... क, वीर जिनवर संथुण्यो ... धरी घणो ॥ श्रीविजय ... कीर्तिविजय वाचक ... इति श्री पञ्च स ...

... वर्म, ... बारम ब्रह्मदत्त नांम ॥ ६ ॥ एह ... वीर ॥ मघवा सनतकुमार, पोहता सरग ... ने ब्रह्मदत्त, सत्तम नयर निरत्त ॥ आठ थय ... नरनांमी ॥ ८ ॥

॥ ढाल ३ जी ॥ मुनिवर आर्य सुहस्ति ॥ ए देशी ॥

पहिलो त्रिपृष्ठि जांण, द्विपृष्ठ दूसरो, तीजो स्वयंभ्रभु जा... पुरुशोत्तम ए चोथो, पंचम परगडो, पुरुषसिंह परमांणिये ... छठो पुरुष पुंडरीक, दत्त तिम सातमो ... ॥ नवमो कृष्ण नरेस, ए ... मति दाता ... लक्ष्मण ना ... वारंवार, ॥ १० ॥ तिहां पहिलो वासुदेव गुण ... कहिस्युं सूत्र ... ए ॥ सातमो पंचमी नैजम भव ... म मिथ्यात कह्यो ... ॥ ११ ॥ अचल विजयादन ... जो मिश्र वखाणूं ॥ चो... मती ए ॥ रा... कह्याणो, ... पंचम परमांणो, छठो प्रमत्त ... शिव गती ए ...

पिठाणूं ॥ १ ॥ अप्रमत्त सत्तम सलहीजै, अष्टम अपुरव करण कहीजै, अनिवृत्ति नांम नवम्म ॥ सुखम लोभ दसम सुविचार, उपशांत मोह नांम इग्यार, खीणमोह बारम्म ॥ ३ ॥ तेरम सयोगी गुणधांम, चवदम थयो अजोगी नाम, वरणूं प्रथम विचार॥ कुगुरु कुदेव कुधर्म्म वखाणै, ए लक्षण मिथ्या गुणठाणै, तेहना पंच प्रकार ॥ ४ ॥

॥ ढाल ॥ २ ॥ सफल संसारनी ॥ ए देशी ॥

॥ जेह एकांतनय पक्ष थापी रहै, प्रथम एकांत मिथ्यामती ते कहै ॥ जैन शिव देव गुरु सहु नमै सारखा, तृतीय ते विनय मिथ्यामती पारिखा ॥ सूत्र नवि सरदहै रहै विकलप घणें, संस यी नाम मिथ्यात चोथो भणै ॥ ६ ॥ समझ नही काय निज धंद रातो रहै, एह अज्ञान मिथ्यात पंचम कहै ॥ एह अनादि अ नंत अभव्यनें, करिय अनादि थिति अंतसुभव्यनें ॥ ७ ॥ जेम नर खीर घृत खंड जिमनें वमें, सरस रस पाय वलि स्वाद केहवो गमें ॥ चौथ पंचम छठे ठाण चढने पडे, किणहि कषाय वस आय पहलै अडै ॥ ८ ॥ रहै विच एक समयादि षट आवली, सहीय सासादनें थित इसी सांभली ॥ हिव इहां मिश्र गुणठाण तीजो कहै, जेह उत्कृष्ट अंतरमहुरत लहै ॥ ए ॥

॥ ढाल ॥ ३ ॥ वे कर जोडी तांम ॥ ए देशी ॥

॥ पहिला च्यार कषाय, सम कर समकितो, कैतो सादि मिथ्यामती ए ॥ ए वेहिज लहे मिश्र, सत्य असत्य जिहां, सर दहणा वेऊं वती ए ॥ १० ॥ मिश्र गुणालय मांहि, मरण लहै नही, आउ बंधनपडै नवो ए ॥ कै तो लहै मिथ्यातकै समकित लहै, मति सरखी गति परभवैए ॥ ११ ॥ च्यार [illegible] ॥ [illegible]ख्यान, उदय करी लहै, मति विन किहां समकितपणो [illegible] [illegible] अविरत

गुणगाण, तेत्रीस सागर, साधिक थिति एहनी जणी ए ॥ १२ ॥ दया उपशम संवेग, निरवेद आसता, समकित गुण पांचै धरै ए ॥ सहु जिन वचन प्रमांण, जिन शासन तणी, अधिक २ उन्नत करै ए ॥ १३ ॥ कोईक समकित पाय, पुदगल अरधतां, उत्कृष्ठा जव में रहै ए ॥ केइएक जेदी गंठि, अंतरमहुरते, चढते गुण शिवपद लहै ए ॥ १४ ॥ च्यार कषाय प्रथम्म, त्रिण वलि मोहनी, मिथ्या मिश्र सम्यक्तनी ए ॥ साते प्रकृति जास, परही उपशमें, ते उप शम समकित धणी ए ॥ १५ ॥ जिण साते क्षय कीध, ते नर क्षायकी, तिणहिज जव शिव अनुसरै ए ॥ आगलि बांध्यो आऊ, तातें तिहां थकी, तीजे चोथे जव तिरै ए ॥ १५ ॥

॥ ढाल ॥ ४ ॥ इण पुर कंबल कोइ न लेसी ॥ ए देसी ॥

पंचम देसविरति गुणगाण, प्रगटै चोकमी प्रत्याख्यान ॥ जेण तजैवा वीस अजक्ष, पांम्यो श्रावकपणो प्रत्यक्ष ॥ १७ ॥ गुण इकवीस तिके पिण धारै, साचा बारै व्रत संजारै ॥ पूजादिक षट् कारज साधै, इग्यारै प्रतिमा आराधै ॥ १८ ॥ आर्त्त रौद्र [illegible] मंद, आयो मध्य धरम [illegible] ॥ सूरती महीनै मागध [illegible] क्षणी [illegible] गुणठाणे थित जोय ॥ १९ ॥ तिम [illegible] णो वा [illegible] ाते गु [illegible] अंतरमहुरत मांन ॥ पंच प्रमाद [illegible] गाम, तेण [illegible] गुणधांम ॥ २० ॥ थिवरकलप जि[illegible]कलप आचार, साधै [illegible] स्यक सार ॥ उथत चोथा च्यार कषाय, तेण [illegible] कहाय ॥ २१ ॥ क्रधो राखै चित्त समाधै, धर[illegible] आराधै ॥ जिहां प्रमाद क्रिया विध नासै, [illegible] गुण जासै ॥ २२ ॥

॥ ढाल ॥ ५ ॥ नदी यमुनाके तीर उडै दोय पंखिया

पहिले अंसे अष्टम गुणठाणातणें, आरंजे

ते गयो ॥ उपशम श्रेणि चढै जे नर हुवै उपशमी, क्षपकश्रेणि क्षायक प्रकृति दस क्षय गमी ॥ २३ ॥ तिहां चढता परिणाम अपूरव गुण लहै, अष्टम नांम अपूरव करण तिणें कहै ॥ सुकल ध्यांननो पहिलो पायो आदरै, निरमल मन परिणांम अडिग ध्याने धरै ॥ २४ ॥ हिव अनिवृत्त करण नवमो गुण जांणियै, जिहां भाव थिररूप निवृत्ति न जांणियै ॥ क्रोध मांन ने माया संजलणा हणें, उदै नही जिहां वेद अवेदपणो तिणें ॥ २५ ॥ जिहां रहै सुखम लोभ कांइक शिव अभिलखै, ते सूखम संपराय दसम पंडित अखै ॥ संत मोह इण नांम इग्यारम गुण कहै, मोह प्रकृति जिण ठांम सहू उपशम लहै ॥ २६ ॥ श्रेणि चढ्यो जो काल करै किणही परै, तो थायै अहमिंद अवर गति नादरै ॥ च्यार वार समश्रेणि करै संसारमें, एक भवे दोय श्रेण अधिक न हुवे किमें ॥ २७ ॥ चढि इग्यारम सीम समीप पहिले पडै, मोह उदय उत्कृष्ट अरध पुदगल रडै ॥ क्षपकश्रेणि इग्यारम गुणठाणो नही, दशमथकी बारम्म चढै ध्यांने रही ॥ २८ ॥

॥ ढाल ॥ १ ॥ एक दिन कोइ ... पुरंदर पास ॥ ए देसी ॥

हिव इहां ...

खीणमोह नामे गुणठांण ... हे ॥ ...रम जाण, मोह खपायो नेमो आयो केवलज्ञांन ॥ प्रगटपणे ... जिहां चरित अमल यथा आख्यात, हिव आगे तेरम गुणथांन तणी कहै वात ॥ २९ ॥ घातीय चोकर्म क्षय गई रहीय अघातीय एम, प्रकृति पिच्यासी जेहने जूना कप्पड जेम ॥ दरसण ज्ञांन वीरज सुख चारित पंच अनंत, केवलज्ञान प्रगट थयो विचरै श्रीभगवंत ॥ ३० ॥ देखे लोक अलोकनी सगली परगट वात, महिमावंत अढारै दोषण रहित विख्यात ॥ आठे वरसे ऊणी कही इक पूरवकोडि, उत्कृष्टै तेरम गुणठाणें ए थिति जोडि ॥ ३१ ॥ कर सेलेसी करण निरूंध्या मन वच काय, तेण अयोगी

अंत समय सहु प्रकृति खपाय ॥ पांचे लघु अक्षर ऊचरता जेहनों मांन, पंचम गति पांमें सिवपद चउदम गुणथान ॥ ३२ ॥ त्रीजें बारमें तेरमें मांहे न मरै कोय, पहिलो बीजो चोथो परभव साथे होय ॥ नारक देवनी गति माहे लाभे पहिला च्यार, धुरला पांच तिरी मांहि मणु ए सर्व विचार ॥ ३३ ॥

॥ कलश ॥

इम नगर बाहड़ मेरु मंडण, सुमति जिण सुपसाउलै ॥ गुणठाण चवद विचार वरण्यो, भेद आगमनें भलै ॥ संवत सतरैसै बत्तीसै, श्रावण वदि एकादसी ॥ वाचक विजय श्री हरष सानिध, कहै मुनि इम धर्मसी ॥ ३४॥ इति श्री चवदै गुणठाणा स्तवनं ॥

॥ अथ नव तत्व भाषा गर्भित स्तवनं ॥

॥ दूहा ॥ नमस्कार अरिहंतनें, सिद्ध सुरि उवझाय ॥ साधु सकल प्रणमी करी, प्रणमी श्रीगुरु पाय ॥ १ ॥ करस्युं हूं नव तत्वनी, गाथा भासा रूप ॥ मंद बुद्धि गुरु सानिधे, कहिस्युं सुगम सरूप ॥ २ ॥

॥ ढाल ॥ १ ॥ सूरती महीनानी ॥ ए देसी ॥

जीव अजीवें पुण्य पाप तिम आश्रव सोय, संवर निर्जर बंध मोक्ष ए नव तत होय ॥ चवद २ बायाल बयासी वलि बायाल, सत्तावन बारै चौं नव क्रम भेदनी माल ॥ १ ॥ इग दु ति चौविह पणविह छविह जीव कहाय, चेतन त्रस थावर वेदै गई करणे काय ॥ एगेंदी सुखम बादर ए दोय जिय ठाण, सन्नि असन्नि पणिंदी वि ति चौरिंद्री आण ॥ २ ॥ ए सग पज्जत्ता अपज्जत्ता चवदै होय, अनुक्रम जीव ठाण ए सूत्र प्ररूप्या सोय ॥ नाण दंसण चारित्त वीरज तप तिम उपयोग, ए षट लक्षण लक्षत जीव द्रव्य ६ लोग ॥३॥ इग आहार सरीर इंदिय पज्जत्ती तीन, सासोसास

आधा मन धरू ए अनुक्रम लीन ॥ च्यार एगिंदी पंच पज्जत्ती विगलें जोय ॥ पंच असन्नि सन्नि तें षट् पज्जत्ती होय ॥ ४ ॥ इंद्रिय पांच उसास आऊ बल ए दस प्राण, च्यार छ सात आठ एगिंदी विगलें जाण ॥ असन्नि सन्नि पंचेंद्री नें नव दस क्रम थाय, प्राणाथी जेवि प्रयोग जिय मरण कहाय ॥ ५ ॥ धम्माधम्म आगास तीनूंना त्रिण २ भेद, काल दसम इग आगास पुग्गल च्यार विभेद ॥ खंधा देस पएस परमाणू चवद अजीव, धम्माधम्म पुग्गल नभ्र काल ए पांच न जीव ॥ ६ ॥ चलण सहाई धम्में थिर संठाण अधम्म, अवगाहें पूरण गलणें नभ्र पुग्गल धम्म ॥ समयावलिय महुत्त दीह पख मास नें साल पल्योपम सागर उसप्पणी सप्पणी काला ॥ ७ ॥ षट् इग दो सग सग सग षट् इग अंक गिणाय, एग मुहुत्तें आवलि संख्या सूत्र कहाय ॥ तीन सात वलि सात तीन ऊसासें माण, केवलनाणी भणियो एह महुत्त प्रमाण ॥ ८ ॥ साता उच्च गोय मणु सुर दुग पंचिंदि जाय, पांच शरीर आदि प्रति सरीर उवंग कहाय ॥ आदि संघेण संठाण चौवर्ण अगुरु लहु होय, परघ उसास तेम वलि आतप ने उज्जोय ॥ ९ ॥ सुभखगइ निम्माणात सादि दशु नीमाल, सुर नर तिरि आऊ तित्थंकर पुण्य बयाल ॥ तस बादर पज्जत्त पत्तेय थिरं सुभ सोय ॥ सुभग सुसर आइज्ज जसें त्रस दसको होय ॥ १० ॥ नाणंतराय दस कनव बीजा नीचअसाय, मित्थ थावर दशनादग त्रिक पचवीस कसाय ॥ तिरियं च दुग एकेंद्री वि ति चौरिंद्री तेय, कुखगई उपघा अपसत्थ वस चौ भेयं ॥ ११ ॥ पढम संघयण विना संघेण तेम संठाण, एम बयासी प्रकृति पाप तनी ए जाण ॥ थावर सुहम अपज्ज साहारण अथिरे गेय, असुभ दुभग दू सरणा इज्ज अजस दस लेय ॥ १२ ॥ पण चौ पण तिय इंदि कसाय अव्रत तिम जोग बायालीस सेय पचीस क्रिया संजो

ग ॥ काइय अहिगरणीया पावसिया परिताप, प्राणातिपात आरं
नकी परिगहियानो ताप ॥ १३ ॥ माया प्रत्यय मिच्छादंसण वत्ती
तेम,, अपच्चखाणकी दिठ पुठ पाडुच्चिय जेम ॥ सामंतो पनवणि
य ने सत्थि सहत्थै जेह, आज्ञापनकी वेयारण अणन्नोगा तेह ॥
१४ ॥ अणव कंख पच्चयना नवन्नंगी समुदाय, प्रेम द्वेष इरियाव
ही किरिया ए कहिवाय ॥ सुमति गुपति परिसहज इ धम्म नाव
ण चारित्त, पणतिग बावीस दस बारे पण संवर तत्त ॥ १५ ॥ इ
रिया नाषा एषणा सुमतीना नेद होय, आदान नंरू उच्चार नि
क्खेवण पांचे जोय ॥ मनगुत्ती वयगुत्ती कायगुत्ती त्रिण जाण, हि
व आगे बावीस परिसह कहूं हित आण ॥ १६ ॥ नूख पिपासा
सीत उसन मांसा निरवत्थ, अरति जोषा चरिआ नैषिधा सिज्जा
सत्त ॥ अक्कोसवहजायण अलान्न रोग त्रिण फास, मल सक्कार य
न्ना अन्नाण समत्त समास ॥ १७ ॥ खंति मद्दव अज्जव मुत्ती तव
संजम सम्म, सत्यं सौच आकिंचन बंन्नचेरज इ धम्म ॥ पढम अ
नित्य असरण संसार एग अनत्त, असुचि आश्रव संवर निज्जर न
वि नावो नित्त ॥ १८ ॥ लोक सुन्नाव बोध दुरलन्न इग्यारम गाम,
धरम साधक अरिहंत ए बारे नावना नाव ॥ सामायक छेदोप
स्थापन बीजो सोय, परिहार विशुद्ध सूखम संपराय चउत्थो जोय
॥ १९ ॥ तिम अहखाय चरित्त सरब जिय लोग प्रसिद्ध, जेह सु
विधि आचरणे के जिय पाम्या सिद्ध ॥ बारे विध निज्जर तत्व बंध
ना च्यार प्रकार, प्रकृति ठिई अनुन्नाग प्रदेस नेदें निरधार ॥२०॥
अणसण उणोदर वृत्ति संखेप रसनो त्याग, काय कलेस संलीनता
बाहिर तप षट् नाग ॥ पायच्छित्त विनय वेयावच्च तेम सिज्झाय,
ध्यान काउसग अभ्यंतर तप षट् विध थाय ॥ २१ ॥ प्रकृतिसु
नाव काल अवधारण थित निरबंध, अनुन्नागे रस तेम प्रदेसे दल

नो संच ॥ पट प्रतिहार धार तरवार मद्य वलि तेम, निगम चित्र कर कुंजकार जंमारी जेम ॥ २२ ॥ अनुक्रम आठ नामना जाष्या जे जे जाव, तिम ज्ञानावरणादिक अमना एह सजाव ॥ इम संखेपे विवरण कीना आठे तत्त, प्रस्तावै पांम्यो वरण वस्युं हिव मोख तत्त ॥ २३ ॥ संत पदे परूपणा द्रव्य नें खेत्र प्रमाण, फरसन काल पांचमो छठो अंतर जाण ॥ जाग सातमो जाव आठ तिम अलप बहुत्त ॥ ए नव जेदें जावन कस्युं नवमो तत्त ॥ २४ ॥ मोक्ष एक पदवी छे जे पदेअविनाजाव, व्योम कुसुम तिम स सिक शृंग छ जिम नहीय अजाव ॥ एहवो जे पद मोक्ष तेहनो मग्गण द्वार, विवरण कर वरणवस्युं सुणज्यो सुहुम विचार ॥ २५ ॥ संमत्तै क्षायक सन्नी असन्नी वेसन्नि, अणहारी आहारी अणहारी क्षपण द्रव्य प्रमाणे सिद्ध जीव ॥ द्रव्य होय अनंत, लोग असंखम जाग एग सिद्ध होय अणंत ॥ २६॥ फरसन क्षेत्रथी अधिक काल इग सिद्ध प्रतीत, सादि अनंती थित जिन आगमथी सुविदीत ॥ प्रतिपातां जावें नहि सिद्धां अंतर जोय, सरव जीवथी जाग अनंतम सहू सिद्ध होय ॥ २७ ॥ दंशण नाण जेहने बे ते क्षायक जाव, जीवत जेहनें वलि परणाम क जाव समाव ॥ सहुथी थोमा वेद नपुंसकथी जे सिद्ध, तेहथी थीनर अनुक्रम संख गुणा सुप्रसिद्ध ॥ २८ ॥ जे जाणे जीवादिक नव तत्त तस सम्मत्तं, अणजाणंताने हुय जे सरधा नेरत्त ॥ सरव जिनेसर मुखथी जाष्या वयण जहत्थ, ए बुद्धी जेहने मन संमत निश्चल तत्थ ॥ २९ ॥ अंतरमहुरत एग मात्र फरस्यो सम्मत्त, अर्द्ध पुग्गल परियट्ट नियम संसार निमित्त ॥ उसप्पणिय अणंते इग पुग्गल परियट्ट, अनंत अतीत अनागत तद्‌गुण वयण प्रगट्ट ॥ ३० ॥ इम नव तत्त जेद पमिजेदै विवरण कीध, श्रावक आग्रह कीन सहाय पूरण रस पीध ॥ कोटिक गण सुज सदन प्रकास नदो उपमांन,

श्रीजिनलाभचंद कुल पूनमचंद समान ॥ ३१ ॥ अग्यानादिक करिवर सिंहे वयरी साख, रत्नराजमुनि ते वखसाखानी पखिसाख॥ ग्यानसार ते पखिसाखानी सूखम डाल, ए नव पद नव रयणे विनाणें गूंथी माल ॥ ३२ ॥ संवछर निश्चय नय विगई प्रवचन माय, परम सिद्धि पद वाम गतें ए अंक गिणाय ॥ माघ किसन ससि वार मेरु तिथ परन कीध, च्यार कथा तजि तत्वकथा भज नर फल लीध ॥ ३३ ॥ इति नवतत्व भाषागर्भित स्तवनं ॥

॥ अथ दंडक भाषागर्भित स्तवनं ॥

॥ दूहा ॥ रुषभादिक चोवीस नमि, तेहनो सूत्र विचार ॥ दंडक रचनायें तवुं, संखेपे निरधार ॥ १ ॥ नरक सात दंडक प्रथम, असुरा नाग सुवन्न ॥ विज्जु अगन दीवो दही, दिसि पवणें थणियन्न ॥ २ ॥ पुढवी आउ तेउ वलि, वाउ वणस्सइ काय ॥ बि ति चौरिंदी गब्भधर, तिरि नर तिहां मिलाय ॥ ३ ॥ व्यंतर जोइस वेमाणिया, ए दंडक चोवीस ॥ एहना द्वार कहूं हिवै, गणनायें ते वीस ॥ ४ ॥

॥ ढाल ॥ १ ॥ वीर जिणेसरनी ॥ ए देशी ॥

सरीर उगाहण संघयणेंसणा संठाण, कोहाई लेसिंदिय दो समुग्घाय प्रमाण ॥ दिठी दंसण नाण जोग तिम वलि उवयोग, उपपात वलि चवण ठिई पज्जत्ति प्रयोग ॥ १ ॥ केदिसिनोआहार सन्नि गई आगयवेद, दार गाहा दुगनो ए अरथ कह्यो संखेव ॥ हिव तेवीस दारनो रहिस समय अनुसार, अलप रुची हुं तेहयो कहिसुं अलप विचार ॥ २ ॥

॥ ढाल ॥ २ जी ॥ देसी सूरती महीनानी ॥

चौ गब्भय तिरि वाउ कायें च्यार सरीर, मनुष्य सें पांच दंडक इगवीस रह्या ति सरीर ॥ थावर च्यारनें जघन्य उकोसे देह

प्रमाण, भाग असंख्यातम इग अंगुलनो परिमाण ॥ १ ॥ सरवनो जघन्य स्वभावकं अंगुल भाग संख्यात, उक्कोसे पणसै धनु सागरने विख्यात ॥ सुरनो सात हाथ गब्भय तिरि वणस्सय काय, जोयण सहस साधक इक सहस अनुक्रम थाय ॥ २ ॥ नर तेइंदि तिगाउ बेइंदी जोयण बार, एग जोयण चउरेंडी देह ऊंचै आकार ॥ आरंभ काले वैक्रिय देहनो ए परिमाण, भाग एक इग आंगुलनो संख्यातम जांण ॥ ३ ॥ सुर नरनें साधिक इक लाख जोयण इक लाख, नवसै जोयण तिरयंचने ए सूत्रे साख ॥ सा भावकथी दुगणो नारक वैक्रिय काय, एक महूरत नारय नर तिरि च्यार कहाय ॥ ४ ॥ सुरनें पक्ष एक उक्कोसविउवण काल, विगल संघयणी थावर सुर नारकनी माल ॥ गब्भय नर तिरनें षट विगलनें छेवठ एक, सरब जीवनें च्यार दसेससाये लेष ॥ ५ ॥ नर तिरनें षट सुरनें समचौरंस संठाण, हुंडग इग नारग विगलेंडी सूत्र प्रमाण, नाणाविह धयसूईमसूरनी चंद आकार, वणसइ वाऊ तेऊ भू बुदबुद अप्पाकार ॥ ६ ॥ सहुनें च्यार कसाय गब्भय षट नर तिरि दोय, वेमाणिय नारग तेउ वाऊ विगल त्रिक होय ॥ जोयसि तेऊ लेसा सेस रह्या ने च्यार, दार इंद्रियनो सुगम तेहनो स्युं विसतार ॥ ७ ॥ समुद्घात सग नरनें पण गब्भय तिरि देव, नरग वायुनें च्यार सेसनें तीनुं भेव ॥ दिठी दोय विगलमें थावरने मिथ्यात, सेसने तीन दिठि जिम प्रवचनमें विख्यात ॥ ८ ॥ थावर बि ति नें एक अचक्खू दंसण होय, चौरिंडी ते चक्खू अचक्खू दंसण होय ॥ मनुजने च्यार सेस दंडगमें दंसण तीन, नाण अनाण तीन सुर तिर नारगनें तीन ॥ ९ ॥ थावर दोय अनाण विगल दो नाण अनाण, गब्भय मणुनें तीन अनाणनें पांचू नाण ॥ सुर नारग एकादस तिरनें तेरै जोग, मनुजनें पंनरै च्यार विगलनें जोग प्रयोग ॥ १० ॥

वाऊकायनैं पाच तीन थावर संयोग, मनुजने बार नरग तिर देवनैं नव उपयोग ॥ विगल दुगै पण थम चौरिंदी थावर तीन, उववाय इग चवण दार दोनुं समकीन ॥ ११ ॥ एग समै संख्यात असंख्या चवण पपात, गब्भय तिरि विकलेंद्री नारय सुरनी ख्यात ॥ मणुआ अथावर वणस्सइ संख संख अणंत, मणुज असन्नी असंख चवंत तेम उपजंत ॥ १२ ॥ बावीस सात तीन दस वरस सहस उक्किठ, वणस्सई च्यारनैं तीन दिवस तेऊने जिठ ॥ नर तिर तीन पल्य सुर नारग अयर तेतीस, व्यंतर पल्य अधिक लख वरष पल्य जोइस ॥ १३ ॥ असुरादिक दसनैं इक सागर अधिको आय, देसैं ऊणा दोय पल्यनो नवेय निकाय ॥ विगलनैं वार वरस गुणचास दिवस छम्मास ॥ अंतमुहुत्तजहन्नैं पुढवाई दस रास ॥ १४ ॥ भुवनपती नारग व्यंतर दस वरस हजार, पल्य तेना अंस वेमाणिय जोइस धार, सुर नर तिरि नारगनैं षट थावरनैं च्यार ॥ विगलनैं पंच पज्जत्ती ए अठारम दार ॥ १५ ॥ सरव जीवनैं होय छए दिवसनो आहार ॥ होय न होय पंचादिक दिस ए सब मझार, दीह कालकी चौविह सुर नारग तिरयंच ॥ विगलनैं हेउ पएसा सन्नि रहित थिर पंच ॥ १६ ॥ गब्भय मणुजनैं दीह कालकी सन्ना होय, केइक आचारज कहे दिठिवायथी होय ॥ निच्चय पज्जत्ता पंचिंदि तिरि नर जेह, चौविह देवां माहे आवी ऊपजै तेह ॥ १७ ॥ संखाउपजात पंचैंदी तिरि नर तेम, पज्जत्ता भू दग पत्तेय वणस्सई जेम ॥ ए सरवेमैं निश्चै सुरनी आगति हुंति, पज्जत्त संख गब्भय तिरि नर सग नरके जंत ॥ १८ ॥ नरक उद वट्या नर तिर उपजे न हुवे सेस, भू अप्प वणस्सइमैं नरग विण उपजै असेस ॥ पुढवाई दस पयमैं भू आऊ वणजंति, पुढवाई दस पयमैं तेउ वाऊ उवजंत ॥ १९ ॥ तेउ वाऊनो गमण पुढवी पद नवमैं हुंत, पुढ-

वाई दस पदमें विगल जावंत आवंत ॥ सहुमें तिर गति आगति मणुआ सहुमें जाय, तेउ वाऊथी मरीने जीव मनुज नवि थाय ॥ २० ॥ थीपुरसै चोविह सुर तिरि नर तीनूं वेद, थावर विगल नारकनैं एक नपुंसक भेद ॥ पज्जत्ता मणु बादर अगन वेमाणिक तेम भवण नरग व्यंतर जोइस चौपण तिरि, एम॥ २१ ॥बेइंडी तेइंडी पृथवी ने अपकाय, वायु वणस्सइ अधिक अनुक्रम करि कहिवाय ॥ हे जिन ए सहु भावमें पांम्या वार अनंत, तेहनो अनुक्रम गिणतां किमही न आवे अंत ॥ २२ ॥ नर सुर विन सहु दंडगमें ते गति संयोग, लाधो नही तुह दंसण कीनो कम्म प्रयोग ॥ सुरमें पिण दंसण लहि विरत न पांमी मूल, ते सुर जात सहावे देसविरत प्रतिकूल ॥ २३ ॥ आरजदेस आरजकुल शुद्ध सुगुरु उपदेस, तेहथी तुह दरसणनो किंचित पांम्यो लेस ॥ धारक तारक कारक वारक दंशण देव, आतम गुण संसार समत्त कम्म लयमेव ॥ २४ ॥ खरतर गच्छ भट्टारक श्रीजिनलाभ सुरिंदु, रत्नराजमुनि सीस तेहना पद अरविंद ॥ रज मकरंदे लीनो ग्यानसार तसु सीस, तेण तव्या तेवीस दार दंडग चोवीस ॥ २५ ॥ संवत ससि रस वारण तेम चंद निरधार, पोस मास पख उज्जल सातमनें सोमवार ॥ श्रावक आग्रहथी ए कीनो अलप विचार, अष्ठम चौमासो कर जैपुर नगर मझार ॥ २६ ॥ इति श्री चोवीस दंडग स्तवनं ॥

॥ अथ जीवविचार भाषागर्भित स्तवनं ॥

॥ दुहा ॥ भुवन प्रदीपक वीर नमि, किंचित् जीव सरूप ॥ कहस्युं पूर्वाचार्य जिम, बालबोध गुरुरूप ॥ १ ॥

॥ ढाल १ ली ॥ देसी सुरती महीनानी ॥ ए देशी ॥

एक मुगति बीजा संसारी जीव दु भेद, सत्ता भिनै सिद्ध अनंतै रूप अभेद॥संसारी थावर इग तिम त्रस दोय प्रकार, भु अप वाउ

जेव वणस्सइ थावर धार॥१॥ फिटक रयण मणि विद्रुम हिंगुल वलि हरियाल, मनसिल पारो सुवरण आदि धातुनी माल ॥ सेढी वन्नी अरणेटो पालेवो पाषाण ॥ जोमल तूरी जल भूमि पाइण जे खाण ॥ २ ॥ सुरमो लूण जात ए पुढवी काय विभेद ॥ भूमि आकास जल हिम करग आकना भेद, हरित घास ऊपर जे जलकण धूंअर तेम ॥ होय घणो दधि अप्पकाय पिण पाइण जेम ॥ ३ ॥ अंगारा झाला जोजर तिम उलकापात, असणि कणग विद्युतादिक अगनि जीव विख्यात ॥ उब्भामगउक्कलिक्का मंमल वलि मुख वात, सुद्ध गुंज तिम घण तणु वाऊ भेदें ख्यात ॥ ४ ॥ साधारण पत्तेय वणस्सई जीव दु भेय, एग सरीर अनंत जीव साधारणनेय ॥ कंदा अंकुर कूंपल फूलण बलि जंबाल, भूंफोडा अद्दत्तिय सरबे जे फल वाल ॥ ५ ॥ गाजर मोथ वाथलो थेग पालंको साग, गुपत सिरा सांधा गांठा भांजे सम भाग ॥ काटी माल भूमिमें रोप्यां पल्लव थाय, जाल पान इत्यादिक साधारण वणकाय ॥ ६ ॥ एग सरीरें एक जीव जे ते प्रत्येक, फूल गल फल मूल काठ बीजें जिय एक॥ वण पत्तेय विना जे पांचे पुढवीकाय, सयल लोगमें व्यापक अंतमुहुत्तें आय ॥ ७ ॥ सूखमथी ते नियमा दिठी निजर न होय, लोकालोक प्रकास थकी वलि अलप न कोय॥ कवडी संख गंडोला लहिगा अटनी जात, चंदन काअलसीमेहरजोका विख्यात ॥ ८ ॥ माय बाहाक्रम पौरादिक बेइंडी होय, गोमी माकण जूआ कीडा कीडी दोय ॥ दीपक ईली घीवेली गोगीडा जात, चरम जू कागादहिया गोवर कृम उतपात ॥ ९ ॥ धनकीडा जिम चोरकीडा गोवालो तेह, ईली कंथुक इंद्रगोप तेइंडी एह ॥ वीछू ढंकण भमरा भमरी इंडी च्यार, तीडा माखी डांस मच्छर कंसारी धार ॥ १० ॥ कवडोला मांकडिय पतंग इत्यादिक भेद, नारक तिरि मणु देव पंचेंडी च्यार विछेद॥

धम्मा वंसा सेला अंजन रिठा क्रांत, मघा माघवई नारग ए नामें सात ॥११॥ जलचारी थलचारो नभचारी तिरयंच, मछ कछ सुसमार मगर गाहा जल अंच ॥ चौपय उरपरि भुजपरि साप भुचारी तेय, तिविहा गाय साप तिम नकुल अनुक्रम लेय॥१२॥ खेचर चरम रोम पंखी चमचेरू कपोत, मनुजलोकथी बाहिर समुग विगय पंख होत ॥ सरवे जल थल खचर समुछम गब्भय दोय, कम्म अकम्म भूमि अंतर दीवा मणु जोय॥१३॥असुरादिक दस होय वाण व्यंतरिया अठ, जोइस पंच वेमाणिय डुविहासु तें दिठ॥ पनरे भेदे सिद्ध कह्या ए जीव प्रकार, तनु मानादिक हिव एहनो कहिसुं अधिकार॥१४॥ देह आउखो एक सरीरे थितनो मांन, प्रांग जेहने जेता तिम वलि योन प्रमाण॥अंगुल भाग असंख सहू एगिंद्री काय, जोयण सहस साधिक पत्तेय वणस्सई काय॥१५॥बि ति चउरेंद्री अनुक्रम उकिठ देह ऊंचास, बारे जोयण तीन गाउ इग जोयण भास ॥ सत्तमना नेरइया धणु सय पंच प्रमांण, तेहथी अरध२ ऊंचा अनुक्रम रयणाण ॥१६॥ जोयण सहस गब्भधर मछ उरगनो देह, गाउ धणुअ पुहत्त भूचारो पंखी जेह खेचर नव धणु उरग भुयंग जोयण नव होय, नव गाऊ परिमाण समुछम चौपय सोय ॥ १७ ॥ खरू गाउ ऊंचास चउप्पय गब्भय मांण, तीन कोस उक्कोस मनुजनो काय प्रमांण ॥ भुवन व्यंतर जोइस वेमाणिय ईसाणंत, सात हाथ उक्कोसें ऊंचपणे तणु हुंत ॥ १८ ॥ सनतकुमार माहेंदे पट ब्रह्म लांतक पांच, शुक्र सहस्रारे उक्कोस च्यार कर वांच ॥ आणत प्राणत आरत अच्युत हाथें तीन, नवग्रैवेयक दोय पंचाणुत्तर इग लीन ॥१९॥ बावीस सात तीन दस वरस सहस्सें आय भू आऊ वाऊ वणती दिन तेऊकाय ॥ बार वरस गुणचास दिवस तिम वलि छम्मास, अनुक्रम बेइंद्री तेइंद्री चौरिंद्री रास ॥ २० ॥ सुर नारग तेतोस अयर उक्कोसें आय, चौपय

तिरिय मनुजनौं तीन पल्योपम आय ॥ जलचर उरपर भुजपर उक्कासे पुव्वकोडि, पंखीने इग भाग असंख्य पल्यनो जोड ॥ २१ ॥ सरव सूखम साधारण समूछ्म मणुं जेह, जहन्न उक्कोसें अंतमुहुत्त नियम थिति तेह, इम उगाहण आख्यो संखेपे अधिकार, जे वलि इत्थ विसेस विसेस सूत्रसुं धार ॥ २२ ॥ असंख्य उसप्पिणी सहु एगिंदी आपणी काय, उपजै चवै अनंत साधारण वणस्सई काय ॥ संख्याता संवछर विगल आपणी देह, सात आठ भव पंचेंद्री तिरि मणुआं जेह ॥ २३ ॥ नारकथी उदवरती जीव नरक नवि जाय, देव चवीने ते वलि देवपणे नवि थाय ॥ इंद्रिय सासोसास आउ बल ए दस प्राण, च्यार छ सात आठ इग दु ति चौरिंद्रीय जाण ॥ २४ ॥ सन्नि असन्नि पंचेंद्री दस नव अनुक्रम जोय, प्राणभ्रक्र जे.वे प्रयोग जिय मरणौं होय ॥ भोम सायर संसार अपार अनंती वार, भमियो जीव धरम विन जोण असीनें च्यार॥२५॥सग सग सग सग दस चवदे दो दो दो लाख, च्यार च्यार तिम च्यार चवद लख सूत्रें साख ॥ भू अप तेउ वाऊ वणयत्तेय साधार, बि ति चौ पण तिरि नारग सुर नर अनुक्रम धार ॥ २६ ॥ काय न आय न पाण न जोणी कुल नही जात, सादि अनंत भंग जिन आगम थित विख्यात ॥ रोग न सोग न भोग जोग नही नारी लिंग, नहीय नपुंसक पुरसतणा नही अंग उपंग ॥ २७ ॥ नाण दरस चारित वीरज ए च्यार अनंत, सिद्ध थया तेहथी सिद्धातै सिध कहंत ॥ इम ए जीवविचार गाथाथी भाषारूप श्रावक, आग्रहथी में कीनो सुगम सुगम सरूप ॥ २८ ॥ खरतर गछ भट्टारक श्री जिनलाभ सूरीस, रत्नराज गणि ग्यानसार मुनि सीस जगीस ॥ संवत ससि रस वारण ससिहर धर निरधार, माघ चोथ दिन कीनो जैपुर नगर मझार ॥ २९ ॥ इति श्री जीवविचार स्तवन संपूर्ण ॥

॥ अथ समवसरण विचारगर्भित भाषा स्तवन लिख्यते ॥

॥ दूहा ॥ श्री जिनसासन सेहरो, जगगुरु पास जिणंद ॥ प्रणमी जेहना पाय कमल, आवी चोसठ इंद ॥ १ ॥ तीर्थंकर आवे तिहां, त्रिगडो करै तइयार ॥ समकित करणी साचवै, एह कहूं अधिकार ॥ २ ॥ करै प्रशंसा समकिती, मिथ्यात्वी होवे मूक ॥ सूर्य देख हरखे सहू, जिम अंधारे घूक ॥ ३ ॥

॥ ढाल ॥ १ ॥ वीर वखाणी राणी चेलणा ॥ ए देसी ॥

आप अरिहंत जलै आविया जी, गावै अपछरह गंधर्व ॥ समवसरण रचै सुरवराजी, संखेपे ते कहूं सर्व ॥ ४ ॥ आ० ॥ भुवनपति वीस ईंदे मिळ्या जी, सोलह व्यंतर सार ॥ जोइस दु दस वेमाणिय जूज्या जी, चौसठ इंद सुविचार ॥ ५ ॥ आ० ॥ पवन सुर पूंज परमारजे जी, भूमि योजन सम भाउ ॥ मेघकुमर रचै मेघने जी, करिय सुगंध छिड़काव ॥ ६ ॥ आ० ॥ अगर कपूर सुभ धूपणा जी, करय श्री अगनकुमार ॥ वाणव्यंतर दिव वेगसूं जी, रचय मणि पीठका सार ॥ ७ ॥ आ० ॥ पुहप पंच वरण उरध मुखै जी, वरषए जाणु प्रमाण ॥ भवणवइ देव त्रिगडो भलो जी, करय तें सुणउ सुजाण ॥ आ० ॥ ८ ॥ रचय गढ प्रथम रूपातणो जी, सोवन कांगरै सार ॥ रवि ससि रयण कोसीसको जी, कनकनो वीच प्राकार ॥ आ० ॥ ए ॥ रतनगढ रतनने कांगरे जी, रचय वेमाणि सुरराज ॥ भलो त्रीजो गढ भीतरे जी, जिहां विराजै जिनराज ॥ आ० ॥ १० ॥ भींत ऊंची धणुं पांचसै जी, सवातेतीस विसतार ॥ ॥ धनुष से तेर गढ आंतरो जी, औल पचास धणु च्यार ॥ आ० ॥ ११ ॥ दस पंच २ त्रिहुं गढ तणो जी, पावडी वीस हजार ॥ थाकं श्रम नहिय चढतां थकां जी, एक कर ऊच विस्तार ॥ आ० ॥ १२ ॥ पंच धणु सहस प्रथवीथकी जी, ऊंच

रहे त्रिगढ आकास ॥ तेह तल सहू यथास्थित वसै जी, नगर आराम आवास ॥ आ० ॥ १३ ॥ तोरण चिहुं ४ दिस तिहां जी, नीलमणि मोर निरमांण ॥ डुसय धणु मध्य मणि पीठका जी, उच्च जिण देह परिमाण ॥ आ० ॥ १४ ॥ च्यार आसण तिहां चिहुं दिसे जी, मोतीयें झाकझमाल ॥ सम विच कूण ईसाणमें जी, देवछंदो सुविसाल ॥ आ० ॥ १५ ॥ देवडुंडुभि नाद उपदिसे जी, जिन गुण गावसी तेह ॥ अह्म जिम आइ सिर ऊपरे जी, गाजसी तेह गुण गेह ॥ १६ ॥ आ० ॥

॥ ढाल २ ॥ सफल संसारनी ॥

पुव दिसि आसणे आय वेसे पहू, सुर कृत चौमुख रूप देखै सहू ॥ दीपै असोक तस बारगुण देहथी, देखि हरखै सहू मोर जिम मेहथी ॥ १७ ॥ मोतियां जालि त्रिण छत्र सुविसाल ए, रूप चिहुं ४ दिसें चामर ढाल ए ॥ योजनगामनी वांण श्री जिनतणी, भगवंत उपदिसै बार परषद भणी ॥ १८ ॥ प्रदक्षिणारूपथी अग निकूणैं करी, गणधर साधवी तिम वेमाणिय सुरी ॥ ज्योतषी भु वणनी विंतरी स्त्रीपणें, नैरुतकूण जिनवांण ऊभी सुणे ॥ अहूंत णा पति वायवकूंणमें जाण ए, सुर वैमाणीय नर नारि ईसाण ए ॥ बारह परखदा मद मच्छर छोड ए, भूख त्रिस विसरै सुणे कर जोड ए ॥ १९ ॥ पूठ भामंडल तेज प्रकास ए जोयण सहस ध्वज उंच आकास ए, झलहलै तेज ध्रुव चक्र गगने सही, महक सहु बारणे धूपधाणा सही ॥ २० ॥ वाहण वहिल सहु धरिय पहिले गढै, होय पगचार नर नार ऊंचा चढै ॥ जिनतणी वाणि सुणि जीव तिरयंच ए, वैर तजि बीय गढ रहे सुख संच ए ॥ २१ ॥ पुन्यवंत पुरुष ते परषद बारमें, सुणें जिनवाणि धन गणिय अवतारमें ॥ चौविह देव जिनदेव सेवा रचै, मणिमयी मांहिलो प्रोल

माहे वसै ॥ २२ ॥ चिहुं दिसि वाटली वावि चौ जाणिये, विदिसि चौ कूण दोय २ वखाणिये ॥ आठ जिहां वावि जल अमृत जेम ए, स्नान पाने वपु निरमल हेम ए ॥ २३ ॥ जय विजय जयंत अप राजिया, मध्य कंचण गढै प्रोल वसंतिया ॥ तुंबरु पुरुष खट्टंग अ र्चि माल ए, रजतगढ प्रौलना एह रखवाल ए ॥ २४ ॥ पहिलो त्रिगडो नहुयपुर जिण ग्राम ए, देव महर्द्धिक रचे तिण ठांम ए ॥ करण वारवार नही कारण कोय ए, आठ प्रातीहारज ते सही होय ए ॥ २५ ॥ जिण समवसरणनी ऋद्धि दीठी जिये, तेह ध धन धन्न अवतार पायो तिये ॥ पास अरदास सुणी वंछित पूरज्यो, हिव मुझ ताहरो शुद्ध दरसन हुज्यो ॥ २६ ॥

॥ कलश ॥

इम समवसरणै ऋद्धि वरणै सहू जिनवर सारखी ॥ सर-दहे ते लहे शुद्ध समकित परम जिनधर्म पारखी ॥ प्रकरण सिद्धांत गुरु परंपर सुणी सहु अधिकार ए, संस्तव्यो पासजिनंद पाठक धर्म वर्द्धन धार ए, ॥ २७ ॥ इति समवसरण विचार स्तवनं ॥

॥ अथ श्री ऋषभदेवजी सुण २ सैत्रुंज स्तवन लि० ॥

॥ ढाल ॥ पाटोधरजी पाटियै पधारो ॥ ए देशी ॥

॥ सुण २ सैत्रुंजगिर स्वामी, जग जीवण अंतरजांमी, हूं तो अरज करूं सिरनांमी ॥ कृपानिध विनती अवधारो, भवसायर पार उतारो, निज सेवक वांन वधारो ॥ कृ० ॥ १ ॥ प्रभू मूरति मोहनगारी, निरख्यां हरखै नर नारी, जाउं वारी हुं वार हजार कृ० ॥ २ ॥ हिव किसिय विमासण कीजै, मुझ ऊपर महिर धरीजै दिल रंजन दरसन दीजै ॥ कृ० ॥ ३ ॥ आज सफल मनोरथ फलिया भवरना पातिक टलिया, प्रभु जो मुझसै मुख मिलिया ॥ कृ० ॥ ४ ॥ समरथा संकट टलि जावै, नव नव नित मंगल आवै, मुझ

आतम पुन्य नरावै ॥ कु० ॥ ५ ॥ करजोडी वीनंती कीजै, केसर चंदन चरचीजै, दिन धन २ तेह गिणीजै ॥ कु० ॥ ६ ॥ प्रभु दरस सरस लहि तोरो, अति हरषित हुवो चित मोरो, जिम दीठा चंद चकोरो ॥ कु० ॥ ७ ॥ परतिख प्रभु पंचम आरै, वीस माहा भय संकट वारै, सहु सेवक काज सुधारै ॥ कु० ॥ ८ ॥ सेवो स्वांमि सदा सुखदाई, कमणा न रहै घर कांई, वाधै संपत शोभ सवाई ॥ ॥ कु० ॥ ९ ॥ नाभिराय कुलंबर चंदा, भव जन मन नयण आनंदा, उलगै सुर असुर सुरिंदा ॥ कु० ॥ १० ॥ जयकारी रिषभ जिनंदा, प्रह सम घर परम आणंदा, वंदे श्रीजिन भक्ति सूरिंदा ॥ कु० ॥ ११ ॥ इति शत्रुंजय स्तवन संपूर्ण ॥

॥ अथ दसमीका वडा स्तवन पार्श्वनाथजीका लि० ॥

॥ ढाल १ ॥

पास जिनेसर जग तिलो ए, गवडीपुर मंडण गुण निलो ए, तवन करिस प्रभु ताहरो ए, मन वंछित पूरो माहरो ए ॥ १ ॥ नयरी नांम वणारसी ए, सुरनयरी जिण ऊद्धे हसी ए ॥ तेण पूरी छे दीपतो ए, अश्वसेन राजा रिपु जीपतो ए ॥ २ ॥ वामा तसु घर नार ए तसु गुणहि न लभै पार ए ॥ तास उयर अवतार ए, तसु अतिशय रूप उदार ए ॥ ३ ॥ चवद सुपन तिण निसि लह्या ए, अनुक्रम करि ते सहु मन ग्रह्या ए ॥ पूछै भूपतिनें कह्या ए, करजोडि कह्या ते जिम लह्या ए ॥ ४ ॥

॥ ढाल २ ॥

प्रथम सुपन गज निरख्यो, मायतणो मन हरख्यो ॥ बीजै वृषभ ऊदार, धरणी जिण धरयो भार ॥ ५ ॥ तीजै सिंह प्रधान, जसु बल कोय न मांन ॥ चउथे देखी श्रीदेवी, कमल वसै सुर सेवी ॥ ६ ॥ पांचमैं पुष्फनी माला, पंच वरण सुविशाला ॥ छठै दीवो

ए चंद, ग्रहगण केरो ए इंद ॥ ७ ॥ सातमें सूरज सार, दूर कियो अंधकार ॥ आठमें धज लहकंती, वरण विचित्र सोहंती ॥ ८ ॥ नवमें पूरण कूंभ, भरियो निरमल अंभ ॥ देखि सरोवर दसमें, मनह थयो अति विसमें ॥ ए ॥ समुद्र इग्यारमें ठामें, खीरजलधि इण नामें ॥ बारम देव विमान, वाजित्र धुन गीत गान ॥ १० ॥ तेरम रतननी रासि, दह दिसि ज्योति प्रकासी ॥ सुपन चवदमें ए दीठो, पातिक धूमथी नीठो ॥ ११ ॥ सुपन कह्या सुविचार, हरख्यो नूप उदार ॥ पुत्ररतन होस्यै ताहरै, थास्यै उदय हमारे ॥ १२ ॥

॥ दूहा ॥

चवद सुपन श्रवणे सुणी, हरख कियो सुविचार ॥ सुंदर सुत तुमें जनमस्यो, कुलदीपक आधार ॥ १३ ॥ वामा प्रीतम वचन सुण, आवी मंदिर उत्ति ॥ देव सुगुरु कीरति करै, जनम कियो सुकयत्थ ॥ १४ ॥ इण अनुक्रम उगो दिवस, कीधा सुपन विचार ॥ ते घर पहुता आपणे, दीधां दान अपार ॥ १५ ॥

॥ ढाल ३ ॥

हिव जनम्या जगगुरु जगत्र थयो जयकार, खिण इक नारकियें पायो सुख अपार ॥ दिसिकुमरी मिलकर सूत्रकरम निसि कीध, कर थांनक पोहती वंछित तेहनो सिद्ध ॥ १६ ॥ तिणहीज निसि चोसठ इंद्र मिली तिहां आवै, लेइ निज भक्तै सुरगिरि स्नात्र करावै ॥ करी जनम महोछव जननी पासैं ठावै, तिहांथी सुर सव मिल द्वीप नंदीश्वर जावै ॥ १७ ॥ इम रयण विहाणी उगो दिवस उदार, घर २ गाईजे कीजे मंगलाचार ॥ इग्यारमें दिवसे मिली सहू परिवार, तसु नाम दियो श्री उत्तम पासकुमार ॥ १८ ॥ प्रभु वाधै दिन २ कला करी जिम चंद, त्रिहुं ज्ञान विराजित रूप जिसो देविंद ॥ गुणकला विचक्षण विद्यातणो निधांन, जोवनवय आयो परणायो राजान १ए

॥ ढाल ४ ॥

कुमरपदे प्रनु रहतां काल सुखे गमै ए, आयो मन वैराग संजम लेवा समै ए ॥ तव लोकांतिक देव जणावे अवसरू ए, देइ संवछरी दांन याचक जन सुखकरू ए ॥ २० ॥ स्वामी संजम लेय इंद्रादिक सव मिल्या ए, देस विदेस विहार करी कर्म निरदल्या ए, पांमीय केवलज्ञांन सुरे महिमा करी ए, थापीय चौविह संघ मुगति रमणी वरी ए ॥ २१ ॥

॥ ढाल ५ ॥

इम श्री गौमीपासतणा गुण जे नर गावै, ते नर नारी इह परलोग सुवंछित पावे ॥ संघ करी संघपति जिके गवमीपुर जावे, चोर धाम संकट टलै विघन बुराइ न आवै ॥ २२ ॥ धरणराय पद्ममावइ जास वहे सिर आंण, सांमल वरण सुसोन्नित नव कर काय प्रमांण ॥ कल्पवृक्ष चिंतामणि कांमगवी सम तोलै, श्री गुण-शेखर सीस समयरंग इण पर बोलै ॥ २३ ॥ इति श्री गोमी पार्श्व-जिन स्तवनं ॥

॥ अथ अजित शांति जिन स्तवनं लि० ॥

मंगल कमला कंद ए, सुख सागर पूनम चंद ए ॥ जगगुरु अजिय जिणंद ए, शांतीसर नयणानंद ए ॥ १ ॥ बिहुं जिनवर प्रणमेव ए, बिहुं गुण गाइस संखेव ए ॥ पुण्यन्नंमार न्नरेसु ए, मानव न्नव सफल करेसु ए ॥ २ ॥ कोमहि लाख पचास ए, सागर जिनसासण न्नास ए, रिसह जिनेसुर वंस ए, न्नवज्ञाय सरोवर हंस ए ॥ ३ ॥ इण अवसर तिहां रा[illegible] ए, राजा जितशत्रु तिहां गाजियो ए ॥ विजया तसु घरना बिहुं [illegible] रमयति पासा सार ए ॥ ४ ॥ कूखहि जिन अवतार ए, [illegible]णी ए, न [illegible] हार ए ॥ न्नयर [illegible] वस्यो दस मास ए, प्रन्नू पूरी ज [illegible] ॥ ५ ॥ बिहुं जण

मन आणंदियो ए, सुत नांम अजिय जिण तो दियो ए ॥ तिहुअण सयल उच्छाह ए, क्रम२ वाधे जगनाह ए ॥ ६॥ हंस धवल सारिस तणी ए, गति सुललित निज गति निरजणी ए ॥ मलपति चाले गैल ए, जाणे नयण अमीरस रेल ए ॥ ७ ॥ अवर न समो सं सार ए, वलि ग्यान विवेक विचार ए॥ गुण देखी गज गहगह्यो ए, लंछन मिसि पग लागी रह्यो ए ॥ ८ ॥ जोवन वय जब आवियो ए, तब वर रमणी परणावियो ए ॥ पीय साधै सब काज ए, प्रभु पालै पुहवी राज ए ॥ ९ ॥ हिव हथणापुर गाम ए, विश्व सेन नरेश्वर नांम ए राणी अचिरा देव ए, मनहर सुख माणे बेव ए ॥ १० ॥ चवदह सुपनें परवरयो ए, अचिरा उयरें सुत अवत रयो ए ॥ मांनव देव वखाणियो ए, चक्रीसर जिणवर जांणियो ए ॥ ११ ॥ देस नयर हुय संत ए, तिण नांम दियो श्रीशांत ए ॥ जिन गुण कुण जांणैं कही ए, त्रिहुं भुवणे तसु उपम नही ए ॥ १२ ॥ नयण सलूणो हिरणलो ए, वन सिंहे वीहै एकलो ए॥ नयण समाधि निरोध ए, इण नयणे नारि विरोध ए ॥ १३ ॥ गी तह्नि राग सु रंग ए, पिण पभणै लोक कुरंग ए ॥ तो छलग्यो स सि संक ए॥ तिण पांम्यो नाम कलंक ए ॥ १४ ॥ इण पर मृग अति खलभल्यो ए, भय भंजण सांमि सांभल्यो ए ॥ आणंदियो मन आपणो ए, पाय सेवे मिस लंछन तणो ए ॥१५॥ लीला पति परणे घणी ए, नव नविय कुमर रायां तणी ए ॥ वल गल अ यण जोगवे ए, पीय राज भलो पर भोगवे ए ॥ १६ ॥ कुमर त णें मंडल तमें ए, पंचास२ ॥ स वरसां गमे ए ॥ तो तेजै दिणय र जिसो ए, ऊपन्नो चक्रासकुमनसो ए ॥ १७ ॥ साधी भरह व खंड ए, वरतावी आणान विराजि ॥ चवद रयण नव निहि सही ए, तसु मोल सहर निधांन, जोव ए ॥ १८ ॥ सहस बहुत्तर पुर

वरा ए, बत्तीस मौमबद्ध नरवरा ए ॥ पायक गांमै कोम ए, विन्न वे नमें वे कर जोम ए ॥ १ए ॥ हय गय रहवर जुजुवा ए, लख चौरासी मंदिर हुआ ए ॥ लाख त्रि वाजित्र घमघमैं ए, बत्तीस सहस नाटिक रमें ए ॥२०॥ रूप जिसी सुरसुंदरी ए, लक्कण ला वएय लीला नरी ए ॥ जंगम सोहग देहरी ए, एसी चौसठ सह स अंतेउरी ए ॥ २१ ॥ अवरज ऋद्धि प्रकार ए, मणि कंचण र यण नंमार ए ॥ ते कहिवा कुण जांण ए, वपुचपु रे पुण्य प्रमांण ए ॥२२॥ इम चक्कीसर पंचमो ए, चोथो दूसम सूसम समो ए ॥ वरस सहस पचवीस ए, सव पूरी मनह जगीस ए॥२३॥ इण पर विहुं तीर्थंकरा ए, चिर पालिय राज विविह परा ॥ जाणी अवसर ए सार ए, विहुं लीधो संजम नार ए ॥ २४ ॥ विहुं खम दम धीर ज धरी ए, विहुं मोह मयण मद परिहरी ए ॥ बिहुं जिन ज्ञाण समाण ए, बिहुं पांम्या केवलनाण ए ॥ २५ ॥ विहुं देवहि कोम- हिमहि ए, विहुं चौतीसै अतिसय सहि ए ॥ समवसरण विहुं ठाण ए, विहुं योजनवाण वखाण ए ॥ २६ ॥ नाचे रणकत नेउरी ए, विहुं आगलि इंद अंतेउरी ए ॥ टिगमिग जोवे जग सहू ए, रंगहि गुण गावै सुरवहू ए ॥ २७ ॥ विहुं सिर छत्र चमर विमल, विहुं पग तल नव सोवन कमल ॥ विहुं जिनतणें विहार ए, नवि रोग न सोग न मारि ए ॥ २८ ॥ विहुं नवयार नुवन नरी ए, विहुं सिद्ध रमणासुं परवरी ए, विहुं नंजी नव फंद ए, विहुं उदयो परमाणंद ए॥ २ए॥ इम बीजो ने सोलमो ए, जांणे चिंतामण सुर तरु समो ए ॥ सुणि अति संऊ विहाण ए, तिहां इह परनव नवि हांण ए ॥ ३० ॥ विहुं नवव मंगल करण, विहुं संघ सयल डुरिय हरण ॥ विहुं वर कमल नयण वयण, विहुं श्रीजिनराज नुवण रयण ॥ ३१ ॥ इम नगते नोलिमतणी ए, श्रीअजिय शांति

जिण थुय जणि ए ॥ सरण विहुं जिण पाय ए ॥ श्रीमेरुनंदन उवझाय ए ॥ ३३ ॥ इति अजित शांति वृद्ध स्तवनं ॥

॥ अथ मुहपत्ती पडिलेहण स्तवनं ॥

॥ ढाल ॥ १ ॥ कपूर हुवै अति ऊजलो रे ॥ ए देशी॥

वरधमान जिनवरतणा जी, चरण नमूं चित लाय ॥ ज्ञान क्रिया जिण उपदिसी जी, भव सुख तणो उपाय ॥ भविक जन धर श्रीजिन उपदेस, छूटे कर्म कलेस ॥ भ० ॥ आंकणी ॥ पडिलेहण मुहपत्ती तणी जी, भाखी छै पचवीस ॥ तिहां ए भाव विचारिये जी, इम भाखै जगदीस ॥ भ० ॥ २ ॥ प्रथम बे पास विलोकिये जी, सूत्र अरथनी दृष्टि ॥ ए पडिलेहण दृष्टिनी जी, करै धर्मनी पुष्टि ॥ भ० ॥ ३ ॥ समकित मिथ्या मिश्रनी जी, मोहनी तीननो त्याग ॥ कामराग स्नेहरागनें जी, तज वलि तिम दृष्टिराग ॥ ४ ॥ भ० ॥ सीप वधू टक गुरुथकी जी, वाम हाथ करनाउ ॥ नव अखोडा आदरो जी, नव पखोडा गमाउ ॥ ५ ॥ भ० ॥ देवतत्व गुरुतत्वसूं जी, धर्मतत्व ग्रह सार ॥ कुगुरु कुदेव कुधर्मनो जी, तीनतणो परिहार ॥ ६ ॥ भ० ॥ ग्यान दरसण चारित्रना जी, संग्रह तीन आचार ॥ तजो विराधन तीन ए जी, एह अरथ अवधार ॥ भ० ॥ ७ ॥ मन वच कायानी सदा जी, गुपति ग्रहीजे शुद्ध ॥ परिहरिये वलि जांणनें जी, तीने दंड विशुद्ध ॥ भ० ॥ ८ ॥ पडिलेहण पचवीस ए जी, मुंहपत्तीनी सार ॥ हिव पडिलेहण अंगनी जी, ते पिण चतुर विचार ॥ भ० ॥ ९ ॥ हास्य अरति रति थोयनें जी, सुद्ध करो वंस वाह ॥ तज भय शोक दुगंछना जी, दक्षिण पिण करै साह ॥ १० ॥ भ० ॥ धुरली लेस्या तीन ए जी, ते सिरथी करि दूर ॥ रिद्धि रस साता गारवोजी, करि मुखथी चकचूर ॥ ११ ॥ भ० ॥ काढ सल्य तीन उरथकी जी, मा

या नियाण मिथ्यात ॥ च्यार कषाय वेव गलथी जी, क्रोधादिक करो घात ॥ १२ ॥ भ० ॥ तज खटकाय विराधना जी, चरण विन्हे सुद्ध होय ॥ ए पडिलेहण अंगनी जी, पचवीसे तूं जोय ॥ १३ ॥ भ० ॥ इम पडिलेहण जे करै जी, धर मन ज्ञान विवेक ॥ सकल करम दूरै करै जी, पांमैं सुख अनेक ॥ १४ ॥ भ० ॥ कलस ॥ इम वीर जिनवरतणा मुखथी, अरथ गणधर सांभली ॥ कहै सूत्रवांणी मन सुहाणी, सुणो भवियण मन रली ॥ उवझाय वर श्रीलब्धिकीरत, मुखथकी ए संग्रही ॥ मुंहपती पडिलेहण तणी विध, लब्धिकीरत गणि कही ॥ इति श्रीमुंहपत्ती पडिलेहण स्तवनं ॥

॥ अथ आलोयण स्तवन लिख्यते ॥

॥ ढाल ॥ सफल संसारनी ॥ ए देशी ॥

ए धन सासन वीर जिनवरतणौ, जास परसाद उपगार थायै घणौ ॥ सूत्र सिद्धात गुरुमुखथकी सांभली, लहिय समकित अनें विरति लहिये वली ॥ १ ॥ धर्मनो ध्यांन धर तप जप खप करै, जिणथकी जीव संसारसागर तिरै ॥ दोष लागा जिके गुरुमुख आलोइयै, जीव निर्मल हुवै वस्त्र जिम धोइयै ॥ २ ॥ दोष लागे तिके चार प्रकारना, धुरथकी नांम नें अरथ ते धारणा ॥ किणही कारण वसै पाप जे कीजियै, प्रथम ते नांम संकप्प कहीजियै॥३॥ कीजीये जेह कंदर्प्प प्रमुखै करी, दोष तेवीय परमाद संज्ञा धरो ॥ कूदतां गर्वतां होय हिंसा जिहां, दर्प्प इण नांम करि दोष तीजो तिहां ॥ ४ ॥ विणलतां जीव जीवनेगिनर करे जिको, चोथौ आकुट्टिया दोष ऊपजै तिको ॥ अनुक्रमें च्यार ए अधिक एक एकथी, दोष धर प्रायश्चित्त लेह विवेकथी ॥ ५ ॥

॥ ढाल २ ॥ अन्य दिवस कोइ मागध आयो पुरंदर पास ॥ ए देशी ॥

पाटी पोथी कवली नवकरवाली जोय, ग्यानना उपगरण-तणी आसातन कीधी होय ॥ जघन्यथी पुरमढ एकासणो आंबिल उपवास, अनुक्रम एह आलोयण सुगुरु बताई तास ॥ ६ ॥ ए जो खंमित थायै अथवा किहांई गमाय ॥ तो वलि नवा करायां दोष सहू मिट जाय ॥ थापना अणपमिलेह्यां पुरिमढनो तप धार, गिरतां एकासणनें गमता चोथ विचार ॥ ७ ॥ दर्शनना अतिचार तिहां पुरमढ जघन्य, एकासण आंबिल अठम चिहुं भेदे मन्न ॥ आशातन गुरु देवनी साहमीसुं अप्रीति ॥ जघन्य एकासणनी आलोयण चढती रीत ॥ ८ ॥ अनंतकाय आरंभ विणास्यां चोथ प्रसिद्ध, बि ति चउरेंद्री त्रसायां एकासणथी वृद्ध ॥ बहु बि ति चौरैं-द्रिय हण्यां बि ति चउ उपवास, संकल्पादि चिहुं विधि डुगुणा उगुण प्रकास ॥ ९ ॥ उदेही कुलियावमा कीमी नगरा भंग, बहुत जलोयां मूंक्या दस उपवास प्रसंग ॥ वमन विरेचन कृमि पातन आंबिल इक एक, जीवांणी ढोलंता दोय उपवास विवेक ॥ १० ॥ संकप्पादिक एक पंचेंद्री उपद्रव होय, दोइ त्रिण आठ दसै उपवासै आलोयण जोइ, बहु पंचेंद्री उपद्रव छठ अठमें दस वीस ॥ चिहुं प्रकारै चढती आलोयण सुण ले सीस ॥ ११ ॥ पंचेंद्रीनें लकमी प्रमुखे कीध प्रहार, एकासण आंबिल उपवास नें छठ विचार ॥ साध समक्षे लोक समक्षे राज समक्ष, कुमा आल दियां डुइ चौथरु छठ प्रत्यक्ष ॥ १२ ॥ उपवास दस दंमायां तेम मरायां वीस, इक लख असी सहस नवकार गुणो तजि रीस ॥ पख चौमास वरस लग इक त्रिण दस उपवास, अधिको क्रोध करे तो आलोयण नहि तास ॥ १३ ॥ सूआवमना दोष कियां गुरु ऊपर रोस, जीव विराधन कीधां बहु असतांनें पोस ॥ करीय डुवालस वार हजार गुणो नव-

कार, मिच्छादुक्कड देइ आलोवो वारोवार ॥ १४ ॥

॥ ढाल ॥ ३ ॥ बे कर जोडी तांम ॥ ए चाल ॥

॥ विण कीधा पच्चखाण, विण दीधां वांदणा, पडिक्कमणा विध पांतरे ए ॥ अणोझा नें असिझाय, तिहा अविधै भणया, इ क१ आंबिल आचरै ए ॥ १५ ॥ गंठसीनें एकत्र, निवी आंबिल, भां गै आलोयण इमें ए ॥ एक पांच षट आठ, नवकरवालीय ॥ गुण नवकार अनुक्रमे ए ॥ १६ ॥ उपवास भंग उपवास, आंबिल ऊप रां, अधिको दंड वखाणिये ए ॥ पाचम आठम आदि, भंग कियां वली, फिर ग्रही पातिक हाणीयै ए ॥ १७ ॥ ऊखल मूसल आग, चूलै घरटियै, दीधै अठम तप करै ए ॥ मांगी सूई दीध, कातरणी छुरी, आंबिल चढता आदरै ए ॥ १८ ॥ जीव करावै युद्ध, रात्री भोजन, जल तिरणो खेलण जूओ ए ॥ पापतणा उपदेश, परद्रोह चींतव्या, उपवास एक२ जूजूआ ए ॥ १९ ॥ पनरे करमांदान, नियम करी भंग, मद्य मांस माखण भख्या ए ॥ आलोयण उ पवास, संकप्पादिक, चिहुं भेदे चढतां लिख्या ए॥ २० ॥ बोल्या मिरखावाद, अदत्तां दांन ल्युं, जघन्य एकासण जांणीये ए ॥ अति उत्कृष्टी एण, जांण आलोयण, उपवास दस२आंणियै ए ॥ २१ ॥

॥ ढाल ॥ ४ ॥ सुगण सनेही मेरे लाल ॥ ए चाल ॥

॥ चौथे व्रत भागे अतीचार, जघन्य छठ आलोयण धार ॥ मध्ये दस उपवास विचार, उत्कृष्टा गुण लख नवकार ॥ २२ ॥ परिग्रह विरमण दोष प्रसंग, तीन गुणव्रतमांहे भंग ॥ च्यार सिक्षा व्रतने अतिचारे, आंबिल त्रिण प्रत्येके धारे ॥ २३ ॥ शीलतणी नववाडि कहाय, तिहां जो लागो दोष जणाय ॥ त्रियनें फरस हुआं अविवेके, एक आंबिल कीजे प्रत्येके ॥२४॥ साधु अने श्रावक पोसोध, एकेंद्री सच्चित्त संघट्टे कीध ॥ वीसर भोले सचित जल पी

ध, दंरू एकालणं आंबिल दीध ॥ २५ ॥ त्रिण धोयां विण लूह्यां पात्रै, एकासण तिम पुरिमड्ढ मात्रै ॥ गइ मुहपत्ती आंबिल सारो, तिम नुघै अठम अवधारो ॥ २६ ॥ च्यार आगार वींरू राखै, व्रत पच्चखांण करै पट् साखै ॥ दोषे मिछामिछुक्करु दाखै, आलोयण लेतां अभिलाखै ॥ २७ ॥ आलोयणनो अति विस्तार, पूरो कहिता नावै पार ॥ तोपिण संक्षेपै तंत सार ॥ निरमल मन करतां वि स्तार ॥ २८ ॥ इम श्रीवीर जिनेसर स्वांमी, जसु आगम वचने विधि पांमी ॥ जीतकल्प गणांगे आदि, वली परंपर गुरु सुप्रसाद २९

॥ कलश ॥

॥ इम जेह धरमी चित्त विरमी, पाप सर्व आलोयनें ॥ ए कांत पूछै गुरु बतावे, शक्ति वय तसु जोयनें ॥ विध एह करसी तेह तिरसी, धरमवंततणै धुरै ॥ ए तवन श्रीप्रमसिंह कीधो, चौ पने फल वधी पुरै ॥ ३० ॥ इति श्री आलोयण स्तवन संपूर्ण ॥

॥ अथ नंदीश्वर द्वीप स्तवनं ॥

नंदीसर बावन जिनालय, साश्वता चोमुख सोहे रे ॥ ऋष भानन चंद्रानन वारिषेण, वर्द्धमांन मनमोहे रे ॥ नं० ॥ १ ॥ आठमो द्वीप नंदीसर अदभुत, वलयाकार विराजै रे ॥ तेहने मध्य चिहुं दिस सोभित, अंजन गिरिवर गाजै रे ॥ नं० ॥ २ ॥ जोयण सहस चोरासी ऊंचा, ऊंचपणे अभिरामा रे ॥ मूलै प्रथुल सहस दस जोयण, उवरि सहस कर ॥३॥ नं० ॥ ते ऊपर प्रासाद प्रभूना, अति उत्तंग उदारा रे ॥ साधू जंघा विद्याचारण, वांदे वि विध प्रकारा रे ॥ नं० ॥ ४ ॥ चैत्यैश इकसो चोवीस, विंब संख्या सत्र दाखी रे ॥ ध्यावो सेवो भविजन भगते, सुध आगम कर सा खी रे ॥ नं० ॥ ५ ॥ ऊंचपणै सहु जोयण वहुत्तर, सो जोयण आयामा रे ॥ पिहुलपणे पचास जोयणना, प्रभूप्रासाद सुगामा रे

॥ नं० ॥ ६ ॥ धनुष पांचसै आयत प्रभुनी, विविध रतनमई काया रे ॥ जिन कल्याणक उत्सव करवा, सुरपति भक्ते आया रे ॥ नं० ॥ ७ ॥ अंजन अंजनगिरि चहुं उवरै, चोमुख च्यार विसाला रे ॥ वाव४ विच इकर पर्वत, राजत रंग रसाला रे ॥ नं० ॥ ८ ॥ चोसठ सहस जोयण उत्तंगै, दस सहस सत पिहुला रे ॥ चिहुं दिसि सोल सहस दधिमुखगिरि, तिहां प्रासाद सुविमला रे ॥ नं० ॥ ९॥ वाव५ नें अंतर विदसें, रतिकर परवत रूडारे ॥ दोय२ संख्या जगदीसै, कह्या नही ए कूडा रे ॥नं०॥१०॥ जोयण सहस मांन दस ऊंचा, दस२ सहस विस्तारारे ॥ झल्लरि सम संठाण जगत गुरु, निश्चय ए निरधारया रे ॥ नं० ॥११॥ तेह ऊपर प्रासाद सतोरण, अंजनगिरि परमाणै रे ॥ जिनपडिमानी संख्या तेहिज, श्रीजिनराज वखाणै रे ॥ नं० १२ ॥ इम प्रासाद प्रभूना बावन, नंदीसर वर दीपे रे ॥ द्रव्य भाव विधि पूजा करतां, मोह महा भड जीपै रे ॥ नं० ॥ १३ ॥ प्रवचन सार उद्धार प्रकरणे, जीवाभिगमें जाणो रे ॥ इम अधिकार छै ग्रंथ अनेकै, इहां संका मत आणो रे ॥ नं० ॥ १४ ॥ जिम सुरपति विरचै तिहां पूजा, ते अनुभव इहा ध्यावो रे ॥ ध्यावो जिम पावो परमातम, जैनचंद्र गुण गावो रे ॥ नं० ॥ १५ ॥ इति नंदीश्वर स्तवनं ॥

॥ अथ अढाइ द्वीपै वीस विहरमाण स्तवनं ॥

॥ वंदु मनसुध विहरमाण जिणेसर वीस, द्वीप अढीमें विचरै जयवंता जगदीस ॥ केवलग्यानने धारै तारै कर उपगार, किण २ ठामे कुण२ जिन कहस्युं सुविचार ॥१॥ पैंतालीस लक्ष योजन मानुषक्षेत्र प्रमाण, बलयाकारे आधे पुष्कर सीमा जाण ॥ दोय समुद्रै सोहे द्वीप अढाई सार, तिणमें पनरै करमाभूमीनो कहूं अधिकार ॥ २॥ पहिलो जंबूद्वीप समै विच थाल आकार, लांबो पिहुलो इक लख

जोयणनें विसतार ॥ मोटो तेहने मध्य सुदरसन नांमें मेर, तिणथी दिसि विदसानी गिणती च्यारे फेर ॥ ३ ॥ मेरुथकी दक्षण दिसिं एह भरत सुभ क्षेत्र, पांचसे छवीस जोयण छ कला तेहनो क्षेत्र ॥ उत्तरखंडमें एहवो एरवत क्षेत्र कहाय ॥ इण बिहु करमांभूमी छए अरा फिरता जाय ॥ ४ ॥ तेत्रीस सहस छसे चोरासी जोयण जाण, च्यार कला ए महाविदेह विखंभ वखाण ॥ बावीससै तेरे जोयण एक विजय पहुलाण, एहवी बत्तीस विजय विराजै जेहने ठाण ॥ ॥ ५ ॥ मेरु विचै कर पूरव पश्चिम दोय विभाग, सोलै १ विजय तिहां विचरै श्रीवीतराग ॥ सासते चोथे आरे तारै श्रीअरिहंत, एहवे महाविदेह करमभूमि त्रीजी तंत ॥ ६ ॥ पूरव विदेह विजय पुष्कलावती आठमी ठांम, पुंडरीकणी नगरी तिहां श्रीसीमंधर-स्वांमि ॥ वप्रविजय पचवीसमी विजयापुरनो नांम, पछिम विदेह बीजो युगमंधिर कीजै प्रणाम ॥ ७ ॥ तिमहिज नवमी वछविजय वलि पूरव विदेह, नयर सुसीमा त्रीजो बाहु नमूं धरि नेह ॥ नलिनावर्त्त चोवीसमी पछिम विदेह वखाण, वीतसोका नगरी तिहां चोथो सुबाहु सुजांण ॥ ८ ॥ ए च्यारेइ जिणवर जंबूद्वीप मझार, महाविदेह सुदरसण मेरुतणें परकार ॥ एहवो जंबूद्वीप महा गढ जेम गिरिंद, खाई रूपै दोय लख जोयण लवण समंद ॥ ९ ॥

॥ ढाल ॥ २ ॥ दिवाली दिन आवियो ॥ ए चाल ॥

दीपै बीजो द्वीप ए, धन१ धातकी खंड ॥ पिहुलो चिहुं लख जोयणे, मंडल रूपे मंड ॥ १० ॥ दी० ॥ दोय भरत दोय एरवत, दोय वलि महाविदेह ॥ करमभूमि खट छै जिहां, भण-हिज नांमें एह ॥ ११ ॥ दी० ॥ पूरव पश्चिम धातकी, खंड गिणीजे दोय, विजयमेरु पूरव दिसै, पछिम अचलमेरु जोय ॥ १२ ॥ दी० ॥ इक २ मेरुने अंतरे, करमभूमि तीन २ ॥ निज२ मेरुथी मांभिने

देखो चिहुं दिसि लीन ॥ १३ ॥ दी० ॥ श्रीसुजात जिन पांचमो, छठो स्वयंप्रभु ईस ॥ रुषभानन जिन सातमो, समरीजे निस दीस ॥ १४ ॥ दी० ॥ अनंतवीरज जिन आठमो, ए च्यारे जिनराय ॥ पूरव धातकी खंडमें, महाविदेह रहाय ॥ दी० ॥ १५ ॥ पहिली विहुं जिननी परे, विजयनगर दिसि ठाण ॥ तिणहिज नांमे अनुक्रमें, विजयमेरु अहिनांण ॥ दी० ॥ १६ ॥ नवमो सूर प्रभु नमूं, दसमो देव विसाल ॥ इम वज्रधर इग्यारमो, त्रिकरण नमूं त्रिहुं काल ॥ दी० ॥ १७ ॥ बारमो चंद्रानन जिन, पच्छीम धातकी मांहि ॥ विचरै च्यारुं जिणवरा, अचलमेरु उछाहि ॥ दी० ॥ १८ ॥ एहवो धातकी खंड ए, परदक्षणा परकार ॥ अठ लख जोयण वींटीयो, समुद्र कालो-दधि सार ॥ १९ ॥ दी० ॥

॥ ढाल ॥ ३ जी ॥ पहिली प्रतिमा एकण मासनी ॥ ए चाल ॥

कालोदधिने पैलै पार ए, वींट्यो चूड़ी जेम विचाल ए ॥ सोलह लख जोयण विसतार ए, दीप पूखरवर अति सुखकार ए ॥ उलालो० सुखकार पुष्करद्वीप त्रीजो, तेहनें आधै पगै ॥ विच पड्यो परवत मानुष्योत्तर, मनुष्यक्षेत्र तिहां लगै ॥ तिण आधिकर अठ लाख योजन, अरध पुष्कर एम ए ॥ तिहां करमभूमी छ ए कहीजै, धात-की खंड जेम ए ॥ २० ॥ ढाल ॥ आधे पुष्करनें पूरव दिसै, मंदिर नांमे मेरु तिहां वसै ॥ पछिम विद्युमाली मेर ए, इहां किण इतरो नांमे फेर ए ॥ उ० ॥ फेर ए इतरो इहां नांमे, अवर ठामे को नही ॥ एक २ मेरे तीन तीने, करमभूमि तिहां कही ॥ इम भरत एरवत माहाविदेहे, नांम सरखो हेत ए ॥ तिणहीज नांमे विजय सगली, सासता धर्म खेत ए ॥ २१ ॥ ढाल ॥ धातकी खंडै तिम पुष्कर सही, इहां क्षेत्रानी रचना विध कही ॥ बार २ कहनां ए विसतार ए, पहिला पर लेज्यो सुविचार ए ॥ उ० ॥ सुविचार वाकी तेह सगलो,

नगर तिमहिज मन गमें ॥ पूरवे पछिम जेहनी ते, तेह तिमहीज अनुक्रमें ॥ श्रीचंद्रबाहु भुजंग ईसर नेम च्यार तीर्थंकरा, पूरवे पुष्कर अरध मांहे, सरव जीव सुखंकरा ॥ २२ ॥ ढाल ॥ वैरसेन वंदू जिन सतरमो, श्रीमहाभद्र अठारम नित नमो ॥ देवजसा उगणीसम देव ए, जसो रिद्ध वीसम जिण देव ए ॥ ज० ॥ जिण च्यार पुष्कर अरध मांहे, कह्या पछिम भाग ए ॥ तिहां मेरु विद्युनमालि चिहुं दिसि, विचरता वीतराग ए ॥ चौरासी पूरव लाख बरसां, आउ इक २ जिण तणो ॥ पांचसै धनुष सरीर सोहे ॥ सोवन वरण सुहामणो ॥ २३ ॥ ढाल ॥ काल जघन्ये ए जिण वीस ह ॥ हिव उत्कृष्टे भेद कहीस ए ॥ ॥ एकसो सत्तर तिहां जिनवर कहे, पांचे भरते जिम पांचे लहे ॥ ज० ॥ जिण लहे पांचे तेम पांचे, एरवत मिल दस हुवा ॥ इक २ विदेहे बत्तीस विजया, तिहां पिण छै जूजूआ ॥ एकसो सत्तर एम जिनवर, कोडि नवसय केवली, नव सहस कोडी अवर मुनिवर, वंदिवै नित ते वली ॥ २४ ॥ ढाल ॥ इहां भरते एरवतें आज ए, पंचम आरे नही जिनराज ए ॥ धन २ पांचे महाविदेह ए, विचरे वीसे जिन गुणगेह ए ॥ ज० ॥ गुणगेह दोष अढार वरजित, अतिसयां चोतीस ए ॥ चौसठि इंद नरिंद सेवित, नमुं ते निसदीस ए ॥ तिहां आजे तारण तरण विचरै, केवली दोय कोड ए ॥ दोय सहस कोडी सुसाधु बीजा, नमुं बे कर जोड ए ॥ २५ ॥ कलश ॥ इम अढी द्वीपे पनर करम भूमी क्षेत्र प्रमांण ए, सिद्धांत प्रकरण तेह भाख्या वीस विहरमांण ए ॥ श्रीनगर जेसलमेर संवत सतर गुणतीसै समै, सुखविजय हरख जिनंद सानिध नेह धरि धरमसी नमें ॥ २६ ॥ इति अढी द्वीप स्तवन संपूर्ण ॥ १ जंबूद्वीप २ धातकी खंड ३ आधोपुष्करद्वीप ए ३ ॥ द्वीपमें ५ भरत ५ एरवत ५ महाविदेह १५ कर्मभूमीमें विच

रता साश्वता २० बिहरमानको मेरा नमस्कार हुवो ॥

॥ अथ आबूजी तीर्थ स्तवनं ॥

॥ जात्रीभाइ्भाई आबूजीनी जात्र करेज्यो, जात्र भणी ऊमहेज्यो, तुम्हे नरभव लाहो लीज्यो रे ॥ जात्री० ॥ पंच तीरथी मांहे गाजे, आबू मारूमें देस विराजे रे ॥ जा० स्वरगथी वादे लागो, ऊंचो अंबरियै जइ लागो रे ॥ जा० ॥ १ ॥ एतो देवानो वास कहावे, निरखंता भिपति न आवे रे ॥ जा० ॥ एतो डुंगरियानो राजा, एहनी छै बारह पाजा रे ॥ जा० ॥ २ ॥ छह ऋतु वास वणायो, एतो चंपला अंबला छायो रे ॥ जा० ॥ सरवर झरणा झांझा, जिहां तिहां वनवेल्या आझा रे ॥ जा० ॥ ३ ॥ भार अढारे वणराई, एतो इहांहिज निजरे आइ रे ॥ जा० ॥ दहदिसि परिमल आवै, फूलभानो रंग सुहावै रे ॥ जा० ॥ ४ ॥ ऊपर भूमि विसाला, देवल दीठा रलियाला रे ॥ जा० ॥ विमलमंत्री वरदाई, चक्केसरि देवी सहाई रे ॥ जा० ॥ ५ ॥ पोरवाड वंस वदीतो, जिण दलपति साहि जीतो रे ॥ जा० ॥ देवल तेण करायो, पाहण आरास मंडायो रे ॥ जा० ॥ ६ ॥ झीणी२ कोरणी केरयो, दल माखण जेम उकेरयो रे जा० ॥ नवी२ भांति वणाई, जिहां तिहां कोरणिया झिणाई रे ॥ जा० ॥ ७ ॥ उत्तरे पाहण जेतो, जोखीजे पाहण तेतो रे ॥ जा० ॥ आदि जिनेसर सांमी, प्रतिमा थापी हितकामी रे ॥ जा० ॥ ८ ॥ उगणिस कोड सोनइया, द्रव्य लागत करि जस लीया रे ॥ जा० ॥ करजोडीने आगै, मंत्री जिनवर पाय लागै, रे ॥ जा० ॥ ९ ॥ पुठे चढिया हाथी, मंडाणा पति साह साथी रे ॥ जा० ॥ इण देवल समवड कोई, भूमंडल मांहि न होई रे जा० ॥ १० ॥ वलि ति ंस विगताला, वस्तुपाल अनै तेजपाला रे ॥ जा० ॥ देव नमी ाई, इहां तियां पिण सफल कराई रे ॥ जा० ॥ ११ ॥ ते

हवो जिणहर पासै, वार कोमनी लागति न्नासै रे ॥ जा० ॥ देरा णी जेठाणी, आलानी अजब कहाणी रे ॥ जा० १२ ॥ इहां देव ल सोह वधारी, नेमनाथजी बाल ब्रह्मचारी रे ॥ जा० ॥ कस वट पाहण केरी, मूरत सुरमा रंग हेरी रे ॥ जा० ॥ १३ ॥ देवल वाम्तो दीठे, ते तो लागे नयणै मीठेरे ॥ जा० ॥ तिहां केइ देवल पासै, लोक जोवे घणो तमासै रे ॥ जा० ॥ १४ ॥ त्रिण गाउ आ गल जाइयै, देवल देखी सुख लहियै रे ॥ जा० ॥ चोमुख प्रतिमा न्यारो, आदिनाथ देव जुहारो रे ॥ जा० ॥ १५ ॥ सोवनमें साते घातो, फिगमिग रही दिन ने रातो रे ॥ जा० ॥ मण चवदेसै चम्मा लौ, जिण बिंबनो न्नाव निहालो रे ॥ जा० ॥ १६ ॥ श्रीमाली न्नोम सोन्नागी, जिणवरथी जसु लय लागी रे ॥ जा० ॥ १६ ॥ एहनी करणी वाहवाहो, इहां लीधो लखमी लाहो रे ॥ जा० ॥ १७ ॥ इण डुंगरियै आवी, जिण जात्र करै मन न्नावी रे ॥ जा० ॥ जिहां तिहां पूज रचावै, नाटकिया नाच करावे रे ॥ जा० ॥ ॥ १८ ॥ रातीजोगो दियरावो, जिनवरना जस गुण गावो रे ॥ जा० ॥ साहमी वछल कीज्यो, जातम्नलीनो जस लीजो रे ॥ जा० ॥ १९ ॥ आगेथी आवी चाली, वातां केइ अचरज वाली रे ॥ जा० ॥ सुणियै छै जे कोई, अहिनांणे जोज्यो तेई रे ॥ जा० ॥ ॥ २० ॥ ए तीरथना गुण गावै, जात्रानो फल ते पावे रे ॥ जा० ॥ ए तीरथ समतोलै, कुण आवै रूपचंद बोले रे ॥ जा० ॥ २१ ॥ इति आबूजी स्तवनं ॥

॥ अथ सकल सास्वता चैत्य नमस्कार स्तवनं ॥

॥ रिषन्नानन वधमान, चंडानन जिन, वारिषेण नामे जि णा ए॥१॥ तेह तणा प्रासाद, त्रिन्नुवन सासता, प्रणमुं बिंब सोहा मणा ए ॥ २ ॥ चेश्हर सग कोमि, लाख बहुत्तर, चेश्य प्रतिमा

सो असी ए ॥ ३ ॥ तेरेसे निव्यासी कोम्ि, साठ लाख सुंदर, जुवनपती मांहि मन वसी ए ॥ ४ ॥ बारे देवलोक प्रासाद, चौरासी लाख, सहस ब्रिन्नू नें सातसे ए ॥ ५ ॥

॥ ढाल ॥ २ ॥ आव्यो तिहां नरहर ॥ ए चाल ॥

हिवे नवग्रीवेके पंचानुत्तर सार, चेईहर त्रणसय त्रेवीसा सुविचार ॥ प्रत्येके प्रतिमा वीसासो तिहां जाण, अमत्रीस सहस सत साठ अछे गुण षाण ॥ ६ ॥ नंदीसर बावन कुंमल रुचक वखाण, चनश् चेईहर साठ सबे त्रिहुं ठांण ॥ इकसो चोवीसै गुण प्रतिमा चिहुं नाम, ब्यारसै चालिसा सात सहस प्रणमाम ॥ ७ ॥ नंदीसर विदिसै सोलस कुल गिरि तीस, मेरू वन अस्सी दस कु रु गजदंते वीस ॥ मानुषोत्तर परवत च्यार२ इखुकार, असो अति सुंदर वक्त सकार मझार ॥ ८ ॥

॥ ढाल ॥ ३ ॥

॥ दिग्गजगिरि चालीस, असी द्रह सुजगीस ॥ कंचन गिरु वरु ए, एक सहस धरु ए ॥ ए ॥ वृत दीरघ वैताढय, वीस सत रसो आढय ॥ सतर महानदी ए, पंच चूला सही ए ॥ १० ॥ जंबू प्रमुख दस रुस्क, इग्यारैसै सत्तर सुस्क ॥ कुंम त्रणसय असी ए, वीसजमगवसी ए ॥ ११ ॥

॥ ढाल ॥ ४ ॥

त्रिण सहस सो एक निवाणूं रे, जिनवर प्रासाद वखाणूं, वीस सो ए अंक गुणियै रे, तीर्थंकर प्रतिमा थुणियै॥१२॥त्रिण लाख सहस वलि त्र्यासी रे, प्रतिमा आठसो ने असी ॥ सरबालै सब मेलीजै रे, जिनवर प्रासाद नमीजै ॥ १३ ॥ आठ कोम्ि सत्तावन खस्का रे, दोयसै निव्यासी कयरुस्का ॥ हिव प्रतिमा ग्यान कहीजै

रे, जिनवरनी आण वहीजै ॥ १४ ॥ पनरेसै बेतालीस कोडी रे, अठ्ठावन लख अधिके जोडी ॥ बत्तीस सहस अधिक कहीये रे, प्रतिमा सगली सरदहिये ॥ १५ ॥

॥ ढाल ॥ ६ मी ॥

जोइस विंतर प्रतिमा सासती, असंख्यात वलि जेहो जी ॥ पायकमल तेहना नित प्रणमिये, सोवन वरण सुदेहो जी ॥ १ ॥ विनय करी जिन प्रतिमा वंदिये, सुंदर सकल सरूपो जी, पूजै प्रतिमा चोविह देवता, वलिय विद्याधर भूपो जी ॥ २ ॥ वि० ॥ जिनप्रतिमा बोली जिन सारखी, हित सुख मोक्ष निदानो जी ॥ भवियणने भवसायर तारवा, प्रवहण जेम प्रधानो जी ॥ ३ ॥ वि० ॥ जीवाभिगम प्रमुख मांहि भाखीयो, ए सहू अरथ विचारो जी ॥ सांभलतां भणतां सुख संपदा, हियमै हरख अपारो जी ॥ ४ ॥ वि० ॥

॥ कलश ॥

इम शासता प्रासाद प्रतिमा संथुणया जिनवर तणा, चिहुं नाम जिनचंद तणा त्रिभुवन सकलचंद सुहावणा ॥ वाचनाचारिज समयसुंदर गुण भणें अभिराम ए, त्रिहुं काल त्रिकरण सुद्ध होयज्यो सदा मुझ परणाम ए ॥ ५ ॥ इति साश्वता जिन चैत्य जिनबिंब संख्या स्तवनं ॥

॥ अथ सूरत सहर सीतल जिन चैत्य प्रतिष्ठा स्तवनं ॥

भविजन पूजो रे शीतल जिनपती रे, नयनानंदन चंद ॥ प्रभूजी विराजे रे सूरत बिंदरे रे, नंदादेवीना नंद ॥ १ ॥ भ० ॥ जगहितकारी रे जिनजी अवतरया रे, श्रीदृढरथ नृप गेह ॥ श्रीवत्स सोहे रे लांछन सूंदरू रे ॥ कनक वर्ण प्रभु देह ॥ २ ॥ भ० ॥ विषय निवारी रे संजम संग्रह्यो रे; लाधूं केवलनाण ॥ सघन घनाघन जिम ध्रम वरसता रे, विचरया त्रिभुवन भाण ॥ भ० ॥ ३ ॥

वदनी प्रमुख जे शेष रह्या हुता रे, च्यार अघाती कर्म ॥ दूर निवारया रे अनुक्रम तेहने रे, पाम्युं शिवपद शर्म ॥ ४ ॥ ज० ॥ संप्रति काले रे श्रीजिनराजनो रे, पूजीजे प्रतिबिंब ॥ प्रतिदिन लहिये रे प्रभु सुप्रसादथी रे, मन वांछित अविलंब ॥ ५ ॥ ज० ॥ श्रीजिनवरनो बिंब बिलोकतां रे, कुकृत दूर पुलाय ॥ इंद्रिय निग्रह सुग्रह संपजे रे, समकित पिण दृढ थाय ॥ ६ ॥ ज० ॥ श्रीसद्गुरुना मुखथी सांभल्या रे, एहवा वचन विलास ॥ ते बहुमाने रे निज चित्तमें धरया रे, नेमी सुत भाईदास ॥ ७ ॥ ज० ॥ चैत्य कराव्युं रे सुंदर सोभतो रे, मनधर अधिक उलास ॥ शीतल प्रभुनो रे बिंब भराविवो रे, सहसफणा वलि पास ॥ ८ ॥ ज० ॥ वरस अगारह सत्तावीसमे रे, माधव मास मझार ॥ उज्जल द्वादशी दिवसे थापियो रे, बिंब अनेक उदार ॥ ए ॥ ज० ॥ एकसो इक्यासी लघु मेले थया रे, बिंबादिक सुविचार ॥ कीध प्रतिष्ठा ते दिन तेहनी रे, विधि पूर्वक मन धार ॥ १० ॥ ज० ॥ श्रीजिनलाभ सूरीश्वर दीपता रे, श्रीखरतर गच्छ भाण ॥ तास पसाय में शीतल जिन थुणया रे, विबुध क्षमा कल्याण ॥ ११ ॥ ज० ॥ इति शीतल जिन स्तवनं ॥

॥ अथ श्रीधरमनाथ स्तवनं ॥

॥ हांरे हूं तो भरवा गइथी तट जमुना के तीर जो ॥ ए चाल ॥

हांरे मारे धरम जिनंदसुं लागी पूरण प्रीत जो, जीवरूलो ललचाणो जिनजीनी उलगे रे लो ॥ हांरे मुंने थास्यै कोइयक समें प्रभु सुप्रसन्न जो, वातरूली तव थास्यै म्हारी सवि वगे रे लो ॥ १ ॥ हांरे कोइ दुर्जननो भंभेरयो माहरो नाथ जो, उलवस्यै नही क्यारे कीधी चाकरी रे लो ॥ हांरे मारे स्वामी सरिखो कुण छै दुनियां मांह जो, जइये रे जिम तेहने घर आस्या

करी रे लो ॥ २॥ हांरे मारे जस लेव्यांथी स्वारथनी नही सिद्ध जो, गाली रे सी करवी तेहथी गोठडी रे लो ॥ हांरे कांइ कूडूं खाई ते मिठाईने माटे जो, क्यांही रे परमारथनी नही प्रीतडी रे लो ॥ ३ ॥ हांरे प्रभु अंतरजांमी जीवन प्राणाधार जो, वायो रे नवि जाणयो कलियुग वायरो रे लो ॥ हांरे मोरा लायक नायक भगत वच्छल भगवंत जो, वारू रे गुण केरा साहिब सायरू रे लो ॥ ४ ॥ हांरे प्रभु लागी मुजने ताहरी माया जोर जो, अलगा रे रह्यांथी होइ उभोगलो रे लो ॥ हांरे कुण जांणें अंतर गतिनी विण माहाराज जो, हेजे रे हसी बोलो ठंडी आमलो रे लो ॥ ५॥ हांरे तारे मुखनें मटके अटक्यूं माहरो मन्न जो, आंखडली अणियाली कामणगारीयूंरे लो ॥ हांरे म्हारे नयणा लंपट जोवे खिण २ तुज जो, राती रे प्रभु राणे न रहे वारीयां रे लो ॥ ६ ॥ हांरे प्रभु अलगा ते पिण जांणज्यो करीनें हजूर जो, ताहरी रे बलिहारी हुं जाउं वारणे रे लो ॥ हांरे कवि रूप विबुधनो मोहन करे अरदास जो, गिरुआ थइ मन आंणो कलट अति घणो रे लो ॥ इति स्त० ॥

॥ अथ राणपुरा स्तवनं ॥

राणपुरे रलियामणो रे लाल, श्रीआदीसर देव, मन मोहुं रे ॥ उत्तंग तोरण देहरुं रे लाल, निरखीजे नित्य मेव ॥म०॥ रा० ॥ १ ॥ चोवीस मंडप चिहुं दिसे रे लाल, चौमुख प्रतिमा च्यार ॥ म० ॥ त्रिभुवन दीपक देहरो रे ला०, समवड नही संसार ॥ म० ॥ २ ॥ रा० ॥ देहरी चोरासी दीपती रे लाल, मांडयो अष्टापद मेर ॥ म० ॥ भलें जुहारया भोंयरा रे लाल, सूतां उठ सवेर ॥ म० ॥३॥ रा० ॥ देस जाणीतूं देहरू रे लाल, मोटो देस मेवाड ॥म०॥ लख्क नवाणुं लगाविया रे लाल, धन धन्नो पोरवाड ॥ म० ॥४॥ रा० ॥ खरतर वसई खंतसूं रे लाल, निर

खंतां सुख थाय ॥ म० ॥ पांच प्रासाद बीजा वली रे लाल, जोतां पातिक जाय ॥ म० ॥ ५ ॥ रा० ॥ आज कृतारथ हुं थयो रे लाल, आज थयो आणंद ॥ म० ॥ यात्रा करी जिनवरतणी रे लाल, दूर गयूं दुख दंद ॥ म० ॥ ६ ॥ रा० ॥ संवत सोल त्रियं-तरे रे लाल, मिगसिर मास मझार ॥ म० ॥ राणपुरै यात्रा करी रे लाल, समयसुंदर सुखकार ॥ म० ॥ ७ ॥ रा० ॥ इति श्री राणपूरा स्तवनं ॥

॥ अथ दर्शनद्वार श्रीआदिजिन स्तवनं ॥

समकित द्वार गुंभारे पेसतां जी, पाप पडल गयां दूर रे ॥ मोहन मारूदेवीनो लाडलो जी, दीठो मीठो आनंद पूर रे ॥ स० ॥ ॥ १ ॥ आयू वरजित साते कर्मनी जी, सागर कोडाकोडी हीण रे ॥ स्थिती पढम करणें करी जीवनें जी, बीरज अपूरबनो घर लीध रे ॥ २ ॥ स० ॥ भुंगल भांगी आदि कषायनी जी, मिथ्यात मोहनी सांकल साथ रे ॥ बार उघाडा लम संबेगना जी, अनुभव भवनें बेठो नाथ रे ॥ ३ ॥ स० ॥ तोरण बांधू जीवदया तणूं जी, साथियो पूरो सरधा रूप रे ॥ धुपघटी प्रभुगुण अनुमोदना जी, द्विगुण मंगल आठ अनूप रे ॥ ४ ॥ स० ॥ संवर पाणी अंग पखालनें जी, केशर चंदन उत्तम ध्यांन रे ॥ आतम गुण रुचि एह मृगमद महमहे जी, पंचाचार कुशम परधांन रे ॥ ५ ॥ थो गुरु भावपूजानें पावत आतमां जी, पूजो परमेसर पून्य पवि ॥ ६ ॥ कारण जोगें कारज नीपजै जी, क्षमा विजय जिन आ ॥ माय ॥ ६ ॥ स० ॥ इति श्री आदीसर जिन स्तवनं ॥ ॥ ७ ॥ जि

॥ अथ श्रीआदीसर जिन स्तवन ॥ सामाचार

आदि जिनेसर अरज सुणीजे, मोहन रू० ॥ ८ ॥ जाण दिलरंजन प्रभु दरसण दीजे, म्हारो मनडो खोल ॥ रतने काग

प्रभु दरसन लहिवो जग दुरलभ, विन दरसन नहीं किरिया रे ॥ जे दरसण विन किरिया पाले, ते नवि कहियै तरिया रे ॥आ०॥२॥ नय एकांते दरसन थापै, पिंड भरे ते पापे रे॥ आप आपणा मति आलापैं, ते भूला भव थापे रे ॥ आ० ॥ ३ ॥ शुद्ध दरसन स्याद्वादनें संगे, जे ग्रहे आतम उमंगे रे ॥ आनंदघन उपजे तसु अंगै, लिब्धरमणने रंगे रे ॥ आ० ॥ ४ ॥ भव कोडाकोडीमें भमतां, तुझ दरसन नहीं पायो रे ॥ सुकृत संयोगे ताहरे सनमुख, आज भले हुं आयो रे ॥ आ० ॥ ५ ॥ ताहरी महिर लहिरनो लटकौ, जो जगगुरु हुं पाउं रे ॥ सहजे एक पलकमें अदभुत, आतम गुण उपजाउं रे ॥ आ० ॥ ६ ॥ मरुदेवानंदन जग वंदन, श्वामी दरसण दीजै रे ॥ लाभउदय जिनचंद लहीने, सगला कारज सीझै रे ॥ आ० ॥ ७ ॥ इति श्री आदिजिन स्तवनं ॥

॥ अथ श्रीअजितनाथ स्तवनं॥

॥ अनंत जिन आपज्योरे ॥ ए चाल ॥

ज्ञानादिक गुण संपदा रे, तुझ अनंत अपार ॥ ते सांभलतां ऊपनी रे, रुचि तिण पार उतार ॥ अजित जिन तारज्यो रे ॥ तारज्यो दीनदयाल, अ०॥ता॥०१॥ ए आंकणी ॥ जे जे कारण जे-रे ॥ ते रे, सामग्री संयोग ॥ मिलतां कार्य नीपजे रे, कर्त्ता तनय रा० ॥ ॥ अ० ॥ ता० । २ ॥ कार्य सिद्धि कर्त्ता वसु रे, लहि का-रूपार ॥ रोग ॥ निज पदकारक प्रभु मिल्या रे, होय निमित्तम भोग संसार ॥ भा० ३॥ अज कुलगत केसरी लहे रे, निज पद सिंह नि-मांरुयो अष्टापद प्रभु भक्ते भवि लहे रे, आतम शक्ति संभाल ॥ ऊव सवेर ॥ म० ॥ कारण पद कर्त्तापणें रे, करि आरोप अभेद॥ निज देस मेवाड़ ॥म०॥ रे, करै अनेक उमेद ॥ अ० ॥ ता० ॥ ५ ॥ पोरवाड़ ॥ म० ॥४॥ नू रे, परमानंद सरूप ॥ स्याद्वाद सत्तारसी रे,

अमल अखंम अनूप ॥ अ० ॥ ता० ॥ ६ ॥ आरोपित सुख भ्रम टल्यो रे, ज्ञास्यो अव्याबाध ॥ समरयो अन्निलाखीपणो रे, कर्त्ता साधन साध्य ॥ अ० ॥ ता० ॥ ७ ॥ ग्राहकता स्वामित्वता रे, व्यापक न्नोक्ता न्नाव ॥ कारणता कारज दसारे, सकल ग्रह्युं निज न्नाव ॥ अ० ॥ ता० ॥ ८ ॥ श्रद्धा न्नासन रमणता रे, दानादिक परिणाम ॥ सकल थया सत्तारसी रे, जिनवर दरसन पामि ॥ अ० ॥ ता० ॥ ए ॥ तिणें निर्यामक माहणो रे, वैद्य गोप आधार ॥ देवचंद्र सुख सागरू रे, न्नावधरम दातार ॥ अ० ॥ ता० ॥ १० ॥ इति श्री अजित जिन स्तवनं ॥

॥ अथ आलोयण वृद्ध स्तवनं ॥

॥ बे कर जोमी वीनवूं जी, सुणि स्वांमी सुविदीत ॥ कूम कपट मूंकी करी जी, वात कहूं आप वीत ॥ १ ॥ कृपानाथ मुऊ विनती अवधार ॥ आंकणी ॥ तू समरथ त्रिन्नुवन धणी जी, मुऊने डुत्तर तार ॥ कृ० ॥ २ ॥ न्नवसायर न्नमतां थकां जी, दीठां डुख अनंत ॥ न्नागसंयोगे न्नेटियो जी, न्नयन्नंजण न्नगवंत ॥ कृ० ॥ ३ ॥ जे डुःख न्नांजे आपणा जी, तेहनें कहिये डुक्ख ॥ परडुख न्नंजण तूं सुण्यो जी, सेवकने द्यो सुक्ख ॥ कृ० ॥ ४ ॥ आलोयण लीधां पखै जी, जीव रुले संसार ॥ रूपी लक्मणा महासती जी, एह सुण्यो अधिकार ॥ कृ० ॥ ५ ॥ दूषमकालै दोहिलो जी, सूधो गुरु संयोग ॥ परमारथ पीठै नही जी, गमरप्रवाही लोक ॥ कृ० ॥ ६ ॥ तिण तुऊ आगल आपणा जी, पाप आलोउं आज ॥ माय बाप आगल बोलतां जी, बालक केही लाज ॥ कृ० ॥ ७ ॥ जिन धरम२ सहू कहै जी, थापै अपणी जी वात ॥ सामाचारी जुइ जुइ जी, शंसय पमयां मिथ्यात ॥ कृ० ॥ ८ ॥ जाण अजांणपणे करी जी, बोल्या उत्सूत्र बोल ॥ रतने काग

भमावतां जी, हार्यो जनम निटोल ॥ कु० ॥ ए ॥ भग-
वंत भाष्यो ते किहां जी, किहां मुझ करणी एह ॥ गज पाखर
खर किम सहे जी, सबल विमासण तेह ॥ कु० ॥ १० ॥ आप
परूंपुं आकरो जी, जांणे लोक महंत ॥ पिण न करूं परमादियो
जी, मासाहस दृष्टांत ॥ कु० ॥ ११ ॥ काल अनंते मैं लह्या जी,
तीन रतन श्रीकार ॥ पिण परमादे पाडिया जी, किहां जइ करूं
पुकार ॥ कु० ॥ १२ ॥ जाणूं उत्कृष्टी करूं जी, उद्यत करूं अ-
विहार ॥ धीरज जीव धरै नहीं जी, पोते बहु संसार ॥ कु० ॥ १३ ॥
सहज पड्यो मुझ आकरो जी, न गमें भूंडी वात ॥ परनिंद्या क-
रंता थकांजी, जायै दिन नैं रात ॥ कु० ॥ १४ ॥ किरिया करतां
दोहिली जी, आलस आणे जीव ॥ धरम पखै धंदे पड्यो जी,
नरकै करसी रीव ॥ कु० ॥ १५ ॥ अणहूंता गुण को कहे जी, तो
हरखूं निसदीस ॥ को हितसीख भली दियै जी, तो मन आणूं
रीस ॥ कु० ॥ १६ ॥ वादभणी विद्या भणी जी, पररंजण उपदेश
॥ मन संवेग धर्यो नही जी, किम संसार तरेस ॥ कु० ॥ १७ ॥
सूत्र सिद्धांत वखाणतां जी, सुणतां करम विपाक ॥ खिण इक
मनमांहे ऊपजै जी, मुझ मरकट वैराग ॥ कु० ॥ १८ ॥ त्रिविध
२ कर उच्चरूं जी, भगवंत तुम्ह हजूर ॥ वार २ भांजू वली जी,
छूटकवारो दूर ॥ कु० ॥ १९ ॥ आप काज सुख राचतां जी, कीधा
आरंभ कोडि ॥ जयणा न करी जीवनी जी, देवदया पर छोड
॥ कु० ॥ २० ॥ वचन दोषव्यापक कह्या जी, दाख्या अनरथ दंड ॥
कूड कपट बहु केलवी जी, व्रत कीधा सत खंड ॥ कु० ॥ २१ ॥
अणदीधो लीजे तृणो जी, तोही अदत्तादान ॥ ते दूषण लागा घणा
जी, गिणतां नावे ज्ञान ॥ कु० ॥ २२ ॥ चंचल जीव रहे नहीं
जी, राचै रमणी रूप ॥ काम विटंबन सी कहूं जी, ते तूं जांणे

सरूप ॥ कृ० ॥ २३ ॥ माया ममतामें पड्यो जी, कीधो अधिको लोभ ॥ परिग्रह मेल्यो कारमो जी, न चढी संजम सोभ ॥ कृ० ॥ ॥ २४ ॥ लाग्या मुझनें लालचें जी, रात्रीभोजन दोष ॥ में मन मूक्यो माहरो जी, न धर्यो धरम संतोष ॥ कृ० ॥ २५ ॥ इण भव परभव दूहव्या जी, जीव चोरासी लाख ॥ ते मुझ मिच्छामिदुक्कडं जी, भगवंत तोरी साख ॥ कृ० ॥ २६ ॥ करमादान पनरे कह्या जी, प्रगट अढारे जी पाप ॥ जे में कीधा ते सहूजी, वगस२ माइ बाप ॥ कृ० ॥ २७ ॥ मुझ आधार छै एतलो जी, सरदहणा छै शुद्ध ॥ जिनधर्म मीठो जगतमें जी, जिम साकर ने दूध ॥ कृ० ॥ २८ ॥ रिषभदेव तूं राजियो जी, सेत्रुंजगिर सिणगार ॥ पाप आलोया आपणा जी, कर प्रभु मोरी सार ॥ कृ० ॥ २९ ॥ मर्म एह जिन-धर्मनो जी, पाप आलोयां जाय ॥ मनसुं मिच्छामिदुक्कडं जी, देतां दूर पुलाय ॥ कृ० ॥ ३० ॥ तूं गति तूं मति तूं धणी जी, तूं साहिब तूं देव ॥ आण धरुं सिर ताहरीजी, भव २ ताहरी सेव ॥ कृ० ॥ ३१ ॥ ॥ कलश ॥ इम चढिय सेत्रुंज चरण भेट्या नाभिनंदन जिन तणा, करजोडि आदिजिनंद आगे पाप आलोयां आपणां ॥ श्रीपूज्य जिनचंद सूरि सद्गुरु प्रथम शिष्य सुजस घणें, गणि सकलचंद सुसीस वाचक समयसुंदर गणि भणें ॥ ३२ ॥ इति आलोयण वृद्ध स्त०

॥ अथ आनंदघनजी कृत स्तवन लिख्यते ॥

॥ अथ श्री ऋषभ देव जिन स्तवनं ॥

॥ करम परीक्षा करण कुमर चल्यो रे ॥ ए चाल ॥

ऋषभ जिनेसर प्रीतम माहरो रे, और न चाहूं रे कंत ॥ रीझ्यो साहिब संग न परिहरे, भांगे सादि अनंत ॥ ऋ० ॥ १ ॥ प्रीत सगाई रे जगमां सहु करे रे, प्रीत सगाई न कोय ॥ प्रीत

सगाई रे निरुपाधिक कही रे, सोपाधिक धन खोय ॥ ऋ० ॥ २ ॥ कोइ कंत कारण काष्ट भक्षण करे रे, मिलसुं कंतने धाय ॥ ए मेलो नवि कहियै संभवे रे, मेलो ठाम न ठांय ॥ ऋ० ॥ ३ ॥ कोइ पति रंजन अति घणो तप तपै रे, पति रंजन तन ताप ॥ ए पति रंजन में नवि चित धरयुं रे, रंजन धातु मिलाप ॥ ऋ० ॥ ४ ॥ कोइ कहे लीला रे अलख अलख तणी रे, लख पूरै मन आस ॥ दोष रहितने लीला नवि घटे रे, लीला दोष विलास ॥ ऋ० ॥ ५ ॥ चित्त प्रसन्ने रे पूजन फल कह्यो रे, पूज अखंडित एह ॥ कपट रहित थई आतम अरपणा रे, आनंदघन पद रेह ॥ ऋ० ॥ ६ ॥ इति पदं ॥

॥ श्री अथ अजित जिन स्तवनं ॥

॥ मारुं मन मोह्युं रे श्री विमलाचले रे ॥ ए चाल ॥

पंथडो निहालूं रे बीजा जिनतणो रे, अजित २ गुण धाम ॥ जे तें जीत्या रे तेणे हुं जीतियो रे, पुरुष किस्युं मुझ नांम ॥ पं० ॥ ॥ १ ॥ चरम नयण करी मारग जोवतो रे, भूलो सयल संसार ॥ जेणे नयणे करी मारग जोइये रे, नयण ते दिव्य विचार ॥ पं० ॥ २ ॥ पुरुष परंपर अनुभव जोवतां रे, अंधोअंध पुलाय ॥ वस्तु विचारें रे जो आगमे करी रे, तो चरण धरण नही ठाय ॥ पं० ॥ ३ ॥ तर्क विचारे रे वाद परंपरा रे, पार न पहुंचे कोय ॥ अभिमते वस्तु वस्तुगते कहे रे, ते विरला जग जोय ॥ पं० ॥ ४ ॥ वस्तु विचारे रे दिव्य नयणतणो रे, विरह पड्यो निरधार ॥ तरतम जोगे रे तरतम वासना रे, वासित बोध आधार ॥ पं० ॥ ५ ॥ काळ लबधि लही पंथ निहालसुं रे, ए आस्या अविलंब ॥ ए जन जीवे रे जिनजी जांणज्यो रे, आनंदघन मत अंब ॥ पं० ॥ ६ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री संभव जिन स्तवनं ॥

॥ रातडी रमिनें किहांथी आविया रे ॥ ए चाल ॥

॥ संभव देव ते धुर सेवो सवे रे, लहि प्रभू भेद ॥ सेवनं सेवन कारण पहली भूमिका रे, अभय अद्वेष अखेद ॥ सं० ॥१॥ भय चंच लता हो जे परिणामनी रे, द्वेष अरोचक भाव ॥ खेद प्रवृत्ति हो करतां थाकियें रे, दोष अबोधि लखाव ॥ सं० ॥ २ ॥ चरमावर्त्त हो चरम करण तथा रे, भव परणति परिपाक॥दोष टले वली दृष्टी खुले भली रे, प्रापति प्रवचन वाक॥ सं०॥ ३ ॥ परिचय पातिक घातक साधसूं रे, अकुशल अपचय चेत॥ग्रंथ अध्यातम श्र वण मनन करी रे, परिशीलन नय हेत ॥ सं० ॥ ४ ॥ कारण जोगे हो कारज नीपजे रे, एमां कोइ न वाद ॥ पण कारण विण कारज साधिये रे, ए जिनमत उनमाद ॥ सं० ॥ ५ ॥ मुग्ध सु गम करी सेवन आदरे रे, सेवन अगम अनूप॥ देजो कदाचित से वक याचना रे, आनंदघन रसरूप ॥ सं० ॥ ६ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीअभिनंदन जिन स्तवनं ॥

॥ आज निहेज्यो रे दीसे नाहलो ॥ ए चाल ॥

॥ अभिनंदन जिन दरशन तरसिये, दरसण दुर्लभ देव ॥ ॥ मत२ भेदे रे जो जइ पूछिये ॥ सहु थापे अहमेव ॥ अभि० ॥ १ ॥ सामान्ये करी दरिसण दोहलूं, निरणय सकल विशेष ॥ मदमें घेरयो रे अंधो किम करे, रवि शशि रूप विलेख ॥ अ० ॥ २ ॥ हेतु विवादे हो चित्त धरि जोइये, अति दुरगम नय वाद ॥ आगम वादे हो गुरुगम को नहीं, ए सबलो विषवाद ॥ अ० ॥ ३ ॥ घाती डूंगर आडा अति घणा, तुझ दरिसण जगनाथ ॥ धी ठाइ करी मारग संचरूं, सेंगु कोइ न साथ ॥ अ० ॥ ४ ॥ दरिस ण२ रटतो जो फिरुं, तो रण रोझ समान ॥ जेहने पिपासा हो अ

मृत पानकी, किम भाजै विष पान ॥ अ० ॥ ५ ॥ तरस न आवे हो मरण जीवन तणो, सीझे जो दरसण आज ॥ दरिसण दुर्ल भ सुलभ कृपाथकी, आनंदघन माहाराज ॥ अ० ॥ ६ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीसुमती जिन स्तवनं ॥

॥ राग वसंत तथा केदारो ॥

॥ सुमति चरण कज आतम अरपणा, दरपण जिम अविकार सुग्यानी ॥ मति तरपण बहु सम्मत जांणिये, परि सरपण सुविचार ॥ सुग्यानी सु० ॥ १ ॥ त्रिविध सकल तनु धर गत आतमा, बहिरातम धुरि भेद ॥सु० ॥ बीजो अंतर आतम तीसरो, परमातम अविच्छेद ॥ सु० सु० ॥ २ ॥ आतम बुद्धे हो कायादिक ग्रह्यो, बहिरातम अघ रूप ॥ सुग्यानी॥ कायादिकनो हो साखीधर रह्यो, अंतर आतम रूप॥ सुग्यानी ॥ सु० ॥ ३ ॥ ज्ञानानंदे हो पूरण पावनो, वरजित सकल उपाधि सुग्यानी॥अतिंद्रिय गुण गण मणि आगरू, इय परमातम साध सुग्यानी ॥ सुम० ४ ॥ बहिरातम तज अंतर आतमा, रूप सुग्यानी थइ थिर भाव॥परमातमनूं हो आतम भाववूं, आतम अरपण दाव सुग्यानी ॥ सुम०॥ ५ ॥ आतम अरपण वस्तु विचारतां, भरम टलै मतिदोष ॥ सु० ॥ परम पदारथ संपति संपजै, आनंदघन रस पोष ॥ सु० सुम ०॥६॥ इति

॥ अथ श्रीशीतल जिन स्तवनं ॥

॥ गुणह विसाला मंगलीक माला ॥ ए चाल ॥

॥ शीतल जिनपति ललित त्रिभंगी, विविध भंगी मन मोहे रे ॥ करुणा कोमलता तीक्षणता, उदासीनता सोहे रे ॥ शी० ॥ १ ॥ सर्व जंतु हितकरणी करुणा, कर्म विदारण तीक्षणा रे ॥ हानादाना रहित परणामी, उदासीनता विक्षणा रे ॥ शी० ॥ २ ॥ परदुःख छेदन इच्छा करुणा, तीक्षण परदुःख रीझे रे

नंता उज्जय विलक्षण, एक ठांमे केम सीऊं रे ॥ शी० ॥ ३ ॥ अ
नयदांन ते मल क्षय करुणा, तीक्षणता गुण नावे रे ॥ प्रेरण
विगु कृत उदासीनता, इम विरोध मति नावे रे ॥ शी० ॥ ४ ॥
श.क्ति व्यक्ति त्रिनुवन प्रनुता, निग्रंथता संयोगे रे॥योगी नोगी वक्ता
मौनी, अनुपयोगि उपयोगे रे ॥ शी० ॥ ५ ॥ इत्यादिक बहु नं
ग त्रिनंगी, चमत्कार चित्त देती रे ॥ अचरजकारी चित्र विचित्रा,
आनंदघन पद लेती रे॥ शी० ॥ ६ ॥ इति पदं ॥

॥ अथश्री कुंथुजिन स्तवनं ॥

॥ राग गुर्जरी ॥

॥ मनमो किमही न वाजे हो, कुंथु जिन म० ॥ जिम२ ज
तन करीनें राखूं, तिम२ अलगो नाजे हो॥ कुंथुजिन म० ॥१॥ रज
नी वासर वसती ऊजम, गयण पायालें जाय॥सांप खायने मुखडुं
थोथुं, ए उखाणो न्याय हो ॥ कुंथु जिन म० ॥ २॥ मुगतितणा
अनिलाषी तपिया, ज्ञान नें ध्यांन अन्यासें ॥ वयरीडुं कांइ एहवुं
चिंतै, नाखे अवले पासें हो॥ कुं० म० ॥ ३ ॥ आगम आगम
धरनें हाथे, नावै किण विध आंकू॥ किहां कणे जो हठ करी हटकूं,
तो व्यालतणी पर वांकू हो ॥ कुं० ॥ म० ॥४॥ जो ठग कहूं तो
ठग तो न देखूं, साहुकार पिण नांही ॥ सर्वमांह ने सहुथी अ
लगूं, ए अचरिज म[illegible]मांही हो ॥ कुं० म० ॥ ५ ॥ जे जे कहूं ते
कान न धारे, आप[illegible]ते रहे कालो ॥ सुरनर पंडित जन समझावै,
समझै न माहारो [illegible]ो हो ॥ कुं० ॥ म० ॥ ६ ॥ में जाण्युं ए
लिंग नपुंसक, सक[illegible]रदने ठेले ॥ बीजी वातें समरथ है नर,
एहने कोई न झेले [illegible] ॥ म० ॥ ७ ॥ मन साध्युं तिण स
गलूं सध्युं, एह वा[illegible]० ॥ तोपिण [illegible] साध्युं ते नवि मानुं,
ए कहि वात छे मोटी [illegible]० ॥ ३ ॥ जो पोतानो [illegible] ॥ मनडुं [illegible] सगला

चस आणुं, ते आगमथी मति आणुं ॥ आनंदघन प्रभु माहरो आए
भो साचूं कर जाणुं हो ॥ कुं० ॥ म० ॥ ए ॥ इति पदं ॥

॥ अथ पडिक्कमणेमें बोलणेमें आवे ॥

॥ पार्श्वनाथजीके छोटे स्तवन लिख्यते ॥

॥ पद ॥ १ लुं ॥

॥ श्रीसंखेसर पास जिनेसर भेटियै, भवना संचित पाप परा १
मेटियै ॥ मन धर भाव अनंत चरण युग सेवतां, अणहूंते
कोभि चतुर विध देवता ॥ १ ॥ ध्यांन धरूं प्रभू दूरथकी में ताह
जल जिम लीनो मीन सदा मन माहरो ॥ भव २ तुमहीज
चरण हूं सिर धरुं, भवसायरथी तार अरज आहीज करूं ॥ २
भूख त्रिषा तप सीत आतप ए ना सहै, तप जप संजम भार
णी नवी निरवहै ॥ पिण जिनवरजीना नांमतणी आसत घ
एहिज छै आधार जगतगुरु अम्ह भणी ॥ ३ ॥ तुम्ह दरिसण विण स्व
भवोदधि हूं फिरयो, सहीया दुख अनेक न कारज को सरयो
मिलिया हिव प्रभु मुझ सदा सुख दीजियै, चौ गइ संकट चूर ज
जस लीजियै ॥ ४ ॥ यादवपति श्रीकृष्णतणी आरति हरी, सै
कीध सचेत जरा दूरै करी ॥ परचा पूरण पास रयण जिम दी
जयवंतो जिणचंद सयल रिपु जीपतो ॥ ५ ॥ इति पदं ॥

॥ पद २ जुं ॥

मनमोहन माहाराज, तीन भुवन [illegible] ताज ॥ आछेल
नगर ब्रहानपुर राजीया जी ॥ १ ॥ पास जि[illegible] प्रधान, नि
सुगुण [illegible]नधान ॥ आछेलाल, वामासुत व[illegible] [illegible]याजी ॥ २ ॥
कनी संभाल, करिय खरी ततकाल [illegible] ल, संकट सहु
पन्हिरया जी ॥ ३ ॥ [illegible] यक्यो आनंद
॥ पर[illegible] [illegible] ॥ प्रभुजीने पर

वीता सहु विखवाद ॥ आंढेलाल, मन वंछित मुऊ सहु फल्यां जी ॥ ५ ॥ ध्यान समाधिनी थाप, मिलिया छो प्रन्नु आप ॥ आंढेलाल, देज्यो दरिसए वलि सदा जी ॥ ६ ॥ अमृतधर्म सुजाए, सीस कमा-कल्याए ॥ आंढेलाल, वाचक इम वीनती करै जी ॥ ७ ॥ इति पदं ॥

॥ पद ३ जुं ॥

जयकारी जिनराज, पुरिसावाएी रे ॥ वामासुत वरदाय, निरमल नांएी रे ॥ १ ॥ पांच कमल प्रन्नु अंग, निरुपम निरख्या रे ॥ तीन कमल मुऊ संग, आतम हरख्या रे ॥ २ ॥ वदन महोदय देख, चंद लजाएूं रे ॥ गगन ज्रमे निसदीस, इम मन आंएूं रे ॥ ३ ॥ सुरमणि ज्युं सुखकार, नयए विराजै रे ॥ हृदयकमल सुविलास, थाल ज्यूं छाजै रे ॥ ४ ॥ प्रन्नु कर चरण विलोक, पंकज हारयो रे ॥ ततखिए निज संवास, जलमैं धारयो रे ॥ ५ ॥ इम सरवंग उदार, श्रीजिन गाया रे ॥ साचै पुएय संयोग, साहिब पाया रे ॥ ६ ॥ प्रन्नु-गुए अनुन्नव नीर, सांग सुरंगे रे ॥ टाल्यो पातिक पंक, आतम संगेरे ॥ ७ ॥ वरस अढार चोतील, वदि वैसाखै रे ॥ मनुहर पांचम दीस, सहु संघ साखै रे ॥ नगर महेवा मांहि, पास जुहारया रे ॥ श्री जिनचंद मुएिंद, वांछित सारया रे ॥ ८ ॥ इति पदं ॥

॥ पद ४ थुं ॥

वालेसर मुऊ वीनती गोमीचा, अलवेसर अवधार हो गोमीचाराय ॥ प्रगट थई पातालथी गोमीचा, सेवक जिन साधार हो गो० ॥ वा० ॥ १ ॥ आंख थई ऊतावली, गो० ॥ दरसए देखए काज हो ॥ गो० ॥ पांपीनरखमे पातली, गो० ॥ द्यो दरसए महाराज हो ॥ गो० ॥ वा० ॥ २ ॥ तूं साहिब सुपनंतरे, गो० ॥ मिलियो छै नित मेव हो ॥ गो० ॥ तोपिए आयो ऊमही, गो० ॥ संप्रति करवा सेव हो, गो० ॥ वा० ॥ ३ ॥ जो पोतानो ज्ञेवमो, गो० ॥ सगली

भ्राति सदीव हो, गो० ॥ ऊंची नीची वातमें, गो० ॥ थे मति घालो जीव हो ॥ गो० ॥ वा० ॥ ४ ॥ देव घणांही देवलै, गो० ॥ दीगं ते न सुहाय हो ॥ गो० ॥ इक दीगं मन ऊलसे, गो० ॥ इक दीगं उल्हाय हो ॥ गो० ॥ वा० ॥ ५ ॥ कालै वाल्है माहरे, गो० ॥ कीधी खरी सन्नीम हो ॥ गो० ॥ दरसण देवानी नकी, गो० ॥ पाणीवलि पिण ढील हो ॥ गो० ॥ वा० ॥ ६ ॥ तें कीधी तिम तूं करे, गो० ॥ राखी चिहुं मांहे लाज हो ॥ गो० ॥ वलि अवसर संभारज्यो, गो० ॥ इम जंपै जिनराज हो ॥गो०॥वा०॥ ७ ॥ इति पदं॥

॥पद ५ मुं ॥

अरज सुणीजै अंतरजामी, पास जिनेसर स्वामी रे॥ अश्वसेन वामाजीके नंदन, त्रिभुवन जन विसरामी रे ॥ अ० ॥१॥ गुण गिरवा गोडीचा स्वामी, नाथ निरंजन नामी रे ॥ अ० ॥ भव अटवी वन घन विच भमतां, पुण्ये सेवा पामी रे ॥ अ० ॥ २ ॥ दीनदयाल दया कर दीजे, अनुभव गुण अभिरामी रे ॥ चरणकमल सेवा चित चाहत, सुगण सदा हितकामी रे ॥ अ० ॥ ३ ॥ इति पदं॥

॥ पद ६ ठुं ॥

प्यारी पासकी, देखी मूरत मो मन भाय ॥ प्या० ॥ अश्वशेन वामाजीके नंदन, देख्यां दिल हरखाय॥ प्या० ॥ १ ॥ तीन लोकमें महिमा जाकी, सुर नर मुनि गुण गाय ॥ प्या० ॥ नील वरण मनमोहन निरख्यों, नाथ गोडीचा राय ॥ प्या० ॥ २ ॥ सुगण सेवगकी येही अरज हे, भवदुख ताप मिटाय॥ प्या० ॥ ३ ॥ इति पदं॥

॥ पद ७ मुं ॥

॥ श्रीचिंतामण पासजी, अंजब सुरंग अनूप ॥ सवाइ प्रभूजी, थांरी सांवली सूरत म्हांनु प्यारी लागे राज ॥वामाजी नंदन वांदवा, चितमांमें लागी छे चूंप ॥ सवाइप्रभूजी ॥ १ ॥ अणिया-

ली प्रभू आंखमी, वदन सरोज विकास ॥ स० ॥ थां० ॥ नयण सलूणे जी निरखतां, ऊपजै अधिक उल्हास ॥ स० ॥ थां० ॥ २ ॥ अंगज नृप अश्वशेननो, करुणा रेधि करतार ॥ स० ॥ थां० ॥ पुण्य संयोगे जी पामीयो, दिल ...दार ॥ स० थां० ॥ ३ ॥ सो दिन सफलो जांणियै, सो ... प्रमांण ॥ स० ॥ भगतवच्छल भल भेटियै, जिनवर चतुरसु- ... ॥ स० ॥ थां० ॥ ४ ॥ जालम जेसलगढ जयो, श्रीचिंतामणि पास ॥ स० ॥ जगपति श्रीजिनचंदनी, अविचल पूरो जी आस ॥ स० ॥ थां० ॥ ५ ॥ इति पदं ॥

॥ पद ८ मुं ॥

॥ जीवन मारा तेवीसमा जिनराय रे, जिनवरजी ॥ तुम विन देख्यां एक घमी न रहाय, म्हारा जिनवरजी ॥ १ ॥ तुमे अमारा हीयमलाना हार रे, जि० ॥ अमे तुमारा दास छियै निरधार ॥ म्हारा जि० ॥ लागी तुमसुं लगन हमारी जोर रे, जि० ॥ चंद चकोरा जलधर नें जिम मोर ॥ म्हारा जि० ॥ २ ॥ नयण तुमारा कामणगारा जोर रे, जि० ॥ चितमो लीधो जिम तिम करि नें चोर ॥ म्हारा जि० ॥ अरज हमारी मानो मोटा देव रे, जि० ॥ आपो भव२ चरणकमलनी सेव ॥ म्हारा जि० ॥ ३ ॥ आस धरी- नें आवे जे तुझ पास रे, जि० ॥ नवि मूंकीजे स्वामी तेह निरास म्हाराजि० ॥ मोटानी तो मोटी थाये बुद्धि रे, जि० ॥ इम जांणि- ने करज्यो माहरी शुद्ध ॥ म्हारा जि० ॥४॥ राखेज्यो म... ...यो प्रेम पर निवड सनेह रे, जि० ॥ अवगुण जांणी छिट... म्हारा जि० ॥ ख...तर गच्छपति श्रीजिनलाभ सू... पसायें भनणें ...मचंद ॥ म्हारा जि... ...नमें, ध्यान धरूं पलपलमें ॥

॥ पद ९ मुं ॥

॥ सुगण सनेही प्रभुजी अरज सुणीज्यो, अरज सुणीने मोसुं महिर धरीज्यो राज ॥ सु० ॥ तुं छै प्रभूजी म्हारो अंतर जामी, पूरव पून्यै थांरी सेवा में पांमी राज ॥ साहिब में तो तुझनें जाण्यो छै साचो, कदिय न दिलमांहे आणुं हुं काचो राज ॥ सु० ॥ १ ॥ साचे तो दिलसुं राज करीय सगाई, सुगण प्रभु जीस्युं वधज्यो प्रीत सवाई राज ॥ सु० ॥ दरसण प्रभुजी ताहरो दिलमांहे वसियो, रात दिवस थारा गुणनो हूं रसियो राज ॥ सु० ॥ २ ॥ खिजमतगारो प्रभुजी चाकर हूं खासो, कद्दिय न मेलूं प्रभुजी पलभर पासो राज ॥ सु० ॥ मोटानी महरे राज मोटा कहीजै, लाहो लाखीणो प्रभुजी संगे लहीजै राज ॥ सु० ॥ ३ ॥ पिंजर तो फिरसी राज केइ परदेसे, राज सदाइ मारा दिलमांहे रहसी राज ॥ सु० ॥ रंगै हूं चोल मजीठ रंगाणो, नहिय विसरस्युं प्रभुजी दरसण टाणो राज ॥ सु० ॥ ४ ॥ लुलि२ हूं तुम पाये जी लागूं, मोज महिर तुम पासे हूं मांगू राज ॥ सु० ॥ श्रीजिनचंद सदा साधारो, तारक प्रभुजी थे भवजल तारो राज ॥ सु० ॥ ५ इति पदं ॥

॥ पद १० मुं ॥

॥ मोरा पास जिनराज, सूरत थारी लागे प्यारी ॥ दीठ आवे दाय, मो० ॥ जिम२ सूरत देखियै प्रभु, तिम२ वाधे प्रीत ॥ तन मन मारा उलसै कांइ, रूडी प्रीतनी रीत ॥ मो० ॥१॥ नयण कमल पांखडी प्रभु, मुखडो पूनमचंद ॥ दीपशीखासी नासिका ॥ श्रीआनंद ॥ मो० ॥ २ ॥ कांने कुंडल झिगमिगे प्रभु, जी, थांरी सावलो चंपकली सोहे भली कांइ, जवडै ज्योत अपार चांदला, चितडामें लागी छे वालहो प्रभु, थांजी वग कोड ॥ म्हारे

तूंहिज साहिबो कांइ, वंदू बे कर जोम, ॥ मो० ॥ ४ ॥ आज मनोरथ सब फळ्या, में दीठा श्रीजिनराज ॥ सदानंद पाठक तणा कांइ, सीधां सगलां काज ॥ मो० ॥ ५ ॥ इति पदं ॥

॥ पद ११ मुं ॥

जिनजी महिर करीने राज, दरसण वहिलो दीजै ॥ दीजै २ जी माहाराज, कारज सगला सीझै ॥ ए आंकणी ॥ मुझ मन भमरतणी पर मोह्यो, गेमायो नवि छूटै ॥ प्रेम राग बंधाणो पूरण, ते तो कदेय न खूटै ॥ जि० ॥ १ ॥ अलगथकां पिण हूं प्रभु तुमने, न हिय विसारुं दिलसुं ॥ रात दिवस एहवी मन वरतै, जांणूं जइ मिलुं तुमसुं ॥ जि० ॥ २ ॥ पूरब पुन्यथकी में पायो, ए अवसर आजूणो ॥ मिलियो तूं प्रभु पास चिंतामण, साहिब सहज सलूणो ॥ जि० ॥ ३ ॥ थारे तो सेवग छै बहुला, मो सरिषा लख ग्याने, माहरे तो इण जगमे जोतां, थारे नही कोइ टाणे ॥ जि० ॥ ४ ॥ आस हिये इक ताहरी राखूं, बीजो मुख नही भाखूं ॥ अमृत जेम लही तुझ गुणरस, खारो जल किम चाखूं ॥ जि० ॥ ५ ॥ मोहन ए मुझानी महिमा, कहतां पार न आवे ॥ सायर लहर मालानें गिणतां, कहो कुण मति उपजावै ॥ जि० ॥ ६ ॥ भगतपणै किंचित गुण भाखूं, हूं म्हारी मति सारू ॥ निरुपमा अनुपम तुझ गुण लायक, त्रिभुवन जीवन सारू ॥ जि० ॥ ७ ॥ वरस अढार वली इकताले, मिगसर परब उजवाले ॥ इग्यारस दिन अधिक सनेहे, यात्र करी सुविशाले ॥ जि० ॥ ८ ॥ जेसलगिरि श्रीसंघ जुगतसुं, मेलो तिहां मंमायो, खेमशाख उदय जिनचंदने प्रभुजी, वांध्यो प्रेम सवायो ॥ जि० ॥ ९ ॥ इति पदं ॥

॥ पद १२ मुं ॥

॥ तूं मेरे मनमें प्रभु तूं मेरे दिलमें, ध्यांन धरूं पलपलमें ॥

धास जिनेसर अंतरजामी, सेवा करूं छिनरमें ॥ तूं० ॥ १ ॥ काहूको मन तरुणीसें राच्यो, काहूको चित्त धनमें ॥ मेरो मन प्रभु तुमहीसे राच्यो, ज्युं चात्रक चित्त घनमें ॥ तूं० ॥ २ ॥ जोगीसर तेरी गति जांणे, अलख निरंजन छिनमें ॥ कनककीरत सुखसागर तूंही, साहिव तीन भुवनमें ॥ तूं० ॥ ३ ॥ इति पदं ॥

॥ अथ निर्वाणकल्याणक स्तवन ॥

॥ मारगदेशक मोक्षनो रे, केवल ज्ञान निधान ॥ भाव दयासागर प्रभु रे, पर उपगारी प्रधानो रे ॥ १ ॥ वीर प्रभु सिद्ध थया, संघ सकल आधारो रे, हिव इण भरतमां ॥ कुण करशे उपगारो रे ॥ वीर० ॥ २ ॥ नाथ विहूणूं सैन्य ज्युं रे, वीर विहूणो रे संघ ॥ साधे कुण आधारथी रे, परमानंद अभंगो रे ॥ वीर० ॥ ३ ॥ मात विहूणां बाल ज्युं रे, अरहां परहा अथडाय ॥ वीर विहूणा जीवडा रे, आकुल व्याकुल थायो रे ॥ ॥ वीर० ॥ ४ ॥ संशय छेदक वीरनो रे, विरह ते केम खमाय ॥ जे दीठे सुख ऊपजे रे, ते विण किम रहिवायो रे॥ वीर० ॥५॥ निर्यामक भवसमुद्रनो रे, भव अटवी सथवाह ॥ ते परमे सर विण मिल्यां रे, किम वाधे उत्साहो रे वीर० ॥६॥ वीर थकां पण श्रुत तणो रे, हुंतो परम आधार ॥ हमणां श्रुत आधार छे रे, ए जिन आगम सारो रे ॥ वीर० ॥ ७ ॥ इण कालें सवि जीवने रे, आगमथी आनंद ॥ ध्यावो सेवो भवि जना रे, जिनपडिमा सुखकंदो रे ॥ वीर० ॥ ८ ॥ गणधर आचारिज मुनि रे, सहुनें इण परसिद्ध ॥ भव भव आगम संगथी रे, देवचंद पद लीधो रे ॥ वीर० ॥ ९ ॥ इति निर्वाणकल्याणक स्तवन ॥

॥ अथ श्रीतीर्थमाला स्तवन ॥

॥ शत्रुंजय ऋषभ समोसरया, भला गुण भरया रे ॥ सिद्ध साधु अनंते, तीरथ ते नमुं रे ॥ तीन कल्याणक तिहां थयां, मुगते

गया रे ॥ नेमीसर गिरनार ॥ ती० ॥ १ ॥ अष्टापद एक देहरो, गिरिसेहरो रे ॥ भरतें भराव्यां बिंब ॥ ती० ॥ आबु चौमुख अति भलो, त्रिभुवन तिलो रे ॥ विमल वसइ वस्तुपाल ॥ ती० ॥ २ ॥ समेतशिखर सोहामणो, रलियामणो रे ॥ सिद्ध तीर्थंकर वीश ॥ ती० ॥ नयरी चंपा निरखीयें, हैये हरखीयें रे ॥ सिद्धा श्रीवासुपूज्य ॥ ती० ॥ ३ ॥ पूर्वदिशें पावापुरी, रुद्धें भरी रे ॥ मुक्ति गया महावीर ॥ ती० ॥ जेसलमेर जुहारीयें, डुःख वारीयें रे ॥ अरिहंत बिंब अनेक ॥ ती० ॥ ४ ॥ बिकानेरज वंदीयें, चिर नंदीयें रे ॥ अरिहंत देहरां आठ ॥ ती० ॥ सोरिसरो संखेसरो, पंचासरो रे ॥ फलोधी थंभण पास ॥ ती० ॥ ५ ॥ अंतरिक अंजावरो, अमीझरो रे ॥ जीरावलो जगनाथ ॥ ती० ॥ त्रैलोक्य दीपक देहरो, जात्रा करो रे ॥ राणपुरें रिसहेस ॥ ती० ॥ ६ ॥ श्रीनाडुलाई जादवो, गोडी स्तवो रे ॥ श्रीवरकाणो पास ॥ ती० ॥ नंदीश्वरनां देहरां, बावन भलां रे ॥ रुचक कुंडल चारू चार ॥ ती० ॥ ७ ॥ शाश्वती अशाश्वती, प्रतिमा छती रे ॥ स्वर्ग मृत्यु पाताल ॥ ती० ॥ तीरथ जात्रा फल तिहां, होजो मुज इहां रे ॥ समयसुंदर कहे एम ॥ ती० ८

॥ अथ सिद्धाचल स्तवनं ॥

॥ आज आपें चालो सहीयो, सिद्धाचल गिरि जायें ॥ सिद्धाचलगिरि जईएं बहेनी, विमलाचलगिरि जईहं रे ॥ आ० ॥ सुण बहेनी ए गिरिनी महिमा, आदिजिनंद इम भाखी ॥ भरतादिक नरपतिने आगल, इंद्रादिक सहु साखी रे ॥ आ० ॥ १ ॥ इण गिरिवरिये काल अनंते, साधु अनन्ता सीधा ॥ जन्म मरणनां डुःख छोडीने, अमल अखय गुण लीधा रे ॥ आ० ॥ २ ॥ इण गिरि सन्मुख पगलां भरतां, आतम शुद्ध सुभावें ॥ कोडि भवांरां पातक कीधां, एक पलकमें जावे रे ॥ आ० ॥ ३ ॥ सासतो तीरथ ए शेत्रुं

जो, जोतां लागे मीठो ॥ तीन भुवनमें इण गिरि तोले, बीजो कोइ न दीठो रे ॥ आ० ॥ ४ ॥ नीरंजनशुं नेह धरीने, आगें भलग करस्यां ॥ अद्भुत आदि जिनेसर निरखी, प्रेम सुधारस पीस्यां रे ॥ ॥ आ० ॥ ५ ॥ पुहप सुगंधा लेइ पचरंगा, हार सुगंधा गूंथी ॥ पहिरावी प्रभु कंठें लहिस्यां, शिव मारगनी सूथी रे ॥ आ० ॥ ६ ॥ गद्दिर स्वरें जिनवर गुण गातां, जात्र नवाणूं करियें ॥ मन गमती भमती विच भमतां, भवसायर निसतरियें रे ॥ आ० ॥ ७ ॥ पूरव नवाणुं वार प्रथम जिन, रायण रूंखे आया ॥ ए तीरथ शुभ भावें फरसी, करियें निरमल काया रे ॥ आ० ॥ ८ ॥ लाभ भदे ए गिरिवर लहियें, कहे इम केवल नाणी ॥ श्रीजिनचंद सदा हित वत्सल, प्रेम घणे चित्त आणी रे ॥ आ० ॥ ए ॥ इति सिद्धाचल स्तवनं ॥

॥ अथ पारणा महावीर स्वामीका लिख्यते ॥

॥ दूहा ॥ श्रीअरिहंत अनंत गुण, अतिशय पूरण गात्र ॥ मुनि जे ज्ञानी संजमी, कहिये उत्तम पात्र ॥ १ ॥ पात्रतणी अनुमोदना, करतो जीरणसेठ ॥ श्रावक अच्युत गति लहे, नवग्रैवेका हेठ ॥ २ ॥ दस चउमासा वीरजी, विचरत संजम वास ॥ वेशालापुर आविया, इग्यारमी चउमास ॥ ३ ॥ ढाल ॥ चोमासी इग्यारमी जी, विचरत साहसधीर ॥ वेसालापुर बाहिरे जी, आव्या श्रीमहावीर ॥ १ ॥ जगतगुरु त्रिसलानंदन जी, भले में भेट्या श्रीजिनराय ॥ सखीरी चोक पूरावो आय, मेरे भाग्य अनोपम माय ॥ ज० ॥ २ ॥ बलदेवनो छे देहरो जी, तिहां प्रभु काउसग्ग लीध ॥ पच्चक्खाण चोमासनो जी, स्वामीए तप कीध ॥ ज० ॥ ३ ॥ जीरणसेठ तिहां वसे जी, पाले श्रावकधर्म ॥ आकारे तिण उलख्या जी ॥ जाणे श्रीजिन मर्म ॥ ज० ॥ ४ ॥ आज अछे उपवासीया जी, स्वामी श्रीवर्द्धमान ॥ काले सही प्रभु जीमस्ये जी,

से इथ देस्युं दान ॥ ज० ॥ ५ ॥ सदा सेठ इम चिंतवे जी, हो सी सफल मुझ आस ॥ एक मास गिणतां थकां जी, पूरी थइ चो मास ॥ ज० ॥ ६ ॥ सामग्री आहारनी जी, जीरण कीधी तइ यार ॥ प्रजुनो मारग देखतो जी, बेठो घरने वार ॥ ज० ॥ ७ ॥ घर आवे ठे पाहुणो जी, निहुत्यो एकण वार ॥ प्रजुजी कां न पधारसी जी, में निहुत्या वारंवार ॥ ज० ॥ ८ ॥ पीठे करस्यूं पारणो जी, हूं प्रजूने पमिलान्न ॥ होय मनोरथ एहवो जी, तोय विन वरसे आन्न ॥ ज० ॥ ए ॥ अवसर जाण्या गोचरी जी, श्री सिद्धारथपुत ॥ वेसालापुर आवतां जी, पूरणघरे पहुत्त ॥ ज० ॥ १० ॥ मिथ्यात्वी जाणे नही जी, जंगम तीरथ एह ॥ चेमी प्रते इम कहे जी, कांइक निक्षा देह ॥ ज० ॥ ११ ॥ चाटू जरने वा कला जी, प्रजूने आंगी दीथ ॥ नीरागी तेही लिया जी, तिहां प्र जू पारणो कीध ॥ ज० ॥ १२ ॥ देव वजावे ‌डुंडुन्नि जी, जै बो ले कर जोमि ॥ हेम वृष्टि हुइ तिहां जी, साढोबारे कोमि ॥ ज० ॥ १३ ॥ कहे सेठ तुमे स्युं दियो जी, कियो पारणो वीर ॥ लोकां प्रते इम कहे जी, में वहिराइ क्षीर ॥ ज० ॥ १४ ॥ राजा दिक सहूए कहे जी, धन२ पूरणसेठ ॥ ऊंची करणी तें करी जी, अवर सहू तुझ हेठ ॥ ज० ॥ १५ ॥ जीरणसेठ सुणे तवे जी, वा जित डुंडुन्निनाद ॥ अन्यत्र कियो प्रजु [illegible] मनमें थयो विषवाद ॥ ज० ॥ १६ ॥ हूं जगमें अन्नागियो [illegible] न आया सांम ॥ कल्पवृक्ष किम पामीये जी, मारूमंमल गांम ॥ ज० ॥ १७ ॥ जेता मनोरथ में किया जी, तेता रह्या मनमांहि ॥ निर धन जिम२ चिंतवे जी, तिम२ निरफल थाय ॥ ज० ॥ १८ ॥ स्वा मी तिहां कियो पारणो जी, कियो अन्यत्र विहार ॥ आया पास संतानिया जी [illegible] केवलधार ॥ ज० ॥ १ए ॥ वेशालापर

राजियो जी, लोकास्युं आणंद ॥ राय प्रश्न पूछे इस्यो जी, सुगुरु चरण अरविंद ॥ ज० ॥ २० ॥ मेरे नगरमें को अछे जी, जीव पुन्य जसवंत ॥ कहे केवली आज तो जी, जीरणसेठ महंत ॥ ज० ॥ २१ ॥ राय कहे किण कारणे जी, जीरणसेठ महंत ॥ दांन दियो जिन वीरने जी, पूरणसेठ महंत ॥ ज० ॥ २२ ॥ राय प्रते कहे केवली जी, पूरण दीनो दांन ॥ हेमवृष्टि फल तेहने जी, अवर न कोइ प्रमांण ॥ ज० ॥ २३ ॥ देवलोक तिण वारमें जी, जीरण बाल्यो बंध ॥ विना दांन दियां लह्यो जी, उत्तम फल संबंध ॥ ज० ॥ २४ ॥ घड़ी एक सुर दुंदुभि जी, जो न सुणंतो कान ॥ लहिनो जीरण तो सही जी, केवल अविचल ठांम ॥ ज० ॥ २५ ॥ राजा जीरणने दियो जी, अधिक मांन सनमांन ॥ मुकनगरमें थापियो जी, जोवो पुण्य प्रमाण ॥ ज० ॥ ॥ २६ ॥ दांन दियो सुपात्रने जी, ते निष्फल नवि जाय ॥ पात्रदांन अनुमोदना जी, जीरण जिम फल थाय ॥ ज० ॥ २७ ॥ इम जांणी अनुमोदना जी, दांन सुपात्र रसाल ॥ दांन देवे सुपात्रने जी, तेहने नमे मुनि माल ॥ ज० ॥ २८ ॥ इति श्रीवीर प्रभु पारणा संपूर्ण ॥

॥ अथ आलोयण जीवरासि खमावण पद्मावती लिख्यते ॥

॥ हिव राणी पद्मावती, जीवरास खमावे ॥ जांणपणो जग दोहिलो, इण जगतमें आवे ॥ ते मुझ मिच्छामिदुक्कडं ॥ १ ॥ अरिहंतनीसाख ॥ जे में जीव विराधिया, चोरासी लाख ॥ ते मु० ॥ २ ॥ सात लाख पृथवीतणा, साते अप्पकाय ॥ सात लाख तेऊकायना, साते वलि वाय ॥ ते० ॥ ३ ॥ दस प्रत्येकवनस्पती, चवदे लाख साधार ॥ बि ति चउरेंदी जीवना, बे बे लाख विचार ॥ ते० ॥ ४ ॥ देवता तिर्यंच नारकी, च्यार प्रकाशी ॥ चवदे लाख मनुष्यना, ए लाख चोरासी ॥ ते० ॥ ५ ॥ इणभव परभव

विया, जे पाप अढार ॥ त्रिविध२ करवोसरूं, दुरगति दातार ॥ तें०
॥ ६ ॥ हिंसा कीधी जीवनी, बोल्या मृषावाद ॥ दोष अदत्तादा
नना, मैथुन उनमाद ॥ ते० ॥ ७ ॥ परिग्रह मेल्यो कारमो, की
धो क्रोध विशेष ॥ मांन माया लोभ में कीया, वलि राग ने द्वेष
॥ ते० ॥ ८ ॥ कलह करी जीव दूहव्या, दीधा कूडा कलंक ॥ निं
द्या कीधो पारकी, रति अरति निस्संक ॥ ते० ॥ ९ ॥ चाडी की
धी चोतरे, कीधो थांपणमोसो ॥ कुगुरु कुदेव कुधर्मनो, भलो आं
एयो भरोसो ॥ ते० ॥ १० ॥ खाटकीने भव जे किया, जीवना
वध घात ॥ चिडीमार भव चिडकला, मारया दिन ने रात ॥ ते०
॥११॥ माछीगर भव माछला, झाल्या जलवास॥ धीवर भील कोली
भवे, मृग मारया पास ॥ ते० ॥ १२ ॥ काजी मुल्लाने भवे, पढी
मंत्र कठोर ॥ जीव अनेक जबे किया, कीधा पाप अघोर ॥ ते० ॥
१३ ॥ कोटवालभवमें किया, आकाराकर दंड ॥ वंदीवान मराविया,
कोरडा छडी दंड ॥ ते० ॥ १४ ॥ परमाधामीने भवे, दीधा नार
की दुख ॥ छेदन भेदन वेदना, ताडना, अति तिख ॥ ते० ॥१५
॥ कुंभारने भव में किया, निवाह पचाया ॥ तेलीभव तिल पि
लिया, पापे पेट भराया ॥ ते० ॥ १६ ॥ हालीने भव हल ख
डया, फाड्या पृथवी पेट ॥ सूडाने दान किया घणा, दीधा बलध
चपेट ॥ ते० ॥ १७ ॥ मालीने भव रोपिया, नानाविध वृक्ष, मूल
पत्र फूल फूलना, लागा पाप ते लक्ष ॥ ते० ॥ १८ ॥ आधोवाही
[illegible] या धका भार ॥ पोठी ऊंट कीडा पड्या, दया ना
णी, [illegible] ते [illegible] १९ ॥ छींपाने भव छेतरयो, कीधा रंगणपास
[illegible] नक, [illegible] घणा, धातुरवाद अभ्यास ॥ ते० ॥२०॥ सूर
[illegible] फलदा ॥ [illegible] मावास वृंद ॥ मदिरा मांस माखण भख्या,
[illegible] हलीने [illegible] ते० ॥ २१ ॥ खाणां खिणाई धातुनी, पाणी

आपणे आनक पहुतो जी ॥ पाटणमांहे सारथवाहू, हीमे तुरकने जोतो जी ॥ ए० ॥ १६ ॥ तुरके जातो दीठो गोठी, चोखा तिलक निलाम्हे जी ॥ संकेत पहुतो साचो जाणी, बोलावे बहु लामे जी ॥ ए० ॥ १७ ॥ मुज घर प्रतिमा तुजने आपूं, श्रीपास जिनेसर केरी जी ॥ पांचसे टक्का जो मुज आपे, तो मोल न मांगू फेरी जी ॥ ए० ॥ १८ ॥ नाणो देइ प्रतिमा लेइ, थानक पहुतो रंगे जी, केशर चंदन मृगमद घोली, विधसुं पूजा रंगे जी ॥ ए० १९॥ गादी रूम्ही रूनी कीधी, ते मांहि प्रतिमा राखे जी ॥ अनुक्रम आव्या पारकरमांहे, श्रीसंघने सुर साखे जी ॥ ए० ॥ २० ॥ उच्छव दिन २ धिका थाये, सत्तर भेद सनात्रो जी ॥ गांमरना दरसण करवा, लोक प्रजातो जी ॥ ए० ॥ २१ ॥

॥ दुहा ॥

दिन देखे अवधिसुं, पारकरपुरनो भंग ॥ जतन करूं तीरथ अठे अभंग ॥ २२ ॥ सुहणो आपे सेठने, थल, ॥ महिमा थास्ये अतिघणी, प्रतिमा तिहां पहुचाम्ह॥ केम तिहां अठे, तुजने मुजने जांण, संका ठेमी रीस कांण ॥ २४ ॥

ढाल ॥

वाहण एक वृषेभ जोतरे ॥ पार बीजे आरे ॥ २५ ॥ थारे कोश जीमनह [illegible] सेणो थइ, केम करूं प्रयाण, कुद तणो, मंम्हानं कि किद्दा, सिलावटो पकराज आनी इम

कहे ॥ २८ ॥ गूंहली ऊपर नाणो जिहां, गरथ घणो जाणीज तिहा ॥
स्वस्तिक सोपारी सहिनांण, पाहणतणी उलटस्ये खांण॥ २९ ॥
श्रीफल सजल तिहां किण जुउ, अमृत जल निसरिस्ये कूउ ॥ खा
राकूआनो इह सहनांण, भूमि पड्यो छे नीलो छाण ॥ ३० ॥ सि
लावटो सीरोही वसे, कोढ पराभवियो किसमिसे ॥ तिहांथकी तूं
इहा आणजे, सत्य वचन माहरो मांनजे ॥ ३१ ॥ गोठीनो मन
थिर थापियो, शिलाचटाने सुहणो दियो॥ रोग गमाडुं ने पूरुं आस,
पासतणो मंडे आवास ॥ ३२ ॥ सुपनमांहि मांन्यो ते वेण, हेम
वरण देखाड्यो नेण ॥ गोठी मनह मनोरथ हुआ, सिलावटेने गया
तेडवा ॥ ३३ ॥ सिलावटो आवे सूरमो, जीमे खीरखांड घृत चूरमो॥
घडे घाट करे कोरणी, लगन भले पाया रोपणी ॥ ३४ ॥ थंभ २
कीधी पूतली, नाटक कौतुक करती रली ॥ रंगमंडप रलियामणो
रसे, जोतां मानवनो मन वसे ॥ ३५ ॥ नीपायो पूरो प्राशाद, स्वर्ग
समो मंडे आवास ॥ दिवस विचारी डंडो घड्यो, ततखिण देवल
ऊपर चढयो ॥ ३६ ॥ शुभ लगन शुभ वेला वास, पवासण वेठा
श्रीपास ॥ महिमा मोटो मेरु समांन, एकलमल्ल [illegible] रहे वांन ॥
॥ ३७ ॥ वात पुरी मंगल स्थल [illegible], तवन [illegible] सांकली ॥
गोठीतणा गोतरिया [illegible] ॥

आत्मरक्षा स्तोत्रं लिख्यते

[illegible]रमेष्ठि नमस्कारं, सारं न[illegible] [illegible]ाम जपो निश दीश
[illegible]ा भस्मराम्यहं ॥ १ ॥ [illegible]शे नवे निधान ॥ [illegible] ॥
विघन वि[illegible], डुं न [illegible] लीला संपजे ॥ गौतम नामे
श्रीसंघने, देखाडे आणं, [illegible] २ ॥ जे वैरी विरुआ वंक
अरथ भंडार ॥ [illegible] नवि मंडे प्रांण, ते गौतम
नील पलाणे नील ॥ [illegible] निरमल काय, गौतम नामे
[illegible]चाट दिखावणहार [illegible] प्रति अपार, वोध[illegible] र. गौतम नामे जयकार.

॥ ढाल ४ ॥

चरण अढारतणो लहे नोग, विघन निवारे टाले रोग ॥ प
वित्र थइ समरे जे जाप, टाले सगला पाप संताप ॥ ४२ ॥ निर
धनने घर धननो सूत, आपे अपुत्रियाने पूत ॥ कायरने सूरापणो
धरे, पार उतारे लछी वरे ॥ ४३ ॥ दोन्नागीने दे सोन्नाग ॥ पग
विहुणाने आपे पाग ॥ गांम नही तेहने ये गांम ॥ मन वंछित पूरे
अन्निरांम ॥ ४४ ॥ निरधाराने घे आधार, नवसायर ऊतारे पार ॥
आरतियानी आरत नंग, धरे ध्यांन ते लहे सुरंग ॥ ४५ ॥ समरथां
साद दिये नकराज, जेहना मोटा अछे दिवाज ॥ बुद्धिहीनने बुद्धि
प्रकाश ॥ गूंगाने घे वचन विलास ॥ ४६ ॥ डुखियाले सुखनो दा-
तार, नयन्नंजण रंजण अवतार ॥ बंधन तूटे बेरूीतणा, श्रीपार्श्व
नाम अक्षर समरणा ॥ ४७ ॥

॥ दूहा ॥

श्रीपार्श्व नाम अक्षर जपे, विश्वानर विकराल ॥ हस्तियुद्ध
... टले, डुष्ट सींह सियाल ॥ ४८ ॥ चोरतणा नय चूकवे, विष
... ॥ विषधरना विष ऊतरे संग्राममे जय ... ॥ ४९ ॥
...ाग शोग ... करे दोहग दूर ... ॥ ...मसर श्रीपासनो, म-
हिमा ...

॥ ...ाल ॥

... वाह्णा एक वू...
... बीजो ऊ...रे ॥ श्रीपार्श्व अक्षर ज...
...ी मनार इकवीस गुणंतूं
... ताव एकंतरा डु...
... वाल मैवाऊखंते
... फोटका मोटका-
...ध्वान सियाल वि-

कराल दंते ॥ ५३ ॥ ॐ० ॥ धरणेंद्र पद्मावती समर सोज्ञावती, वाट आघाट अटवी अटंते ॥ लखमी लोंदो मिले सुजस वेला वले ॥ संयल आस्या फले मन हसंते ॥ ५४ ॥ ॐ० ॥ अष्ट महाज्जय हरे कांनपीमा टले ॥ ऊतरे शूल शीसग ज्ञणंते ॥ वदत वर प्रीतसुं प्रीतविमल प्रज्जु, श्रीपास जिण नांम अज्जिराम मंते ॥ ५५ ॥ इति श्रीगोमीपार्श्व जिन स्तवनं ॥

॥ अथ मंगलीक लिख्यते ॥

धम्मो मंगल मुक्किठं अहिंसा संजमो तवो ॥ देवा वितं नमं संति, जस्स धम्मे सयामणो ॥ १ ॥ जहा डुम्मस्स पुप्फेसु, ज्ञम आवि अइरसं ॥ नय पुप्फं किलामेइ, सोइ पीणेइ अप्पयं ॥ वती मस। वुत्ता, जे लोए संति साहुणो ॥ विहंगमाइ पु सदा रया ॥ ३ ॥ वयं च वि त्तिं लज्ञामो ॥ नहि मानुषोने इागमे सुरीयंते, पुप्फेसु ज्ञमरो जहा ॥ ४ ॥ नहि मुक्ति जे ज्ञवंति अणिस्सिया ॥ नाणापिंम रयादिंत ॥ ६ ॥ उदय वेमि ॥ ५ ॥ इति ॥ सर्व मंगल मांगल्यं, दास जांणी सर्वधर्माणां जैनं, जयति शाशनं॥ १ ॥ मं सरो आप तूग प्रज्जु ॥ मंगलं स्थलज्ञद्राद्या, जैनोधर्मों

॥ अथ आत्मरक्षा स्तोत्र लिख्यते ॥

ॐ नमो परमेष्ठि नमस्कारं, सारं न ांम जपो निश दीश शो नवे निधान ॥ ॥ रं वज्र, पंजरा ज्ञस्मराम्यहं ॥ १ ॥ लीला संपजे ॥ गौतम नामे शिर संस्थितं, ॐ न २ ॥ जे वैरी विरुआ वंक ॐ नमो आयरिआणं, नवि मंरू प्रांण, ते गौत याणं, आयुधं हस्त निरमल काय, गौतम नां चके पादयो शुन्ने ॥ प्रति अपार, बोध, र, गौतम नामे जय कार ४ ॥ सव पावप्पणास

बंसिं, खादिरंगार खातिका ॥ ५ ॥ स्वाहांतंच पदं ज्ञेयं, पढमं हवइ मंगलं ॥ वप्रो परिवज्जमयं, विधानं देहरक्षणे ॥ ६ ॥ महा प्रभावात् रक्षेयं, क्षुद्रोपद्रव नाशनी ॥ परमेष्ठि पदोद्भूता, कथिता पूर्वसूरिभिः ॥ ७ ॥ यश्चैवं कुरुते रक्षां, परमेष्ठी पदे सदा ॥ तस्य नस्याद्भयं व्याधि, राधि श्चापि कदाचनः ॥ ॥८॥ इति आत्मरक्षा० स्तोत्रं संपूर्ण ॥

॥ अथ नवकार स्तवनं ॥ (छंद)

आर ॥ सुखकारण भवियण समरो नित नवकार, जिनशाशन
साद गम चवदे पूरब सार ॥ इण मंत्रनी महिमा कहितां न लहुं
प्रकाश सुरतरु जिम चिंतित वंछितफल दातार ॥ १ ॥ सुर दानव
तार, भ सेव करे कर जोड, भूयमंडल विचरे तारे भवियण कोडि
नाम अक्षरे विलसे अतिशय जास अनंत, पहिले पद नमिये अरिहं
हंत ॥ २ ॥ जे पनरे भेदे सिद्ध थया भगवंत, पंचमि
श्रीपाळ अष्ट कर्म करि अंत ॥ कल अकल सरूपी पंचानंतक
टले, डुंगर ना पाय प्रणमुं बीजे पद वलि एह ॥ ३ ॥ गच्छभार
त भरुकार ॥ देशशिहर शोभ, कर शारणवारण गुण छत्तीसे थोभ
शोग ना शिरोमण सागर जेम गंभीर, तीजे पद नमिये आ
हिमा ४ ॥ श्रुतधर गुण आगम सूत्र भणावे सार,
अरथ विचार ॥ मुनिवर गुणयुत्ता ते क
॥ नमिये अ ...श तेहना पाय ॥ ५ ॥ पं
आरी वारी विषय विकार
त्रिविधे ते प्रणमूं परम
२ डाइण भूत वेताल,
। समरयां संकट दूर ट
...रीस रसाल ॥ ७ ॥

॥ अथ श्री संखेश्वरा पार्श्वनाथ स्तवनं ॥ (छंद)

॥ शेवो पास संखेसरो मन सुद्धे, नमूं नाथ निश्चे करी एक वुधे ॥ देवी देवता अन्यने शुं नमो छो, अहो भव्य लोको भुला कां भमो छो ॥ १ ॥ त्रैलोक्यना नाथने सुं तजो छो, पड्या पाश मे भूतफाने भजो छो ॥ सुराधेनु छंडी अजाने अजो छो, महापंथ मूंकी कुपंथे व्रजो छो ॥ २ ॥ तजे कोण चिंतामणी काच माटे, ग्रहे कोण राशभने हस्ति साटे ॥ सुरद्रुम ऊपाडने आक वावे, महामूढ ते आकुला अंत पावे ॥३॥ किहां काकरोने जे किहां मेरु श्रृंग, किहां केशरीने किहां ते कुरंग ॥किहां विश्वनाथं किहां अन्य देवा, करो एक चित्ते प्रभु पार्श्व सेवा ॥ ४ ॥ पूजो देव प्रभावती प्राणनाथं, सहू जीवने करे सह सनाथं ॥ महातत्व जाणी सदा जेह ध्यावे, तेहना दुख दालिद्र दूरे गमावे ॥५॥ पामी मानुषोने वृथा क्यु गमो छो, कुशीले करी देहने कां दमो छो, नहि मुक्ति वासं विना वितरागं [illegible] गुणवंत तजो दृष्टिरागं ॥ ६ ॥उदय रत्न भाखे सदा [illegible] [illegible] गुता ए॥ राव कीजे मोहि दास जांणी ॥ मोरे आज मे [illegible] नमूदना बंधु पास संखेसरो आप तूठा ॥ ७ ॥ इ [illegible]

[illegible] म रास लिख्यते ॥

[illegible] घर [illegible] ॥ व [illegible] शील गोतम नांम जपो निश दीश [illegible] बित [illegible] वलशे नवे निधान ॥ १ ॥ [illegible] जो कीजे [illegible] ग ॥ [illegible] लीला संपजे ॥ गौतम नांमे [illegible] प्रेत [illegible] तम नांमे [illegible] २ ॥ जे वैरी विरुआ वंक [illegible] नामे तावे रोग, [illegible] नवि मंरू प्रांण, ते गौत[illegible] [illegible] रा, तसनांमे [illegible] निरमल काय, गौतम नां[illegible] [illegible] ना करूं वखा[illegible] [illegible] वाधे आय ॥ [illegible] कृत अति अपार, बोध[illegible]र, गौत[illegible] नांमे जय२कार.

॥ ४ ॥ शालं दाल सदा घृत घोल, मनवंछित कप्पम्ड तंबोल ॥ ई
घरे सुघरणी निरमल चित्त, गौतम नांमे पूत्र विनीत ॥ ५ ॥ गौ
तम उदयो अविचल भांण, गौतम नांम जपो जगजांण ॥ मोटा
मंदिर मेरु समान, गौतम नांमे सफल विहाण ॥ ६ ॥ घर मयगल
घोमानी जोम, वारू विलसे वंछित कोमि ॥ महियल मांने मोटा
राय जो तूठे गौतमना पाय ॥ ७ ॥ गौतम प्रणम्यां पातिक टले, उत्तम
नरसी संगत मिले ॥ गौतम नांमे निर्मल ज्ञान, गौतम नांमे वाधे वान
॥८॥ पुण्यवंत अवधारो सहू, गुरु गौतमना गुण छे वहू ॥ कहे ला
वण्य समय कर जोमि, गौतम तूठा संपत कोमि ॥९॥ इति पदं ॥

॥ अथ शील शती छंद ॥

आदिनाथ आदि देइ जिनवर वांदी, सफल मनोरथ कीजिये
ए॥ प्रभात उठी मंगलीक काजे शोले शती नांम लीजिये ए॥ १ ॥
बालकुमारी जगहितकारी, ब्राह्मी भरतनी वहिनमी ए ॥ घट २
व्यापक अक्षररूपे शोल शती मांहि जे वमी ए ॥ २ ॥ बाहुबल
भगनी सतिय शिरोमणि, सुंदरी नांमे ऋषभ सुता ए ॥ अंग स्व
रूपी त्रिभुवनमांहे, जेह अनोपम गुणयुता ए ॥ ३ ॥ चंदनबाला
बालपणेथी शीलवती शुद्ध श्राविका ए, उमदना व[illegible] वीर प्रति
लाभ्या, केवल लहि व्रत भाविका ए ॥ ४ [illegible] सूत्र भ धारणी
नंदन राजेमती नेम वल्ल[illegible] ए, योवन [illegible] मुनिवर गुण[illegible]र, शंजम
लेइ देव हुआ ना ए ॥ ५ ॥ [illegible] अह निश तेहना पाय[illegible]दा नांम
वखाणिये ए, एकशो आठे [illegible] भारी वारी [illegible]स जाणि
ये ए ॥ ६ ॥ दशरथ नृपनी [illegible] त्रिविधे ते [illegible] वंदिका ए,
[illegible]ल सलूणी रांम जनीता [illegible] माइ [illegible] ॥ ७ ॥ कौशं
[illegible] ठांन शतानिक ना[illegible] र [illegible] लमर[illegible] ए, तस घर घ
[illegible]ी मगानती [illegible] [illegible]ीस रस [illegible] ॥ ८ ॥ सुलशा

साची शील न काची राची नही विषयारसें ए, मुखमो जोतां पाप पुलाये नाम लेतां मन उल्लसे ए ॥ ए ॥ राम रघुवंशी जेहनो कामण जनकसुता शीता शती ए, जग सहू जांणे धीज करंता अनल शीतल थयो शीलथी ए ॥ १० ॥ काचे तांतण चालणी बांधो कूवाथकी जल काढियो ए, कलंक उतारवा शतिय सुजद्रा चंपा बार उघाडियो ए ॥ ११ ॥ सुरनर वंदित शील अकंपित शिवा शिवपद गांमनी ए ॥ जेहने नामे निरमल थइये बलिहारी तसु नांमनी ए ॥ १२ ॥ हस्तिनागपुर पांमवरायनी कूंता नांमे कामनी ए, पांमव माता दशे दशारनी, बहिन पतिव्रता पदमनी ए ॥ १३ ॥ शीलवती नामें शीलव्रत धारणी, त्रिविधे तेहने वंदीये ए ॥ नांम जपता पातिक जाए, दरसन डुरित निकंदि ए ॥ १४ ॥ निषधानगरी नल नरपतनी, दवदंती तसु गेहनी, ए संकट पमियां शीलज राख्यो, त्रिजुवन कीर्त्ति जेहनी ए ॥ १५ ॥ अनंग अजीता जगजन जीता, पुष्पचूला ने प्रज्ञावती ए ॥ विश्व विख्याता कामित दाता, शोलमी शती पद्मावती ए ॥ १६ ॥ वीरे दाखी शास्त्र ठे साखी, उदयरत्न जापे मुदा ए ॥ प्रह उठीने जे नर जणसे, ते लहिस्ये सुख संपदा ए १७

॥ अथ गौतम मंगल लिख्यते ॥

जय २ मंगलनिधान गौतम जयकारी ॥ ज० ॥ इक्ष्वीकुल रत्नहीर, विश्वजूति पितु सधीर ॥ च्यार वेद चतुरवीर मन्मथ अचतारी ॥ ज० ॥ १ ॥ [illegible] रंग विप्र संग, नृप्रा सुरलोक गंग ॥ करत धरत गात्र पात्र, विरुद विबुधचारी ॥ ज०॥ २ ॥ विचरत प्रजु आये चंग, वाणी गुण सप्त जंग ॥ वर्ज्जे नीर, अणगल [illegible] तम हारी ॥ ज० ॥ ३ ॥ देवागम त्रि[illegible], अतिचार सघला [illegible] वीतराग वचन पेख, मिथ्यामत टारी [illegible], परहरजे खार इम को[illegible] अंग बार, रचना कृत अति अपार, बोध[illegible], से[illegible] किम उपम दी.

गणधारी ॥ ज० ॥ ५ ॥ केवल चिद सरस पीन, मुक्ति लक्ष्मी धरम लीन ॥ मुनि मन जल चरण मीन, कुंदन द्युति सारी ॥ ज० ॥ ६ ॥ सिद्धियोग नंद चंद, कार्त्तिक शित संघ वृंद ॥ फूलत घर कल्प कंद, दूज कुमति हारी ॥ ज० ॥ ७ ॥ गुणशीलपुर देवमणी इंद्रभूति जगधणी ॥ कुशल निधान सुख भणी, पाठक ऋद्धिसारी ज० ॥ ८ ॥

॥ अथ मुनिवेष संबंधे पद लिख्यते ॥

॥ म्हांने प्यारो लागे छे जी मुनिवर भेस ॥ म्हांने० हाथ लकडिया कांधे कंबलिया, शिर शोभित तनु केश म्हा० ॥ १ ॥ चोलपट्ट चादर पांगरणी, उज्जल रहत हमेश ॥ म्हा० ॥ २ ॥ जयणा कर मुखपत्ती धारक, रजोहरण सविसेस, म्हां० ॥ ३ ॥ थिवरकलप जिनमुद्राधारी ॥ काटत कर्म कलेश ॥ म्हां० ॥ ४ ॥ दे उपदेश भविक जनतारक, तमहर प्रगट दिनेश ॥ म्हां० ॥ ५ ॥ करत रामऋद्धिसार वंदना, निरखत एसो भेस ॥ म्हां० ॥ ६ ॥ इति पदं ॥

॥ अथ अरिहंत स्तवनं पद ॥

॥ राग नाटक ॥

॥ जबसे सरधा शुद्ध भई, मन अरिहंत२ ध्याते हे ॥ अरिहंत ध्यावत गुणगण पावत कर्म रहित हो जाते हे ॥ १ ॥ जय २ जय२ श्रीजगदीश्वर, शंकर ब्रह्म कहाते हे ३ सहजानंदी जगत उधारण, सुरनर चरण लुभाते हे ॥ सब देव मिल त्रिगढ रचाते, अपवर मंगल धुनि गाते हे ॥ देवदुंदुभि नाद बजाते हे, धर्म केते हे सुख लेते हे ॥ भविक जीव तिर जाते हे, जो निश्चय मनमें लाते हे ॥ दशरथ नृपके ऋद्धिसार, तूं आधार प्रभु मोहे तार ॥ ज०

[illegible] सलूणी रांम जनीता [illegible] करणोनी सज्झाय ॥

[illegible] गांमे शतानिक नामे, तुं [illegible] परभात, चार घडी ले पाळजी [illegible] कार; जेम पामे भव सायर पार ॥ १ ॥

कवण देव कवण गुरुधर्म, कवण अमारुं छे कुलकर्म, कवण अमारो छे व्यवसाय, एवुं चिंतवजे मन माय ॥ २ ॥ सामायिक लेजे मन शुद्ध, धर्मनी हैडे धरजे बुध ॥ पडिक्कमणुं करे रयणी तणु, पातक आलोई आपणुं ॥ ३ ॥ कायाशक्ते करे पच्चख्खाण सूधि पाले जिननी आण ॥ भणजे गणजे स्तवन सज्झाय, जिणहुंती निस्तारो थाय ॥ ४ ॥ चितारे नित्य चउदे नीम, पाले दया जीवतां सीम ॥ देहरे जाइ जुहारे देव, द्रव्यभावथी करजे सेव ॥ ५ ॥ पोषालें गुरु वंदन जाय, सुणो वखाण सदा चित्त लाय ॥ निर्दूषण सूजतो आहार, साधुने देजे सुविचार ॥ ६ ॥ साहम्मीवत्सल करजे घणां, संगपण महोटा साहम्मीतणां ॥ दुःखीया हीणा दीना देखि, करजे तास दया सुविशेष ॥ ७ ॥ घर अनुसारें देजे दान, महोटाशुं म करे अभिमान ॥ गुरुने मुखे लेजे आखडी, धर्म न मूकीश एके घडी ॥ ८ ॥ वारु शुद्ध करे व्यापार, ओछा अधिकानो परिहार ॥ म भरिशकेनी कूडी साख, कूडा जनशुं कथन म भाख ॥ ९ ॥ अनंतकाय कहिये बत्रीश, अभक्ष्य बाविशे विश्वावीश ॥ ते भक्षण नवि कीजें किमे, काचां कवला फल मत जिमे ॥ १० ॥ रात्रिभोजनना बहु दोष, जाणीने करजे संतोष ॥ साजी साबू लोह ने गुली, मधु धावडी मत वेचो वली ॥ ११ ॥ वली म करावे रंगण पास, दूषण घणां कह्यां छे तास ॥ पाणी गलजे बेबे वार, अणगल पीतां दोष अपार ॥ १२ ॥ जीवाणीनां करजे यत्न, पातक छंडी करजे पुण्य ॥ छाणां इंधण चूले जोय, वावरजे जिम पाप न होय ॥ १३ ॥ घृतनी परें वावरजे नीर, अणगल नीर म धोइश चीर ॥ ब्रह्मव्रत सूधुं पालजे, अतिचार सघला [illegible] तणु ॥ १४ ॥ कह्यां पन्नरे कर्मादान, पापतणे, परहरजे खाण इम कांइ म लेजे अनरथ दंड, मिथ्या मेल म भां, मेण्ड[illegible] किम उपम दी

त शुद्ध हैये राखजे, बोल विचारीने भाखजे ॥ पांच तिथि म करो आरंभ, पालो शीयल तजो मन दंभ ॥ १६ ॥ तेल तक्र घृत दूध ने दहिं, छघामां मत मल सही ॥ उत्तम ठामें खरचो वित्त, पर उपगार करो शुभचित्त ॥ १७ ॥ दिवस चरिम करजे चोविहार, चार आहार तणो परिहार । दिवस तणां आलोए पाप, जिम भां जे सघला संताप ॥ १८ ॥ संध्यायें आवश्यक साचवे, जिनवर चरण शरण भव भवें ॥ चारे शरण करी दृढ होय, सागारी अणसण ले सोय ॥१९॥ करे मनोरथ मन एहवा, तीरथ शत्रुंजे जावा ॥ समेतशिखर आबू गिरनार, भेटीश हुं धन धन अवतार ॥ ॥२०॥ श्रावकनी करणी छे एह, एहथी थाये भवनो छेह ॥ आठे कर्म पडे पातलां, पाप तणा छुटे आमला ॥ २१ ॥ वारु लहियें अमर विमान, अनुक्रमें पामे शिवपुरधाम ॥ कहे जिनहर्ष घणे ससनेह, करणी दुःखहरणी छे एह ॥२२॥ इति श्रावकनी करणीनी स० ॥

॥ अथ गौतम स्वामीनो रास लिख्यते ॥

॥ वीर जिणेसर चरण कमल कमलाकय वासो, पणमवि पभणिसुं सामी साल गोयम गुरुरासो ॥ मणतणु वयणे एकंत करवि निसुणहु भो भविया, जिम निवसे तुम देह गेह गुण गण गहगहिया ॥ १ ॥जंबूदीव सिरिभरहखित्त खोणी तल मंडण, मगहदेस सेणियनरेस रिउदल बलखंडण ॥ धणवर गुब्बर गाम नाम जिहां गुणगणसज्जा, विप्प वसे वसुभूइ तत्थ तसु पुहवी भज्जा ॥२॥ ताणपुत्त सिरिइंद भूय भूवलयपसिद्धो, चवदह विज्जा विविहरूव नारी रस लुद्धो ॥ विनय विवेक विचार सार गुण गणह मनोहर, सात हाथ सुप्रमाणदेह रूवहि रंभावर ॥ ३ ॥ नयणवयण कर चरण तणि ठांन दातजलपामिय, तेजे तारा चंद सूरि आकास भमाडिय, रूवी मगालनी अनंग [illegible] मेल्ह्यो निरधाडिय, धीरम मेरु गंभी

र सिंधु चंगम चयचाम्यि ॥ ४ ॥ पेखवि निरुवम रूव जास जण जंपे किंचिय, एकाकी किल जीत इत्र गुण मेल्या संचिय ॥ अह वा निच्चयपुव्व जम्म जिणवर इण अंचिय, रंजा पउमा गवरि गंग रतिहां विधि वंचय ॥ ५ ॥ नय बुध नय गुर कविण कोय जसु आगल रहियो, पंचसयां गुण पात्र गात्र हींडे परवरिया ॥ करय निरंतर यज्ञ करम मिथ्यामति मोहिय, अणचल होसे चरमनाण, दंसणह विसोहिय ॥ ६ ॥ वस्तु ॥ जंबूदीव जंबूदीव जरह वासंमि खोणीतल मंमण, मगह देस सेणिय नरेसर, वरगुबरगाम तिहां, विप्प वसे वसजूइ, सुंदर तसु पुहवि जज्जा, सयलगुणगणरूवनिहा ण, ताणपुत्त विज्जानिलो, गोयम अतिही सुजाण ॥७॥ जास ॥ चरम जिनसर केवलनाणी, चोविहसंघ पइठा जाणी॥ पावा पुर सामी संपत्तो, चउविह देव निकायाहें जुत्तो ॥ ८ ॥ देवहि समवसरण तिहां किजे, जिण दीठे मिथ्यामत छीजे ॥ त्रिजुवनगुरु सिंहास सन बेठा, ततखिण मोह दिगंत पइठा ॥ ए ॥ क्रोध मान माया म दपूरा, जाये नाठा जिम दिनचोरा ॥ देव डुंडुजि आगासें वाजी, धरम नरेसर आव्यो गाजी ॥ १० ॥ कुसुमवृष्टि अरचे तिहां देवा, चउसठ इंज्ज मागे सेवा ॥ चामर छत्र सिरोवरि सोहे, रूवहिं जि नवर जग सहु मोहे ॥ ११ ॥ उपसम रसजर वरवरसंता, जोज नवाणि वखाण करंता ॥ जाणवि वर्द्धमान जिण पाया, सुर नर किन्नर आवइ राया ॥ १२ ॥ कंत समोहियजलहलकंता, गयणं विमाणहिं रणरणकंता ॥ पेखवि इंदजूइ मन चिंते, सुर आवे अंम यज्ञ हुवंते ॥ १३ ॥ तीरतरंडक जिम ते वहिता, समवसरण पुहता गहगहिता ॥ तो अजिमानें गोयम जंपे, इण अवसर कोपें तणु कंपे ॥ १४ ॥ मूढा लोक अजाण्युं बोले, सुर जाणंता इम कांइ मोले ॥ मो आगल कोइ जाण जणीजें, मेरु अवर किम उपम दी

जं ॥१५॥ वस्तु ॥ वीर जिणवर विर जिणवर नाण संपन्न पावापुरसुर महिय, पत्तनाह संसारतारण ॥ तिहिं देवइ निम्मविय, समवसरण बहु सुख्क कारण ॥ जिणवर जग उज्जोय करे, तेजहि कर दिन कार सिंहासण सामी ठव्यो, हुउ तो जयजयकार ॥ १६ ॥ भास ॥ तो चढियो घणमाण गजे, इंदभूय भूयदेव तो ॥ हुंकारो करसं चरिय, कवणसु जिणवर देव तो ॥ जोजन भूमि समोसरण, पे खवि प्रथमारंभ ॥ तो दहदिस देखे विबुधवधू, आवंती सुररंभ तो ॥ १७ ॥ मणिमय तोरणदंम ध्वज, कोसीसे नवघाट तो ॥ वयरवि वर्जितजंगुगण, प्रातीहारिज आठ तो ॥ सुर नर किन्नर असुरवर, इंद इंद्राणी राय तो ॥ चित्त चमक्किय चिंतव ए, सेवंतां प्रभु पाय तो ॥ १८ ॥ सहस्स किरण सामो वीरजिण, पेखिअ रूप विसाल तो ॥ एह असंभव संभव ए, साचो ए इंद्र जाल तो ॥ तो बोला वइ त्रिजग गुरु, इंदभूइ नामेण तो ॥ श्रीमुख संसा सामि सवे, फेरू वेदपएण तो ॥ १९ ॥ मान मेल मद ठेल करे, भगतहिं ना म्यो सीस तो ॥ पंच सयांसूं व्रत लियो ए, गोयम पहिलो सीस तो ॥ बंधव संजम सुणवि करे, अगनिभूइ आवेय तो ॥ नाम लेइ आभास करे, ते पण प्रतिबोधेय तो ॥२०॥ इण अनुक्रम गणहररयण, थाप्या वीर इग्यार तो ॥ तो उपदेसे भुवन गुरु, संयमशुं व्रत बार तो ॥ बिहुं उपवा सें पारणो ए, आपणपें विहरंत तो गोयम संयम जग सयल, जय जय कार करंत तो ॥ २१ ॥ वस्तु ॥ इंदभूइ इंदभूइ चढियो बहुमान हुंकारो करि कंपतो, समवसरण पहुतो तुरंतो ॥ जे संसा सामि स वे, चरमनाह फेरू फुरंततो ॥ बोधबीज सज्जायमनें, गोयम भवहि विरत्त ॥ दिख्क लेई सिख्का सही, गणहरपयसंपत्त ॥ २२ ॥ भास ॥ आज हुउ सुविहाण, आज पचेलिमां पुण्य भरो ॥ दीठा गोयम सामि, जो नियनयणें अमिय झरो ॥ समवसरण मझार, जे जे

संसा ऊपजे ए ॥ ते ते पर उपगार, कारण पूछे मुनि पवरो ॥२३॥ जीहां दीजें दीख, तिहां केवल उपजे ए ॥ आप कनें अणहुंत, गोयम दीजें दान इम ॥ गुरु उपर गुरु नक्ति, सामी गोयम ऊपनिय ॥ अणचल केवल नाण, रागज राखे रंग नरे ॥ २४ ॥ जो अष्टा पद सेल, वंदे चढ चउवीस जिण ॥ आतम लब्धि वसेण, चरम सरीरी सोज मुनि ॥ इय देसणा निसुणेइ, गोयम गणहर संचरिय ॥ तापस पन्नरसएण, जो मुनि दीठो आवतो ए ॥२५॥ तपसोसि यनिय अंग, अह्मां सगति न ऊपजे ए ॥ किम चढसे दृढ काय, गज जिम दीसे गाजतो ए ॥ गिरुउ ए अनिमान, तापस जो मन चिंतवे ए ॥ तो मुनि चढियो वेग, आलंबवि दिनकर किरण ॥ २६ ॥ कंचण मणि निप्पन्न, दंम कलस ध्वज वम सहिय॥ पेखवि परमाणंद, जिणहर नरतेसर महिय ॥ निय निय काय प्रमाण, चिहुं दिसि संठिय जिणह बिंब ॥ पणमवि मन उल्लास, गोयम गणहर तिहां वसिय ॥ २७ ॥ वयर सामीनो जीव, तिर्यकजृंनक देव तिहां ॥ प्रति बोध्या पुंमरीक, कंमरीक अध्ययन नणी ॥ वलता गोयम सामि, सवि तापस प्रतिबोध करे ॥ लेई आपण साथ, चाले जिम जूथाधिपति ॥ २८ ॥ खीर खांम घृत आण, अमीय वूठ अंगूठ ठवे ॥ गोयम एकण पात्र, करावे पारणो सवे ॥ पंचसयां शुन्न नाव, उज्जल नरियो खीर मिसे ॥ साचा गुरुसंयोग, कवल ते केवल रूप हुआ ॥ २९ ॥ पंचसयां जिणनाह, समवसरण प्राकारत्रय ॥ पेखवि केवल नाण, उप्पन्नो उज्जोय करे ॥ जाणे जणवि पीयूष, गाजंती घन मेघ जिम ॥ जिनवाणी निसुणेवि, नाणी हुया पंचसया ॥ ३० ॥ वस्तु ॥ इण अनुक्रम इण अनुक्रम नाण संपन्न, पन्नरसें, उपन्न परिवरिय, हरिउरिय जिणनाह वंदइ, जाणेवी जगगुरु वयण, तिहिं नाण अप्पाण निंदइ, चरमजिनेसर इम नणे,

गोयम म करिस खेव, छेह जाय आपण सही, होस्यां तुल्ला वेव ॥ ३१ ॥ भास ॥ सामियो ए वीर जिणंद, पूनमचंद जिम उल्ल सिय ॥ विहरियो ए भरहवासंमि, वरस बहुत्तर संवसिय ॥ ठव तो ए कणय पउमेण, पायकमल संघें सहिय ॥ आवियो ए नय णाणंद, नयर पावापुर सुरमहिय ॥ ३२ ॥ पेखयो ए गोयमसामि, देवसमा प्रतिबोध करे ॥ आपणो ए तिसलादेवि, नंदन पुहतो पर मपए ॥ वलतो ए देव आकाश, पेखवि जाणयो जिण समे ए ॥ तो मुनि ए मनविखवाद, नादभेद जिम ऊपनो ए ॥ ३३ ॥ इण समे ए सामिय देखि, आपकनासूं टालियो ए ॥ जाण तो ए तिहु अण नाह, लोक विवहार न पालियो ए ॥ अतिभलो ए कीधलो सामि, जाण्यो केवल मागसे ए ॥ चिंतव्यो ए बालक जेम, अहवा केडें लागसे ए ॥ ३४ ॥ हूं किम ए वीर जिणंद, भगतहिं भोलें भोलव्यो ए ॥ आपणो ए उंचलो नेह, नाह न संपे साचव्यो ए ॥ साचो ए ए वीतराग, नेह न हेजें टालियो ए ॥ तिणसमे ए गो यम चित्त, राग वैरागें वालियो ए ॥ ३५ ॥ आवतो ए जो उल्लट्ट, रहितो रागें साहियो ए ॥ केवल ए नाण उप्पन्न, गोयम सहिज उमाहियो ए ॥ तिहुअण ए जयजयकार, केवल महिमा सुर करे ए ॥ गणधरु ए करय वखाण, भवियां भव जिम निस्तरे ए ॥ ३६ ॥

॥ वस्तु ॥ पढम गणहर पढम गणहर वरस पच्चास, गिहवासें सं वसिय तीसवरससंजम विभूसिय, सिरि केवलनाणपुण, बार वरस तिहुअण नमंसिय, राजगृही नयरी ठव्यो, बाणवइ वरसाउ, सामी गोयम गुणनिलो, होसे सिवपुर ठाउ ॥ ३७ ॥ भास ॥ जिम सह कारें कोयल टहुके, जिम कुसुमावन परिमल महके, जिमचंदन सो गंधनिधि ॥ जिमगंगाजल लहिरयां लहके, जिम कणयाचल तेजें झ लके, तिम गोयम सोभागनिधि ॥ ३८ ॥ जिम मानसरोवर निवसे

हंसा, जिम सुरतरुवर कणयंय तंसा, जिम महुयर राजीववनें ॥ जिम रयणायर रयणें विलसे, जिम अंबर तारागण विकसे, तिम गोयम गुरु केवल घने ॥ ३९ ॥ पूनमनिसि जिम ससियर सोहे, सुरतरु महिमा जिम जगमांहे, पूरव दिसि जिम सहसकरो ॥ पंचानन जिम गिरिवर राजे, नर वइ घर जिम मेगल गाजे, तिम जिनशासन मुनि पवरो ॥ ४० ॥ जिम गुरु तरुवर सोहे साखा, जिम उत्तम मुख मधुरी ज्ञाषा, जिम वन केतकि महमहे ए ॥ जिम ज्रूमीपती जुयबल चमके, जिम जिनमंदिर घंटा रणके, गोयमलबधें गहगह्यो ए ॥ ४१ ॥ चिंतामणि कर चढीयो आज, सुरतरु सारे वंछिय काज, कामकुंज्ञ सहु वशि हुआ ए ॥ कामगवी पूरे मन कामी, अष्टमहासिद्धि आवे धामी, सामी गोयम अणुसरी ए ॥ ॥ ४२ ॥ पणवस्कर पहिलो पज्ञणी जें, माया बीजो श्रवण सुणीजें ॥ श्रीमिति सोज्ञा संज्ञवो ए ॥ देवां धुर अरिहंत नमीजें, विनय पहू उवज्झाय थणीजें, इण मंत्रें गोयम नमो ए ॥ ४३ ॥ परघर वसतां काय करीजें, देस देसांतर काय ज्ञमी जें, कवण काज आयास करे ॥ प्रह ऊठी गोयम समरीजें, काज समग्गल ततखिण सीझे, नवनिधि विलसे तिहां घरे ए ॥ ४४ ॥ चवदयसय बारोत्तर वरसें, गोयम गणहर केवल दिवसें, कीयो कवित उपगारपरो ॥ आदहिं मंगल ए पज्ञणीजें, परव महोछव पहिलो दीजें, रिद्धि वृद्धि कल्याण करो ॥ ४५ ॥ धन माता जिण उयरें धरियो, धन्य पिता जिण कुल अवतरियो, धन्य सुगुरु जिण दीखियो ए ॥ विनयवंत विद्या ज्ञंडार, तसु गुण पुहवी न लब्नइ पार, वड जिम साखा विस्तरो ए ॥ गोयमस्वामीनो रास ज्ञणीजें, चउविह संघ रलियायत कीजें, रिद्धिवृद्धि कल्याण करो ॥ ४६ ॥ कुंकुम चंदन उडो दिवरावो, माणक मोतीना चोक पूरावो, रयण सिंहासण बेस

णो ए ॥ तिहां बेठी गुरु देशना देशी, भविक जीवना काज सरेसी; नित नित मंगल उदय करो ॥ ४७ ॥ इति श्रीगोतम स्वामीनो रास संपूर्ण ॥

॥ राग प्रभाती जे करे, प्रह ऊगमते सूर ॥ भूख्यां भोजन संपजे, कुरला करे कपूर ॥ १ ॥ अंगूठे अमृत वसे, लब्धि तणा भं मार ॥ जे गुरु गोतम समरियें, मनवंछित दातार ॥ २ ॥ पुं मरीक गोयम पमुहा, गणधर गुण संपन्न ॥ प्रह ऊठीनें प्रणमतां, चवदसे बावन्न ॥ ३ ॥ खंतिखमंगुणकलियं, सुविणियं सव्वलद्धि सं पन्नं ॥ वीरस्स पढम सीसं, गोयम सामी नमंसामि ॥ ४ ॥ सर्वा रिष्टप्रणाशाय, सर्वाभिष्टार्थदायिने ॥ लब्धि निधानाय, गोतमस्वा मिने नमः ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ सेत्रुंज रास लिख्यते ॥

॥ दूहा ॥

॥ श्रीरिसहेसर पाय नमी, आणी मन आनंद ॥ रास भ णूं रलियामणो, सेत्रुंजनो सुखकंद ॥ १ ॥ संवत च्यार सत्तोतरे, हुं आ धनेश्वर सूर ॥ तिण सेत्रुंज माहातम कियो, शिलादित्य हजूर ॥ २ ॥ वीर जिणंद समवसरया, सेत्रुंज ऊपर जेम ॥ इंद्रादिक आ गल कह्यो, सेत्रुंज महातम एम ॥ ३ ॥ सेत्रुज तीरथ सारिखो, नही छे तीरथ कोय ॥ स्वर्ग मृत्यु पातालमें, तीरथ सगला जोय ॥ ४ ॥ नांमे नव निध संपजे, दीठां दुरित पुलाय ॥ भेटंतां भव भय टले, सेवंता सुख थाय ॥ ५ ॥ जंबू नामे दीप ए, दक्षिण भरत मझार ॥ सोरठ देस सुहामणो, तिहां छे तीरथ सार ॥ ६ ॥

॥ ढाल पहिली ॥ राग रामगिरी ॥

॥ सेत्रुंजा ने श्रीपुंमरीक, सिद्धक्षेत्र कहूं तहतीक ॥ विम लाचलने करूं प्रणाम, ए सेत्रुंजेना इकवीस नाम ॥ १ ॥ सुरगिरि

ने महागिरि पुन्यरास, श्रीपदपर्वत इंद्रप्रकास ॥ महातीरथ पूरवे सुखकांम ॥ ए० ॥ २ ॥ सासतो पर्वत ने दृढशक्ति; मुक्तिनिलो तिण कीजे भक्ति ॥ पुष्पदंत महापद्म सुठांम ॥ ए० ॥ ३ ॥ पृथ्वीपीठ सुभद्र केलास, पातालमूल अकर्मक तास ॥ सर्व काम कीजे गुणग्रांम ॥ ए० ॥ ४ ॥ श्रीसेत्रुंजना इकवीस नांम, जपेज बेठा अपने ठांम ॥ सेत्रुंज जात्रातो फल ते लहे, महावीर भगवंत इम कहे ॥ ए० ॥ ५ ॥

॥ दुहा ॥

॥ सेत्रुंजो पहिले अरे, असी जोयण परिमांण ॥ पिहुलो मूल ऊंचपण, छवीस जोयण जांण ॥ १ ॥ सत्तर जोयण जांणवो, बीजे अरे विसाल ॥ बीस जोयण ऊंचो कह्यो, मुझ वंदना त्रिकाल ॥ २ ॥ साठ जोयण तीजे अरे, पिहुलो तीरथराय ॥ सोल जोयण ऊंचो सही, ध्यांन धरूं चित्त लाय ॥ ३ ॥ पचास जोयण पिहुलपण, चोथे अरे मझार, ऊंचो दस जोयण अचल, नित प्रणमें नर नार ॥ ४ ॥ बार जोयण पंचम अरे, मूलतणो विसतार ॥ दो जोयण ऊंचो अछे, सेत्रुंजो तीरथ सार ॥ ॥ ५ सात हाथ छठे अरे, पिहुलो परबत एह ॥ ऊंचो होस्ये सो धनुष, सासतो तीरथ एह ॥ ६ ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ केवलनांणी प्रमुख तीर्थंकर, अनंत सीधा इण ठांम रे ॥ अनंत वली सिझस्ये इण ठामे, तिण करूं नित परणाम रे ॥ १ ॥ सेत्रुंजसाधू अनंता सीधा, सीझसी वलिय अनंत रे ॥ जिण सेत्रुंज तीरथ नही भेट्यो, तेगरभावास कहंत रे ॥ से० ॥ २ ॥ फागुण सुदि आठमने दिवसे, ऋषभदेव सुखकार रे ॥ रायणरूंख समोसरया स्वांमी, पूर्व निनाणूं वार रे ॥ से० ॥ ३ ॥ भरतपुत्र चैत्री पुनम दिन, इण सेत्रुंजगिरि आय रे ॥ पांच कोडीसुं पुंडरीक सीधा, ति

ण पुंमरीक कहाय रे ॥ से० ॥ ४ ॥ नमि विनमि राजा विद्याधर, बे बे कोमी संघात रे ॥ फागुण सुद दशमी दिन सीधा, तिण प्रणमुं परन्नात रे ॥ से० ॥ ५ ॥ चैत्रमास वदि चौदसने दिन, न मीपुत्री चउसठि रे ॥ अणसण कर सैत्रुंजगिर ऊपर, ए सहु सीधा एकठि रे ॥ ६ ॥ से० ॥ पोतरा प्रथम तीर्थंकर केरा, डावम ने वारिखिल्ल रे ॥ काती सुदि पूनम दिन सीधा, दश कोमी मुनिसुं निसल्ल रे ॥ से० ॥ ७ ॥ पांचे पांमव इण गिर सीधा, नव नारद रुषिराय रे ॥ संब प्रजून्न गया इहां मुगते, आठू कर्म खपाय रे ॥ से० ॥ ८ ॥ नेम विना तेविस तिर्थंकर, समवसरया गिरिशृंगरे ॥ अजित शांति तीर्थंकर बेहूं, रह्या चोमासे सुरंग रे ॥ से० ॥ ए ॥ सहस साधु परिवार संघाते, थावच्चासुत साध रे ॥ पांचसें साधसुं सेलग मुनिवर, सैत्रुंज शिवसुख लाध रे ॥ से० ॥ १० ॥ असंख्याता मुनि सेत्रुंज सीधा, नरतेसरने पाट रे ॥ राम अने नरतादिक सीधा, मुक्तितणी ए वाट रे ॥ से० ॥ ११ ॥ जालि मयाली ने उवयाली, प्रमुख साधुनी कोमि रे ॥ साधु अनंता सेत्रुंज सीधा, प्रणमुं बे कर जोमि रे ॥ से० ॥ १२ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥ चोपाइकी ॥

॥ सेत्रुंजना कहुं सोल उद्धार, ते सुणज्यो सहुको सुविचार ॥ सुणतां आणंद अंग न माय, जनम इना पातिक जाय ॥ १ ॥ रुषन्नदेव अयोध्यापुरी, समवसरया स्वामी हित करी ॥ नरत गयो वंदणने काज, ये उपदेश दियो जिनराज ॥ २ ॥ जगमांहे मोटा अरिहंत देव, चोसठ इंद्र करे जसु सेव ॥ तेहथी मोटो संघ कहाय, जेहने प्रणमें जिनवरराय ॥ ३ ॥ तेहथी मोटो संघवी कह्यो, नरत सुणीने मन गहगह्यो ॥ नरत कहे ते किम पांमिये, प्रन्नु कहे सेत्रुंज जात्रा किये ॥ ४ ॥ नरत कहे संघवीपद मूऊ, श्रे आपो

हूं अंगज तुझ ॥ इंद्रे आएया अकृतवास, प्रभु आपे संघवीपद ता स ॥ ५ ॥ इंद्रे तिए वेला ततकाल, भरत सुभद्र बिहुंने माल ॥ पहिरावी घर संप्रेमीया, सखर सोनाना रथ आपिया ॥ ६ ॥ रिष भदेवनी प्रतिमा वली, रत्नतणी दीधी मन रली ॥ भरते गणधर घर तेम्रिया, शांतिक पौष्टिक सहु तिहां किया ॥ ७ ॥ कंकोत्री मू की सहु देस, भरत तेड्यो संघ असेस ॥ आयो संघ अयोध्यापुरी, प्रथमथकी रथजात्रा करी ॥ ८ ॥ संघ भगत कीधी अतिघणी, सं घ चलायो सेत्रुंज भणी ॥ गणधर बाहूबल केवली, मुनिवर कोमू साथे लिया वली ॥ ए ॥ चक्रवर्त्तेनी सघली रुद्धि, भरते साथे ली धीसिद्ध ॥ हय गय रथ पायक परिवार, ते तो कहतां नावे पार ॥ १० ॥ भरतेसर संघवी कहवाय, मारग चैत्य ऊधरतो जाय ॥ संघ आवे सेत्रुंजा पास, सहुनी पूगी मननी आस ॥ ११ ॥ नयणे निरख्यो सेत्रुंजराय, मणि माणिक मोत्यासुं वधाय ॥ तिण ठामे इंद्री महोछव कियो, भरते आणंद पुर वासियो ॥ १२ ॥ संघ सेत्रुंजा ऊपर चढ्यो, फरसंता पातिक ऊड पड्यो ॥ केवलग्यानी पगला तिहां, प्रणम्यां रायणरूंख बे जिहां ॥ १३ ॥ केवलज्ञानी स्नात्र निमित्त, ईशानेंद्र आणी सुपवित्त ॥ नदी सेत्रुंजे सोहामणी, भरतें दीठी कौतुक भणी ॥ १४ ॥ गणधरदेव तणे उपदेश, इंद्रे बलि दीधो आदेश ॥ श्रीआदिनाथतणो देहरो, भरत करायो गुरि सेहरो ॥ १५ ॥ सोनानो प्रासाद उत्तंग, रतनतणी प्रतिमा मन रंग ॥ भरते श्रीआदीसरतणी ॥ प्रतिमा थापी सोहामणी ॥ १६ ॥ मरुदेवानी प्रतिमा वली, माही पूनम थापी रली ॥ ब्राह्मी सुंदरि प्रमुख प्राशाद, भरते थाप्या नवला नाद ॥ १७ ॥ इम अनेक प्रतिमा प्राशाद, भरतें कराया गुरु सुप्रशाद ॥ भरततणो पहिलो उद्धार, सगलोही जाणे संसार ॥ १८ ॥

ढाल चोथी ॥ राग सिंधूडो आसाउरी ॥

॥ भरततणे पाट आठमे, दंडवीरज थयो रायो जी ॥ भरततणी पर संघ कियो, सेत्रुंज संघवी कहायो जी ॥ १ ॥ सेत्रुंज उद्धार सांभलो, सोल मोटा श्रीकारो जी ॥ असंख्यात बीजा वली, तेन कहुं अधिकारो जी ॥ से० ॥ २ ॥ चैत्य करायो रूपातणो, सोनानो बिंब सारो जी ॥ मूलगो बिंब भंडारीयो, पश्चिमदिशि तिण वारो जी ॥ से० ॥ ३ ॥ सेत्रुंजैनी जात्रा करी, सफल कियो अवतारो जी ॥ दंडवीरज राजातणो, ए बीजो उद्धारो जी ॥ से० ॥ ४ ॥ सो सागरोपम व्यतिक्रम्या, दंडवीरजथी जिवारो जी, इशानेंद्र करावियो ॥ ए तीजो उद्धारो जी ॥ से० ॥ ५ ॥ चोथा देवलोकनो धणी, माहेंद्र नाम उदारो जी ॥ तिण सेत्रुंजनो करावियो, ए चोथो उद्धारो जी ॥ से० ॥६॥ पांचमा देवलोकनो धणी, ब्रह्मेंद्र समकितधारो जी ॥ तिण सेत्रुंजनो करावियो, ए पांचमो उद्धारो जी ॥ से० ॥७॥ भुवनपती इंद्रनो कियो, ए छठो उद्धारो जी ॥ चक्रवर्त्ति सगरतणो कियो, ए सातमो उद्धारो जी ॥से०॥८॥ अभिनंदन पासे सुण्यो, सेत्रुंजनो अधिकारो जी ॥ व्यंतरइंद्र करावियो, ए आठमो उद्धारो जी ॥ से० ॥ ए ॥ चंद्रप्रभु स्वामीनो पोतरो, चंद्रशेखर नाम मल्हारो जी ॥ चंद्रयशराय करावियो, ए नवमो उद्धारो जी ॥ से० ॥ १० ॥ शांतिनाथनी सुणी देशना, शांतिनाथसुत सुविचारो जी ॥ चक्रधरराय करावियो, ए दशमो उद्धारो जी ॥ से० ॥११॥ दसरथसुत जगदीपतो, मुनिसुव्रतस्वामी वारो जी ॥ श्रीरामचंद्र करावियो, ए इग्यारमो उद्धारो जी ॥ से० ॥ १२ ॥ पांडव कहे अमे पापिया, किम छूटां मोरी मायो जी ॥ कहे कुंती सेत्रुंजतणी, जात्र कियां पाप जायो जी ॥ से० ॥१३॥ पांचे पांडव संघ करी, सेत्रुंज भेट्यो अपारो जी, काष्ठ चै

स्य बिंब लेपना, ए बारमो उद्धारो जी ॥ से० ॥ १४ ॥ मम्माणी पाखाणनी, प्रतिमा सुंदर सरूपो जी ॥ श्रीसेत्रुंजनो संघ करी, थापी सकल सरूपो जी ॥ से० ॥१५॥ अठोतर सो वरसां गया, विक्रम नृपथी जिवारो जी ॥ पोरवाम जावम करावियो, ए तेरमो उद्धारो जी ॥१६॥ से०॥ संवत बार तिमोतरे; श्रीमाली सुविचारो जी, वाहमदे मुंहते करावियो, ए चवदमो उद्धारो जी ॥ १७ ॥ से० ॥ संवत तेरे इकोतरे, देसलहर अधिकारो जी ॥ समरेसाह करावियो, ए पनरमो उद्धारो जी ॥ १८ ॥ से० ॥ संवत पनर सत्यासिये, वैसाख वदि शुज्ञ वारो जी ॥ करमे मोसी करावियो, ए सोलमो उद्धारो जी ॥ १९ ॥ से० ॥ संप्रति काले सोलमो, ए वरते वे उद्धारो जी॥नित२कीजे वंदना,पांमीजे जवपारो जी॥२०॥से०

॥ दूहा ॥

॥ वलि सेत्रुंज महातम कहुं, सांजलो जिम वे तेम॥ सूरि धनेसर इम कहे, महावीर कह्यो एम ॥ १ ॥ जेहवो तेहवो दर्शनी, सेत्रुंजे पूजनीक ॥ जगवंतनो जेष मांनता, लाज हुवे तहकीक ॥ २ ॥ श्रीसेत्रुंजा ऊपरे, चैत्य करावे जेह ॥ दल परमांण [illegible]णो लहे, पढ्योपम सुख तेह ॥ ३ ॥ सेत्रुंज ऊपर देहरो, नवो [illegible] पावे कोय ॥ जीर्णोद्धार करावतां, आठ गुणो फल होय ॥ ४ ॥ [illegible] ऊपर गागर धरी, स्नात्र करावे नार ॥ चक्रवर्त्तिनी स्त्री थई, [illegible]सुख पांमे सार ॥ ५ ॥ काती पूंनम सेत्रुंजे, चढने करे उपवास। नारकी सो सागर समो, करे करमनो नास ॥ ६ ॥ काती [illegible]रव ोटो कह्यो, जिहां सीधा दश कोमि ॥ ब्रह्म स्त्री बालक ह[illegible], पपथी नाखे गेम ॥ ७ ॥ सहस लाख श्रावक जणी, जो[illegible] पुन्न विशेष॥ सेत्रुंज साधु पमिलाजतां, अधिको तेहथी देख ८

॥ ढाल पांचमी ॥

॥ सेत्रुंज गया पाप छूटिये, लीजे आलोयण एमो जी, तप जप कीजे तिहां रही, तीर्थंकर कह्यो तेमो जी ॥ से० ॥ १ ॥ जिण सोनानी चोरी करी, ए आलोयण तासो जी ॥ चैत्रीदिन सेत्रुंज चढी, एक करे उपवासो जी ॥ से० ॥ २ ॥ वस्तुतणी चोरी करी, ए आलोयण तासो जी ॥ चैत्रीदिन सेत्रुंज चढी, एक करे उपवासो जी ॥ ३ ॥ से० ॥ कांसी पीतल तांबा रजतनी ॥ चोरी कीधी जेणो जी ॥ सात दिवस पुरिमड्ढ करे, तो छूटे गिरि एणो जी ॥४॥ से० ॥ मोती प्रवाला मूंगिया, जिण चोरया नर नारो जी ॥ आंबिल कर पूजा करे, त्रिण टंक शुद्ध आचारो जी ॥ ५ ॥ से० ॥ धान पाणी रस चोरिया, ते भेटे सिद्धक्षेत्रो जी ॥ सेत्रुंज तलहटी साधुने, पडिलाभे सुध चित्तो जी ॥ से० ॥६॥ वस्त्राभरण जिणे हरया, ते छूटे इण मेलो जी ॥ आदिनाथनी पूजा करे, प्रह ऊठी बहू वेलो जी ॥ से० ॥ ७ ॥ देव गुरुनो धन जे हरे, ते शुध थाये एमो जी ॥ अधिको द्रव्य खरचे तिहां, पात्र पोषे बहू प्रेमो जी ॥ से० ॥ ८ ॥ गाय भैंस घोडा मही, गज ग्रह चोरणहारो जी ॥ ये ते वस्तु तीरथे, अरिहंत ध्यान प्रकारो जी ॥ से० ॥९॥ पुस्तक देहरा पारका, तिहां लिखे अपणो नांमो जी ॥ छूटे छम्मासी तप कियां, सामायक तिण ठामो जी ॥ से० ॥१०॥ कुंवारी परिव्राजका, सधव अधव गुरुनारो जी ॥ व्रत भांजे तेहने कह्यो, छम्मासी तप सारो जी ॥ ११ ॥ से० ॥ गो विप्र स्त्री बालकादि, एहनो घातक जेहो जी ॥ प्रतिमा आगे आलोवतां, छूटे र[illegible] तेहो जी ॥ १२ ॥ से० ॥

॥ ढाल छट्ठी ॥

॥ संप्रति काले सोलमो ए, ए वरते छे उद्धार ॥ सेत्रुंज

करूं ए, सफल करूं अवतार ॥ १ ॥ से० ॥ ढहरी पालती चालिये ए, सेत्रुंज केरी वाट ॥ से० ॥ पालीताणे पोहचिये ए, संघ मिल्या बहु थाट ॥ से० ॥ २॥ ललित सरोवर पेखिये ए, वलि सत्ता नी वावि ॥ तिहां विसरामो लीजिये ए, वमने चौतरे आवि ॥३॥ से० ॥ पालीताणे पाजमी ए, चढिये ऊठ परजात ॥ सेत्रुंजनदिय सोहामणी ए, दूरथकी देखंत ॥ से० ॥४॥ चढिये हिंगलाजने हमे ए, कलिकुंम नमिये पास ॥ वारीमांहे पैसीये ए, आंणी अंग उल्लास ॥ से० ॥ ५ ॥ मरुदेवीटूंक मनोहरू ए, गज चढी मरुदेवी माय ॥ शांतिनाथ जिण सोलमो ए, प्रणमीजे तसु पाय ॥ से० ॥ ॥६॥ वंस पोरवाम परगमो ए, सोमजी साह मलार ॥ रूपजी संघवी करावियो ए, चौमुख मूल उद्धार ॥ से० ॥ ७ ॥ चोमुख प्रतिमा चरचिये ए, जमतीमांहे जला बिंब ॥ पांचे पामव पूजिये ए, अदजुत आदि प्रलंब ॥ ८ ॥ से० ॥ खरतरवसही खंतसूं ए, बिंब जुहारुं अनेक ॥ नेमनाथ चवरी नमूं ए, टालूं अलग उदेग ॥ से० ॥ ए॥ धरमदुवारमांहि नीसरूं ए, कुगति करूं अतिदूर ॥ आवुं आदिनाथ देहरे ए, करम करूं चकचूर ॥ से० ॥ १० ॥ मूलनायक प्रणमुं मुदा ए, आदिनाथ जगवंत ॥ देव जुहारुं देहरे ए, जमतीमांहे जमंत ॥११॥ से० ॥ सेत्रुंज ऊपर कीजिये ए, पांचे गाम स्नात्र ॥ कलशा अगोतर सो करिये, निरमल नीरसु गात्र ॥ से० ॥ १२ ॥ प्रथम आदीसर आगले ए, पुंमरीक गणधार ॥ रायण तल पगला नमूं ए, चोमुख प्रतिमा च्यार ॥१३॥ से० ॥ रायण तल पगला नमूं ए, चोमुख प्रतिमा च्यार ॥ बीजी जूमि बिंबावली ए, पूंमरीक गणधार ॥ १४ ॥ से० ॥ सूरजकुंम निहालिये ए, अति जली जलकाफोल ॥ चेलणतलाइ सिद्धशिला ए, अंग फरसुं कल्लोल ॥ १५ ॥ से० ॥ आदिपुर पा

ज्ञ भतरू ए, सिद्धवरलूं विसराम ॥ चैत्यप्रवाम इण पर करी ए, ती
र्था वंछित कांम ॥ से० ॥ १६ ॥ जात्रा करी सेत्रुंजतणी ए, सफल
किधो अवतार ॥ कुसल क्षेमसुं आवियो ए, संघ सहू परवार ॥ से०
॥ १७ ॥ सेत्रुंज रास सोहामणो ए, सांभलज्यो सहू कोय ॥ घर
बेठां भणे भावसुं ए, तसु यात्रा फल होय ॥ से० ॥ १८ ॥ संव
त सोल बयासिये ए, श्रावण वदि सुखकार ॥ रास रच्यो सेत्रुंजत
णो ए, नगर नागोर मझार ॥ से० ॥ १९ ॥ गिरुवो गछ खरतर
तणो ए, श्रीजिनचंद सूरीस, प्रथम शिष्य श्रीपूजना ए, सकल
चंद सुजगीस ॥ से० ॥ २० ॥ ताससीस जग जांणिये ए, समय
सुंदर उवझाय ॥ रास रच्यो तिण रूवडो ए, सुणतां आणंद था
य ॥ से० ॥ २१ ॥ इति श्रीसेत्रुंजरास संपूर्ण ॥

॥ अथ शिखरगिरि रास लिख्यते ॥

॥ दूहा ॥

॥ वादी वीस जिनेसरू, रचस्युं रास रसाल ॥ तीरथ शि
खरसमेतनी, महिमा वडी विशाल ॥ १ ॥ मोटो तीरथ महियले,
प्रगट्यो शिखरसमेत ॥ कोडाकोडी मुनिवरू, सिद्ध गए इह खेत ॥
२ ॥ तीरथ शिखरसमेत ए, फरस्यां पाप पुलाय ॥ भविजन भे
टो भावसुं, ज्युं सुख संपद थाय ॥ ३ ॥ महिमा शिखरसमेतनी,
कहि न सके कवि कोय ॥ गुण अनंत भगवंतना, तिम ए ती
रथ होय ॥ ४ ॥

॥ ढाल १ ॥ चोपईनी ॥

॥ गिरवर शिखर समो नहि कोय, एहनी महिमा सब
जग होय ॥ वीस जिनेसर मुगते गया, मुनिजन ध्यान धरी
ने रह्या ॥ १ ॥ प्रथम अयोध्यानगरी भली, तिहां जितशत्रु

नरेसर वली ॥ विजयाराणीने सुत जांण, अजितकुमर सहु गुण नी खाण ॥२॥ जसु इंद्रादिक सेवा करे, इंद्राणी अति उछव धरे॥ तीर्थंकरनी पदवी लही, अंतर अरि जिण साध्या सही ॥३॥ अनुक्रम इम भोगवतां भोग, पुन्य प्रसाद मिल्यो सहु जोग ॥ अवसर दे संवत्सर दांन, संजम लीनो आप सुजांण ॥४॥ कर्म खपावी पांम्यो ज्ञान, केवलदर्शन लह्यो प्रधांन ॥ विचरे पुहवीमंडलमांहि, भव्यजीव प्रतिबोधन ताहि ॥५॥ सिंहसेनादिक गणधर भया, पंचाणवे संख्या सहु थया, एक लाख मुनिवर परिवरया, श्रावक श्रावकणी सहु करया ॥६॥ तीन लाख वलि तीस हजार, साधवी थां जाणो सुविचार ॥ श्रावक सहस अठाणुं सही, दोय लाख संख्या गहगही ॥७॥ पांच लाख पैंतालीस हजार, श्रावकणी संख्या सुविचार ॥ वहुत्तर लाख पूरवनो आय, कंचनवरण सरीर सुहाय ॥८॥ साढीच्यारसे धनुष सरीर, मान लह्यो प्रभु गुण गंभीर ॥ गज लांछन प्रभुजीने जांण, अमृत सम जसु मीठी वांण ॥९॥ अनुक्रम प्रभुजी शिखरसमेत, गिरवर पर आव्या निज हेत सहस मुनिवरने परिवार, मासखमण अणसण कर सार ॥ १० ॥ चैत्री सुदि पूनमने दिने, मुक्ति गये प्रभु तीरथ इणे ॥ भूचर खेचर किन्नर सुरी, इंद्रादिक सहु उछव करी ॥११॥ थाप्यो तीरथ मोटो मही, अठाइ महोछव कियो सही ॥ ए तीरथनी जात्रा करे, ते भवियण अकथसुख वरे ॥ १२ ॥

॥ दूहा ॥

॥ श्रीसंभव जिनराज जी, गए इहां निर्वांण ॥ शिखरसमेत सुहामणो, प्रगट्यो तीरथ जाण ॥१॥

॥ ढाल वीजी ॥ सुगण सनेही साजन श्रीसीमंधर स्वाम ॥ ए देशी ॥

॥ सावत्थीनगरी भली धन संपद बहु ओक, जैतारि नृप

राज करै सुखिया सब लोक ॥ सेनाराणी मीठी वाणी गुणनी खा णा, जेहने सुत श्रीसंभव जनम्या सकल सुजाण ॥१॥ कंचनवरण सरीर मनोहर प्रभुनो जांण, लंछन अश्वतणो सोहे प्रभुनो परधा न ॥ साठ लाख पूरवनो प्रभुनो आयु प्रमाण, धनुष च्यारसै उच्च पणै प्रभु देह वखाण ॥ २ ॥ एकसो दोय संख्याये प्रभुने गणधर होय, दोय लाख मुनि जेहनै गुणवरता जग जोय ॥ तीन लाख श्रमणी वली ऊपर सहस छत्तीस, भूमंडल विचरे प्रभु श्रीशंभव जगदीस ॥३॥ तीन लाख वलि सहस त्रयाणुं श्रावकलोक, षट लख सहस छत्तीस श्रावकणी संख्या थोक ॥ त्रिमुखयक्ष अरु दु रितादेवी सानिधकार, विचरंता प्रभु सकल संघमें जयकार ॥४॥ सहस श्रमण परिवारे प्रभुजी सिखरसमेत, एक मास संलेखण कीनी निजपद हेत ॥ इण गिरि ऊपर पायो प्रभुजी पद निरवांण, तीरथ महिमा महियल मोटी थइय सुजांण ॥५॥

॥ दुहा ॥

॥ अभिनंदन जिन वंदिये, पायो पद निरवांण ॥ शिखरस- मेत सोहामणो, भेटो तीर्थ सुजाण ॥१॥

॥ ढाल त्रीजी ॥ सहस श्रमणसुं सुरू संजमधरो ॥ ए-देशी ॥

॥ नगरी अयोध्या सुरपुरि सम भली, संवर राजा सोहे मन रली ॥ सिद्धार्था राणी प्रभु तसु नंद ए, अभिनंदन जिन प्रग ट्या चंद ए ॥ उल्लालो ॥ चंद ए सोवन वरण सोहे, धनुष साढी तीनसे ॥ सुंदर शरीर प्रमाण द्युतिकरा, कपि लंछन ते नित वसे ॥ पूर्व लाख पचास आयु, गणधर एकसो सोल ए॥ तीन लाख मुनि छ लाख आर्या, सहस त्रिसत् सोल ए,॥१॥ चाल ॥ सहस अठ्यासी दो लख श्राद्धनी, संख्या चौ लख सत्तावीसनी ॥ श्रावकस्यारी संख्या जाण ए, नायकयक्ष कालिका वाण ए॥ उल्लालो ॥ वाण ए शिखरस

मत ऊपर मास एक संलेषणा, इक सहस साधू परवरया प्रभु मुक्ति पहुंचे पेखणा ॥ इमही अयोध्या मेघ नरवर देवी मात सुमंगला, श्रीसुमति जिनवर जए नंदन सदा होत सुमंगला ॥ २ ॥ चाल ॥ सोवन वर्ण धनुष तसु तीनसे, लंछन क्रौंच सोहै सुभगे हसे ॥ पूरव लाख पच्यासी आउ ए, इकसौ गणधर गुणगण जाउ ए ॥ उल्लालो ॥ जाउ ए मुनि त्रिण लाख सोहे सहस वीस प्रमणां ए, पण लक्ख तीस हजार साध्वी श्रावक दोय लक्ख जाण ए ॥ संख्या इक्यासी सहस ऊपर श्रावका इम आणिये, पण लाख सोले सहस तुंबरु महाकाली मानिये ॥ श्रीशिखर ऊपर सात संख्या सहस साधु सुरंग ए, कर मासकी संलेखणा प्रभु मुक्ति पुहता चंग ए ॥ ३ ॥ चाल ॥ इम कोसंबीनगरी तात ए, धर नृप तात सुसीमा मात ए, पदम प्रभु तसु अंगज नाथ ए, लंछन कमलतणो सुभ हाथ ए ॥ उल्लालो ॥ हाथ ए धनुष प्रमाण पूरा अढाईसै त [illegible] कहौ, तीन लाख पूरव थित कहावै एकसो गणधर लहो ॥ लख तीन तीस हजार साधू वीस सहस लख च्यार ए, साधवी दोय लख सहस छिहत्तर श्रावक संख्या सार ए ॥ ४ ॥ चाल ॥ पांच लाख वलि पांच हजार ए, श्रावकणयारी संख्या सार ए ॥ कुसम देव श्यामादेवी कही, लालवरण तन प्रभु सोहै सही ॥ उल्लालो ॥ सोहए शिखरसमेत ऊपर, आठसे त्रिण मुनिवरा ॥ कर मास संलेखन प्रभूनी, सेव करहै सुरवरा ॥ श्रीपदम प्रभुजी मुक्ति पहुता, गिर शिखर महिमा भई ॥ तसु चरण पंकज बालवंदे हृदय आनंद गहगही ॥ ५ ॥

॥ दूहा ॥

॥ श्रीसुपास जिनंदना, पद पंकज आराम ॥ भविजन भमरसु सेवतां, पांमे वंछित कांम ॥ १ ॥

॥ ढाल चोथी ॥ श्रीसीमंधर साहिवा ॥ ए चाल ॥

॥ नगर वनारसी सोभता, राजा तात प्रतिष्ट लालरे ॥ देवी पृथवी मात जी, स्वस्तिक लंछन सिष्ट लालरे ॥१॥ श्रीसुपार्श्व जिनंद जी, वीस पूरव लख आयु लालरे ॥ धनुष दोयसे देहनो, कंचनवरण सुहाय लालरे ॥२॥ श्री० ॥ पचाणवे गणधर कह्या, साधू त्रिण लाख होय लालरे ॥ च्यार लाख तीस ऊपरे, सहस साधवियां जोय लालरे ॥३॥ श्री० ॥ सहस सतावन लक्खनी, श्रावक संख्या थाय लालरे ॥ च्यार लाख वली त्रेणवै, सहस श्रावकणी थाय लालरे ॥४॥ श्री० ॥ मातंगयक्ष शांतासुरी, पांचसे मुनि परवर लालरे ॥ करि अणसण मुगते गया, नांम लियां निस्तार लालरे ॥५॥ श्री० ॥ नगर चंद्रपुर इण परे, राजा तात महेस लालरे ॥ देवी माता लक्ष्मणा, सुत चंद्रप्रभु वेस लालरे ॥६॥ श्रीचंद्रप्रभु वंदिये, चंद्रवरण तनु जेह लालरे ॥ लंछन चंद्रतणो भलो, धनुष दोढसे देह लालरे ॥७॥ श्रीचं० ॥ भविकमल प्रतिबोधता, सेवे सुर नर यक्ष लालरे ॥ दस लाख पूरव आउखो, तेणवे गणधर दक्ष लालरे ॥ श्रीचं० ॥८॥ दोय लाख सहस पचाणवे, मुनि श्रमणी तीन लक्ष लालरे ॥ असी सहस संख्या कही, श्रावक वलि दोय लक्ष लालरे ॥९॥ श्री० ॥ लाख पचास ऊपर वली, श्राविका चउ लक्ष धार लालरे ॥ सहस इकाणवै ऊपरै, प्रभुजी नो परिवार लालरे ॥१०॥ श्रीचं० ॥ विजयदेव भृकुटीसुरी, सहस साधु परिवार लालरे ॥ संलेखन इक मासनो, पुहता मुक्ति मझार लालरे ॥११॥ श्री० ॥

॥ दुहा ॥

॥ जय श्रीसुविद्ध जिनेसरु, जगपति दीनदयाल ॥ समेतशिखर मुगते गया, भविजनके प्रतिपाल ॥१॥

॥ ढाल पांचमी ॥ श्रीविमलाचल सिरतिलो ॥ ए देशी ॥

॥ नयर काकंदी नरपति, एम पिता सुग्रीव ॥ देवी रामा माता सुत, जए सुविध सुज्ञ जीव ॥ १ ॥ रजतवरण सम तनु सत, धनुष एक परिमांण ॥ दोय लाख पूरव कह्यो, प्रभुनो आयु सुजांण ॥ २ ॥ अठ्यासी संख्या जए, गणधर परम प्रधान ॥ लख दो मुनि विंशति सहस, इक लख श्रमणी जांण ॥ ३ ॥ दोय लक्ष श्रावक कह्या, अरु गुणतीस हजार ॥ एकत्तर चौ लख सहस, श्रावकणी सुविचार ॥ ५ ॥ सुरी सुतारा सुर अजित, श्रीसंघ सानिधकार ॥ सहस साधु परिवारसुं, आए सिखर सुचार ॥ ६ ॥ मास संलेखण कर प्रभु, मुक्ति गए इह ठोर ॥ तीरथ महिमा महियलै, प्रगटी च्यारुं छोर ॥ ७ ॥ इमहिज शीतलनाथनो, हिव सुणज्यो अधिकार ॥ भद्दिलपुर दृढरथ पिता, मात नंदा सुखकार ॥ ८ ॥ लंछन सुभ श्रीवछनो, श्रीशीतल जिनचंद ॥ कंचनवरण नेउ धनुष, मान सरीर अमंद ॥ए॥ एक लाख पूरव कह्यो, प्रभुनो आयु प्रमाण ॥ इक्यासी गणधर कह्या, मुनि इक लाख सुजांण ॥ १० ॥ एक लाख चालीस सहस, श्रमणी संख्या छोर ॥ सहस तयासी दोय लख, श्रावक संख्या जोर ॥ ११ ॥ सहस अठावन लक्ष चौ, श्रावकणी सुविचार ॥ देवी असोका ब्रह्म यक्ष, सहु संघ सानिधकार ॥ १२ ॥ सिखरसमेत सहस्र एक, साधूने परिवार ॥ मुक्ति गए प्रभु मासकी, संलेखन कर सार ॥ १३ ॥

॥ ढाल छट्ठी ॥ धन२ संप्रति साचो राजा ॥ ए देशी ॥

॥ सिंहपुरी नगरी तिहां राजा, विष्णु नरेसर तात जी, कंचनवरण श्रेयांस प्रभूजी, उपज्या विष्णु सुमात जी ॥ १ ॥ नमो रे नमो श्रीत्रिभुवन राजा, खड्ग लंछन प्रभु पाय जी ॥ धनुष असी

देहमांन चौरासी, लाख वरसनो आयु जी ॥ २ ॥ न० ॥ गणधर बहुत्तर सहस चोरासी, मुनि श्रमणी तीन लक्ष जी ॥ तीन सहस वलि सहस गुणयासी, श्रावक पुण दो लक्ष जी ॥ ३ ॥ न० ॥ अम्ततालीस सहस वलि चौ लख, श्राविका जाणो सार जी ॥ जक्ष अमर सुरी मांनवी जांणो, श्रीसंघ सानिधकार जी ॥ ४ ॥ न० ॥ सहस मुनीसरनै परिवारै, प्रभुजी सिखरसमेत जी ॥ मास संलेखण कर प्रभु पोहता, मुक्तिमहल सुख हेत जी ॥ न० ॥ ५ ॥ द्दिव कंपिलपुर तात नृपति, श्रीकृतवर्म सुमात जी ॥ स्यामादेवी अंगज ऊपना, विमलनाथ जगतात जी ॥ न० ॥ ६ ॥ सूकर लंछन सोवनकाया, साठ धनुष देहीमांन जी ॥ साठ लाख वरसनो आयु, शिष्य सतावन जान जी ॥ न० ॥ ७ ॥ साठ सहस मुनि अरु सय इक लख, श्रमणी श्रावक जांण जी ॥ आठ सहस दोय लक्ष श्राविका, चौ लक्ष संख्या आण जी ॥ न० ॥ ८ ॥ षणमुख सुरवर विदिता देवी, प्रभुजी शिखरसमेत जी ॥ षट हजार साधू परिवारै, मुक्ति गए सुख हेत जी ॥ न० ॥ ९ ॥ नयरी नाम अयोध्या नरवर, सिंहसेन जग सार जी ॥ सुजसा मात तिणे सुत जायो, प्रभुजी अनंतकुमार जी ॥ न० ॥ १० ॥ लंछन श्येन सोवन सम काया, धनुष पचास प्रमांण जी ॥ तीस लाख वछरनो आयु, गणधर पचवीस आंण जी ॥ न० ॥ ११ ॥ छासठ सहस मुनीसर सोहै, वासठ श्रमणी हजार जी ॥ छ हजार लाख दोय श्रावक, श्रावकणी इम धार जी ॥ न० ॥ १२ ॥ च्यार लाख वलि चवद हजार ए, अंकुसा देवी होय जी ॥ पाताल यक्ष श्रीसंघके सानिध, कारी नित प्रति जोय जी ॥ न० ॥ १३ ॥ आठसै मुनिवरनै परिवारै, सिखरसमेत प्रधान जी ॥ मास संलेखन कर गिरि ऊपर, पुहता पद निरवांण जी ॥ न० ॥ १४ ॥

॥ दूहा ॥

॥ ऐसे धर्म जिणेसरू, पुहता पद निर्वाण ॥ सिखरसमेत गिरिंद पर, नमोऽ जगत्राण ॥१॥

॥ ढाल सातमी ॥ जगतगुरु त्रिसलानंदन जी ॥ ए देशी ॥

॥ रत्नपुरी नगरी धणी जी, भानुराय सुजाण ॥ राणी सुव्रत मातने जी, धर्मनाथ गुणखाण ॥१॥ जगतपति धर्म जिनेसर सार ॥ धनुष पैंतालीस तनु कह्यो जी, वज्र लंछन सुखकार ॥२॥ ज० ॥ चोतीस गणधर मुनि कह्या जी, चौसठ सहस प्रमांण ॥ श्रमणी बासठ सहसस्यूं जी, श्रावक दोय लक्ष मांन ॥ ३ ॥ ज० ॥ च्यार सहस वलि ऊपरां जी, चौ लख एक हजार ॥ श्रावकणी संख्या कही जी, दस लक्ष आयु विचार ॥४॥ ज० ॥ किन्नर सुर पन्ना सुरी जी, एक सहस परिवार ॥ समेतसिखर मुगते गया जी, वांदूं वार हजार ॥५॥ ज० ॥ हथणापुर विश्वसेननां जी, अचिरा मात उदार ॥ शांति जिनेसर जनमिया जी, त्रिभुवन जय२कार॥जगतपति शांति जिनेसर सार ॥६॥मृग लांछन सोवन समो जी, देही धनुष चालीस ॥ आयु वरष इक लाखनो जी, छत्रीस गणधर सीस ॥ ज० ॥७॥ बासठ सहस मुनि वसै जी, इगसठ श्रमणी हजार ॥ दोय लाख श्रावक कह्या जी, ऊपर नेऊ हजार ॥ ८ ॥ ज० ॥ सहस त्रयाणूं श्राविका जी, तीन लाख परिवार ॥ गरुड़यक्ष देवीसुरी जी, श्रीसंघ सानिधकार ॥ ज० ॥ ९ ॥ नवसै मुनि परवार स्युं जी, आया सिखरसमेत ॥ मासखमण कर मुगतिमें जी, पुहता निजपद देत ॥ ज० ॥ १० ॥ ऐसें हथणापुर भलो जी, राजा सूर सुतात ॥ कुंथुनाथ जिन जनमियां जी, कंचन तनु श्रीमात ॥ जगतपति कुंथु जिनेसर सार ॥ ११ ॥ छाग लंछन पेंतीसनो जी, धनुष देहनो मांन ॥ सहस पंच्याणव वरस

नो जी, आयु प्रभुनो जान ॥ १२ ॥ ज० ॥ पैंतीस गणधर दीपतां जी, साठ सहस मुनि जांन ॥ वसै साठ सहस वली जी, श्रमणी संख्या मान ॥ ज० ॥ १३ ॥ सहस गुणियासी लक्षनो जी, श्राव क संख्या होय ॥ सहस इक्यासी तीन लाखनी जी, श्राविका सं ख्या जोय ॥ ज० ॥ १४ ॥ सातसे साधू परवरया जी, देवी व ला गंधर्व ॥ कुंथुनाथ मुगते गया जी, मास संलेखण सर्व ॥ ज० ॥ १५

॥ दुहा ॥

॥ श्रीअरिनाथ जिनंदनो, कहिस्युं अव अधिकार ॥ श्रो ता सुणज्यो प्रेम धर, थास्यै लाभ अपार ॥ १ ॥

॥ ढाल आठमी ॥ देसी विछियानी ॥ हांरे लाला श्रीजिनकुशल सूरीसरू॥ए देशी ॥

॥ हांरे लाला श्रीअरिनाथ जिनेसरू, तिहां नगरी अयोध्या चंदरे लाला ॥ ताल सुदर्शन मातजी, नंदादेवीना नंद रे लाला ॥ १ ॥ श्रीअ० ॥ लंछन नंद्यावर्त्तनो, तीस धनुष देहीनो मांन रे लाला ॥ कंचनवरण सुहामणो, आयु सहस चौरासी प्रमाण रे लाला ॥ ॥ २ ॥ श्री अ० ॥ इक लाख श्रावक ऊपरे, वलि संख्या अधकी जांण रे लाला ॥ सहस बहुत्तर तीननी लक्ष श्राविका संख्या आंण रे लाला ॥ श्रीअ० ॥ ३ ॥ देव देवी सानिध करे, इक सहस मुनि परवार रे लाला ॥ मुक्ति गए इण गिर प्रभु, कर मास संलेखण सा रे रे ॥ श्रीअ० ॥ ४ ॥ मिथिलानगर प्रभावती, मात पिता श्री कुंभ राय रे लाला ॥ लंछन कलस पजोसनो, वपु धनुष सोवन सम कायरे लाला ॥ श्रीमल्लिनाथ जिनेसरू ॥ ५ ॥ सहस पचा वन वर्षनी, थित गणधर अठावीस रे लाला ॥ भविक कमल प्रति बोधता, जगनायक श्रीजगदीस रे लाला ॥ ६ ॥ श्री म० ॥ चा लीस सहस मून लरू, श्रमणी पचावन सहस रे लाला ॥ सहस त्र्यासी लक्षनी, श्रावकनी संख्या सार रे लाला ॥ ७ ॥ श्री म० ॥

श्राविका सित्तर सहसनी, लक्ष तीन संख्या सुविचार रे लाला ॥ सहस मुनि परवारस्युं, गये मुक्ति संलेखण धार रे लाला ॥ श्रीम० ॥९॥ राजग्रही राजा पिता, सुग्रीव पद्मावती मात रे लाला ॥ श्यामव रण तनु शोभता, जे कपिल लंछन विख्यात रे, लाला ॥ श्रीमुनिसुव्रत स्वामिजी ॥ १० ॥ धनुष वीस देहीतणो, आयु वछर तीस हजार रे लाला ॥ अष्टादश गणधर थया, तीस सहस मुनिसर सार रे लाला ॥ श्रीमु० ॥ ११ ॥ श्रमणी सहस पचवीसनी, संख्या ब हुतर हजार रे लाला ॥ इक लक्ष ऊपरि श्राविका, तीन लक्ष प चास हजार रे लाला ॥ श्रीमु० ॥ १२ ॥ वरुणयक्ष देवी भली, नरदत्ता सानिधकार रे लाला ॥ सहस मुनि परवारसे, गए मुक्ति महल सुख सार रे लाला ॥ श्रीमु० ॥ १३ ॥ विजय पिता विप्रा मातजी, सोवन सम श्रीनमिनाथ रे लाला ॥ नीलकमल लंछन कह्यो, वपु धनुष पनर आयु साथ रे लाला ॥ श्रीनमिनाथ जिने सरू ॥ १४ ॥ दस हजार वरसतणो, गणधर सित्तर परिमाण रे लाला ॥ वीस इकतालीस सहस क्रम, साधु साधवी संख्या जाण रे लाला ॥ श्रीन० ॥ १५ ॥ इक लख सित्तर सहसनी, तीन ल क्ष सहस वलि होय रे लाला ॥ श्रावक संख्या श्राविका, अनुक्रम करि संख्या जोय रे लाला ॥ श्रीन० ॥ १६ ॥ विचरंता भूमंडले, आया सिखर समेत मझार रे लाला ॥ भृकुटी यक्ष गंधारी सुरी, इक सहस मुनि परवार रे लाला ॥ १७ ॥ श्रीन० ॥

॥ दूहा ॥

परमेसर श्रीपासनी, महिमा जगत विख्यात ॥ शिखर सि रोमणि सहसफण, जगजीवन जगतात ॥ १ ॥

॥ ढाल नवमी ॥ आदर जीव क्षमागुण आदर ॥ ए देशी ॥

॥ जय२ परम पुरुष पुरुषोत्तम, पारस, पारसनाथ जी ॥

सांवरियां साहिब जगनायक, नांम अनेक विख्यात जी ॥ १ ॥ जय२ सिखर समेत सिरोमणि, श्रीसांवरिया पास जी ॥ ध्यावे सेवे जे नर तेहनी, पूरै वंछित आस जी ॥ २ ॥ ज० ॥ कासी देस वणारसी नगरी, श्रीअश्वसेन नरिंद जी, वामामाता जगविख्याता, तेहनो सुत सुखकंद जी ॥ ३ ॥ जय० ॥ पन्नग लंछन नील वरण छवि, देहि शुभ नव हाथ जी ॥ आयू इकसो वरस प्रमाणे, गणधर दस प्रभु साथ जी ॥ ४ ॥ ज० ॥ सोल सहस मुनिवर अरु श्रमणी, कही अरुतीस हजार जी ॥ भूमंडल विचरे भवि जनकूं, बोधवीज दातार जी ॥ ५ ॥ ज० ॥ चोसठ सहस लाख इक श्रावक, गुणचालीस हजार जी ॥ तीन लाख श्रावकणी संख्या, पार्श्वयक्ष सुर सार जी ॥ ६ ॥ ज० ॥ वीस जिनेसर मुगते पुहता, महिमा थइय अपार जी ॥ तिण ए तीरथ प्रगट्यो जग में, मुक्तितणो दातार जी ॥ ७ ॥ ज० ॥ छहरी पाले जे नर भावे, भेटे सिखर गिरिंद जी ॥ ते नर मनवंछित फल पावे, ए सुरतरुनो कंद जी ॥ ८ ॥ ज० ॥ बहुविध संघतणी करै भक्ति, संघपति नांम धराय जी ॥ सफल करे संपद निज पांमी, जेहनो सुजस सवाय जी ॥ ९ ॥ ज० ॥ परभव सुरनर संपद पामे, जात्रा करे गहगाट जी ॥ साधर्मी वच्छल मुनिभक्ति, पूजा उछव थाट जी ॥ १० ॥ ज० ॥ टूंक२ पर चरण प्रभूना, पूजो भविजन भाव जी ॥ ध्यांन धरो जिनवरनो मनमें, आनंद अधिक उछाव जी ॥ ११ ॥ ज० ॥ रास रच्यो श्रीसिखरगिरीनो, सुणतां नवनिध थाय जी ॥ तिण ए भविजन भाव धरीने, सुणज्यो मन थिर लाय जी ॥ १२ ॥ ज० ॥ खरतर गछपति महिमाधारी, कीरत जग विख्यात जी ॥ जय श्रीजिनसौभाग्य सूरीश्वर, अमृत वचन सुगात जी ॥ १३ ॥ ज० ॥ तासु पसायें रास रच्यो ए, अ

श्रुतसमुद्रने सीस जी ॥ बालचंद निज मति अनुसारे, सोधो विबुध जगीस जी ॥ १४ ॥ ज० ॥ संवत उगणीसै सितमोत्तर, सुदि वैशाख सुढाल जी ॥ रास अजीमगंजमांहे कीनो, जणतां मंगल माल जी ॥ १५ ॥ ज० ॥ इति श्रीसिखर गिरी रास संपूर्ण ॥

॥ अथ मुनि मालका लिख्यते ॥ ढाल १ ॥

ऋषभ प्रमुख जिन पाययुग प्रणमूं, सिवसुख दायक मनह उल्लास ॥ पुंमरीक श्रीगौतम आदिक, गणधर गुरु मन कमल विकास ॥ १ ॥ प्रह सम सूधा साधु नमुं नित, जावें श्रमण सुगुरु जगवंत ॥ नाम ग्रहण कर पाप पखालूं, परमानंद सुमति विकसंत ॥ २ ॥ प्र० ॥ जरत महामुनि प्रथम चक्कीसर, बाहूबल उपशम जंमार ॥ सूरयसादिक आठ मुनिसर, पांम्यो विमलाचल जवपार ॥ ३ ॥ प्र० ॥ ऋषभवंस जे अनुक्रम हुवा, मुनिवर कोमी लाख असंख, श्रीसेत्रुंजे शिवपुर सीधा, कलमल कालक मूंकी कंख ॥ ४ ॥ प्र० ॥ सगर प्रमुख निरुपम नव चक्रवर्त्ति, साधु महा बल संजम सीह ॥ अचलादिक बलदेव अष्टमुनि, राम ऋषीसर नवम अबीह ॥ ५ ॥ प्र० ॥ श्रीप्रतिबुद्ध प्रमुख छ वसुंदर, श्रीमल्लिनाथ पूरबजव मित्र ॥ पहुंता परम ऋषीसर शिवपुर, पाली श्रीजिन आंण पवित्र ॥ ६ ॥ प्र० ॥ वंदु विष्णुकुमार लबधि निधि, संदक सूरीना सीस सय पंच ॥ कार्त्तिकसेठ सुसाधु कीर्त्तिधर, श्रमण सुकोसल व्रत निरवंच ॥ ७ ॥ प्र० ॥ श्रीयदुवंस अकोजमु सागर, प्रमुख आठ अणगार प्रधांन ॥ श्रीरहनेम नेमजिन बंधव, निरमल गुणगण रयण निधान ॥ ८ ॥ श्री० ॥ जालि मयालि ने उवयालो, पुरससेण वारिसेन प्रजुन्न ॥ संब अने अनिरुद्ध ऋषीसर, सत्यनेमि दृढनेमि सुधन्य ॥ ९ ॥ प्र० ॥ कुमर अनीकजसादिक षट मुनि, गुणगिरुवो श्रीगजसुकमाल ॥ ढंढण ऋषि श्रीथावच्चा

सुत, सहस साधु संजतसु रुपाख ॥ १० ॥ प्र० ॥

॥ ढाल बीजी ॥ राग धन्याश्री ॥

॥ सहस श्रमणसुं सुक संजमधरो, पंचसयांसु सेलग मुनि वरो ॥ सिद्ध थया श्रीपुंमरगिरिवरो, करुणाकर प्रणम्यां संपदकरो ॥ उल्लालो ॥ संपद करो समदम रिषीसर साधु सारण सोह ए, अं तर प्रकासे तिमर नासे, नविकजन मन मोह ए ॥ प्रत्येकबुध्ध प्रबुध्ध नारद मुनि प्रमुख पेंताल ए, दमदंत महाऋषि कुंजवारे साधु नमुं त्रिहुं काल ए ॥ ११ ॥ चाल ॥ रंग रिषनदत्त रतनत्रय गुणी, स, मरुं देवानंदा साहुणी ॥ पांचे पांमव प्रणमुं मुनिपती, केसपएसी बोधक जिनमती ॥ उल्लालो ॥ जिनमती कालक पूत्र मेहल थिवर आणंद रस्कियो, अणगार कासव धर्म नाख्यो सोधि सिवपुर स स्कियो ॥ कालासवेसी पूत्र आतम अरथ लायक उपसमइ, श्रीपुं मरीक महामुनीसर प्रणमिये शुन्न संयमी ॥ १२ ॥ चाल ॥ वंडु वलकलची र केवली, श्री अयमत्तो मुनिवर मन रली ॥ श्रीकरकंडू डुमह नमि निग्गया, निज२ देसे नरवर श्रीजुआ ॥ उल्लालो ॥ श्री जुवा ए वृपनादि देखी थया वक वइरागिया, संजमलिरि नज मो हनिद्रा तजिय जोगे जागिया ॥ प्रत्येकबुद्धा च्यार सिद्धा सिद्ध थया एकण समें, सुप्रसन्नचंद मुनिंद निरमम प्रेम प्रणमुं प्रह समे ॥ १३ ॥ चाल ॥ खंते कुल्लकुमारसु ध्याइये, लोइच्चा मुनि चरणे लय ला इये ॥ काल उदाई प्रमुख महामुणी, संजन मुद्ध जयंती साहूणी ॥ उल्लालो ॥ साहूणी जाणी जगवखाणी, परमपद सुख पामिया ॥ श्रीश्रमणनड सुनड सुंदर अचल आतमरामिया ॥ श्रीसुप्रतिष्ठय तीस सुव्रत, साधु सुव्रत सेहरो ॥ चारित्र रिष गुणवंत गोन्नड गरुड गरि मा सागरो ॥ १४ ॥ चाल ॥ सिरि सिवराय ऋषीसर वंदिये, दसारण नइ नमुं डुख छंदिये ॥ अर्जुनमाली सुख संजमधरो, सुदढप्रहा

री सिवरमणी वरो ॥ उल्लालो ॥ सिवरमणी वरी श्री कूरगडू क्षमावंत प्रसिद्ध, कोडिन्न दिन्न अनै सेवाली पनर सतक तिर्हत्तरा ॥ गो तम प्रबोधत सिद्ध पुहता नमुं चरण करणाधरा ॥ १५ ॥ चाल ॥ गरुआ श्रीगुणसागर गाईये, प्रथ्वीचंद्र प्रणम्यां सुख पाइयै ॥ खं दकुमार सदा अभिनंदिये, नमिइ नरह सित्र मन आणंदिये ॥ उल्लालो ॥ आणंदिये मेतार्य मुनिवर जगतसुं समरी करी, रुप इ लापुत्र चिलापुत्र मृगापुत्र हीयै धरी ॥ अ इड नाम निर्ग्रंथ निर्मम धर्मरुचि धर्मागिरो ॥ तेतलीपुत्र सुबुद्धि बोध तसु जितशत्रु मुनी सरो ॥ १६ ॥ चाल ॥ उदय २ कर जगि २ जसतणो, श्रमण सु दंसण सील सुदामणो ॥ श्रीअभयसुत आद्रकुमार ए, चित्त चतुर नर चित चमकार ए ॥ उल्लालो ॥ चमकार सार सुजात ऋषिवर देवसांनिध जस धणी, गंगेय गिरुवो गुणे गाजै सुजिन पालत हि त धणी ॥ श्रीधर्मघोष सुसीस धर्मरुचि, साधु श्रीजिनदेव ए ॥ श्रीकपिल ऋषि हरिकेशव बल मुनि, नित नमुं निरलेव ए ॥ १७ ॥ ॥चाल॥ जति जयघोष विजयघोष जुड, सेवुं श्रुतधर श्रीदेवलसुड ॥ श्री इखुकार नृपति कमलावती, रांणी भृगुसुं प्रोहित सुजमती ॥ उल्ला लो ॥ सुजमती जेहनी जसाभार्या पुत्र दोय वखाणिये, ए वहूं लेइ चारु चारित्र मुगति पहुता जाणिये ॥ क्षत्रिय मुनिसर साधु संजम धर्मरुचि महाव्रती, निर्ग्रंथनाथ अनाथ वंदू समुद्रपाल सुसं यती ॥ १८ ॥ चाल ॥ कुम्मापुत्र नमुं केवल कह्यो, विधसुं शीतल सिवकमला मिल्यौ ॥ धन धन धन्यो सुरगिरी धीर ए, वीरप्रशं स्यो तप गुण वीर ए ॥ २० ॥ श्रीवीर दीक्षित श्रीसुबाहु भद्र नं दकुमार ए, आदिक दसे रिष चरिय जेहना सुख विपाक उदार ए ॥ श्रीचंद्ररुद्र सुसीस खंदग क्षमानिधि कहिये इण कलै, कुरुदत्त सुत तीसग सरोरुह रिष नम्यां आस्या फले ॥ १९ ॥ चाल ॥ अंग प्र

मुख रिष च्यारे आदरी, विधिसुं संजम सिद्धिवधू वरी ॥ अत्रैकुमार मुनि अभयंकरो, हल्ल विहल्लसु आतम हितकरो ॥ उल्लालो ॥ हितकरो दयाधर मेघ मुनिवर नंदिषेण आराधिये, सुनक्षत्र नै सर्वानुभूति समर सिवसुख साधिये ॥ श्रीसिंह साधू अने उदायन चरम राजरुषीसरो, श्रीसालभद्र सुधन्न मुनिवर समरंता मंगलकरो ॥ २० ॥

॥ ढाल ३ ॥ राग धन्यासिरी ॥

वरुवेरागी वर नमूं, युगवर जंबूसांमि ॥ प्रभव सिय्यंभव परगमो, सुजस जसोभद्र स्वांमि ॥ महामुनिसर नित नमूं जी, नांमे घर नवनिध्य वाधै रिद्ध समुद्ध ॥ महा० ॥ २२ ॥ जग संभू तिविजय जयो, भद्रबाहु कृतभद्र, जग जोगीसर जागतो, मुनिवर श्रीथूलभद्र ॥ २३ ॥ म० ॥ भद्रबाहु स्वामीतणा, च्यार शिष्य मुनीराय ॥ सीत परीसह जिणसह्या, सारया२ आतम काज॥म०॥ ॥ २४ ॥ अज्जमहागिरि जांणिये, अज्जसुहस्ति विसाल ॥ संप्रति नृप प्रतिबोहियो, श्रीअयवंतीसुकमाल ॥ म० ॥ २५ ॥ आरिजसांमि प्रसंसियो, अज्जसुभद्र मुनीस ॥ अज्जमंगु महिमा निलो, सींहगि री समुनीस ॥ म० ॥ २६ ॥ धनगिरि थिवर महामनी, श्रीवयर स्वामी मुनिराय ॥ अरहदिस मुनि अपहरयो, भद्रगुपति निरमाय ॥ म० ॥ २७ ॥ वयरसेन विद्यावरू, श्रीरक्षत गुरु दक्ष ॥ पुस मित्र गुण गहगह्यो, प्रभु दुरबलका पक्ष ॥ म० ॥ २८ ॥ विंझ सा धु सुविहइ भरयो, श्रीठंमिल सुविहठ ॥ सूत्रअरथ रतने भरयो, क्षमाश्रमण देवर्द्धि ॥ म० ॥ २९ ॥ पंचम काल महामुनी, श्री दुपसै सूर दयाल ॥ सुद्ध क्रिया खरतर सही, जिन आज्ञा प्रतिपाल ॥ म० ॥ ३० ॥ इम पनर कर्मभूमी जिके, हुआ होस्यै अणंत ॥ वर्त्तमान ओसाधुजी ॥ रत्नत्रइ गुणवंत ॥ म० ॥ ३१ ॥ ब्राह्मी

सुंदरि रायने, साहुणी चंदनबाल ॥ आदिक्क सीलवती सती, त्रिक रण सुद्ध त्रिकाल ॥ म० ॥ ३२ ॥ संवत सोल बत्तीस ए, श्री विमलनाथ सुरसाल ॥ दिक्षा कल्याणक दिने, गूंथी श्रीमुनिमाल ॥ म० ॥ ३३ ॥ रिणी पुरें रलियामणो, श्रीशीतल जिनचंद ॥ सूरि विजय राजे सदा, संघ सकल आणंद ॥ म० ॥ ३४ ॥ श्री मतिभद्र सुगुरुतणें, सुपसाये सुखकार ॥ चारित्र सिंघ वखाणीये, सदा२ जयकार ॥ म० ॥ ३५ ॥ मनहर श्रीमुनिमालका, गुणग ण परिमलपूर ॥ कंठ ठवे उत्तम जिके, पामे सुख भरपूर ॥ म०॥ ॥ ३६ ॥ महा मुनिसर गावतां, सुरतरु सफल समान ॥ अष्टम हासिद्ध घरे फले, सदा२ कल्याण ॥ म० ॥ ३७ ॥ इति मुनिमाल का साधु वंदना संपूर्णम् ॥

॥ अथ छिन्नूं जिन स्तवन लि० ॥

॥दो०॥ वरतमान चोवीसी वंदू, मन सूधे नित मेव री माई॥ रुषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पदम प्रभु सेव री माई॥ ॥व०॥ १ ॥ श्रीसुपार्श्व चंद प्रभु प्रणमुं, सुविध शीतल श्रेयांस री माई ॥ वासपूज्य विमल अनंत धरम जिन, शांति कुंथु परसंस री माई ॥ व० ॥ २ ॥ अरिजिन मल्लि अने मुनिसुव्रत, नमि नेमी पास जिनंद री माई ॥ चोवीसमा श्रीवीर जिनेसर, प्रणमूं परमा नंद री माई ॥ व० ॥ ३ ॥

॥ ढाल २ ॥ अह सम सूधा साधु नमुं नित ॥ ए देशी ॥

नित २ अतीत चोवीसी नमिये, जेहना नाम प्रगट ए जाण॥ केवलग्यानी ते निरवांणी, सागर महाजस विमल वखाण ॥ ४ ॥ ॥ नि० ॥ सर्वानुभूति श्रीधरदत्त जिनवर, दामोदर सुतजाश्रीस्वा मि ॥ मुनिसुव्रत सुमति शिवगति जिन, श्रीअस्ताग नेमीसर नांम ॥ ५ ॥ नि० ॥ अनिल यशोधर तिम कृतारथ, श्रीजिनेसर सुद्धम

ति भुजगीस, सिवकर स्यंदन संप्रति नांमे, वंदीजे जिनवर चोवी
स ॥ ६ ॥ नि० ॥

॥ ढाल ३ ॥ सफल संसारनी ॥

जे भविस्संतिअणागए काल ए तेह चौविस प्रणमीस त्रिहुं
काल ए प्रथम माहाराज श्रेणिकतणो जीव ए श्रीपदमनाभ प्रण
मीस सदीव ए ॥ १ ॥ वीरनो पितरियो नांम सुपास ए, हुसी
जिन वीय सुरदेव सुप्रकास ए ॥ श्रेणिक सुत उदाइ नरिंद ए,
तीसरो तेह सुपास जिणंद ए ॥ २ ॥ शिष्य श्रीवीरनो पोट्टलो
साघ ए, चोथो स्वयंप्रभू नांम आराधि ए ॥ दृढायुध जीव सिद्धां
तमें जाणिये, पंचम सर्वानुभू ते प्रमांणिये ॥ ३ ॥ कीर्त्ति इण नाम
इक जीव कहीजिये, देवश्रुत ते छठो स्वांमि सलहीजिये ॥ संख
श्रावक हुस्यै उदय जिन सातमो, आनंदनो जीव पेढाल जिन
आठमो ॥ ४ ॥ सुनंदनो जीव ते नवम पोट्टल जिणं, सतक श्रावक
शतकीर्त्ति दसमो भणूं ॥ देवकीजीव मुनिसुव्रत इग्यारमो, सत्य
कीजीव ते अमम जिन बारमो ॥ ५ ॥ वासुदेवजीव निकषाय
जिन तेरमो, बलदेवजीव निपुलाक चवदम नमो ॥ पनरमो निर
मम देव सुलसा कही, रोहणीजीव चित्रगुप्त सोलम सही ॥ ६ ॥
समाध जिन सतरमो श्रावका रेवती, अढारमो शतालजीव संवर
जिनपती ॥ दीपायनजीव यशोधर उगणीसमो, कृष्णकोइजीव
ते विजय जिन वीसमो ॥ ७ ॥ मल्लि इकवीसमो जीव नारदतणो,
देव वावीसमो अंबड श्रावक भणूं ॥ तेवीसमो अमरजीव अनंत
वीरज नमो, स्वातबुधजीव ते भद्र चोवीसमो ॥ ८ ॥ एह आगाम
चोवीस जिन जांणिया, प्रवचन सारउद्धारथी आणिया ॥ केइ पर-
सिद्ध ने केइ अप्रसिद्ध कह्या, सास्त्र अनुसारथी साच कर सरदह्या ॥९॥

॥ ढाल ३ ॥ आजनिहेजो रे दीसे नाहालो ए देशी ॥

विहरमांन जिन वीसे वंदियै, महाविदेह विख्यात ॥ सीमंधर जुगमंधिर वाहुजी, श्रीसुबाहु सुजात ॥ वि० ॥ ६ ॥ स्वयंप्रभु रूषभानन अनंतवीरजी, सूरप्रभु तेम विशाल ॥ वज्रधर चंद्रानन चंद्रवाहुजी, भुजंग ईश्वर नेमि भाल ॥ वि० ॥ ७ ॥ वैरसेन महाभद्र नमुं वली, देवयसा यसोरिद्ध अढीद्वीपमे विचरे आज ए, नांम लियां नवनिद्ध ॥ वि० ॥ ८ ॥

॥ ढाल ४ ॥ रे जीव जिन धर्म कीजिये ॥ ए देशी ॥

च्यार तीर्थंकर सासता, इणाहिज अभिधान ॥ रूषभानन चंद्रानन वारिषेण वर्द्धमांन ॥ च्यार० ॥ ९ ॥ अठ कोडि छप्पन्न लाख ए सत्ताणू हजार ॥ चउसे ग्यासी देहरा, त्रिहुं लोक मझार ॥ च्यार० ॥ १० ॥ नवसे पणवीस कोडिया, बिंब त्रेपन लाख ॥ सहस अठावीस च्यारसै, अठयासी भाख ॥ च्यार० ॥ ११ ॥ विहू जिणवर नांम ए, समरयां सुखदाय ॥ प्रणम्यां पाप मिटेपरा, समकित सुद्ध थाय ॥ च्यार० ॥ १२ ॥

॥ कलस ॥

इम त्रिण चोवीसी वीस विहरमांण चउ जिणवर सासता, संथुण्या सतरैसै वयालै अधिक आणी आसता ॥ जिन रतनचिंतामणितणो-पर प्रबल वंछित पूर ए, प्रहसमै त्रिकरण शुद्ध प्रणमै सदा जिनचंद सूर ए ॥ १३ ॥ इति श्री विहू जिन स्तवन संपूर्ण ॥

॥ अथ उपदेशमाला पोसह सिझाय लि० ॥

जग चूडामणिभूउ, उसभो वीरो तिलोय सिरि तिलउ ॥ एगो लोगाइच्चो, एगो चक्खू तिहुअणस्स ॥ १ ॥ संवछरमुसभ जिणो, छम्मासे वद्धमाण जिणचंदो ॥ इह विहरिया निरसणा, जए ज्जए उव माणेणं ॥ २ ॥ जइता तिलोय नाहो, विसहइ बहुयाई असरिसज

णस्स ॥ इय जीयंतकराइं, एंस खमा सबसाहूणं ॥ ॥ ३ ॥ न चई
ऊइ चालेउ, महइ महावद्धमाण जिणचंदो ॥ उवसग्ग सहस्सेहिं
वि,मेरु जहा वायगुं जाहिं ॥ ४ ॥ जहो विणीय विणउ, पढम
गणहरो समत्त सुयनाणी ॥ जाणंतो वि तमत्थं; वि म्हिय हियउ
सुणइ सबं ॥ ५ ॥ जं आणवेइ राया, पयइउ तं सिरेण इछंति ॥
इय गुरुजण मुह जणियं, कयंजलिउमेहिं सोयवं ॥ ६ ॥ जह
सुर गणाण इंदो, गहगणतारागणाण जह चंदो ॥ जहय पयाण
नरिंदो, गणस्स वि गुरु तहाणंदो ॥ ७ ॥ बालुत्ति महीपालो, न
पया परिहवइ ए स गुरु उवमा ॥ जंवा पुरउ काउं, विहरंति मुणी
तहा सोवि ॥ ८ ॥ पम्डिरूवो तेहस्सि, जुगप्पहाणागमो महुरवक्को
॥ गंभीरो धिइमंतो, उवएसपरो य आयरिउ ॥ ए ॥ अपरिस्सावी
सोमो, संगहसीलो अभिग्गहमई य ॥ अविकछणो अचवलो, पसं
तहियउ गुरू होई ॥ १० ॥ कइयावि जिणवरिंदा, पत्ता अयरामरं
पहं दाउं ॥ आयरिएहिं पवयणं; धारिज्जइ, संपयं सयलं ॥ ११ ॥
अणुगम्मए जगवई, रायसुयज्जा सहस्स वंदेहिं ॥ तहवि न करे इ
माणं, परिय छइ तं तहा नूणं ॥ १२ ॥ दिण दिक्खियस्स दमग, स्स
अभिमुहा अज्जचंदणा अज्जा ॥ नेछइ आसणगहणं, सो विणउ सव
अज्जाणं ॥ १३ ॥ वरससय दिक्खियाए, अज्जाए अज्जदिक्खिउ साहू ॥
अभिगमण वंदण नमं, सणेण विणएणसो पुज्जो ॥ १४ ॥ धम्मो
पुरिसप्पभवो, पुरिसव रदेसिउ पुरिसजिठो ॥ लोएवि पहू पुरिसो,
किंपुण लोगुत्तमे धम्मे ॥ १५ ॥ संवाहणस्ससरसो, तइया वाणा-
रसीइ नयरीए ॥ कन्ना सहस्समहियं, आसी किररूववंतीणं ॥ १६ ॥
तह वि य सारायसिरी, उल्लहंती न ताइया ताहिं ॥ उयरहिएणं
इक्के, ण ताइया अंगवीरेण ॥ १७ ॥ महिलाणसु बहुयाण वि, म
ज्झाउ इह समत्त घरसारो ॥ रायपुरिसेहिं निज्जइ, जणेवि पुरिसो

अहिं नत्थि ॥ १८ ॥ किं परजण वहुजाणा, वणाहिं वरमप्प सक्खियं सुकयं ॥ इह नरहचक्कवट्टी, पसन्नचंदो य दिठंता ॥ १ए ॥ वेसो वि अप्पमाणो, असंजम पएसु वट्टमाणस्स ॥ किं परियत्तियवेसं, विसं न मारेइ खज्जंतं ॥ २० ॥ धम्मं रक्खइ वेसो, संकइ वेसेण दिक्खिउ मिअहं ॥ उम्मग्गेण पमंतं, रक्खइ राया जणवउ य ॥ २१ ॥ अप्पा जाणइ अप्पा, जहठिउ अप्पसक्खिउ धम्मो ॥ अप्पा करेइ तं तह, जह अप्पसुहावहं होई ॥ २२ ॥ जं जं समयं जीवो, आविस्सइ जेण जेण नावेण ॥ सो तंमि तंमि समए, सुहासुहं बंधए कम्मं ॥ ॥ २३ ॥ धम्मो मएण हुंतो, तो न वि सीउन्ह वायविज्झमिउ ॥ संव च्छरमणासीउ, बाहुवली तह किलिस्संतो ॥ २४ ॥ नियगमइ विग प्पिय चिं, तिएण सछंदबुद्धिचरिएण ॥ कत्तोपारत्तहियं, कीरइ गुरु अणुवएसेणं ॥ २५ ॥ थद्धो निरोवयारी, अविणीउ गवित निरवणा मो ॥ साहुजणस्स गरहिउ, जणेवि वयणिज्जयं लहइ ॥ २६ ॥ थोवेण वि सप्पुरिसा, सणंकुमारु व्वकेइ बुज्झंति ॥ देहे खणपरिहाणी, जंकिर देवेहिंसे कहियं ॥ २७ ॥ जइता लवसत्तम सुर, विमाण वासीवि परिवमंति सुरा ॥ चिंतिज्जंतं सेसं, संसारे सासयं कयरं ॥ ॥ २८ ॥ कहतं नन्नइ सुक्खं, सुचिरेण वि जस्स उक्कमल्लिहियए ॥ जं च मरणा वसाणे, नव संसाराणुबंधिं च ॥ २ए ॥ उवएस सह स्सेहिं, वोहिज्जंतो न बुज्झई कोई ॥ जह बंन्नदत्तराया, उदाइनिव मारउ चेव ॥ ३० ॥ गयकन्न चंचलाए, अपरिचत्ताइ रायलछीए ॥ जीवासकम्म कलिमल, नरिय नरातो पमंति अहे ॥ ३१ ॥ वोत्तू णवि जीवाणं, सउकरा इंति पावचरियाइं ॥ नयवंजा सा सासा, पच्चाएसो हु इणमो ते ॥ ३२ ॥ पमिवज्जिऊण दोसे, नियए सम्मं च पायवमियाए ॥ तो किर मिगावईए, उप्पन्नं केवलं नाणं॥ ३३ ॥

इति पोसह सिद्धा० ॥

॥ अथ राईसंथारा पोसह सिवाय ॥

॥ निस्सिही निस्सिही नमो खमासमणाणं, गोयमाईणं ॥ महामुणीणं ॥ नवकार ३, करेमिजंते ३, कहियें. अणुजाणह जि ज्जिा, अणुजाणह परमगुरु. गुणगणरयणेहिं मंमिअसरीरा ॥ बहु पमिपुन्ना पोरिसि, राईसंथारए गमि ॥ १ ॥ अणुजाणह संथारं, बाहुवहाणेण वामपासेणं ॥ कुक्कुम पाय पसारण, अंतरं तु पमज्जए नूमिं ॥ २ ॥ संकोइय संमासं, उवट्टंतेय काय पमिलेहा ॥ दवाई उवउंगं, ऊसासनिरुंजणालोयं ॥ ३ ॥ जइ मे हुज्ज पमाउ, इमस्स देहस्सिमाइ रयणीए ॥ आहार मुवहि देहं, सवं तिविहेण वोसिरियं ॥ ४ ॥ आसव कसाय बंधण, कलहा जखाण परपरीवाउ ॥ अरइ रई पेसुन्नं, माया मोसं च मिच्छत्तं ॥ ५ ॥ वोसिरिसु इमाइंसु, रकम ग्ग संसग्ग विग्घ नूआइं ॥ डुग्गइनिबंधणाइं, अगरस पावहाणाइं ॥ ६ ॥ एगो हं नच्छिमे कोइ, नाहमन्नस्स कस्सवि ॥ एवं अदीण मणसो, अप्पाण मणुसासए ॥ ७ ॥ एगो मे सासउ अप्पा, नाण दंसणसंजुउ ॥ सेसा मे बाहिरा नावा, सव्वे संजोगलरकणा ॥ ॥ ८ ॥ संजोगमूला जीवेण, पत्ता डुरकपरंपरा ॥ तम्हा संजोग संबंधं, सवं तिविहेण वोसिरे ॥ ९ ॥ अरिहंतो मह देवो, जावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो ॥ जिणपन्नत्तं तत्तं, इयसम्मत्तं मए गहियं ॥ १० ॥ चत्तारि मंगलं, अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवलि पन्नतो धम्मो मंगलं, चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलि- पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो ॥ चत्तारि सरणं पवज्जामि, अरिहंते सरणं पवज्जामि, सिद्धे सरणं पवज्जामि, साहूसरणं पवज्जामि, केवलि पन्नत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ॥ अरिहंता मंगलं मज्झ, अरिहंता मज्झ देवया ॥ अरिहंता कित्तिअत्ताणं, वोसिरामित्ति पावगं ॥ १ ॥ सिद्धाय मंगलं मज्झ सिद्धा य मज्झ

देवया ॥ सिद्धा य कित्तिअत्ताणं, वोसिरामि त्ति पावगं ॥ २ ॥ आयरिया मंगलं मज्झ, आयरिया मज्झ देवया ॥ आयरिया कित्तिअत्ताणं, वोसिरामि त्ति पावगं ॥ ३ ॥ उवज्झाया मंगलं मज्झ, उवज्झाया मज्झ देवया ॥ उवज्झायां कित्तिअत्ताणं, वोसिरामित्ति पावगं ॥ ४ ॥ साहूणो मंगलं मज्झ, साहूणो मज्झ देवया ॥ साहूणो कित्तिअत्ताणं, वोसिरामि त्ति पावगं ॥ ५ ॥ पुढवि दग अगणि मारुय, इक्किके सत्त जोणि लरकाउ ॥ वणपत्तेय अणंते, दस चउदस जोणि लरकाउ ॥ ॥ १ ॥ विगलिंदिएसु दो दो, चउरो चउरो य नारय सुरेसु ॥ तिरिएसु हुंति चउरो, चउदस लरका यमणुएसु ॥ २ ॥ खामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवाखमंतु मे ॥ मित्ती मे सव्वभूएसु, वेरं मज्झं न केणवि ॥ ३ ॥ एवमहं आलोइअ, निंदिअ गरहिअ दुगंछिअं सम्मं॥ तिविहेण पडिक्कंतो, वंदामि जिणे चउव्वीसं ॥ ४ ॥ खमिअ खमाविअ मइ खमिअ, सव्वह जीव निकाय ॥ सिद्धहसाख आलोयणह, मज्झह वेर न भाय ॥ ५ ॥ सव्वे जीवा कम्मवसु, चउदह राज भमंतु ॥ ते मइ सव्व खमाविया, मज्झवि तेह खमंतु ॥ ६ ॥ इति संथारा गाथा स० ॥

॥ अथ निंदावारक सझाय ॥

॥ निंदा म करजो कोइनी पारकी रे, निंदानां बोल्यां महा पाप रे ॥ वयर विरोध वाधे घणो रे, निंदा करतां न गणे माय बाप रे ॥ निं० ॥ १ ॥ दूर बलंती कां देखो तुम्हें रे, पगमा बलती देखो सहु कोय रे ॥ परना मेलमा धोयां लूगडां रे, कहो केम ऊजलां होय रे ॥ निं० ॥ २ ॥ आप संभालो सहुको आपणो रे, निंदानी मूको परी टेव रे ॥ थोडे घणे अवगुणे सहु भर्यां रे, केहनां नलीयां चुए केहनां नेव रे ॥ निं० ॥ ३ ॥ निंदा करे ते थाये नारकी रे, तप जप कीधुं सहु जाय रे ॥ निंदा करो तो करजो

आपणी रे, जेम छुटकवारो थाय रे, ॥ निं० ॥ ४ ॥ गुण ग्रहजो सहुको तणो रे, जेहमां देखो एक विचार रे ॥ कृष्णपरें सुख पामशो रे, समयसुंदर सुखकार रे ॥ निं० ॥ ५ ॥

अथ सीता सिझाय लिख्यते ॥

॥ जल जलती मिलती घणी रे, काली काल अपार रे ॥ सुजाण सीता ॥ जाणे केसू फूलियां रे लाल, राता खैरअङ्गार रे ॥ सु० ॥ १ ॥ धीज करे सीतासती रे लाल ॥ शील तणे परिमाण रे ॥ सु० ॥ लक्ष्मण राम खुशी थया रे लाल, निरखे राणो राण रे ॥ सु० ॥ २ ॥ स्नान करी निरमल जलें रे लाल, पावक पासें आय रे ॥ सु० ॥ ऊभी जाणे सुराङ्गना रे लाल, अनुपम रूप दिखाय रे ॥ सु० ॥ ३ ॥ नर नारी मिलियां घणां रे लाल, ऊभा करे हाय हाय रे ॥ सु० ॥ भस्म हुशी इण आगमें रे लाल, राम करे अन्याय रे ॥ सु० ॥ ४ ॥ राघव बिन वांछयो हुवे रे लाल, सुपनेही नहिं कोय रे ॥ सु० ॥ तो मुझ अगन प्रजालजो रे लाल, नहिं तो पाणी होय रे ॥ सु० ॥ ५ ॥ इम कहि पेठी आगमें रे लाल, तुरत अगन थयो नीर रे ॥ सु० ॥ जाणें द्रह जलशुं भरयो रे लाल, झीले धरम सुधीर रे ॥ सु० ॥ ६ ॥ देव कुसुम वरषा करे रे लाल, एह सती सिरदार रे ॥ सु० ॥ सीता धीजें ऊतरी रे लाल, साख भरे संसार रे ॥ सु० ॥ ७ ॥ रलियायत सहुको थयां रे लाल, सघले थया उछरंग रे ॥ सु० ॥ लक्ष्मण राम खुशी थया रे लाल, सीता शीला सुरंग रे ॥ सु० ॥ ८ ॥ जग मांहे जस जेहनो रे लाल, अविचल शील कहाय रे ॥ सु० ॥ कहे जिन हर्ष सती तणा रे लाल, नित प्रणमीजें पाय रे ॥ सु० ॥ ॥ ९ ॥ इति सीतासती सिझाय समाप्ता ॥

॥ अथ अनाथी रुषि सिझाय ॥

॥ श्रेणिक रयवाडी चढयो, पेखियो मुनी एकंत ॥ वर रूपकाते मोहियो, राय पूछे रे कहो विरतंत ॥ १ ॥ श्रेणिकराय हुं रे अनाथी निर्ग्रंथ ॥ तिणमैं लीधो रे साधुजीनो पंथ ॥ श्रे० ॥ ए आंकणी ॥ इण कोसंबी नगरी वसे, मुझ पिता परि गल धन्न ॥ परवार परें परवरयो हुं हुं तेहनो रे पुत्र रतन्न ॥ श्रे० ॥ २ ॥ इक दिवस मुझ वेदना, ऊपनी ते न खमाय ॥ मात पिता सहु जूरी रह्या, तोही पण रे समाधि न थाय ॥ श्रे० ॥ ३ ॥ गोरडी गुण मन ऊरडी, ऊरडी अबला नार ॥ कोरडी पीडा में सही, नहिं कीधी रे मोरडी सार ॥ श्रे० ॥ ४ ॥ बहु राजवैद्य बुलाइया, कीधला कोडी ऊपाय ॥ बावना चंदन लेईया, पण तोही रे दाह नवि जाय ॥ श्रे० ॥ ५ ॥ वेदना जो मुझ ऊपशमे, तो लेऊं संजमन्नार ॥ इम चिंतवतां वेदन गई, व्रत लीधो रे हरष अपार ॥ ॥ श्रे० ॥ ६ ॥ जगमांहे को केहनो नाहिं, ते न्नणी हुं रे अनाथ॥ वीतरागनो धरम वाहरो, कोई नहीं रे मुगतिनो साथ ॥ श्रे० ॥ ॥ ७ ॥ कर जोडी राजा गुण स्तवे, धन धन तुं अनगार ॥ श्रेणिक समकित तिहां लहे, वांदी पहुंचे रे सरग मझार ॥ श्रे० ॥ ॥ ८ ॥ मुनिवर अनाथी गावतां, कर्मनी तूटे कोडी ॥ गणि समय सुंदर तेहना, पाय वांदे रे बे कर जोडी ॥ श्रे० ॥ ए ॥ इति ॥

॥ अथ प्रतिक्रमणसिझाय ॥

॥ कर पडिक्कमणो न्नावसुं, दोय घडी शुन्न ध्यान ॥ लाल रे ॥ परन्नव जाता जीवनें, संबल साचुं जाण ॥ लाल रे ॥ १ ॥ कर पडिक्कमणु न्नावशुं ॥ ए आकणी ॥ श्रीमुख वीर समुच्चरे, श्रेणिकराय प्रतिबोध ॥ ला० ॥ लाख खंडी सोना तणी, दीये दिन प्रति दान ॥ ला० ॥ २ ॥ कर० ॥ लाख वरस लग ते व्रजी, एम

दीये द्रव्य अपार ॥ ला० ॥ इक सामायिकनी तुला, नावे तेह लगार ॥ ला० ॥ ३ ॥ कर० ॥ सामायिक चउविसत्थो, भलुं वंदन दोय दोय वार ॥ लाल रे ॥ व्रत संभारो रे आपणां, ते भव कर्म निवार ॥ लाल रे ॥ ४ ॥ कर० ॥ कर काउसग्ग शुभध्यानथी, पच्चक्खाण सूधूं विचार ॥ लाल रे दोय संध्या यें ते वली, टालो टालो अतिचार ॥ लाल रे ॥५ ॥ कर० ॥ सामायिक परसादथी, लहीयें अमर विमान ॥ ला० ॥ धरमसिंह मुनिवर कहे, मुगति तणुं ए निदान ॥ ला० ॥ ६ ॥ कर० ॥ इति प्रतिक्रमणसिज्झाय सं० ॥

॥ अथ मंगलिक सरणां लिख्यते ॥

॥ प्रह ऊगोने समरिजें हो ॥ भवियण मंगलिक सरणा चार ॥ आपदा टाले संपदा हो ॥ भ० ॥ दोलतनो दातार ॥ हियडे राखिजें हो ॥ भ० ॥ १ ॥ अरिहंत सिद्ध साधा तणो हो ॥ भ० ॥ केवलि भाख्यो धर्म ॥ ए चारू जपतां थकां हो ॥ भ० ॥ टूटे आठुं कर्म ॥ हि० ॥ २ ॥ ए चारूं सुखकारि हो ॥ भ० ॥ ए जारू मङ्गलिक ॥ ए चारूं उत्तम कह्यां हो ॥ भ० ॥ ए चारू तहतीक हो ॥ हि० ॥ ३ ॥ गेले घाटें चालतां हो ॥ भ० ॥ समरुं वार वार ॥ गामें नगरें चालतां हो ॥ भ० ॥ विघ्न निवारणहार ॥ ॥ हि० ॥ ४ ॥ डाकण साकण भूतडां हो ॥ भ० ॥ सिंह त्रिसाने सूर ॥ वैरी दुसन चोरटा हो ॥ भ० ॥ रहे सदाइ दूर ॥ हि० ॥ ॥ ५ ॥ सुख शाता वरते घणी हो ॥ भ० ॥ जे ध्यावे नरनार ॥ परभव जातां जीवने हो ॥ भ० ॥ सरणाको आधार ॥ हि० ॥ ६ ॥ राखो सरणाकी आसता हो ॥ भ० ॥ नेडो नाहिं आवे रोग ॥ वरतें आनंद सुख सदा हो ॥ भ० ॥ वाला तणो संयोग ॥ हि० ॥ ७ ॥ निशिदिन याकुं ध्यावतां हो ॥ भ० ॥ जीव तणो उद्धार ॥ कमी नहिं कोइ वस्तुनी हो ॥ भ० ॥ याहि जगमें सार ॥ हि० ॥ ८ ॥

मनचिंता मनोरथ फले हो ॥ ज० ॥ वरते कोम कल्याण ॥ शुद्ध मनें करी समरता हो ॥ ज० ॥ निश्चैं पद निर्वांण ॥ हि० ॥ ए ॥ ए सरणाने ध्यावतां हो ॥ ज० ॥ नाम तणो आधार ॥ ए सर णाकी कीरति कही हो ॥ ज० ॥ ध्यावो मनह मझार ॥ हि० ॥ ॥ १० ॥ संवत् अढारे बावने हो ॥ ज० ॥ पालि सहेर सुखकार ॥ चोथमल्ल इम वीनवे हो ॥ ज० ॥ सुनजो बाल गोपाल ॥ हि० ॥ ॥ ११ ॥ इति श्रीमांगलिक सरणां ॥

॥ अथ सिझाय संग्रह लिख्यते ॥

॥ ढंढण रुषीनी सझाय ॥

॥ ढंढण रुषिजीने वंदना हूं वारी, उत्कृष्टो अणगार रे हूवा री लाल, अभिग्रह लीधो एहवो हुं० ॥ लेस्युं शुद्ध आहार रे ॥ हुं० ॥ १ ॥ ढं० ॥ नितप्रति ऊठे गोचरी हुं० ॥ न मिलै शुद्ध आहार रे ॥ हुंवा० मूल न लै अणसूझतो हुं० ॥ पंजर कीधो गात रे हुं० ॥ २ ॥ ढं० ॥ हरि पूछे श्रीनेमने हूं०, मुनिवर सहस अढार रे ॥ हुं वा० ॥ उत्कृष्टो कुण एहमें हुं० ॥ मुझनें कहो विचार रे ॥ हूंवा० ॥ ३ ॥ ढं० ॥ ढंढण अधिको दाखियो हुं० ॥ श्रीमुख नेमजिणंद रे हूंवा० ॥ कृष्ण ऊमाह्यो वांदवा हुं० ॥ धन जादव कुलचंद रे हूं वा० ॥ ४ ॥ ढं० ॥ गलियारे मुनिवर मिल्या हुं०, बांद्या कृष्ण नरेस रे हूंवा० ॥ किणही मिथ्यात्वी देखने हुं०, आण्यो भाव वि सेसरे हुं० ॥५॥ ढं० ॥ मुझ घर आवो साधजी हुं०, ल्यो मोदक छै शुद्धरे हूं० ॥ मुनिवर विहरीने पांगुरया हुं०, आया प्रभुजीने पास रे हुं० ॥ ६ ॥ ढं० ॥ मुझ लवधै मोदक मिल्या हुं०, कहोने तुम्हे किरपाल रे हुं० ॥ लवध नही वछ ताहरी हूं०, श्रीपति लवधि निधान रे हूं० ॥ ७ ॥ ढं० ॥ ए लेवा जुगतो नही हुं०, चाल्या परठ-

न काज रे हुं० ॥ इंट निवा हे जायने हुं० चूरे करम समाज रे हुं० ॥ ८ ॥ ढं०॥ आंणी चढती न्नावना हुं०, पांम्यो केवल नाण रे हुं० ॥ ढंढण रुषि मुगते गया हुं०, कहे जिनहर्ष सुजाण रे हुं० ॥ ए ॥ ढं० ॥ इति ढंढण रुषि सिझाय संपूर्ण ॥

॥ अथ धन्नारुषी सिझाय ॥

श्रीजिनवाणी रे धन्ना, अमिय समाणी मोरा नंदन, मनम्हे तो मांनी रे नंदन ताहरे ॥ १ ॥ तूं अतहि वैरागी रे धन्ना, धरमनो रागी मोरा नंदन, माहरो तो मनको रे किम परचावसुं ॥ २ ॥ दस दिसी दीसे रे धन्ना, तो विन सूनी मोरा नंदन, अनुमति देतां रे जीन्न वहे नही ॥ ३ ॥ बत्तीसै नारी हो धन्ना, अतहि पियारी मो० ॥ वाणी तो बोले रे मधुर सुहामणी ॥ ४ ॥ बालक तो कामणी रे धन्ना, वय पिण तरुणी मो०॥ गजगति चाले रे चाल सुहावणी॥५॥ ए घर मंदिर हो धन्ना, ए सुख सज्या मो०॥ कोम बत्तीसे धननो तूं धणी ॥ ६ ॥ ए धन मांणो रे धन्ना, वय पिण जांणो मो० ॥ न्नोगवि लेज्यो रे न्नोग सुहामणो ॥ ७ ॥ व्रत अति दोहिलो रे धन्ना, नहिय सुहेलो मो० ॥ सुगम नही छे रे साधु कहावणो ॥ ८ ॥ घर२ न्निक्षा हो धन्ना, गुरुतणी शिक्षा मो० ॥ कहणी रे रहणी नही छे सारखी ॥ ए ॥ इक वारे सुणीये हो धन्ना, आगम न्नणीये मो० ॥ जिनवर जांणो हो डुक्कर जोग छै ॥ १० ॥ वनवासे रहणा हो धन्ना, परीसह सहणो मो० ॥ कोमल केसा रे लोच करावणो ॥ ११ ॥ साचो तें न्नाख्यो हे अम्मा, कूठ न दाख्यो मोरी अम्मा ॥ डुक्कर मारग जननी दाखियो॥ १२॥ सुख अन्निलाषी हे अम्मा, कूठ न आखी मोरी अम्मा ॥ कायर मारग जननी दाखियो॥ १३ ॥ ए जग स्वारथी हे अम्मा नही परमारथि मोरी अम्मा, वीर वखाण्यो परखदा सहु सुण्यो ॥ १४ ॥

में इम जाएयो हे अम्मा, वीर वखाएयो मोरी अम्मा, ए धन जोवन आयु थिर नही ॥ १५ ॥ अनुमति दीजे हे अम्मा, ढील न कीजे मोरी अम्मा, जो खिण आवे सु फिर आवे नही ॥ १६ ॥ अनमति आपी हो अम्मा, जीव सख पायो मोरी अम्मा, संजम लीधो रे मनमां गहगही ॥ १७ ॥ छठ्ठ पारणे हे अम्मा, विगय निवारण मोरी अम्मा, वीर वखाएयो सुरनर आगलै ॥ १८ ॥ सुख संजम पाले हे अम्मा, दूषण टाले मोरी अम्मा, अंग इग्यारे अरथ रूडा जणै ॥ १९ ॥ संजम पाळ्यो हे अम्मा, नव पखवाडे मोरी अम्मा, मास संथारे सरवारथसिद्ध लह्यो ॥ २० ॥ इति धन्ना ऋषि सिझाय संपूर्ण ॥

॥ अथ कर्मसिझाय लिख्यते ॥

देव दाणव तीर्थंकर गणधर, हरि हर नरवर सवला ॥ करम तणे वस सुख दुख पाया, सवल हुआ महा निवला रे प्राणी, कर्म समो नहि कोई ॥ १ ॥ आदीसरजीने करम अटारया, वरस दिवस रह्या भूखा ॥ वीरने आरे वरस दुख दीधा, ऊपना ब्राह्मणी कूखे रे प्राणी ॥ क० ॥ २ ॥ साठ सहस सुत मारया एकण दिन, जोध जुवान नर जेसा ॥ सगर हुआ महा पुत्रनो दुखियो, कर्म्मतणा फल एसा रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ ३ ॥ बत्रीस सहस देसांरो साहिब, चक्री सनतकुमार ॥ सोले रोग सरीरमे ऊपना, कर्म्मे कीयो तनु छार रे ॥ प्रा० ॥ ४ ॥ कर्म्मे इआल किया हरचंदने, वेची सुतारा राणी ॥ बारे वरस लग माथे आएयो, नीचतणे घर पाणी रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ ॥ ५ ॥ दधिवाहन राजारी बेटी, चावी चंदनवाला ॥ चौपद ज्यूं चहुटामें वेची, करमतणा ए चाला रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ ६ ॥ संभूम नामे आठमो चक्री, कर्म्मे सायर नाख्यो ॥ सोले सहस जक्ष जज्ञा देखे, पिण किणही नहि राख्यो रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ ७ ॥ ब्रह्मदत्त नामे

आरमो चक्री, कर्मै कीधो आधो ॥ इम जाणीने अहो भविप्राणी, कर्म्म कोइ मत बांधो रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ ८ ॥ उपन्न को ड जा दवरो साहिव, कृष्ण महावल जांणी ॥ अटवी मांहि मूंठ एकलडो, विल २ करतो पाणी रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ ए ॥ पांडव पांच महा झूझारा, हारी द्रोपदा नारी ॥ बारे वरस लग वन रडवडिया, भ मिया जेम भिखारी रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ १० ॥ वीस भुजा दस मस्तक हूंता, लखमण रावण मारयो ॥ एकलडे जग सहु नर जीत्या, ते पिण कर्म्मसुं हारयो रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ ११ ॥ लखमण राम महा वलवंता, अरु सतवंती सीता ॥ कर्म्म प्रमाणे सुख दुख पांम्या, वीतक बहु तस वीता रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ १२ ॥ सम्मकितधारी श्रेणिक राजा, बेटे बांध्यो मुसकै ॥ धरमी नर ो कर्म धकाया ॥ करमसुं जोर न किसका रे ॥प्रा०॥क०॥१३॥ सतिय सिरोमणी द्रो पदि कहियै, जिन सम अवर न कोई ॥ पांच पुरुषनी हइ ते नारी, पूरव कर्म्म कमाई रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ १४ ॥ आभानगरीनो जे स्वामी, साचो राजा चंद ॥ मांइ कीधो पंखी कूकडो, कर्म्मे नाख्यो ते फंद रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ १५ ॥ ईसर देव ने पारवती नारी, क रता पुरुष कहावै ॥ अहनिस महिल मसांणमे वासो, भिक्षा भो जन खावे रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ १६ ॥ सहस किरण सूरज परतापी, रात दिवस रहे अटतो, सोल कला ससीधर जग चावो, दिन२ जाये घटतो रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ १७ ॥ इम अनेक खंड्या नर करमं, भांज्या ते पिण साजा ॥ ऋद्धिहरष कर जोडीने विनवै, नमो२ कर्म्म महाराजा रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ १८ ॥ इति कर्म्म सिझाय सं०॥

॥ अथ सात विसनकी सिझाय लिख्यते ॥

सात विसनना रे संग मतां करो, सुण तेहनो सुविचार वि ॥ सात नरकना रे भाइ सातेई, आपै दुख अपार विवेकी ॥

॥ सा० ॥ १ ॥ प्रथम जूवाने रे विसन परूयांथकी, पाऊव पांच प्रसिद्ध विवेकी ॥ नलराजा पिण इण विसने पड्यो, खोइ सहू रा जरिद्ध वि० ॥ सा० ॥ २ ॥ दूसरे मांस जकण अवगुण घणा, करै पर जीव संहार विवेकी ॥ महासतकनी नारी रेवती, नरक गइ निरधार ववेकी वि० ॥ सा० ॥ ३ ॥ तीजे मदिरा पांन विसन तजी, चित धरी वलि चाह वि० ॥ द्वीपायण रिषि दह्व्यो जा दवे, द्वारकानो थयो दाह वि० ॥ सा० ॥ ४ ॥ चोथे विसने वें स्याघर वसै, लोकमें न रहे लाज वि० ॥ कयवन्नादिकनो गयो कायदो, कुविसने रे काज वि० ॥ सा० ॥ ५ ॥ पाप आहेडे कुविसन साचवै, प्राणी हणियें प्रहार वि० ॥ मारी मृगली श्रेणिक नृप गयो पहली नरक मझार वि० ॥ सा० ॥ ६ ॥ छहे चोरीने विसने करी, जीव लहे डुख जोर वि० ॥ मुंजदेव राजायें मारियो, चावो हुंडक चोर ॥ वि० ॥ सा० ॥ ७ ॥ परस्त्रीय संगत कुविसन सातमें, हाणि कुजस बहु होय वि० ॥ राणो रावण सीता अपहरी, नास लंकानो रे जोय वि० ॥ सा० ॥ ८ ॥ इम जांणीने जव्य तुमे आदरो, सीख सुगुरुनी रे सार वि० ॥ इण जव परजव आणंद अतिघणा, कहे धमसी सुखकार ॥ वि० ॥ ॥ सा० ॥ ए ॥ इति सात विसनकी सिझाय संपूर्ण ॥

॥ अथ चेलणा सतीनी सिझाय लिख्यते ॥

वीर वांदी वलतां थकां जी, चेलणा दीठो रे निग्रंथ॥राति वन मांहि काउसग्ग रह्यो रे, साधतो मुगतिनो पंथ ॥ १ ॥ वीर वखाणी राणी चेलणा जी, सतिय सिरोमणि जांण ॥ चेडाराजानी साते सुता जी, श्रेणिक सीयल परिमांण ॥ वी० ॥ २ ॥ सीत ठंठार सबलो पडे जी, चेलणा प्रीतम साथ ॥ चारतियो चितमें वस्यो जी ॥ सौडि बाहर रह्यो हाथ ॥ वी० ॥ ३ ॥ झबक जागी

कहे चेलणा जी, किम करतो हुस्यै तेह ॥ कुसती मनमांहि ए कुण वस्यो जो ॥ श्रेणिक पड्यो रे संदेह ॥ वी० ॥ ४ ॥ अंतेउर परो जालज्यो जी, श्रेणिक दियो रे आदेस ॥ जगवंत सांसो जाजियो जो, चमकियो चित्त तरेस ॥ वी० ॥ ५ ॥ वीर वांदी वलतां थकां जी, पैसतां नगर मझार ॥ धुंआनो घोर देखी करी जी, जा जा रे अनयकुमार ॥ वी० ॥ ६ ॥ तातनो वचन पाली करी जी, व्रत लियो अन्नयकुमार ॥ समयसुंदर कहे चेलणा जी, पामियो नवत णो पार ॥ वी० ॥ ७ ॥ इती चेलणा महासती सिझाय संपूर्ण ॥

॥ अथ वैराग्य सिझाय ॥

॥ नूलो मनन्नमरा कांइ नमै, नमियो दिवस ते रात ॥ मायारो लोनी प्राणियो, नमियो परमल जात ॥ १ ॥ नू० ॥ कुंन काचो काया कारमी, जेहना करो रे जतन्न ॥ विणसतां वार लागे नही, निरमल राखो रे मन्न ॥ २ ॥ नू० ॥ केहना गेरू केहना वाछरू, केहना माय नै बाप ॥ ज जीव जासी एकलो, साथे पुन्य नें पाप ॥ ३ ॥ नू० ॥ आस्या तो डूगर जेवडी, मरवो पगला रे हेठ ॥ धन संची संच कांइ करो, करवो देवनी वेठ ॥ ४ ॥ नू० ॥ लखपति छत्रपती सब गए, गए लाखो के लाख ॥ गरब करी गोखै बैठता, नए जल बल राख ॥ ५ ॥ नू० ॥ नवसायरजल डुख नरयो, तिरवो छे रे जेह ॥ वीचमें बीह सबलो अछै, करमें वाय ने मेह ॥ ६ ॥ नू० ॥ उलट नही मारग चालवो, जायवो पहिले रे पार ॥ आगल नहि हट वांणियो ॥ संबल लेज्यो रे लार ॥ ७ ॥ नू० मूरख कहे धन माहरो, धन केहतो हतो न थाय ॥ वस्त्र विना जाय पोढवो, लखपति लाकड माय ॥ ८ ॥ नू० ॥ मह मंद कहै वस्त वोरीयै, जे कुछ आवे रे साथ ॥ अपणों लान्न उवारियै , लेखो साहिब हाथ ॥ नू० ॥ ए ॥ इति ॥

॥ अथ बाहूबल सिझाय ॥

॥ राजतणा अति लोभिया, भरत बाहूबल झूझे रे ॥ मूंठ उपाडी मारिवा, बाहूबल प्रतिबूझे रे ॥ १ ॥ वीरा म्हारा गजथ की ऊतरो, ब्राह्मी सुंदरी भासै रे ॥ ऋषभ जिनेसर मोकली, बाहूबलनें पासै रे ॥ वी० ॥ गज चढ्यां केवल न होई रे ॥ वी० ॥ २ ॥ लोच करी चारित्र लियो, वलि आयो अभिमांनो रे ॥ लघु बांधव बांदू नही, काउसग्ग रह्यो शुभ ध्यानो रे ॥ ३ ॥ वी० ॥ वरस दिवस काउसग्ग रह्यो, वेलडियां वींटाणो रे ॥ पंखी माला मांडिवा, सीत ताप सूकाणो रे ॥ वी० ॥ ४ ॥ साधवी वचन सुण्या इसा, चमक्यो चित्त मझारो रे ॥ हय गय रथ में परिहर्या, पिण नवि मूंक्यो अहंकारो रे ॥ वी० ॥ ५ ॥ वैरागै मन वालियो, मूंक्यो निज अभिमांनो रे ॥ पांव उपाडी वांदिवा, ऊपनो केवलज्ञानो रे ॥ वी० ॥ ६ ॥ पहुंतो केवली परखदा, बाहूबल ऋषिराया रे ॥ अजर अमर पदवी लही, समयसुंदर बंदे पाया रे ॥ ७ ॥ वी० ॥ इति ॥

॥ अथ अरणक मुनि सिझाय ॥

॥ अरणक मुनिवर चाल्या गोचरी, तडके दाझे सीसो जी ॥ पाय उवराणा रे वेलू परजलै, तन सुकमाल मुनीसो जी ॥ अर० १ ॥ मुख कमलाणो रे मालती फूल ज्यूं, ऊभो गोखने हेठे जी ॥ खरे डुपहरे रे दीठो एकलो, मोही मानुनी मीठे जी ॥ २ ॥ अ० ॥ वयण रंगीले रे नयणे वेधियो, ऋषि थंभ्यो तिण वारो जी ॥ दासीने कहे जाय ऊतावली, तु रिषि तेडी आंणो जी ॥ ३ ॥ अ० पावन कीजे ऋषि घर आंगणो, वहिरो मोदक सारो जी ॥ नवजोवन रस काया कांइ दहो, सफल करो अवतारो जी ॥ ४ ॥ अ० ॥ चंद्रावदनी रे चारित चूकव्यो, सुख विलसै दिन रातो

जी ॥ इक दिन गोखे रमतो सोगठे, तब दीठो निज मातो जी ॥ ५ ॥ अ० अरणक२ करती माय फिरे, गलियै२ मझारो जी ॥ क हि किण दीठो रे माहरो अरणलो, पूछे लोक हजारो जी ॥ ६ ॥ अ० ॥ उतर तिहांथी रे जननीरे पाय नमे, मनमें लाज्यो तिवा रो जी ॥ धिग्२ पापी रे माहरा जीवने, एह में अकारज धारयो जी ॥ ७ ॥ अ० ॥ अगन धुखंती रे सिल्ला उपरै, अरणक अणस ण कीधो जी ॥ समयसुंदर कहे धन ते मुनिवरू, मन वंछित फल सीधो जी ॥ ८ ॥ अ० ॥ इति अरणक मुनि सिझाय संपूर्णम् ॥

॥ अथ इलापुत्र सिझाय लिख्यते ॥

नांम इलापुत्र जांणिये, धनदत्तसेठनो पूत॥नटवी देखी रे मों ह्यो, जे राखे घरसूत ॥ १ ॥ करम न छूटे रे प्राणिया, पूरब नेह विकार ॥ निज कुल छंडी रे नट थयो, नाणी सरम लिगार ॥ ॥ क० ॥ २ ॥ इक पुर आयो रे नाचवा, उंचो वंस विवेक॥ तिहां राय जोवा रे आवियो, मिलिया लोक अनेक ॥ क० ॥ ३ ॥ दोय पग पहरी रे पावडी, वस चढयो गजगेल॥ निरधारा ऊपर नाचतो, खेले नवनवा खेल ॥क०॥४॥ ढोल बजावे रे नाटकी, गावे किन्नर साद ॥ पायतल घूघर घमघमे, गाजे अंबर नाद ॥ क० ॥ ५ ॥ तिहां राय चिंते रे राजिओ, लुबधो नटवी रे साथ ॥ जो पडै नट वो रे नाचतो, तो नटवी मुझ हाथ ॥ क० ॥ ६ ॥ दांन न आपे रे भूपती, नट जांणे नृप वात ॥ हूं धन वंछू रे रायनो, राय वंछै मुझ घात ॥ क० ॥ ७ ॥ तिहांथी मुनिवर पेखियो, धन२ साधु नीराग ॥ धिग्२ विषया रे जीवडा, मन आण्यो वैराग ॥ क० ॥ ॥ ८ ॥ संवरभावे रे केवली, ततखिण कर्म खपाय॥ केवलि महि मा रे सुर करे, समय सुंदर गुण गाय ॥ क० ॥ ९ ॥ इति ॥

॥ अथ मेघकुमार मुनि सिझाय लिख्यते ॥

वीरजिनंद समोसरया जी, वंदे मेघकुमार ॥ सुण देशन वैरागीयौ जी, ए संसार असार रे मायमी ॥ अनुमति द्यो मुझ आज ॥ संयम विषम अपार रे ॥ मा० ॥ अ० ॥ १ ॥ वछ तूं केणे भोलव्यौ रे, श्रेणिक तात नरेस ॥ कांइ ऊणौ किण दूहव्यो रे, हूं नवि द्युं आदेश रे जाया ॥ संयम विष० ॥ किम निरबाहिस भार रे जाया ॥ हूंन० ॥ २ ॥ आदि निगोदे हूं रुल्यो जी, सहिया दुख अणंत ॥ सासोश्वासें भव पूरीया जी, तेह न जांणू अंत हे ॥ ॥ मा० ॥ अ० ॥ ३ ॥ हिवणा तूं बालक अछै जी, जोवन भरयो रे कुमार ॥ आठ रमणि परणावियो रे, भोगवि सुख अपार रे जाया ॥ हूं नवि० ॥ ४ ॥ जनम मरण निरयातणौ जी, दुख न सहणौ जाय ॥ वीरजिणंद वखाणियो जी, ते मै सुणियौ कांन हे मायमी ॥ अ० ॥ ५ ॥ वछ कांछलीयै जीमणो जी ॥ अरस विरस आहार ॥ भुंइ पाला नित हींडणो जी, जाणसि तुझ कुमार रे जाया॥ हूं न० ॥ ६ ॥ भमतां जीव अनंत भम्यो जी, धर्म दुहेलो होय ॥ जरा व्यापे जोवन खिसे जी, तब किम करणो होय रे मायमी ॥ ॥ अ० ॥ ७ ॥ मृगनयणी आठे रमे जी, तोडे नवसर हार ॥ जोवनभर भोरू नही जी, कांइ मूको निरधार कुमरजी ॥ हूं न० ॥ ॥ ८ ॥ हंसतूलिका सेजमी जी, रूप रमणि रस भोग ॥ अतहि सुंहाली देहमी जी, किम हुय संजम जोग रे जाया ॥ हूं न० ॥ ॥ ९ ॥ स्वारथनो सहू ए सगो जी, अरथ पखे सहु कोय ॥ विषय विषम महुरा कह्या जी, किम भोगविये सोय हे मायमी ॥ अ०॥ १०॥ खमिर माउ पसाय करी जी, मैं दीधुं तुझ दुख॥ दिउ आदेस जिम हुं सुखी जी, वीर चरणें ल्युं दीख हे ॥ मा० ॥ अ०॥ ११॥ तन फाटे लोयण झरे जी, दुख न सहणा जाइ ॥ वछ सुखी हुवो

तिम करो जी, मैं दीधो आदेस रे जाया ॥ संयम वि० ॥ १२ ॥ मणि मांणक मोती तज्या जी, तोड्यो नवसर हार ॥ मृगनयणी आठै रडै जी, हिव अह्म कवण आधार नरेसर ॥ संयम० ॥ १३ ॥ कुमर भणै सुकुली प्रिया जी, बहु दुख ए संसार ॥ नेह तुमारो जांणियो जी, जो ल्यो संयमभार रे नारी ॥ संय० ॥ १४ ॥ रथ सिबिका तव सजी करी जी, कुंवर धारणी माइ ॥ श्रेणिकराय उ छव करै जी, चारित्र ल्यो रिषिराय रे जाया ॥ सं० ॥ १५ ॥ इम जांणी वैरागियौ जी, वरजै जे नर नारि ॥ करजोडी पूनो भणे जी, ते तरस्यै संसार हे मा० ॥ अ० ॥ १६ ॥ इति मेघकुमार सि० ॥

॥ अथ असिझाइ निर्णय सिझाय ॥

श्रावण काती मिगसर मास, पहिली पडवा तीन विमास ॥ चौथी पडवा वदि वैसाख, च्यार पुहर असिझाइ भाख ॥ १ ॥ जां लगि होली झडै वार, धुंवर पडती हुवै जिवार ॥ जां परचक्रनो भय नवि जाय, तां लग असिझाई कहिवाय ॥ २ ॥ धूलवृष्टि ने केस पाखांण, वरसै तां लग असिझाई जांण ॥ झूझै मल्ल मांहोमांहि जांम, तां लग असिझाई तिण गांम ॥ ३ ॥ भूपति परभव पोहतो होय, जां लग पाट न वैसै कोइ ॥ तां लग वोली छै असिझाइ, सं हुको सरदहज्यो मन मांहि ॥ ४ ॥ उलकापात अने दिगदाह, एक पोहर असिझाई थाय ॥ निवल मेह तिम जांणो सही, आठ पहोर सवल जल कही ॥ ५ ॥ चैत्र सुदि पांचम दिनथकी, पडिवा लग असिझाइ वकी ॥ पडिवा बीज तीज चांदणी, समीतांझ असिझाई गिणी ॥ ६ ॥ आद्रा नक्षत्र न लागै जांम, गाज बीज असिझाइ ताम ॥ गाज बीज जो हुवे अकाल, असिझाइ वे पुहर संभाल ॥ ७ ॥ चंद्रग्रहण असिझाई भणी, बारह पोहर उत्कृष्टी गिणी ॥ जघन्य प्रकारै आठ वि चार, सूर्यग्रहण पोहर जघन्यै बार ॥ ८ ॥ सोल प्रहर उत्कृष्टी कही,

सुगुरु मुखे भविषण सरदही ॥ नगर प्रधांन मरे जो कोइ, आठ पुहर असिझाई होय ॥ए॥ वसतीथकी सातां घर मांहि, नर विहमे अहोरति असिझाई ॥ पुरुष पड्यो होय मृतकअनाथ, तां असिझाय कही सो हाथ ॥ १० ॥ पुत्रतणे प्रसवे दिन सात, बेटी आठ दिवस विख्यात ॥ सो कर मांहि कही असिझाई, नारी रुतु दिन तीन कहाइ ॥ ११ ॥ इंमो फूटै प्रसवै गाइ, जां जर रुधिर पमै तिन गाइ ॥ असिझाइ सो कर मांहि, त्रिएह पोहर के ऊपर नही॥१२॥ असाढै चौमासे दिने, पडिकमणा गयांथी गिणे ॥ बार पोहर असिझाई कही, काती चौमासे इण परि सही ॥ १३ ॥ इण पर असिझाई छे बहू, गीतारथ गुरु जांणै सहू ॥ सांभलि ए मैं कही संखेवि, हरखै पय प्रणमू कीजै देवि ॥ १४ ॥ अंतवर्ग अंतक्षर जेह, च्यार मावठबीजे तेह ॥ सत्तम वर्ग बीअं अक्षरे, तब कवि नांम कहियो इण परे ॥ ॥ १५ ॥ इति असिझाइ सिझाय संपूर्णम् ॥

॥ अथ बावीस अभक्ष सिझाय लिख्यते ॥

जिनशासन रे सूधी सरदहिणा धरो, श्रीगुरुमुख रे नव तत्व ए निरता करो ॥ मिथ्यामत रे कुमति कदाग्रह परिहरौ, सहि पालो रे ते नर समकित मन खरो ॥ १ ॥ तूटक ॥ मन खरौ समकित शुद्ध पालौ, टालो दोष दया परो ॥ धुरि पंच अणुव्रत तीन गुणव्रत, च्यार सिक्षाव्रत धरौ ॥ इम देशविरती क्रिया निरती, सुणो भवि यण मनरली ॥ दाखविए गुण परह केरा, दोष सम काढौ बली ॥ ॥ २ ॥ मम काढो रे लोभी नर कूडौ करौ, जांणी सावद्य रे अभक्ष बावीसे परिहरौ ॥ वड पींपल रे पिलखण नें कठुंबरो, ऊंबरफल रे रखे तुमें भक्षण करो ॥ ३ ॥ उल्लालो ॥ रखे तुमें भक्षण करौ मांखण, मद्य मधु आमिश्र तणो ॥ विष हेम करहा भंमि परहा, दोष मूल माटी घणो ॥ परिहरो सज्जन र

यणीज्ञोजन, प्रथम डुरगति वारणो ॥ मम करौ व्यालू अति अ सूरौ, रविउदय विन पारणो ॥ ४ ॥ अथाणो रे अनंतकाय सव नांम ए, काचागोरस रे मांहि कठोल न जिमिये ॥ एह वेंगण रे तुछ फला सवि गंम ए, आपणपूं रे व्रत लीधो नविखंम ए ॥ ५ ॥ तूटक ॥ नवि खंमए व्रत नियम लेइ, वेइ फल व्रत ज्ञंगनौ ॥ अज्ञात फल वहुवीज ज्ञोजन, चलित रस होय जेहनो ॥ संवर आणी अज्ञक्ष्य ग्यानी, तजो ए वावीस ए ॥ गुरु वयण विगतैं वली पूछयौ, अनंतकाय वत्तीस ए ॥ ६ ॥ अनंती रे कंद जाति जाणो सहू, जसु ज्ञक्षण रे पातिक वोल्या छै वहू ॥ कचूरौ रे हलदनीली आदूं वली ॥ वजचूरण रे कंद वहूं कुंवलीफली॥७॥तूटक ॥ कुंवलीफली कुंवली वीज पावै, चावै चतुर नर आंविलो ॥ रतालू पिंमालू थेग थोहर, सतावरी लसण. कुली ॥ गाजर मूला गिलौ रींगण विरहाली टुकवछुलौ, पल्यंक सूरण वाल वीली मौथ नीली सांज्ञलौ ॥ ८ ॥ वंसकारेला रे कूंपल कवला तरुणा, अंकूरा रे लोटा ते जलपोयणा ॥ कुमारी रे ज्ञमरवृक्षनी छालमी, जे कहिये रे लोके अमृतवेलमी ॥ ए ॥ वेलमी तानु ताजा खिलोमा ने खरसुआ, ज्ञूय ज्ञूंफोमा छत्रा कार जांणौ नील फल सेवे जूआ ॥ वत्तीस वोल प्रसिद्ध वोल्या लक्ष्मीरतन सूरि इम कहे, परिहरे जे नर दोष जांणी प्रांणी ते सवि सुख लहे ॥ २० ॥ इति वावीस अज्ञक्ष्य सिझाय सं०॥

॥ अथ गजसुकमाल सिझाय ॥

॥ संवेगरसमे झीलता, मनसुं करे आलोच ॥ देखीने दोहग टलै, तासु साध्यो रे में करि लोच ॥ १॥ यादवराय धन२ गजसुक माल, तेहने करूं रे प्रणाम त्रिकाल ॥ या० ॥ आकणी ॥ प्रज्ञू पास संयम आदरयौ, तेहनो ए परिणाम ॥ मन वचन काया वसि

करी, जो हूं पामूं रे केवलज्ञान ॥ २ ॥ था० ॥ मुनि मुगति जा यवा अलजयो, परूषैन दिन दस वीस ॥ साहसीक इम उच्चरतो, पिण दिन जावे रे तो छेह दीस ॥ था० ॥ ३ ॥ समसांण जाय काउसग्ग रह्यौ, तिण सांझि प्रभुने पूछ ॥ मुनिवर अवर इम चिंतवे, एहनैं साची रै छै मुंह मूंछ ॥ था० ॥ ४ ॥ मुझ सुता विन अवगुण तजी, सौमिल अगनि प्रजाल ॥ सिगडी रचि सिर ऊपरै, चिहुं दिसि बांधी रे माटीनी पाल ॥ था० ॥ ५ ॥ वेदना जिम अधिक वधे, तिम वधे मन परिणांम ॥ चवदमें गुणठाणें चढयो, मुनिवर पांमी रे केवलग्यांन ॥ था० ॥ ६ ॥ देवकी जांमणने थई, ते रयण वरस हजार ॥ वांदवा आवी प्रह समें, पिण नवि देखे रे प्रांणआधार ॥ था० ॥ ७ ॥ पूछतां प्रभु मांझी करी, रातिनी वीतग वात ॥ हरि देखी हियडो फूटतां, तेणें कीधो रे ऋषिजीनो घात ॥ था० ॥ ८ ॥ उपसम सुधारस सेवतां, पांमियो अविचलराज ॥ मनरंग साधु महंतना, गुण गावे रे श्रीजिनराज ॥ था० ॥ ९ ॥

॥ अथ प्रष्णचंद्र सिझाय ॥

॥ राज छंडी रलियामणो रे, जांणी अथिर संसार ॥ वैरागे मन वालियो, कांइ लीधो संजम भार ॥ प्रष्णचंद प्रणमूं तुमारा पाय, तुमे मोटा मुनिराय ॥ प्र० ॥ १ ॥ वनमांहे काउसग्ग रह्यो रे, पग ऊपर पग ठाय ॥ बांह बेउं ऊंची करी, सूरज सांमी दृष्टी लगाय ॥ २ ॥ प्र० ॥ श्रेणिक वंदन नीसरयो रे, वीरजीने वंदन जाय ॥ देइ तीन प्रदक्षणा, त्रिविध२ खमाय ॥ प्र० ॥ ३ ॥ दुरमुख दूत वचन सुणी रे, कोप चढयो ततकाल ॥ मनसुं संग्राम मांडियो, जीव पड्यो जंजाल ॥ प्र० ॥ ४ ॥ श्रेणिके प्रश्न पूछियो रे, एहनी सी गति थाय ॥ भगवंत कहे हिवणां मरे तो, सातमी नरके जाय ॥ प्र० ॥ ५ ॥ खिण इक अंते पूछियो रे, सरवारथसिद्धि वि

मान ॥ वाजी देवनी डुंडुभी, मुनि पाम्या केवलज्ञान ॥ प्र० ॥
॥ ६ ॥ प्रष्णचंद मुनि मुगते गया रे, श्रीमहावीरना शिष्य ॥रिद्धह
रष कहे धन्य ते, जिण दीठा रे परतक्ष ॥ प्र० ॥ ७ ॥ इति॥

॥ अथ उतपति सिझाय ॥

॥ उतपत जोय जीव आपणी, मनमांहि विमास ॥ गरभा वासे जीवड़ो, वसियो नव मास ॥ उ० ॥ १ ॥ नारीतणे नाभी तले, जिन वचने जोय॥ फूल तणी जिम नालिका, तिम नाड़ी है दोय ॥ उ० ॥ २ ॥ तसु तल योनि कहीजिये, वर फूल समान ॥ आंबतणी मांजर जिसो, तिहां मांस प्रधान ॥ उ० ॥ ३ ॥ रुधिर श्रवे तिण मांसथी, रुतुकाल सदीव ॥ रुधिर शुक्र योगे करी, तिहां ऊपजे जीव ॥ ४ ॥ उ० ॥ जे अपान पवने करी, वासित दुरगंध ॥ तिण थानक तूं ऊपनो, हिब हूउ अंधमंध॥ उ० ॥ ५ ॥ नाड़ी वांसतणी भरियै घणी, रूघाल॥ताती लोह सलाकतैं, जाले ततकाल॥ उ० ॥ ६ ॥ तिम महिलानी जोनिमें, है नव लख जीव ॥ पुरुष प्रसंगे ते सहू, मरि जाय सदीव ॥ ७ ॥ ऊपजै नर नारी मिळ्यां, पांचेंद्री जेह ॥ तेहतणी संख्या नही, तजो कारज एह ॥ उ० ॥ ८ ॥ नव लख जीव टिके तिहां, उत्कृष्टो वार ॥ जीव जघन्यपणे टिके, एक दोय त्रिण च्यार ॥ उ० ॥ ९ ॥ जीव जघन्य तिहां रहे, महुरत परिमाण ॥ बार वरसनी थिति तिहां, उत्कृष्टी जांण ॥ १० ॥ उ० ॥ तिहां गरभे कोइ जीवड़ो, जंपै जग दीस ॥ फिर नर आवंतो रहै, संवत्सर चोवीस ॥ ११ ॥ उ० ॥ महिला वरस पिचावनें, कहिये नीरबीज ॥ पिचहत्तर वरसां पछै, थावै पुरुष अबीज ॥ १२ ॥ उ० ॥ जीमणी कूखै नर वसै, तिम वांमे नारि ॥ बीच नपुंसक जांणिये, जिनवचन विचार ॥ १३ ॥ उ० ॥ हिव सामान्यपणै इहां, आयो गरभावास ॥ सात

दिना उपरि रहे, नर गत नव माम ॥ उ० ॥ १४ ॥ आठ वे रस तिर्यंच रहे, उत्कृष्ट काल ॥ गर्भावासै भोगव्या, इम बहु जंजाल ॥ उ० ॥ १५ ॥ कार्मण काये कर लियो, पहिलो आहार ॥ शुक्र अने स्रोणिततणो, नही फूठ लिगार ॥ उ० ॥ १६ ॥ पर-जापत पूरी नही, तिहां विसवावीस ॥ तिण आहारे तूं थयो, उदारिक मीस ॥ उ० ॥ १७ ॥ पवन अछे उदेरे तिको, उपजावे अंग ॥ अगनि करे थिर तेहने, जल सरस सुरङ्ग ॥ १८ ॥ उ० ॥ कठने पणे पृथवी रचे, अवगाह अकास ॥ पांचभूत सरीरमें, इम करे प्रकास ॥ १९ ॥ उ० ॥ बारे महुरत तां पछे, विलसे नर नारि ॥ गर्भतणी उतपति तिहां, नहीं अवर प्रकार ॥ २० ॥ उ० ॥ कलल हुवे दिन सातमें, अरवुद दिन सात ॥ अरवुदथी पेसी वधे, घन मांस कहात ॥ २१ ॥ उ० ॥ मांसतणी बोटी हुवे, अडतालीस टांक ॥ प्रथम मास जिनवर कहे, मन धरो निसंक ॥ २२ ॥ उ० ॥ सुथिर मास बीजे हुवे, हिव तीजे मास ॥ करमतणे वसि ऊपजे, माता मन आस ॥ २३ ॥ उ० ॥ चोथे मासे मातना, प्रणमे सहु अंग ॥ हाथ अने पग पांचमें, तिम सुतको संग ॥ २४ ॥ उ० ॥ पित्त रुधिर छठे परें, सातमें इण संच ॥ नव धमणी नस सातसे, पेसी सय पंच ॥ २५ ॥ उ० ॥ रोमराय पिण सातमें, साढीतीन कोडि ॥ ऊपजे ऊणे केतले, इम आगम जोडि ॥ २६ ॥ उ० ॥ आठमें मासे नीपनो, इम सकल सरीर ॥ ऊंधे सिर वेदन सहे, जंपे जिन वीर ॥ ॥ २७ ॥ उ० ॥ सोणित शुक्र सलेषमा, लघु ने वडनीत ॥ वात पित्त कफ गर्भथी, थावे नर नीत ॥ २८ ॥ उ० ॥ माततणी सूंटि लगे, बालकनो नाल ॥ रस आहार करे तिहां, आवे ततकाल ॥ उ० ॥ २९ ॥ जननी ल्ये आहार ते, जाय नाडीनाड ॥ रोम इंद्री नख चख वधे, तिम मीजी ने हाड ॥ उ० ॥ ३० ॥ सगहू अंगे ऊल

स, सरवंग आहार ॥ कवल आहार करे नही, गरजै सुविचार ॥
॥ उ० ॥ ३१ ॥ मास बीजे किण जीवने, थाये ज्ञान विजं
ग ॥ अथवा अवधि कहीजिये, तिण ज्ञान प्रसंग ॥उ० ॥ ३२ ॥
कटक करे वैक्रियपणें, जूझी नरके जाय ॥ को जिनवचन सुणी
करी, मरी सुर पिण थाय ॥ उ० ॥ ३३ ॥ ऊंधै मुख गोमा
हिये, सहितो बहु पीड ॥ दृष्टि आगलि बेहुं हाथसुं, रहे मुठी
भींच ॥ उ० ॥ ३४ ॥ नर विण वस्त्र जलादिकै, ऊपजै आ
धांन ॥ अथवा विहुं नारी मिल्यां, कह्यो गरजविधान ॥ उ० ॥
॥ ३५ ॥ कोइ उत्तम चिंतवै, देखी दुखावास ॥ पुन्य करी तिम
नीकलूं, नाउं गरजावास ॥उ०॥ ३६ ॥ ऊंठ कोडि चांपे सुई, कोइ
समकाल ॥ तिणथी गरजै अठ गुणौ, सहे वेदन बाल ॥ उ० ॥
॥ ३७ ॥ माता दूखो दूखीयो, सुखणो सुख थाय ॥ माता सूती
ते सुवै, परवस दिन जाय ॥ उ० ॥ ३८ ॥ गरजथकी दुख लख
गुणों, जांमें जिण वार ॥ जन्म थयां दुख वीसरै, धिग् २ मोह वि
कार ॥ उ० ॥३९॥ ऊपज्यो अशुचिपणे जिहां, मल मूत्र कलेस ॥
पिंड अशुचि कर पूरियो, किहां शुचि लवलेस ॥ उ० ॥ ४० ॥ तु
रत रुदन करतो थको, जांमें जिण वार ॥ मात पयोधर मुख ठवै,
पीयै दूध तिवार ॥ उ० ॥ ४१ ॥ दिन २ दीठे दीपतो, करै रंग अपा
र ॥ लाड कोड माता पिता, पूरै सुविचार ॥ उ० ॥ ४२ ॥ श्रोत्र
इग्यारे नारिनें, नव नरनें जांण ॥ रात दिवस वहिता रहै, चैतो चतुर
सुजाण ॥ ४३ ॥ उ० ॥ सात धातु साते त्वचा, छै सातसै ना
डि ॥ नवसें नाडी पिंडमें, तिम नीनसे हाड ॥ ४४ ॥ उ० ॥ संधि
एकसो साठ छै, सतोत्तर सो मम ॥ तीन दंड पेसी पांचसै,
ढांको छै चरम ॥ उ० ॥ ४५ ॥ रुधिर सेर ... देहमें, पेसाव
सरीप ॥ सेर पांच चरबी तिहां, दोय सेर पुरीष ॥ उ० ॥

॥ ४६ ॥ ज० ॥ पित्त टांक चोसठ अछै, वीरज बत्तीस ॥ टांक बत्तीस सलेखमां, जाणै जगदीस ॥ ४७ ॥ ज० ॥ इण परिमाणथकी यदा, ऊंछो अधिको थाय ॥ व्यापै रोग सरीरमें, नवि वाजे काय ॥ ॥ ४८ ॥ ज० ॥ पोख्यो पहिले दाहके, इम वधियो अंग ॥ खान पान नूषण नला, करे नवनवा अंग ॥ ४९ ॥ ज० ॥ हिव बीजें दसके नएयो, विद्या विविध प्रकार ॥ तीजे दसकै तेहने, जाग्यो कांम विकार ॥ ५० ॥ ज० ॥ जिण थांनक तूं ऊपनो, तिणमें मन जाय ॥ चोथे दसके धनतणो, करे कोमि ऊपाय ॥ ५१ ॥ ज० ॥ पहुंतो दसके पांचमें, मनमें ससनेह ॥ बेटा बेटी पोतरा, परणावे तेह ॥ ५२ ॥ ज० ॥ छठे दसके प्राणियो, बले परवस थाय ॥ जरा आइ जोवन गयो, तृष्णा तोही न जाय ॥ ५३ ॥ ज० ॥ आवै दसकै सातमें, हिव प्राणी तेह ॥ बल नागो बूढो थयो, नारी न धरे सनेह ॥ ५४ ॥ ज० ॥ आठमें दसके मोसलो, खुलिया सहु दांत ॥ कर कंपावै सिर धुणैं, करे फोगट वात ॥ ॥ ५५ ॥ ज० ॥ नवमें दसके प्राणियो, तन सूकत जाय ॥ साले वचन वहुआंतणो, दिन फुरता जाय ॥ ५६ ॥ ज० ॥ खाटपड्यो खूंखूं करे, सहू गाली देह ॥ हाथ हुकम हाले नही, दीयो परिजन छेह ॥ ५७ ॥ ज० ॥ आंख गले वे पुमि मिले, पमि मुंहमे लाल ॥ बेटा बेटी ने वहू, न करे सार संनाल ॥ ५८ ॥ ज० ॥ दस दृष्टांते दोहिलो, लह्यो नरनव सार ॥ श्रीजिन धरम समाचरो, पांमो जिम नव पार ॥ ५९ ॥ ज० ॥ चरणपणे जे तप तपे, पाले निरमल सील ॥ ते संसार तरी करी, लहे अविचल लील ॥ ६० ॥ ज० ॥ कोमि रतन कवमी सटै, कांइ गमे रे गिवार ॥ धरम पखैं पिण जीवनें, नहि कोइ आधार ॥ ६१ ॥ ज० ॥ काया माया कारमी, कारमो परिवार ॥ तन धन जोवन कारमो, साचो धरम

संभार ॥ ६१ ॥ भ० ॥ चवदे राज प्रमांण ए, छै लोक महंत ॥ जनम मरण कर फरसियो, ते वार अणंत ॥ ६३ ॥ भ० ॥ आप सवारथिया सहु, नही केहनो कोय ॥ विण स्वारथ अणपहुंचतै, सुत पिण वैरी होय ॥ ६४ ॥ भ० ॥ जरां न आवे जां लगे, जां लग सवल सरीर, धरम करो जीव तां लगै, होय साहसधीर ॥ ॥ ६५ ॥ भ० ॥ आरज देस लह्यो हिवै, लाधो गुरु संयोग ॥ अंगथकी आलस तजो, करो सुकृत संयोग ॥ ६६ ॥ भ० श्रीनमि रायतणी परै, चेतो चितमांहि ॥ स्वारथना सहुको सगा, कोइ किणरो नांहि ॥ ६७ ॥ भ० ॥ भोग संयोग तजी सहू, थया जे अणगार ॥ धन१ तसु माता पिता, धन२ अवतार ॥ ६८ ॥ भ० ॥ सुरतरु सुरमणि सारखो, सेवो जिनधरम ॥ जिणथी सुख संपति वधे, कीजे तेहिज कर्म ॥ ६९ ॥ भ० ॥ तंडुलवेयाली अछै, एह नो अधिकार ॥ तिणथी ऊद्धरनें कह्यो, नही झूठ लिगार ॥ ७० ॥ भ० ॥ कलस ॥ इह जैनधर्म विचार सांभलि लिये संजमभार ए, परि सिंह केरा सदा पालै नेम निरतीचार ए ॥ संसारना सुख सकल भोगवि ते लहे भव पार ए, श्रीजिनहर्ष सुसीस रंगे इम कहे श्रीसार ए ॥ ७१ ॥ भ० ॥ इति भतपति इकहत्तरी संपूर्ण ॥

॥ अथ आत्मनिंद्या लिख्यते ॥

हे आत्मा ! हे चेतन ! ए कुदृष्टियां, यह कुश्रद्धाया, यह अकार्यमें प्रवृत्ति, यह रसगृद्धीपणो, यह खोटे दृष्टांत, सामायक दोय घरी मात्र कालमें तूं मत चिंतवन कर, क्यारे तूं सम्यक्तमोहनीमें, कभी तूं मिश्रमोहनीमें, कभी तूं कामरागमें, कभी तो स्ने हरागमें, क्यारे तूं दृष्टिरागमें, कभी तूं कुगुरुमें, कभी तूं कु देवमें, कभी तुं कुधर्ममें, कभी ज्ञान विराधनामें, कभी दर्शन विराधनामें, कभी चारित्रविराधनामें, कभी मनोदंडमें, कभी व

चनदंडमें, कभी कायदंडमें, कभी हास्यमें, कभी रतिमें, कभी अरतिमें, कभी भयमें, कभी सोकमें, कभी डुगंछामें, कभी कृष्णलेस्यामें, कभी नीललेस्यामें, कभी कापोतलेस्यामें, कभी तुं रुद्धिगारवमें, कभी तुं रसगारवमें, कभी तुं सातागारवमें, कभी तुं मायासल्यमें, कभी तूं नियाणासल्यमें, कभी तूं मिथ्यादर्शनसल्यमें, कभी तेरे तेरेकाठिया आय फिरता हे, कभी तेरे बाहिर कर अठारे पापस्थानक आय फिरता हे, रे तूं आत्मा महा डुष्टो, महा डुराचारी, अरे तूं हीनतिथिका जाया, अरे तूं हीणपुन्निया, अरे तूं हीणदृष्टी, अरे तूं अयोग्य कामका करणहार, रे तूं डुष्ट पापिष्ट जीव, थायें तो तेरे अनंतानुबंधियाक्रोध, अनंतानुबंधियामांन, अनंतानुबंधिणीमाया, अनंतानुबंधीलोभरी चोकडी, विचारा तेरे खपी नही, गुणठाणा तेरा पलटा नही, धैर्यगुण तेरे आया नही, तृष्णा दाह तेरे मिटी नही, आकुल व्याकुलता तेरे मिटी नही, दरियाव जेसा कल्लोल तेरे उठल रहा हे, तें जो धर्मक्रिया करता हे सो शून्य मनसें करता हे, धीरजगुणसें करेगा सो लेखे लगेगा, सूने मनसें करी जो क्रिया सो राख पर लींपणे जेसा हे, अरे चेतन ! सोगन नही लेवे सो पापी, उर लेकर भांगे सो महापापी, तैं अनंतकाय, अभक्ष, शीलव्रत, जरदा, भांग, अमल, तमाखू, आदिकरा सोगन लेकर खोटा किया, तेरा कहां छूटकवारा होगा, रे चेतन ! तें पुद्गलरे वास्ते कितनी आकुल व्याकुलता कर रह्यो हे, मेरे पारस पत्थर, मेरे नवनिधांन, मेरे रसकूंपा, मेरे रसायण, मेरे चित्रावेल, मेरे अमृतगुटको, वा देवताकूं वस करूं, बादस्याह हो जाउं, राजा हो जाउं, प्रधांन हाकम सेनापती हो जाउं, किसी तरे धन उपार्जन करूं, ये वाते तेरे हमेसां ऊपजै, इसमे गुणठाणेवालेकेही लोभका त्याग नहीं, तो तेरी गरज तो केसें सरै, हे चेतन ! तूं मनमें विचारता

हे मेरा घर मेरा पिता मेरी माता मेरा पुत्र मेरा कलत्र मेरा पुद्ग ल, अरे चेतन ! चोरासी फिरते चौरासी लाख घर करता फिरा, संसारमें न किसीका तुं हे, नहि कोइ तेरा हे, रे चेतन ! तूं तेरा उत्पत्ति तो देख, केइ वखत मापणे, केइ वखत पूत्र पणे, केइ वखत पुत्रीपणें, किसी वखत स्त्रीपणें, जेसें वणककी बेटी नें अपणी मांसे पूछा-माताजी में जो पाप करतीहूं सो कोण भो गेगा ? मा बोली—बेटी, करेगा सो भोगेगा, तबनो उसने कहा धिक् हे इस स्वारथियें संसारकूं, कोइ किसीका नही, यह मनुष्यजन्म, आर्यदेस, आर्यकुल, श्रावकके घर जन्म पाया, श्रीजिनेश्वरदेवका धर्म पुन्यानुबंधी पुन्यसे पाया, उर पायकरके तेने ब्राह्मण जेसें क उएकूं उडाणे चिंतामणिरत्न फेंककर खोया, तेसें तें चिंतामणि रत्न जेसा सत्य सनातन धर्म जैनका पायकर मंदबुद्धि क्रिया आ- डंबरी कुगुरुउके उपदेससें चिंतामणिरत्न जेसा शुद्ध जैनधर्म आज्ञाप्रमाण जो था सो तेनें खो दिया, अब तेरा निस्तारा केसें होय, विष्टामें कृमिपणें तें अनंती वार पेदा भया, मांनरूपी गज पर बाहूबल चढा उर संज्वलनमांन था, उर ब्राह्मी सुंदरी बहिना जैसी समझाणेवाली थी जब समझै, उर तेरे सो एसा मांन, अरे चेतन तेरा कोन हवाल होगा, देख तूं भरतमाहाराजा जिणोके केसीक राजऋद्धि सो केसीक भावना भावतां, धिःकार राज्यनें, धिः कार पाटकूं, धिःकार चक्रवर्त्तिपदवीकूं, धिःकार मेरे विषयसुखोकूं, धन्य श्रीतीर्थंकर माहाराजका सो देसविरती धर्म पालते हे, धन्य जो सर्वविरती धर्म पालते हें; धन्य जो दांन देते हे, धन्न जो सील पालते हें, धन्य जो तपस्या करते हें, धन्य जो भावना भाते हें, एसें भावना भावतें भरतादिक केवलज्ञान केवल दर्शन पाया, इस तरें रे जीव तूं उनोकी बराबरी मतकर, उनो तेसब

सलाका पुरुष चौथै आरेका जीव तें पंचम कालका भरतक्षेत्र-का कोरा भनोंके देखते तूं किस गिणतीमें, कर्म अजीववस्तु तें जीववस्तु, जीवसें जीवतो हमेसां परिचय करे लेकिन् अजीवसे क्यों करै, कर्म सबल तें निर्बल, रे चेतन कर्म तो चौदेपूर्वधारीयोकों गिराया; इग्यारमें गुणठाणेका जीव भुवनभानु केवलीजी, कमलप्रभाचार्यजी, महाविदेहके मनुष्योकूं भिगाय दिया तो तेरी तो विसायतही क्या, आठ करम अठावनहो प्रकृती हे प्रभु केसें जीता जाय, मोहकर्म पीछै लगा सो केसें जीता जाय; हे चेतन चारित्र-की फोजमें रह सद्बोध मोहतेकी आज्ञामें रह सदागमसुं परिचय रख, संतोषगुण धार, तृष्णारूप दाहकूं पीछी मार, जेसें तें तिर जाय, धन हे साधु मुनिराज पांचे सुमते सुमता, तीने गुप्ते गुप्ता, छकायका पीयर, सात महाभयका टालणहार, आठ मदका जपक, नवविध ब्रह्मचर्यको वाडका रखणेवाला, दसविध जतीधर्मका उजवालक, इग्यारे अंगका भणणेवाला, बारे उपांगका भणणेवाला, कुरकीसंब्रल मलि, मलिनगात्र, चारित्र पात्र, धन्य हे वह मुनि प्रभूकी आज्ञा मुजब धर्म पालै, रे चेतन तुझे कब उदे आवेगा, रे चेतन तेरे उदय कहांसें आवै, तेरे संसाररी बहुलताइ; धन्य देसव्रती पाले जिके प्रभुजीकी आज्ञा पाले, जिके प्रभात उठ सामायक करे, पडिकमणो करे, देवदर्शन करै, प्रभुजीकी द्वादसांगी वाणी सुणै, देववंदन, देवपूजन, गुरुवंदन, दांन, तपस्या, सील, पर्वतिथी पोसा, संध्याकूं देवसी पडिकमणा जिनाज्ञा प्रमांणै षडावश्यक कर, मुझेभी कभी उदय आयगा, रे चेतन ! तूं बुरे कर्म करता हे बुरा हवाल होगा, बुरे परणांमोंसे बुरीही गती उदय आयगी, सामायक मनसुद्धै करो, निंदा विकथा मद परिहरो, पढण गुणना वांचनेकी खप करो, जेसें भवसायर लीला तरो, सामायकवंतके यह

लक्षण हे, ओर तेरी सामायक तो निंदा विकथारूप हे, तुझे पढणें गुणनेकी लगन नही, तेनें तो श्रुतज्ञानका विनय बहुमान नही किया, जो श्रुतज्ञानकी भक्ति करते हे उनोकों ज्ञान दर्शनकी प्राप्ति होती हे, केवलज्ञांन ओर केवलदर्शन पाता हे वोही जीव मुक्तिरूप स्त्रीका भर्त्तार होता हे. दिवस प्रते दे कोई सुजांण सोना खंमी लक्ष प्रमाण, उसके पुन्य होय जेतलो, सामायक कीधा तेतलो ॥ १ ॥ लेकिन् तूं इस भरोसे मत भूल, यह तेरी सामायक वो नही, वह सामायक आणंद कामदेव संख पुष्कली आदि उत्तम पुरुषोंकी, चंद्रावतंसकराजाकी, तेरी सामायक तो एसी हे कांम काज घरका चिंतवै, निंदा विकथा कर खिज रहै; आरत रौद्रध्यांन मन धरै, तूं सामायक निष्फल करै ॥ १ ॥ सामायकके लक्षण एसें हे अपणा पराया सरषा गिणै, कंचन पत्थर समवड धरै, साचो थोडो आगम भणे, ते सामायक शुद्धे करै ॥ १ ॥ रे चेतन तें पराया बुरा चाहता, अपणा भला चाहता, वो पराया बुरा या नही चाह्या वो तेनें अपणे आत्माकाही बुरा चाहा, अरे चेतन तें कंचनकी चाह रखे, पत्थरकूं दूर करै, आखिर एक दिन यही पत्थर तेरे छाती पर धरा जायगा, रे चेतन तूं मृषावाद बोल रहा हे, तूं अपणे आत्माका गुण विचारे तो अवेदी हे, अफरसी हे, अघाती हे, अलेसी हे, अविनासी हे, तें दिलमें विचारता हे यह मेरा सज्जन, यह मेरा दुस्मन हे, कोण तेरा सज्जन ओर कोण तेरा दुस्मन हे, आठ कर्मरूपिया सत्रु हे जिनोंकों तूं ज्ञानरूपिये इंधनसूं बाल भस्म कर जिस्से तेरा गरज सरे, अहोहो मैं भव्य हूं अभव्यहूं अथवा दुरभव्यहूं, मेरे संसार पोते वहोत दिखता हे, प्रायेतो मैं अभव्यही दिखताहूं पीछे तो ज्ञानीयोने भाव देखा सो सही, हे रे भाइ तें तो एसी सामायक करता हे, खणे खाज मोडे

करमका, बंधतणा लेवे सरमका, तेरी सामायक तो ज्ञानी सि-कारेगा जब लेखे लगेगा, इहा—आत्मनिंद्या आपणी, ज्ञानसार मुनि कीन; जो आत्मनिंद्या करे, सो नर सुगुण प्रवीण ॥ १ ॥ इति आत्मनिंद्या संपूर्ण ॥

॥ अथ श्राद्धदिनकृत्य तथा देववंदनभाष्यादिकसें मंदिर जाणेकी पूजन द्रव्य भावसे करणेकी विधि श्रीमहानिसीथ सूत्रकी आज्ञा मुजब लिखते हे ॥

महाकल्पसूत्रमें एसा लिखा हे छती शक्ति साधु जिनमंदिरमें जाके दर्शन नही करे तो तेलेका दंड उर श्रावककूं बेलेका दंड ॥ प्रथम श्रावक दो च्यार घडी रात रहे पिछली तब उठके नवकारमंत्रका स्मरण करे, में कोण हूं, क्या मेरी जाति हे, क्या मेरा कृत्य हे, क्या मेरा धर्म हे, इस तरे धर्मजागरणासें दिलको सावचेत करे, पीछे मल मूत्रकी बाधाकूं दूर कर अंग शुचि करके सामायिक लेके राईप्रतिक्रमण करे, फेर घरदेरासरकी पूजा करे, पीछे यथाशक्ति अछा वस्त्र आभूषण पहरके घोडा हाथी रथ पालखी सिपाइ नोकर चाकर भाई बंधु परिवार समेत पूजाके लायक फल फूल प्रमुख संगमे लेकर भव्यजीवोंको मोक्षमार्ग दिखाता हुआ जिनशासनकी प्रभावना करता थका जिनमंदिरमें जावे. जिन मंदिरमें प्रवेश करके द्रोपदीकी तरे ज्ञातासूत्रमें अधिकार १० त्रिक विधि साचवन करे सो दस त्रिक लिखते हे—

पहिला त्रिक—३ वेर निस्सही कहणेका, जिसमें १ निस्सही जिनमंदिरमें प्रवेश करतेही कहे पीछे संसार घर संबंधी कुछभी कार्य विचारणा न करे १; दूसरी निस्सही प्रदक्षणा तीन दियां पीछे कहे, जिनमंदिरमें फूटा टूटा मरम्मत कराणेकी जो सार संभाल रखीथी सोभी छोडे २; (इसमें द्रव्यपूजा करणी मोकली रही)

तीसरी निस्सही कहे पीछे निकेवल भावपूजाही करे, लेकिन् द्रव्य पूजा नही करे. यह प्रथम निस्सही त्रिक कहा. १

दूसरा त्रिक–ज्ञान त्रिककी आराधना करणेकों प्रभूके दक्षिणावर्त्तसें तीन प्रदक्षिणा देवे.

तीसरा त्रिक–मूलनायकजीके बिंबको पंचाग मिलाके तीन वेर नमस्कार करे. ३.

चोथा त्रिक–प्रभूकी अंग १ अग्र २ उर भाव ३ एसे त्रिविध प्रकारसें पजा करे. अब निस्सही किये पीछे कृत्य अकृत्य तथा पूजाविधि संक्षेपसें लिखते हे, मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, उर कायगुप्ति करके युक्त रहे, पांचो इंद्रियोकूं वसमे रक्खे, चलणे उर फिरणेमें उपयोगी रहे, गीतादिक दुसरेका सुणके चित्तमें व्याकुलता नहि रक्खे, कुबुद्धी देवकार्यकों छोडके, उर कार्यकी विचारणा न करे, संपूर्ण राजकथादिक ४ हे सो विकथाको छोडे, जन्म उर कर्मके अनुगत वचन नहि बोले अर्थात् कोईके मातापितादिकका किया भया खोटे कार्यकों प्रगट नहि करे तथा कर्मानुगत वचन आंधेको अंधा, गोलेकूं गोला, इत्यादि वचन नहि वोले. निस्सही किये पीछे जिनमंदिरमें धर्म्मसंयुक्त आत्महितकारी प्रमाणोपेत वचन बोले, जिसनें मन वचन कायाके खोटे व्यापारोका निषेध अपणी आत्मासें किया हे उस जीवके भावसे निस्सही होय, उर जिसने दूषणका त्याग नहि किया हे उसके फकत शब्द उच्चारणे मात्र द्रव्यनिस्सही होय इस वास्ते पूजायोग्य उत्तम वस्त्र पहरके आठ तहका उज्जल वस्त्रसें मुखकोस वांधे, धूपादिकसें अंग अपणा शुद्ध करे, भावसें दुसरी निस्सही कहते मूलगुंभारेमें प्रवेश करे, जयणा संयुक्त पूजा करे, पूजा करते शरीरमें खाज नही खुणे, खेल खंखार नहि करे, निकेवल भगवानकी स्तवनामें चित्त रक्खे, प्रथम ‒, युक्त जल

पंचामृतसे स्नान करावे, सुकमाल अछा कोमल सुगंधयुक्त वस्त्रसें भगवानका अंग लूहे, कपूर कस्तुरी मिश्रित शुद्ध केशरचंदनसें विलेपन करे, शुभवर्ण शुभगंधयुक्त जीवादि रहित निर्दोस गुलाब चंपा चंपेली केवडा जाई जूई मोगरादिक पुष्फोसे पूजा करे, अष्टांगधूप अगरवत्ती खेवे, मंगलीक दीपक करे, अखंड उज्वल अक्षतोसें प्रभूके सन्मुख अष्ट मंगलीक लीखे—दर्पण १ भद्रासण २ वर्द्धमानसरावसंपुट ३ श्रीवत्स ४ मछयुग ५ कलश ६ स्वस्तिक ७ नंद्यावर्त्त ८ एसे अष्ट मंगलकी रचना करे; पंचरंगे फूलोंसें अष्टमंगलीककूं पूजे, अछे केसर चंदनके छंटा देवे, उत्तम नैवद्य चढावे, अछे खाद्यफल चढावे, इत्यादि पूजाकी विधी आरती पर्यंत रायपसेणी ज्ञाताधर्मकथा जीवाभिगमादि सिद्धांतोमें लिखे मुजब करे. पीछे अंतरंग भक्तिसें प्रभूके सन्मुख नाटक करे, जेसें देवेंद्र दानवेंद्र नारद उदाइराजाकी राणी प्रभावती द्रौपदी रावण प्रमुख केइ जीवोंने जिनेश्वर तथा जिनेश्वरकी प्रतिमा आगे अष्टापदादि तीर्थोंपर तीर्थंकर गोत्र उपार्जन किया तेसें शंकारहित भव्यजीव नाटक करता उत्तम फल पावे, जल चंदनादि पुष्पोसें करीजावे सो अंगपूजा १ प्रभूके सन्मुख नेवद्यादिक चढायाजावे सो अग्रपूजा २ प्रभूके सन्मुख शक्रस्तवादि गीत गान नाटकादिक करे सो भावपूजा ३. द्रव्यपूजा गर्भित चोथा त्रिक कहा. ४.

अब पांचमा त्रिक—तीन अवस्था विचारणी. पिंडस्थ १, पदस्थ २, रूपातीत ३, इसमें पिंडस्थ अवस्थाके तीन भेद है. जन्मावस्था १, राज्यावस्था २, श्रमणावस्था ३, उर केवलअवस्थाकों विचारणा सो पदस्थअवस्था. निरंजन निराकार सिद्धावस्था सो रूपातीत कहीजे. ५.

अब छठा त्रिक—तीन दिशा छोडके प्रभूके सामने नजर रखे.

ऊर्द्ध १, अध २, तिरछी ३, दहणो ३४ वांइ पिछाडी निजर नही करे. ६.

अब सातमा त्रिक–तीन वेर धरती प्रमार्जके उस ठिकाणे चैत्यवंदन करे.

अब आठमा त्रिक–वर्णादिक तीन संपदाका अक्षर शुद्ध उच्चारण करे सो वर्णशुद्धि १, अक्षरोके अर्थपर आलंबन रखे सो अर्थशुद्धि २, आलंबन एक जिनप्रतिमाका रखे सो मन शुद्धि ३. ८.

अब नवमा त्रिक–तीन मुद्रा करणी. जोगमुद्रा १, जिनमुद्रा २, मुक्ताशुक्तिमुद्रा ३. कमलकोशाकार दोनुं हाथोकी अंगुली मिलाणी सो योगमुद्रा कहीजे, इस योगमुद्रासें शक्रस्तव कहे १, काउसग्ग मुद्रा सो जिनमुद्रा २, उर दो सीपका जोडा तिस आकारसें हाथ रखणा सो मुक्तासुक्तिमुद्रा ३, इस मुद्रासें प्रणिधान जयवीयराय कहे, ए.

अब दशमा त्रिक—प्रणिधान तीन. जिनवंदन प्रणिधान १, मुनिवंदन प्रणिधान २, प्रार्थना प्रणिधान ३. इसमें जो जावंति चेइयाइं इह संतो तत्थसंताइ तक तो जिनवंदन प्रणिधान १, जावंति केविसाहू तिविहेण तिदंड विरियाणं तक मुनिवंदन प्रणिधान २, जयवीयरायसे लेके आभवमखंडा तक प्रार्थनारूप प्रणिधान ३. एसें दश त्रिकका पहिला द्वार कहा. १०.

अब पांच अभिगमन साचवणेका दूसरा द्वार कहते हैं. सचित्तद्रव्य जो पुष्पादिक अपणे भोगमें होय उसकूं दूर धरदेणा १, उर राजचिन्ह मुगट छत्र खड्ग चमर पाडुका अचितवस्तुउतारणी छोडणा आभूषण वगेरे पहरे रखणा २, मन एकाग्र करणा ३, एकपट उत्तरासण करना ४, जिनबिंबकूं देखतेही नमोजिणाणं एसें नमस्कार करणा ५. यह दूसरा द्वार कहा.

अब तीसरा द्वार–दोदिशीका पुरुष दहिनी तरफ वेठके भगवंतकूं वांदे, स्त्री वांइ तरफ वेठके भगवंतकूं वांदे.

अब चोथा द्वार तीन अभिग्रहका. अभिग्रह देववांदणामे कहा हे. जघन्यसे तो नव हाथ दूर बेठके देव वांदे १, मध्यम नव हाथसें उपरांत बठके देव वांदे २, उत्कृष्ट६० हाथ दूर बेठके देव वांदे ३.

अब पांचमा द्वार चैत्यवंदनका. सो जघन्य १, मध्यम २, उत्कृष्ट ३, एवं तीन भेद हे. णमो अरिहंताणं एसा कहके अथवा एक दोय गाथाका नमस्कार चैत्यवंदन कहके शक्रस्तव कहणा सो जघन्य चैत्यवंदन १, जिस देववंदनसें नमोत्थूणंसे लेके अरिहंतचेइयाणं इत्यादिक संपूर्ण कहके एक स्तुतिकी गाथा कहे सो मध्यम चैत्य वंदन तथा कोइ आचार्य कहते हे पांचदंमक समेत थुईकी च्यार गाथा कहे सो मध्यम चैत्यवंदन कहीजे. पांच शक्रस्तवसे आठ थुईसे देववांदे सो उत्कृष्ट चैत्यवंदन कहीजे.

अब छठा द्वार पंचाग प्रणिपात करे, दो गोडे. दो हाथ, उर मस्तक, यह पांच अंग मिलाके जमीनमें लगावे.

अब सातमा द्वार. जघन्ये एक गाथासें लेकर उत्कृष्ट एकसो आठ श्लोक तथा काव्यसें प्रभुकी स्तवना करे ॥ इति ॥

॥अथ चवदे नियम दिनप्रति प्रमाण श्रावक करे सो विचार लि०॥

सच्चित्त १, दव्व २, विगई ३, पाणहि ४, तंबोल ५, वत्थ ६, कुसुमेसु ७, वाहण ८, सयण ९, विलेवण १०, बंभ ११ दिशि १२, न्हाण १३, भत्तेसु १४ ॥ अर्थ ॥ श्रावक नितप्रति नियम संभाले दिनमें जो चीज अपणे अंग खाते लगे उसका प्र माण रखे, उपरांत त्याग करे. उसमें पहिले सच्चित्त वस्तुका प्रमाण इस तरेसें करे मट्टी सर्व जाति, पाणी सर्व जाति, जल अग्नि वायु वनस्पतिका छेदन भेदन, तरकारी फल परबल भींडी तोरी केला मतीरा ककडी खरबूजा नींबु आंब नारंगी जामूण इत्यादिक जो चाहे सो रखे, बाकीका त्याग करे १.

दूसरा द्व्य प्रमाण, तहां धातु वस्तुकी शली तेसे अपणी अंगली विगर जो चीज मुंमें फालणेमें आवे सो सब द्रव्यकी गिण तीमे आता है. नामांतर स्वादांतर स्वरूपांतर परिणामांतर द्रव्यांतर होणेसे द्रव्य जुदा गिणणेमे आता है. जेसें गहूं एक द्व्य उसकी पतली रोटी फीणारोटी वेढवारोटी वाटी यह सब जुदा द्रव्य कहे जाता है. इस तरे भात दाल रोटी कढी मांभिया कट्ट तरकारी सब जात पापड़ खीचिया लड सब तरेके फीणी घेवर खाजा इत्यादिकमेंसे सब द्रव्यमेसे जो चहिये सो रखे बाकी नियम करे, उत्कृष्टपणे एक द्रव्यका नांम लेकर रखे सो एकही द्रव्य कहलावे. जेसेके मेवेकी खीचडी तो वह अनेक द्व्यसे वणी भई है तोभी एक द्रव्यही कहिये. इति द्रव्यप्रमाण दुसरा नियम २.

अब तीसरा विगय प्रमांण नियम ॥ तहां दश विगयोंमेंसें श्रावककूं च्यार महाविगयका तो त्यागही होता है. मदिरा १ मांस २ मक्खण ३ और सहतका ४ रहे. ६ विगय--घृत १ तैल २ मीठा ३ दूध ४ दही ५ कढाईकी तली चीज ६, यह धारणा प्रमांण रखे. इति विगय नियम ॥ ३.

अथ चोथा पादत्राण नियम ॥ तहां जूती खडाउ मोजा अपना इतना विराणा एसे नित्य धारणा प्रमाण मोकला रखे. ४. ॥ इति पान हि नियम ॥

अथ पांचमा तंबोल नियम ॥ पांनबीडा सुपारी लोंग इलायची गोटी और वडी जायफल जावंत्री प्रमुख सब खादिमवस्तु किरियाणेकी चीज धारण प्रमांण रखे. इति तंबोल नियम ॥ ५.

अथ छठा वस्त्र नियम. पोसाख २ तथा ४ छूटा वस्त्र ५ तथा ७ मोकला रखे, पोसाख १ में पघडी १ जामा २ कमरबंधा ३ धोती ४ इक पट्टा उत्तरासण ५ यह पांच वस्त्रकी एक पोसाख

कहै जे. एसेंइ स्त्रीके स्त्री मुजब. जो एसा नही कर सके तो ४० तथा ५० कपडा दिनमे मोकला रखे. पराया वस्त्र भूल चूकमें आवे तो जयणा ॥ इति वस्त्र नियम ॥ ६.

अब सातमा फूल नियम. गुलाब चंपेली बेला केवडा केकी कुंद मुचकुंद सेवती चंपा मालती आदिक सब फूलका धारणा प्रमाण रखे. ॥ इति फूल नियम ॥ ७.

आठमा वाहन नियम ॥ रथ गाडी वहली इका बग्घी कोच पालखी घोडा हाथी ऊंट तामजांम म्याना इत्यादिक सब थलवाहन, पाणीमें चलणेवाले मोरपंखी वतक घुडदोड लचकार मगर पनसोइ पलवार वजरानाव इत्यादि सब जिहाज बोट वगेरे तिरता फिरता चरता रेल वगेरे सब प्रकारके असवारीकी धारणा रखे. ॥ इति वाहन नियम ॥ ८.

अथ शय्या नियम ॥ पलंग खाट तखत चोकी पट्टा गद्दी कुरसी वनात सूजनी सेत्रूंजी डुलीचा चांदणी शीतलपट्टी चटाई सफ दरखतकी वालका चमडेका कामला मुखमल अतलस कारचोपी इत्यादि धारणा प्रमाणे शय्याका प्रमाण करे. इति शय्या नियम ए.

अथ दशमा विलेपन नियम: सरसूंका राईका आटेका तेल फुलेल सब जातिका केसर चंदन कपूर कस्तूरी कुंकूं इत्यादिक शरीरके सुख वास्ते तथा रोगादि कारणे औषधादिकका विलेपन, फोडे परमलम प्रमुख आंखोमें अंजन इत्यादि अंगोपांगमें लगाणा सो विलेपन धारणा प्रमाणे परिमाण करे. इति विलेपन नियम १०

अथ ब्रह्मचर्य निमय. रातकों तथा दिनकों सूइ डोरेके दृष्टांत भोगादिकका प्रमाण करे स्वप्नेकी मनकी वचनकी जयणा. इति ब्रह्मचर्य नियम ११.

अथ दिशि नियम. पूरव १ पश्चिम २ दक्षिण ३ उत्तर ४ अग्निकूण ५ नैरुतकूण ६ वायव्यकूण ७ ईशानकूण ८ अधोदिशि ९ उर्द्धदिशि १० यह दश दिशिका अपणे जाणे आणेका प्रमाण करे, चिठि लिखणी आदमी भेजणा देशांतरकी चिठी वांचणी उसकी जयणा. इति दिशि नियम १२.

अथ तेरमा स्नान नियम. तहां आज दिनमें स्नान २ वेर अथवा ४ वेर मोकला लेकिन् पाणीका तोल रक्खे, घड़े प्रमुख का प्रमाण करे, एक स्नानमें इतना पाणी खरच करूं ज्यादा नही गिराउं. इति स्नान नियम १३.

अथ चौदमा भात नियम. दिनमें भात २ सेर तथा २ वेर जीमूंगा अथवा च्यार वेर उपरांत दुविहार या चोविहार धारणा प्रमाणे रक्खे. तथा दिनमें जल पीणेमें आवे उसका प्रमाण रक्खे तोलसे या मापसे. इति चवदे नियम विचार संपूर्ण १४.

॥ अथ श्रावकके सम्यक्त मूल वारे व्रत ग्रहण विधि लिख्यते ॥

प्रथम जिनमंदिरमें जिनप्रतिमाके सांमने शुद्ध सपेद वस्त्र पहरके चंदनकेशरका तिलक करके चावल चढावे, पीछे अखंड तंदुल मुठ ३ थालमें रक्खे उस पर नारेल रुपया या मोहर धरे, तीन प्रदक्षिणा देकर इरियावही पडिक्कमे इच्छाका० सम्यक्त सामाइअआरोहणार्थं चेइयाइं वंदावेह गुरु केह वंदावेमो चैत्यवंदण करे. वांये पासे चावलांको साथियो करे श्रीफल धरे पीछे गुरु वर्द्धमान विद्यासें मंत्रकर श्रावकके मस्तक पर वासक्षेप करे, वर्द्धमान स्तुतिसें देववंदन करवावे पीछे सतरे थुईमें नवकार १ एकेकका काउसग्ग करे पीछे शासनदेवता निमित्त च्यार लोगस्स का काउसग्ग करे, पारके प्रगट लोगस्स कहे पीछे ३ नवकार गुणे शक्रस्तव कहे नमोर्हत्० कहके वड़ा स्तवन कहे पीछे जय

वीयराय कहे इति नंदी विधिः। पीछे खमासमण देइ श्रुतसा मायक सम्यक्तसामायक आराहणार्थं काउसग्गं करावेह, गुरु कहे करावेमो सम्यक्तसामायक आरोहनार्थं करेमिकाउसग्गं. ४. लोगस्सका काउसग्ग करे पारके प्रगट लोगस्स कहे पीछे ३ वेर. नवकार गुणकर गुरूके पास तीन वेर सम्यक्तदंडक उच्चरे गुरु पाठ बोले उसकी मनमें धारणा रखें. सूत्रं अहन्नंभते तुम्हाणं समवे मिछताउ पडिक्कमामि सम्मत्तं उवसंपज्जामि नोमेकप्पइ अज्जप्पभिइ अन्नतित्थिएवा अन्नतित्थिदेवयाणिवा अन्नतीत्थिपरिग्गहिय अरिहंत चेइयाणिवा वंदित्तएवा नमंसित्तएवा पुव्विंअणालित्तएणं आलवित्तएवा तेसिंअसणंवा पाणंवा खाइमंवा साइमंवा दाउंवा अणुप्पाउंवा तेसिंगंधमल्लाइं पेसिउंवा नन्नछरायाभियोगेणं गणाभि योगेणं बलाभियोगेणं देवाभियोगेणं गुरुनिग्गहेणं वित्तीकंतारेणं तंचउविहं तंजहा दव्वउ खित्तउ कालउ भावउ तछदव्वउ दंसण दव्वाइं अहिगिच्च खित्तउ जाव भरहमज्झिमखंडे कालउ जावज्जीवाए भावउ जावछलेणं नछलिज्जामि जावसन्निवाएणं नवविज्जामि जावकेणइ, उम्माइवसेणं एसो दंसण पालण परिणामो नपरिवडइ तावमे एसो दंसणाभिग्गहो. अन्नछणाभोगेणं सहस्सागारेणं महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरइ. पीछे ॐ ह्रीं श्रीं अर्हंनमः एसे अक्षर श्रीगुरूके पाससें हाथमें लिखाके जिन प्रतिमाकूं वासक्षेप चढावे, नवकार पढतोथको ३ प्रदक्षिणा देवे, देव गुरूकूं वांदे, पीछे श्रुतसामायक थिरि करणार्थ सत्तावीस उस्सास प्रमाणे एक लोगस्सका काउसग्ग करे पीछे प्रगटलोगस्स कहे पीछे सम्यक्तरूप कल्पवृक्ष पायके अति आनंदसें एसा वचन बोले अरिहंतोमहदेवो, जावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो, जिनपन्नत्तंतत्तं, इयसम्मत्तंमएगहियं. १. पीछे गुरु धर्मदेशना देवे, मिथ्यात्वरूप सम्यक्तके पांच अतीचार वर्जे, नित्य

चैत्यवंदन इतनी वेर करूंगा, इतना नवकार लिख गुणूंगा, फूल केसरादिक वर्षप्रति इतना जिनमंदिरमें चढाऊंगा, ज्ञान दर्शन चारित्रके नक्तिमें इतना द्रव्य खरचूंगा, शीलव्रत इतने पर्वतिथिमें पालूंगा, नित्य पच्चखाण इस मुजब करूंगा, दिनकी नवकारसी आदिक रात्रिकों डुविहार तिविहार चनविहार और बावीस अन्नक्ष बत्तीस अनंतकाय विदल वगेरे गेडूंगा इत्यादिक अपणी धारणा प्रमाण सब वस्तूका करे निर्यम, गुरुके सामने बारे व्रतकी टीप सुणे अतीचार नहि लगे एसे नपयोगसे सदा वर्त्ते ॥

अथ प्राणातिपात व्रत दंमक लि० ॥ अहन्नंन्नंते तुम्हाणं समीवेथूलगपाणाइवायं संकप्पिन निरवराहं पच्चरकामि जावज्जीवाए एगविहं एगविहेणं अथवा डुविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं नकरेमि नकारवेमि तस्सन्नंते पमिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ यह पहले व्रतका दंमक तीन वेर नच्चरावे॥ १॥ अहन्नंन्नंते तुम्हाणंसमीवे थूलगं मुसावायं जीहाछेयाइहेनअं कन्नालीयं गवालीयं नूमालीयं थापणमोसा कूटसाखीयं पंचविहं पच्चरकामि दखिन्नाए अविसए दव्वन खित्तन कालन न्नावन सव्वनणं मुसावायं खित्तनणं इहवा अणहवा कालनणं जावज्जीवाए न्नावनणं जावगहेणंनगहेज्जामि जावछलेणंनछलिज्जामि अन्नेणकेणवि रोगाइयं एसोपरिणामो नपरिवमइ तावअन्निग्गह डुविहं तिविहेणं अन्नत्थणान्नोगेणं सहस्सागारेणं महत्तगागारेणं वोसिरइ ॥ २ ॥ अहन्नंन्नंते तुम्हाणंसमीवे अदिन्नादाणं खत्तखणणाइयं चोरंकारकरं रायनिग्गहकारयं सचित्ताचित्त वत्थुविसयं पच्चरकामि दव्वन खित्तन कालन न्नावन दव्वनणं अदिन्नादाणं खित्तनणं इहवा अन्नहवा कालनणं जावज्जीवं न्नावनणं जावगहेणं नगहिज्जामि जावछलेणं नछलिज्जामि असेणकेणवि रोगाईयं एसोपरिणामो नपरिवमइ ताव अ

अन्न० सह० मह० वोसिरइ ॥ ८ ॥ अहन्नंभंते तुम्हाणंसमीवे सामाइयं पोसहोववासं देसावगासियं अतिथिसंविभागवयं जहा स त्तीए पडिवज्जामि इच्चेयं सम्मत्तमूलं पंचाणुव्वयं सत्तसिक्खावयं डुवा लसविहं सावगधम्मं उवसंपज्जत्ताणं विहरामि अन्न० सह० मह० सव्वस० वोसिरइ ॥ ए ॥ षट् साख ब छंडी च्यार आगार संयुक्त पालूं ॥ इति श्रावककूं संक्षेप वारे व्रत उच्चरावण विधि ॥

॥ अथ वीसथांनकका छोटा स्तवन देववांदनेमे कहणेका ॥

श्रीजिनना रे चरण कमल प्रणमी करी, वीस थांनक रे गणवुं विधि कहउ चित्त धरी ॥ पहले थानक रे नमो अरिहंताणं गणउ, सीमंधर रे जयवंत जिन पूजी थुणउ ॥ त्रूटक० ॥ थुणउ नविश्रां वीजइ थानकि, नमो सिद्धाणं सही ॥ सिद्धपूजा चउवं स जिननी, पूंडरीक आदिइं कही ॥ त्रीजइ थानक नमो पवयण स्स, प्रभावना संघनी करइ ॥ नमो आयरिआणं चउथइ थांनकि आचारज भगती धरइ ॥ १ ॥ नमो थेराणं रे पांचमइ थिव पूजा करो, नमो उवज्झायाणं रे छठइ थानक उचरउ ॥ वस्त्र कंव र वहुश्रुतनइ ते दीजिए, नमो तवस्सीणं रे सातमें तपि पूजिए ॥ त्रू० ॥ पूजिए आठमे नमो नाणस्स ज्ञा चित्त सुख करउ, नमो दंसणस्स नवमें थानक चैत्यसेवा आद फरसुं वाके नमो विनयकारीणं विनय वधानो कीजिए, इ कारीणं पोसह पूरो लीजिये ॥ २ ॥ वारमे धारीणं सदा, वृतधारी रे मन वच क्रम लीनो, जिनवर प्र धारीणं रे नमो तेरमे अरचिये, समाधि, मुख सुंदर जा , दूर वरचिये ॥ त्रू० ॥ वरचिये नमो सुपत्त श सूरज देजो अविचल पनरमे, नमो वायगस्स विग रकास भावसम् ॥ सतरमे नमो वेयावच्चकारीणं,

भिग्गहं दुविहं तिविहेणं अन्नत्थ॰ सहस्सा॰ महत्त॰ सव्व॰ वोसि
रइ ॥ ३ ॥ अहन्नंभंतुम्हाणंसमीवे उदारिय वेक्रिय भेयं थूलमेहुणं
पच्चक्खामि अहागहियभंगएणं दिव्वंतिरिक्खं माणसियं एगविहं एग
विहेणं पच्चक्खामि दव्वउ खित्तउ कालउ भावउ दव्वउणं मेहुणं खि
त्तउणं इहवा अन्नत्थवा कालउणं जावज्जीवाए भावउणं जावगहेणं
नगहिज्जामि अन्न॰ सह॰ मह॰ सव्व॰ वोसिरइ ॥ ४ ॥ अहन्नं
भंते तुम्हाणं समीवे परिग्गहं पडुच्च अपरिमिय परिग्गहं पच्चक्खामि
धणधन्नाइ नवविहवत्थु विसयं इच्छापरिमाणं उवसंपज्जामि अहाग
हियभंगएणं तंजहा दव्वउ खित्तउ कालउ भावउ दव्वउणं नवविह
परिग्गहं खित्तउणं इहवा अन्नत्थवा कालउणं जावज्जीवं भावउणं
जावगहेणं नगहिज्जामि अन्न॰ सह॰ मह॰ सव्व॰ वोसिरइ ॥ ५ ॥
अहन्नंभंते तुम्हाणंसमीवे दिसिपरिमाणं पच्चक्खामि तंजहा दव्वउ
खित्तउ कालउ भावउ दव्वउणं दिसिपरिमाणं खित्तउणं धारणाप
ाणं कालउणं जावज्जीवाए भावउणं जावगहेणं नगहेज्जामि जाव
॰ तावअभिग्गह अन्न॰ सह॰ मह॰ वोसिरइ ॥ ६ ॥ अहसंभं
तुम्हाणं समीवे भोगोवभोगयेभोयणउ अनंतकायबहुवीया राइ
मुसावा॰ परिहरामि कम्मउणं पन्नरसकम्मदाणाइं इंगालकम्माइया
उणं जाव॰ खरकम्माइयं रायाभियोगंच परिहरामि तंजहा दव्वउ
रोगाइयं एस॰प॰ उ दव्वउणं भोगाव भोगवयं खित्तउणं इहवा अन्न
अन्नत्थणाभोगेणं स॰ ीवाए भावउणं जावगहेणं नगहेज्जामि अन्न॰
अहन्नंभंते तुम्हाणंस॰ ोसिरइ ॥ ७ ॥ अहसंभंते तुम्हाणंसमीवे
रायनिग्गहकारयं सचि अववज्झाण पापोपदेश हिंसोपकरण
कालउ भावउ दव्वउणं अन्नत्थदंडं जहासत्तीए परिहरामि तंज
लउणं जावज्जीवं भाव॰ भावउ दव्वउणं अन्नत्थदंडं खित्तउणं इह
लिज्जामि असेसकेणवि

नमो नाण धराणं, नवूं नणवूं थापिये ॥ ३ ॥ नमो सुअनत्तीणं रे नगणीसमे नविया मुणउ, पुस्तकपूजा रे नवूं लखावीनई सुणो ॥ वीसमे थानक रे नमो पन्नावगाणं कही, संघनगती रे यथासक्ति कीजे सही ॥ नू० ॥ सही कीजे वीस नली एक षठ मासि कीजीये, नपवास करिये बे सहस्स गुणिये पमिकमणे लाहो लीजिए ॥ त्रणे काले देववंदन नाहण धोअण टालिये, आरंन्न वरजी पुन्य गरजी सीअल सूधो पालिये ॥ ४ ॥ साधु साधवी रे श्रावक श्राविकाये सेविआं, तीर्थंकर रे तेणे नामकर्म बांधिआं ॥ वीरशासन रे नव जणां ते जाणिआं, गणांगे रे सौधर्मसामि वखाणिआ ॥ नू० ॥ वखाणिआ गणधर श्रेणिकराजा सुपास नदाई नृप वलि, पोट्टिल मुनिवर अने हढायुष शंख शतक श्रावक रुली ॥ सुलसा रेवती श्राविकाये एह थानक फरसिआं, सेवकजन कल्याणकारी वयणला सफला किया ॥ ५ ॥ इति वीसथानक स्तवनं ॥

॥ अथ पार्श्वजिन स्तवनं ॥

॥ राग केरबो ॥ चालो देखो री मधुवनको राव ॥ चा० ॥ वामानंदन पास जिनेसर, शिर पर रे वाके चमर ढोलाय ॥ चा०॥ ॥ १ ॥ तारण तरण जिनेसर लख कें, नेटे सहु नवि चित्त सुख पाय ॥ चा० ॥ २ ॥ गंगादरस नमाहो लागो, कब फरसुं वाके मन वच काय ॥ चा० ॥ ३ ॥ इति ॥

॥ अथ पार्श्वजिन स्तवनं ॥

॥ राग घाटी ॥ मेरो मन वश कर लीनो, जिनवर प्रनुफ नव गांस ॥ मे० ॥ अखियां कमल पांखमियां, मुख सुंदर न्मास, तुम, दूर मे० ॥ १ ॥ कानें कुंमल दोय ऊलके, शशि सूरज देजो अविचल मे० ॥ नील वरण तन सोहे, त्रिनुवन परकाश नावगम् ॥

प्रनु तुम शरण रहीने, समरुं सासोसास ॥ मे० ॥ लालचंद अरज सुनीजें, पूरो वांछित आस ॥ मे० ॥ ३ ॥ इति ॥

॥ अथ नेमजिन पदं ॥

॥ ठुमरी ॥ राग जंगलो ॥ सुणो सुजाण नेमजी, हांरे में खमी पुकारुं नेम तुंहीं तुंहीं तुंहीं ॥ सु० ॥ अरज करत हुं में पईयां परत हुं, ईतनी अरज मेरी मानो ॥ सुजा० ॥ १ ॥ बिन अवगुण क्युं तजो मेरे साहेब, नेह नजर मोपें म्हारो ॥ सुजा० ॥ ॥ २ ॥ हरख चंद नेमी राजेसर, हुं नव नवकी चेरी ॥ सुजा० ॥ ३ ॥

॥ अथ नेमजिन पदं ॥

॥ राग नैरवी ॥ नेम जिणंदजीसें आंखम्हली, मोरी रेन दिवस नित लग रहीरे ॥ ने० ॥ मो० ॥ १ ॥ पहेली आय नन दोस्ती कीनी, ले पीछें बिटकाय दई रे ॥ पसुअन पर प्रनु दया करीने, सिवरमणी तें वर लेइ रे ॥ ने० ॥ मो० ॥ २ ॥ केई नविक दसना कर दोस्ती, रत्नविमल पद पाय लई रे ॥ ने० मो० ॥ ३ ॥

॥ अथ पद ॥ राग भैरवी ॥

॥ आज प्रनु तोरे चरण लागि, मिथ्यातनिंद में खोई रे ॥ आ० ॥ १ ॥ दरसन कर परसन नयो मेरे, आनंद चित्त अब जोई रे ॥ आ० ॥ २ ॥ तुम विन अंर न कोई मेरे, देख्यो त्रिनुवन जोई रे ॥ आ० ॥ ३ ॥ दास तुमारो करत विनति, तुम प्रनु नव नव होई रे ॥ आ० ॥ ४ ॥ इति ॥

अं ॥ अथ पदं ॥

राया। ॥ राग नैरवी ॥ रात गई अब प्रात होन नयो, क्या सोये कालत्तं या जागरे ॥ रा० ॥ दोय घमी तम्हको अत्र रहियो, ऊठ धरममें लत्तं जावज्जीवं ॥ १ ॥ जिनवाणी नरवीच धार ले, अंर नरम तिज्ञानि असेणकेणारे ॥ रा० ॥ २ ॥ आनंद सुगुरु वचन हित मानो, ए ॥ रा० ॥ ३ ॥ इति ॥

॥ अथ पदं ॥

॥ राग भैरवी ॥ तुम बिन दीनानाथ दयानिधि, कोन खबर ले मेरी रे ॥ तु० ॥ १ ॥ भ्रमत फिरयो संसार जगतमें, मेटो भव दी फेरी रे ॥ तु० ॥ २ ॥ भव भवके प्रभु तुम जगनायक, राखो शरणें तेरी रे ॥ तु० ॥ ३ ॥ उदय आशरो पकड्यो तेरो, सरण ग्रही मैं तेरी रे ॥ तु० ॥ ४ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री सिद्धाचल स्तवनम् ॥

॥ कडखानी देशी ॥ भाव धरि धन्य दिन आज सफलो गणुं, आज में सजन आनंद पायो ॥ हर्ष धरि नजर भरि विमल गिरि निरख करि, रजतमणि कनक सुरतरु कहायो ॥ भा० ॥ १ ॥ पग पग उमंग धर पंथ नित पूछतां, धन्य दोय चरण तिहां चलत आयो ॥ आज धन दीह जागी सुकृतकी दिशा, आज धन दीह गिरि सुजस गायो ॥ भा० ॥ २ ॥ दूर दुर्गति टरी जात्र विधिशुं करी, पुण्यभंडार पोतें भरायो ॥ वंदत जिनराज मणिरंग सुरगिरि शिखर, रूपभजिनचंद सुरतरु कहायो ॥ भा० ॥ ३ ॥

॥ अथ सीमंधर जिन स्तवनं ॥

॥ श्री सीमंधर साहिबा, वीनतडी अवधार लाल रे ॥ परमातम परमेसरू, आतम परम आधार लाल रे ॥ श्री० ॥ १ ॥ केवलज्ञान दिवाकरु, भांगे सादि अनंत लाल रे ॥ भासक लोकालोकको, क्षायिक ज्ञेय अनंत लाल रे ॥ श्री० ॥ २ ॥ इंद चंद चक्रीसरू, सुर नर रहे कर जोड लाल रे ॥ पदपंकज सेवें सदा, अणहूंते एक कोड लाल रे ॥ श्री० ॥ ३ ॥ चरणकमल पिंजर वस्यो, मुज मनहंस नित्यमेव लाल रे ॥ चरण सरण मोहि आसरो, भवभव देवाधिदेव लाल रे ॥ श्री० ॥ ४ ॥ अधम उद्धारण वो तुमें, दूर हरो भवदुःख लाल रे ॥ कहे जिनहर्ष मया करी देजो अविचल सुख लाल रे ॥ श्री० ॥ ५ ॥ इति सीमंधर, मन भावनम् ॥

॥ अथ अष्टापद गिरि स्तवनम् ॥

॥ मनमो अष्टापद मोह्यो माहरो जी, नाम जपूं निशि दीस जी ॥ चत्तारी अठ दस दोय वंदीया जी, चिहुं दिशि जिन चोवीश जी ॥ म० ॥ १ ॥ जोजन जोजन अंतरें जी, पावरू शाला आठ जी ॥ आठ जोजन ऊंचुं देहरुं जी, दुःख दोहग जाये नाठ जी ॥ म० ॥ २ ॥ भरतें भरायां भलां देहरां जी, सो भोंयरां थून जी ॥ आपे मूरत सेवा करे जी, जाण जोईने कुन जी ॥ म० ॥ ३ ॥ गौतमस्वामी तिहां चढ्या जी, वली भागीरथ गंग जी ॥ गोत्र तीर्थंकर बांधीयां जी, जाणे जोई जे कुन जी ॥ म० ॥ ४ ॥ दैव न दीधी मुझनें पांखमी जी, आवुं केम हजूर जी ॥ समयसुंदर कहे वंदना जी, प्रह ऊगमते सूर जी ॥ म० ॥ ५ ॥

॥ अथ पार्श्वजिन स्तवनम् ॥

॥ सुण अरदासा सुगुण निवासा, अमची पूरो प्रभु आशा राज ॥ सु० ॥ देखि उदासा अपणा दासा, दीजें कछुक दिलासा राज ॥ सु० ॥ १ ॥ चामी चटकी भवमांहि भटकी, नाच्यो मैं विध नटकी राज ॥ सु० ॥ २ ॥ हवे मन हटकी आपशुं अटकी, लागुं प्रभुपथ लटकी राज ॥ सु० ॥ ३ ॥ तें हम टाली मुगत संभाली, प्रीत अमेंहिज पाली राज ॥ सु० ॥ ४ ॥ एक हथाली वाजे ताली, वात अचंभा वाली राज ॥ सु० ॥ ५ ॥ परउपगारी पास तुमारी, सेवामें विध सारी राज ॥ सु० ॥ ६ ॥ तत्त्व विचारी मन शुद्ध धारी, श्रीअमसी सुखकारी राज ॥ सु० ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ शंखेश्वर स्तवनम् ॥

॥ अंतरजामी सुण अलवेसर, महिमा त्रिजग तुमारो ॥ सांभलीने आव्यो तुम तीरें, जनम मरण भय वारो ॥ १ ॥ सेवक अरज करे छे राजेश्वर ॥ देजो शिवसुख आलो ॥ ए आंकणी ॥ सहु

तिसुरंगनिरत्त ॥ १ ॥ ढाल ॥ जो निज आतमगुण आनंदी, पुग्गल संगेजेह अफंदी ॥ जे परमेसर निजपद लीन, पूजो प्रणमो भव्य अदीन ॥ १ ॥ कुसुमां० सांतिजिनंदा० तोरा० (एसा कह गोभे टीकी दीजे)॥ २ ॥ गाथा ॥ निम्मलनांणपयासकर, निम्मलगुणसंपन्न ॥ निम्मलधम्मवएसकर, सोपरमप्पहधन्न ॥ १ ॥ ढाल ॥ लोकालोक प्रकाशक नांणी, भविजन तारण जेहनो वांणी ॥ परमानंदतणी नीसांणी, तसु भगते मुझ मति ठहरांणी ॥ १ ॥ कुसुमांजली मेलो नेम जिनंदा तोरा० ॥ (एसा कह हाथे टीकी दीजे) ३ ॥ गाथा ॥ जेसिझासिझंतिजे, सिझस्संतिअणंत ॥ तसुआलंबन ठवियमण, सोसेवोअरिहंत ॥ १ ॥ ढाल ॥ सिवसुख कारण जेह त्रिकाले, सम परिणांमे जगत निहाले ॥ उत्तम साधन मार्ग दिखाले, इंद्रादिक जसु चरण पखाले ॥ १ ॥ कुसुमांज० पासजिनंदा तोरा च० ॥ (एसा कह खांधोके टीकी दीजे)४ ॥ गाथा ॥ सम्मदिट्ठिदेसजय, साहूसाहुणीसार ॥ आचारजउवझायमण, जोनिम्मल आधार ॥ १ ॥ ढाल ॥ चौविह संघे जे मन धार्यो, मोक्षतणो कारण निरधार्यो ॥ विवह कुसमवर जात गहेवी, तसु चरणे प्रणमंत ठवेवी ॥ १ ॥ कुसुमांजलि० वीरजिनंदा तोराच० ॥ (एसा कह मस्तक टीकी दीजे) ५ ॥ (पीछे स्नात्रिया चमर ले के प्रभुजीकूं ढुलावे) ॥ वस्तु ॥ सयलजिनवर२ नमिय मनरंग, कल्लाणक विहि संठविय, करिस धम्म सुपवित्त ॥ सुंदर सय इक सित्तर तित्थंकर, इक समय विहरंत महियल, चवण समय इगवीस जिण ॥ जम्म समय इगवीस, भत्तहि भावे पूजिया, करो संघ सुजगीस ॥ ढाल ॥ भव तीजे समकित गुण रम्या, जिनभक्ती प्रमुख गुण परिणम्या ॥ तजि इंद्रिय सुख आसंसना, कर थांनक वीसनी सेवना ॥ १ ॥ अति राग प्रशस्त प्रभावता, मन भावना एहवी

ज्ञावता ॥ सब जीव करूं शासन रसी, एसी ज्ञावदया मन उल्ल सी ॥ २ ॥ लही परिणांम एहवूं ज्ञलूं, निपजावी जिनपद निरम लूं ॥ आउवंध विचे इक ज्ञव करी, श्रद्धा संवेग ते थिर धरी ॥३॥ तिहांथी चवि लहे नरज्ञव उदार, ज्ञरते तिम एरवतेंज सार ॥ म हाविदेह विजय प्रधान, मऊखंमे अवतरे जिन निधान ॥ ४ ॥ ॥ ढाल ॥ पुण्ये सुपना ए देखे, मनमें हरख विशेखे ॥ गजवर उज्जल सुंदर, निरमल वृषज्ञ मनोहर ॥ निरज्ञय केसरिसिंह, लख मी अतिह अबीह ॥ अनूपम फूलनी माला, निरमल शशि सुकमा ला ॥ तेज तरणि अति दीपे, इंद्रध्वजा जग जीपे ॥ पूरण कलश, पमूर, पदम सरोवर पूर ॥ इग्यारमे रयणायर, देखे माताजी गुण सायर ॥ बारमें ज्ञुवन विमाण, अनुपम रत्ननिधान ॥ अगनशि खा निरधूम, देखे माताजी अनोपम ॥ हरखी रायने ज्ञासे, राजा अरथ प्रकासे ॥ जगपति जिनवर सुखकर, होस्ये पूत्र मनोहर ॥ इंड्रादिक जसु नमस्थे, सकल मनोरथ फलस्ये ॥ १ ॥ वस्तु ॥ पुन्य उदय २, ऊपना जिणनाह ॥ माता तव रयणी समे, देख सुपन हरखंत जागी ॥ सुपन कही निज कंतने, सुपन अर्थ सांज्ञलें सो ज्ञागी ॥ त्रिज्ञुवन तिलक महागुणी, होस्ये पूत्र निधांन इंड्रा दिक जसु पाय नमी, करस्ये सिद्ध विधान ॥ १ ॥ ढाल ॥ चंड्राउलाकी ॥ सोहमपति आसन कंपियो, देइ अवधे मन आ- णंदियो ॥ मुऊ आतम निरमल करण काज, ज्ञवजल तारण प्रगट्यो जिहाज ॥ १ ॥ ज्ञवअमवि पारग सहवाह, केवलना णाइय गुण अगाह ॥ सिव साधन गुण अंकूर जेह, कारण उल- ट्यो आसाढ मेह ॥ २ ॥ हरखे विकसे तव रोमराय, वलयादिकमां निज तनु न माय ॥ सिंहासणथी ऊठ्यो सुरिंद, प्रणमंतो जिन आणंद कंद ॥ ३ ॥ सग अम पय समुहा आवि तहे, कर अंजलि

प्रणमिय मङ सत्थ ॥ सुख आवे ए कण आज सार, तिय लोए
पहू दीठो उदार ॥ ४ ॥ रे रे निसुणो सुरलोय देव, विषयानल
तापित तनु सखेव ॥ तसु शांतिकरण जलधर समांन, मिथ्या
विष चूरण गरुडवांन ॥ ५ ॥ ते देव जगत तारण समङ, प्रगट्यो
तसु प्रणमी हुउ सनत्थ ॥ इम जंपी सक्कठव करेवि, तब देव
देवी हरखे सुणेवि ॥६॥ गावे तव रंना गीत गांन, सुरलोक हुउ मंग
लनिधान ॥ नरक्षेत्रे आरज वंस गांम, जिनराज वधे सुर हर्ष धांम ॥
॥७॥ पिता माता घरे उछव अलेख, जिनशासन मंगल अति विशेष॥
सुरपति देवादिक हरष संग, संयम अरथी जनने उमंग ॥ ८ ॥
शुन्न वेला लगने तीर्थनाथ, जनम्या इंद्रादिक हर्ष साथ ॥ सुख
पांम्या त्रिनुवन सर्व जीव, वधाइश थई अतीव ॥ ए ॥ (एसा पढ
चैत्यवंदन करणा पीछे हाथमें साथिया करणा पीछे कलस पंचामृत
का लेकर खडा रहे ॥) श्रीतीर्थपतिनो कलस मज्जन गाईये सुख
कार, नरखित्त मंडण डुह विहंडण नविक मन आधार ॥ तिहां
राव राणा हरख उछव थयो जग जयकार, दिसिकुमर अवधि वि
शेष जांणी लह्यो हरख अपार ॥ १ ॥ निय अमर अमरी संग कु
मरी गावती गुण छंद, जिनजननी पासे आय पहुती गहकती आ
णंद ॥ हे माय तें जिनराज जायो सचिव धायो रम्म, अम्ह जम्म
निम्मल करण कारण करिस सूइयकम्म ॥ २ ॥ तिहां नूमिसोधन
दीप दर्पण वाय वींझणधार, तिहां करिय कदली गेह जिनवर ज
ननि मज्जणकार ॥ वर राखडी जिन पांण बांधी दिये इम आसी
स, जुग कोडिकोडी चिरंजीवो धर्मदायक ईस ॥ ३ ॥ ढाल उला
लानी ॥ जिन रयणीजी दस दिसि उज्जलता धरे, शुन्न लगनेजी
ज्योतिसचक्र ते संचरे ॥ जिन जनम्यांजी तिण अवसर माताघरे,
तिण अवसरजी इंद्रासण पिण थरहरे ॥ त्रूटक ॥ थरहरे आसन इंद्र

चिंते कोन अवसर ए वन्यो, जिन जन्म उछवकाल जांणी अतहि आणंद ऊपनो ॥ निज सिद्धि संपत हेतु जिनवर जांण भगते ऊमह्यो, विकशंत वदन प्रमोद वधते देवनायक गहगह्यो ॥ १ ॥ ॥ ढाल ॥ तव सुरपतजी घंटानाद कराव ए, सुरलोकेजी घोषणा एह दिराव ए ॥ नरक्षेत्रेजी जिनवर जन्म हुउ अछे, तसु भगतेजी सुरपति मंदिरगिर गछे ॥ त्रूट० ॥ गछे मंदिर शिखर ऊपर भुवन जीवन जिनतणो, जिन जन्मउछव करण कारण आवज्यो सब सुरगणो ॥ तुम शुद्ध समकित थास्ये निरमल देव देवी निहालतां, आपणा पातिक सर्व जास्ये नाथ चरण पखालतां ॥ २ ॥ ढाल ॥ इम सांभलजी सुरवर कोडि वहू मिली, जिन वंदनजी मंदिर गिर सांहमी चली ॥ सोहमपतिजी जिनजननीघर आविया, जिनमाताजी वंदी स्वामि वधाविया ॥ त्रू० ॥ वधाविया जिनवर हर्ष बहुले धन्य हूं कृतपुन्य ए, त्रैलोक्य नायक देव दीठो मुझ समो कुण अन्य ए ॥ हे जगत जननी पूत्र तुमचो मेरु मज्जनवर करी, उछंग तुमचे वलिय थापिस आतमा पुन्ये भरी ॥ ३ ॥ ढाल ॥ सुरनायकजी जिन निज करकमले ठव्या, पांच रूपेजी अतिशय महिमायें स्तव्या ॥ नाटक विधिजी तव बत्तीस आगलि वहे, सुर कोडिजी जिन दरशणने ऊमहे ॥ त्रूट० ॥ सुर कोडकोडी नाचती वलि नाथ सचि गुण गावती, अछपरा कोडी हाथ जोडी हाव भाव दिखावती ॥ जय जयो २ तूं जिनराज जगगुरु एम द्ये आसीस ए, अम त्रांण सरण आधार जीवन एक तूं जगदीस ए ॥ ४ ॥ ढाल ॥ सुरगिरवरजी पांडुकवनमें चिहुं दिसे, गिर शिल परजी सिंहासण सासय वसे ॥ तिहां आणीजी शक्रे निज खोले ग्रह्या, चोसठेजी तिहां सुरपति आवी रह्या ॥ त्रूट० ॥ आविया सुरपति सर्व भगते कलश श्रेणि बणाव ए, सिद्धार्थ पमुहा तीर्थ औषध सर्व वस्तु अणाव ए ॥ अच्चु

यपति तिहां हुकम कीनो देव कोमाकोमने, जिन मज्जनारथ नीर ल्यावो सबे सुर करजोमने ॥ ५ ॥ ढाल ॥ आत्म साधन रसी देव कोमी हसी, उल्लसीने धसी खीरसागर दिसी ॥ पनमदह आदि दह गंग पमुहा नई, तीर्थजल अमल लेवा नणी ते गई ॥ १ ॥ जाति अम कलश कर सहस अठोत्तरा, छत्त चामर सिंहासण सुन्नतरा ॥ उपगरण पुप्फ चंगेरी पमुहा सवे, आगमे नासिया तेम आणी ठवे ॥ २ ॥ तीर्थजल नरिय करि कलश कर देवता, गावता नावता धर्म उन्नति रता ॥ तिरिय नर अमरने हर्ष उपजावता, धन्य अम सगति शुचि नगति इम नावता ॥ ३ ॥ समकित बीज निज आत्म आरोपता, कलश पाणी मिसे नक्तिजल सींचता ॥ मेरुसिहरोवरे सर्व आव्या वही, शक्र उछंग जिन देख मन गहगही ॥ ४ ॥ गाथा॥ हंहोदेवा अणाइकालो अदिठ्ठपूवो, तियलोयतारणो तियलोयबंधु ॥ मिछत्तमोहविद्धंसणो आणाइतिन्नविणासणो, देवाहिदेवोदिठ्ठो२ हियकामेहिं ॥ १ ॥ ढाल ॥ एम पन्नणंति वण नवण जोईसरा, देव वेमाणिया नत्ति धम्मायरा ॥ केविकप्पठिया केविमित्ताणुगा, केवि वररमणे वयणेण अइछगा ॥ १ ॥ वस्तु ॥ तत्थअच्चुय१ इंद आदेस, करजोमी सब देवगण लेइ कलस आदेस पामिय ॥ अदनुत रूप सरूप जुय कवण एह पुछंति सामिय, इंद कहे जगतारणो पारग अम्ह परमेस ॥ नायक दायक धर्मनो करिये तसु अन्निषेस ॥ ॥ १ ॥ ढाल ॥ पूर्ण कलश शुचि उदकनी धारा, जिनवर अंगे न्हाखे ॥ आतम निरमल नाव करंता, वधते सुन्न परिणामे ॥ अच्चुत्तादिक सुरपति मज्जन, लोकपाल लोकांत ॥ सामानिक इंदाणी पमुहा, इम अन्निषेक करंति ॥ १ ॥ पूर्णक० ॥ गाहा ॥ तवईसाणसुरिंदो, सक्कंपन्नणेइकरिसुपसाउ ॥ तुम्हअंकेमहताउ, खिणम्मितंअम्हअप्पेह ॥ १ ॥ तासक्किंदोपन्नणइ, साहम्मीयवछलम्मिबहुला

हे ॥ आणाएवंतेणं गिएहइ होउकयत्थाम्रो ॥ २ ॥ (कलस ढाले) सोहम सुरपति वृषभ रूप करि, न्हवण करे प्रभु अंगे ॥ करिय विलेपन पुष्पमाल ठवि, वर आभरण अभंग ॥१॥ तब सुरवर बहु जयजयरव कर, नच्चे धरि आणंद ॥ मोक्खमारग सारथपति पाम्यो, भांजसु हिव भवफंद ॥ २ ॥ कोम बत्तीस सोवन उवारी, वाजंते वर नाद, सुरपति संघ अमर श्रीप्रभुने, जननीने सुप्रसाद ॥ ३ ॥ आणी थापे एम पयंपे, अह्म निसतरिया आज ॥ पुत्र तुह्मारो धणी अह्मारो, तारण तरण जिहाज ॥ ४ ॥ मात जतन कर राखज्यो एहने, तुम सुत अह्म आधार ॥ सुरपति भगते सहित नंदीसर, करे जिन भक्ति उदार ॥ ५ ॥ नियय कप्प गया सब निर्जर, कहता प्रभु गुण सार ॥ दीक्षा केवलज्ञान कल्याणक, इछा चित्त मझार ॥ ६ ॥ खरतर गछ जिनआणा रंगी, राजसार उवझाय ॥ ज्ञान धरम दीपचंद सुपाठक, सुगुरुतणे सुपसाय ॥ ७ ॥ देवचंद जिन भगते गायो, जनम महोछव छंद ॥ बोधबीज अंकूरो उलस्यो, संघ सकल आणंद ॥ ८ ॥ ढाल ॥ इम पूजा भगते करो, आतम हित काज ॥ तजिय विभाव निज भावमा, रमता सिव राज ॥ इ० ॥ १ ॥ काल अनंते जे हूआ, होस्ये जेह जिणंद ॥ संपइ सीमंधर प्रभु, केवलनाण दिणंद ॥ इ० ॥ २ ॥ जन्ममहोछव इण परे, श्रावक रुचिवंत ॥ विरचे जिनप्रतिमातणो ॥ अनुमोदन खंत ॥ इ० ॥ ३ ॥ देवचंद जिन पूजना, करतां भव पार ॥ जिन प्रतिमा जिन सारखी, कही सुत्र मझार ॥ इ० ॥ ४॥ इति स्नात्रपूजासं०

॥ अथ देवचंदजीकृत अष्टप्रकारी पूजा ॥

प्रथम जल पूजा ॥ विमल केवल भासन भास्करं, जगत जंतु महोदय कारणं ॥ जिनवरं बहुमान जलौघतः, शुचि मनाः स्नपयामि विसुद्धये ॥ ॐ ह्रीं श्रीं परमात्मने, अनंतानंत ज्ञानशक्तये जन्म जरा

मृत्यु निवारणाय, श्रीमज्जिनेंद्राय जलं यजामहे ॥ १ ॥ बीजी चं-
दन पूजा ॥ सकल मोहतमिश्र विनाशनं, परम शीतल नाव युतं
जिनं ॥ विनय कुंकुम दर्शन चंदनै, सहज तत्व विकास कृतेर्च्चये: ॥
॥ २॥ ॐ ह्रीं० केसरंचंदनं यजामहे ॥ २ ॥ त्रीजी पुष्प पूजा ॥ विक
च निर्मल शुद्ध मनोरमे, विशद चेतन नाव समुन्नवेः ॥ सुपरिणा
म प्रसून घनैर्नवैः, परम तत्व मयं हिय जाम्यहं ॥ ॐ ह्रीं
प० पुष्पं यजामहे ॥ ३ ॥ चोथी धूप पूजा ॥ सकल कर्म
महेंधन दाहनं, विमल संवर नावसु धूपनं ॥ अशुन्न पु-
फ़ल संग विवर्ज्जनं, जिनपते पुरतोस्तु सुहर्षतः ॥ ४ ॥
ॐ ह्रीं प० धूपं यजामहे ॥ ४ ॥ पांचमी दीपक पूजा ॥ नविक नि
र्मल बोध विकासकं, जिनगृहे शुन्न दीपक दीपनं ॥ सुगुण राग वि
शुद्ध समन्वितं, दधतु नाव विकास कृतेर्जनाः ॥ ५ ॥ ॐ ह्रीं प०
दीपं यजामहे ॥ ॥ ५ ॥ ठ्ठी अक्षत पूजा ॥ सकल मंगल केल नि
केतनं, परम मंगल नाव मयं जिनं ॥ श्रयंति नव्यजना इति दर्श
यन्, दधति नाथ पुरोक्षत स्वस्तिकं ॥ ६ ॥ ॐ ह्रीं प० ॥ अक्षतं
यजामहे ॥ सातमी नैवद्य पूजा ॥ सकल पुफ़ल संग विवर्जनं, स
हज चेतन नाव विलासकं ॥ सरस नोजन नव्य निवेदनात्, पर
म निर्वृत्ति नाव महं स्पृहे ॥ ॐ ह्रीं प० नैवेद्यं यजामहे ॥ ७ ॥ आठमी
फल पूजा॥ कटुक कर्म विपाक विनाशनं, सरस पक्कफल व्रज ढोकनं॥
विहत मोक्ष फलस्य प्रन्नो पुरः, कुरुत सिद्धफलाय महाजना॥ ८॥
ॐ ह्रीं प० फलं यजामहे । (अर्घ) इति जिनवर वृंदं नक्तितः पूजयं
ति, सकल गुणनिधानं देवचंद्र स्तुवंति ॥ प्रतिदिवस मनंतं तत्व
मुद्भावयंति, परम सहज रूपं मोक्षं सौक्षं श्रयंति ॥ ए ॥ ॐ ह्रीं श्रीं
प० अर्घं यजामहे ॥ (वस्त्र) शक्रो यथा जिनपतेः सुर शैल चूला,
सिंहासनो परिमित स्नपनावसाने ॥ दध्यक्षते कुसुम चंदन गंध

धूपैः, कृत्वार्च्चनंतु दधाति सुवस्त्र पूजां ॥ १ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं प० व०
यजामहे ॥ इति अष्टप्रकारी पूजा ॥

॥ अथ सतरह भेदी पूजाकी विधी ॥

प्रथम स्नात्र करावै पीछे अष्ट प्रकारी पूजा करै फेर रकेबीमें कुंकुम तथा केसरका साथिया करै पीछे शुद्ध जलका कलस केसरमिश्रित रुपया १ कलसमें डालै मुखकोस बांध उत्तरासण कर तीन नवकार गुणै तीन वेर नमस्कार कर हाथ के धूप देकर रकेबी हाथमें धरै मन सुद्धकर खडा रहै ॥

॥ अथ साधुकीरती मुनी कृत सत्तरह भेदी पुजा प्रारंभ ॥.

॥ दूहा ॥ भाव भलै भगवंतनी, पूजा सतर प्रकार ॥ पर सिद्ध कीधी द्रोपदी, अंग छठै अधिकार ॥१॥ राग सरपदो ॥ ज्योति सकल जग जागती, हांरे अइयो जा० सरसति समरि सुणिंद ॥ सतर सुविध पूजातणी, पभणिसु परमानंद॥१॥ गाहा॥ न्हवण १ विलेवण २ वत्थयुगं ३, गंधारुहणंच ४ पुप्फरोहणयं ५॥ मालारोहण ६ व न्नयं ७ चुन्न ८, पडागय ९ आभरणे १० ॥ २ ॥ मालकलासुय वंसुघरं ११, पुप्फं पगरंच १२ अठमंगलयं १३॥ धूव उखेवो १४ गीययं १५, नट्टं १६ वज्जं १७ तहा भणियं ॥ ३ ॥ सतर सुविध पूजा पवरं, ज्ञाताअंग मझार ॥ द्रुपदसुता द्रोपदि परै, करियै विधि विस्तार ॥ ४ ॥

॥ अथ प्रथम न्हवण पूजा ॥ राग देसाख ॥

पूर्वमुख सावनं, करि दसन पावनं, अहत धोती धरी उचित-मानी रे, अइयोज० ॥ विहत मुखकोसके क्षीर गंधोदकै, सुभृत मणिकलस कर विविध वांनो ॥ अ० ॥ १ ॥ नमवि जिन पुंगवं, लोम हस्तेनवं, मार्जनं करिअवा वारिधारि ॥ अ० ॥ भणिय कुसमांजली, कलस विधि मन रली, नवति जिन ईंद जिम तिम अगारी ॥ अ० ॥ २ ॥ दुहा ॥ परमानंद पीयूप रस, न्हवण सुगति सोपान ॥ धर्मरूप तरू सींचवा, जलधर धार समान ॥ १ ॥ पद

ची पूजा साचवै, श्रावक शुभ परिणाम ॥ शुचि पखाल जिनतनु तणे, करइ सुकृत हितकांम ॥ २ ॥ राग सारंग ॥ पूजा सतर प्रकारी, सुण जैनकी पू० ॥ परमानन्द तिण बढ्योरी सुधारस, तपत बुझिय मेरे तनकी ॥ पू० ॥ १ ॥ प्रभूकुं विलोक नमि जतन प्रमारजित, करत पखाल सुचि धारविनकी ॥ पू० ॥ न्हवण प्रथम निज वृजन पुलावत, पंककु वरप जिम घनकी ॥ पू० ॥ २ ॥ तरुणि तरणि भवसिंधु तरणकी, मंजरी संपद फल वर धनकी ॥ पू० ॥ शिवपुर पंथ दिखावन दीपी, धूमरि आपदवेल मरदनकी ॥ पू० ॥ ॥ ३ ॥ सकल कुशलरंग मिल्योरी सुमति संग, जागी सुदिसा शुभ मेरे दिनकी ॥ पू० ॥ कहे साधुकीरति सौ रंगभर करतां, आस फली मेरे दिनकी ॥ पू० ॥ ४ ॥ इति प्रथम न्हवण पूजा ॥ १ ॥

एसा पढ पंचामृतसु न्हवण कीज । डावे पांवके अंगुठे जलधार दीजे ॥

॥ अथ द्वितीय विलेपन पूजा ॥

(सुंदर अंगलूहणेसें अंग जिनबिंबका प्रमार्जकर केसर सुगंधद्रव्य मिश्रित लेके खडा रहै)

रामगिरीमें राग ॥ गात्र लूहै जिन मनरंगसुं रे देवा, सखर सु धूपित वाससुं ॥ वाससूं हांरे देवा वा०, गंध कसायसुं मेलियै ॥ गा० ॥ १ ॥ नंदन चंदन चंद मेलिये, हारे देवा नं० ॥ मांहे मृगमद कुंकम भेलीयै, कर लीयै हांरे दे० क०, रयण पिंगणि कचोलियै ॥ गा० ॥ २ ॥ पग जानु कर खंधै सिरै रे देवा, भाल कंठ उर उदरंत रे ॥ डुख हरै हांरे देवा सुख करै, तिलक नवे अंग कीजीयै ॥ गा० ॥ ३ ॥ दूजी पूजा अनुसरै, श्रावक दूजी पू० ॥ हरि विरचै जिम सुरगिरै, तिम करै हांरे देवा ति० जिण पर जनमन रंजियै ॥ ॥ गा० ॥ ४ ॥ राग ललितमें ॥ दूहा ॥ करहु विलेपन सुखसदन, श्रीजिनचंद शरीर ॥ तिलक नवे अंग पूजतां, लहे भवोदधि तीर ॥ १ ॥ मिटे ताप तसु देहको, परम शसिरता संग ॥ चित्त खेद सम उपसमें, सुखमें समरसीरंग ॥ २ ॥ राग वेलाउल ॥ विलेपन कीजै

जिनवर अंगै, जिनवर अंग सुगंधै ॥ वि० ॥ कुंकुम चंदन मृगमद यक्ष कर्दम, अगर मिश्रित मनरंगै ॥ वि० ॥ १ ॥ क्रम जानु कर खंधै सिर भाल कंठ, उर उदरन्तर संगै ॥ विलुपति अघ मेरो कर त्त विलेपन, तपति वुझित जिम अंगै ॥ वि० ॥ २ ॥ नव अंग नव ३ तिलक करतही, मिलत नवे निध चंगे ॥ कहै साधु तन शुचि करो सुललित पूजा, जैसे गंग तरंगै ॥ वि० ॥ ३ ॥ इति द्वितिय विलेपन पूजा ॥ २ ॥ एसा कह विलेपन कीजे, नव अंग पूजिये ॥

॥ अथ तृतिय वस्त्रयुगल पूजा ॥

॥ अत्यंत नरम वस्त्र केसरका साथिया कर प्रभू आगे ले खडा रहे ॥

॥ दूहा ॥ वसन युगल उज्वल विमल, आरोपे जिन अंग ॥ लाभ ज्ञान दर्शन लहे, पूजा तृतीय प्रसंग ॥ १ ॥ राग गोंडी ॥ कमल कोमल घन चंदन चरचित, सुगंध गंधै अधिवासिया ए, हांरे अइयो० ॥ कनक मंडित हय लाल पल्लव शुचि, वसन युग कंति अधिवासिया ए ॥ हांरे अ०॥ १ ॥ जिनप उत्तम अंगै सुविधि शक्रो यथा, करिय पहरावणी ढोइयै ए ॥ हां० ॥ पापलूहण अंगलूहणो देवनें, वस्त्रयुग पूंज मल धोइयै ए ॥ २ ॥ इति ॥ राग वैराडी ॥ देवदुष्ययुग पूजा वन्यो हे जगतगुरु, देवदुष्य हर अब इतनो मांगुं ॥ तूंही हे सवहि हितु तूंही हे मुगति दाता, तिण नमि २ प्रभुजी के चरणे लागूं ॥ दे० ॥ १ ॥ कहे साधू तीजी पूजा केवल दंसण नाण, देवदुष्य मिस देहु उत्तम वागूं ॥ श्रवण अंजलि पुट सुगुण अमृत पीतां, सब राड दुख संसय घुरम भागूं ॥ दे० ॥ २ ॥ इति तृतिय वस्त्रयुगल पूजा ॥ (एसा कह प्रभुजीकूं वस्त्र चढावे ॥)

॥ अथ चतुर्थी सुगंधचूर्णवासलेपपूजा ॥

॥ गोंडी रागमें दूहा ॥ पूज चतुर्थी इण परै, सुमति वधारण वास ॥ कुमति कुगति दूरे हरै, दहै मोहदल पास ॥ १ ॥ राग सारंग ॥ हां हो रे देवा बावनचंदन घस कुमकुमा, चुरण विधि विरचै

वासु ए ॥ हा हो रे देवा कुसम चूरण चंदन मृगमदा, कंकोलतणो अधिवासू ए ॥ हा० ॥ १ ॥ वास दसोदिसि वासतें, पूजे जिन अंग नवंगू ए ॥ हा० लाभि नवन अधिवासिया, अनुगामिक सरम अन्नं. गू ए ॥ २ ॥ इति ॥ राग पूर्वीगौरी ॥ मेरै प्रन्नुजीकी पूजा आनंदमेले, पू० ॥ वासनवन मोह्यो सबको ए, संपदा नेलै ॥ पू० ॥ ॥ १ ॥ सत्तर प्रकारी पूजा, विजय देवा तत्ताथेइ ॥ अप्रमित्तगुण तोरा, चरण सेवैकि ॥ पू० ॥ २ ॥ कुंकुम चंदन वासे, पूजिये जिन राज तत्ताथेइ, चतुर गति उरक गोरी, चतुर्थी धनकि ॥ ३ ॥ पू० ॥ इति चतुर्थी वासक्षेप पूजा ॥ (एसा कह चूर्णवास चढावे)

॥ अथ पांचमी पुष्पारोहण पूजा ॥ पंचरंगे पुष्प उत्तम ले के खडा रहे ॥

॥ दूहा ॥ मन विकसै तिम विकसता, पुहप अनेक प्रकार ॥ प्रन्नु पूजा ए पंचमी, पंचमि गति दातार ॥ १ ॥ राग कामोद ॥ चंपक केतकी मालती ए, अ० ॥ कुंद किरण मचकुंद ॥ सोवन जाई जूहिका, वनलसिरी अरविंद ॥ १ ॥ जिनवर चरण उवरि धरे ए, अ० ॥ मुकुलित कुशम अनेक ॥ सिवरमणीसें वर वरे, विधि जिन पूज विवेक ॥ २ ॥ वि० ॥ इति ॥ राग कानमो ॥ सोहे री माई व रणें, मन मोहे री माइ वरणें ॥ अहो वरणें, विविध-कुसम जिनच रणै ॥ सो० ॥ विकसी हसीय जंपै साहिबकुं, राख प्रन्नु हम सर णै ॥ सो० ॥ १ ॥ पांचमी पूजा कुशम मुकलितकी, कु० ॥ पंच विपै हां० पं० उःख हरणे ॥ सो० ॥ कहे साधुकीरति नगति नग वंतकी, नविक नरां हांरे न० सुख करणें ॥ सो० ॥ २ ॥ इति ॥

॥ अथ छठी पुष्पमालारोहण पूजा ॥

॥ दूहा ॥ बठो पूजाए बती, महा सुरनि पुष्पमाल ॥ गुण गूंथी आपे गलै, जेम टलै उख जाल ॥ १ ॥ राग रामगिरी गुज री ॥ नाग पुन्नाग मंदार नवमालिका, मालिका सोग पारिध कली

ए ॥ भला पा० ॥ मरुक दमणक वकुल तिलक वासंतिका, लाल गुलाल पाडल भिली ए ॥ भलां पा० ॥ १ ॥ जासु मणि मोगरा वेलला मालती, पंचवरणै गूंथी मालती ए ॥ भलां गुं० ॥ हे माल जिनकंठ पीठै ठवी लहलहै, जाणि संताप सब पालती ए ॥ भलां स०॥२॥ इति॥ राग आसाउरी ॥ देखी दामा कंठ जिन अधिक एधतिनंदै, चकोरकूं देखि देखि जिम चंदै ॥ दे० ॥ १ ॥ पंच विधि वरण रची कुसमांकी, जैसी रयणा हे जै० बलि सुहमंदै ॥ दे० ॥ ॥ २ ॥ छठी रे तोरूरपूजा सब फार धूजै ॥ सब अरियण हारे स० होइ तिम ठंदै ॥ दे० ॥ ३ ॥ कहे साधूकीरत सकल आस्था सुख, भविक भगत हारे भ० जे जिन वंदै ॥ दे० ॥ ४ ॥ इति छठी तोरूर पूजा ॥ ६ ॥ (एसा कह फूलमाला प्रभुकूं पहिरावे ॥)

॥ अथ सातमी अंगीरचन पूजा ॥ पांच रंगे फूल केसरसें अंगी रचै ॥

॥ दूहा ॥ केतकी चंपक केवडा, सोभै तेम सुगात ॥ चाढो जिम चढतां हुवै, सातमीयै सुख सात ॥ १ ॥ राग केदारो गौडी॥ कुंकुम चरचित विविध पंच वरणक कुसमसुं ए, हारे अ० ॥ कुंद गुलावसुं चंपको दमणको जाससुं ए ॥ १ ॥ सातमी पूजामें अंगी अलंकीयै, अंग आलंक मिस माननी मुगति आलिंगियै ए ॥ २ ॥ ॥ इति ॥ राग भैरवी ॥ पंचवरणी अंगी रची कुशम जाती, पं०॥ कुंद मचकुंद गुलाव सिरोमणि, कर करणी सोवन जाती ॥ पं० ॥ ॥ १ ॥ दमणक मरुक पाडल अरविंदो, अंस जुई वेललवाती ॥ पारधि चरण कलार मंदारो, विण पटकूल वनी भांती ॥ पं० ॥ ॥ २ ॥ सुरनर किन्नर रमण गाती, भैरवी कुगति भ्रत तिहाती ॥ पं० ॥ ३ ॥ इति सातमी अंगीरचन पूजा ॥

॥ अथ आठमी गंधवटी पूजा ॥ अगरवत्ती अथवा धूप लेकर खडा रहै ॥

॥ दूहा ॥ अगर सेल्हारस सार, सुमती पूजा आठमी ॥

गंधवटी घनसार, लावे जिन तनु भावसें ॥ १ ॥ राग सोरठ ॥ कुंद किरण शशि ऊजलो जी देवा, पावन घस घनसारो जी ॥ सुरभि सिखर मृग नाभिनो जी देवा, चुन्नरोहण अधिकारो जी ॥ ॥ १ ॥ वस्तु सुगंध जब मोरीयो जी देवा, अशुभ करम चूरीजै जी ॥ अंगण सुरतरु मोरीयो जी देवा, तब कुमतीजन खीजै जी ॥ तब सुमतीजन रीझै जी ॥ २ ॥ राग सामेरी ॥ पूजो री माई जिनवर अंग सुगंधे, जि० पू० ॥ गंधवटी घनसार ऊदारै, गोत्र तीर्थंकर वांधइ ॥ भलाइ गो० पू० ॥ १ ॥ आठमी पूजा अगर से-ल्हारस, लावै जिन तनु रागै ॥ धार कपूर भाव घन वरषत, सामेरी मति जागै ॥ भलां सा० पू० ॥ २ ॥ इति ॥

॥ अथ नवमी ध्वज पूजा ॥

॥ दूहा ॥ मोहन ध्वज धर मस्तकै, सूहव गीत समूल ॥ दीजै तीन प्रदक्षिणा, परसिद्ध नवमी पूज ॥ १ ॥ राग मेघगौडी ॥ वस्तु ॥ सहसजोयण१, हेममय दंड ॥ युतपताक पंचे वरण, घुमघुमत घुग्घरीय वाजै ॥ मृडु समीर लहकै गयण, ल० ॥ जाण कुमतिद ल सयल भाजै ॥ सुरपति जिम विरचै धजा ए, हां ए वि० ॥ न वमी पूज सुरंग ॥ न० ॥ तिण पर श्रावक धज वहन, ति० ॥ आपै दान अभंग ॥ आ० ॥ १ ॥ राग नट्टनारायण ॥ जिनराज को ध्वज मोहन, ध्वज मोहना रे ध्वज मोहना ॥ जि० ॥ मोहन सुगुरु अधिवासीयो, कर पंच सबद त्रि प्रदक्षणा, क० ॥ सधववधू सिर सोहना ॥ २ ॥ जि० ॥ भांति वसन पंचवरण बन्यो री, विधि कर ध्वजको रोहणा ॥ साधू भणत नवमी पूजा नव, पाप नियाणा खोहणा ॥ जि० ॥ २ ॥ इति नवमी पूजा ॥

(॥ ए कही ध्वजा चढाईजे ॥ पहली वाजित्र वाजतां सधवस्त्री चांदीके थालमें धरकर गीत ग्यान संयुक्त तीन प्रदक्षणा देकर प्रभु सन्मुख गुंहली कर धजा पर गुरु पास वासक्षेप करा के प्रभु सन्मुख ध्वजा विस्तारै ॥)

॥ अथ दसमी आभरण पूजा ॥

(एक रुपया अथवा मुगटादिक आभरण ले के खडा रहे ॥)

॥ दूहा राग केदारेमे ॥ दसमो पूजा आभरण, रचना यथा अनेक ॥ सुरपति जिम अंगे रचे, तिम श्रावक सुविवेक ॥ १ ॥ सिर सोहे जिनवरतणे, रयण मुगट झलकंत ॥ तिलक भाल अंगद भुजा, श्रवण कुंडल अति भंति ॥ २ ॥ राग अथभास गुंडमल्हार ॥ आसावरी ॥ पाच पीरोजा नीलू लसणिया, मोती माणेक लाल रसणिया, हीरा सोहे रे ॥ धूनी चनी मुल कर केतना, जातिरूप सुभग अंक अंजना, मनमोहे रे ॥ १ ॥ मौलि मुगट रयणे जड्यो, काने कुंडल हारे अति जुगते जुड्यो उर हारू रे, मन वारू रे ॥ भाल तिलक बाहे अंगदा, आभरण दशमी पूजा मुदा सुखकारू रे, दुखहारू रे ॥ २ ॥ राग केदारो ॥ प्रभु सिर सोहे मुगट मणि रयण जड्यो, रय० ॥ अंगद बाहु तिलक भालस्थल, यहुनीको कवण घड्यो ॥ ॥ प्र० ॥ १ ॥ श्रवण कुंडल शशि तरुण मंडल जीपे, सुरतरुसें अलंकर्यो ॥ दुखकेदार चमर सिंहासन, छत्र सिर उवरि धर्यो, अलंकृत उचित वर्यो ॥ प्र० ॥ २ ॥ इति ॥ रोक द्रव्याभरणादि चढावे ॥

॥ अथ इग्यारमी फूलघर पूजा ॥

॥ दूहा ॥ फूलघरो अति सोभतो, फूंदे लहके फूल ॥ महके परिमल फल महा, इग्यारमो पूज अमूल ॥ १ ॥ राग रामगिरी ॥ कोज अंकोल राय वेलि नवमालिका, कुंद मचकुंद वर विच कलू ए ॥ अईयो० तिलक दमणकदलं मोगरा परिमलं, कोमला पारिध पाडलू ए ॥ हां० अ० ॥ प्रमुख कुसमे रचै त्रिभुवनकूं रुचै, कुश मगेहे विच तोरणूं ए ॥ हारे अ० ॥ गुच्छ चंद्रोदयं झूवकाभ्रमयं, जालिका गोख चित्तचोरणुं ए ॥ अ० ॥ २ ॥ राग रामगिरो ॥ मेरो मन मोह्यो माई री फूलघर आणंद छिजे, फू० ॥ असत उसत दांम बघरी मनोहर, देखत तबही सब दुरित खिजै ॥ फू० ॥ १ ॥

कुसम मंरूप अंग्न गुह्व चंडोदय, कोरणी चारु विनाण सकै ॥ इग्या रमी पूजा वणी हे रामगिरी, विवुध विमान जैसें, तिपुरि ज्ञजे ॥ ॥ २ ॥ फू० मे० ॥ इति इग्यारमी फूलघर पूजा ॥ (फूलघर चढाईजै ॥)

॥ अथ बारमी पुष्पवर्षा पूजा ॥ पंचरंगे फूल अथवा गुलाबजल लेके खडा रहे ॥

॥ दूहा ॥ वरषै बारमी पूजमें, कुसम वादलिया फूल ॥ हर ण ताप डुख लोकको, जानु समा बहुमूल ॥ १ ॥ राग भीम मल्हार करूखेकी जाति ॥ मेघ वरसै भरी पुष्प वादल करी, जानु परिमाण कर कुसम पगरं ॥ पंचवरणें वण्यो विकच अनुक्रम चिण्यो, अधोवृंते नही पीरू पसरं ॥ मे० ॥ १ ॥ वास महके मिलै भ्रमर भ्रमरी भिलै, सरस रसरंग तिण डुख निवारी ॥ जिणप आगे करै सुरप जिम सुख वरै, बारमी पूज तिण पर अगारी ॥ मे० ॥ २ ॥ राग भीममल्हार ॥ पुष्फ वादलीया वरसै सुसमां, अहो० ॥ योजन अशुचि हर वरस गंधोदक, मनुहर जान समां ॥ पु० ॥ १ ॥ गमन आगमनकी पीर नही तसु, इह जिनको अतिसय सुगुणें ॥ गुंजत२ मधुकर इम पभणै, गुं० ॥ मधुर वचन जिनगुण शुणइ ॥ पु० ॥ २ ॥ कुसमसुपरि सेवा जो करइ, तसु पीरू नही सुमणें. पु० ॥ समवसरण पंच वरण अधोवृंत, विवुध रचै सुमना सुसमा ॥ पु० ॥ ॥ ३ ॥ बारमी पूज भविक तिम करै, कुसम विकस हस उचरै ॥ तसु भीमबंधन अधरा हुवै, जे कराहिंजे जिन नमें ॥ पु० ॥ ४ ॥ इति बारमी पुष्फवृष्टि पूजा ॥

॥ अथ तेरमी अष्टमंगलीक पूजा ॥ रुपया चावल लेके खडा रहे ॥

॥ दूहा ॥ तेरमी पूजा अवसरै, मंगल अष्ट विधान ॥ युवति रचैं सुमतै सही, परमानंद निधान ॥ १ ॥ राग वसंत ॥ अतुल विमल मिल्या, अखंरू गुणै भिल्या, साल रजततणा तंडुला ए ॥ श्लषण समाजक विध पंच वरणक, चंद्रकिरण जैसा ऊजला ए ॥ १ ॥ अ० ॥ मेल मंगल लिखै सयल मंगल अखै, जिनप आगे सुथानक

धैर ए ॥ तेरमी पूजा विधि तेरमी मन मेरे, अष्टमंगल अष्टसिद्ध करे ए ॥ अ० ॥ २ ॥ राग कल्याण ॥ हां हो पूजा वणी ते रसमें, रसमें ३ हा हो तें० ॥ दर्पण भद्रासन नंद्यावर्त्त पुर्णकुंभ, मच्छयुग श्रीवच्छ तसुमें ॥ वर्द्धमान स्वस्तिक पूज मंगलकी, आनंद कल्याण सुखरसमें ॥ १ ॥ पू० ॥ इति तेरमी पूजा ॥

॥ अथ चवदमी धूप पूजा धूप लेके खडा रहे ॥

॥ दूहा ॥ गंधवटी मृगमद अगर, सेल्हारस घनसार ॥ कर प्रभु आगल धूपणा, चवदमी अरचा चार ॥ १ ॥ राग वेलाउल ॥ कृष्णागर कपूर चूर, सोगंध पंचेपूर ॥ कुंदरुक्क सेल्हारस सार, गंध वटी घनसार ॥ १ ॥ गंधवटी घनसार चंदन, मृगमदारस भेलियै, श्रीवास धूप दसांग अंबर, सुरभि बहु द्रव्य मेलियै ॥ वेरलिय दंड कनक मंडित धूपधाणो कर धरै, भवबृत्ति धूप करंति भोगं रोग साग अशुभ हरै ॥ २ ॥ राग मालवी गोडी ॥ सब अरति मथन मुदार धूपं, करति गंध रसाल रे, देवाक० ॥ धामधूमावलिय धूसर, कलुष पातक गाल रे, देवा क० ॥ १ ॥ उर्ध्वगत सूचंत भविकुं, म धंमधे करनाल रे ॥ चवदमी वामांग पूजा, दीयै रयण विसाल रे ॥ आरती मंगल माल रे, मालवीगोडी ताल रे ॥ स० ॥ २ ॥ इति चवदमी धूप पूजा ॥ (एसा पढके धूप खेवे ॥

॥ अथ पनरमी गीतज्ञान पूजा ॥

॥ दूहा ॥ कंठ भलै आलापकर, गावो जिनगुन गीत ॥ भावो अथकी भावना, पनरमी पूजा प्रीत ॥ १ ॥ श्रीरागमें आर्या ॥ यद्वदनंत केवलमनंत, फलमस्ति जैनगुण गानं ॥ गुण वर्ण तान वाद्यै, मात्रा भाषालयैर्युक्तं ॥ १ ॥ सप्त स्वर संगीतैः, स्थानैर्जयतादि ताल करणैश्च, चंचुर चारोचारी गीतं गानं सुधीयूपं ॥ २ ॥ राग श्रीराग ॥ जिनगुण गान श्रुत अमृतं, तार मंद्रादि अ नाहत तानं, केवल जिम तिम फल अमृतं ॥ जि० ॥ १ ॥ विबुध

कुमार कुमरी आलापै, मुरज उपंग नाद जनितं ॥ जि० ॥ पाठ प्र बंध धूयो प्रतिमानं, आयति बंद सुरति सुमतं ॥ जि० ॥ २ ॥ सबद समान रुच्यो त्रिभुवनकुं, सुरनर गावे जिन चरितं ॥ सप्त स्वर मान शिव श्रीगीतं, पनरमी पूज हरे दुरितं रे ॥ जि० ॥ ३ ॥ इति पू ॥

॥ अथ सोलमी नाटिक पूजा ॥ (कुमार कुमरी नाटिक करै ॥)

॥ दूहा ॥ करजोड़ी नाटिक करै, सझ सुंदर सिणगार ॥ भवनाटिक ते नहि भमै, सोलमी पूजा सार ॥ १ ॥ राग शुद्धनट्ट काव्यं ॥ भावादिप्पवणा सुचारु चरणा संपुन्न चंदानना, सपिम्मा सम रूव वेस वयसो मत्तेभ कुंभत्थणा ॥ लावण्ण सगुणा पिकस्स रवई रागाईआ लावणा, कुम्मारी कुमरावी जैन पुरउ नच्चंति सिं गारणा ॥ १ ॥ गद्यं ॥ तएणंते अट्ठसयं कुमारिकुमरीउ सूरियाभे णंदेवेणं संदिट्ठा रंगमंडवेपविट्ठा जिणनमंता गायंता वायंता नच्चंतित्ति ॥२॥ राग नट्ट त्रिगुण ॥ नाचंती कुमार कुमरी, डागड़दि तत्ताथेइ ॥अ० ॥ डागड़दि२क थौंगिश्न, मुखेतत्ताथेईय ॥ अ० ॥ ना० ॥ वे णु वीणा मुरज बाजे, सोलही सिणगार साजै ॥ तनन्ननन्नेईय ॥ अईयो० ॥ झणण झणण घणणणा घुग्घरु घमके, रणणणणणेईय ॥ ॥ अइयो० ॥ २ ॥ ना० ॥ कसंती कंचुकि तरुणी, मंजरी झंकार क रणी ॥ सोभंती कुमरीय ॥ अइयो० हस्तकं हावादि भावे, ददन्ती भमरीय ॥ अ० ॥ ना० ॥ ३ ॥ सोलमो नाटिकतणी, सूरीयाभे रावन्न कीनी ॥ सुगंध तत्तेईय ॥ अ० ॥ जिनप भगतें भविक लीणा, आणंद तत्तत्थेईय ॥ अ० ॥ ना० ॥४॥ इति सोलमी पूजा ॥

॥ अथ सतरमी वाजित्र पूजा ॥

॥ दूहा ॥ ततघन सुखिरै आनधे, वाजित्र चौविध वाय ॥ भगत भली भगवंतनी, सतरमियै सुखदाय ॥ १ ॥ गाहा ॥ सुर मद्दल कंसालो, मद्दुयर मद्दल सुवज्जए पणवो ॥ सुरनारि नंद तूरं, पब्भणइ तूं नंद जिणनाद ॥ २ ॥ राग मधुमाधवी ॥ तूं नन्दिआ

न्द बोलत नंदी, चरणकमल जसु जगत्रय वंदी॥ तूं०॥ ज्ञान निर्म ल बावन सुरंगी, तिबल बोलै रंग अतहि आन्दी ॥ तूं० ॥ १ ॥ भेरी गयण वाजंती कुमति लाजंती, सेवै जैन जैणावंती ॥ जैन शासन जयवंत नंदंती, उदयलिंघ प.रपरिय वदंती ॥ तूं० ॥ २ ॥ सेव भविक मधुमाधव फेरी, भवनी फेरी नप्पभलंती ॥ कहे साधु सतरमी पूज वाजित्र सब, मंगल मधुर धुनि कर कहंती ॥ तूं० ॥ ३ ॥ इति सतरमी पूजा ॥

॥ अथ कलश पूजा ॥ राग धन्यासिरी ॥

॥ भवि तूं भण गुण जिनके सब दिन, तेज तरण मुखराजै ॥ ते० ॥ कवित शतक आठ थुणत शक्रस्तव, शुय रंग हम गाजे ॥ भवि० ॥ १ ॥ अणहलपुर शांति शिवसुख दाइ, नवनिधि सिद्ध आवाजे ॥ सतर सुपूज सुविध श्रावककी, भणी मैं भगति हित काजे ॥ भवि० ॥ २ ॥ श्रीजिनचंद्र सूरि खरतर पति, धरम वचन तसु राजे ॥ संवत सोल अढार श्रावण धुर, पंचमि दिवस समाजे ॥ भ० ॥ ३ ॥ दयाकलश गुरु अमर माणिक्यवर, तासु पसायैं सुविध हुय गाजे, कहै साधुकीरत करत जिन संस्तव, सब लीला सुख साजे ॥ भ० ॥ ४ ॥ इति सतर भेदी पूजा संपूर्ण ॥

॥ अथ आरती करण विधि तथा आरती ॥

॥ पूजा भये पीछे वस्त्र पहरकर उत्तरासण करके तिलक करके रकेबीमें स्वस्तिक चावल सुपारी धरकर दक्षिणावर्त्तसें आरती करे ॥

॥ अथ आरती लि० ॥ जै जै आरति शांति तुमारी, तोरा चरणकमलकी मैं जाउं बलिहारी॥ जै जै० ॥१॥ विश्वसेन अचिराजीकेनंदा, शांतिनाथ मुख पूनमचंदा ॥ जै० ॥ २ ॥ चालीस धनुष सोवनमें काया, मृग लंछन प्रभु चरण सुहाया ॥ जै० ॥ ३ ॥ चक्रवर्त्ति प्रभु पंचम सोहे, सोलम जिनवर जग सहु मोहे ॥ जै० ॥ ४ ॥ मंगल आरती भोरहिं कीजै, जन्म२ को लाहो लीजै ॥

जै० ॥ ५ ॥ करजोडी सेवक गुण गावै, सो नर नारी अमरपद पावै ॥ जै० ॥ ६ ॥ इति श्रीआरती संपूर्ण ॥

॥ अथ नवपदकी पूजामें जो अवस्य चीज चहिये उसकी याददास्ती ॥

॥ पंचामृत दूध दही घृत मिश्री जल केसर चंदन कपूर कस्तूरी कुंकुं मोली छूटेफूल फूलोकीमाला फूलोकाचंद्रुवा धूप चावल गहूं चणोकीदाल मूंग उडद नव प्रकारका नैवद्य नवतरेका फल नव प्रकारकी पक्वान्न खजली मिश्री पतासा ओला वगैरे अंगलूहणो के वास्ते स्वेतवस्त्र वासक्षेप गुलावजल अत्तर नारेल इग्यारे नवनालीकेकलस ॥ ९ रकेवी तसला आरसी मंगलदीपक घी अंगीसमोसरण थाप नामें रोकनाणा रु१) ज्ञानपूजा नारेल समेत ॥ विशेष विधि गुरुमुखसें जाणनी ॥

॥ अथ सिद्धचक्रजीकी वडी पूजा लिख्यते ॥

॥ अथ प्रथम अरिहंतपद पूजा ॥

॥ दूहा ॥ परम मंत्र प्रणमी करो, तास धरी उर ध्यांन ॥ अरिहंतपद पूजा करो, निज२ शक्ति प्रमांण ॥१॥ काव्य ॥ उप्पन्न सन्नाण महोमयाणं, सप्पाडि हेरा सणसंठियाणं ॥ सद्देसणाणं दिय सज्जणाणं, नमो२ होउ सया जिणाणं ॥ १ ॥ नमोनंत संत प्रमोद प्रदानं, प्रधानाय भव्यात्मने भास्वताय ॥ थया जेहना ध्यांनथी सौख्यभाजा, सदा सिद्धचक्राय श्रीपालराजा ॥ २ ॥ कस्या कर्म दुम्मर्म चकचूर जेणें, भला भव्य नवपद ध्यानेन तेणें ॥ करी पूजना भव्य भावे त्रिकाले, सदा वासियो आतमा तेण कालै ॥ ३ ॥ जिके तीर्थंकर कर्म उदये करीनै, दिये देसना भव्य ने हित धरीनै ॥ सदा आठ महापाडिहारे समेता, सुरेसै नरेसै स्तव्या ब्रह्मपूता ॥ ४ ॥ कस्या घातिया कर्म च्यारे अलग्गा, भवोपग्रही च्यार छै जे विलग्गा ॥ जगत्पंचकल्याणके सुख पांमै, नमो तेह तीर्थंकरा मोक्षकामै ॥ ५ ॥ ढाल ॥ तीरथपति अरिहा नमुं, धरम धुरंधर धीरो जी ॥ देसना अमृत वरसता, निज वीरज वड वीरो जी ॥ ती० ॥ उल्लालो ॥ वर अखय निर्मल ज्ञान भासन सर्व भाव प्रकासता, निज शुद्ध श्रद्धा आतम भावे चरण थिरता वास

ता ॥ जिन नामकर्म प्रभाव अतिसय प्रातिहारज सोभता, जगजंतु करुणावंत भगवंत भविकजनने थोभता ॥ ६ ॥ ढाल ॥ श्री सीमंधर साहिब आगे ॥ ए देसी ॥ तीजे भव वर थानक तप कर, जिन बांध्युं जिननाम ॥ चउसठ इंद्रे पूजित जे जिन, कीजे तास प्रणाम रे भविका सिद्धचक्र पद वंदो रे ॥ भ० ॥ जिम चिरकाले नंदो रे ॥ भ० ॥ उपशमरसनो कंदो रे ॥ भ० ॥ रत्नत्रयीनो वृंदो रे ॥ भ० ॥ सेवे सुरनर इंदो रे ॥ भ० सि० ॥ ७ ॥ ए आंकणी ॥ जेहने होय कल्याणक दिवसे, नरके पिण उजवालूं ॥ सकल अधिक गुण अतिशयधारी, ते जिन नमि अघ टालूं रे ॥ भ० ॥ सि० ॥ ८ ॥ जे तिहुं नाण समग्ग ऊपन्ना, भोग करम खिण जांणी ॥ लेइ दीक्षा सिक्षा दिये जगने, ते नमिये जिन नाणी रे ॥ भ० ॥ सि० ॥ ९ ॥ महागोप महामाहण कहिये, निर्यामिक सत्थवाह ॥ उपमा एहवी जेहने छाजे, ते जिन नमिये उछाह रे ॥ भ० ॥ सि० ॥ १० ॥ आठ प्रातीहारज जसु छाजे, पैंत्रीस गुणयुत वाणी ॥ जे प्रतिबोध करे जगजनने, ते जिन नमियें उछाह रे ॥ भ० ॥ सि० ॥ ११ ॥ ढाल ॥ अरिहंतपद ध्यातो थको, दवह गुण पर्याये रे ॥ भेद छेद करी आतमा, अरिहंतरूपी थाये रे ॥ १२ ॥ वीर जिणेसर उपदिसे, सांभलज्यो चित लाई रे ॥ आतम ध्याने आतमा, ऋद्धि मिले सब आई रे ॥ वी० ॥ १३ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं परमात्मने, अनंतानंत ज्ञान शक्तये ॥ जन्म जरा मृत्यु निवारणाय, श्रीमत्सिद्धचक्राय अष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ इति प्रथम अरिहंतपद पूजा ॥

॥ अथ द्वितीय श्रीसिद्धपद पूजा ॥

॥ दूहा ॥ दूजी पूजा सिद्धकी, कीजे दिल खुसियाल ॥ अशुभ करम दूरे टले, फले मनोरथ माल ॥ १ ॥ काव्य ॥ सिद्धाणमाणंद रमालयाणं, नमोऽणंत चउक्कयाणं ॥ सम्मग्ग कम्मक्खयका

रगाणं, जम्मंजरा दुक्ख निवारगाणं ॥ १४ ॥ करी आठ कर्म खय पार पाम्या, जरा जन्म मरणादि भय जेण वाम्या ॥ निरावरण जे आत्मरूपें प्रसिद्ध, थया पार पामी सदा सिद्धबुद्ध॥ १५ ॥ त्रि भागोनदेहावगाहात्मदेसा, रह्याज्ञानमयजातिवर्णादिलेसा॥सदानंत सौख्याश्रिताज्योतिरूपा, अनाबाधअपुनर्भवादिस्वरूपा ॥ १६ ॥ ॥ चाल ॥ सकल कर्ममल क्षय करी, पूरण शुद्ध स्वरूपो जी ॥ अ व्याबाध प्रभुतामई, आतम संपत भूपो जी ॥ उल्लालो ॥ जे भूप आतम सहज संपति, शक्ति व्यक्तिपणें करी ॥ स्वद्रव्यक्षेत्र स्वका लभावै, गुण अनंता आदरी ॥ स्वस्वभाव गुणपर्याय परणति, सि द्धसाधन परभणी, मुनिराज मानसहंस समवड़, नमो सिद्ध महा गुणी ॥ १७ ॥ ढाल ॥ समयपएसंतर अणफरसी, चरम तिभाग विसेस ॥ अवगाहन लही जे शिव पुहता, सिद्ध नमो ते असेस रे ॥ १८ ॥ भ० ॥ पूरब प्रयोगने गति परणामे, बंधन छेद असंग ॥ समय एक ऊरधगति जेहनी, ते सिद्ध प्रणमो रंग रे ॥ भ० ॥ ॥ १९ ॥ सि० ॥ निरमल सिद्धसिलाने ऊपर, जोयण एक लो कंत ॥ सादि अनंत तिहां थिति जेहनी, ते सिद्ध प्रणमो संत रे ॥ ॥२०॥भ०॥सि०॥ जाणे पिण न सके कही पुर गुण, प्राकृत तिम गुण जास ॥ उपमा विण नांणी भवमांहे, ते सिद्ध दिउ उल्लास रे ॥ भ० ॥ २० ॥ सि० ॥ ज्योतिसुं ज्योति मिली जसु अनुपम, विरमी सकल उपाधि ॥ आतमराम रमापति समरो, ते सिद्ध स हज समाधि रे ॥ भ० ॥२१ ॥ सि० ॥ ढाल ॥ रूपातीत स्वभाव जे, केवलदंसणनाणी रे ॥ ते ध्याता निज आतमा, होय सिद्ध गु ण खाणी रे ॥ वी० ॥ २२ ॥ ॐ॥ ह्रीँ० इति श्रीसिद्धपद पूजा ॥

॥ अथ तृतिय आचार्यपद पूजा ॥

॥ दूहा ॥ हिव आचारज पदतणी, पूजा करो विशेष ॥ मो

हतिमर दूरै हरै, सूझै भाव अलेष ॥ १ ॥ काव्य॥ सूरीणदूरीकय कुग्गहाणं, नमोऽरसूरिसमप्पहाणं ॥ सद्देसणा दाणसमायराणं, अ खंडछत्तीसगुणायराणं ॥ नमूं सूरिराजा सदा तत्वताजा, जिनेंद्राग में प्रौढ साम्राज्यभाजा॥षट्वर्गवर्गित गुणै शोभमाना,पंचाचारनें पालवे सावधाना॥२॥ भविप्राणिनें देशना देशकालै,सदाअप्रमत्ता यथा सूत्र आलै ॥ जिके सासनाधार दिग्दंतकल्पा, जगत्ते चिरंजीवज्यो शुद्धजल्पा ॥ ३ ॥ ढाल ॥ आचारज मुनिपति गणी, गुणछत्तीसे धामो जी ॥ चिदानंदरसस्वादता, परभावे निक्कामो जी भ्रलालो ॥ निक्काम निरमल शुद्ध चिदघन, साध्य निज निरधारथी ॥ वर ज्ञान दरसन चरण वीरज, साधना व्यापारथी ॥ भविजीवबोधक तत्वसोधक, सयलगुण संपतिधरा ॥ संवर समाधी गत ऊपाधी, दु विधत पगुण आदरा ॥ २५ ॥ ढाल ॥ पांच आचार जे सूधा पालै, मारग भाखे साचौ ॥ ते आचारज नमिये तेहसुं, प्रेम करीने याचो रे ॥ भ०॥ २६ ॥ सि०॥ वर छत्तीसगुणैंकरि सोभै, युगप्रधान जगबोहै ॥ जगमोहै न रहे खिण कोहे, सूरि नमूं ते जोहे रे ॥ भ० ॥ २७ ॥ सि० ॥ नित अप्रमत्त धरम उवएसे, नहि विकथा न कषाय ॥ जेहने ते आचारज नमियै, अकलुस अमल अमाय रे ॥ भ० ॥ २८ ॥ सि० ॥ जे दिये सारण वारण चोयण, पडिचोयण वलि जनने ॥ पटधारी गच्छथंभ आचारज, ते मान्या मुनिमनने रे ॥ भ० ॥ २९ ॥ सि०॥ अत्थमिये जिन सूरज केवल, वंदीजे जगदीवो ॥ भुवन पदारथ प्रगटनपटुते, आचारज चिरंजीवो रे ॥भ० ॥ ३० ॥ सि० ॥ ढाल ॥ ध्याता आचारज भला, महामंत्र शुभ ध्यानी रे ॥ पंचप्रस्थाने आतमा, आचारज हुय प्राणी रे ॥ वी० ॥ ३१ ॥ ॐ ह्रीं आचार्यपदे अष्ट द्रव्यं यजामहे स्वाहा ३

॥ अथ चोथी पाठकपद पूजा ॥

॥ दूहा ॥ गुण अनेक जग जेहना, सुंदर शोभित गात्र ॥

उवज्झायापद अरचियै, अनुभवरसनो पात्र ॥ १ ॥ काव्य ॥ सुत्तत्थ
वित्थारणतप्पराणं, नमो२वायगकुंजराणं ॥ गणस्ससंधारणसंगहे समु
णं, सवप्पणावज्जियमच्छराणं ॥ १ ॥ नहीं सूरि पिण सूरिगुणनेथ्या,
हाया, नमूं वाचकात्यक्त मदमोहमाया ॥ वलि द्वादशांगादि र, कहि
नें, जिके सावधानें निरुद्धाभिधानें ॥ २ ॥ धरे पंचनेवर्गचरित्रंवि
णोधा, प्रवादिद्विपोच्छेदनेतुल्यसिंघा ॥ गुणीगच्छसंधारणेआपरूपैस
उपाध्यायतेवंदियेचित्प्रभूता ॥ ३ ॥ ढाल ॥ खंतिजुअ प्रतीत सरू
अज्जव मद्दवजुत्ताजी॥ सच्चंसोयंअकिंचणा, तवसंयमरजी॥ चाल ॥
उल्लालो ॥ जे रम्या ब्रह्मसुगुत्तगुत्ता, सुमति सुमता श्रुत्ता भाव प्रग
द्वादवादई तत्वसाधक, आत्मपरविभंजनकरा ॥ भव व सुखकारण
रसासन, वहनधोरीमुनिवरा ॥ सिद्धांतवायनदांनसम २॥ढाल॥शुद्ध
कपदधरा ॥ ३३ ॥ ढाल ॥ द्वादशअंगसिझाय,मीजै तेह नमीजै,
तास ॥ सूत्र अर्थ विस्तार रसिक ते, नमो॥ मल उपशम कथ उ
भ० ॥३४॥ सि० ॥ अर्थसूत्रने दांनवि सम्यग्दर्शन तेह नमीजै,
भवत्रिणहै जे लहै शिवसंपद, नमियैते॥ सि० ॥ पांच वार उपश
॥ मुरखशिष्यनीपायेजेप्रभु, पाहण एक वार कायक ते सम्यक्,
कलजन पूजित, सूत्रअर्थ सविज्ञा ५५ ॥ सि० ॥ जे विण नांण प्र
जकुअर सरिखा गणचिंतक, अवि फलियो ॥ सुख निरवांण न जे
नमतां, नावै भवभय सोगन वलिउ रे ॥ भ० ॥ ५६ ॥ सि० ॥
नरस समवयणो, अहितत्थो, ज्ञांन चारित्रनुं मूल ॥ समकितदर्श
वलि, जिनशासन शेवपंथनुं अनुकूल रे ॥ भ० ॥ ५७ ॥ सि० ॥
तपसिझायै रत खमादिक गुण, खयउपसम जे आवै रे ॥ दर्शन ते
आतमा, जगबंस्युं होय नाम धरावै रे ॥ वी० ॥ ५८ ॥ ॐ ह्रीं
उकपदे अष्ट अष्ट द्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ ६ ॥

॥ अथ ७ मी ज्ञानपद पूजा ॥

॥ दूहा ॥ सप्तम पद श्रीज्ञाननो, सिद्धचक्र तपमांह ॥ आ

हतिमर मुनिपदं वंदता, निरमल थावे देह ॥१॥ काव्य ॥ साहूणं सं
कुग्गहाण संजमाणं, नमोश्शुद्धदयादमाणं ॥ तिगुत्तगुत्ताणसमाहियाणं,
स्कंरूवत्तोर गमाणंदपयठिआणं ॥ करेसेवनासूरिवायगगणीनी, करूंवर्णन
में प्रौढ सा नीमुणीनी ॥ समेतासदापंचसमतेत्रिगुत्ता, त्रिगुप्तेनहीकाम
लवेसावधान त्ता ॥ ४१ ॥ वलीबाह्यअभ्यंतरैग्रंथटाली, हुईमुक्तिनेयो
सूत्र आलै ॥ ली शुभ्नष्टांगयोगैरमैचित्तवाली, नमुं साधुने तेह निज पा
शुद्धजल्पा ॥ ॥ ४२ ॥ ढाल ॥ सकल विपयविष वारिनें, निक्का
धामो जी ॥ चि जी ॥ भवदव ताप समावता, आतम साधन रंगी
॥ निक्काम निरर जे रम्या शुद्ध स्वरूप रमणें देह निर्मम निर्मदा,
ज्ञान दरसंन चर धीर आसन ध्यांन अभ्यासी सदा ॥ तप तैज दीपै
तत्वसोधक, सय दीपै परभ्नणी ॥ मुनिराज करुणा सिंधु त्रिभुवन प्र
विग्रत पगुण आदरा ॥ ४३॥ ढाल ॥ जिम तरुफूलै भमरो वेसे, पीडा
मारग भाखै साचौ ॥ ते भ्रम आतम संतोपे, तिम मुनि गोचरी जाय
चो रे ॥ भ०॥ २६ ॥ सि०॥ पांचइंद्रीनें जे नित जीपे, षट्काया बंधु
जगमोहे ॥ जगमोहे न रहे खि र आराधै, वंदू दीनदयाल रे ॥ भ०॥
भ० ॥ २७ ॥ सि० ॥ नित अप्र सीलंगना धोरी, अचल आचार च
न कषाय ॥ जेहने ते आचारज नमि कीजे जनम पवित्र रे ॥ भ०
॥ भ० ॥ २८ ॥ सि० ॥ जे दिये सा पाले, बारे विध तपसूरा ॥ ए
यण वलि जनने ॥ पटधारी गच्छथंभ आ अंकूरा रे ॥ भ० ॥४७॥
नने रे ॥ भ० ॥ २९ ॥ सि०॥ अत्थमिथे २ चढते वानै ॥ संजम
जे जगदीवो ॥ भुवन पदारथ प्रगटनपटुते, ओ॥ भ० ॥४८॥ सि०
रे ॥भ० ॥ ३० ॥ सि० ॥ ढाल ॥ ध्याता आचारजैचै रे ॥ साधु सु
त्र शुभ्न ध्यानी रे ॥ पंचप्रस्थाने आतमा, आचारज ४९ ॥ ॐ ह्रीं०
॥ वी० ॥ ३१ ॥ ॐ ह्रीं आचार्यपदे अष्ट द्रव्यं यजामहे

॥ अथ चोथी पाठकपद पूजा ॥

॥ दूहा ॥ गुण अनेक जग जेहना, सुंदर शोभित्ती परतीत ॥

ते सम्यग्दर्शन सदा, आदरियै शुभ रीत ॥ १ ॥ काव्य ॥ जिणु त्ततत्तेरुइलरकणस्स, नमो२ निम्मलदंसणस्स ॥ मिछत्तनासाइसमु ग्गमस्स, मूलस्ससधम्ममहादुमस्स ॥ विपर्यासहोवासनारूपमिथ्या, टलेजेअनादीअछेजेकुपथ्या ॥ जिनोक्तेहुइसहजथीशुद्धध्यानं, कहि येदर्शनंतेहपरमंनिधानं॥५०॥विनाजेहथीज्ञानमज्ञानरूपं, चरित्रंवि चित्रंभवारण्यकूपं॥प्रकृतिसातनेउपसमेक्षयतेहहोवे, तिहांआपरूपेस दाआपजोवे॥५१॥ढाल॥सम्यग् दरसण गुण नमो, तत्व प्रतीत सरू पी जी॥जसु निरधार स्वभाव छे, चेतन गुण जे अरूपी जी॥ चाल ॥ जे अनूप श्रद्धा धर्म प्रगटे सयल पर ईहा टले, निज शुद्ध सत्ता भाव प्रग टे अनुभव करुणा उछले॥बहुमांन परणित वस्तु तत्वे अहव सुखकारण पणे, निज साध्य दृष्टे सरब करणी तत्वता संपति गिणे॥५२॥ढाल॥शुद्ध देव गुरु धर्म परीक्षा, सद्दहणा परिणाम॥जेह पामीजै तेह नमीजै, सम्यग्दर्शन नांम रे॥ भ० ॥ ५३ ॥ सि०॥ मल उपशम क्षय उ पशम जेहथी, जे होइ त्रिविध अभंग ॥ सम्यग्दर्शन तेह नमीजे, जिनधरमे दृढ रंग रे ॥ भ० ॥ ५४ ॥ सि० ॥ पांच वार उपश म लहीजै, क्षयउपसमीय असंख ॥ एक वार क्षायक ते सम्यक्, दर्शन नमीइं असंख रे ॥ भ० ॥ ५५ ॥ सि० ॥ जे विण नांण प्र माण न होवे, चारित्रतरु नवि फलियो ॥ सुख निरवांण न जे णे लहिये, समकित दरसन बलियो रे ॥ भ० ॥ ५६ ॥ सि० ॥ सड़सठ बोले जे अलंकरियो, ज्ञांन चारित्रनुं मूल ॥ समकितदर्श न ते नित प्रणमूं, शिवपंथनुं अनुकूल रे ॥ भ० ॥ ५७ ॥ सि० ॥ ढाल ॥ समसंवेगादिक गुण, खयउपसम जे आवै रे ॥ दर्शन ते ज आतमा, स्युं होय नाम धरावे रे ॥ वी० ॥ ५८ ॥ ॐ ह्रीं दर्शनपदे अष्ट द्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ ६ ॥

॥ अथ ७ मी ज्ञानपद पूजा ॥

दूहा ॥ सप्तम पद श्रीज्ञाननो, सिद्धचक्र तपमांह ॥ आ

रावीजै शुभ मनें, दिन२ अधिक उछाह ॥ १ ॥ काव्य ॥ अन्नाण सम्मोहतमोहरस्स, नमो२ नाण दिवायरस्स ॥ पंचप्पयारस्सुवगा रगस्स, सत्ताणसव्वत्थपयासगस्स ॥ होइंजेहथीज्ञानशुद्धप्रबोधै, यथा वर्णनासैविचित्राविबोधै ॥ तिणेंजाणीयेवस्तुषट्द्रव्यभावा, नहोवै विकल्पानिजेक्षास्वभावा ॥ ५९ ॥ होइंपंचमत्यादिसुग्यानभेदै, गुरु पासथीयोग्यतातेहवेदई ॥ वलीज्ञेयहेयाउपादेयरूपै, लहैचित्तमांजे मध्यानेंप्रदीपै ॥ ६० ॥ ढाल ॥ भव्य नमो गुण ज्ञांननें, स्वपरप्र काशक भावै जी ॥ परयाय धरम अनंतता, भेदाभेद स्वभावे जी ॥ चाल ॥ जे मोक्ष परणति सकल ज्ञायक बोधभाव विलासता, मति आदि पंच प्रकार निरमल सिद्धसाधन लंछना ॥ स्याद्वादसं गी तत्वरंगी प्रथम भेद अभेदता, सवि कल्प ने अविकल्प वस्तु सकल संसय छेदता ॥ ६१ ॥ ढाल ॥ भक्ष अभक्ष न जे विण ल हिये, पेय अपेय विचार ॥ कृत्य अकृत्य न जे विन लहिये, ज्ञांन ते सकल आधार रे ॥ भ० ॥ ६२ ॥ सि० ॥ प्रथम ज्ञांन नें पीछे अहिंसा, श्रीसिद्धातै भाख्युं ॥ ज्ञाननें वंदो ज्ञान म निंदो, ज्ञानीये सिवसुख चा ख्युं रे ॥ भ० ॥ ६३ ॥ सि० ॥ सकल क्रियानुं मूल ते श्रध्या, तेहनुं मूल जे कहिये ॥ तेह ज्ञांन नित२ वंदीजे, ते विन कहो किम रहिये रे ॥ भ० ॥ ६४ ॥ सि० ॥ पांचज्ञानमांहे जेह सदागम, स्वपरप्रकाश क तेह ॥ दीपकपर त्रिभुवन उपगारी, वलि जिम रवि शशि मेह रे ॥ भ० ॥ ६५ ॥ सि० ॥ लोक ऊरध अध तिर्यग् ज्योतिष, वैमानि क ने सिद्ध ॥ लोक अलोक प्रगट सब जेहथी, ते ज्ञाने मुझ शुद्धी रे ॥ भ० ॥ ६६ ॥ सि० ॥ ढाल ॥ ज्ञानावरणी जे कर्म छ, क्षय उपशम तसु थाये रे ॥ तो होइ एहिज आतमा, ज्ञान बोधता जाये रे ॥ वी० ॥ ६७ ॥ ॐ ह्रीं प० ज्ञानपदे अष्ट द्रव्यं यजा महे स्वाहा ॥ इति ॥

॥ अथ आठमी चारित्रपद पूजा ॥

॥ दूहा ॥ अष्टम पद चारित्रनो, पूजो धरी उमेद ॥ पूजत अनुभवरस मिले, पातिक होय उछेद ॥ १ ॥ काव्यं ॥ आराहिय खंडिअसक्कियस्स, नमो२संजमवीरिअस्स ॥ सब्भावणासंगविवज्जिअस्स, निव्वाणदाणाइसमुज्जयस्स ॥ वलिज्ञानफलतेधरियेसुरंगे, निरसंसताद्वाररोधेप्रसंगे ॥ भवांभोधिसंतारणेयानतुल्यं, धरुंतेहचारित्रअप्राप्तमूल्यं ॥ ६८ ॥ होइंजासमहिमाथकीरंकराजा, वलिद्वादशांगीभणीहोइताजा ॥ वलिपापरूपोपिनिष्पापथाये, थईसिद्धतेकर्मनेंपारजाये ॥ ६९ ॥ चाल ॥ चारित्रगुण वलि२ नमो, तत्वरमण जसु मूलो जी ॥ पररमणीयपणो टलै, सकल सिद्धिअनुकूलो जी ॥ उल्लालो ॥ प्रतिकूल आश्रव त्याग संजम तत्व थिरता दममयी, शुचि परम खंति मुनींद संपद पंच संवर उपचयी ॥ सामायकादिक भेद धरमैं यथाख्यातै पूर्णता, अकषाय अकुलस अमल उज्वल काम कसमल चूर्णता ॥ ७० ॥ ढाल ॥ देसविरत ने सर्वविरत जे, ग्रही यतिने अभिराम ॥ ते चारित्र जगत जयवंतो, कीजैं तास प्रणाम रे ॥ भ० ॥ ७१ ॥ सि० ॥ तृण पर जे षट्खंड सुख छंडी, चक्रवर्त्ते पिण वरिउ, ते चारित्र अखय सुखकारण, ते मैं मनमांहि धरिउ रे ॥ भ० ॥ ७२ ॥ सि० ॥ हूवा रंकपणे जे आदर, पूजत इंद नरिंद ॥ असरण सरण चरण ते वारू, वरिउ ज्ञान आनंद रे ॥ भ० ॥७३॥ सि०॥ बार मास पर्यायै तेहनें, अनुत्तर सुखअतिक्रमिये ॥ शुक्क२ अभिजात्य ते ऊपर, ते चारित्रने नमिये रे ॥ भ० ॥ ७४ ॥ सि० ॥ चय ते आठ करमनो संचय, रिक्त करे जे तेह ॥ चारित्र नांम निरुक्ते भाख्यूं, ते वंदू गुणगेह रे ॥ भ० ॥ ७५ ॥ सि० ॥ ॥ ढाल ॥ जांणि चारित्र ते आतमा, निजस्वभावमांहि रमतो रे ॥ लेस्या शुद्ध अलंकर्यो, मोहवने नवि भमतो रे ॥ वी० ॥ ७६ ॥ ॐ ह्रीं प० चारित्रपदे अष्ट द्रव्यं यजामहे स्वाहाः ॥

॥ अथ नवमी तपपद पूजा ॥

॥ दूहा ॥ करमकाष्ठ प्रति जालवा, परतिख अगनि समांन ॥ ते तपपद पूजो सदा, निर्मल धरिये ध्यांन ॥ १ ॥ काव्यं ॥ कम्म द्दुमोन्मूलनकुंजरस्स, नमोऽत्थुतिव्वतवोवरस्स ॥ अणेगलद्धीणनिबंधण स्स, दुसज्झअत्थाणयसाहणस्स ॥७७॥ इयनवपयसिद्धिंलद्धि, विज्जास मिद्धं, पयमियसरवग्गंह्रींतिरेहसमग्गं ॥ दिसिवइसुरसारंखोणिपीढाव यारं, तिजयविजयचक्कंसिद्धचक्कंनमामि ॥७८॥ त्रिकालिकपणें कर्म कषाय टाले, निकाचितपणें बांधिया तेह बाले ॥ कह्यो तेह तप बाह्य अभ्यंतर दु भेदे, क्षमायुक्ति निर्हेत दुर्ध्यान छेदे ॥७९॥ होइ जास महिमाथकी लब्धि सिद्धि, अवांछकपणे कर्म आवरण शुद्धि ॥ तपो तेह तप जे महानंद हेतें, होइ सिद्ध सीमंतनी जिम संके ते ॥ ८० ॥ इम नव पद ध्यावे परम आनंद पावे, नवभव सिव जावे देव नर भवज पावे ॥ ज्ञानविमल गुण गावे सिद्धचक्र प्रभा वे, सवि दुरित समावे विश्व जयकार पावे ॥ ८१ ॥ ढाल ॥ इच्छा रोधन तप नमो, बाह्य अभ्यंतर भेदे जी ॥ आतम सत्ता एकत्व ता, पर परणति उछेदे जी ॥ १ ॥ उल्लालो ॥ उछेद कर्म अनादि संतति जेह सिद्धपणो वरे, शुभ योग संग आहार टाली भाव अ क्रियता करै ॥ अंतरमुहूरत तत्व साधे सर्व संवरता करी, निज आ त्मसत्ता प्रगट भावे करो तपगुण आदरी ॥ ८२ ॥ ढाल ॥ इम न वपद गुणमंडलं, चउ निक्षेप प्रमाणें जी ॥ सात नयें जे आदरें, स म्यग्ज्ञानें जाणे जी ॥ उल्लालो ॥निरधार सेती गुणी गुणनो करइजे बहुमान ए, जसु करण ईहा तत्वरमणें थाये निरमल ध्यांन ए ॥ इम शुद्धसत्ता भलो चेतन सकल सिद्धि अनुसरै, अक्षय अनंत म हंत चिदघन परम आनंदता वरै ॥८३॥ कलश ॥ इम सयल सुख कर गुणपुरंदर सिद्धचक्रपदावली, सवि लद्धिविज्जा सिद्धि मंदिर भ विक पूजो मन रली ॥ उवज्झाय वर श्रीराजसारह ज्ञानधर्मसु रा

जता, गुरु दीपचंद सुचरण सेवक देवचंद सुशोनता ॥८४॥ ढाल॥ जाणंता त्रिहुं ज्ञाने संयुत, ते नवसुगति जिनंद॥ जेह आदरे कर्म खपेवा, ते तप सुरतरु कंद रे ॥ न० ॥ ८५ ॥ सि० ॥ करम निकाचित पिण क्षय जाये, क्षमासहित जे करतां, ते तप नमिये तेह दीपावे, जिनशाशन उजमंता रे ॥ न०८६॥ सि० ॥ आमोसही ा वहु लब्धि, होवे जास प्रनावे ॥ अष्ट महासिद्ध नवनिध प्र , नमिये ते तप नावें रे ॥ न० ॥ सि० ॥ ८७ ॥ फल शिव सुख मोटुं सुरनरवर, संपति जेहनूं फूल ॥ ते तप सुरतरु सरिखो वंदू, शममकरंद अमूल रे ॥ न० ॥ ८८ ॥ सि० ॥ सर्व मंगलमांहि पहलो मंगल, वर्णवियो जे ग्रंथे ॥ ते तपपद त्रिकरण नित नमिये, वरसहाय शिवपंथ रे ॥ न० ॥ ८९ ॥ सि० ॥ इम नवपद गुणतो तिहांलीनो, हुउ तनमय श्रीपाल ॥ सुजस विलासे चोथे खंडे, एह इग्यारमी ढाल रे ॥ न० ॥ ९० ॥ सि० ॥ ढाल ॥ इ आराधन संवरी, परणित समता योगे रे ॥ तप ते एहिज आतमा, वरते निजगुण नोगे रे ॥ वी० ॥ ९१ ॥ आगमनो आगमतणो, नाव ते जांणो साचो रे ॥ आतमनावे थिर हूउ, परनावे मत राचो रे ॥ वी० ॥ ९२ ॥ अष्ट सकल समृद्धिने, घटमांहे ऋद्धि दाखी रे ॥ तिम नवपद ऋद्धि जाणज्यो, आतमराम छै साखी रे ॥ वी० ॥९३॥ योग असंख्य छै जिन कह्या, नवपद मुख्य ते जांणो रे ॥ ए हतणै अविलंबने, आतमध्यांन प्रमाणो रे ॥ वी० ९४ ॥ ढाल बारमी एहवी, चोथे खंडे पूरी रे ॥ वाणी वाचक जसतणी, कोइय न रही अधूरी रे ॥ वी० ॥ ९५ ॥ ॐ ह्रीँ प० तपपदे अष्ट द्रव्यं यजामहे ॥ इति नवपद ॥ पूजा ॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ नवपद पूजाकी कलसढालण विधी ॥

॥ नव स्नात्रिया केसरसें तिलक करे, हांथके कांकणडोरा बांधे, दहणे हाथमें

साथिया करै, अरिहंत पदमें चावल, नमो अरिहंताणं कहके पहली पंचामृतके नव कलस ढाले फेर केसरकी टीकी देकर चरणो पर वासक्षेप चढावे यथाक्रम अष्ट द्रव्य चढावै ॥ सिद्धपदमें गहूं लालरंगकी धजागोटा चढावे, आचार्यपदमें चिणोकी दाल पीले रंगकी धजागोटा, उपाध्यायपदमें मूंग, साधूपदमें उडद, वाकी च्यारपदमें चावल चंदनलेपित गोटा चढावे, श्वेतधजा चेत्रीपूनम आसोजीपूनम वगेरेमें करें, नमो सिद्धाणं इत्यादि नवपदो के न्यारे२ कह के चढावे, गट्टे मुजब पट्टे पर नव साथिया कर वीचमें अरिहंत ऊपर सिद्ध सिद्धचक्रयंत्र मुजब यथाक्रम चढावै ॥

॥ ओली करणेवाला वासक्षेप पूजा करें तो एकेक पूजामें चालकी गाथा तथा उछाले तक गाय कर अरिहंतपदे वासक्षेपं यजामहे कहणा. एसें नवपदो की चाल ओर उछाला पढ वासक्षेप चढवाणा ॥

॥ अथ दादागुरुमाहाराजकी लघु अष्टप्रकारी पूजा ॥

॥ अथ न्हवण पूजा ॥ सुरनदी जल निर्मल धारया, प्रवल दुष्कृत दाघ निवारया ॥ सकल मङ्गल वंछित दायकं, कुशल सूरि गुरोश्चरणौ यजे ॥ १ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं श्रीजिनकुशल सूरि गुरौ चरणकमलेभ्य जलं यजामहे ॥ १ ॥ अथ चंदनपूजा ॥ मलय चंदन केसर वारिणा, निखल जाड्यरुजातं पहारिणा ॥ सकल० ॥ ॐ ह्रीं श्रीं श्रीजिनकु० ॥ २ ॥ अथ पुष्पपूजा ॥ कमल केतकि चंपक पुष्पकैः, परिमला हृत् षट्पद वृंदकैः ॥ सकल मं० ॥ ॐ ह्रीं श्रीं पुष्पं यजामहे स्वाहा ॥ ३ ॥ अथ अक्षत पूजा ॥ सरज तंदुल कैरति निर्म्मलै, प्रवर मौक्तिक पूंज वडुज्वलैः ॥ सकल मङ्गल० ॥ ॐ ह्रीं प० अक्षतं यजामहे ॥ ४ ॥ अथ नैवद्य पूजा ॥ वहु विधैश्चरुभिर्वटकेयकैः, प्रवर मोदकपुंज सुखर्जकैः ॥ सकल मं० ॥ ॐ ह्रीं श्रीं नैवद्यं यजामहे ॥ ५ ॥ अथ दीपपूजा ॥ अति सुदीप्तमयै खलुदीपकै, विमल कंचनभाजन संस्थितै ॥ सकल मं० ॥ ॐ ह्रीं श्रीं श्रीजि० दीपं यजामहे ॥ ६ ॥ अथ धूपपूजा ॥ अगर चंदन धूप दशांगजै, प्रसरिताखिल दिक्सुधूम्रकः ॥ सकल मं० ॐ ह्रीं श्रीं० धूपं यजामहे ॥ ७ ॥ अथ फलपूजा ॥ पनश मोच सदाफल कर्कटै, सुसुखदैः

किल श्रीफल चिन्नटै ॥ सकल मं० ॥ ॐ ह्रीं श्रीं० फलं यजामहे स्वाहाः ॥ ८ ॥ अर्घपूजा ॥ जल सुगंध प्रसून सुतंडुलै, श्चरुप्रदीप क धूप फलादिभिः ॥ सकल मं० ॥ ॐ ह्रीं श्रीं श्रीजि० अर्घं यजा महे स्वाहा ॥ इति श्रीदादाजीकी लघु अष्टप्रकारी पूजा संपूर्ण ॥

॥ अथ दादाजीकी आरती ॥

॥ जै जै सदगुरु आरती कीजे, श्रीजिनकुशल सूरि समरी जे ॥ जैजै० ॥ पहली आरती दादाजीकी कीजै, दुख दोहग सब दूर हरीजे॥जै०॥१॥बीजी बीज पमंती धारा, नयवारण तूंही सुख कारा ॥ जै० ॥ २ ॥ तीजी परचा पूरक तेरी, दूर हरौ सब दुर्म ति मेरी ॥ जै० ॥ ३ ॥ चोथी मुगलपूत जियदायक, सुरवर हुक म धरै ज्युं पायक॥जै०॥४॥पांचमी पांच नदी जिण तारी, संघ स कलनो संकट वारी ॥ जै० ॥ ५ ॥ छठी थांभोवज्ज विदारी, विद्या पोथी परगटकारी ॥ जै० ॥ ६ ॥ सातमी चोसठ योगण साधी, सूरिमंत्र सुरने आराधी ॥ जै० ॥ ७ ॥ इण विध सात आरती कीजै, मनवंछित संपति फल लीजे ॥ जै० ॥ ८ ॥ जैनलाभ खर तर गणधारी, सदगुरु चरणकमल बलिहारी ॥ जै० ॥ ॥ ९ ॥ इति श्रीगुरुदेव आरती संपूर्णम् ॥

॥ अथ सूतकविचार लिख्यते ॥

॥ पुत्र जन्म होनेसें दिन १० दस सूतक ॥ पुत्री जन्म हो नेसें दिन १२ वार सूतक ॥ जर जो स्त्रीके पुत्र होय, उस स्त्रीके एक मासको सूतक॥पुत्र होके मरण पामे, तो दिन१एक सूतक ॥ परदेशें मृत्यु होय तो दिन १ एक सूतक ॥ गाय, भैंष, घोमी, सांढ, घरमांहे वियावे, तो दिन १ एक सूतक ॥ मरण हूवां कले वर घर बाहिर लइ जाय, जहां तक सूतक ॥ दास दासी अपनी नेश्रायें रहते पुत्र पौत्रादिकका जन्म मरण हो, तो दिन ३ तीन

सूतक ॥ और जितना महिनाको गर्भ गिरे, तितने दिन सूतक ॥ अब जिनके जन्म मरणका सूतक होवे यें १२ बार दिन देवपूजा न करे. और मृतकके सूतक में घरका जो मूल कांधिया होवे सो १० दस दिन देवपूजा न करे ॥ और अन्य घरका ३ तीन दिन देवपूजा न करे. और जो मृतकको छूवा होवे, सो २४ चोवीस प्रहर पडिक्कमण न करे ॥ जो सदाका अखंड नियम होवे, तो समताभाव रख कें संवरपणामें रहे. परंतु मुखसें नवकार मंत्रकाभी उच्चारण करे नहिं. स्थापनाजीके हाथ लगावे नहिं, और जो मृतकको छुवा न हो तो मात्र आठ प्रहर पडिक्कमण न करे ॥

भेंसके जब बच्चा होय, तब १५ पदर दिन पीछें दूध पीणो कल्पे. गायके बच्चा होय तो १७ सतरे दिन पीछें दूध पीणो कल्पे. बकरीको दूध ८ आठ दिन पीछें पीणो कल्पे ॥

१ रुतुवती स्त्री, चार दिन भांडादिकको न छुवे. २चार दिन प्रतिक्रमण न करे, ३ पांच दिन देवपूजा न करे. ४ रोगादिक कारणें तिन दिवस उपरांत कोइ स्त्रीको रक्त चलता दीसे, जिसका विशेष दोष नहिं ॥ शुद्ध विवेकसें पवित्र हो कर दिन ५ पांच पीछें स्थापना पुस्तक छुवे, जिनदर्शन करे, अग्रपूजा करे, परंतु अंगपूजा न करे, साधुकों पडिलाभे. ऋतुवंती तपस्या करे, सो तो सफल होय. परंतु रुतु दिनमें जिनपूजा प्रतिक्रमणादिक क्रिया सफल न होवे, ऐसा चर्चरीग्रंथमें कहा हे. जिसके घरमें जन्म मरणका सूतक होवे, वहां १२ बार दिन तक साधु आहार पाणी न वहोरे. सूतकवालेका घरका जलसें तथा अग्निसें १२ बारा दिन तक देवपूजा न करे. निशीथसूत्रके शोलमा उद्देशामें जन्म मरणके सूतकवालेका घर दुर्गंछनिक कहा हे.

गायके मूत्रमें २४ चोवीस प्रहर पीछें, भेंषके मूत्रमें १६ सोल प्रहर पीछें, गाडर, गधेडा, घोडीके मूत्रमें ८ आठ प्रहर पीछें, अए नारीके मूत्रमें ४ चार प्रहर पीछें, संमूर्छिम जीव उपजे; इत्यादि सूतकका संक्षेप विचार इहां लिखा हे. विशेष विचार शास्त्रांतरसें जाणना ॥ इति सूतकविचारः संपूर्णः ॥

॥ अब असझायकी विगत कहते हे ॥

१ धूंआरी पडे, तांसीम असझाय जाणवी.

२ सर्वदिशामां राती छाया तथा अरण्य संबंधी रज उडे, निरंतर पडे तो दिन ३ तीन उपरांत असझाय.

३ मेह परसते गुडगुडाकारी होय, तो दिन ३ तीन उपरांत असज्झाय.

४ नाना छांटा निरंतर, दिन ७ सात उपरांत वरसे अने न रहे तो असझाय होय.

५ मांसवृष्टि, शिलावृष्टि, केशवृष्टि, धूलिवृष्टि, जांलगें होय, तां सीम असझाय. अने जो रुधिरवृष्टि होय तो अहोरात्र असज्झाय.

६ वुदवुदा रहित निरंतर वरसे तो ५ पांच दिन उपरांत असझाय होय.

७ चैत्र शुदि पांचमहूंती पडिवा लगें असझाय. तेरस, चौदस, पूनम सीम सभी सांजे. अचित्त रजउड्डावणछं काउस्स ग्ग करुं? इछं. अचित्त रज उड्डावणछं करेमि काउस्सग्गं. पछी लोगस्स उज्जोयगरेना चार काउस्सग्ग करवा.

८ आशोशुदि पांचमने दिने द्विप्रहरथी आरंभीने पडिवा लगें असझाय.

९ दश दिगूदाहें प्रहर १ एक असझाय.

१० अकालें गाजतां प्रहर २ बे सीम असझाय.

११ अकालें बीज उल्कापात होय तो प्रहर १ असझाय.

१२ अजवालीये पक्षें समी सांझ, पडवो, बीज, त्रीज, इयारी असझाय, परंतु दश वैकालिक गुणीजें.

१३ अकालें मेघ वरसे, तो प्रहर १ एक असझाय.

१४ भूमिकंपें प्रहर ८ आठ असझाय.

१५ चंद्रग्रहणें प्रहर १२ बार उत्कृष्टें, अने जघन्यें प्रहर ८ आठ असझाय.

१६ सूर्यग्रहणें उत्कृष्ट प्रहर १६ सोल, अने जघन्य प्रहर १२ बार असझाय.

१७ आसाढ चउमासा पडिक्कमण ठायाहूंती प्रहर १२ वार असज्झाय.

१८ कार्त्तिक चउमासें पण प्रतिक्कम्या पीछें पडिवा लगें प्रहर बार असज्झाय.

१९ मांहोमांहे मल्लादिक युद्ध हुवे, तावत्काल असज्झाय.

२० कलह युद्ध जां लगें हुवे, तां लगें असज्झाय.

२१ उपाश्रय नजीक स्त्रीपुरुषने कलह हुवे त्यां पर्यंत असज्झाय.

२२ फागण चउमासें रजपर्वी ज्यां लगे रज उडे, अने उपशमें नहिं, तां लगें असज्झाय.

२३ डंडको मार पडते जांलगी अनेरो न हुवे, तां लगी असज्झाय.

२४ परचक्रादि भय उपजे, अने जां लगें उपशमे नहिं, तां लगे सूत्र भणवुं न सूजे ॥ अयं परमार्थः ॥

२५ नगरमांहे प्रधान पुरुष विहडे, तो अहोरात्र असज्झाय.

२६ उपाश्रयथी सात घरमांहे जो कोइ पुरुष विहडे, तो अहोरात्र असज्झाय.

२७ सो हाथमांहे अनाथ पुरुष मृतक पड्यो होय, तो ता अणजुद्धरे एटले ज्यां पर्यंत मृतककूं न उठावे, त्यां सीम असज्झाय.

२८ तिर्यंचना रुधिर पड़वाथी हाथ १०० सो मांहे अहोरात्र असज्झाय.

२९ मनुष्यना रुधिर पड़वाथी हाथ १०० सो मांहे अहोरात्र असज्झाय.

३० मनुष्यनां अस्थि, दांत, दाढ पड़े हाथ १०० सो मांहे सूत्र पढवुं सूजे नाहिं.

३१ स्त्रीने रुतु आवे थके दिन ३ त्रण असज्झाय.

३२ आर्द्रा नक्षत्र आव्या पीछें स्वाति नक्षत्र पर्यंत जो गाजे, वीजे, मेह वरसे, तो असज्झाय न होय.

३३ पुत्रने प्रसवे दिन ७ सात असज्झाय. अने दीकरीने प्रसवे दिन ८ आठ असज्झाय.

३४ कालग्रहण विणकी जणवो गुणवो नहिं. प्रहर १२ बार असज्झाय.

३५ वैशाखवदि १, श्रावणवदि १, कार्त्तिकवदि १, मागशिरवदि १. ए चार दिवसें सदैव असज्झाय अने सूत्रनी असज्झाय तो प्रहर १२ बार सूधी जाणवी.

॥ अथ साधु ओर श्रावककों कोनसी वस्तु कितने प्रहर ॥
॥ ओर दिन पीछें न खावणी सो लिख्यते ॥

॥ चावल प्रहर ८, राब प्रहर १२, घीस प्रहर २०, गर्गी प्रहर २४, दहिं प्रहर १६, दूध प्रहर ४, कांजीवड़ा प्रहर २४, घोलवड़ा प्रहर ४, लड्यां वड़ा प्रहर ४, पूड़ी प्रहर ८, रोटी प्रहर ४, तथा ६. बाजरा कूष्ण प्रहर १२, जवार कूष्ण प्रहर १२, बाजरीकी खीचड़ी प्रहर ८, जवारकी खीचड़ी प्रहर ८, चावलकी

खीचमी प्रहर ४, सीयाले आटो दिन १०, उन्हाले आटो दिन ८, वरसाले आटो दिन ५, पक्कान्न सियाले दिन ३०, उन्हाले पक्कान्न दिन १५, वरसाले पक्कान्न दिन ७, उन्हाले लूण फासु ८ दिन, वरसाले लूण फासू दिन ३, सीयाले फासू लूण दिन ५, सीयाले फासु घी दिन ८, उन्हाले फासु घी दिन ५, वरसाले फासु घी दिन ३, तथा हमेसका सियाले फासु पाणी प्रहर ५, वरसाले फासु पाणी प्रहर ३, सर्व अनाजकी घूघरी पाणी मीजोइ प्रहर ८, पाणीकी उसेइ घूघरी प्रहर १८, घी तेलकी तली घूघरी प्रहर २०, तथा २४. वडी प्रहर ८, कढी प्रहर ४, सर्व दाल प्रहर ४, तथा ६. रायता प्रहर ८, घीकी तली प्रहर १६. एवं सर्व वस्तु ए कीये परिमाण उपरांत चलितरस होवे, सो साधु तथा श्रावककों खावे योग्य रहे नहिं ॥

॥ अथ नव ग्रह तथा दस दिग्पाल की स्थापन ओर पूजन विधि तथा आह्वान विसर्जन विधि लिख्यते॥

॥पांच दस स्नात्रिया शुद्ध होकर गूरू के पास केसरका तिलक करै, केसर मंत्रायकै दाहिणा हाथके मोली उर कांकणडोरा मंत्राय के बांधै ॥ (ॐ नमो परमेष्टि नमस्कारं) इत्यादि स्तोत्रसें गुरु आत्मरक्षा करावै. पीछै एक थालीमें १०, एक थालीमें ए, फेर एक थालीमे फेर ए, एसें २८ नागरवेलका पांन रखै. जिसपर पुष्प अक्षत नैवेद्य फल रोकद्रव्य यथाशक्ति धरै उरस्नी पंचामृत फूल पुष्पमाला अक्षत नेवद्य तरे२ के गीले उर सूकेफल अनर गुलाबजल केसर कपूर कुंकु आदि पूजाषेका सामान रखै. फेर स्नात्रपूजा की थापना रखै, स्नात्र करावे अष्ट प्रकारी पूजा करावै पीछै दसदिग्पाल के पट्ट ऊपर जलका छींटा देकर वासक्षेप करे ॥ एकेक दिग्पालके केसरकी टीकी देकर पुष्प चढाके फल नैवेद्यादि समेत नागरवेलका पान चढावै ॥

॥ अथ दस दिग्पालके पट्टेकी पूजाविधि ॥

॥ ॐइंद्राय सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय इहअस्मिन्जंबूद्वीपे दक्षिणभरतार्द्धक्षेत्रे अमुकनगरे अमुकचैत्ये अमुकपूजामहोत्सवे आगच्छ२ बलिंगृहाण२ उदयमभ्युदयं कुरु२स्वाहाः ॐइंद्रायनमः इति इंद्रआह्वानपूजा ॥ (पूर्वदिसि जल चंदनादि अष्ट द्रव्य च ढावै) ॥ १ ॥ अथ अग्नि दिग्पाल पूजा ॥ ॐअग्नये सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन्जंबूद्वीपे दक्षिणभरतार्द्धक्षेत्रे अमुकनगरे अमुकचैत्ये अमुकपूजामहोत्सवे आगच्छ२ बलिगृहाण२ उदयमभ्युदयं कुरु२स्वाहाः ॐअग्नयेनमः ॥ २ ॥ अथ यम दिग्पाल पूजा ॥ ॐयमाय सायु० सवा० सपरिच्छदा अस्मिन्जंबु० दक्षिण० अमुकन० अमुकचैत्ये० अमुकपूजा० आग० बलिंगृ० उदयम० स्वाहा ॐयमायनमः ॥ दक्षिण ॥ ३ ॥ अथ नैरुत दिग्पाल पूजा ॥ ॐनैरुताय सायु० सवा० सप० अस्मिन्जं० दक्षि० अमुक पूजामहोत्सवे आग० बलिं० उदय० स्वाहा ॐनैरुतायनमः ॥ ४ ॥ अथ वरुण दिग्पाल पूजा ॥ ॐवरुणाय सायु० सवा० सप० अस्मिन्जं० अमुकपू० आ० बलिं० उदय० स्वाहा ॐवरुणाय नमः ॥ पश्चिम० ॥५॥ अथ वायव दिग्पाल पूजा ॥ ॐवायवे सायु० सवा० सप० अस्मिन्० द० अमुकचैत्ये० अमुकपूजामहोत्सवे० आ० बलिं० उदयम० स्वाहा ॐवायवेनमः ॥ वायव्य ॥ ६ ॥ अथ कुबेर दिग्पाल पूजा ॥ ॐकुबेराय सायु० सवा० सप० अस्मिन्जं० द० अमुकन० अमुकचै० अमुकपूजामहोत्सवे आ० बलिंगृ० उदय० स्वाहा ॐकुबेरायनमः उत्तर दिशि ॥ ७ ॥ अथ ईशान दिग्पाल पूजा ॥ ॐईशानाय सायु० सवा० सप० अस्मि० द० अमुकपू० आ० बलिं० उद० स्वाहा ॐईशानायनमः ॥ ईशानकूण ॥८॥ अथ ब्रह्म दिग्पाल पूजा ॥ ॐब्रह्मणे सायु० सवा० सप० अस्मिन्० द० अमुकन० अमुकचैत्ये

अमुक पू० आ० वलिं० उदय० स्वाहा ॐब्रह्मणेनमः ॥ उर्ध्वदिशि० ॥ ए ॥ अथ नाग दिग्पाल पूजा ॥ ॐनागाय सायु० सवा० सप० अस्मिन्० दक्षि० अमुकन० अमुकचैत्यै अमुकपू० आ० वलिं० उदय० स्वाहा ॐनागायनमः ॥ १० ॥ अधोदिशि अष्टद्रव्य चढावे ॥ ऊपर कसूंमल वस्त्र बांधे मौलीसे, पीछे ॥ ॐदशदिग्पालायनमः ॥ एसा कहके यथाशक्ति रोकरूद्रव्य समेत नागरवेलका पांन आदि सर्व द्रव्य चढावै, पट्टेके चोतरफ दस घृतके दीपक धरे अथवा एक दीपक आगै धरै ॥ इति दस दिग्पाल पूजनविधिः ॥

॥ अथ नव ग्रह पूजनविधिः ॥

॥ अथ सूर्य पूजा ॥ ॐनमोआदित्याय सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन्जंबुद्वीपे दक्षणार्द्धभरतक्षेत्रे अमुकनगरे अमुकचैत्ये अमुकपूजामहोत्सवे आगछ२ वलिपूजांगृहाण२ उदयमभ्युदयं कुरु२ अत्रपीठेतिष्ठ२स्वाहा ॐसूर्यायनमः ॥ (एसापढकेजलचंदनादि अष्टद्रव्यचढावे) ॥१॥ अथ चंद्रपूजा ॥ ॐचंद्राय सायु० सवा० सप० अस्मिन्जं० द० अमुकन० अमुकचै० अमुकपू० आ० वलि ग० उदय० अत्रपीठेति० स्वाहा ॐचंद्रायनमः ॥२॥ अथ मंगल पूजा ॥

ॐनमोभौमाय सायु० सवा० सप० अस्मिन्जं० द० अमु० अमुकपू० आ० वलि० अत्रपीठे उदय० स्वाहाः ॐभौमायनमः३॥ अथ बुधपूजा ॥ ॐनमोबुधाय सायु० सवा० सप० अस्मिन्जं० द० अमुकनग० अमु० चै० अमुकपू० आ० वलि० उदयम० अत्रपी० स्वाहा ॐबुधायनमः ॥४॥ अथ बृहस्पति पूजा ॥ ॐनमोबृहस्पतये सायु० सवा० सप० अस्मिन्जं० द० अमुकन० अमुकचै० अमुक पूजाम०आ० वलि० अत्रपी० उदय० स्वाहाः ॐ बृहस्पतयेनमः॥५॥ अथ शुक्र पूजा ॥ ॐनमोशुक्राय सायु० सवा० सप० अस्मिन्जंबूद्वी० द० अमुकन० अमुकचैत्ये० अमुकपू० आ० वलिगृ० अत्र

पीठे उदयम० ॐशुक्रायनमः ॥ ६ ॥ ॥ अथ शनि पूजा ॥ ॐनमोशनिश्चराय सायु० सवा० संप० अस्मिनूजं० द० अमुकन० अमुकचैत्ये० अमुकपू० आ० वलि० अत्रपीठे तिष्ट२ उदयम० स्वाहा ॐशनैश्चरायनमः ॥ ७ ॥ ॥ अथ राहु पूजा ॥ ॐन मोराहवे सायु० सवा० सप० अस्मिनूजं० द० अमुकन० अमुकचै त्ये अमुकपूजा० आ० वलि० अत्रपी० उदयम० ॐराहवेनमः॥८॥ अथ केतू पूजा ॥ ॐनमोकेतवे सायु० सवा० सप० अस्मि नूजं० द० अमुकनग० अमुकचै० अमुकपू० आ० वलि० अत्रपीठे तिष्ट२उदय० स्वाहा ए ॐ केतवेनमः ॥ इति ॥ (इसी मुजब ऊपर लाल वस्त्र मोलीसे वांधे पीछै नागरवेलके पान आदि अष्टद्रव्य रोकड़ द्रव्य समेत सांमने भेट धरे फेर एसा कहे ॥ ॐनवग्रहायनमः ॥ च्यारों तरफ नवदीपक वा एक दीपक सांम्हने धरे इति नवग्रह थापन पूजनविधिः ॥ वाये तरफ मंडलके नवग्रहकी थापना करे दहिणे बाजू दसदिग्पाल की थापना करे ॥ जिस महोछवमें इनोंकी पूजा कराणी उस महो छवका नाम लेणा विशेष विधि गुरुमुखसें सीखणी ॥ शुद्ध जल सें पवित्रपणे बणायाहूवा सधवस्त्रीके या पुरषके हाथसें पांचरंग के धानके बाकला पांच रंगकी खजली गुलगुला खीर दहीका करवा मालपूवा पांचरंगकेलडु इत्यादि खाद्य उत्तम वस्तु मंगाकर एक परातमें सब द्रव्य एकठो करै उर घृत खांड़ अत्तर गुलाबजल पंचरंगेफूल यह सभी बाकलोंमें मिलावे पीछै गुरु ३ तीन वार मंत्रके तीन वेर बाकुलो पर वासक्षेप डाले.) अथ वासक्षेप मंत्र ॥ ॐह्रांह्रींसर्वोप द्रवंबिंबस्यरक्ष२स्वाहा ॐणमोअरिहंताणं ॐणमोसिद्धाणं ॐणमोआ यरिआणं ॐणमोउवझायाणं ॐणमोलोएसवसाहूणं ॐणमोआगास गामीणं ॐणमोचारणलद्धीणं जेइमे किन्नर किंपुरस महोरग गरुड़ गंधर्व जख रखस पिशाअ भूअ डाइणप्पभइउ. जिणघरनिवासि

णा सन्निहियाय तेसव्वेविलेवण धूवपुप्फफलवत्थवसणाहिं वलिपम्हि च्छंता तुठ्ठिकराञ्भवंतु पुठ्ठिकरा संतिकराञ्भवंतु सव्वजणंकुव्वंतु सव्वजिणाणं संहणप्पभावञ पसन्नञ्भावतणे सव्वत्थरक्खंतुकुव्वंतु सव्वदुरियाणीनासंतु सव्वाशिवसुवसमंतु संतितुठ्ठिपुठ्ठिसिवसत्थयणकारिणोञ्भवंतु स्वाहा: ॥ इस मंत्रसें तीन वेर वासक्षेपकुं मंत्रके वलवाकुलोमें डालके शुद्ध करे ॥ पीछै आधा वलवाकुल दूसरी परातमें विसर्जनके वास्ते वस्त्रसें ढककर रखछोडे. आधा लेकर घरके तथा चैत्यके ऊपर इग्यारे स्नात्रिया शुद्ध होकर पहला एक श्रावक चोटीके वाल खोलकर वलवाकुल लेके पूर्वकी तरफ खडा रहे, २ दूसरा केसरकी कटोरी, ३ तीसरा पुष्पकी चंगेरी, ४ चोथा शीसा, ५ पांचमा धूपधाणा, ६ छठा दीपक, ७ सातमा चमर, ८ आठमा घंटा, नवमा जलका कलश, १० दसमा वलवाकुलकी थाली, ११ इग्यारमा मंगलवाजित्र. इस तरे सब स्नात्रिये एकेक दिसाकी तरफ खडा रहे. जब गुरु शुद्धमंत्र उच्चारण करचूके तब क्रमसें जल चंदन फूल वा कुलादिक चढावै, चामरकरे, आरीसा दिखावे, वाजित्र वजावे ॥

॥ अथ दस दिग्पाल आह्वानमंत्र ॥

॥ ऐरावत:समारूढः शक्रः पूर्वदिशिस्थितः संघस्यशांतयेसोस्तु वलिपूजांप्रयच्छतु ॥ १ ॥ (एसा कहके पूर्वदिशाकी तरफ वलवाकुल चढावै) (अग्निकूणके सांमनें) ॥ सदावह्निदिशोनेता पावकोमेषवाहनः संघस्यशांतयेसोस्तु वलिपूजांप्रयच्छतु ॥ २ ॥ (एसा कह वाकुलादिद्रव्य चढावै) (दक्षिणदिशकी तरफ) ॥ दक्षिणस्यांदिशःस्वामी यमोमहिषवाहनः संघस्य० वलि० ॥ ३ ॥ (वलवाकुल चढावै वाजित्र वजावै) (नैरुतकूणकी तरफ) ॥ यमापरांतरालोको नैरुतः शिववाहनः संघस्य० वलि० ॥ ४ ॥ (अथ पश्चिमदिशि) ॥ यः प्रतीचीदिशोनाथः वरुणोमकरस्थितः

संघस्य० वलि० ॥ ५ ॥ (अथ वायव्यकूण) ॥ हरिणोयाहनंयस्य वायव्याधिपतिर्मरुत् संघस्य० वलि० ॥ ६ ॥ (अथ उत्तर दिशि) ॥ निधाननवकारूढ उत्तरस्यादिशिप्रभुः संघस्य० वलि ॥ ७ ॥ (ईशान कूण) ॥ सितेवृषेधिरूढश्च ईशानांचदिसोविभुः संघस्य० वलि० ॥ ८ ॥ (अथ अधोदिशि) पातालाधिपतियोस्तु सर्वदापद्म वाहनः संघस्य० वलि० ॥ ए ॥ (अथ उर्द्धदिसि) ब्रह्मलोकवि भोयस्तु राजहंससमाश्रित संघस्य० वलि० ॥ १० ॥ इति दश दि ग्पाल आह्वानविधिः ॥

॥ अथ पूजा प्रतिष्ठादि हुयां पीछे दिग्पाल विसर्जनविधि ॥

॥ ओर वलवाकुलादि द्रव्यपूजा पूर्ववत् ॥

॥ ॐनमोइंद्राय पूर्वदिग्अधिष्टायकाय ऐरावणवाहनाय सहस्र नेत्राय वज्रायुधाय सपरिकराय अस्मिनजंबुद्वीपे दक्षिणार्द्धे अमुकन गरे अमुकचैत्ये अमुकमहोछवे सर्वोपद्रवाद्वलिरक्ष२ गछ२ स्वाहा ॥ पूर्वदिशाकी तरफ ॐइंद्रायनमः ॥ १ ॥ (अग्निकूण) ॥ ॐनमोअ ग्निमूर्त्तये शक्तिहस्ताय सायुधाय सवा० सप० अस्मिन्० अमुक० सर्वोपद्रवाद्वलिरक्ष२ गछ२ स्वाहा ॥ इति ॥ (दक्षिणदिशि) ॐन मो[illegible]य दक्षिणदिग्धिष्टायकाय महिषवाहनाय दंडआयुधाय कृष्ण सायु० सवा० सप० अस्मि० सर्वोपद्रवाद्वलिरक्ष२ गछ२ स्वा ३ ॥ इति ॥ (नैरुतकूणे) ॥ ॐनमोनैरुताय खड्गहस्ताय सवा० सप० अस्मिन्० अमु० सर्वोपद्रवाद्वलिरक्ष२ गछ२ ॥ ४ ॥ इति ॥ (पश्चिमदिशि) ॥ ॐनमोवरुणाय पश्चिम दिग्धिष्टायकाय मकरवाहनाय सायु० सवा० सप० अस्मि० अमु० सर्वोपद्रवाद्वलिरक्ष२ गछ२ स्वाहा ॥ ५ ॥ इति ॥ (वायवकूणे) ॥ ॐनमोवायवे वायवाधिपतये ध्वजहस्ताय हरिणवाहनाय सायु० सवा० सप० अस्मि० अमु० सर्वोपद्रवाद्गछ० स्वाहा ॥ ६ ॥ इति ॥

(उत्तरदिशि) ॥ ॐनमोधनदाय उत्तरदिगधिष्ठायकाय नरवाहनाय गदाहस्ताय सप० अस्मि० अमुकनगरे सर्वोपद्रवाहलि० गन्ध२ स्वाहा ॥ ७ ॥ इति ॥ (ईशाणकूणे) ॐनमोईशानाय त्रिसूलहस्ताय ईशानाधिपतये वृषभवाहनाय सप० अस्मि० अमु० सर्वोपद्रवाह लि० गन्ध२ स्वाहाः ॥ ८ ॥ इति ॥ (उर्द्धलोके) ॐनमोब्रह्मणे राजहंसवाहनाय उर्ध्वलोकाधिष्ठायकाय सायु० सवा० सप० अस्मिन्० अमु० सर्वोपद्रवाहलि० गन्ध० स्वाहा ॥ ९ ॥ इति ॥ (अधोलोके) ॐनमोनागाय पातालनिवासाय पद्मवाहनाय० सायु० सवा० सप० अस्मि० अमु० सर्वोपद्रवाहलि२ गन्ध२ स्वाहा ॥ १० ॥ (इस तरे पढे बाद सर्व देवतोंके विसर्जनका श्लोक पढै ॥ यथा ॥ शक्राद्या लोकपालादिशिविदिसिगता शुद्धसद्धर्मशक्ताः, आयातास्नात्रकाले कलुषहतिकृते तीर्थनाथस्यभक्त्या; न्यस्ताशेषापशाद्याविहितशिवसुखाः स्वास्पदंसांप्रतंते, स्नात्रेपूजामवाप्यस्वमतिकृतमुदोयांतुकल्याणभाजः ॥ १ ॥ आग्याहीनंक्रियाहीनं, मंत्रहीनंचयत्कृतं; तत्सर्वंक्षमतंदेवः, प्रशीदपरमेश्वरः ॥ २ ॥ आह्वानंनैवजानामि, नैवजानामि पूजनं; विसर्जनंनैवजानामि, त्वमेवशरणंमम ॥ ३ ॥ पीछे यथाशक्ति ज्ञानपूजा गुरुपूजा साधर्मीवात्सल्य करै ॥ इति नवग्रह दश दिग्पाल स्थापन आह्वान विसर्जन विधि संपूर्ण ॥

॥ अथ नवपद मंडल पूजाविधि ॥

प्रथम सुंदर अंगोपांगवाले नव स्नात्रिया मंत्रितजलसें स्नान करे (जलमंत्र) ॐ ह्रीं अमृतेअमृतोद्भवे अमृतवर्षणी अमृतंश्रावय२ स्वाहा (इस मंत्रसें जलमंत्रे. पीछे) ॐ ह्रीं अमलेविमले विमलोद्भवे सर्वतीर्थजलोपमे पांपावावाअशुचिशुचिर्भवामिस्वाहा (इस मंत्रकों सातवेर पढता हुवा स्नान करे. पीछे ॥ ॐ ह्रीं आँ क्रोंः॥ (सात वेर इस मंत्रसें वस्त्र शुद्ध कर पहिरे पीछे ॥ ॐ आँ ह्रीं क्रों अर्हते

नमः) इस मंत्रसें सात वेर गुरू पाससें केसर मंत्रायके तिलक करे. (पीछे) ॐ ह्रीं अवतर२ सोमे२ कुरु२ वग्गु२ सुमणसे सोमणसे महुमहुरे ॐकवलीकः क्षः स्वाहा ॥ (इस मंत्रसें मोली मेंढल मरोडाफली मंत्रायके हाथके बांधै और जब मंडलजीके च्यारुं तरफ मोलीमेंढल बांधे सोभी इसी मंत्रसें मंत्रायके बांधे. इस तरे अपणा अंग शुद्ध करके स्नात्रिया गुरूके सामने हाथ जोडके बेठे तब गुरु आत्मरक्षा स्तोत्र जो पहिली लिखा हे उससें तीन वेर पढके गुरु आत्मरक्षा करवावे. पीछे तीन वेर नवकारमंत्रसें मंत्रकें चोटीके गांठ देवे तथा तीन नवकार गुणके सब स्नात्रियाके कानामें फूंक देवे. इतनी विधी तो हरकोइ पूजा प्रतिष्ठा मंडलादिकमें स्नात्रियोंको प्रथम अवस्य कराणी चाहियें. पीछे मंदिरजीमें अधिष्ठायक जो देव देवी होय उसकी पूजा करावे अष्टद्रव्य चढावे. पीछे चंपेलीके तेलमें हिंगलू वा सिंदूर मिलाके क्षेत्रपालजीकी पूजा करे, चांदीके वरक या मालीपाना चढावे, अतर चढावे, फूल धूप नैवद्य फल जल रोकड्रव्य इत्यादि सर्वद्रव्य (ॐक्षेत्रपालायनमः) एसा बोलता हुवा चढावे. पीछे मंडलजोके दहणे तरफ १० दिग्पालके पट्टेकी थापना करे. अकेक दिग्पालकी पूजा पढके जल चंदनादि सर्व द्रव्य चढावे. नागरवेलके पांन समेत दसोंकी पूजा पढके ऊपर लालवस्त्र मोलीसें बांधे. आगे फेर सर्व द्रव्य चढाके दीपक करे. पीछे वांये तरफ नवग्रहके पट्टेकी थापना कर पूर्वोक्त काव्य पढके इसी मुजब पूजा करे.) पीछे सर्व स्नात्रियाकूं १८ स्तुतीसें देववंदावे.

अढारे स्तुतिका देववंदाणेकी विधी लिखते हें ॥ पहली इरियावही पडिक्कमें च्यार नवकारका काउसग्ग कर लोगस्स कहे. नीचे बेठके दहिणागोडा धरतीपर रख के डावागोडा नमीभूत करके चैत्यवंदन करे,

नमोत्थुणं० कहके अरिहंतचेइयाणं० वंदणवत्ति० अन्नत्थु० १ एक नवकारका काउसग्ग करे. नमोर्हत् सिद्धा० कहके यदंह्रिन मनादेव थुइकी पहली गाथा कहे ॥ लोगस्स० वंदण० अन्नत्थु० एक नवकारका काउसग्ग इस थुईकी दुसरी गाथा कहे. पुरक्खरदी० वंदणवत्ति० एक नवकारका काउसग्ग० थुईकी तीसरी गाथा कहे. सिद्धाणंबुद्धा० वेयावच्चगरा० वंदणव० एक नवकारका काउसग्ग थुईकी चथी गाथा कहे. पीछे बेठके नमोत्थुणं कहके खमा दे के श्रीशांतिनाथ देवाधिदेव आराधनार्थं करेमिकाउसग्गं वंदणव० अन्नत्थु० १ नवकारका काउसग्ग कर० ॥ रोगशोगादिभिर्दोषै रं जितायजितारये नमः श्रीशांतयेतस्मै विहितानतशांतये ५ (ततः श्रीशांतिदेवतानिमित्तंकरेमिकाउसग्गं० १ नवकारका काउसग्ग) ॥श्रीशांतिजिनभक्ताय भव्यायसुखसंपदं श्रीशांतिदेवतादेया दशांति मपनीयते ६ (ततः श्रीश्रुतदेवतानिमित्तं०) सुवर्णशालिनीदेयात् द्वादशांगीजिनोद्भवा श्रुतदेवीसदामह्य मशेषश्रुतसंपदं॥७॥(ततः श्री भुवनदेवताआराधनार्थं०) चतुर्वर्णायकीस्तुति १ गाथा कहे ॥ (ततः क्षेत्रदेवतानिमित्तं०) यासांक्षेत्रगतास्संति १ गाथा कहे ॥ ८ ॥ (ततः श्रीअंबिकादेवतानिमित्तं०) अंबानिहितडिंबामे सिद्धबुद्धसमन्विता सितेसिंहेस्थितागौरी वितनोतुसमीहितं ॥ १० ॥ (ततः श्री पद्मावतीदेवतानिमित्तं०) धराधिपतिपत्नीया देवीपद्मावतीसदा कुद्रोपद्रवतःसामां पातुफुल्लत्फणावली ॥ ११ ॥ (ततः श्रीचक्रेश्वरीदेवतानि०) चंचच्चक्रधराचारु प्रवालदलसन्निभा चिरंचक्रेश्वरीदेवी नंदतानिवताच्चमां ॥ १२ ॥ (ततः श्रीअच्छुप्तादेवतानि०) खड्गखेटककोदंड बाणपाणिस्तडिद्युतिः तुरंगगमनाच्छुप्ता कल्याणानिकरोतुमे ॥ १३ ॥ (ततः श्रीकुबेरदेवतानि०) मथुरापुरीसुपार्श्व श्री पार्श्वस्तूपरक्षका श्रीकुबेरानगरारूढा सुतांकावतुवोभयात् ॥ १४ ॥

(ततः श्रीब्रह्मदेवतानिमित्तं करेमि) ब्रह्मशांतिसमांपाया दपाया द्वीरसेवकः श्रीमत्सत्यपुरेसत्या येनकीर्त्तिःकृतानिजः ॥ १ ५ ॥ (ततः श्रीगोत्रदेवतानिमि०) यागोत्रंपालयत्येव सकलापायतःस- दा श्रीगोत्रदेवतारक्षां शंकरोतुनतांगिरां ॥ १ ६ ॥ (ततः श्रीशक्रा दिसमस्तदेवतानिमि०) श्रीशक्रप्रमुखायक्षा जिनशासनसंस्थिताः देवादेव्यस्तदन्येपि संघरक्षंत्वपायतः ॥ १ ७ ॥ (ततः श्रीसिद्धायि का श्रीशासनदेवतानि० च्यारलोगस्सको काउस्सग्गकर स्तुति कहे) श्रीमद्विमानमारूढा यक्षमातंगसेविता सामांसिद्धायिकापातु चक्रेचापेषुधारणी ॥ १ ८ ॥ लोगस्स कहके बेठे चैत्यवं० नमोत्थु० जयवीयराय पर्यंत कहै ॥ इस तरै १ ८ स्तुतिसे देववांदण विधि॥

॥ अथ मंडल प्रतिष्ठा विधिः ॥

॥ प्रथम दोनों तरफ मोली सूत्रकी वत्ती जगाके घृतका दी पक करै. इन दोनों दीपकको चार प्रहर अखंड रखै (पीछै) सो ने चांदी वगेरे के कलसमें अबोटजल भरके सोनवाणी करै, हाथमें कलस लेके सात नवकार गुणे.॥ ॐ ह्रीं जीरावलापार्श्वनाथरक्षांकुरु२ स्वाहा॥ इस मंत्रसें सात वेर जलको मंत्रके मंडलजीके च्यारों तर फ धारा देवे, ऊपर जरा छींटा देकर पवि करै, धूपखेवै (पीछै) नवतारी मोलीसूत्रका साढातीन आंटा मंडलजीके बाहर करदेवे, पूर्वोक्त मंत्रसें मंत्रके मोली तथा मंडल मरोडाफली चारुं तरफ बांधे (पीछै) केसरकी कटोरी हाथमें लेके॥ ॐ आँ ह्रीं श्रीं अर्हतेनमः॥ इस मंत्रसें मंत्रके मंडलके ऊपर केसरका छींटा देवे (ऊपर) चा वलोंको साथियो करै, टीकीदेवे, मंडलके अगाडी साथिया चाव लोंका वा नंद्यावर्त्त करके नालेर रुपिया ऊपर भेट धरै. (पीछै) केशरचंदन लेकर मंडलजीके चारों तरफ तीन रेखा आलेखन क रै.॥ (पीछै) वासक्षेप पुष्प हाथमें लेके ॥ ॐ भूरसीभूतधात्रीविश्वा

धारैनमः ॥ इस मंत्रसें सात वेर मंत्रके मंमलभूमि तथा पीठकी पूजा करै, फेर आचार्यगुरु वासक्षेप हाथमें लेके ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्ह त्पीठायनमः ॥ इस मंत्रसें सात वेर मंत्रके मंमलपीठकी पूजा करे (पीछै) स्नात्रिया हाथमें पुष्प चावल ले लेके तीन वेर मंमल कों वधावे. नीचे चावलोंका साथिया करके रुपिया नालेर थापना कों धरे (पीछे) स्नात्रिया मंदरके भीतरसें प्रतिमाजी लायके त्रि गमेके सिंहासण पर मंत्र पढके थापन करै. (स्थापनमंत्र) ॥ ॐन मोअर्हत्परमेश्वराय चतुर्मुखायपरमेष्ठिने दिग्कुमरीपरिपूजिताय च तुषष्टिसुरासुरेंद्रसेविताय देवाधिदेवाय त्रैलोक्यमहिताय अत्रपीठेति ष्ठ२ स्वाहाः ॥ इस मंत्रको ७ वेर पढके नव प्रतिमा वा एक प्रतिमा स्थापन करै इस तरे मंमलप्रतिष्टा करके पीछै सिद्धचक्रपूजा सरू करै ॥

॥ अथ सिद्धचक्र पूजा ॥

॥ प्रथम एक रकेबीमें सपेद गोटा, सपेद वस्त्र, सपेद धजा, ८ कर्केतनरत्न, ३४ हीरा, पुष्प अक्षत फल नैवद्य दीप धूप हाथ-में ले के अरिहंतपदकी पूजा पढै (यथा) अथाष्टदलमध्याब्ज क-र्णिकायांजिनेश्वरान् आविर्भूतोल्लसद्बोधा नात्रतःस्थापयाम्यहं ॥ ॥ १ ॥ निःशेषदोषेंधनधूमकेतुः नपारसंसारसमुद्रसेतून् यजेसमस्ता तिशयैकहेतून् श्रीमज्जिनानांबुजकर्णिकायां ॥ २ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्ह द्भयोनमः स्वाहा (इस मंत्रकूं बोलके अर्हत्पदकी पुजा करै. अपने२ जगे सर्व द्रव्य चढावै. पीछै रकेबीमें लालगोटा, लालधजा लालव स्त्र, ८ माणकरत्न, ३१ मूंगा, अष्ट द्रव्य लेके सिद्धपूजा पढै (यथा) तस्यपुर्वदले सिद्धान सम्यक्त्वादिगुणात्मकान् निःश्रेयसंपदंप्राप्तान् नि द्धेनक्तिनिर्भरः ॥ ३ ॥ तत्पूर्वपत्रे गतितःप्रणष्टः दुष्टाष्टकर्मामधिग म्यशुद्धि प्राप्तान्परान्सिद्धिमनंतबोधान् सिद्धान्यजेशांतिकरान्नराणां ॥४॥ ॐ ह्रीं श्रीं सिद्धेभ्योनमः स्वाहा (पूर्व दिसकी तरफ सिद्धपदकी

पूजा करै. सर्व द्रव्य चढावै इति ॥ (पीछै) एकेबीमें पीला गोटा, पीली धजा, पीलावस्त्र, ५ गोमेदकरत्न, ३६ सोनेकाफूल, जलादि सर्व द्रव्य ले के पूजा पढै (यथा) स्थापयामिततःसूरीन् दक्षिणस्मिन्दलेमले चरतःपंचधाचारान् षट्त्रिंसद्गुणैर्युतान् ॥ ५ ॥ सूरीसदाचारविचारसारा नाचारयंतः स्वपरान्यथेष्टं उग्रोपसर्गैकानिवारणार्थं मभ्यर्च्चयाम्यक्ततगंधधूपैः॥६॥ ॐ ह्रीँ श्रीँ सूरीभ्योनमः स्वाहा (दक्षिणदिसकी तरफ आचार्य थापना पूजा करै इति ॥ पीछै) हरागोटा, हरीधजा, हरवस्त्र, मूंगकालड्डु, ४ इंद्रनील, २५ मरकतपन्ना, सर्व द्रव्य लेके खमा रहे. उपाध्याय पद पूजा पढै (यथा) द्वादशांगश्रुताधारान् शास्त्राध्ययनतत्परान् निवेशयाम्युपाध्यायान् पवित्रेपश्चिमेदले ॥ ७ ॥ श्रीधर्मशास्त्राणवनिशंप्रशांत्यै पठंतियेन्यान्यपिपाठयंति अध्यापकस्तांनपराब्जपत्रे स्थितान्पवित्रान्परिपूजयामि ॥ ८ ॥ ॐ ह्रीँ श्रीँ उपाध्यायेभ्योनमः स्वाहा (पश्चिमदिशाकी तरफ उपाध्यायपदकी थापना पूजा करै इति ॥ पीछै) स्यामगोटा, स्यामवस्त्र, स्यामधजा, उरूदकालड्डु, ५ राजपट्ट, २७ अरिष्टरत्न, जलादि सर्व द्रव्य ले के साधूपदकी पूजा पढै (यथा) व्याख्यादिकर्मकुर्वाणान् शुभ्रध्यानैकमानसान् उदकपत्रगतान्वारान् साधुवासीससुव्रतान् ॥ ९ ॥ वैराग्यमंतर्वचसिप्रसिद्धं सत्यंतपोद्वादशधाशरीरे येषामुदक्यवगतानसुकृतान्पवित्रान् साधून्सदातान्परिपूजयामि ॥ १० ॥ ॐ ह्रीँ श्रीँ सर्वसाधुभ्योनमः स्वाहा ॥ ५॥ (उत्तरदिसाकी तरफ साधूपदकी थापना पूजा करै इति ॥ पीछै) सपेदगोटा, सपेदधजा, सपेदवस्त्र, ६७ मोती, सर्व द्रव्य हाथमे ले के खमा रहे काव्य पढै (यथा) जिनेंद्रोक्तमनश्रद्धा, लक्षणेदर्शनेयजे ॥ मिथ्यात्वमथनंशुद्धं, न्यस्तमीशानसद्दले ॥ ११ ॥ ॐ ह्रीँ श्रीँ सम्यग्दर्शनायनमः स्वाहाः (ईशानकूणमें दर्शनपदको

ापनापूजा करै इति ॥ पीछे) ५१ मोती, श्वेतगोटा, श्वेतधजा, ेतवस्त्र, चावलोंकालड्डु, आदि सर्व द्रव्य ले खड़ा रहै ॥ काव्य ढै (यथा) मशेषद्रव्यपर्याय, रूपमेवावभासकं ॥ ज्ञानमाग्नेयप त्रस्थं पूजयामिहितावहं ॥ १२ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं सम्यग्ज्ञानायनमः स्वाहा ॥ ७ ॥ (अग्निकूणकी तरफ ज्ञानपदकी थापना पूजा करै॥ इति ॥) फेर) रकेबीमें ७० मोती, स्वेतगोटा, स्वेतधजा, स्वे तवस्त्रादि सर्व द्रव्य ले के खड़ा रहे. काव्य पढै (यथा) सामायि कादिभिर्भेदै, श्चारित्रंचारुपंचधा ॥ संस्थापयामिपूजार्थं, पत्रेहनैरु तेक्रमात् ॥ १३ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं सम्यग्चारित्रायनमः स्वाहा (नैरु तकूणकी तरफ चारित्रपदकी थापना पूजा करै इति ॥ ८ ॥) पीछे) रकेबीमें ५० मोती, श्वेतगोटा, श्वेतधजा वस्त्रादि सर्व द्रव्य लेके काव्य पढै (यथा) द्विधाद्वादशधाभिन्नं, पूतेपत्रतपस्व यं ॥ निधाययामिवक्त्यात्र, वायव्यांदिशिशर्मदं ॥ १४ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं सम्यग्तपसेनमः स्वाहाः (वायव्यकूणकी तरफ तपपदकी था पनापूजा करै इति ॥ अथअर्घ) निःस्वेदत्वादिदिव्यातिशयम यतनन्श्रीजिनेंद्रान्सुसिद्धान्, सम्यक्तादिप्रकृष्टाष्टकगुणभृदाचार साराश्चसूरीन् ॥ शास्त्राणिप्राणिरक्षाप्रवचनरचनासुंदराण्यादिसंज्ञां स्तत्सिद्धचैपाठकानांयतिपतिसहिता नर्चयाम्यर्घदानै ॥ १५ ॥ इत्थं अष्टदलंपद्मं, पूरयेदर्हदादिभिः ॥ स्वाहांतैप्रणवाद्यश्च, पदैर्विघ्ननिवृत्त ये ॥ १६ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं असिआउसा सम्यग्दर्शन ज्ञान चा रित्र तपसेभ्यो ह्रीं श्रीं अर्हं परमेष्टिन परमनाथ परमदेवाधिदेव परमार्हन् परमानंतचतुष्टय परमात्मनेतुभ्यंनमः (इति मूलमंत्र) इति सिद्धचक्र प्रथम वलय पूजा ॥

॥ अथ द्वितीय वलय पूजा ॥

पहिले वलयमें एक तो बीचमें च्यार दिशिमें च्यार विदि

सोमे एसें अटदल कमलके आकार नव कोठे मंम्डलके मध्य न्नाग में होय ज्ञनोकी पूर्वोक्त प्रकार पूजा करावे (पीछे) दूसरे वलयमें चूम्गीके आकार १६ कोठा होय (जिसमें) एकेक कोठाके अनंतर आठ कोठोमें अवर्गादि आठ वर्ग स्थापन करे (और) एकेक कोठा वीचमें खाली रहा है जसमें अनाहतपद ॐ ह्रीं णमो अरिहंताणं) एसा पद स्थापन करे (पीछे) एक रकेवीमें मिश्री लवंग (तथा) एक रकेवीमें मोटी दाखां ले के खमा रहे. अनाहत पदमें मिश्री लवंग चढावे ओर आठ वर्गमें दाखां चढावे (यथा) (ॐ ह्रीं णमो अरिहंताणं) मिश्री लोंग चढाणा ॥ अ आ इ ई ज ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ ए ऐ ओ औ अं अः (ॐ ह्रीं स्वर वर्गायनमः) (इहां) १६ दाख चढावे २ (ॐ ह्रीं णमोअरिहंताणं) मिश्री लोंग ३ क ख ग घ ङ (ॐ ह्रीं व्यंजनकवर्गायनमः) १६ दाख चढावे ४ (ॐ ह्रीं णमोअरिहंताणं) ५ च छ ज झ ञ (ॐ ह्रीं चवर्गायनमः ॥ ६ (ॐ ह्रीं णमोअरिहंताणं) ७ ट ठ ड ढ ण (ॐ ह्रीं टवर्गायनमः) ८ (ॐ ह्रीं णमोअरिहंताणं) ९ त थ द ध न (ॐ ह्रीं तवर्गायनमः) १० (ॐ ह्रीं णमोअरिहंताणं) ११ प फ ब भ म (ॐ ह्रीं पवर्गायनमः) १२ (ॐ ह्रीं णमोअरिहंताणं) १३ य र ल व (ॐ ह्रीं यवर्गायनमः) १४ (ॐ ह्रीं णमो अरिहंताणं) १५ श ष स ह (ॐ ह्रीं शवर्गायनमः) १६ पहिले अ वर्गसे प वर्ग तक वर्ग प्रति सोले२ दाख चढावे सब ९६ (जर) य र ल व १ श ष स ह २ इण दो वर्गोमें ६४ चोसठ दाख चढावे इति ॥ दूसरा वलय पूजा ॥ २ ॥

॥ (अब तीसरा वलयमें) चार दिशा चार विदिशिमें आठ परमेष्टिपद स्थापन निमित्त आठ कोठा करे इस आठ कोठाके बीच२में वलाका तीन२ देवे तीनुं वलाकामे २४ खाना होय एके

के खानेमें २ दोय २ दोय लब्धिपद स्थापन करणेसें चोवीस घरों में ४८ लब्धिपद होय स्थापन कर पूजन करणा ॥

॥ अथ लब्धिपद पूजनविधि ॥

आठ परमेष्टीपदमें (ॐ ह्रीं परमेष्ठिनेनमः स्वाहा) एसा ८ वेर कहके ८ बीजोरा चढावे. उर लब्धिपदका नाम बोलके खारका ४८ चढावे (यथा) ॐ ह्रीं अर्हंणमोजिणाणं ॥ १ ॥ ॐ ह्रीं अर्हंणमोउहिजिणाणं ॥ २ ॥ ॐ ह्रीं अर्हंणमोपरमोहिजिणाणं ॥ ॥ ३ ॥ ॐ ह्रीं अर्हंणमोसव्वोहिजिणाणं ॥ ४ ॥ ॐ ह्रींअर्हंणमोअणंतोहिजिणाणं ॥ ५ ॥ ॐ ह्रींअर्हंणमोकुट्ठबुद्धीणं ॥ ६ ॥ ॐ ह्रीं अर्हंणमोबीयबुद्धीणं ॥ ७ ॥ ॐ ह्रींअर्हंणमोपयाणुसारीणं ॥ ८ ॥ ॐ ह्रींअर्हंणमोआसीविसाणं ॥ ९ ॥ ॐ ह्रींअर्हंणमोदिठिविसाणं ॥ ॥ १० ॥ ॐ ह्रींअर्हंणमोसंभिन्नसोयाणं ॥ ११ ॥ ॐ ह्रींअर्हंणमोसयंसंबुद्धाणं ॥ १२ ॥ ॐह्रींअर्हंणमोपत्तेयबुद्धाणं ॥ १३ ॥ ॐह्रींअर्हंणमोबोहिबुद्धीणं ॥ १४ ॥ ॐह्रींअर्हंणमोउज्जुमईणं ॥ १५ ॥ ॐह्रींअर्हंणमोविउलमईणं ॥ १६ ॥ ॐह्रींअर्हंणमोदसपूवीणं॥ १७॥ ॐह्रींअर्हंणमोचउद्दसपूवीणं ॥ १८ ॥ ॐह्रींअर्हंणमोअठंगनिमत्तकुसलाणं ॥ १९ ॥ ॐह्रींअर्हंणमोविउव्वणइढिपत्ताणं ॥ २० ॥ ॐह्रीं अर्हंणमोविज्जाहराणं ॥ २१ ॥ ॐह्रींअर्हंणमोचारणलद्धीणं ॥ २२ ॥ ॐह्रींअर्हंणमोपण्हसमणाणं ॥ २३ ॥ ॐह्रींअर्हंणमोआगासगामीणं ॥ २४ ॥ ॐह्रींअर्हंणमोखीरासवेणं ॥ २५ ॥ ॐह्रींअर्हंणमोसप्पियासवाणं ॥२६॥ ॐह्रींअर्हंणमोमहुआसवाणं ॥ २७ ॥ ॐह्रींअर्हंणमोअमियासवाणं ॥ २८ ॥ ॐह्रींअर्हंणमोसिद्धायणाणं ॥२९॥ ॐह्रींअर्हंणमोभयवयामहाइमहावीरवद्धमाणबुद्धरिसीणं ॥ ३० ॥ ॐह्रींअर्हंणमोउगातवाणं ॥ ३१ ॥ ॐह्रींअर्हंणमोअखीणमहाणसियाणं ॥ ३२ ॥ ॐह्रींअर्हंणमोवद्धमाणाणं ॥ ३३ ॥ ॐह्रींअर्हंण

मोदित्ततवाणं ॥ ३४ ॥ ॐ ह्रीँ अर्हं णमोतत्ततवाणं ॥ ३५ ॥ ॐ ह्रीँ अर्हं णमोमहातवाणं ॥ ३६ ॥ ॐ ह्रीँ अर्हं णमोघोरतवाणं ॥ ३७ ॥ ॐ ह्रीँ अर्हं णमोगोरगुणाणं ॥ ३८ ॥ ॐ ह्रीँ अर्हं णमोघोरपरिक्कमाणं ॥ ३९ ॥ ॐ ह्रीँ अर्हं णमोघोरबंभयारीणं ॥ ४० ॥ ॐ ह्रीँ अर्हं णमोआमोसहिपत्ताणं ॥ ४१ ॥ ॐ ह्रीँ अर्हं णमोखेलोसहिपत्ताणं ॥ ४२ ॥ ॐ ह्रीँ अर्हं णमोजल्लोसहिपत्ताणं ॥ ४३ ॥ ॐ ह्रीँ अर्हं णमोविप्पोसहिपत्ताणं ॥ ॥ ४४ ॥ ॐ ह्रीँ अर्हं णमोसव्वोसहिपत्ताणं ॥ ४५ ॥ ॐ ह्रीँ अर्हं णमोमणवलीणं ॥ ४६ ॥ ॐ ह्रीँ अर्हं णमोवयणवलीणं ॥ ४७ ॥ ॐ ह्रीँ अर्हं णमोकायवलीणं ॥ ४८ ॥ ॐ ह्रीँ अर्हं अष्टचाललब्धिपदेभ्योनमः ॥ इस तरे लब्धिपदका नाम बोलर के तीजे चोथे पांचमें वलयमें ४८ खारका चढावे ॥ (पीछे) मंडलजीके गलेमें ह्रींकारजी स्थापन किया हे (जहांसे) साढातीन नवलाका मंडलजीके चोतरफ देके नीचे (क्रों) एसा अक्षर लिखा हे (जिसके) प्रथम वलयमें आठे दिशायें आठ गुरुपादका स्थापन करके ८ आठ दाडिमफल चढाव (यथा) ॐ ह्रीँ अर्हत्पादुकाभ्योनमः ॥ १ ॥ अनारचढावै ॥ ॐ ह्रीँ सिद्धपादुकाभ्योनमः ॥ २ ॥ ॐ ह्रीं आचार्यपादुकाभ्योनमः ॥ ३ ॥ ॐ ह्रीं गुरुपादुकाभ्योनमः ॥ ४ ॥ ॐ ह्रीं परमगुरुपादुकाभ्योनमः ॥ ॥ ५ ॥ ॐ ह्रीं अदृष्टगुरुपादुकाभ्योनमः ॥ ६ ॥ ॐ ह्रीँ अनंतगुरुपादुकाभ्योनमः ॥ ७ ॥ ॐ ह्रीं अनंतानंतगुरुपादुकाभ्योनमः ॥ ८ ॥ ॐ ह्रीं अष्टगुरुपादुकाभ्योनमः स्वाहाः ॥ इस तरे छठे वलयमें ८ दाडम चढावै (पीछे) सातमा वलयमें आठों दिसमें जयादिक ८ देवीको स्थापन करके ८ नारंगी चढावे (यथा) ॐ ह्रीं जयायैनमः स्वाहा ॥ १ ॥ ॐ ह्रीँ जंभायैनमः स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ ह्रीं विजयायैनमः स्वाहा ॥ ३ ॥ ॐ ह्रीं थंभायैनमः स्वाहा ॥ ४ ॥ ॐ ह्रीँ जयंत्यैनमः स्वाहा ॥ ५ ॥ ॐ ह्रीं मोहायैनमः स्वाहा ॥ ६ ॥ ॐ ह्रीं अपराजिता

यैनमः स्वाहा ॥ ७ ॥ ॐह्रींअंधायैनमः स्वाहा ॥ ८ ॥ (इसी तरे) सातमें वलयमें ८ नारंगी चढावै (पीछै) आठमें वलयमें १६ विद्यादेवीयोकी स्थापना करके चांदीके वर्ग लपेटी १६ सुपारी चढावै (यथा) ॐह्रींरोहएयैनमः ॥ १॥ ॐह्रींप्रज्ञसैनमः॥२॥ ॐह्रींवज्रशृंखलायैनमः ॥ ३ ॥ ॐह्रींवज्रांकुशायैनमः॥ ४ ॥ ॐह्रींचक्रेश्वर्यैनमः ॥ ५ ॥ ॐह्रींपुरुषदत्तायैनमः ॥ ६ ॥ ॐह्रीकाल्यैनमः ॥ ७ ॥ ॐह्रींमाहाकाल्यैनमः ॥ ८ ॥ ॐह्रीगौर्यैनमः ॥ ९ ॥ ॐह्रींगंधार्यैनमः ॥ १० ॥ ॐह्रींसर्वास्त्रमहाज्वालायैनमः ॥ ११ ॥ ॐह्रींमानव्यैनमः॥ १२ ॥ ॐह्रींवैरोट्यायनमः ॥ १३ ॥ ॐह्रींअछुप्तायैनमः ॥ १४ ॥ ॐह्रीमानस्यैनमः ॥ १५ ॥ ॐह्रींमाहामानस्यैनमः ॥ १६ ॥ इस तरे आठमा वलयकी बोलके वरक समेत सुपारी चढा के पूजा करे पीछै नवमें वलयके वायें तरफ शासनदेवीयां ॥ २४ की थापना कर पूजा करै ॥ २४ पूंगीफल चढावै (यथा) ॐचक्रेश्वर्यैनमः॥१॥ ॐअजितवलायैनमः ॥ २ ॥ ॐदुरितायैनमः ॥ ३ ॥ ॐकाल्येनमः ॥४॥ ॐमहाकाल्यैनमः ॥५॥ ॐश्यामायैनमः ॥६॥ ॐशांतायैनमः ॥७॥ ॐभृकुटियैनमः ॥८॥ ॐसुतारकायैनमः ॥९॥ ॐअशोकायैनमः ॥ १० ॥ ॐमानव्यैनमः ॥ ११ ॥ ॐचंडायैनमः॥ १२ ॥ ॐविदितायैनमः ॥ १३ ॥ ॐअंकुशायैनमः ॥ १४ ॥ ॐकंदर्पायचैनमः ॥ १५ ॥ ॐनिर्वाणयैनमः ॥ १६ ॥ ॐवलायैनमः ॥ १७ ॥ ॐधारणयैनमः ॥ १८ ॥ ॐधरणप्रियायैनमः ॥ १९ ॥ ॐनरदत्तायैनमः ॥ २० ॥ ॐगांधार्यैनमः ॥ २१ ॥ ॐअंबिकायैनमः ॥ २२ ॥ पद्मावत्यैनमः ॥ २३ ॥ ॐसिद्धायिकायैनमः ॥ २४ ॥ इति ॥ दहिणे तरफ २४ यक्षराजकी स्थापना करै वरकलपेटी २४ सुपारी चढावें॥ (यथा) ॐब्रह्मशांतयेनमः ॥ २४ ॥ ॐपार्श्वायनमः ॥ २३ ॥ ॐगो

मेधायनमः ॥ २२ ॥ ॐनृकुटयैनम ॥ २१ ॥ ॐवरुणायनमः ॥ २० ॥ ॐकुबेरायनमः ॥ १ए ॥ ॐयक्षराजायनमः ॥ १७ ॥ ॐगंधर्वायनमः ॥ १७ ॥ ॐगरुमायनमः ॥१६॥ ॐकिन्नरायनमः ॥१५॥ ॐपातालायनमः ॥ १४ ॥ ॐपद्मुखायनमः ॥ १३ ॥ ॐकुमाराय नमः ॥ १२ ॥ ॐयक्षराजायनमः ॥ ११ ॥ ब्रह्मणेनमः ॥ १० ॥ ॐअजितायमः ॥ ए ॥ ॐविजयायैनमः ॥ ७ ॥ ॐमातंगायनमः ॥ ७ ॥ ॐकुसुमायनमः ॥ ६ ॥ ॐतुंबुरुयैनमः ॥५॥ ॐयक्षनायकायनमः ॥ ४ ॥ ॐत्रिमुखायनमः ॥३॥ ॐमहायक्षायनमः ॥२॥ ॐगोमुखायनमः ॥ १ ॥ इति ॥ पीछे चार दिशामें ४ द्वारपालकी थापना कर के पीला बलवाकुल चढावे (यथा) ॐकुमुदायनमः ॥१॥ पूर्वदिशि ॥ ॐअंजनायनमः ॥२॥ दक्षिणदिशि ॥ ॐवामनाय नमः ॥ ३ ॥ पश्चिमदिशि ॥ ॐपुष्पदंतायनमः ॥४॥ उत्तरदिशि ॥ पीछे चार विदिसकी तरफ च्यार वीरपदमें काले बलवाकुल चढावै (यथा) ॐमाणजद्रायनमः ॥ १ ॥ ॐपूर्णजद्रायनमः ॥ २ ॥ ॐकपिलायनमः ॥ ३ ॥ ॐपिंगलायनमः ॥ ४ ॥ (इस तरे दसमें वलयमें आठु दिशामें ४ द्वारपाल ४ वीर स्थापन करै पीछे पूर्ण कलसके आकार ऊपरसें कियाजया सिद्धचक्रजीके गलेके ठिकाणे ठिकाणे नवनिधान पढै. तब सोने चांदीके कलसादिकोमें यथाशक्ति रोकनाणा मालके स्थापन करै) (यथा) ॐनैसर्प्पकायनमः ॥ १ ॥ ॐपांडुकायनमः ॥ २ ॥ ॐपिंगलायनमः ॥३॥ ॐसर्वरत्नायनमः ॥ ४ ॥ ॐमहापद्मायनमः ॥ ५ ॥ ॐकालायनमः ॥ ६ ॥ ॐमहाकालायनमः ॥ ७ ॥ ॐमाणवायनमः ॥ ७ ॥ ॐशंखायनमः ॥ ए ॥ (इस तरे मुखस्थानकपदे ए कलस स्थापन करै ॥ पीछे कोहलेका फल हाथमें ले के दक्षिणनेत्रके बराबर पासमें वंगलीका आकार किया है (जहां) ॐह्रींविमलस्वामिनेनमः १॥ एसा

करकेचढावे ॥ फेर कोइलाफल हाथमें ले के बांयेनेत्रके पास वंग लीमें (ॐक्षेत्रपालायनमः) एसा बोलके चढावे २ ॥ पीछे तीसरा कोइलाफल) हाथमें ले के नीचे पींडिके दक्षिणे तरफ वंगलीमें) ॐचक्रेश्वर्यैनमः (एसा बोलके चढावे ॥ ३ ॥ (पीछे) चौथा को इलाफल हाथमें ले के नीचे पींडके दांये तरफ वंगलीमें (ॐअप्र सिद्धसिद्धचक्राधिष्टायकायनमः) एसा बोलके चढावे ॥ ४ ॥ (पीछे दसूं दिशामें इंद्रादिक दस दिग्पालकी स्थापन करै. वणसकेतो अ पणा२ वर्ण मुजब वस्त्र नैवद्य पुष्पादि द्रव्य चढावे अथवा सर्वको एक द्रव्य सर्व समान चढावे (यथा) ॐइंद्रायनमः ॥ १ ॥ कनक वर्ण चंदन केसर चंपो द्राख पीलावस्त्र पांन सुपारी रोकद्रव्य आ दि सर्व द्रव्य चढावे १॥ (अग्निकूणे) ॐअग्नयेनमः ॥२॥ रक्तवर्ण का वस्त्रादिक द्रव्य चढावे ॥ २ ॥ (दक्षिणदिसि) ॐयमायनमः ॥ ३ ॥ काले वर्णका वस्त्रादि द्रव्य चढावे ॥ ३ ॥ (नैरुतकूणे) ॐनैरुतायनमः ॥ ४ ॥ धूसरवर्णका वस्त्रादिक द्रव्य चढावे (पश्चि मदिश) ॐवरुणायनमः ॥ धूसरवर्णका सर्व द्रव्य चढावे ५ (वा यव्यकूण) ॐवायवेनमः ॥ ६ ॥ नीलवर्णका वस्त्रादिक द्रव्य च ढावे ॥ ६ ॥ (उत्तरदिसि) ॐकुबेरायनमः ॥ ७ ॥ सपेदव र्णका वस्त्रादिक द्रव्य चढावे ॥ ७ ॥ (ईशानकूण) ॐईशाना यनमः ॥ ८ ॥ सपेदवर्णका वस्त्रादिक द्रव्य चढावे ॥ ८ ॥ (अधोदिसि) ॐनागायनमः ॥ ए ॥ सपेदवर्णका वस्त्रादिक द्रव्य चढावे ॥ ए ॥ (उर्ध्वदिशि) ॐब्रह्मणेनमः ॥ १० ॥ सपेदवर्णका वस्त्रादि सर्व द्रव्यं चढावे ॥ १० ॥ इस तरे दस दिग्पालका स्था पन पूजन करै ॥ (पीछे यंत्रके पींडीके स्थानक नव कोठा किया गया है जहां नवग्रहकी स्थापन पूजन करै (यथा) ॐसूर्यायनमः लालवर्णका वस्त्रादिक द्रव्य चढावे ॥ १ ॥ ॐसोमायनमः ॥ २ ॥

सपेदवर्णवस्त्रादिक द्रव्य चढावे ॥ २ ॥ ॐनोमायनमः ॥ ३ ॥ लाल रंगवस्त्रादिक द्रव्य चढावे ॥ ३ ॥ ॐबुधायनमः ॥ ४ ॥ मूंगरंग का वस्त्रादि द्रव्य चढावे ॥ ४ ॥ ॐबृहस्पतयेनमः ॥ ५ ॥ पीलेवर्ण वस्त्रादिक द्रव्य चढावे ॥ ५ ॥ ॐशुक्रायनमः ॥६॥ सपेदवर्णनंदोल वस्त्रादिक द्रव्य चढावे ॥ ६ ॥ ॐशनैश्चरायनमः ॥ ७ ॥ नीलेरंग का वस्त्रादिक द्रव्य चढावे ॥ ७ ॥ ॐराहवेनमः ॥ ८ ॥ कालेरंग का वस्त्रादि द्रव्य चढावे ॥ ८ ॥ ॐकेतवेनमः ॥ ए ॥ ईंटरंग वस्त्रादि द्रव्य चढावै ॥ ए ॥ इस तरे नीचै नवग्रहकी स्थापनपूजा करे. पीछे स्नात्र नवपदजीकी पूजा पढावे चैत्यवंदन कर थुइ कहकर नवपद स्तवन कहे ॥ पीछे गुरु पास आकर ज्ञानपूजा कर वासक्षेप लेवे ॥ गुरुपूजा वस्त्रपात्रसें करे पीछे यथाशक्ति साधर्मी वात्सल्य करे ॥ इति मंडल पूजनविधि ॥ जाणना चाहिये (जब) कोइ श्रीमंत उलीकी तपस्या करे तब तो छए महीने मंडल पूजा विस्तार विधीसे करता रहे ॥ ४ ॥ वरसे तप पूरण हुये बाद उत्सव के साथ मंडलपूजा कराके नव२ उपगरणोसें उद्यापन करे. जलजात्रादि अठाईमहोत्सव कर धर्मशालासिणगारे (फेर) देवका देवखाते, ज्ञानका ज्ञानखाते, गुरुका गुरूखाते चढावे. रूढिरहित भावसें यथाशक्ति रोकद्रव्य चढावे (उर) पंचायती संघकी तरफसें मंगलीकके वास्ते मंडलपूजादिक नवपदपूजा अवश्य विधिसंयुक्त करता रहे ॥ इतिउद्यापनविधि ॥

॥ अथ सर्व तपस्याविधि लिख्यते ॥

॥ अथ सत्तर सो को गुणनो लिख्यते ॥

॥ अथ जंबूद्वीपमें प्रथम महाविदेहे जिननामकी प्रथम पंक्ती ॥ १ ॥

जयदेवस्वामीसर्वज्ञायनमः ॥ १ ॥ करणाभद्रस्वामीसर्वज्ञायनमः ॥ २ ॥ श्रीलक्ष्मीनाथसर्वज्ञा० ॥ ३ ॥ श्रीअनंतनाथसर्वज्ञा

यनमः ॥ ४ ॥ श्रीगंगाधरसर्वज्ञायनमः ॥ ५ ॥ श्रीविशालचंद्रसर्व ज्ञा० ॥ ६ ॥ प्रियंकरनाथसर्वज्ञा० ॥ ७ ॥ अमारिदत्तसर्वज्ञा० ॥ ॥ ८ ॥ श्रीकृष्णनाथसर्वज्ञा० ॥ ए ॥ श्रीगुणगुप्तसर्वज्ञा० ॥ १० ॥ श्रीपद्मनाभसर्वज्ञा० ॥ ११ ॥ श्रीजलंधरस्वामिसर्वज्ञा० ॥ १२ ॥ श्रीयुगादित्यसर्वज्ञायनमः ॥ १३ ॥ श्रीवरदत्तसर्वज्ञा० ॥ १४ ॥ श्रीचंद्रकेतुसर्वज्ञाय० ॥ १५ ॥ श्रीमहाकायसर्वज्ञा० ॥ १६ ॥ श्री अमरकेतुसर्वज्ञा० ॥ १७ ॥ श्रीअरण्यवाससर्वज्ञायनमः ॥ १८ ॥ श्रीहरिहरसर्वज्ञायनमः ॥ १ए ॥ रतमेंद्रनाथसर्वज्ञा० ॥ २० ॥ श्रीशांतिकृतसर्वज्ञा० ॥ २१ ॥ अनंतकृतसर्वज्ञा० ॥ २२ ॥ गजेंद्र प्रभसर्वज्ञाय० ॥ २३ ॥ सागरचंद्रसर्वज्ञा० ॥ २४ ॥ महेश्वरदत्त सर्वज्ञा० ॥ २५ ॥ लक्ष्मीचंद्रसर्वज्ञा० ॥ २६ ॥ रुपभनाथसर्वज्ञा० ॥ २७ ॥ सोमकांतसर्वज्ञाय० ॥ २८ ॥ नेमिचन्द्रसर्वज्ञा० ॥ २ए ॥ अजितचन्द्रसर्वज्ञा० ॥ ३० ॥ महीधरसर्वज्ञा० ॥ ३१ ॥ श्रीराजे श्वरसर्वज्ञायनमः ॥ ३२ ॥

॥ अथ धातकीखंडे प्रथम महाविदेहे जिननामानि ॥ २ पंक्ती ॥

वीरचंद्रसर्वज्ञा० ॥ १ ॥ वज्रसेनसर्वज्ञा० ॥ २ ॥ नीलकांति सर्वज्ञा० ॥ ३ ॥ पूंजकेसीसर्वज्ञा० ॥ ४ ॥ रुग्मिकसर्वज्ञायनमः ॥ ॥ ५ ॥ खेमंकरसर्वज्ञा० ॥ ६ ॥ मृगांकनाथसर्व० ॥ ७ ॥ मुनिमू र्त्तिसर्वज्ञा० ॥ ८ ॥ विमलनाथसर्वज्ञा० ॥ ए ॥ आगमिकसर्वज्ञा० ॥ १० ॥ इुक्तिनाथसर्वज्ञा० ॥ ११ ॥ वसुधाधिपसर्वज्ञा० ॥ १२ ॥ महल्लनाथसर्वज्ञाय० ॥ १३ ॥ वनदेवसर्वज्ञाय० ॥ १४ ॥ वर्द्धमृत सर्वज्ञाय० ॥ १५ ॥ अमृतवाहनसर्वज्ञा० ॥ १६ ॥ पूर्णमेंद्रसर्व ज्ञाय० ॥ १७ ॥ श्रीरेवांतिसर्वज्ञा० ॥ १८ ॥ श्रीकल्पशाकसर्वज्ञा० ॥ १ए ॥ श्रीनलनीदत्तसर्वज्ञा ॥ २० ॥ श्रीविद्यापतिसर्वज्ञा ॥ ० २१ ॥ श्रीसुपार्श्वनाथसर्वज्ञा० ॥ २२ ॥ श्रीभानुनाथसर्वज्ञाय०

॥ २३ ॥ श्रीप्रजनजणसर्वज्ञा० ॥ २४ ॥ श्रीविशिष्टसर्वज्ञा० २५॥ श्रीजलप्रजसर्वज्ञा० ॥ २६ ॥ श्रीमुनिचंद्रसर्वज्ञायनमः ॥ २७ ॥ श्रीरुषिपालसर्वज्ञा० ॥ २८ ॥ श्रीकुरुंगदत्तसर्व० ॥ २९ ॥ श्री वज्रधरसर्वज्ञा० ॥ ३० ॥ श्रीजूतानंदसर्वज्ञा० ॥ ३१ ॥ श्रीतीर्थेश्वरसर्वज्ञायनमः ॥ ३२ ॥

॥ ओली ३ धातकीखंडे महाविदेहे जिननामानि ॥

॥ धरमदत्तसर्वज्ञा० ॥ १ ॥ श्रीजूमिपतीसर्वज्ञा० ॥ २ ॥ श्रीमरुदत्तसर्वज्ञा० ॥ ३ ॥ श्रीसुमित्रनाथसर्वज्ञा० ॥ ४ ॥ श्रीषेण नाथसर्वज्ञा० ॥ ५ ॥ श्रीप्रज्ञानंदसर्वज्ञा० ॥ ६ ॥ श्रीपद्माकरसर्वज्ञा० ॥ ७ ॥ श्रीमहाघोषसर्वज्ञा० ॥ ८ ॥ श्रीचंद्रप्रजनाथसर्वज्ञा० ॥ ९ ॥ श्रीजूमिपालसर्वज्ञा०॥ १० ॥ श्रीसुमतिषेणसर्वज्ञा० ॥ ११ ॥ अतिच्युतसर्वज्ञाय० ॥ १२ ॥ श्रीललितांगसर्वज्ञा० ॥ १३ ॥ श्रीतीर्थजूतिसर्वज्ञा० ॥ १४ ॥ श्रीअरचंद्रसर्वज्ञा० ॥१५॥ श्रीसमाधिसर्वज्ञा० ॥ १६ ॥ श्रीमुनिचंद्रसर्वज्ञायनमः ॥ १७ ॥ श्रीमहेंद्रनाथसर्वज्ञा० ॥ १८ ॥ श्रीशशांकनाथसर्वज्ञा० ॥ १९ ॥ श्रीजगदीश्वर सर्व० ॥ २० ॥ श्रीदेवेंद्रनाथसर्वज्ञा० ॥ २१ ॥ श्रीगुणनाथसर्वज्ञा० ॥ २२ ॥ श्रीउद्योतनाथसर्वज्ञा० ॥ २३ ॥ श्रीनारायणनाथसर्वज्ञा० ॥ २४ ॥ श्रीकपिलनाथसर्वज्ञा० ॥ २५ ॥ श्रीप्रज्ञाकरसर्वज्ञा० ॥ २६ ॥ श्रीजिनदीक्षितसर्वज्ञा० ॥ २७ ॥ श्रीसकलनाथसर्वज्ञा० ॥ ॥ २८ ॥ श्रीशिलारनाथसर्वज्ञा० ॥ २९ ॥ श्रीवज्रधरसर्वज्ञा० ॥ ॥३०॥ श्रीसहस्त्रान्नसर्वज्ञा० ॥३१॥ श्रीअशोकनाथसर्वज्ञा० ॥३२॥

॥ ओली ४ ॥ पुष्करार्द्धप्रथममहाविदेहे जिननामानि ॥

॥ श्रीमेघवाहनसर्वज्ञा० ॥ १ ॥ श्रीजीविरुषिकसर्वज्ञा० ॥ ॥ २ ॥ श्रीमहापुरुषसर्वज्ञा० ॥ ३ ॥ श्री पापहरसर्वज्ञा० ॥ ४ ॥ श्रीमृगांकनाथसर्वज्ञा० ॥ ५ ॥ श्रीसूरसिंहसर्वज्ञा० ॥ ६ ॥ श्रीजगत्पूज्यसर्वज्ञा० ॥ ७ ॥ श्रीसुमतिनाथसर्वज्ञा० ॥ ८ ॥ श्रीमहाम

इंद्रनाथसर्वज्ञा० ॥ ९ ॥ श्रीअमरभूतिसर्वज्ञा० ॥ १० ॥ श्रीकुमार चंद्रसर्वज्ञा० ॥११॥ श्रीवीरषेणसर्वज्ञायनमः ॥ १२ ॥ श्रीरमणनाथ सर्वज्ञा० ॥ १३ ॥ श्रीस्वयंप्रभसर्वज्ञा० ॥ १४ ॥ श्रीअचलभद्रसर्व ज्ञा० ॥ १५ ॥ श्रीअमरकेतुसर्व० ॥ १६ ॥ श्रीसिद्धार्थसर्वज्ञाय० ॥ १७ ॥ श्रीसफलस्वामिसर्वज्ञा० ॥ १८ ॥ श्रीविजयदेवसर्वज्ञाय नमः ॥ १९ ॥ श्रीनरसिंहसर्वज्ञाय० २० ॥ श्रीशीतानंदसर्वज्ञाय० ॥ २१ ॥ श्रीवृंदारिकसर्वज्ञा० ॥ २२ ॥ श्रीचंद्रातपसर्वज्ञा० ॥२३॥ श्रीचंद्रगुप्तसर्वज्ञा० ॥ २३ ॥ श्रीदृढरथसर्वज्ञा० ॥ २४ ॥ श्रीमहा यशसर्वज्ञा० ॥ २५ ॥ श्रीअशोकनाथसर्वज्ञा०॥ २६ ॥ श्रीप्रद्युम्नना थसर्वज्ञा० ॥ २७ ॥ श्रीमहातेजसर्वज्ञायनमः ॥ २८ ॥ श्रीपुष्पकेतु सर्वज्ञायनमः ॥ २९ ॥ श्रीकामदेवसर्वज्ञा०॥ ३० ॥ श्रीसमतकेतुस र्वज्ञायनमः ॥ ३१ ॥

॥ ओली ५ ॥ पुष्करार्द्धे द्वितियेमहाविदेहे जिननामानि ॥

॥ प्रसन्नचंदसर्वज्ञा० ॥ १ ॥ महासेनसर्वज्ञा० ॥ २ ॥ वज्र नाभसर्वज्ञा० ॥ ३ ॥ सुवर्णबाहुसर्वज्ञा० ॥ ४ ॥ श्रीकूरचंद्रसर्व ज्ञा० ॥ ५ ॥ श्री वयवीर्यसर्वज्ञा० ॥ ६ ॥ श्रीविमलचंद्रसर्वज्ञा० ॥ ७ ॥ श्रीयसोधरसर्वज्ञा० ॥ ८ ॥ श्रीमहाबलसर्वज्ञा० ॥ ९ ॥ श्री वज्रसेनसर्वज्ञा० ॥ १० ॥ श्रीविमलबोधसर्वज्ञा० ॥ ११ ॥ श्रीभी मनाथर्वज्ञा० ॥ १२ ॥ श्रीमेरुभद्रसर्वज्ञा० ॥ १३ ॥ श्रीभद्रगुप्तसर्व ज्ञा० ॥ १४ ॥ श्रीसुढधसहस्रसर्वज्ञा० ॥ १५ ॥ श्रीसुव्रतनाथसर्व ज्ञा० ॥ १६ ॥ श्रीहरिचंद्रसर्वज्ञा० ॥ १७ ॥ श्रीप्रतिमाधरसर्वज्ञा० ॥ १८ ॥ श्रीअतिश्रेयसर्वज्ञा० ॥ १९ ॥ श्रीकनककेतुसर्वज्ञा० । ॥ २० ॥ श्रीअजितवीर्यसर्वज्ञा० ॥ २१ ॥ श्रीफलगुप्तनाथसर्वज्ञा० ॥ २२ ॥ श्रीब्रह्मभूतसर्वज्ञा० ॥ २३ ॥ श्रीहितकरसर्वज्ञा० । २४ ॥ श्रीवरुणदत्तसर्वज्ञा० ॥ २५ ॥ श्रीयशकीर्त्तिसर्वज्ञा० ॥२६।

नागेंद्रनाथसर्वज्ञा० ॥ २७ ॥ श्रीमहीधरसर्वज्ञा० ॥ २८ ॥ कृतब्र ह्मनाथसर्वज्ञा० ॥ २९ ॥ श्रीमहेंद्रनाथसर्वज्ञा० ॥ ३० ॥ श्रीवर्द्ध मांनसर्व० ॥ ३१ ॥ श्रीसुरेंद्रनाथसर्वज्ञा० ॥ ३२ ॥

॥ ओली ६ ॥ पांच भरत पांच एरवत जिननामानि ॥

(जंबुद्वीपेभरतक्षेत्रे जिननामानि) श्रीअजितनाथसर्वज्ञा० ॥ १ ॥ (धातकीखंडेप्रथमभरते०) सिद्धांतनाथसर्वज्ञायनमः ॥२॥ (धातकीखंडे द्वितियभरतेजिननांम) करणनाथसर्वज्ञायनमः ॥ ॥ ३ ॥ (पुष्करार्द्धेप्रथमभरतेजिननांम) प्रभासनाथसर्वज्ञा० ॥ ४ ॥ (पुष्करार्द्धेद्वितियभरतेजिननांमः) प्रभावकनाथसर्व०॥५॥ (जं-बूद्वीपेएरवतक्षेत्रेजिननांम) चंद्रनाथसर्वज्ञायनमः ॥ ६ ॥ (धात कीखंडेप्रथमएरवतेजि०) जयनाथसर्वज्ञायनमः ॥७॥ (धातकीखंडे द्वितियएरवते) पुष्पदंतसर्वज्ञायनमः ॥ ८ ॥ (पुष्करार्द्धेप्रथमएरव तेजिनना०) अभाह्निकसर्वज्ञाय०॥९॥(पुष्करार्द्धेद्वितियएरवतेजि०) श्रीवलिभद्रनाथसर्वज्ञायनमः ॥ १० ॥इति सत्तर सय तीर्थंकर तपका गुणना संपूर्ण ॥१६ स्यांम, ३० लाल, ३८ नीला, ३६ पीला, ५० श्वेत. सर्व संख्या १७० ॥

॥ अथ सत्तर सो जिन को स्तवन लिख्यते ॥

॥ दूहा ॥ स्वस्ति श्री दायक सदा, त्रैसलेय जिनचंद ॥ त-त्पद नामी कंधरा, कारण सिव सुखकंद ॥१॥ वाग्र्थकासरदातणो, नर धरि समरण शक्ति ॥ सत्युत्तर सत जिनतणी, रचस्युं नुति सु चि भक्ति ॥ २ ॥ वे जे द्वीप समस्तने, मध्यमेरु कनकाभ ॥ पूर्वापर भवि तेहनें, विजय नामको लाभ ॥ ३ ॥ मूलविजय वसु प्रतिदिशा, कथनामें युगतीस ॥ शीतोदा तरणीतणो, कारण वि श्वावीस ॥ ४ ॥ खंड धातकी दूसरो, द्वीप मनोहर तेह ॥ कंचन गिरि युग वे तिहां, मन धारो धर नेह ॥ ५ ॥ त्रयतम पुष्कर जां

णिये, द्वीप सकल गुणखांण ॥ अर्ध भाग जसु भरतमें, गिरि युग जलद समांन ॥ ६ ॥ भोभवि संख्या विजयनी, प्रति मेरौ बत्तीस ॥ धारो गणित अनुक्रमें, षष्ठयुत्तर शत ईस ॥ ७ ॥ एह अढाइ द्वीपनी, विजयतणो परिमांण ॥ काल चतुर्थ तिहां सदा, भाख्यो श्रीजिनभाण ॥ ८ ॥ जिण तीर्थंकर वारके, विचरया जे जिनरा य ॥ ते हूं प्रति विजये भणूं, आगमसुं चित लाय ॥ ए ॥ (ढाल पारणेकी) ॥ तिण काले ने तिण समे जी, तीर्थंकर महाराज ॥ अ जित जिनेसर राजता जी, तारण तरण जिहाज ॥ भविकजन घ रज्यो धर्म सनेह ॥ टेर ॥ १ ॥ अतिशय चौतीस संजुआ जी, वां णी गुण पैंतीस ॥ लोकालोक प्रकाशता जी, प्रणमत नर सुर ईस ॥ भ० ॥ २ ॥ एहवा श्रीजिन वारके जी, एकसो साठ जिनंद ॥ वि चरया महियल वोधता जी, विजय मझार सनंद ॥ भ० ॥ ३ ॥ पंच२ भरतैरवतैं जी, दशमित श्रीजिनराय ॥ विचरै जगजन ता रता जी, समरयां संपति थाय ॥ भ० ॥ ४ ॥ ए सत्तर सो जिन वरू जी, अतुल सकल गुणखांन ॥ श्यांमवरण सोले कह्या जी, अकल कला द्युतिवांन ॥ भ० ॥ ५ ॥ रक्ताकृति त्रिंशत कह्या जी, नीलवरण वसु तीस ॥ रवि जिम झलहल भाधरू जी, कनकवर ण वत्तीस ॥ भ० ॥ ६ ॥ रजत शुक्त पय जलकणा जी, सम सित विमल प्रकाश ॥ भविक चकोर प्रमोदता जी, शशि जिम जिन पच्चा स ॥ भ० ॥ ७ ॥ प्रति जिन व्रत उपवासथी जी, वीस प्रमित जपमाल ॥ त्यक्त कषाय शुभातमां जी, धरिये भाव विशाल ॥ भ० ॥ ८ ॥ इम ए तप पूरण हुयां जी, उजमणो निज शक्ति ॥ कीजे श्रीजिनशासने जी, संघ सहूनी भक्ति ॥ भ० ॥ ए ॥ ए त पविधि भवि जे करे जी, प्रेम सहित जिनधर्म ॥ साधन गुण अ नुमोदता जी, ते लहे दिव शिव शर्म ॥ भ० ॥ १० ॥ कलश ॥

संवत मूनि सर लोक नारद चंद ज्येष्ट पहुर ए, वदि सप्तमी रवि दिने हितवल्लभ कथनथर भूर ए ॥ गुरु खरतरांवर तरणि सन्नि- भ जैनचंद सनूर ए, ए तवन कीधो जीमगंजे श्रमणचंद कपूर ए ॥ ११ ॥ इति श्रीसत्तर सय जिन स्तवनं ॥

॥ अथ कम्मपयडी को गुणनो लिख्यते ॥

॥ ज्ञानावरणीकर्मकी ५ प्रकृती—मतिज्ञानावरणीरहितायश्री सिद्धायनमः १, श्रुतज्ञानावरणीरहितायश्रीसिद्धायनमः २, अवधि ज्ञानावरणीरहितायश्रीसि० ३, मनपर्यवज्ञानावरणरहितायश्रीसि द्धा० ४, केवलज्ञानावरणरहितायसि० ५, (दर्शनावणकर्मकी नव प्रकृती ए)—चक्षुदर्शनावरणरहितायसि० ६, अचक्षुदर्शनावरण र० ७, अवधिदर्शनावरणर० ८, केवलदर्शनावरणर० ए, निद्राकर्म रहितायसि० १०, निद्रानिद्रारहि० ११, प्रचलार० १२, प्रचलाप्रच ला० १३, थीणद्धी० १४ ॥ (वेदनीकर्म की प्रकति २)—सातावे दनीरहितायश्री० १५, अशातावेदनीरहिताय० १६, (मोहनी कर्म की प्रकृती १८)—सम्यक्तमोहनीर० १७, मिश्रमोहनीरहिताय १८, मिथ्यात्वमोहनीर० १९, अनंतानुबंधीक्रोधर० २०, अनंतानु बंधीमानर० २०, अनंतानुबंधीमायार० २२, अनंतानुबंधिलोभर० २३, अप्रत्याख्यानीक्रोधर० २४, अप्रत्याख्यानीमानर० २५, अप्रत्या ख्यानीमायार० २६, अप्रत्याख्यानीलोभर० २७, प्रत्याख्यानीक्रो धर० २८, प्रत्याख्यानीमानर० २९, प्रत्याख्यानीमायार० ३०, प्रत्याख्यानीलोभर० ३१, संज्वलनक्रोधर० ३२, संज्वलमानर० ३३, संज्वलनमायार० ३४, संज्वलनलोभर० ३५, हास्यमोह नीर० ३६, रतिमोहनीर० ३७, अरतिमोहनीर० ३८, भयमोह नीर० ३९, सोकमोहनीर० ४०, दुगंछामोहनीर० ४१, स्त्रीवेदर० ४२, पुरुषवेदर० ४३, नपुंसकवेदर० ४४. ॥ (आयुकर्मकीप्रकृत।

४)–देवायुरहि० ४५, नरायुर० ४६, तिर्यंचायुरहि० ४७, नरका युरहि० ४८ ॥ (नामकर्मकी प्रकृति १०३)–देवगति ४९, नरक गति० ५१, तिर्यंचगति ५२, नरगतीरहिता० ५०, एकेंद्रीजातिर० ५३, बेइंद्रीजातिर० ५४, तेइंद्रीजातिर० ५५, चौरेंद्रीजातिर० ५६, पंचेंद्रीजातिर० ५७, औदारिकशरीरर० ५८, वैक्रियशरीरर० ५९, आहारकशरीरर० ६०, तेजससरीरर० ६१, कार्मणशरीरर० ६२, औदारिकअंगोपांगर० ६३, वैक्रियअंगोपांगर० ६४, आहारकअंगो पांगर० ६५, औदारिकऔदारिकवंधनर० ६६, औदारिकतेजस वंधनर० ६७, औदारिककार्मणवंधनर० ६८, वैक्रिय२वंधनर० ६९, वैक्रियतेजसवंधनर० ७०, वैक्रियकार्मणवंधनर० ७०, आ हारक२वंधनर० ७२, आहारकतेजसवंधनर० ७३, आहारकका र्मणवंधनर० ७४, औदारिकतेजसकार्मणवंधनर० ७५, वैक्रि- येतजसकार्मणवंधनर० ७६, आहारकतेजसकार्मणवंधनर० ७७, तेजसतेजसवंधनर० ७८, कार्मणकार्मणवंधनर० ७९, तेजसकार्म णवंधनर० ८०, औदारिकसंघातन० ८१, वैक्रियसंघातनर० ८२, आहारकसंघातनर० ८३, तेजससंघातनर० ८४, कार्मणसंघातनर० ८५, वज्ररुषभनाराचसंघयणर० ८६, रुषभनाराचसंघ० ८७, नाराच ८८, अर्धनाराचसंघयणर० ८९, कीलकासंघयणर० ९०, सेवार्त्त संघयणर० ९१, समचतुरस्रसंस्थानर० ९२, न्यग्रोधसंस्थानर० ९३, सादिसंस्थानर० ९४, वामनसंस्थानर० ९५, कुब्जसंस्थानर० ९६, हुंडकसंस्थानर० ९७, कृष्णवर्णरहि० ९८, नीलवर्णर० ९९, लोहितवर्णर० १००, पीतवर्णर० १०१, स्वेतवर्णर० १०२, सु रभिगंधर० १०३, दुरभिगंधर० १०४, तिक्तरसर० १०५, कटुक रसर० १०६, आम्लरसर० १०७, कषायरसर० १०८, मधुरर सर० १०९, शीतफरसर० ११०, उष्णफरसर० १११, भारीफर

सर० ११२, हलकाफरसर० ११३, परखराफरसर० ११४, सुकुमालफरसर० ११५, लूखाफरसर० ११६, चीकणाफरसरहितया० ११७, नरकानुपूर्वीर० ११८, तिर्यंचानुपूर्वीर० ११९, नरानुपूर्वीर० १२०, देवानुपूर्वीर० १२१, शुभविहायोगति १२२, अशुभविहायोगतिर० १२३, पराघातनामकर्मर० १२४, ऊसासनामकर्मर० १२५, आतपनामकर्मर० १२६, उद्योतनामकर्मर० १२७, अगुरुलघुनामकर्मर० १२८, तीर्थंकरनामकर्मर० १२९, निर्माणनामकर्म १३०, उपघातनामकर्मर० १३१, त्रसनामकर्मर० १३२, बादरनामकर्मर० १३३, पर्याप्तिनामकर्मर० १३४, प्रत्येकनामकर्म १३५, थिरनामकर्म १३६, शुभनामकर्म १३७, सौभाग्यनामकर्म १३८, सुस्वरनामकर्मर० १३९, आदेयनामकर्म १४०, यशनामकर्म १४१, थावरनामकर्म १४२, सूक्ष्मनामकर्म १४३, अपर्याप्तिनामकर्मर० १४४, साधारणनामकर्मर० १४५, अथिरनामकर्मर० १४६, अशुभनामकर्मर० १४७, दौर्भाग्यनामकर्मर० १४८, दुस्वरनामकर्मर० १४९, अनादेयनामकर्मर० १५०, अयशनामकर्मर० १५१, (गोत्रकर्मकी प्रकृती २) उच्चैर्गोत्र १५२, नीचैर्गोत्र १५३, ॥ (अंतरायकर्मकी प्रकृति ५) दानांतरायकर्मर० १५४, लाभांतरायकर्मर० १५५, भोगांतरायकर्मर० १५६, उपभोगांतरायक० १५७, वीर्यांतरायकर्मरहितायश्रीसिद्धायनमः ॥ ॥ १५८ ॥ इति श्रीकम्मपयडीरो गुणनो संपूर्ण ॥

॥ अथ कम्मपयडी स्तवन लिख्यते ॥

॥ दोहा ॥ सेनामात जितारि सुत, श्रीसंभव जिनराज ॥ मूलकरम उत्तर पगइ, हणी चढे सिवपाज ॥ १ ॥ अष्ट करमकूं क्षय करी, गुण अष्टक निष्पन्न ॥ सादि अनंत स्थिति लही, चिदानंद चिदघन्न ॥ २ ॥ तासु चरण प्रणमी करी, कम्मपयडि विस्ता

२ ॥ वरणुं भविजन हितभणी, प्रवचनने अनुसार॥ ३ ॥ (ढाल ॥ ॥ रामचंदके बाग ए देशी) ॥ अष्ट कर्म तीर्थेश, नांमे भिन्न कह्या री ॥ हेयवस्तु परित्यज्य, आतमगुण ग्रह्या री ॥ १ ॥ नाण दंशण आवर्ण, वेदनी मोह बूरो री॥ आउखो नाम कर्म, कर्मांतराय चूरो री ॥२॥ ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावर्णतणो री ॥ वेदनीय अंतराय, तीस कोमाकोमि भणो री ॥ ३ ॥ नामकर्म गोत्रकर्म, वीस कोमाकोमि हुवे री ॥ आयु सागर तेतीस, हिव मोहनीय थुवे री ॥ ॥ ४ ॥ सत्तर कोमाकोमि सागर मांन भणयो री ॥ ए उत्कृष्ट थिति जोम, केवली काल गणयो री ॥५॥ जघन्य स्थिति पंचकर्म, अंतरमुहुर्त्तपणो री ॥ नाम गोत्र दोय कर्म, आठ महुर्त्त गणो री॥ ॥ ६ ॥ अकषाय वेदनी वर्ज्य, वेदनो कर्म वदे री ॥ बारे महूरत मांन, शास्त्रानुसार सुदे री ॥ ७ ॥ नाणावरण अंतराय, पंचश भेद जुदा री ॥ वेदनीय गोत्र कर्म, दो दो भेद उदारी ॥ ८ ॥ दर्शनावरण नव भेद, आयु च्यार विधे री॥ मोह कर्म अमवीस, सौ त्रिक नाम सधे री ॥ ९ ॥ एकसो अठावन्न, उत्तर प्रकृति कही री ॥ अष्ट करमना जांण, सर्वे विकल्प सही री ॥ १०॥ ढाल ॥ नण दल चुमले जोवन फिल रह्यो ॥ ए देशी ॥ पाटे सम ज्ञानावरण छे, दर्शनावरण प्रतीहार, भवियण कर्म विवेचन कीजिये ॥ मधु लिप्त असिधारानी परे, वेदनी कर्म मुदार ॥ भविय० ॥ १ ॥ मदिराछाक समान छे, मोह सुभट महराण, भवि० ॥ खोमे बंदीखांन सारखो, आयुकर्म प्रमाण॥ भ०क० ॥२॥ चीतारे सम नांम कहीजे, गोत्र कुंभार समांन, भ० ॥ श्रीघर भंमारी सम दाख्यो, अंतराय कुध्यांन ॥भवि०क० ॥ ३ ॥ अष्ट कर्म ए भावना, वीर वदे व्याख्यान, भ० ॥ कर्म संसार स्वरुप छै, अकरम सिद्धि सुथान ॥ भवि० क० ॥ ४ ॥ मिथ्य सास्वादन मिश्र अविरति, देसाविरति प्रमत्त,

न० ॥ अप्रमत्त गुण अंत सवीमें, करमबंध अठ सत्त ॥ न० क० ॥ए॥ अपूरब अनिवृत्ति गुणमें, आयु वरज सत्त बंध, न० ॥ सुहुम संपराय दशम गणें, विन मोहायु षट खंध ॥ नवि० क०॥ ६ ॥ उपशम खीण सजोगमें, वेदनी बंध उदार, न० ॥ अयोगी गुण चवदमें, नही बंधत कर्म द्वार ॥ न० ॥ क० ॥ ७ ॥ कर्मबंध हेतु कह्या, मिथ्यात अविरत जोय, न० ॥ क्रोध प्रमुख कषायथ्रो, यो ग युगत च्यार होय ॥ न० ॥ क० ॥ ८ ॥ पन्नवणा उपांगमें, कर्म स्थिति पद लेय; न० ॥ कर्म वेद पणवीसमें, कर्म प्रकृति वेद जोय ॥ नवि० क० ॥ ए ॥ कम्मपयडी कर्मग्रंथमें, कर्मतणो निरधार, न० ॥ बंध सत्ता उदीरणा, उदय प्रमुख परकार ॥ नवि० ॥ क० ॥ १० ॥ इकसो अठावन थया, चउत्थभत्त तप सार, नवि० ॥ तप उद्यापन इम करो, पूजा अष्ट प्रकार ॥ नवि० ॥ क० ॥ ११ ॥ अष्ट ज्ञानोपगरण भला, अष्टमंगल वृद्ध थाल, नवि० ॥ वात्सल्य चउविह संघनी, यथाशक्ति सुविशाल ॥ न० ॥ क० ॥ १०॥ इम्रा रोधन तप करे, कर्म प्रकृतिनो सार, न० ॥ सुरनर सुख अनुक्रम लही, शिवरमणी भरतार ॥ न० क० ॥ १३ ॥ कलश ॥ जिन- चंद सूरि मुणिंद खरतर गण ख शशि सम युगवरा, तासु वचने स्तवन कीधो नयर श्रीवालूचरा ॥ चंद्रानुयोग निध्येक वरषे विशद फाल्गुन द्वादशी, उवझाय तत्व प्रधान गणिनें अमृत गति चित्त नित वशी ॥ १४ ॥ इति श्री कम्मपयडी स्तवनं ॥

॥ अथ नवकार तप स्तवन ॥

॥ दूहा ॥ चोवीसे जिनवर नमी, पंच परमेष्ठि सार ॥ परम मंत्र नवकारनी, महिमा भणूं उदार ॥ १ ॥ ढाल १ ॥ मुनिवर आर्य सुहस्त ॥ ए देशी ॥ समरो श्री नवकार, सार पूरबतणो, नव निधि सिद्धि आपे सदा ए ॥ महिमा मोटी जास, संकट सवि

टले, मिले मनोरथ संपदा ए ॥ १ ॥ अमसठ वरण विख्यात, सात गुरु अक्षर, नव पद आठे संपदा ए ॥ सात सागरनां पाप, जाये अरकरे, संपूरण पांचसैं मुदा ए ॥ २ ॥ पुष्करवर द्वीपाई, सिद्धावट गांम, पासे परवत कंदरा ए ॥ चोमासी पच्चख्कांण, करने तिहां रह्या, दमसार नांमे मुनीसरा ए ॥ ३ ॥ भील भीलणी वेअ, मन सुध भावसुं, नवकार मुनि पासे भणी ए, बीजे भव राज-सिंह, रतनवती रांणी, शिवसुख पांम्या कर्म हणी ए ॥ ४ ॥ रतनपुरी यसोभद्र, सेठतणो सुत, शिव नामा विसनी घणूं ए ॥ अति आदरसुं तात, नवकार सीखव्यो, महामंत्र गुण बहु भणूं ए ॥ ५ ॥ एकदा योगी एक, समसाने ले गयो, शिवकुमार मनमें धरयो ए ॥ नवकारने परभाव, सबल संकट टल्यो, सोनापुरसो तिण करयो ए ॥ ॥ ६ ॥ ढाल २ ॥ चरणकरणधर मुनिवर वंदिये ॥ ए देशी ॥ श्री नवकार तणी महिमा सुणो, पोतनपुर सुभ गामो जी ॥ सेठ सु-भद्र तणी सुता श्रीमती, श्राविका धर्मनो कामो जी ॥ श्री० ॥ १ ॥ मिथ्यामते किण एक विवहारिये, परणी मनधर रागो जी ॥ धरम न मूंके इणिये मन धरी, कलसमें मूंक्यो नागो जी ॥ श्री० ॥ २ ॥ साप फीटीने फूलमाला थई, महियल महिमा एहो जी ॥ पिउने कुटंब सहू प्रतिबूझव्यो, साचो धर्म सनेहो जी ॥ श्री० ॥ ३ ॥ क्षितिप्रतिष्टित बलराजा तिहां, इक दिन वूठो मेहो जी ॥ नदीपूर बीजोरो आवियो, नृपने दीधो तेहो जी ॥ श्री० ॥ ४ ॥ स्वाद लही चिठी राजा करी, बीजोराने कांमो जी ॥ व्यंतर भक्ष करे नरने तिहां, दे बीजोरो तामो जी ॥ श्री० ॥ ५ ॥ चिठी आवी जिनदाससेठनी, श्रावक शुद्ध विवेको जी ॥ नमस्कार भण बीजोरे ग्रह्यो, बूझव्यो व्यंतर ठेको जी ॥ श्री० ॥ ६ ॥ ढाल ३ ॥ नमणी खमणी ने मन गमणी ॥ ए देशी ॥ श्री वसंतपुर जितशत्रु राया

भद्रा नामे नारि सुहाया ॥ चंदपिंगल चोरयो नृप हारा, गणिका ने दीधो मनुहारा ॥ १ ॥ गणिका पहरयो हार ते जाणी, सूली दीधो चोर ते आणी ॥ निज प्रमाद गणिका पछतावे, चोर समीपे गानी आवे ॥ २ ॥ नमस्कार पिंगलने दीधो, तास प्रभावे वंछित सीधो, नृपने घर सुत थइ अवतरियो, पापी चोर एणे उधरियो ॥ ॥ ३ ॥ मथुरानगरी जिणंदाससेठ, तिहां किण हुंडक पापनो हेठ ॥ एकदा चोरी करतां झाल्यो, राजा हुकमें सूली घाल्यो ॥ ४ ॥ हुंडक चोर ते प्यासे गाढो, सेठ कने जल मांग्यो टाढो ॥ नौकार दीधो उपगार आंणी, सुर थयो ततखिण धर्म सहिनाणी ॥ ५ ॥ चंपानगरीमें जे कीधूं, सुभद्रा सती निकलंक प्रसीधुं ॥ श्रीनवकार प्रसाद ते जांणो, मनमें एहनी आसति आंणो ॥ ६ ॥ ढाल ४ ॥ भरतनृप भावसुं ॥ ए देशी ॥ अमावसि पूनिम करी ए, बीजली बांधी आकास, नमुं नवकारने ए ॥ १ ॥ वृक्ष उपाडी चलावियो ए, अनुपम महिमा जास ॥ न० ॥ २ ॥ वाछरूया एक चारतो ए, नदिय प्रवाह्यो वाल, न० ॥ नमस्कार मन चिंतव्यो ए, जल फाटो ततकाल ॥ न० ॥ ३ ॥ हत्या चार करी हवे ए, वली करया पाप अनेक, न० ॥ छुटकरवारो एहथी ए, आवे चित्त विवेक ॥ न० ॥ ॥ ४ ॥ मंत्र मांहे मोटो कह्यो ए, लाख गुणे मनरंग, न० ॥ तीर्थंकर पद ते लहे ए, श्रीनवकारने संग ॥ न० ॥ ५ ॥ दिन२ अधिकी संपदा ए, मनवंछित सुख थाय, न० ॥ दयाकुसल वाचक वरू ए, धर्ममंदिर गुण गाय ॥ न० ॥ ६ ॥ इति श्रीनवकारका चोढालिया स्तवन संपूर्ण ॥

॥ अथ नवकार तपविधि लिख्यते ॥

शुभदिन गुरूके पास नवकारतप ग्रहण करे. जिस पदका जितना अक्षर होय उतनाही उपवास करे ॥ उस पदका ।२००।

गुणना करे सो लिखते हे ॥ १ ॥ णमोअरिहंताणं ॥ उपवास ७ ॥ २ । नमो सिद्धाणं ॥ उपवास ५ ॥ ३ । नमो आयरियाणं ॥ उपवा वास ७ ॥ ४ । णमोउवज्झायाणं ॥ उपवास ७ ॥ ५ । णमोलोए सवसाहूणं ॥ उपवास ए ॥ ६ । एसोपंचनमोक्कारो ॥ उपवास ० ॥ ७ । सवपावप्पणासणो ॥ उपवास ० ॥ ० । मंगलाणंचसवेसिं ॥ उपवास ० ॥ ए । पढमंहवइमंगलं ॥ उपवास ए ॥ एसें नवकार मंत्रका ६० उपवास करे ॥ किंकप्पचरु ॥ वमानवकार अथवा ऊपर लिखा सो स्तवन सुणे. तप पूर्ण होणेसें यथाशक्ति नवपदका उछव करे. चवदे पूर्वका सार इस नवकारके तप प्रन्नावसें अनेक सुख संपदाकी प्राप्ति होय ॥ इति ॥

॥ अथ पंच कल्याणक स्तवन लिख्यते ॥

नमिय पयकमल सुन्नाव सवि जिनतणा, पंच कल्याण दिण न्नणिसु जिनवरतणा ॥ कसिण कत्तीतणें पक्ति पंचमि दिणें, नाण संन्नवतणो खयकरम चिहुं तणोः ॥ १ ॥ नेमि जिण चवण सुरन्नवणथी वारसै, पन्नमपद जम्म वलि दिस्क तसु तेरसै ॥ वीर सिवमां वसें पक्ति हिव ऊजलै, नाणसिरि सुविधि अर तीज बारसि मिले ॥ २ ॥ न्नास ॥ मिगसर वदि रे सुविधि पंचमी जनमियो, सोइ उठैं रे संयमधर सुर पणमियो ॥ दसमी दिन रे वीरे संयम आदर्यो, इग्यारसि रे उपमप्पद सिवसिरि वर्यो ॥ सिर वर्यो मिगसर सुदि दशमी दिण रयणि अरजिन जामीयो, वलि मुगति पिण तिण दिवस पत्तो व्रत इग्यारसि पांमीयो ॥ इग्यारसें वलि मल्लिजिणने जम्म दिस्क सुनाणीया, वलि मल्लि दिस्का नाण उठै अंग पोसि वखाणिया ॥ ३ ॥ इहां कारण रे लिखित दोष संन्नावियै, कइ कोइ रे अवर हेतु पिण न्नावियै ॥ ते परि सत्रि रे गीनारथ सद्गुरु लहै, श्रुतकेवलि रे वचन सह सम सद्दहे ॥ सद्दहै

सहूयै ते प्रमाणजि वलि इग्यारसि नमितणौ, श्रीनाण कल्याणक चऊदसि जनम संभवनौं थुणौ ॥ पूनिमें संभव दिक्ख पांमी दया धरि जगजीवनी, हिव पोस वदि दसमी इग्यारस जनम दिक्खा पासनी ॥ ४ ॥ बारस तिथि रे चंदप्पह जिण जाइयौ, वलि तेरसि रे संजम रंग सुणाइयौ ॥ चवदस दिन रे श्रीशीतल थयो केवली, पोसह सुदि रे छठ विमल नाणी वली ॥ नाणी वलि थयौ नवमि संती अजितनाथ इग्यारसें, चवदसें अभिनंदनें केवल पूनिमें धम्मैं वसें ॥ माहाइ छठे पउम चवियो बारसें शीतल थयौ, वलि तासु संजम कसिण तेरसि रिसह जिण शिवपुर गयो ॥ ५ ॥ अम्मावसि रे दिवसैं नाण इग्यारमैं, जिन पांमी रे माहसुदें हिव अनुक्रमैं ॥ सित बीजे रे अभिनंदन वासुपूजनौं, कल्याणकरे जनम गंण अनुक्रम मनौं ॥ अनुक्रमैं मांनों बिहू त्रीजे विमल धरम सुजामिया, श्रीविमल दिक्खा चउथि अठमि अजित वतपति पांमिया ॥ नवमियें दिक्खा अजित पांमी बारसें अभिनंदनें, श्रीधर्मनाथैं सार संयमसिर वरि तेरसि दिनें ॥६॥ भास ॥ फाग्गुण वदि छठे सुपास केवलसिरि पत्तो, सत्तम वलि तसु मुगति चंद्रप्रभु नाणें जुत्तो ॥ नवमि सुविह जिण चवण रिसह इग्यारसि केवल, बारस सुव्वय नाण जम्म सेयंसह निम्मल ॥ ७ ॥ तेरसि व्रत सिज्जंस तणो चवदस वसुपुज्ज, जम्म हुउ अम्मावसें ए तसु संजम रज्ज ॥ सुकल बीज चउथि अठमियें अर मल्लि संभव, चवण सुबारसि मल्लि मुगति सुव्वय वय उब्भव ॥ ८ ॥ (ढाल फागनी) चैत्र पढम पक्खि चउथि नाण चवणं पासस्स, पंचमि ससिपह चवण जम्म अठमि रिसहस्स ॥ वलि संजम पिण रिसहसांमि अठमि आदरियो, धवल तीज हिव कुंथुनाथने केवल फुरियो ॥ ९ ॥ पंचमि अजित अनंत अने संभवने मुगति, नवमि इग्यारस मुगति नांण वलि पांम्यो सुमति ॥

॥ त्रिशलादेवैं वीरनाह तेरसनिसि जायो, पूनिम दिन श्रीपदमना ह केवलसिरि पायो ॥१०॥ भास ॥ हिव वैसाख वदिपमिवा दिन, कुंथु सिद्ध शीतल बीजे दिन, पंचमी कुंथु चरित्र ॥ छठे, श्रीशीतल अवतरियो, दशमैं नमिजिण सिवसिरि वरियो, तेरसि जनम अणंत ॥ ११ ॥ चवदस दिक्खा नाण अणंतह, जनम हुउ श्रीकुंथु जिणंदह, वंदह सिवपुर सत्थ ॥ सेत चउथ अभिनंदन उत्तम, धरमनाथ चवियो वलि सत्तमि, अठमि सिद्ध चउठ ॥ १२ ॥ सुमतिनाथ अठमिये जायो, नवमें संयम सांमे पायो, गायो धरि आणंद ॥ दशमें नाण वीरजिण पामी, बारसि चव्यो विमल जगस्वामी, तेरसि अजिय जिणंद ॥ १३ ॥ ढाल ॥ जेठ कसिण पखि छठ, चवियो सेयंस, अठमी सुव्रय जनमियो ए ॥ नवमि मुगति सोपत्त, तेरस चवदसि, संति जम्म सिव वय हुउ ए ॥ धरमनाथ सिव पत्त, धवली पंचमें, नवमें वसुपुज्ज अवतर्यो ए ॥ श्रीसुपास जिण जम्म, बारसि तेरसि, जगगुरु संयमसिरि वर्यो ए ॥ १४ ॥ भास ॥ हिवै असाढ वदि चउथि रिसहेस, चवण सत्तमिहि सिरि विमल ॥ मुक्ख नवमि नमि वय गहण, सेय छठे चवण ॥ वीरनो अठमि नेमि मुक्ख चवदसें श्रीवसुपुज्ज जिणंद, छ सय वर साधु कर परवर्यो ए ॥ बहुतर वरस लख पुरि चंपापुरें, करमहणि मुगति रमणी वर्यो ए ॥ १५ ॥ ढाल ॥ श्रावण वदि हिव तीज मुगति सेयंसह पामिय, सत्तमि चविउ अणंतनाह अठमि नमि जामिय ॥ नवमि कुंथुजिण चवण हुउ अह निम्मल बीजे, सुमति चवण पंचमिह नेमिजिण जम्म भणीजै ॥ १६ ॥ छठे मुनिवर नेमि हुय, अठमि सीधो पास ॥ मुनिसुव्रय पूनिमरयणि, चविउ गुणमणि वास ॥ १७ ॥ भाद्रव वदि सत्तमें संति ससि चवण भवक्खय, अठमि चविय सुपास नवमि सुदि सुविधि सिवंगय ॥ हिव

आसु वदि तेरसी ए ॥ श्रीवीर जिनेसर गर्भ ॥ हरेण अम्मावीमो ए, नांणी नेमीसर ॥ १८ ॥ पूनिम नमि जिणवर चविय, इण पर बारह मासि ॥ श्रीआवस्यक दाखवी, जिण कल्याणक रासि ॥ १९ ॥ जिण चवण जम्म चरित्त केवल नांण शिव प्रापति दिनें, अरिहंत भत्ते सुद्ध चित्ते तप करे जे इक मनें ॥ कल्यांण नीते कोडि पांमी अनुक्रमें सिवसुख लहे, ए हेतु जांणी सुगुरु नांणी एह कल्याणक कहे ॥ २१ ॥ इम पांच भरते ऐरवत करि एक दिन जिनवरतणा, दस कल्याणक हुवे इण दिन सुर करे उच्छव घणा ॥ जिम हूआ ते तिम वली होस्ये पंच कल्याणक सदा, श्री पुन्यसागर कहे खरतर एह आराहो मुदा ॥ २१ ॥ इति श्रीपंच कल्याणक स्तवनं ॥

॥ अथ ऋषिमंडल सुणणेकी वा पूजणेकी विधि ॥

॥ प्रथम आद्यंताक्षर संलक्ष० यह ऋषिमंडल स्तोत्र धूप दीपादि विधि संयुक्त आठ महीने तक प्रभात समय सुणें. ऋषिमंडलमें जो मूल मंत्र हे सो शुभ दिन शुभ घडी हाथमें फल फूल भेट शक्ति माफक लेकर गुरुके पास जावे. भेट धरके विनय संयुक्त मूलमंत्र ग्रहण करै. उसका ८००० आठ हजार जाप आठ महीनेमें करे. आंबिलकी शक्ति होय तो हमेस करै, नहीतो आठम चौदस दो आंबिल जरूर करे. आठ महीने बाद उजमणा करै. उजमणेके दिन एकसो आठ वेर सुणै. पीछै शक्ति होय तो विधि संयुक्त ऋषिमंडल स्थापन करायके पूजा करै. विशेष भक्ति करे तो १४ प्रकार पूजा करावै, गुरुभक्ती करे, साहमी वत्सल करै. विशेष विधि गुरुगमसें जाणनी ॥ ऋषिमंडल सुणणेवाले पूजणेवाले भव्यजीवके घरमें कभी उपद्रव नहि होय, सदा आनंद उछाह रहे ॥

॥ अथ भगवंतके नव अंग पूजन ॥

॥ दूहा ॥ जल भरी संपुट पत्रमां, युगलिक नर पूजंत ॥

ऋषभ चरण अंगूठडों, दायक भवजल अंत ॥ १ ॥ जानु बले काउसग्ग रह्या, विचर्या देस विदेस ॥ खडां२ केवल लह्यो, पूजो जानु नरेस ॥ २ ॥ लोकांतिक वचने करी, वरस्या वरसी दान ॥ कर कंडे प्रभु पूजना, पूजो भवि बहुमांन ॥ ३ ॥ मांन गयो दोय अंसथी, देखी वीर्य अनन्त, भुजाबले भवजल तर्या, पूजो खंध महंत ॥ ४ ॥ रत्न त्रय गुण ऊजली, सकल सुगुण विसरांम ॥ नाभिकमलनी पूजना, करतां अविचल धांम ॥ ५ ॥ हृदयकमल उपशम बले, वाल्यो राग ने द्वेष ॥ हेम दहे वनखंडनें, हृदयकमल संतोष ॥ ६ ॥ सोल पहर देइ देसना, कंठ विवर वरतुल, मधुर ध्वनी सुर नर सुणे, तिम गले तिलक अमूल ॥७॥ तीर्थंकर पद पून्यथी, त्रिभुवन जन सेवंत, त्रिभुवन तिलक समा प्रभु, भाल तिलक जयवंत ॥८॥ सिद्धशिला गुण ऊजली, लोकांतिक भगवंत ॥ वसिया तिण कारण विभू, शिरशिखा पूजंत ॥९॥ उपदेशक नव तत्वना, तिम नव अंग जिणंद, पूजो बहु विध भावथी, कहे शुभ वीर मुणिंद ॥ १० ॥ इति नव अंगपूजन दुहा ॥

॥ शिक्षा दोहा ॥

जीवडा जिनवर पूजिये, पूज्याना फल होय ॥ राजा नमें परजा नमें, आण न लोपे कोय ॥ १ ॥ कुंभे बांध्यो जल रहे, विन कुंभ न होय ॥ ज्ञानें बांध्यो मन रहे, गुरु विन ज्ञान न होय ॥ २ ॥ गुरु दीपक गुरु देवता, गुरु विन घोर अंधार ॥ जे गुरुवाणी वेगला, रडवडिया संसार ॥ ३ ॥ भावे जिनवर पूजिये, भावे दीजे दांन ॥ भावें भावना भाविये, भावें केवलज्ञान ॥ ४ ॥ पांच कोडीनें फूलडे, पाम्या देश अढार ॥ राजा कुमारपालने, वर्त्या जैजेकार ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ नव पदो के नव चैत्यवंदन, नव स्तवन तथा नव थुइ ॥

॥ अथ अरिहंतपद चैत्यवंदन ॥

जय२ श्रीअरिहंत भानु, भविकमल विकासी ॥ लोकालोक अरूपि रूपि, सम वस्तु प्रकासी ॥१॥ समुद्घात शुभ केवले, क्षय कृत मल रासी, शुक्ल चरम शुचि पादसें, भयो वर अविन्यासी ॥ ॥ २ ॥ अंतरंग रिपुगणें हणी ए, हुय अप्पा अरिहंत ॥ तसु पद पंकजमें रमत, हीरधरम नित संत ॥ ३ ॥ इति ॥ जंकिंचिनाम० तित्थं० नमोर्हं० ॥

॥ अथ अरिहंतपद स्तवनं ॥

पूजो मनरली हां हो दादा कुशल सूरिंद ॥ ए चाल ॥ श्री तेरम गुण वसिके कंत, कर्मकुं भंजे श्रीअरिहंत ॥ मन मानले ॥ अष्ट समयमें समय तीन, सर्व आहारथी होवे हीन ॥ म० ॥ १ ॥ वादरकायें मन वच जोग, तनु२सें फुन हट तनुयोग ॥ म० ॥ सुक्ष्मकायतें मन वच रोक, निज वीर्यें ताकुं कर फोक ॥ म० ॥ २ ॥ संज्ञी मात्रके मन व्यापार, बेइंद्रीने वाक्य प्रचार ॥ म० ॥ आदि समय रह्यो पनकसु जीव, सुषम लह्यो तिण योग अतीव ॥ म० ॥ ॥ ३ ॥ एवां योगथी समयें एक, हीना संख गुणो कर टेक ॥ म० ॥ समयासंखे जोग निरोध, कृत्वा जो लह्यो जोगी सोध ॥ म० ॥ ४ ॥ वेदसमेनाहारता पाय, कुशल कहे ते श्रीजिनराय ॥ म० ॥ तेरमें गुणमें गुण सभै देव, आपो सा जगकूं नितमेव ॥ म० ॥ इति अरिहंतपद स्तवनं ॥

॥ अथ अरिहंत पद थुई ॥

सकल द्रव्य पर्याय प्ररूपक लोकालोक सरूपो जी, केवल ग्यानकी ज्योति प्रकाशक अनंत गुणे करि पूरो जी ॥ तीजै भव थानक आराधी गोत्र तीर्थंकर नूरो जी, बारे गुणां करि एहवा श्री रिहंत आराधो गुण भूरो जी ॥ इति अरिहंत पद थुई ॥

॥ अथ सिद्धपद चैत्यवंदन ॥

श्रीशैलेशी पूर्व प्रांत, तनुहिंनत जागी ॥ पुव्व पञ्जयपसंग सें, ऊरध गत जागी ॥ १ ॥ समय एकमें लोकप्रांत, गयो निगुण निरागी ॥ चेतनजूपें आत्मरूप, सुदिशा लही सागी ॥ २ ॥ केवल दंशणनाणथी ए, रूपातीत स्वजाव ॥ सिद्ध जये तसु हीरधर्म, वंदे धरि शुज्ञ जाव ॥ ३ ॥ इति सिद्धपद चैत्यवं० ॥

॥ अथ सिद्धपद स्तवनं ॥ थांरे महिलां ऊपर मेह झरोखे वीजली ॥ ए चाल ॥

अष्ट वरस नग मास हीना कोमी पूर्वमें, म्हारा लाल हो० ॥ जत्कृष्टो करै वास सयोगी धाममे, म्हा० स० ॥ अजोगीके अंत तजै जवतव्यता, म्हा० त० ॥ शैलेसी लहै कर्म दलै गुण श्रेणिता, म्हा० दलै० ॥ १ ॥ ह्रस्वाक्षर पंच काल रहै ते योगमें, म्हा० र० ॥ तेरस प्रकृतिनो अंत करीने अंतमें, म्हा० क० ॥ गमन करे नगरजासें अक्रिय होयनें, म्हा० अ० ॥ पुव्व पयोग असंग स्वजाव अबंधने, म्हा० स्व० ॥ २ ॥ इकु गुण नव परमाण योजन लखें कही, म्हा० यो० ॥ वर्त्तुल विशदाजास निरालंबन सही, म्हा० नि० ॥ मध्ये योजन अष्ट घनाकृति अंतमें, म्हा० घ० ॥ मक्षी पक्षथी हीन जणी सिद्धांतमें, म्हा० ज० ॥ ३ ॥ तनुपब्भारा नाम सिलासें जोयने, म्हा० सि० ॥ जुग लोचनमें जाग अलोककुं स्पर्शनें, म्हा० अ० ॥ लघु अंगुल बत्तीस प्रमाणऽवगाहणा, म्हा० प्र० ॥ वृद्धि धनु शत पंच गुणासें हीनता, म्हा० गु० ॥ ४ ॥ मिलिया एकमेंनंत अबाधा ना लही, म्हा० अ० ॥ अष्ट प्राण धरि रम्य सिरिहो जो सही, म्हा० सि० ॥ बीजो पद श्रीसिद्ध धरो म नगहमें, म्हा० ध० ॥ कुशल जये जगजीव मिलोगा तेहमें, म्हा० मि० ॥ ५ ॥ इति सिद्धपद स्तवनं ॥

॥ अथ सिद्धपद थुई ॥

अष्ट करमकूं धमन करीनें गमन कियो शिववासी जी, अ-

व्याबाधे सादि अनादि चिदानंद चिद्रासी जी ॥ परमातमपद पूरण विलासी अघ घन दाघ विनासी जी, अनंत चतुष्टमय शिव पद ध्यावो केवलज्ञानी भासी जी ॥ १ ॥ इति सिद्धपद थुई ॥

॥ अथ तृतिय आचार्य पद चैत्यवंदन ॥

जिनपद कुल मुख रस अनिल, मित रस गुण धारी ॥ प्रबल सबल घन मोहको, जिणतें चमुहारी ॥१ ॥ ऋज्वादिक जिनराज गीत, नव तन विस्तारी ॥ भवकूपें पापें पऱत, जगजन निस्तारी ॥ २ ॥ पंचाचारी जीवके, आचारजपद सार ॥ तिनकुं वंदे हीरधर्म, अठोतर सो वार ॥ ३ ॥ इति ॥

॥ अथ आचार्य पद स्तवनं ॥ नणदल वींदली ये ॥ ए चाल ॥

खंती खऱगथी जेणे, हण्यो क्रोध सुभट सम देणे हो, गणपति गुण पेखी ॥टेर॥ मान महा गिरि वयरे, अति शोभन मद्दव वयरे हो॥ ग० ॥१॥ दंभरूप विसवेली, वर अज्जव कीलै ठेली हो ॥ ग० ॥ मुर्छावेलथी भरियो, लोहसागर मुत्तें तरियो हो ॥ ग० ॥२॥ मदन नाग मद हीनो, जिण दमसम जंत्रे कीनो हो॥ ग० ॥ मोह महा मल्ल ताड्यो, पुण वैराग मुगरें पाड्यो हो ॥ ग० ॥३॥ दोस गयंद वस कीनो, धर उपशम अंकुस लीनो हो॥ ग० ॥ अंतरंग रिपु भेद्या, सुरवर पिण जिण णिषेद्या हो॥ ग० ॥४॥ रस कृति गुणथी लीणो, सूत्र अरथे आगम पीनो हो ॥ ग० ॥ आचारजपद एहवो, धरी जीव कुशलता सेवो हो ॥ ग० ॥ ५ ॥ इति आचार्यपद स्तवनं ॥

॥ अथ आचार्यपद थुइ ॥

॥ पंचाचारकुं पालै उजवालै दोष रहित गुणधारी जी, गुण छत्तीसे आगमधारी द्वादस अंग विचारी जी ॥ प्रबल सबल घन मोह हरणकूं अनिल समो गुण वाणी जी, क्षमा सहित जे संजम पाले आचारज गुण ध्यानी जी ॥ १ ॥ इति थुइ ॥

॥ अथ उपाध्यायपद चैत्यवंदन ॥

॥ धन धन श्री उवझाय राय । सगता घन भंजन । जिन वर दिसत दुवाल संग । कर कत जन रंजन ॥ १ ॥ गुणवण भं जण मण गयंद । सुय शृणि कियगंजण । कुणालंघ लोय लोयणें । जत्थय सुय मंजण॥२॥ महा प्राणमें जिन लह्यो ए। आगमसें पद तुर्य । तिनपें अहनिश हीर धर्म । वंदे पाठक वर्य ॥ ३ ॥ इति ॥

॥ अथ उपाध्यायपद स्तवनं ॥ सांवलिया अलगा रहोनें ॥ ए देशी ॥

॥ हुयने३ दूरी हुयने, चेतन भाषै सगने, दूरी हुयने ॥ तुं मुझ पास क्यूं आवै, दू० ॥ तुझनें कुण वतलावे, दू० ॥ ए आंकणी ॥ तो संगे निज पंचेंडीनो, रचना चरम भुलाणो ॥ नाणावरणी खयउपसमसें, भावेंडी मंमाणो ॥ दू० ॥ १ ॥ द्रव्ये ते परजासे कीना, जातिनाम व्यपदेश ॥ एवंतो गो तुरग गजादिक, किण क में उपदेश ॥ दू० ॥२॥ इत्यादिक बहु मुझकुं संका, तेरे संगे ला गी ॥ नीलवर्णकी समता लेती, में भयो तोसुं रागी॥ दू० ॥ ३ ॥ उप कहिये हणियो भविघानो, अधियां लाभतआय॥ आधीनांमन पीमानामें, मायोयेनविलाय ॥ दू० ॥ ४ ॥ आधिक्ये स्मरीयै वर आगम, सूत्रसें ते उवझाय ॥ तत् सेवातें हणि सगताकूं, चेतन कुशलता पाय ॥ दू० ॥ ५ ॥ इति उपाध्याय स्तवनं ॥

॥ अथ उपाध्यायपद थुइ ॥

॥ अंग इग्यारै चवदै पूरव गुण पचवीसना धारी जी, सूत्र अरथधर पाठक कहियै योग समाधि विचारी जी ॥ तपगुण सूरा आगम पूरा नय निक्षेपै तारी जी, मुनिगुण धारी बुध विस्तारी पाठक पूजो अविकारी जी ॥ १ ॥ इति उपाध्यायपद थुइ ॥ ४ ॥

॥ अथ पंचमसाधुपद चैत्यवंदनं ॥

॥ दंसण नाण चरित्त करी, वर शिवपद गामी ॥ धर्म शुक्ल शुचि चक्रसें, आदिम खय कामी ॥ १ ॥ गुणपमत्त अपमत्ततें,

नये अंतरजामी ॥ मानस इंद्रिय दमनभूत, समदम अभिरामी ॥ २ ॥ चारुति घन गुणगण भरयो ए, पंचम पद मुनिराज ॥ तत्पदपंकज नमत हे, हीरधर्मके काज ॥ इति ॥

॥ अथ साधुपद स्तवनं ॥ मालनर मति कहो ॥ ए देशी ॥

॥ निकषाया जगजन कहे, धारै चउगति वसनसें रोस हो, मुनिंदजी ॥ राग हीण भय तूं करै, साहिबा शिवरमणीसें हेत हो मुणिंदजी ॥ १ ॥ सर्व प्रमाद तजी रहै, सा० छठै पूरब कोम हो मु० ॥ शत सोगम आगम करै, सा० लघु काले गुण आदि हो मु० ॥ २ ॥ स्त्यानर्द्धीनिद्रा उदै, सा० पांमे कर्म निकंद हो मु० ॥ प्रचलानिद्रामें रही, सा० बारम गुणनो वास हो ॥ मु० ॥ ३ ॥ स्थिति रस घात प्रमुख धरै, सा० जो गुण संख्यातीत हो मु० ॥ तोपिण तिण जगमें लही, सा० त्रिक घन गुणनी ख्यात हो मु० ॥ ॥ ४ ॥ रयण त्रयसें शिवपथें, सा० साधन पर वर जीव हो मु० ॥ साधु हुवइ तसु धर्ममें, सा० कुशलु भवतु जगतीव हो मु० ॥ ५ ॥ इति साधुपद स्तवनं ॥

॥ अथ साधुपद थुइ ॥

॥ सुमति गुपति कर संजम पालै दोष बयालीस टालै जी, षट् काया गोकुल रखवाले नव विध ब्रह्मव्रत पाले जी ॥ पंच महाव्रत सूधा पालै धर्म शुक्ल उजवालै जी, क्षपकश्रेणि कर कर्म खपावै दमपद गुण उपजावै जी ॥ १ ॥ इति साधुपद स्तुति ॥

॥ अथ दर्शनपद चैत्यवंदन ॥

॥ हुय पुग्गल परियट्ट, अद्ध परमित संसार ॥ गंठिभेद तब करि लहे, सब गुण आधार ॥ १ ॥ क्षायक वेदक शशि असंख, उवसम पण बार ॥ विना जेण चारित्र नाण, नही हुवे शिव दातार ॥ २ ॥ श्री सुदेव गुरु धर्मनी ए, रुचि लक्षन अभिरांम ॥ दरसनकुं गणि हीरधर्म, अहनिस करत प्रणाम ॥ ३ ॥ इति ॥

॥ अथ दर्शनपद स्तवनं ॥ रामचंदके वाग आंबो मोहि रह्यो री ॥ ए चाल ॥

॥ देव श्री जिनराज, गुरु ते साध जएयो री ॥ धर्म जिनेश्वर प्रोक्त, लक्षण बोधितणो री ॥ १ ॥ बोधि लाभके काज सप्तम नरक जलो री ॥ तेण विना सुरलोक, तातें अधिक बुरो री ॥२॥ मिथ्या तापे तप्त, बोधही छांह लहेरी ॥ उपशम क्षायक भेद, ईश्वर तीन कहे री ॥ ३ ॥ भवसायर है अपार, फुण अस्ताघ कह्यो री ॥ जसु लाभे ते होय, गोसपद मात्र खरोरी ॥ ४ ॥ यद भावे अप्रमाण, नाण चारित्र भलारी ॥ बोधधर्ममें जीव, लाभैं कुशल कला री ॥ ५ ॥ इति दर्शन पदं ॥

॥ अथ दर्शनपद थुई ॥

॥ जिनपसत्ततत्त सूधा सरधै समकित गुण उजवालै जी, भेद भेद करि आतम निरखी पशु टाली सुर पावै जी ॥ प्रत्याख्याने सम तुल्य भाख्यो गणधर अरिहंत सूरा जी, ए दरशनपद नित२ वंदो भवसागरको तीरा जी ॥ १ ॥ इति ॥ ६ ॥

॥ अथ ज्ञानपद चैत्यवंदन ॥

॥ क्षिप्रादिक रस राम वह्नि, मित आदम नाण ॥ भाव मिलापसें जिन जनित, सुय वीस प्रमाण ॥ १ ॥ भव गुण पज्जवि उहि दोय, मण लोचन नांण ॥ लोकालोक स्वरुप जाण, इक केवल भांण ॥ २ ॥ नाणावरणी नासथी ए, चेतन नाण प्रकाश ॥ सप्तम पदमें हीरधर्म, नित चाहत अवकास ॥ ३ ॥ इति ज्ञानपद चैत्यवंदन ॥

॥ अथ ज्ञानपद स्तवनं ॥ म्हारे अति उछरंगे ॥ ए चाल ॥

जिनवर भाषित आगम भणिया, तत्व यथास्थित गमिया जी ॥ म्हारे जगजन तारू ॥ ते उत्तम वर नाण कहायै, भविजन अहनिश चाहै जी ॥ म्हा० ॥ १ ॥ भक्षाभक्ष कुपंथ सुपंथा, पेयापेय अग्रंथा जी ॥ म्हा० ॥ देव कुदेव अहित हितधारी, जाणें जेय विचार जी ॥ म्हा० ॥ २ ॥ श्रुति मति दोय छै इंद्री सारू

तेण परोक्ष विचारू जी ॥ म्हा० ॥ उही मण केवल दे वारू, जीव प्रत्यक्ष सुधारू जी ॥ म्हा० ॥ ३ ॥ अयविजस्स बले जग जाणें, लोकादिक अनुमाने जी ॥ म्हा० ॥ त्रिभुवन पूजे जासु पसायें, धारो शुभ्र अध्यवसायें जी ॥ म्हा० ॥ ४ ॥ नाणावरणी उपशमं क्षयथी, चेतन नाणकुं विलसे जी ॥ म्हा० ॥ सप्तम पदमें भवि जन हरखे, निसदिन कुशलता निरखे जी ॥ म्हा० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ ज्ञानपद थुई ॥

मति श्रुति इंडी जन्नित कहियें लहियें गुण गंभीरो जी, आतमधारी गणधर विचारी द्वादस अंग विस्तारो जी ॥ अवधि मनपर्यव केवल वलि प्रत्यक्ष रूप अवधारो जी, ए पांच ज्ञानकूं वंदो पूजो भविजनने सुखकारो जी ॥ १ ॥ इति थुई ॥

॥ अथ चारित्रपद चैत्यवंदन ॥

जस्स पसायें साहु पाय, जुग२ समितेंद ॥ नमन करे शुभ भाव लाय, फुन नरपति वृंद ॥ १ ॥ जंपे धरि अरिहंतराय, करि कर्म निकंद ॥ सुमति पंच तीन गुप्ति युत, दे सुख अमंद ॥ २ ॥ इखु कृति मान कसायथो ए, रहित लेस सुचिवंत ॥ जीव चरित्तकूं हीर धर्म, नमन करत नित संत ॥ ३ ॥ इति चारित्रपद चैत्यवंदनं ॥

॥ अथ चारित्रपद स्तवनं ॥

॥ निर्विकल्प अजं निर्गुणी, चिंदाभास निरसंग ॥ सुग्यानी साभलो ॥ टेर ॥ मूर्त्ति हीन चेतन करे, रूपी पुदगल रंग ॥ सु० ॥१॥ स्पर्धक कारण वर्गणा, कार्य कारण भाव ॥ सु० ॥ कत्वा जोगसुधामता, लब्धा संख स्वभाव ॥ सु० ॥ २ ॥ पर्याप्ता लघु जोगमें, वृद्धि लहे जगमान ॥ सु० ॥ मध्यें वसु समयें लहे, अंते होते जाण । सु० ॥ ३ ॥ सहकारी मानसमुखा, कारण रम्य वलेण ॥ सु० ॥ प्राप्ता घस्र प्रकारता, सप्त प्रभृतका तेन ॥ सु० ॥४॥ तहो धन रूपी भलो, चेतन संजम धाम ॥ सु० ॥ कर घन मिल पद

धर्ममें, कुशल भवतु अभिराम ॥ सु ॥ ५ ॥ इति चारित्रपद स्तवनं ॥

॥ अथ चारित्रपद थुई ॥

॥ कर्म अपचय दूर खपावै आतम ध्यान लगावे जी, बारे भावना सूधी भावै सागर पार ऊतारै जी ॥ खट खंड राजकूं दूर तजीनें चक्री संजम धारै जी, एहवो चारित्रपद नित वंदो आतम-गुण हितकारै जी ॥ १ ॥ इति ॥

॥ अथ तपपद चैत्यवंदन ॥

॥ श्रीऋषभादिक तीर्थनाथ, तद्भव सिव जाण ॥ बिहि अं तेरपि बाह्य, मध्य द्वादस परिमाण ॥ १ ॥ वसुकर मित आमो स ही, आदिक लब्धि निदान ॥ भेदैं समता युत खिणें, इग्घन कर्म विमान ॥२॥ नवमो श्रीतपपद भलो ए, इच्छारोध सरूप ॥ वंदनसें नित हीरधर्म, दूर भवतु भवकूप ॥ ३ ॥ इति ॥

॥ अथ तपपद स्तवन ॥

॥ बारस भेद भएया जिनराजे, बाह्य मध्यतणा जग काजे रे ॥ म्हारे शिवपदश्रेणि ॥ ए आंकणी ॥ तिण भव सिद्धितणा वर ध्याता, जिनवर पिण तपना कर्त्ता रे ॥ म्हारे शि० ॥ १ ॥ स मता सहितें जिनतें भारी, भली कर्मचमु पिण हारी रे ॥ म्हारें शिवपदश्रे० ॥ जीव कनकसें कर्म कचोरा, दहे तप पावकका जोरा रे ॥ म्हारे शिव० ॥ तप तरुवरना कुसम है ऋद्धि, देव नरनी फल ते सिद्धि रे ॥ म्हारे शि० ॥ पाप सकल हे तमनी रासी, तप भानुसे जायें नासी रे ॥ म्हारे शि० ॥ ३ ॥ जस्स पसायें लहियें वारू, लब्धा सगली जगहितकारू रे ॥ म्हा० ॥ अति दुक्कर फुन साध्यता हीना, काम तातें वारू कीना रे ॥ म्हा० ॥ ४ ॥ इच्छा रोधन रूपी कहिये, तपपदही चैतन वहिये रे ॥ म्हा० ॥ पाठक श्रीहीरधर्म कृपासे, नवपद कुसलाकूं भासे रे॥ म्हारे शि० ॥५॥ इति॥

॥ अथ तप पद थुई ॥

इच्छारोधन तप ते जाख्यो आगम तेहनो साखी जी, द्रव्य जावसे द्वादश दाखी जोग समाधी राखी जी ॥ चेतन निजगुण परणित पेखी तेहिज तपगुण दाखी जी, लबधि सकलनो कारण देखी ईश्वर सें मुख जाखी जी ॥ १ ॥ इति तपपद स्तुति ॥

॥ अथ श्चतुर्विंशति जिन स्तुति ॥

श्रीमदृषज सर्वज्ञ, वृषजांक सुवर्णरुक् ॥ जय देवाधि देवाद्य, नाजिराजेंद्र नंदनः ॥ १ ॥ युगस्यादौ त्वयायेन, ज्ञानत्रय युते न यत् ॥ जनन्या मरुदेवायाः, पावनं जठरं कृतं ॥ २ ॥ इति ऋषज स्तुति ॥ अर्हताजितनाथेन, गज लांछन शालिना ॥ जितसत्रु महीपाल, पुत्रेण कनकत्विषा ॥ ३ ॥ विजयाकुक्षि रत्नेन, जगवं-स्त्वयका जिनः ॥ जिता रागाद्ययोयेन, वंदेत्वां सर्वदा मुदा ॥ ४ ॥ इत्यजित स्तुति ॥ जितारिनृपतेर्वर्यात्, संजवः संजवाजिधः ॥ सेनाया नंदनो हेम, वर्णो गंधर्व लांछनः ॥ ५ ॥ सर्वसौख्यप्रदो मुख्य, ज्ञान दर्शन संयुतः ॥ मुनीनां पूंगवो देवो, नित्यं दिसतुमांजिनः ॥ ॥ ६ ॥ इति शंजब स्तुतिः ॥ सिद्धार्था नंदनं सार्वं, वीतरागं जग-त्पतिं ॥ श्रीसंबर समुत्पन्नं, प्लवगांकं हिरण्यजं ॥ ७ ॥ अजिनंदन नामानं, विशुद्ध हृदयं सदा ॥ यस्तौति परया जक्त्या, सनालोकेजि नंद्यते ॥ ८ ॥ इत्यजिनंदन स्तुति ॥ मेघाजिध धरि त्रोस, तन यो मंगलप्रदः ॥ क्रौंच लक्षण जृद्धेम, मरीचिर्मंगलांगजः ॥ ए ॥ सत्वं सुमतिनाथेश ॥ सुमतिं तनु सत्तमां ॥ जविनां पुण्य कर्तृणां, स्वर्ग सौख्या वलि प्रदं ॥ १० ॥ इति सुमति स्तुतिः ॥ सुसीमापुत्र सत्कोक, नवद्युति धराधर ॥ धराजिव नृपोद्भुनः, पद्म लक्षण धारकः ॥ ११ ॥ जवाब्धौ जव संकीर्णे, डुस्तरे पततां नृणां ॥ त्राणाय सततं देव, पद्मप्रज जिनेश्वर ॥ १२ ॥ इति पद्मप्रज

स्तुति ॥ श्रीसुपार्श्वोभिधोदेवः, पृथ्वीजः स्वस्तिकांकभृत् ॥ प्रतिष्ट नृप संजात, श्चामीकर करो जिनः ॥ १३ ॥ समुद्र इव गंभीरः, कर्माणां छेदने परः ॥ यः सार्वः परमब्रह्मा, रतं नौमि सदा विभुं ॥ १४ ॥ इति सुपार्श्व स्तुतिः ॥ चंद्रप्रभ प्रभोकांतं, चंद्र लक्षण संयुतः ॥ तमापतिह विज्ञान, तमोव्यूह विनाशनः ॥ १५ ॥ संसार जलधेर्नाथ, महसेन नृपोभव ॥ लक्ष्मणा पुत्रमां स्वामि, भव केवल बोधभृत् ॥१६॥ इति चंद्रप्रभु स्तुति ॥ (अत्राद्यश्छत्रबंधः श्लोकः) ॥ संस्तुतोवोवदत्वाशु, सुरासुरनरेश्वरैः ॥ सुविधिर्वांछितशर्म्म, सुग्रीवनृपनंदनः ॥ १७ ॥ यस्यासीज्जननीरामा, माननीयादिवौकसां ॥ मानमुक्तोवदातोयो, मायौमकरलांछिनः ॥ १८ ॥ इति सुविधनाथ स्तुतिः ॥ (चामरबंधाविमौ) ॥ श्रीमच्छीतलनाथेश, नन्दादृढरथात्मजः॥भास्वत्सुवर्णवद्देह, श्रीवत्सांकांकधारक ॥ १९ ॥ त्वदीयचरणांभोज, सेवकानांवपुर्भृतां ॥ प्राकृतंवृंजनव्यूहं ॥ दुष्टंशंभोदहेविभो ॥ २० ॥ इति शीतलनाथ स्तुतिः ॥ विष्णुर्वंशार्कवद्देवो, विष्णुपुत्रोहिरण्यभः ॥ श्रेयोवृद्धिकरोजस्रं, खड्गलांछिनभृज्जिनः ॥ २१ ॥ हित्वाकर्मरिपुन्सार्व, श्रेयांसश्रेयसैः सेह ॥ परज्ञानमयेनत्वं, महानन्दपदंपरं ॥ २२ ॥ इति श्रेयांस स्तुतिः ॥ ११ ॥ वरीवार्त्तितरामीहा, भवतांश्यदि ॥ झटितिछेदितुंचित्ते, भोभव्याः प्राप्तुमक्षरं ॥ २३ ॥ तदाभजध्वमेनंहि, वासुपूज्यजयासुतं ॥ वसुपूज्यकुलोत्तंसं, महिषांकंचरक्तभं ॥ २४ ॥ इति वासपूज्य स्तुतिः ॥ १२ ॥ श्रीमद्विमलनाथेंद्र, कृतवर्मसमुद्भवः ॥ शूकरांकधरस्यामा, पुत्रकल्याणदीधिते ॥२५॥ चंद्रवद्विमलज्ञान, त्वदंघ्रिस्मरणंविना ॥ कुर्वन्नप्येतिनोब्रह्म, प्रक्रियांनातिविस्तरां ॥ २६ ॥ इति विमल स्तुतिः ॥ १३ ॥ हेमवर्णस्यपुत्रस्य, सुयशःसिंहसेनयोः ॥ देवस्यश्येनचिह्नस्य, नर्यानन्तगुणोदधेः ॥ २७ ॥ इंद्राद

थोपियस्यांतं, गुणानांलेभिरेनहि ॥ अनन्तस्यगुणान्तस्य, क्रमोवक्तुं नरः कथं ॥ २८ ॥ इत्यनंत स्तुतिः ॥ १४ ॥ सुव्रतापूत्रवज्रांक, भानुवंशार्कसन्निभः ॥ कनकप्रभसर्वज्ञ, धर्मनाथाभिधेश्वरः ॥ २९ ॥ तवागोपिपुरश्चारी, भूतलेयात्यशोकतां ॥ अनुत्तरफलाः संति, सत संगतयोपिहि ॥ ३० ॥ इति धर्मनाथ स्तुतिः ॥ विश्वसेनधराधीसं, नन्दनंमृगलक्षणं ॥ आचिरेयंसुवर्णानां, कलायामिजिनेश्वरं ॥ ॥ ३१ ॥ तंश्रीमच्छांतिनामानं, यस्याग्रेकुर्वतेमुदा ॥ प्राज्यांसुमनसां वृष्टिं, विबुधाविबुधप्रियां ॥ ३२ ॥ इति शांतिनाथ स्तुतिः ॥ श्री सुतायाः श्रियपुत्र, श्रेयस्करहिरण्यभ ॥ सूरिभूपतिसंजात, छागल क्षणधारकः ॥ ३३ ॥ कुंथुनाथजिनेशस्य, तीर्थंकरजगत्पते ॥ मदीयं पापसंदोहं, भवांतरकृतंघनं ॥ ३४ ॥ इति कुंथुनाथ स्तुतिः सुदर्शननृपोभूतं, नंदावर्त्तांकसंयुतं ॥ अंभोजवन्निरालेपं, देवीपुत्रसु वर्णभं ॥ ३५ ॥ जगन्मुख्यागुणाः सर्वे, धुर्य्यंप्रभुतयाजिनं ॥ चरी कर्म्मिनमस्तमा, अरायपरमात्मने ॥ ३६ ॥ इत्यरनाथस्तुति ॥ १८ ॥ कुंभप्रभावतीपूत्रौ, नीलवर्णोघटांकभृत् ॥ जगन्मित्रइवध्वान्त, नासनाद्विदितःसदा ॥ ३७ ॥ छत्रत्रययुतोभाति, देवयोविष्टपत्त्रये ॥ तस्यश्रीमल्लिनाथस्य, स्मरणेनमुदासखे ॥ ३८ ॥ इति मल्लिना थ स्तुतिः ॥ सुमित्रनृपतेःसूनो, पद्माकुक्षिपवित्रकृत् ॥ कुर्म्मल क्षणभृद्धर्म्म, दायकस्यामलछ्वये ॥ ३९ ॥ मुनिसुव्रतदेवेन, क्षीणक र्म्मारिमंकूल ॥ देहित्वंमेत्ययीभावं, पदंतत्पुरुषोत्तमः ॥ ४० ॥ इ ति मुनिसुव्रत स्तुति ॥ २० ॥ श्रीमद्विजयभूपाल, कुलोत्तंसहिर ण्यरुक् ॥ वप्रासुतनमिनाथ, नीलोत्पलसदंकभृत् ॥ ४१ ॥ यस्ते पंचजनोदेव, निन्दाचकुरुतेश्वयं ॥ सएतिपरमज्ञानं, कोपिनह्यत्र संशयः ॥ ४२ ॥ इति नमिनाथ स्तुतिः ॥ २१ ॥ शिवायास्तनयेव र्ये, समुद्रविजयोभवे ॥ हरिवंसहरीशंभो, शंखांकेकमलप्रभे ॥ ४३

॥ त्यक्तराजीमतीस्नेहे, नेमनाथेजितेस्मरे ॥ सिद्धिप्रमदयामाला, प्र त्यक्तेपिजिनेश्वरे ॥ ४४॥ इति नेमनाथ स्तुतिः॥२२॥ अश्वसेना कन्नूपाल, सुतेनपरमेष्ठिना ॥ वामेयेनहितायेन, कमठस्याभिमान ता ॥ ४५ ॥ तस्मैश्रीपार्श्वनाथाय, नमोस्तुमामकंसदा ॥ पवनास नचिन्हाय, नीलवर्णायसंभवे ॥ ४६ ॥ इति श्रीपार्श्वनाथ स्तुतिः॥ श्रीमत्सिद्धार्थवंशार्क, त्रिशलेयजगत्मणे ॥ महानादध्वजार्हत, क ल्याणंकरसर्वदा ॥ ४७ ॥ चरमस्तीर्थकद्वीर, मोहेभदननेमृगात् ॥ त्वभक्तिदत्तचित्ताय, कमलांदेहिमेजिन ॥ ४८ ॥ इति वीरप्रभुस्तुतिः ॥२४॥ इति श्रीक्षमाकल्याणोपाध्याय कृत चतुर्विंशति जिन स्तुतिः॥

अथ नवपदजीके उलीके देववंदनमें कहणेका चैत्यवंदन प हली लिखा हे ॥ ॥ अथ नवपद वृद्ध स्तवन लिख्यते ॥

सुरमणी तम सहु मंत्रमां, नवपद अभिरामी रे लोय ॥ अहो न० ॥ करुणासागर गुणनिधी, जग अंतरजामी रे लोय ॥ अहो ज० ॥ १ ॥ त्रिभुवनजन पूजित सदा, लोकालोक प्रकासी रे लोय ॥ अहो लो० ॥ एहवा श्रीअरिहंतजी, नमुं चित्त उल्लासी रे लोय ॥ अहो न० ॥ २ ॥ अष्ट करमदल क्षय करी, थया सिद्ध गरूपी रे लोय ॥ अहो थ०॥ सिद्ध नमो भवि भावथी, जे आगम अरूपी रे लोय ॥ अहो जे० ॥ ३ ॥ गुण छत्तीसे सोभता, सुंदर सुखकारी रे लोय॥ अहो सु०॥ आचारज तीजै पदै, वंदू अविकारी रे लोय ॥ अहो वं० ॥ ४ ॥ आगमधारी उपशमी, तप दु विध आराधी रे लोय ॥ अहो त० ॥ चोथे पद पाठक नमो, संवेग समाधी रे लोय ॥ अ० सं० ॥ ५ ॥ पंचाचार पालण परा, पंचाश्रव त्यागी रे लोय ॥ अ० पं० ॥ गुणरागी मुनि पांचमें, प्रणमुं वरूभागी रे लोय ॥ अ० प्र० ॥ ६ ॥ निज पर गुणनें उलखै, श्रुत श्रद्धा आवै रे लोय ॥ अ० श्रु० ॥ छठे गुण दरसण नमो, आ-

तम शुन्न न्नावे रे लोय ॥ अ० आ० ॥ ७ ॥ ग्यान नमो गुण सातमे, जे पंच प्रकारे रे लोय ॥ अ० जे० ॥ स्व पर प्रकाशक दिनमणी, अज्ञान निवारे रे लोय ॥ अ० अ० ॥ ८ ॥ आठमें चारित्रपद नमो, परन्नाव निवारी रे लोय ॥ अ० प० ॥ खंत्यादिक दस धर्मनो, जेह बे अधिकारी रे लोय ॥ अ० जे० ॥ ए ॥ नवमे वलि तपपद नमो, बाह्याज्यंतर न्नेदे रे लोय ॥ अ० बा० ॥ बांध्या काल अनंतना, जे कर्म्म उच्छेदे रे लोय ॥ अ० जे० ॥ १० ॥ ए नवपद बहुमानथी, ध्यावै शुन्न न्नावै रे लोय ॥ अ० ध्या० ॥ नृप श्रीपालतणी परे, मन वंछित पावै रे लोय ॥ अ० म० ॥ ११ ॥ आसू चैत्रक मासमां, नव आंबिल करिये रे लोय ॥ अ० न० ॥ नव उली विधि युत करी, शिवकमला वरिये रे लोय ॥ अ० शि०॥ ॥ १२ ॥ सिद्धचक्रनी बहु परै, वर महिमा कीजे रे लोय ॥ अ०॥ व० ॥ श्रीजिनलान्न कहे सदा, अनुपम जस लीजे रे लोय ॥ अ०॥ अ० ॥ १३ ॥ इति नवपद स्तवनं ॥

॥ अथ नवपद स्तवन २ जुं ॥ राग मारू ॥

तीरथनायक जिनवरू जी, अतिसय जास अनूप ॥ सिद्ध अनंत महागुणी जी, परमानंद सरूप ॥ न्नविक मन धारज्यो रे ॥ धारज्यो नवपद ध्यान ॥ न्न० ॥ १ ॥ ए टेर ॥ श्री आचारज गण धरू रे, गुण बत्तीस निवास ॥ पाठक पदधर मुनिवरू जी, श्रुत दा [illegible] सुविलास ॥ न्न० ॥ २ ॥ सुमति गुपति धर शोन्नता जी, [illegible] समतावंत ॥ सम्यग्दर्शन सुंदरू जी, ज्ञान प्रकाश अनंत ॥ [illegible] ॥ ३ ॥ संवर साधना चरण है रे, तप उत्तम विधि दोय ॥ [illegible] वपदना ध्यानथी रे, निरुपाधिक सुख होय ॥ न्न० ॥ ४ ॥ [illegible] त सम जिनधर्मनो रे, मूल ए नवपद जाण ॥ अविचल अनुन्नव कारणे जी, नितप्रति नमत कल्याण ॥ न्न० ॥ ५ ॥ इति पदं ॥

॥ अथ नवपद स्तवन ३ जुं ॥ राग प्रभाती ॥

नवपद ध्यान धरो रे, भविका न० ॥ मन वच काया कर एकंते, विकथा दूर हरो रे ॥ न० ॥ १ ॥ मंत्र जन्त्री अरु तंत्र घणे रा, इन सबकूं विसरो रे ॥ अरिहंतादिक नवपद जपनें, पुण्य भंडार भरो रे ॥ न० ॥ २ ॥ अरुसिद्ध नवनिधि मंगलमाला, संपति सहज वरो रे ॥ लालचंद याकी बलिहारी, सुरतरु बीज खरो रे न० ॥ ३ ॥

॥ अथ नवपद स्तवन ४ थुं ॥

जीया चतुरसुजाण नवपदके गुण गाय रे, जी० ॥ नवपद महिमा जगमें मोटी, गणधर पार न पाय रे ॥ जी० ॥ १ ॥ जो अपणे आतमसुख चाहे, तो इक ध्यान लगाय रे ॥ जी० ॥ करम निकाचित दूर करणकूं, सुंदर शुद्ध उपाय रे ॥ जी० ॥ २ ॥ इन को पुष्ट आलंबन करतां, अजर अमर पद थाय रे ॥ जी० ॥ इव जिन भए आगामी होंयगे, नवपद संग पसाय रे ॥ जी० ॥ ३ ॥ इति ॥

॥ अथ नवपद स्तवन ५ मुं ॥

जिन नित नमो, नित नमो नमो नमो, जि० ॥ अरिहंत सिद्ध उर आचारज, उवझाया मन गमो२ ॥ जि० ॥ १ ॥ सर्व साधू मंगल ए पांचू, याहीसें दिल रमो२ ॥ जि० ॥ दरशन ज्ञान चरण तप उत्तम, याहीसें दिल दमो२ ॥ जि० ॥ सर्व पाप तज भज नवपदकूं, सर्व पाप उपशमो२ ॥ जि० ॥ बाल कहे यही सार जगतमे, उर द्वार मत भमो२ ॥ जि० ॥ ३ ॥ इति पदं ॥

॥ अथ नवपद थुई ॥

नितप्रति हूं प्रणमुं सिद्धचक्र सुभ भाव, हिव कारज सिद्धिनो लाधो एह उपाय ॥ तुझ नाम पसायें आरति व्याधि पुलाय, जग तुझ अनुग्रहथी सुख संपति मुझ थाय ॥ १ ॥ श्रीअरिहंत नमिये सिद्ध सूरी उवझाय, मुनिवर त्रिक करनें दंसण नाण सुहाय ॥

ङ्ग विधि चारित्तैं वुध विध तप मन लाय, ये नवपद ध्यावतां नि रुपम शिवसुख थाय ॥ २ ॥ विद्यापरवादे जाणो ए अधिकार, श्री गुरु उपदेशैं सिद्धचक्र उद्धार ॥ प्रवचन अनुसारे लाध्यो एह विचा र, भविजन नित ध्यावो सुरतरु गुणभंडार ॥ ३ ॥ जिनधरम अ नुरागी चक्केसरि सुखकार, सेवकनें आपे सुख संपति परिवार ॥ ऋद्धि निद्धि उदय करि चारित्रनंदी मन लाय, जिनचंद सूरीसर खरतरपति सुपसाय ॥ ४ ॥ इति थुई ॥

॥ अथ जैतीसंयुक्त नवपद उली करण विधि लिख्यते ॥

॥ तत्र प्रथम दिवस विधि लिख्यते ॥

(प्रथम) आसो सुदि ७ अथवा चैत्र सुदि ७ सें उली सरू करे, कभी तिथि घटी होय तो ६ सें सरू करे, वढी होय तो ८ सें सरू करे, लेकिन आंविल ए पूनम तक करे. प्रथम जमीन शुद्ध करके मांडणादिकसें चित्रित करे, पीछे पट्टे पर सिद्धचक्र थापके त्रि काल पूजा करै. प्रभातसमें राईपडिक्कमणा करके पीछे वस्त्रोंकी पडिलेहणा करै. जहां सिद्धचक्रकी थापना है उहां आयकें पांचे शक्रस्तवे देव वांदे, पीछे नव चैत्योंमें अथवा नव प्रतिमा आगे नव चैत्यवंदन करै, वासक्षेप पूजा करे, पीछै केसरचंदनसें पूजा करै. गुरु पास आयके अभुट्ठिओमिके पाठसें राई आलोवे, आंविलका प च्चखाण करै. प्रथम अरिहंतपदका श्वेत रंग है इस वास्ते चावलोंसें उर गरमपाणीसें आंविलका नियम करे. पीछे अरिहंतके बारे गु णोंको विचार कर नमस्कार करै, सो लिखते हैं. सब गुणोंमे इच्छा मिखमासमणो वं० पाठ कहिके नमस्कार करै ॥

॥ अथ द्वादश अरिहंत गुणाः ॥

१ असोकवृक्ष प्रातिहार्य संयुताय श्रीअरिहंताय नमः ॥

२ पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य संयुताय श्रीअ० ॥

३ दिव्यध्वनि प्रातिहार्य संयुताय श्रीअ० ॥
४ चामरयुग प्रातिहार्य संयुताय श्रीअ० ॥
५ स्वर्णसिंहासण प्रातिहार्य संयुताय श्रीअ० ॥
६ भामंमल प्रातिहार्य संयुताय श्रीअ० ॥
७ दुंदुभि प्रातिहार्य संयुताय श्रीअ० ॥
८ छत्रत्रय प्रातिहार्य संयुताय श्रीअ० ॥
९ ज्ञानातिशय संयुताय श्रीअ० ॥
१० पूजातिशय संयुताय श्रीअ० ॥
११ वचनातिशय संयुताय श्रीअ० ॥
१२ अपायापगमातिशय संयुताय श्रीअ० ॥इतिद्वादसअ० गु०

॥ इत्यादि नमस्कार करके अन्नत्थूससियेणं कहिके १२ लोगस्सका काउसग्ग करै. एक लोगस्स प्रगट कहे, पीछै स्वस्थानक जा के चैत्यवंदन करै, पच्चखाण पार के आंबिल करै. पहले वखत जल पीवे तब चैत्यवंदन कर के पीवे, पीछै मध्याह्न समय पांचे शक्रस्तवे देव वांदै. गुणनो (२०००) ॥ ॐ ह्रीं णमो अरिहंताणं ॥ इस पदका करै. श्रीपालचरित्र सुणे. पूण पहर दिन रहणेसें तीसरी वेर पांचे शक्रस्तवे देव वांदे. पीछे फेर चैत्यवंदन कर के तिविहार पच्चख्काण करे पाणहारका। फेर सामायक ले के दिन रहते प्रतिक्रमण करै. आरती के वखत दीप धूप पुष्प पूजा करै अथवा पहले आरती वगेरे करके पीछै पडिक्कमणा करै. (सोणे के वखत) पहले इरियावही पडकमके चैत्यवंदन करै, फेर २.३ संथारा गाथा सुणें ॥ निद्रा नही आवे जहां तक नव गुण स्मरण करै ॥ इति ॥

॥ अथ द्वितिय दिवस विधि लिख्यते ॥

॥ अब इसी मुजव दूसरे दिन प्रभात समे की सब करणी पहले मुजव करके सिद्धपदका लाल रंग है इस वास्ते गेहूंकी रो-

टीसें आंबिल करे ॥ ॐ ह्रीं णमो सिद्धाणं ॥ इस पदका दो हजार गुणना करे. सिद्धपदका ८ गुण हे. ८ नमस्कार गुरु करावे सो लि०॥

॥ अथ सिद्ध अष्ट गुणाः ॥

१ अनंत ज्ञान संयुताय श्री सिद्धाय नमः ॥
२ अनंत दर्शन संयुताय श्रीसि० ॥
३ अव्याबाध गुण संयुताय श्रीसि० ॥
४ अनंत सम्यक्त चारित्र गुण संयुताय श्रीसि० ॥
५ अक्षयस्थिति गुण संयुताय श्रीसि० ॥
६ अरूपी निरंजन गुण संयुताय श्रीसि० ॥
७ अगुरु लघु गुण संयुताय श्रीसि० ॥
८ अनंतवीर्यगुण संयुताय श्रीसि० ॥ इति सिद्धाष्टौगुणाः ॥

यह आठ नमस्कार करके अन्नत्थूससि० कहके आठ लोगस्सका काउसग्ग करे, एक लोगस्स प्रगट कहे. फेर पूर्वोक्त करणी करे ॥

॥ अथ तृतीय दिवस विधि लिख्यते ॥

पूर्वोक्त विधिसें प्रभात कर्त्तव्य करे. आचार्यपद पीले वर्ण हे इस वास्ते चणाकी दालका आंबिल करे ॥ ॐ ह्रीं णमो आयरिआणं ॥ इस पदका दो हजार जाप करे, आचार्यके ३६ गुण हे. छत्तीस नमस्कार गुरु करावे सो लिखते हे ॥

॥ अथ आचार्य छत्तीस गुणाः ॥

१ प्रतिरूपगुण संयुताय श्रीआचार्याय नमः ॥
२ सूर्यवत्तेजस्वी गुण संयुताय श्रीआ० ॥
३ युगप्रधानागम संयुताय श्रीआ० ॥
४ मधुर वाक्यगुण संयुताय श्रीआ० ॥
५ गांभीर्यगुण संयुताय श्रीआ० ॥
६ धैर्यगुण संयुताय श्रीआ० ॥

७ उपदेशगुण संयुताय श्रीआ० ॥
८ अपरिश्रावीगुण संयुताय श्रीआ० ॥
९ सौम्यप्रकृतिगुण संयुताय श्रीआ० ॥
१० शीलगुण संयुताय श्रीआ० ॥
११ अविग्रहगुण संयुताय श्रीआ० ॥
१२ अविकथकगुण संयुताय श्रीआ० ॥
१३ अचपलगुण संयुताय श्रीआ० ॥
१४ प्रसंतवदनगुण संयुताय श्रीआ० ॥
१५ क्षमागुण संयुताय श्रीआ० ॥
१६ मृदुगुण संयुताय श्रीआ० ॥
१७ सर्वसंगमुक्तिगुण संयुताय श्रीआ० ॥
१८ ऋजुगुण संयुताय श्रीआ० ॥
१९ द्वादस विध तपगुण संयुताय श्रीआ० ॥
२० सप्तदश विध संयमगुण संयुताय श्रीआ० ॥
२१ सत्यव्रतगुण संयुताय श्रीआ० ॥
२२ सौचगुण संयुताय श्रीआ० ॥
२३ अकिंचनगुण संयुताय श्रीआ० ॥
२४ ब्रह्मचर्यगुण संयुताय श्रीआ० ॥
२५ अनित्य भावना भावकाय श्रीआ० ॥
२६ असरण भावना भावकाय श्रीआ० ॥
२७ संसार स्वरूप भावना भावकाय श्रीआ०
२८ एकत्व स्वरूप भावना भावकाय श्रीआ० ॥
२९ अन्यत्व भावना भावकाय श्रीआ० ॥
३० अशुचि भावना भावकाय श्रीआ० ॥
३१ आश्रव भावना भावकाय श्रीआ० ॥

३२ संबर ज्ञावना ज्ञावकाय श्रीश्रा० ॥
३३ निर्जरा ज्ञावना ज्ञावकाय श्रीश्रा० ॥
३४ लोकस्वरूप ज्ञावना ज्ञावकाय श्रीश्रा० ॥
३५ बोधडुर्लज्ञ ज्ञावना ज्ञावकाय श्रीश्रा० ॥
३६ धर्म्मडुर्लज्ञ ज्ञावना ज्ञावकाय श्रीश्रा० ॥ इतिषट्त्रिंसत् श्रा०

॥ यह उत्तीस नमस्कार करके अन्नत्थूससि० कहके उत्तीस ३६ लोगस्सका काउसग्ग करे, प्रगट लोगस्स कहे. पूर्वोक्त करणी क्रमसें करै. इति तृतिय दिवस विधि ॥

॥ अथ चतुर्थ दिवस विधि लिख्यते ॥

॥ उँ ह्रीँ णमो उवज्झायाणं ॥ इस पदका २ हजार जाप करै. हरेमूंगका आंबिल करै. उपाध्याय पदके २५ गुण याद करके नमस्कार करै ॥

॥ अथ उपाध्यायजी के २५ गुण लिख्यते ॥

१ श्रीआचारांगसूत्र पठनगुण युक्ताय श्रीउपाध्याय नमः ॥
२ श्रीसुयगमांगसूत्र पठनगुण युक्ताय श्रीउ० ॥
३ श्रीगणांगसूत्र पठनगुण युक्ताय श्रीउ०
४ श्रीसमवायांगसूत्र पठनगुण युक्ताय श्रीउ० ॥
५ श्रीज्ञगवतीसूत्र पठनगुण युक्ताय श्रीउ० ॥
६ श्रीज्ञातासूत्र पठनगुण युक्ताय श्रीउ० ॥
७ श्रीउपासगदसासूत्र पठनगुण युक्ताय श्रीउ० ॥
८ श्रीअंतगमदसासूत्र पठनगुण युक्ताय श्रीउ० ॥
९ श्रीअणुत्तरोववाइसूत्र पठनगुण युक्ताय श्रीउ० ॥
१० श्रीप्रश्नव्याकरणसूत्र पठनगुण युक्ताय श्रीउ० ॥
११ श्रीविपाकसूत्र पठनगुण युक्ताय श्रीउ० ॥
१२ उत्पादपूर्व पठनगुण यु० ॥

१३ आग्रायणीपूर्व पठनगुण यु० ॥
१४ वीर्यप्रवाद पठनगुण यु० ॥
१५ अस्तिप्रवादपूर्व पठनगुण यु० ॥
१६ ज्ञानप्रवादपूर्व पठनगुण यु० ॥
१७ सत्यप्रवादपूर्व पठनगुण यु० ॥
१८ आत्मप्रवादपूर्व पठनगुण यु० ॥
१९ कर्मप्रवादपूर्व पठनगुण यु० ॥
२० प्रत्याख्यानप्रवादपूर्व पठनगुण यु०
२१ विद्याप्रवादपूर्व पठनगुण यु० ॥
२२ अविंध्यप्रवादपूर्व पठनगुण यु० ॥
२३ प्राणायामप्रवादपुर्व पठनगुण यु० ॥
२४ क्रियाविसालपूर्व पठनगुण यु० ॥
२५ लोकविंदुसार पठनगुण यु०॥इति पंचाविंशत्योपाध्यायगुणाः॥

इस तरे २५ नमस्कार करै, खमा हो के अन्नत्थू० कहके २५ लोगस्सका काउसग्ग करे, प्रगट लोगस्स कहके पारे. पीछे पूर्वोक्त करणी करे ॥ इति चतुर्थ दिवस विधि ॥

॥ अथ पंचम दिवस विधि लिख्यते ॥

ॐ ह्रीं णमो लोए सव्व साहूणं ॥ इस पदका २ हजार गुणना करै. साधुपद काले वर्ण है इस वास्ते उम्दद के बाकलोसें आंबिल करै. सर्व साधूपदके सत्ताईस गुण विचारता हुवा नमस्कार करै॥

॥ अथ साधुपदके २७ गुण लिख्यते ॥

१ प्राणातिपातविरमणव्रत युक्ताय श्रीसाधवे नमः ॥
२ मृषावादविरमणव्रत युक्ताय श्रीसा० ॥
३ अदत्तादानविरमणव्रत युक्ताय श्रीसा० ॥
४ मैथुनविरमणव्रत युक्ताय श्रीसा० ॥

५ परिग्रहविरमणव्रत युक्ताय श्रीसा० ॥
६ रात्रिभोजनविरमणव्रत युक्ताय श्रीसा०॥
७ पृथ्वीकाय रक्षकाय श्रीसा० ॥
८ अप्पकाय रक्षकाय श्रीसा० ॥
९ तेउकाय रक्षकाय श्रीसा० ॥
१० वाउकाय रक्षकाय श्रीसा० ॥
११ वनस्पतिकाय रक्षकाय श्रीसा० ॥
१२ त्रसकाय रक्षकाय श्रीसा० ॥
१३ एकेंद्रीजीव रक्षकाय श्रीसा० ॥
१४ बेइंद्रीजीव रक्षकाय श्रीसा० ॥
१५ तेइंद्रीजीव रक्षकाय श्रीसा० ॥
१६ चोइंद्रीजीव रक्षकाय श्रीसा० ॥
१७ पंचेंद्रीजीव रक्षकाय श्रीसा० ॥
१८ लोभ निग्रहकाय श्रीसा० ॥
१९ क्षमागुण युक्ताय श्रीसा० ॥
२० शुभभावना भावकाय श्रीसा० ॥
२१ प्रतिलेखनादि क्रिया शुद्धकारकाय श्रीसा० ॥
२२ संजमयोग युक्ताय श्रीसा० ॥
२३ मनोगुप्त युक्ताय श्रीसा० ॥
२४ वचनगुप्त युक्ताय श्रीसा० ॥
२५ कायगुप्त युक्ताय श्रीसा० ॥
२६ सीतादि द्वाविंशति परीसह सहण तत्पराय श्रीसा० ॥
२७ मरणांतउपसर्ग सहण तत्पराय श्रीसा० ॥ इति साधुगुण॥

इस वजे २७ नमस्कार करे, २७ लोगस्सका काउसग्ग करे, प्रगट लोगस्स कहिके पारे. पीछे पूर्वोक्त करणी करै. यह पंच पर

मेष्टि पदके सब गुण मिलाणेसें १०८ होता है, इस वास्ते मालामें एकसो आठ मणिये होते हैं ॥ इति पंचम दिवस विधिः ॥

॥ अथ षष्ट दिवस विधि लिख्यते ॥

॥ ॐ ह्रीं णमो दंसणस्स ॥ इस पदका २ हजार जाप करै. दर्शनपद सपेद वर्ण है इस वास्ते चावलोंका आंबिल करैं. सम्यक्तके सडसठ गुण चिंतवकर नमस्कार करै ॥

॥ अथ सम्यक्तके सडसठ भेद लिख्यते ॥

१ परमार्थ संस्तवनारूप श्रीसद्दर्शनाय नमः॥
२ परमार्थ ज्ञातृसेवनारूप सद्द० ॥
३ व्यापन्न दर्शन वर्जनरूप सद्द० ॥
४ कुदर्शन वर्जनरूप सद्द० ॥
५ शुश्रूषारूप सद्द० ॥
६ धर्मरागरूप सद्द० ॥
७ वैयावृत्तरूप सद्द० ॥
८ अर्हद्विनयरूप सद्द० ॥
९ सिद्धविनयरूप सद्द० ॥
१० चैत्यविनयरूप सद्द० ॥
११ श्रुतविनयरूप सद्द० ॥
१२ धर्म्मविनयरूप सद्द० ॥
१३ साधूवर्ग विनयरूप सद्द० ॥
१४ आचार्य विनयरूप सद्द० ॥
१५ उपाध्याय विनयरूप सद्द० ॥
१६ प्रवचन विनयरूप सद्द० ॥
१७ दर्शन विनयरूप सद्द० ॥
१८ संसारे जिनसारमिति चिंतवनरूप सद्द०॥
१९ संसारे जिनमति सारमिति चिंतवनरूपसद्द० ॥

२० संसारे जिनमत स्थित साध्वादि सारमिति चिं० ॥
२१ शंकादूषण रहिताय सद्द० ॥
२२ कांक्षादूषण रहिताय सद्द० ॥
२३ विचिकित्सारूप दूषण रहिताय सद्द० ॥
२४ कुदृष्टिप्रशंसादूषण रहिताय सद्द० ॥
२५ तत्परिचय दूषण रहिताय सद्द० ॥
२६ प्रवचनप्रभावकरूप सद्द० ॥
२७ धर्मकथाप्रभावकरूप सद्द० ॥
२८ वादीप्रभावकरूप सद्द० ॥
२९ नैमत्तिकप्रभावकरूप सद्द० ॥
३० तपस्वीप्रभावकरूप सद्द० ॥
३१ प्रज्ञप्त्यादिक विद्याभृत्प्रभावक सद्द० ॥
३२ चूर्णअंजनादि सिद्धप्रभावक सद्द० ॥
३३ कविप्रभावकरूप सद्द० ॥
३४ जिनसासने कौसलता भूषण सद्द० ॥
३५ प्रभावनाभूषणरूप सद्द० ॥
३६ तीर्थसेवाभूषणरूप सद्द० ॥
३७ स्थैर्यताभूषणरूप सद्द० ॥
३८ जिनसासने भक्तिभूषणरूप सद्द० ॥
३९ उपशम गुणरूप सद्द० ॥
४० संवेग गुणरूप श्रीस० ॥
४१ निर्वेद गुणरूप श्रीस० ॥
४२ अनुकंपा गुणरूप श्रीस० ॥
४३ आस्तिका गुणरुप सद्द० ॥
४४ परतीर्थकादि वंदनवर्जनरूप सद्द० ॥

४५ परतीर्थकादि नमस्कार वर्जनरूप सद्द० ॥
४६ परतीर्थकादि आलाप वर्जनरूप सद्द० ॥
४७ परतीर्थकादि संलाप वर्जनरूप स० ॥
४८ परतीर्थकादि असनादि दानवर्जन श्रीस० ॥
४९ परतीर्थकादि गंधपुष्पादि प्रेषणवर्जन श्रीस० ॥
५० राजाभियोगाकारयुक्त श्रीसद्द० ॥
५१ गणाभियोगाकारयुक्त श्रीस० ॥
५२ बलाभियोगाकारयुक्त श्रीसद्द० ॥
५३ सुराभियोगाकारयुक्त श्रीसद्द० ॥
५४ कांतारवृत्याकारयुक्त श्रीस० ॥
५५ गुरुनिग्रहकारयुक्त श्रीस० ॥
५६ सम्यक्तचारित्रधर्मस्य मूलमिति चिंतनरूप सद्द० ॥
५७ चारित्रधर्मस्य पुरस्यद्वारमिति चिंतन श्रीसद्द० ॥
५७ चारित्रधर्मस्य प्रतिष्ठानमिति चिंतनरूप सद्द० ॥
५८ चारित्रधर्मस्य प्रतिष्ठानमिति चिंतनरूप सद्द० ॥
५९ चारित्रधर्म्मस्याधारमिति चिंतनरूप सद्द० ॥
६० चारित्रधर्मस्य भाजनमिति चिंतनरूप स० ॥
६१ चारित्रधर्मस्य सन्निन्नमिति चिंतवनरूप स० ॥
६२ अस्तिजीवेति श्रद्धानस्थानयु० श्रीसद्द० ॥
६३ सचजीव नित्येति श्रद्धानस्थानयु० सद्द० ॥
६४ सचजीव कर्माणि करोतीति श्रद्धानस्थानयु० स० ॥
६५ सचजीव कृतकर्म्माणि वेदयतीति श्रद्धानस्थान यु० स० ॥
६६ जीवस्यास्ति निर्वाणमिति श्रद्धानस्थानयु० श्रीस०
६७ अस्तिपुनर्मोक्षोपायेति श्रद्धानस्थानयु० श्रीस०॥ इति स०॥ –

॥ इस वजे सत्सठ नमस्कार कर खमा दो के अन्नकू० कहके

६७ लोगस्सका काउसग्ग करै. एक लोगस्स प्रगट कहके पारे. पीछै पूर्वोक्त करणी करै. इति षष्ट दिवस विधिः॥

॥ अथ सप्तम दिवस विधि लिख्यते ॥

॥ ॐ ह्रीँ नमो नाणस्स ॥ इस पदका २ हजार जाप करै. ज्ञानपद उज्वल वर्ण, तंदुलका आंबिल करै, इकावन भेद ज्ञानपद के चिंतव के नमस्कार करै ॥

॥ अथ ज्ञानपदके ५१ भेद लिख्यते ॥

१ स्पर्शनेंद्री व्यंजनावग्रह मतिज्ञानाय नमः ॥
२ रसनेंद्री व्यंजनावग्रह मतिज्ञानाय नमः ॥
३ घ्राणेंद्री व्यंजनावग्रह मतिज्ञानाय नमः ॥
४ श्रोत्रेंद्री व्यंजनावग्रह मति० ॥
५ स्पर्शनेंद्री अर्थावग्रह मति० ॥
६ रसनेंद्री अर्थावग्रह मति० ॥
७ घ्राणेंद्री अर्थावग्रह मति० ॥
८ चक्षुरिंद्री अर्थावग्रह मति० ॥
९ श्रोत्रेंद्री अर्थावग्रह मति० ॥
१० मन अर्थावग्रह मतिज्ञाना० ॥
११ स्पर्शनेंद्रीईहा मति० ॥
१२ रसनेंद्रीईहा मति० ॥
१३ घ्राणेंद्रीईहा मति० ॥
१४ चक्षुरिंद्रीईहा मति० ॥
१५ श्रोत्रेंद्रीईहा मति० ॥
१६ मनेकरीईहामति० ॥
१७ स्पर्शनेंद्रीअपाय मति० ॥
१८ रसनेंद्रीअपाय मति० ॥
१९ घ्राणेंद्रीअपाय मति० ॥

२० चक्षुरिंद्रीअपाय मति० ॥
२१ श्रोतेंद्रीअपाय मति० ॥
२२ मनैनापाय मति० ॥
२३ स्पर्शेनेंद्रीधारणा मति० ॥
२४ रसनेंद्रीधारणा मति० ॥
२५ घ्राणेंद्रीधारणा मति० ॥
२६ चक्षुरिंद्रीधारणा मति० ॥
२७ श्रोतेंद्रीधारणा मति० ॥
२८ मनोधारणा मति० ॥
२९ अक्षर श्रुतज्ञानाय नमः ॥
३० अनक्षर श्रुतज्ञानाय नमः ॥
३१ संज्ञी श्रुतज्ञानाय नमः ॥
३२ असंज्ञी श्रुत० ॥
३३ सम्यक् श्रुत० ॥
३४ मिथ्या श्रुत० ॥
३५ सादि श्रुतज्ञानाय नमः ॥
३६ अनादि श्रुतज्ञानाय नमः ॥
३७ सपर्यवसति श्रुत० ॥
३८ अपर्यवसति श्रुत० ॥
३९ गमिक श्रुतज्ञान० ॥
४० अगमिक श्रुत० ॥
४१ अंगप्रविष्ट श्रुत० ॥
४२ अनंगप्रविष्ट श्रुत० ॥
४३ अणुगामि अवधिज्ञानाय नमः ॥
४४ अणूणगामि अवधि० ॥

४५ वर्द्धमान अवधि० ॥

४६ हीयमान अवधिज्ञा० ॥

४७ प्रतिपाती अवधि० ॥

४८ अप्रतिपाती अवधि० ॥

४९ ऋजुमति मनःपर्यवज्ञानाय नमः

५० विपुलमति मनःपर्यवज्ञा० ॥

५१ लोकालोक प्रकाशक श्रीकेवलज्ञानाय नमः॥इति पंच ज्ञा०॥

इस तरे ५१ नमस्कार करे, खमा होके अन्नत्थ० कहके एकावन लोगस्सका काउसग्ग करै. एक लोगस्स प्रगट कहके पारे. पीछै पूर्वोक्त करणी करे. इति सप्तम दिवस विधि ॥

॥ अथ अष्टम दिवस विधि लिख्यते ॥

॥ ॐ ह्रीँ नमो चारित्तस्स ॥ इस पदका २ हजार जाप करे. चारित्र पदका उज्वल वर्ण है, इसीसें तंडुलका आंबिल करे. सत्तर भेद चारित्रपदके चिंतवके नमस्कार करे.

॥ अथ चारित्रपद के ७० भेद लिख्यते ॥

१ प्राणातिपातविरमणरूप चारित्राय नमः ॥

२ मृषावादविरमणरूप चारित्रा० ॥

३ अदत्तादानविरमणरूप चारि० ॥

४ मैथुनविरमणरूप चारि० ॥

५ परिग्रहविरमणरूप चारि० ॥

६ क्षमाधर्म्मरूप चारित्रेभ्यो नमः॥

७ आर्यवधर्मरूप चारित्रे० ॥

८ मृदुताधर्म्मरूप चारित्रे० ॥

९ मुक्तधर्म्मरूप चारित्रे० ॥

१० तपोधर्म्मरूप चारित्रे० ॥

११ संयमधर्म्मरूप चारि० ॥
१२ सत्यधर्म्मरूप चारि० ॥
१३ सौचधर्मरूप चारि० ॥
१४ अकिंचनधर्मरूप चा०
१५ बंभधर्मरूप चारि० ॥
१६ प्रथ्वीरक्षासंयम चारि० ॥
१७ उदगरक्षासंयम चारि०
१८ तेऊरक्षासंयम चा० ॥
१९ वाऊरक्षासंयम चारि० ॥
२० वनस्पतिरक्षासंयम चारि० ॥
२१ बेइंद्रीरक्षासंयम चारि०
२२ तेइंद्रीरक्षासंयम चारि० ॥
२३ चौइंद्रीरक्षासंयम चारि० ॥
२४ पंचेंद्रीरक्षासंयम चारि० ॥
२५ अजीवरक्षासंयम चारि० ॥
२६ प्रेक्षासंयम चारि० ॥
२७ उपेक्षासंयम चारि० ॥
२८ अतिरक्तवस्त्रभक्तादि परठन त्यागरूप संयम चारि० ॥
२९ प्रमार्जनरूप संयम चारि० ॥
३० मनसंयम चारि० ॥
३१ वाक्संयम चारि० ॥
३२ कायासंयम चारि०
३३ आचार्य वेयावृत्यरूप संयम चारि० ॥
३४ उपाध्याय वेयावृत्यरूप संयम चारि० ।
३५ तपस्वी वेयावृत्यरूप संयम चारि० ॥

३६ लघुशिष्यादि वेयावृत्यरूप संयम चा०॥
३७ गिलाणसाधु वेयावृत्यरूप संयम चा० ॥
३८ साधु वेयावृत्यरूप संयम चा० ॥
३९ श्रमणोपासक वेयावृत्यरूप संयम चा०॥
४० संघवेयावृत्यरुप चारि० ॥
४१ कुलवेयावृत्यरुप चारि० ॥
४२ गणवेयावृत्यरुप चारि० ॥
४३ पशुपंडगादिरहित वसति वसण ब्रह्मगुप्त चारि० ॥
४४ स्त्रीहास्यादि विकथावर्जन ब्रह्मगुप्त चारि० ॥
४५। स्त्रीआसनवर्जन ब्रह्मगुप्त चारि० ॥
४६ स्त्रीअंगोपांग निरीक्षण वर्जनरुप चारि०॥
४७ कुड्यंतरसहित स्त्रीहावभाव सुणन वर्जन ब्र०
४८ पूर्वस्त्रीसंभोग चिंतन वर्जन ब्रह्मगुप्त चा०
४९ अतिसरस आहारवर्जन ब्रह्मगुप्त चा० ॥
५० अतिआहार करणवर्जन ब्रह्मगुप्त चा० ॥
५१ अंगविभूषावर्जन ब्रह्मगुप्त चा० ॥
५२ अणसण तपोरूप चा०
५३ ऊणोदरी तपोरुप चा० ॥
५४ वित्तसंखेवरुप चा० ॥
५५ रसत्याग तपोरुप चा० ॥
५६ कायकिलेस तपोरुप चा० ॥
५७ संलेखणा तपोरुप चा० ॥
५८ प्रायश्चित्त तपोरुप चा० ॥
५९ विनय तपोरुप चा० ॥
६० वेयावच्च तपोरुप चा० ॥

६१ सिज्झाय तपोरुप चा० ॥

६२ ध्यान तपोरुप चारि० ॥

६३ नुपसर्ग तपोरुप चा० ॥

६४ अनंत ज्ञान संयुक्त चा० ॥

६५ अनंत दर्शनसंयुक्त चा० ॥

६६ अनंत चारित्रसंयुक्त चा० ॥

६७ क्रोध निग्रहकरण चारि० ॥

६८ मान निग्रहकरण चारि० ॥

६९ माया निग्रहकरण चा० ॥

७० लोभ निग्रहकरण चा० ॥ इतिसित्तचारित्रभेदाः ।

॥ इस तरै ७० नमस्कार करै. खमा दो के अन्नत्थूससि० ७० लोगस्सका काउसग्ग करै. एक लोगस्स प्रगट कहे. पूर्वोक्त करणी करै ॥ इति अष्टम दिवस विधिः ॥

॥ अथ नवम दिवस विधि लिख्यते ॥

॥ ॐ ह्रीँ णमो तवस्स ॥ इस पदका २ हजार गुणना करै. तपपदका उज्वल वर्ण इस वास्ते चावलोंका आंबिल करै. पच्चास भेद तपपदके चिंतव के नमस्कार करै ॥

॥ अथ तपपद के ५० भेद लिख्यते ॥

१ यावत् कथक तपसे नमः ॥

२ इत्वर तपभेद तपसे नमः ॥

३ बाह्यऊणोदरी तपभेद तपसे नमः ॥

४ अभ्यंतरऊणोदरी तपभेद त० ॥

५ द्रव्यतपवृत्ती संखेप तपभेद त० ॥

६ क्षेत्रतप वित्ती संखेप तपभेद त० ॥

७ कालतप वित्ती संखेप तपभेद त० ॥

८ भावतप वित्ती संखेप तपभेद त० ॥

ए कायकिलेस तपभेद तप० ॥

१० रसत्याग तपभेद तप० ॥

११ इंद्रीकषाय योग विषयक संलीणता तपसे नमः ॥

१२ स्त्री पशु पंडकादि वर्जित स्थान अवस्थित संलीणता त०॥

१३ आलोयण प्रायश्चित्त तप० ॥

१४ पडिक्कमण प्रायश्चित्त तप० ॥

१५ मिश्र प्रायश्चित्त तपसे० ॥

१६ विवेक प्रायश्चित्त तप० ॥

१७ उपसर्ग प्रायश्चित्त त० ॥

१८ तप प्रायश्चित्त त० ॥

१ए भेद प्रायश्चित्त त० ॥

२० मूल प्रायश्चित्त त० ॥

२१ अणवस्थित प्रायश्चित्त त० ॥

२२ पारंचिय प्रायश्चित्त त० ॥

२३ ग्यान विनयरूप तप० ॥

२४ दर्शन विनयरूप तप० ॥

२५ चारित्र विनयरूप त० ॥

२६ गुर्वादिक मन विनयरूप त० ॥

२७ वचन विनयरूप त० ॥

२८ काय विनयरूप त० ॥

२ए उपचारक विनयरुप तप० ॥

३० आचार्य वेयावच्च त० ॥

३१ उपाध्याय वेयावच्च त० ॥

३२ साधू वेयावच्च त० ॥

३३ तपस्वी वेयावच्च त० ॥

३४ लघुशिष्यादि वेयावच्च त० ॥
३५ गिलाणसाधू वेयावच्च त० ॥
३६ श्रमणोपासक वेयावच्च त० ॥
३७ संघ वेयावच्च तप० ॥
३८ कुल वेयावच्च त० ॥
३९ गण वेयावच्च तप० ॥
४० वायणा तपसेनमः ॥
४१ पृछना तपसे नमः ॥
४२ परावर्त्तना तपसे नमः ॥
४३ अनुप्रेक्षा तपसे नमः ॥
४४ धर्म्मकथा तपसे नमः ॥
४५ आर्त्तध्याननिवृत तपः ॥
४६ रौद्रध्याननिवृत्त तप० ॥
४७ धर्म्मध्यान चिंतन त० ॥
४८ शुक्लध्यान चिंतन तप० ॥
४९ बाह्य उपसर्ग तपसे नमः ॥
५० अभ्यंतर उपसर्ग तपसे नमः ॥ इति पंचाश तपपद भेदाः ॥

इस तरे ५० नमस्कार करै. खमा होके अन्नवूससि० इत्यादि कहके ५० लोगस्सका काउसग्ग करै. एक लोगस्स प्रगट कहे. पीछै पूर्वोक्त करणी करै ॥ इति नवम दिवस विधिः ॥

॥ अथ तपस्या ग्रहण करणेंकों गुरु पास जाणेकी विधिः ॥

प्रथम शुभ घडी देखके अछा वस्त्र आभूषण पहरके तिलक करके दोवसरसुं मस्तकमें धारण करके हाथके मोली बांधके अक्षत सुपारी श्रीफल नैवद्य यथाशक्ति रोकद्रव्य लेके नवकार गुणता थया गुरुके पास जावै. द्वादशावर्त्त वंदना करके ग्यानपूजा करै

पीछै प्रमोदवंत होके तप ग्रहण करे, ग्रहण करणेकी विधि आगे लिखी हे ॥ इति तपस्या ग्रहणार्थ गुरु पास जाणेकी विधिः ॥

॥ अथ संक्षेप उजमणाविधि उलीको लिख्यते ॥

पंचवर्ण के अनाजसें सिद्धचक्रका मंडल करै. सिद्धचक्रजी के चौ तरफ तीन गढ चूनीके आकार वनावे. पहिले गढमें अष्टदल कमलके आकार नवपद स्थापन करै. पद२ के रंग मुजब गुण प्रमाणसें रत्न चढावे उर पंचवर्णके फूल, पंच वर्णके धान्य, नव नालेरका गोटा रंगके अपणे२ रंग मुजब पीतुरेसे जरके चढावै पंचरंगी ए धजा चढावै, दूसरे वलयमें सोले श्रीफल अथवा सुपारी चढावै. तीसरे वलयमें ४८ छूहारा चढावे, नव निधानोंकी ज़गे नव वर्ण फल चढावै, नवग्रह दसदिग्पाल पदमें पक्वान्न रंगरंगके चढावै. इत्यादिक विधि संयुक्त सिद्धचक्र स्थापना घरदेरासरमें करै. उर जिनमंदिरमें वाहिरले मंडपमें ५ ॥ ७ ॥ हाथ प्रमाणें मंडल रचना करै. विस्तारसें सब विधि गुरुके हाथसें करै, नवपद ज़ीकी पूजा पढाय कलस ढालै, धवलमंगल गीतग्यान गावै, वाजित्र बजावै, महा महोत्सव उदार चित्तसें करै, मंगलदीप आरती प्रमुख करै. दूसरे दिन विसर्जन करै. इति संक्षेप सिद्धचक्र मंडल विधिः ॥ अब दसमें दिन गुरु पास आयके उलीके तपकों पारै. तप पारणको विधी आगे लिखी हे तथा उद्यापनमें ग्यानभक्तिके कारण ए पूठा ए वीटांगणा ए पुस्तक ए लेखण ए ठवणी नव झिलमिल ए रुमाल ए डोरा ए मिजासणा ए थापना ए चंद्रुआ ए पूंठीया ए आरती ए कलश ए जपमाला ए मंदिर करवावे, ए प्रतिमा ए तिलक ए मुगट इत्यादिक नव२ चीज वणावावे, शक्ति नही होय तो यथाशक्ति रोकनाणो चढावै. देवपदका देवमें देवे, गुरुपदका गुरुकूं देवे, ज्ञानपदका ज्ञानखाते लगावै, इत्यादिक यथायोग्य शुभ खेत्रमें खरच करै. इति सिद्धचक्र संक्षेप उजमणा विधिः ॥

॥ अथ द्वादश मास पर्वाधिकार प्रारंभः ॥

॥ अथ चैत्रमासमें पर्वाराधन स्वरूप लिख्यते ॥

॥ चैत्र महीनेमें चैत्र सुद ७ सें लेके चैत्र सुदि १५ पर्यंत ए दिन अति उत्तम हे. उत्तमताका कारण एसा हे—बारे महीनोंमें तीन अठाइ महोछव आते हैं जिसमें चेत्र आसोजकी अगाई तो सास्वती हे. आठमसें पूनम तक इन दोनों महीनोंमें च्यारु निकायके देवता उर ६४ इंद्र एकठे होकर आठमा नंदीश्वर द्वीपमें जाते हे; (पुन्याहं२) कहते नये अष्ट द्रव्यसें पूजन करे, गीत गान नाटकादि-कसें अनेक तरेसें नक्ति करे, पीछे नवमें दिन अपणे२ जन्मकूं स फल मानते नये अपणे२ देवलोक जावे. इसी मुजब तीसरी अ ठाई आसाढ चोमासेकी (१४) पीछे (४१) दिन जाणेसें संवछ री पर्व्व साचवणेकूं (८) दिन तक अठाइ महोछव करे. लेकिन् यह अठाइ सास्वती नही कही, कोइ वखत च्यारुं निकायके देवता ए कठे होकर नहीनी जावे, पहली पीछेनी करलेवे ॥ यह नवपदजकी उली शाश्वती अठाइमेंही की जाती हे, नवपद माहात्म अधिकार दशमा विद्याप्रवादपूर्वमेंसें उद्धार करके नव्यजीवोके अनंत सुख प्राप्ति वास्ते श्रुतकेवली नगवान नद्रबाहूस्वामीनें इसकों प्रसिद्ध करा, इस वास्ते नव्यजीवोंको यह तप प्रमाण हे, उर जो कोइ नवी अपणी अपणी कुयुक्तिये लगाकर खंडन करते हैं सो तीर्थं-करका वचन उत्थापणेसें अनंतसंसारमें नमेंगें. सूत्रोंमें नगवंत महावीरने फुरमाया हे, हे गोतम वीतराग सर्वज्ञ के वचन सूत्रोंमें हैं उर उन सूत्रोमेंसें एक हरफकेनी यथार्थ अर्थकूं तोडके नया कल्पन करेगा पंचांगी विरुद्ध परंपरागम विगर सो अनंतसंसारी होगा (सूत्रनाम किसका हे) ॥ सुत्तंगणहररइयं, तहेवपत्तेयबुद्धर इयंच ॥ सुयकेवलिनारइयं, अनिन्नदसपुव्विणारइयं ॥ १ ॥ (अर्थ) गणधरोका रचा, प्रत्येकबुद्धोका रचा, श्रुतकेवली चौदे पूर्वधारियो का रचा, संपूर्ण दस पूर्वधारियोंका रचा नयेकूं नगवानने सूत्र कहा हे. सूत्र १, पयन्ना २, आगम ३, सिद्धांत ४, ग्रंथ ५, इत्यादिक

दस नाम भगवानने अनुयोगद्वारसूत्रमें सूत्रका लिखा है, एकार्थ वाचक है इस वास्ते भद्रबाहु उमास्वातिवाचकादिकोके बनाये निर्युक्त भेद प्रशमरति आदि पांचसो ग्रंथ सूत्रवत् मानने चाहिये, एक क्रोड पुस्तक श्रुतकेवलीयोके बनाये अभी भंडारोमे मोजूद है ॥

॥ अथ अष्टापद भली करण विधि लिख्यते ॥

॥ इसी चैत्र मासमें सुदि (८) से लेकर पूर्णमासी तक (केइयक भव्यजीव) अष्टापदजीकी भली करते हैं (जिसमें) पडिक्कमणा, देववंदन, देवपूजा, इत्यादिक सब विधि नवपदजीकी भली तुल्य करै. (इतना विशेष है) श्री अष्टापद तीर्थाय नमः (इस पदका) २००० गुणना (वा) वीस जाप करै. अरिहंतपदके १२ गुणका नमस्कार करै, १२ लोगस्सका काउसग्ग करै, आंबिल (वा) एकासणेका पच्चक्खाण करै, पीछे पूणमासीके दिन अष्टापदपर्वतकी थापना करै, मंडल रचै, सो विधि लिख्यते हैं ॥

पूर्व

१ । २ ।

उत्तर १५।१६।१७।१८।१९।२०।२१।२२।२३।२४

त्रिवेदिकमध्य
असोकवृक्ष
भद्रः

दक्षिण ३ । ४ । ५ । ६

७।८।९।१०।११।१२।१३।१४।

पश्चिम

(चत्तारि दक्खिणाए, पच्छिमउ अठउत्तराई ॥ दस पुव्वाए दो अग, वंदामि वंदे चउवीसं ॥ १ ॥ पुव्वाइं उसभमजियं ॥ दक्खिणउ संभवाइ चत्तारि, पच्छिम सुपासमाइ, धम्माइ दसउत्तरउ ॥ २ ॥) इति प्रथम परिपाटी ॥ प्रथम यथाक्रमसे चोवीस कोठे मंडलमें बणाणा. इहां कांकणडोरे मोली आत्मरक्षापूर्वक नवपदजीके मंडलवत् जाणना. नवग्रह दश दग्पाल थापना करे. पीछे एक२ काव्य पढ२ के एकेक कोठेमें एक२

जिनेश्वरके नामके चिठी उस पर वरक चढा सुपारी चढावे. एवं ॥ २४ ॥ अथ काव्य ॥ श्रीनाभेयजिनेशत्वं, नंद्यावर्त सितांशुकः ॥ यथाकुमुद्वतीनेता, नंद्यावर्तसितांशुकः ॥ १ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐं श्रीरुषभदेवस्वामी वेदिकापीठे तिष्ठ२ स्वाहा ॥ १ ॥ उपाध्वमजितंभक्त्या, कंदधानामनेकपं ॥ प्रणतोद्बोधितंज्ञान, कंद धानामनेकपं ॥ २ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐं श्रीअजितस्वामी० ॥ २ ॥ श्रीशंभवप्रपन्नाये, समयंतेसदादरात् ॥ तेसंसारवनान्मुक्ति, समयं तेसदादरात् ॥ ३ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐं श्रीसंभवस्वामी० ॥ ३ ॥ येभिनंदनतेतीर्थ, राजपादसभाजनाः ॥ विलसंतिचिरंतेत्र, राजपा दसभाजनाः ॥ ४ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐं श्रीअभि० ॥ ४ ॥ पूजि तांह्रीद्वयीमुक्त्यै, कांताराजीवमालया ॥ सुमतेतवलीनाद्ः, कांतारा जीवमालया ॥ ५ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं ऐं श्रीसुमति० ॥ ५ ॥ पद्मप्रभ सुदृष्टीनां, भूरिशोभातपोदयाः ॥ हन्यात्तमांसिपूपेव, भूरिशोभात पोदयाः ॥ ६ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐं श्रीपद्मप्रभ० ॥ ६ ॥ सुपार्श्व तवश्रुतंश्रुत्वा, दर्प्पकोपक्रमानलां ॥ मुंचंतिजंतवःशांता, दर्प्पकोप क्रमानलां ॥ ७ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐं श्रीसुपार्श्व० ॥ ७ ॥ भवांश्चंद्र प्रभेनेइण, यैरभाजिसमुन्नतः ॥ यैरभाजिसमुन्नतः ॥ ८ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐ श्रीचंद्र० ॥ ८ ॥ सुविधेत्वद्विधिंप्राप्य, प्रमाद्यंत समाहितः ॥ येतेश्रेयःश्रियंश्रस्त, प्रमाद्यंतसमाहितः ॥ ९ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐं श्रीसुविधि० ॥ ९ ॥ सेवतेशीतलत्वांघ्रे, देवसंपन्न केवलं ॥ अपिमुक्तिर्भवेत्तेषां, देवसंपन्नकेवलं ॥ १० ॥ ॐ ह्रीं अर्हं ऐं श्रीशीत० ॥ १० ॥ श्रीश्रेयांसतनूभाजां, परमोक्षगतिर्भवा न् ॥ अनंतानसत्वविश्रांतं, परमोक्षगतिर्भवान् ॥ ११ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐं श्रेयांस० ॥ ११ ॥ वासुपूज्यनवस्वर्णी, नीरजारूढसक्रमः ॥ हर स्वंविरहंमोदं, नीरजारूढसक्रमः ॥ १२ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐं श्री

वासुपूज्य० ॥ १२ ॥ विमलत्वांप्रतिस्वंये, रंजयंतिमनोज्ञवं ॥ अपि दुर्जयमुच्चैस्ते, रंजयंतिमनोज्ञवं ॥ १३ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐं श्रीविमल० ॥१३॥ जग्मिवांसमनंतत्वां, नमस्यंतिमहापदं ॥ येतेविश्वत्रयीलक्ष्मी, नमस्यंतिमहापदं ॥ १४ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐं श्रीअनंत० ॥ १४ ॥ नाशुतस्तवसिद्धांतो, येनावीतनयस्ततः ॥ वरंधर्मजिनक्षर्मा, येनावीतनयस्ततः ॥ १५ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐं श्रीधर्म० ॥ ॥ १५ ॥ श्रीशांतेदेहिनांदेहि, सारंगविदधेधृतिं ॥ शर्मकर्मततेरंक, सारंगविदधेधृतिं ॥ १६ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐं श्रीशांति० ॥ १६ ॥ कुंथुनाथस्तुपंथानं, विधुतारोवृषाहतः ॥ पुंसांतन्यात्पिनाकीच, विधुतारोवृषाहतः ॥ १७ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐं श्रीकुंथु० ॥ १७ ॥ येनत्वंनाचितःकर्म, वनवैश्वानरोपमः ॥ सोऽरनाथकुधीर्ज्ञव्या, वनवैश्वानरोपमः ॥ १८ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐं श्री अर०॥ १८ ॥ नांह्रिपद्मसुनःसिद्धि, पतिपन्नसुदारुणः ॥ येनतेत्रियतेमल्ले, प्रतिपन्नसुदारुणः ॥ १९ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐं श्रीमल्लिस्वामी० ॥ १९ ॥ श्रीसुव्रतजिनाधीश, मक्षमालोपलक्षितं ॥ विरंचिमिवसेवध्द, मक्षमालोपलक्षितं ॥ २० ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐं श्रीमुनि० ॥ २० ॥ देव्योपित्वद्गुणोङ्गना, सहामंदरसानुगाः ॥ गायंतित्वांनमेज्ञक्त्या, सहामांदरसानुगाः ॥ २१ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐं श्रीनमि० ॥ ॥ २१ ॥ तृष्णातापात्वयावर्षं, शमितादानवारणा ॥ श्रीनेमेजनतांराध्य, शमितादानवारणा ॥ २२ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐं श्रीनेम० ॥ २२ ॥ पार्श्वदेवसदाक्षम, महाहारतरंगिताः ॥ नाव्यंतिचरित्रंते, महाहारतरंगिता ॥२३॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐं श्रीपार्श्व० ॥ २३ ॥ वीरोजिनपतिःपातुः, तत्वानःकांचनश्रियं ॥ विज्ञन्नमेघुनिस्सीमां, तत्वांनःकांचनश्रियं ॥ २४ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ऐं श्रीवीरस्वामी अत्र वेदिकापीठे तिष्ठ२ स्वाहाः ॥ २४ ॥ पीठे

चोवीस माहाराजकी पूजा करावै, पीछें नलवाकुल देके दिग्पालों को विसर्जन करै ॥ इति अष्टापदपूजा ॥ दूसरापर्व २ ॥

॥ शासनाधिपति जन्मकल्याणक पर्वाधिकारः ॥ ३ ॥

चेत्र सुदि १३ के दिन श्रीमहावीरस्वामीका जन्मकल्याणक नया हे, इस वास्ते सब जगे धर्मरागीपुरष गुरुमुखसें समझके जल जात्रादिक संपूर्ण जन्मकल्याणकका महोछव करै. एसैंही ऋद्धिवंत श्रावककूं धर्मके उद्योत वास्ते सब भगवंतके कल्याणक जो जो होय उसका उछव करणा. एसी शक्ति नहीं होय तो सासनाधीश्वर देवाधिदेव श्रीमहावीरस्वामीके च्यवनकल्याणकसें लेकर निर्वाणकल्याणक पर्यंत जिसदिन जो कल्याणक होय उसीका महोछव पूजन करणा चाहिये. इससें धर्मका उद्योत होय, श्रीसंघमें परम आनंद होय ॥ इति तीसरा पर्व ३ ॥

॥ अथ चैत्रोपूनम पर्वाधिकार सामाचारी सतकानुसारसे लिखते हे॥

प्रथम चावलके पूंजसें सेत्रुंजयपर्वतकों स्थापन करै (तिस पर) पट्टा रखके श्रीपुंडरीक गणधर (वा) श्रीऋषभदेवस्वामीका विंब स्थापन करे. अक्षत मोतियोसें पर्वतको वधावे, केसरचंदनसें पर्वतको पूजे. सब श्रीसंघ एकठे होकर पर्वतके चो फेर तीन प्रदक्षिणा देवे (पीछै) पूजन सरू करै (यथा) दश (१०) वीस (२०) तीस (३०) चत्ता (४०), पन्ना (५०) पुप्फदामेणलहईं॥चउत्थछट्ठअट्ठम, दसमदुवालस फलाइंच ॥ १ ॥ अब प्रथम १० प्रकारसें पूजनका अधिकार लिखते हैं. एकाग्र चित्तसें अष्टमंगलीक आगे रखके शुद्धोदकसें मूलप्रतिमाको न्हवण करावै, पीछै श्रीसंघ खमा होके (१०) दस नमस्कार उच्चारपूर्वक १० फूल तथा १० फूलमाला चढाके प्रतिमाके १० तिलक करै. यथाशक्ति सुपारी नारेल इत्यादि सब चीज उत्कृष्टसें दस९ जघन्यें नारेल १ सुपारी १० उर फल

फूल यथासंभव चढावे. धूप खेवे, कपूरकी आरती करे, पीछे सिद्ध गिरी गुणगर्भित चैत्यवंदन करके पांचे शक्रस्तवे देव वांदे, १० खमासमण देके (श्रीसिद्धक्षेत्र पुंमरीक गणधराय नमः) इस पदका १० वेर नमस्कार करे. पीछे (श्रीसेत्रुंजय पूंमरीक आराधनार्थं करेमि काउसग्गं अन्नथूससि०) कहके १० लोगस्सका काउसग्ग करे (इहां केइ आचार्यने कहे ते कि बहुत भव्य होय वखत कम रहे तब एक लोगस्सका काउसग्ग करे १० जेतीके ठिकाणे १० गाथाका स्तवन कहे) पीछे अनेक प्रकारका वाजित्र वजावे ॥ इति प्रथम पूजा विधि ॥ अब इसी तरे (वीस । तीस । चालीस । पच्चास । यह चारों पूजाके भेद जाण लेणा (इतनाही विशेष हे) दूसरी पूजेमें १० के ठिकाणे २० की विधि करे ॥ तीसरी पूजामे १० की जगें ३० की विधि करे. चोथी पूजामे १० की जगे ४० की विधि करे. पांचमी पूजामें सब विधी ५० की करे. तथा (सिद्ध क्षेत्र श्रीपूंमरीकाय नमः) इस पदका दो हजार गुणनो करे. उत्कृष्टसें पांचूं पूजामें जुदी२ धजा चढावे. जघन्यसे पांचूं पूजा किये पीछे १ धजा चढावे । यह तप गुरूके मुखसे लेके जघन्य १ वरस, ज्यादा हो सके तो ७ वरस, उत्कृष्ट १२ वरस विधि संयुक्त तपस्या करे. गुरूके मुखसें उपदेस सुणे, संपूर्ण तप हुयां पीछे सिद्धगिरीकी जात्रा करे, ग्यानपूजा करे, गुरुभक्ती करे, साहमीवच्छल करे (यह) चैत्रीपूनमके दिन श्रीरुषभदेवस्वामीके प्रथम गणधर श्रीपूंमरीकजी पांच कोमी साधू साथ अक्षय सुखको प्राप्तभये. (इसवास्ते) भरत प्रथम चक्रवर्तीनें चैत्री पूनमकों आराधन करके (यह) चैत्रीपूनम पर्व प्रसिद्ध किया. यह चैत्रीपूनम पर्व आराधन करणेसें इस भवमें अनेक सुख संपदा प्राप्त होय, स्त्रियोके पूत्र पूत्रादिककी वांछा पूरण होय, उर

आधिव्याधि सोग संताप सब दूर होय, परज्ञवमें देवादिक रुद्धि प्राप्त होय, क्षीणकर्मी होएसें अक्षयसुखकों प्राप्त होय ॥ इति चैत्र मास पर्वाधिकारः ॥

॥ अथ चैत्रीपूनम स्तवन लिख्यते ॥

(ढाल) पय प्रणमी रे जिनवरना सुपसाउलें, पुंमरगिर रे गाईस हूं सुज्ञ ज्ञाउलें ॥ मति सुरगिर रे सहस जीज्ञ जो मुख हुवै, किम ते नर रे विमलाचलना गुण तवें ॥ (उल्लालो) किम तवे गुणगण एह गिरिना जिहां मुनि सीधा वहू, गिरिरायना गुण छै अनंता कहे जिनवर मुख सहू ॥ निय जनम सफलो करण कारण केतला गुण ज्ञाखियै, तिरयंच नारकतणी गतिना डुःख दूरें राखियै ॥ १ ॥ (चाल) जिनराइारे पहिलो आद जिनेसरू, तसु नंदनरें चक्रवर्त्ति ज्ञरतेसरू ॥ तसु अंगज रे पुंमरीक गुणगण निलो, समदम रस रे विनय विवेक गुणै ज्ञलो ॥ (उल्लालो) गुण ज्ञलो अनुक्रम आदि जिनवर पास संजम शिवपुरी, पुंमरीक गणधर प्रथम विहरै सुमति गुप्तें संचरी ॥ पण कोमि साथे विमलगिरिवर मुगति पदवी पाव ए, सुदि चैत्रपूनम तेण ए गिरि पूंमरीक कहाव ए ॥ २ ॥ (चाल) हिव चैत्री रे पूनम पर्व सुहामणो, सेत्रुंजे रे आराध्यां फल हुवे घणो ॥ मनसुद्धे रे आपणपै थानक रही, आराध्यां रे यात्र पुन्य पामे सही ॥ (उल्लालो) ते पुन्य पामे दान तप जप धर्म्म ध्यान मने धरै, बहु ज्ञाव ज्ञत्तै त्रिविध पूजा आदि जिनवरनी करै ॥ ज्ञावना ज्ञावे तेण दिवसै पंच कोमि गुणो फलै, अनुक्रमे ते नर मुगति पामी सिद्धसुंदरने मिलै ॥ ३ ॥ (चाल) दस वीसा रे तीस चालीस पूजा कही, पन्नासा रे श्रावक ज्ञिरती सरदही ॥ चउथ छठे रे अठम दसम डुवालसे, पूजा फल रे अनुक्रम ए मुज मन वसै ॥ (उल्लालो) मन वसै पूजकपूरधूपै मासखमण फले वली, सामन्न

धूपै परकनो फल जे करे मननी रली ॥ हिव पूजनी विधि जेम गुरुमुख सुणीअछै परंपरा, ते मोह माया कपट छंमी सुणो नवि यण सादरा ॥ ४ ॥ (ढाल) तंडुलरासि विमलगिरि थापी, तसु ऊपर पट्टादिक आपी ॥ प्रतिमा आदिजिनेसर केरी, पुंमरीकनी थापी निवेरी ॥ ५ ॥ सेत्रुंजगिरिने मन चिंतीजै, करमतणा मल दूर करीजै ॥ मोती तंडुल करीय वधावो, तीन प्रदक्षण पुज रचावौ ॥ ६ ॥ मंगलीक पहिला तिहां आठ, करमबंध दूरे करि आठ॥ प्रतिमा मूल सनात्र करेवा, जिनवरना गुण हियमे धरेवा ॥ ७ ॥ ऊन्ना थई नवकार गुणंता, दस२ जैती तिलक करंता ॥ माला पुष्फ पूंगीफल ढोवो, मेरु नरण वर धूप उरकेवो ॥ ८ ॥ (ढाल) शक्रस्तव पांचे देव वांदै, जघन्यना वंदण पाप छेदे ॥ दसे नमस्कार करंत जैती, राखी करी दृष्टि जिनेंद्र सेती ॥ ए ॥ आराधिवा काजे काउसग्ग, जिणे किये नांजै कर्मवग्ग ॥ लोगस्सउज्जोय दसे वखाणु, वेला प्रमाणे अहिएग आणूं ॥ १० ॥ इणे प्रकारै धूपपूज एह, इसी परै बीजा च्यार तेह ॥ दसांतणी वृद्धि तिहां गिणीजै, एक चित्त सूधै शुन्न पून्य कीजै ॥ ११ ॥ धजातणी रोप तिहां करीजै, एकेक पूठै अथवा गिणिजै ॥ महुत्तरे आरति मंगलेवो, पछै प्रन्नु आगल ते करेवो ॥ १२ ॥ (कलश) इम करिय पूजा यथा योगे संघपूजा आदरो, साहमीवछल करो नविका नवसमुद्र ला लावरो ॥ संपदा सोहग तेह मानव ऋद्धि वृद्धि बहू लहै, श्रीअमर माणिक सीस सुपरै साधुकीरति इम कहै ॥ १३ ॥ इति श्री चै० स्त० ॥

॥ अथ नंदीश्वर तपस्या करण विधि लिख्यते ॥

स्तवन पहली वक्ं स्तवनोमें लिखा है सो सुणाणा. अथ शुन्न घमी शुन्नदिन गुरूके पास नंदीश्वरतप ग्रहण करे. नंदीश्वरद्वीपके च्यारुं दिसि तरफ ५२ चैत्यकी अपेक्षायें अमावस२ (५२) बावन उपवास

॥ ८

करै. जिस दिन जो माहाराजके नामका उपवास होय उसही नामका २००० गुणना करै, सो लिखते है ॥ १ श्रीरुषभ्राननजी सर्वज्ञाय नमः ॥ २ श्रीचंद्राननजी सर्वज्ञाय नमः ॥ ३ श्रीवारिषेणजी सर्वज्ञाय नमः ॥४ श्रीवर्द्धमानजी सर्वज्ञाय नमः ॥ (यह) च्यार नामकूं ४ वेर उलटा, ४ वेर सुलटा गिणे ॥ अनुक्रमे १३ उपवास करणेसें एक उली होय. ४ उली करणेसें यह तप संपूर्ण होय ॥ पीछे शक्ति मुजब उजमणा करै. नंदीश्वरद्वीपका मंम्ल वणावै, पूजा करावे. इत्यादि महोछव करके ग्यानपूजा, गुरु पूजा करै, साहमीवछल करै, मंम्लकी विधि एकेक दिसीमें (१३) तेरे२ पहाम्की रचना करै चार दिसामें ५२ करै, बीचमें अंजनगिरी, च्यारुं दिसामें च्यार श्वेतपर्वत, दोय२ दधिमुखपर्वतके बीचमें दोय२ रतिकर पर्वत, एवं ८ रतिकर, एवं सब एक दीसीमे १३, च्यारुं दिसिके ५२, सब पर जिनबिंब थापे. इनको पूजामें ५२ थापना, ५२ नारेल, ५२ पान नागरवेलके, ५२ अंगलूहणा, इत्यादि सब चीज ५२ बावन लेवे. क्रमसें एकेक काव्य पढके जल चंदनादि अष्ट द्रव्यसें अंगपूजा तथा अग्रपूजा करे॥इति नंदीश्वर तपस्याधिकारः॥

॥ अथ वैसाख मास मध्ये पर्वाधिकार लिख्यते ॥

॥ वैशाखके महीनेमें मिती वेसाख सुदि ३ हे सो अक्षय तृतिया नामसें पर्व प्रसिद्ध हे. इस दिन श्रीरुषभदेव स्वामीके चारित्र ग्रहण कियां पीछें बारे मासीका पारणा सोमयशराजाके पुत्र श्रीश्रेयांसकुमरजीके हाथसें इक्षुरससेती भया. उस वखत उत्तम दानके प्रभावसें सब देवगण प्रमोदवंत होके सुगंधजलकी वर्षा १, सुगंधपुष्पोंकी वर्षा २, साढीबारे कोम् सोनइयोकी वर्षा ३, आकासमें अहोदान२ एसी उदघोषणा ४, देवदुंदुभी वाजित्र ५, एसे पांच द्रव्य प्रगट किये. श्रेयांसकुमरका जस तीन भुवनमें विस्तरण

हुआ. उस दिनसे आहारदानकी विधी सबकों मालुम भई. इस दानके प्रभावसें श्रेयांसकुमार अक्षयसुखकों प्राप्त भया. इस वास्ते अक्षयतृतिया पर्व श्रीसंघमें परम मंगलकारी हे. इस पर्वके आणेसें वस्त्र आभूषण पहरके भगवंतके मंदिर जाके अष्ट द्रव्यसें पूजन करै, स्नात्र, अष्ट प्रकारी, सतरह भेदी, आदि पूजा करावै. पीछे गुरुके मुखसें एकासणादिकेक पच्चख्काण करके पर्वकी महिमा सुणे. अपने घर गुरूको वहिरायके सब कुटंब समेत जीमैं, उर जो मंगलीक कार्य करणा होय सो इस दिन करै, इस माफक इस पर्वकों जो भव्यजीव सेवन करते रहेंगे उणोका तपतेज हमेसां वढता रहेगा ॥ इति अक्षयतृतिया पर्वाधिकारः ॥

॥ अथ तृतिय ज्येष्ट मासाभ्यंतर पर्वाधिकारः ॥

॥ जेष्ट कृष्णत्रयोदशीके दिन सोलमें श्रीशांतिनाथ स्वामीका निर्वाण कल्याणकका दिन हे इस वास्ते इस उत्तम दिनमें सब जगे श्रीसंघ एकठा होके विधिसंयुक्त शांतिपूजाका महोछव करावै. शांतिजल लेजाके अपने२ घरमें छांटे. इस शांतिपूजाके कराणेसें मारी, हेजा, इत्यादिक समुदायिक रोग कभी श्रीसंघमें प्राप्त न होय (अथवा) किसी श्रावकके घरमें रोग चालु रहता होय तो (वा) वहुत चिंता रहती होय तो इसी दिन शांतिपूजाका उछव कराणा चाहिये. (इससें) आधि व्याधि ग्रहादिककी पीडा सब दूर होय, अनेक मंगलश्रेणी प्रवर्त्तन होय ॥ इति ज्येष्ट मास पर्वाधिकारः ॥

॥ अथ आषाढ मास मध्ये पर्वाधिकार लिख्यते ॥

॥आषाढसुदि १४ के दिन चौमासी इस नामसें पर्व प्रसिद्ध हे सो लि० हे.॥ यथा॥ सामायकावस्यकपोषधानि, देवार्च्चनस्नात्रविलेपनानि ॥ ब्रह्मक्रियादानतपोमुखानि, भव्याश्चतुर्मासकमंडनानि ॥१॥ (अर्थ) भोभव्याएतानि सामायकादि धर्मकृत्यानि चतुर्मासकस्यं

मंरूलानि अलंकारनूतानि विद्यंते ॥ अहो नव्य प्राणी जीवो यह सामायककों आद लेके जो धर्मकृत्य हे सो चोमासेके मंरूण हे, अर्थात् अलंकार समान हे. यथाशक्ति यह चोमासेपर्वमें कोइ जीव सामायक पमिक्कमणा पोसा करै, कोइ नगवानके मंदिरमें नानाप्रकारकी पूजा करे, केइ सीलव्रत पाले, कोइ सुपात्रदान देवे, कोइ नानाप्रकारकी तपस्या करै, जेसा धर्मकाम अपणी शक्तिसें वण आवे सो करै, इसमें विरोध नही. लेकिन कोईनी प्रकारसें धर्मका उद्योत करणा चाहिये. जिससें सब श्रीसंघनें कल्याणमाला प्रगट होय, उर चोमासी (१४) के दिन सब मंदिरोंमें दरशन करणेकों जाणा, पांच शक्रस्तवसें देववांदै, पीछै गुरूके पास जाके चोमासे पर्वका व्याख्यान सुणे, सब चीजका प्रमाण करके उपरांतका सोगन लेवै, सांऊकूं चोमासी पमिक्कमणा करे. इस मुजब काती चोमासै फागुण चोमासे कोंनी सेवन करैं ॥ इति चतुर्मासपर्वाधिकार,

॥ अथ श्रावणमास मध्ये तपस्याधिकार कथ्यते ॥

श्रावणमासमें केइ नव्यजीव मम्माई आदि केत्रोंमें तरे२ की पूजा लाखीणी अंगिया कराय के चौमासेपर्वका उद्योत करते हें, इस माफक सब जगे तरे२ की पूजा कराणी चाहिये. उर देस देसमें श्रावकएयां इस महीनेमें केइ२ तरेकी तपस्यायें करती हे. जिसमें उत्तमफलको देणेवाली केइयक तपस्या विधिप्रपाकग्रंथसे उद्धरण करके संक्षेपविधिसें इहां लिखते हें ॥

॥ अथ बुटकर तपस्याविधि लिख्यते ॥

पुरिमढ्ढ १, एकासण १, नीवी १, आंबिल १, उपवास १, (यह १ उली) इस तरे पांच उली करै. तपोदिन २५. ऊजमणें २५ लाडू चढावे ॥ इति इंद्रीजयतप ॥ १ ॥

एकासण १, नीवी १, आंबिल १, उपवास १, इस तरे

उली च्यार करै. तपोदिन १६. ऊजमणें १६ लड्डू चढावै ॥ इति कषायजयतपः ॥ २ ॥

नीवी १, आंबिल १, उपवास १, इसी तरे उली ३ करै. तपो दिन ए. ऊजमणें ए लाडू चढावै ॥ इति योगशुद्धितपः ॥ ३ ॥

इकलग उपवास ३ अथवा एकंदर उपवास ३. ऊजमणें ज्ञानपूजा करै ॥ इति नाणतपः ॥ ४ ॥

इकसार उपवास ३ अथवा एकांतर उपवास ३. ऊजमणें स्नात्र पूजा करावै ॥ इति दर्शनतप ॥ ५ ॥

इकलग उपवास ३ अथवा एकांतर उपवास ३. ऊजमणें गौतमस्वामीकी पूजा करै ॥ इति चारित्रतपः ॥ ६ ॥

अठम १, छठ, १, उपवास १, एकासण १, एकलठाणो १, दत्ति १, नीवी १, आंबिल १, यह एक उली. इसी तरे उली आठ करै. तपो दिन ७७. ऊजमणें रूपेका वृक्ष, सोनेका कुहाडा करायके ग्यान खाते देवे ॥ इति आठ कर्मसूडणतपः ॥ ७ ॥

नाद्रवा वदि चउथसें लेके पनरे दिन पर्यंत इकसार एकासणा अथवा बिआसणा करै, घरदेरासर आगे अथवा अछे ठिकाणें कलस स्थापन करै, एक मुठी चावल सदा कलसमे नरै, संवत्सरीके दिन कलस ऊपर नारेल रख के महोत्सवपूर्वक मंदरमें जाके देव आगे रखे, स्नात्रपूजा करै, ज्ञानपूजा करै॥इति अक्षयनिधि तपः ७॥

श्रीवासुपूज्य पूजापूर्वक रोहिणी नक्षत्र के दिन उपवास वा नीवी, आंबिल सात वरस सात मास करै (श्रीवासुपूज्यस्वामी सर्वज्ञायनमः) इस पदका २००० गुणना करै, गुरू के पास स्तवन सुणे. (सो स्तवन आगे लिखेगें) ऊजमणें ज्ञानके उपगरणसें ज्ञानन्नक्ति गुरुन्नक्ति करै. इति रोहणीतपः ॥ ए ॥

सुदिपक्षके पांचमके दिन श्रीनेमि अंबिका पूजापूर्वक पाच

एकासणादिक तप करै. अंबिकादेवीकूं वेस चढावै॥इति अंबिकातपः १

सुदिपक्षके इग्यारसके दिन सिद्धांतपूजापूर्वक मौनसंयुक्त उपवास करै. इति श्रुतदेवतातपः ॥ ११ ॥

सुदि पक्षमें एकांतर उपवास ८। पारणें आंबिल ८, एवं दिन १६. ऊजमणें ज्ञानपूजा करै. इति सर्वांगसुंदरतपः ॥ १२ ॥

चैत्रमासे एकांतर उपवास १५, एवं दिन ३०. ऊजमणें सोनेका अथवा रुपेका वृक्ष अनेक फल सहित चढावै ॥ इति सौभाग्यकल्पवृक्षतपः ॥ १३ ॥

पडिवा, बीज, तीज, १ अनुक्रमसें पूनम पर्यंत (१५) उपवास करे. जो तिथि भूले सो तिथि फेर करै. ऊजमणे एकसो वीस लडू मंदिर चढावे, स्नात्र करावे ॥ इति सर्वसुखसंपतितपः॥ १४॥

वरसातका च्यार मास फेर पोष, चैत्र, यह षट मास टालके छोटी पांचमतप सरू करै. अंधारी उजवाली पांचम मास ५ लग एकासणादि तप करै. ऊजमणे ज्ञानपूजा करै ॥ इति छोटी पांचमतप ॥ १५ ॥

सुद पांचमकूं पांच वरस पांच मास उपवास करै. उपवास के दिन देव वांदणादिक क्रिया करै. ऊजमणें पुस्तकादिक ज्ञानोपगरण पकान फल कलशादिक पांच ५ चढावै, सत्तरभेदी पूजा करावै, साहमी वछल करै ॥ इति ज्ञानपंचमीतपः ॥ १६ ॥

॥ आषाढ सुदि पडिवा, बीज, तीज, चोथ, पांचम, एकाशणादि तप करै. अशोगवृक्ष पूजापूर्वक देव आगे नैवेद्य चढावै. इस तरै वरस १ तप करै. ऊजमणें चावलोंसें असोगवृक्ष लिखके पूजा करै ॥ इति अशोगवृक्षतपः ॥ १७ ॥

आषाढ वदि ७ श्रीविमलनाथ पूजापूर्वक उपवास ॥ श्रावण वदि ७ श्रीअनंतनाथ पूजापूर्वक उपवास ॥ काती वदि ७ श्रीअ

दिनाथ पूजापूर्वक उपवास ॥ पोपवदि ७ श्रीपार्श्वनाथ पूजापूर्वक उपवास करै, स्नात्र करै, ऊजमणें चावलोंसे लोकनाल वणाके सा ते राज सात पावडी करके उसपर सिद्धक्षेत्र (उसकों) सोनेरत्न का मुगट चढावै ॥ इति मुगटसप्तमीतपः ॥ १८ ॥

आसोज सुदि ८ तक एकाशणादि तपकरै, आठ प्रकारकी पूजा करै, नैवेद्य चढावे, पहिले वरस अष्टापदकी एक पावडी, इस तरे आठे वरसे आठ पावडी अष्टप्रकारी पूजापूर्वक आराधिय. ऊजमणें अष्टापदपूजा करावे, पक्वान फल सर्व चोवीस चढावे ॥ इति अष्टापदपावडीतपः १९ ॥

सुदि पक्षके ८ आठमके दिन उपवास अथवा आंबिल करै. ऊजमणें दूधका कटोरा भरके आठ लड्डु देव आगे चढावे ॥ इति अमृतआठमितपः २० ॥

॥ वदपक्ष अथवा सुदपक्ष के दशम के दिन दस उपवास अथवा वीस एकासणा करै. ऊजमणें अखंडित घी धारपूर्वक तीए प्रदक्षणा देवे ॥ इति अखंडितदशमीतप ॥ २१ ॥

वदिपक्ष अथवा सुदिपक्षमें ११ के दिन सिद्धांतपूजापूर्वक एकाशण, नीवी, आंबिल, वा उपवास ११ करै. ऊजमणें ११ अंगकी पूजा करै ॥ इति श्रीइग्यारअंगतपः ॥ २२ ॥

सुदिपक्षके १४ के दिन एकासणादि १४ तप करै. ऊजमणें ज्ञानपूजा करै, चवद प्रकारके पकवान प्रमुख चढावै ॥ इति १४ पूर्वतपः ॥ २३ ॥

पांच अमृततेला मास ६ में करै (प्रथम तेले) सिखरणसें पारणा (दूसरे तेले) सारेका पारणा (तीसरे तेले) लापशीका पारणा (चोथे तेले) लडूसें पारणा (पांचमें तेले) खीरसे पारणा. पारणे प्रथम साधूकों वहिराके पारणा करै ॥ इति पंचामृततेलातपः ॥ २४ ॥

अठम १, एकासणो १, अठम १, एकासणो १, अठम १, एकासणो १ ॥ यह मोटा रत्नोत्तरतपः ॥ २५ ॥

आंबिल १२ करके ऊजमणें रूपाका चक्र मंदर चढावे तो सदा जय होय, विणज व्यापारमें लाभ होय ऊगमेमें जीत होय॥ इति धर्मचक्रतपः ॥ २६ ॥

उपवास ५, व्यासणा ५ एकांतरै करै॥इति पंचमहाव्रततपः२७॥ उपवास १, एकसणो १, नीवी १, आंबिल १, व्यासणो १. उपवास १, एकासणो १, नीवी १, आंबिल १, व्यासणो १. एवं दिन १० पूनमसें सरू करै. पारणै साधु पडिलाभै, ग्यानपूजा करै ॥ इति दालिद्रहरणतपः ॥ २८ ॥

एकेंद्रिये उपवास १, बेइंद्रिये छठ १, तेंद्रिये अठम १, चौरिंद्रिये दसम १, पंचेंद्रिये द्वादशम १, छकायें चतुर्दसम १, तप करै. ऊजमणें मुखरूीसें ६ स्त्री जीमावे॥इति छकायआलोयणतपः॥२९॥

नीवी आठ निरंतर करै ॥ इति सासूसुखतपः ॥ ३० ॥

आंबिल आठ निरंतर करै ॥ इति सुसरसुखतपः ॥ ३१ ॥

छठ पांच करै ॥ इति पुत्रीसुखतपः ॥ ३२ ॥

॥ अठम पांच करै ॥ इति पुत्रसुखतपः ॥ ३३ ॥

॥ उपवास आठ एकांतर करै॥ इति भर्त्तारसुखतपः ॥३४॥

॥ निवी पांच निरंतर करै ॥ इति जेठसुखतपः ॥ ३५ ॥

॥ एकासणा पांच निरंतर करै ॥ इति देवरसुखतपः ॥ ३६॥

॥ एकासणा पांच एकांतर करै॥ इति पितामातासुखतपः ३७

॥ इत्यादिक केइ तरीके तपस्या बहुत ठिकाणेकी श्रावकणयो कियाकरती हे. इस वास्ते बहुतोके उपगारार्थ शास्त्रोंसें उद्धार करके संक्षेपविधिसें इहां लिखी हे. ज्यादा शक्ति होय तो पूजा सादमीवच्छल तीर्थयात्रा इत्यादिक सातुं शुभक्षेत्रोमें अपणा धन

खरच करै, धर्मका उद्योत करै ॥ इस तपस्याके प्रभावसें इस भवमें संसारसंबंधी दुःखदालिद्र दूर होके सर्व कुटुंबमें सुख संपदा होय, परभवमें देवादिक ऋद्धी प्राप्त होय. (किंबहुना) इति वुट कर तपस्याविधिः ॥

॥ अथ भाद्रपद मासे पर्वाधिकार लिख्यते ॥

॥ भाद्रव महिनेमें मिति भाद्रवा सुद ४ तथा केइ मतकी अपेक्षासे ५ तिथिकों संवछरी नांमसें पर्व प्रसिद्ध हे (प्रथम इस संवछरी पर्वकी महिमा कहते हे) जैसें जगत्रमें अनेक मंत्र हे पर नवकार समान कोइ मंत्र नही १, तीर्थोंमें सेत्रुंजय समान कोइ तीर्थ नही २, पांचदानमें अभयदान सुपात्रदान समान कोइ दान नही ३, गुणमांहे विनयगुण ४, व्रतमांहे ब्रह्मव्रत ५, नियममे संतोष नियम ६, तपमें उपशामतप ७, दर्शनमें जैनदर्शन ८, जलमांहे गंगाजल ९, अलंकारमांहि चूडामणी १०, ज्योतिषीमें चंद्रमा ११, तेजवंतमांहि सुर्य १२, गजमें एरावण १३, दैत्यमांहे रावण १४, तुरंगमें पंचवल्लभकिशोर १५, नृत्यकलावंतमांहे मोर १६, वनमांहे नंदन १७, काष्टमांहे चंदन १८, साहसीकमें विक्रमादित्य १९, न्यायवंतमें श्रीराम २०, रूपवंतमें काम २१, सतीमांहे शीता २२, शास्त्रमांहे ज्ञाता २३, सुगंधमें कस्तूरी २४, वस्तुमें तेजनतूरी २५, वाजित्रमें भंभा २६, स्त्रीमांहे रंभा २७, धातुमें स्वर्ण २८, दातारमें कर्ण २९, गौमें कामधेनु ३०, वृक्षमें कल्पवृक्ष ३१, जलमें अमृत ३२, स्नेहमांहे घृत ३३, इत्यादिक सर्व चीजोंमें एक२ चीज उत्तम होती है. इस तरे सर्व पर्वोंमें उत्कृष्ट राजाधिराज पर्व श्री संवछरी (दूसरा नाम) श्रीपर्यूषण पर्वकों भगवंत श्रीमाहावीर स्वामीजीने उत्तम वर्णन किया. अब श्रीपर्यूषणपर्वके आगेसें प्रथम श्रीसाधुके करणे योग्य धर्मकृत्य कहते हे ॥ संवत्सरी प्रतिक्रमण

करै १, लोच करावे २, तेलेका तप करै ३, सर्व मंदिरोमें भगवंत की भावस्तवना करै ४, सर्व श्रीसंघसें खमावे ५. यह पांच कारण के वास्ते श्रीतीर्थंकर गणधरोंनें पर्यूषणापर्व प्रवर्त्तन किया ॥ अब शुद्धश्रावक संवत्सरी पर्व आराधन करणेकूं आठ दिन अठाइ महो त्सव करै सो कल्पलता शास्त्रोंसें लिखते है ॥ प्रथम श्रुतज्ञानकी भक्ति करै, कल्पसूत्रजीकूं विधिसंयुक्त अपने घर लेजाके रात्रीजागर ण करावै, प्रभातसमय नगरके सर्व श्रीसंघकूं निमंत्रण कर यथा योग्य सत्कार सन्मान करै, पीछै पुस्तकग्राहक पुरुष सर्वसें उत्तम वस्त्र आभूषण पहरकै मुगट छत्र चामर इत्यादिक समेत साक्षात् इंद्रम हाराजका रूप बणाकर हाथी पर अथवा पालखी पर बैठ अष्ट मं गलीक रचित थालमें पुस्तक धरके अपणे दोनुं हाथमें थाल धरके दोनुं तरफ पुरुष अच्छा वस्त्र आभूषण पहरके चमर ढावे, अनेक प्रकारके वा जित्र वाजते भये, दान देते भये, नानाप्रकारके श्रुतज्ञानके गुण वर्णन करते भये, नगरमें प्रदक्षणा तुल्य फिरके गुरुके पास आवै. गुरु पिण खड़ा होके विनयसंयुक्त पुस्तककों नमस्कार करके आगे रखै. श्रीसं घके आज्ञासें वाचनापूर्वक वांचे १, नगरमें सब जगे अमारिपडह वजावै, दूसरा वचनसें तथा द्रव्यसें कसाइ धोबी भडभूंजा इत्या दिक सबका आरंभ छोडावे २, सुपात्रदान देवे ३, बिदाम सुपारी नालेरादिक की प्रभावना करे ४, श्रीवीतरागदेवकी उदार भक्तिसें पूजा करै, चौदसके दिन संवत्सरीके दिन चतुर्विध श्रीसंघ इकठे हो कर सर्व मंदिर दरसण करणेको जावै ५, सचित्तका परिहार करै ६, ब्रह्मचर्य पाले ७, चउछ, छठ, अठमादिक तप करै ८, अपने २ वित्तके अनुसारे जन्मकल्याणकका उछव करै ९, अठपहरी पोसा करै १०, संवत्सरी प्रतिक्रमण करै ११, निसल्य होके सर्व श्रीसंघ से खमावै १२, पारणेके दिन पोसह ०म्फिकमणेवाले साधर्मीभाइ;

योंकी भक्ति करै १३, गुरुभक्ति करै १४, संवच्छरी दान देवै, साहमी वछल करै १५. इस विधिसंयुक्त यह कल्पसूत्र एक चित्त सुणनेसें आराधन करणेसें आठ भवसें मोक्षस्थानकूं प्राप्त होता हे (उर) केइयक भव्यजीव अत्यंत शुभ भाव धरतेभये अठमादि तप कर के युक्त कल्पसूत्रजीकों वांचते हे उर सुणनेवाले प्रमाद निद्रा विकथा छोडके अठमादि तप करके एक चित्तसें शुद्धभाव रखके इकवीस वेर सुणते हे, सो भव्य देवगतीकों प्राप्त होके तीसरे भव सिद्धिस्थानकों प्राप्त होते हे ॥ इस पर्यूषणपर्वका महोछव जो भव्य जीव करते हे सो धन्य हे, धर्मके प्रभावीक हे, अपणी लक्ष्मीसें धर्मका उद्योत करते हे. उस पुण्यात्माकों देव सहायता करते हे उर नमस्कार करते हे ॥ (अव कल्पसूत्रजीका महात्म कहते हे ॥ यह कल्पसूत्र नवमेंपूर्वसें उद्धरण कियाभया दशाश्रुतस्कंधका आठमा अध्ययन हे. सर्व श्रीसंघके मंगलके कारण श्रुतकेवली श्रीभद्रबाहु स्वामी प्रसिद्ध किया हे. यह श्रीकल्पसूत्रके अनंते विषय हे. जेसें सर्व नदीके वालू के कण होय उससे भी एक सूत्रके अनंते विषय हे. इस कल्पसूत्रका महात्म जो देवाचार्य हजार जीभ करके कहे तोभी महात्मका एक अंस भी कह सकता नही. एसा इस पर्वका महात्म जाण जो भव्यजीव शुद्ध भावसें सेवन करेंगें सो अनेक तरेसें ऋद्धि वृद्धी सुख सौभाग्य कों प्राप्त होंगें. उर परभवमें देवादिक ऋद्धि पायके मुक्तिसुखकों प्राप्त होंगें ॥ इति पर्यूषणपर्वाधिकारः६॥

॥ अथ आश्विन मास मध्ये पर्वाधिकारः ॥

॥ आसोज महीनेमें मिती आसोज सुदि ७ से लेके आसोज सुदि १५ तक नवपदजी की उली तथा अष्टापदजीकी उली विधिसंयुक्त करै. सो सब विधि पहली लिखी हे उसी माफक करै॥

॥ अथ कार्त्तिक मास मध्ये पर्वाधिकार लिख्यते ॥

॥ कार्त्तिक महीनेमें मिती कार्त्तिक वदि अमावस हे सो दी-

पमालिका नामसें पर्व प्रसिद्ध हे. यह दीपमालिकापर्व कबसें भया सो लिखते हे. चोवीसमें तीर्थंकर श्रीमहावीरस्वामी समस्त साधु साध्वी साथ विचरते थके अंतकी चोमासी मध्यमपावापुरीमें आयके रहे, उहां आगामीकालकी सर्व वात भव्यजीवोंके सामने निरूपण किया, फेर अपणा अंत समय जाण के हस्तिपालराजाके शुक्लशालामें आयके रहे. अपणे पर गौतमस्वामीका वहुत स्नेह देखके निजीक गाममें देवशर्मा ब्राह्मणकों प्रतिबोध देणेकूं भेजा. पिछाडी पद्मासन धारण करके शोले पहर तक अखंड देसना देते भये वहुत्तर वरसका आयू पूरण पालके इसी अमावासके दिन पिछली दो घडी रात रहणेसें सिद्धिस्थानकों प्राप्त भये. जिस समय भगवंतका निर्वाणकल्याणक भया उस समय चोसठ इंद्र देवतागणके आणे जाणेसें वडा उद्योत भया, उर जो राजा पोषधमें बैठे भयेथे सो भावउद्योतका अस्तपणा देखके सव जगे रत्न धरके द्रव्यउद्योत किया. एकमके प्रभात समें देवतोका आणा जाणा उर वचन सुणके श्रीगौतमस्वामीकूं केवलज्ञान उत्पन्न भया. दूजके दिन सुदर्शना बहिन अपणे भाई नंदिवर्द्धनराजाकूं घरमें बुलाके जीमाया, शोक दूर कराया जिससें भाईबीज प्रवर्त्तन हुई. इससें यह दीवाली पर्व वडा उत्तम हे. इस दिवालीकी रातकूं जो गुणना करते हे सो लिखते हे ॥ ॥ श्रीमहावीरस्वामी सर्वज्ञायनमः ॥ श्रीमहावीरस्वामी पारंगतायनमः ॥ श्रीगौतमस्वामी सर्वज्ञायनमः ॥ इस एक२ पदको २००० गुणनो करै, उपवास करै, रात्रीजागरण करै, निर्वाणकल्याणककी आरती करै ॥ स्तवन बोलै । निर्वाणकल्याणकका अधिकार सुणैं । गौतमरास सुणैं. इत्यादिक उदार चित्तसें सर्व ठिकाणें दीवालीपर्वका उत्सव करणा चाहियै ॥ दिवालीका स्तवन पूर्वे लिखा हे सो पढै ॥

॥ अथ ग्यानपंचमी पर्वाधिकार लिख्यते ॥

॥ दूसरा काती महीनेमें कार्त्तिक सुदि पंचमी सो ज्ञानपंचमी नामसें पर्व प्रसिद्ध हे. इस दिन सर्व ज्नव्यजीवोंकों ज्ञानका विशेष आराधन करणा चाहिये. ज्ञानके समान संसारमें जत्तम पदार्थ कुछ ज्नी नही हे. सर्व तत्वमें ज्ञानके समान कोइ तत्व नही. मोक्षमार्ग साधनकूं ज्ञान समान कोइ जपाय नही. इस ज्ञानपंचमीके आराधनसें अनेक दुष्टकर्म नाश होय. गूंगापणा, मूर्खपणा, बक्रपणा, और कोढादिक रोग सर्व दूर होय. अनुक्रमें ज्ञानावरणी कर्मके क्षय होणेसें पांचो ज्ञान प्रगट होय. जेसें वरदत्त गुणमंजरी के रोगादिकके सर्व जपद्रव दूर होके मनोरथ पूर्ण ज्नये, इस तरे जो ज्ञानपंचमीका आराधन करेगा जसका मनोरथ पूर्ण होगा ॥

॥ अथ ज्ञानपंचमी देववंदन विधि ॥

॥ प्रथम पवित्र स्थानक चोकीपट्टे पर ग्यानकों स्थापन करे, जसके आगे पांच साथिया करे, फल फूल प्रमुख चढावे, पांच बत्तीका दीपक चढावे, अगर कपूरका धूप खेवे, पूजा पढके वासक्षेप कपूरसें ज्ञानपूजा करे, यथाशक्ती रोकद्रव्य चढावे तथा पूगी विटांगणादि चढावे. (ज्ञानपूजा लिखते हे) नमंतिसाभंतमहीवनाहं, देवायपूयंसुविहेयपूविं ॥ ज्नत्तीयचित्तंमणिदामएहिं, मंदारपुप्फपसवेहि नाणं ॥ १ ॥ तहेवसद्धामणिमुत्तिएहिं, सुगंधपुप्फेहिंवरंसएहिं ॥ पूयंतिवंदंतिनमंतिनाणं, नाणस्सजावायज्नवक्खयाय ॥२॥ यह गाथा पढके ज्ञानपूजा करे. (इस तरे द्रव्यपूजा करके पीछे ज्नावपूजा करे सो लिखते हें) खमासमण दे के । इरियावही पमिक्कमें । लोगस्स कहे । बेठके । मुंहपत्ती पमिलेहे । अणूजाणह मेमिजग्गहं (इत्यादिक) दो वांदणा देवे, पीछे पांच खमासमण दे के ज्ञानका नमस्कार करे ॥

॥ अथ ज्ञाननमस्कार लिख्यते ॥ सकल वस्तु प्रतिज्नास ज्नानु

निरमल सुखकारण, सम्यग्दर्शन पुष्टहेतु भवजलनिधि तारण ॥ संयमतप आनंदकंद अज्ञाण निवारण, मार विकार प्रचार ताप तापित जिन वारण ॥ १ ॥ स्याद्वाद परिणाम धर्म परणति पडिबोहण, साहु साहुणी संघ सर्व आराधन सोहण ॥ मोह तिमर विध्वंससूर मिथ्यात्व पणासण, आतमशक्ति अनंत शुद्ध प्रभुता परगासण ॥ ॥ २ ॥ मति श्रुति अवधि विशुद्ध नाण मणपज्जव केवल, भेद पचास क्षायोपसमिक एक क्षायिक निरमल ॥ दोय परोक्ष प्रथम तिहां दुग परतक्ष दीसत, सकल प्रतक्ष प्रकाश भास ध्रुव केवल अपरमित ॥ ३ ॥ धर्म सकलनो मूल शुद्ध त्रिपदी जिन भाखै, बाहिर अंग प्रधान खंध गणधर सुप्रकाशै ॥ शाखाश्रीनिर्युक्ति भाष्य पडि शाखा दीपै, चूरण टीका पत्र पुष्प संशय सब जीपै ॥ ४ ॥ पंचांगी सार बोध कह्यो जिन पंचम अंगे, नंदी अनुयोगद्वार शास्त्र मानो मनरंगे ॥ वीर परंपर जीत अनुभव उपगारी, अभ्यासो आगम अगम निरुपम सुखकारी ॥५॥ मोहपंक हर नीर सम सिद्धांत अबाधै, देवचंद आणा सहित नयभंग आराधै ॥ ए श्रुतज्ञान सोहामणो सकल मोक्ष सुखकंद, भगते सेवो भविकजन पामो परमानंद ॥ ६ ॥ इति ज्ञानस्तुति ॥ इत्यादि नमस्कार कहके । णमोत्थुणं० जावंतिचेइयाइं० जावंतिकेविसाहू० नमोर्हत् सिद्धा० । कहके ॥ प्रणमुं श्रीगुरुपाय० ॥ इत्यादि ज्ञानका स्तवन बोलै, जयवीयराय० कहै, वंदणव० अन्नत्थू० कहके एक नवकारका काउसग्ग करै, थुई कहै ॥ ॥ अथ थुई लिख्यते ॥ देविंदवंदियपएहिंपरूवियाणि, नाणाणिकेवलमणोहिमईसुयाणि ॥ पंचाविपंचमगईसियपंचमोए, पूयातवेगुणरयाणजियाणदिंतु ॥ १ ॥ यह स्तुति कहके (ज्ञान आराधवा निमित्तं करेमि काउसग्गं) तस्सुत्तरी० अन्नत्थू० कहके १ लोगस्सका काउसग्ग करै, (पारके) बोधागाधं० (इत्या-

दिगाथापढके) पीछे ॥ आन्नणिबोहियनाणं । सुयनाणंचेवनं हिना णंच ॥ तहमणपज्जवनाणं । केवलनाणंचपंचमयं ॥ २ ॥ यह गाथा कहके । इच्छामिखमासमणो० श्रीमतिज्ञानायनमः १, श्रीश्रुतिज्ञानायनमः २, श्रीअवधिज्ञानायनमः३, श्रीमनपर्यवज्ञानायनमः ४, समस्त लोकालोकन्नास्कर श्रीकेवलज्ञानायनमः ५. इस तरै पांच नमस्कार करै, थिरता होय तो (५१) ज्ञानके गुणोंकों नमस्कार करै, सो पूर्वं नवपदजीके गुणनेमें लिख्या है ॥ उस माफक करैं ॥ पीछे (ॐ ह्रीं णमोणाणस्स) इस पदका २००० गुणना करै. कम थिरता होय तो इग्यारे अंगकी सिझायों पढै वा सुणें, सो लिखते हे॥

॥ प्रथम आचारांग सिझाय लिख्यते ॥

॥ ढाल हठीलानी ॥ पहिलो अंग सुहामणो रे, अनुपम आचरांग रे ॥ सुगणनर॥ वीर जिनंदे न्नाखियो रे लाल, उववाई जास उवंग रे ॥ सु०१॥ बलिहारी ए अंगनीरे, हुं जाउं वारंवार रे॥सु०॥ विनये गोचरी आदरे रे लाल, जिहां साधुतणो आचार रे ॥ सु० ब०॥२॥ सुयखंध दोय छे जेहना रे, प्रवर अध्ययन पच्चवीस रे ॥ सु० ॥उद्देशादिक जाणिये रे लाल, पिच्यासी सुजगीस रे॥ सु० ब०३॥ हेतु जुगत कर सोन्नता रे, पद अढार हजार रे ॥ सु० ॥ अक्षरपदने तेहने रे लाल, संख्याता श्रीकार रे ॥ सु०ब०४ ॥ गमा अनंता जेहमां रे, वलिलि अनंत पर्याय रे ॥ सु० ॥ त्रस परित्तो छे इहां रे लाल, थावर अनंत कहाय रे ॥ सु० ब० ५ ॥ निबद्ध निकाचित सासता रे, जिनप्रणीत ए न्नाव रे ॥ सु० ॥ सुणतां आतम उलसे रे लाल, प्रगटे सहज स्वन्नाव रे ॥ सु० ब० ६ ॥ सुगुण श्रावक वारू श्राविका रे, अंगे धरिय उल्लास रे ॥सु०॥ विधिपूर्वक तुमे सांन्नलो रे लाल, गीतारथ गुरु पास रे ॥ सु० ब० ७ ॥ ए सिद्धांत महिमानिलो रे, उतारे न्नव पार रे॥ सु० ॥ विनयचंद्र कहे माहरे

रे लाल, एहिज अंग आधार रे ॥ सु० व० ८ ॥ इति आचारांग सि० ॥

॥ अथ २ सुयगडांगसूत्र सिझाय लिख्यते ॥

॥ ढाल रसियानी ॥ बीजो रे अंग तुमे सांभलो, मनोहर श्रीसुगडांग ॥ मोरालाजन ॥ त्रिणसे तेसठ पाखंडीतणो, मत खंड्यो धर रंग ॥ मो० १ ॥ मीठी रे लागे वाणी जिनतणी, जागे जे हथी रे ग्यान ॥ मो० ॥ ए वाणी मन माणी माहरे, मानु सुधा रे समान ॥ मो० मी० २ ॥ रायपसेणी उपांग छे जेहनो, ए तो सूत्र गंभीर ॥ मो० ॥ बहूश्रुत अरथ जाणे सहू, क्षीर नीर धनु तीर ॥ मो० मी० ३ ॥ एहना रे सुयखंध दोय छे, वलि अध्ययन तेवीस ॥ मो० ॥ उद्देसा समुद्देसा जिहां भला, संख्याये रे तेत्रीस ॥ मो० मीठो० ४ ॥ नय निक्षेप प्रमाण भरथा, पद छत्तीस हजार ॥ मो० ॥ संख्याता अक्षर पदमांहे, कुण लहे तेहमो रे पार ॥ मो० मी० ५ ॥ गमा अनंता पर्याय वली, भेद अनंत जिण माहि ॥ मो० ॥ गुण अनंत त्रस परित्त कह्या, थावर अनंत जे मांहि ॥ मो० मी० ६ ॥ निबद्ध निकाचित्त जे सासय कह्या, जिम पयत्ता रे भाव ॥ मो० ॥ भापी रे सुंदर एह प्ररूपणा, चरण करणनो रे जाव ॥ मो० मीठो० ७ ॥ करिये भगत जुगत ए सूत्रनी, निश्चे लहिये रे मुक्ति ॥ मो० ॥ विनयचंद्र कहे प्रगटे एहथी, आतमगुणनी रे शक्ति ॥ मो० मी० ॥ ८ ॥ इति सूयगडांग सिझाय ॥ २ ॥

॥ अथ ३ ठाणांगसूत्रसिझाय लिख्यते ॥

॥ ढाल ॥ आठ टके कंकण लियोरी ॥ ए चाल ॥ त्रीजो अंग भलो कह्यो रे जिनजी, नामे श्रीठाणांग ॥ मोरो मन मगन थयो ॥ हारे देखी२ भाव, हांरे जीवाजीव स्वभाव ॥ मो० ॥ सकल जगत करी छाजतो रे जि०, जीवाभिगम उपांग ॥ मो० ॥ १ ॥ एह अंग मुझ मन वस्यो रे जिनजी, जिम कोकिल दल अंब ॥ मो० ॥

गुहिर भाव कर जागतो रे जि०, आज तो एह आलंब ॥ मो० २ ॥ कूट शैल सिखरी शिला रे जि०, काननमें बलि कुंम ॥ मो० ॥ गह्वर आगर इह नदी रे जि०, जेहमेंअछे रे उदंम ॥ मो० ॥ ३ ॥ दस गणा अति दीपता रे जि०, गुणपर्याय प्रयोग ॥ मो० ॥ परित्त जेहनी वाचना रे जि०, संख्याता अनुयोग ॥ मो० ॥ ४ ॥ वेष्ट सिलोक निजुत्तसुं रे जि०, संगहणी पडिवित्त ॥ मो० ॥ ए सहु संख्यातां जिहां रे जि०, सुणतां उलसे चित्त ॥ मो० ॥ ५ ॥ सुय खंध इक राजतोरे जि०, दश अध्ययन उदार ॥ मो० ॥ उद्देशादिक वीस छे रे जि०, पद बहुत्तर हजार ॥ मो० ॥ ६ ॥ रागी जिनशासन तणो रे जि०, सुणे सिद्धांत वखाण ॥ मो० ॥ विनयचंद कहै ते हुवे रे जि०, परमारथरा जाण ॥ मो० ॥ ७ ॥ इति श्री० ठा० सं० ॥

॥ अथ ४ ॥ समवायांगसूत्र सिझाय ॥

॥ ढाल ॥ थारा महिलां ऊपर मेह झरोखे वीजली ॥ एचाल ॥

चोथो समवायांग सुणो श्रोता गुणी, हो लाल सुणो श्रो०, पन्नवणा उपांग करी सोभा वणी, हो लाल करी सो० ॥ अरध मागधी भाषा साखा सुरतणी, हो लाल साखा सु०, समकित भाव कुसुम परिमल व्यापी घणी, हो लाल परि० ॥ १ ॥ जीव अजीवने जीवाजीव समासथी, हो लाल जी०, लहीये एहथी भाव विरोध कांइ नथी, हो लाल वि० ॥ भांगा तीन स्व समयादिकना जाणीये, हो लाल यादि०, लोक अलोक ने लोकालोक वखाणीये, हो लाल लो० ॥ २ ॥ एकअकी छे सत समवाय परूपणा, हो लाल सम०, कोडाकोडि प्रमाणक जीव निरूपणा, हो लाल जी० ॥ वारसविह गणी पिटकतणी संख्या कही, हो लाल त०, सासता अरथ अनंत कि छे एहना सही, हो लाल छै० ॥ ३ ॥ सुयखंध अध्ययन उद्देसादिके भला, हो लाल उ०, संख्यायें एक एक प्रत्येके गुण निला, हो० प्रत्ये० ॥ पद

एक लाख चौमाल सहस तेवत्तरा, हो० स०, पदनें अग्रवदय सं-ख्याता अक्षरा, हो० सं० ॥४॥ भाष्य चूर्णी निर्युक्ती करी सोहे सदा, हो० करी०, सुणतां भेद गंभीर त्रिपत न होय कदा, हो० त्रि० ॥ जेह नमावे अंगकि अन्तरगत हसी, हो० अन्त०, जल वरसंते जोर कुण न हुवे खुसी, हो० कु० ॥ ५ ॥जाग्यो धरम सनेह जिणंदसुं माहरो, हो० जि०, तजिया शास्त्रमिथ्यात सुत्र जाण्यो खरो, हो० सू० ॥ जिम मालती लहे भृंग करीनेनविरहे, हो० क०, इश्वर शिर सुरगंग तभी परि नवि वहे, हो० त० ॥ ६ ॥ ए प्रवचन नि-ग्रंथतणो जुगते वक्ष्यो, हो० त०, साकर सेलडी शख थकी पिण मीठयो, हो० थ० ॥ स्युं कहिये बहु वात विनयचंद्र इम कहे, हो, वि०, एहना सुणने भाव श्रोता अति गहगहे, हो० श्रो० ॥ ७ ॥

॥ अथ ५ ॥ भगवतीसूत्र सिझाय लिख्यते ॥

॥ढाल पंथोडानी ॥ पंचम अंग भगवती जाणिये रे, जिहा जिन वरना वचन अथाह रे ॥ हिमवंत परवत सेती निकल्या रे, मानुं पर तिख गंग प्रवाह रे ॥ पं० १ ॥ सूरपन्नत्ती नामे परगडी रे, जेहनी छे वदाम भवांग रे ॥ सूत्रतणी रचना दरिया जिसी रे, मांहिला अरथ ते सजल तरंग रे ॥ पं० २ ॥ इहां तो सुयखंध एक अति भलो रे, एकसो एक अध्ययन उदार रे ॥ दश हजार उद्देसा जेह ना रे, जिहां किण प्रश्न छत्तीस हजार रे ॥ पं० ३ ॥ पद तो दोय लाख अरथे भरया रे, ऊपर सहस अठ्यासी जाण रे ॥ लोकालो क स्वरूपनी वर्णना रे, विवाहपन्नत्ती अधिक प्रमाण रे ॥ पं० ४ ॥ करिये पूजा अने परभावना रे, धरिये सदगुरु ऊपर राग रे ॥ सुणिये सूत्र भगवती रागसूं रे, तो होय भवसागरनो त्याग रे ॥ पं० ५ ॥ गोतम नामे द्रव्य चढाइये रे, सम्यक् ज्ञान उदय होय जेम रे ॥ कीजे साधु तथा साहमीतणी रे, भगति युगति मन आणो

प्रेम रे ॥ पं० ६ ॥ इण विधसुं ए सूत्र आराधतां रे, इण भव सीझे वंछित काज रे ॥ परभव विनयचंद कहे ते लहे रे, मोहन मुगतिपूरीनो राज रे ॥ पंच० ७॥ इति श्रीभगवतीसूत्र सिझाय सं० ॥

॥ अथ ६ ॥ ज्ञातासूत्र सिझाय लिख्यते ॥

॥ ढाल ॥ कितलख लागा राजाजीरै मालियै ॥ ए देशी ॥

छठो अंग ते ज्ञातासूत्र वखाणियै जी, जेहना छै अरथ अनेक उदं रू हो ॥ म्हारा सुणज्यो धरि नेह सिद्धांतनी वातमी जी ॥ श्रवणे सुणतां गाढो रस ऊपजे जी, मधुरता तर्जित जिम मधुखंड हो ॥ म्हा० १ ॥ जंबुद्दीवपन्नत्ती उपांग छै जेहनो जी, इण मांहे जिन पूजानी विधि जोरहो ॥ म्हा० ॥ अर्चिक सुण परम शांतिरस अनुभवे जी, चर्चिक सुण करै सम सोर हो ॥ म्हा० २ ॥ नगर उद्यान चैत्य वनखंड सोहामणो जी, समवसरण राजानो मात ने तात हो ॥ म्हा० ॥ धरमाचारज धर्मकथा तिहां दाखवी जी, इह लोक परलोक रुद्धि विशेष सुहात हो ॥ म्हा० ३ ॥ भोग परित्याग प्रव्रज्या पर्यवा जी, सूत्र परिग्रह वारू तप उपधान हो ॥ म्हा० ॥ संलेहण पच्चरकाण पादपोपगमनता जी, स्वर्गगमन शुभ कुल उतपत्तान हो ॥ म्हा० ४ ॥ बोधिलाभ वलि तंत ते अंतक्रत्या कही जी, धर्मकथाना दोय छै खंध हो ॥ म्हा० ॥ पहिलाना उगणीस अध्ययन ते आज छै जी, बीजाना दस वर्ग महा अनुबंध हो ॥ म्हा० ५ ॥ उंठकोडि तिहां सकल कथानक भाषिया जी, भाष्या वलि उगणीस उद्देस हो ॥ म्हा० ॥ संख्याता हजार भला पद एहना जी, एह थकी जायै कुमति कलेश हो ॥ म्हा० ६ ॥ विनय करे जे गुरुनो बहु परै जी, तेहने श्रुत सुणतां बहु फल होय हो ॥म्हा०॥ ते रसिया मन वसिया विनयचंदने जी, सो मांहे मिलै जोया एककै दोय हो ॥ म्हा० ७ ॥ इति ज्ञाताधर्मकथांग सि०॥

॥ अथ ७ ॥ उपासकदशा सूत्र सिझाय लिख्यते ॥

॥ ढाल विछियानी ॥ हिवै सातमो अंग ते सांभलो, उपासगदशा नामे चंग रे ॥ श्रमणोपासकनी वर्णना, जसु चंदपन्नत्ती उपाग रे ॥ १ ॥ मन लागो मोरो सूत्रथी, एतो भव वैराग तरंग रे ॥ रस राता ज्ञाता गुण लहै, परमारथ सुविहित संग रे ॥ म० २ ॥ इण अंगे सुयखंध एक छै, अध्ययन उद्देस विचार रे ॥ दस२ संख्यायें दाखव्या, पद पिण संख्यात हजार रे ॥ म० ३ ॥ आनंदादिक श्रावकतणो, सुणतां अधिकार रसाल रे ॥ रस लागे जागे मोहनी, श्रोताजनने ततकाल रे ॥म० ४ ॥ श्रोता आगल तो वांचतां, गीतारथ पामे रीझ रे ॥ जे अर्द्धदग्ध समझै नही, तेहसुं तो करवी धीज रे ॥ म० ५ ॥ दस श्रावक तो इहां भाखिया, पिण सूत्र भण्यो नही कोय रे ॥ ते माटे शुद्ध श्रावक भणी, एक अरथ नी धारणा होय रे ॥ म० ६ ॥ साचो होय ते प्ररूपिये, निस्संक पणें सुजगीस रे ॥ कवि विनयचंद कहै स्युं थयो, जो कुमती करस्यै रीस रे ॥ म० ७ ॥ इति उपाशकदशांग सिझायः ॥

॥ अथ ८ ॥ अंतगडदशांग सिझाय लिख्यते ॥

॥ ढाल ॥ वीर वखाणी राणी चेलणा जी ॥ ए देशी ॥ आठमो अंग अंतगडदशा जी, सुणी करो कान पवित्र ॥ अंतगड केवली जे थया जी, तेहना रे इहां चरित्र ॥ आठ० ॥ १ ॥ कर्म कठिन दल चूरतां जी, पूरता जगतनी आस ॥ जिनवरदेव इहां भासता जी, सासता अर्थ सुविलास ॥ आठ० २ ॥ सकल निक्षेप नय भंगथी जी, अंगना भाव अभंग ॥ सहिज सुख रंगनी तल्लिका जी, कल्पिका जास उवाग ॥ आ० ३ ॥ एक सुयखंध इण अंगनो जी, वर्ग छै आठ अभिराम ॥ आठ उद्देस छे वली जी, संख्याता सहस/पद ठाम ॥ आ० ४ ॥ आठम

पाठमें जी, एहवोअ छे रे मीठास ॥ सरस अनुभव रसे जी, संपजै पुण्यनी रास ॥ आ० ५ ॥ विषयलंपट नर जे जी, निरविषयी सुण्यां थाय, जिम माहा विष विषधरतणो नागमंत्रे सुण्या जाय ॥ आ० ६ ॥ अमृतवचन मुख वरसती जी, सरस्वती करो रे पसाय ॥ जिम विनयचंद इण सुत्रना जी, तुरत लहै अभिप्राय ॥ आ० ७ ॥ इतिश्रीअंतगडदशा सूत्र सि० ॥

॥ अथ ए ॥ अणुत्तरोवाई अंग सिझाय लिख्यते ॥

॥ ढाल ॥ नणदल विंदली लै ॥ ए चाल ॥ नवमो अंग अणुत्तरोवाई, एहनी रुच मुझने आई हो ॥ श्रायक सूत्र सुणो ॥ सूत्र सूणो हित आणी, एतो वीतरागनी वाणी हो ॥ आ० १ ॥ जसु कल्याणवतंसिका नामै, सोहे उपांग प्रकामे हो ॥ आ० ॥ ए तो आगमने अनुकूला, मानु मेरुसिखरनी चूला हो ॥ आ० २ ॥ ए तो सूत्रनो नाम सुणीजै, तिम२ अंतरगति भीजै हो ॥ आ० ॥ प्रगटै नवल सनेहा, एहथी उलसे मोरी देहा हो ॥ ॥ आ० ३ ॥ अणुत्तर सुरपद पाया, तेहना गुण इणमें गाया हो ॥ आ० ॥ नगरादिक भाव वखाण्या, ते तौ छठै अंगे आण्या हो ॥ आ० ४ ॥ इहां एक सुयखंध वारू, त्रिण वर्ग वली मनोहारू रे ॥ आ० ॥ उद्देसा त्रिण सनूरा, संख्यात सहस पद पूरा हो ॥ आ० ५ ॥ सूत्र सुणावूं अमे तेहनें, साची श्रद्धा हुय जेहने हो ॥ आ० ॥ श्रोताथी प्रीत लगावूं, निंदकने मुंह न लगाउं हो ॥ आ० ॥ ६ ॥ जे सुणतां करै बकोर, ते तो माणस नही पिण ढोर हो ॥ आ० ॥ कवि विनयचंद कहे साचो, श्रुत रंगे सहु को राचो हो ॥ आ० ॥ ७ ॥ इति श्रीअणुत्तरोवाई सिझायः ॥

॥ अथ १० ॥ प्रश्नव्याकरण सिझाय लिख्यते ॥

॥ ढाल ॥ आघा आम पधारो पूज ॥ ए देसी ॥ दशमो अंग

सुरंग सुहावै, प्रश्णव्याकरण नामें, सूत्र कल्पतरु सेवे ते तो, चि दानंद फल पामे ॥ आवो० गुणना जाग तुमने सूत्र सुणाउं ॥ पुष्फकली ज्यूं परिमल महकै, गुरु परागने रागै ॥ तिम उपांग पुष्पिका एहनो, जोर जुगति करि जागै ॥ आवो० २ ॥ अंगु ष्टादिक जिहां प्रकास्या, प्रश्णादिक अति रूमा ॥ ते छै अष्टोत्तर सत ए तो, सूत्र मध्य मणिचूमा ॥ आ० ३ ॥ आश्रव द्वार पांच इहां आण्या, पांचे संवर द्वारा ॥ माहामंत्र वाणीमां लहियै, लवधि भेद सुखकारा ॥ आ० ४ ॥ सुयखंध एक छै दसमे अंगै, पणयालीस अझयणा ॥ पणयालीस उद्देस वली पद, सहस संख्यातनी रयणा ॥ आ० ५ ॥ जे नर सूत्र सुणै नही कानै, केवल पोषे काया ॥ माया मांहि रहै लपटाणा, ते नर इमहिज आया ॥ आ० ६ ॥ सूत्र मांहि तो मारग दोय छै, निश्चय नय व्यवहारा ॥ विनयचंद्र कहै ते आदरियै, तज मन मदन विकारा ॥ आवो० ७ ॥ इति ॥

॥ अथ ११ ॥ विपाकसूत्र सिझाय लिख्यते ॥

॥ ढाल कमखानी ॥ सुणो रे विपाकश्रुत अंग इग्यारमो, तजो विकथा वृथा जे अनेरी ॥ ललित उपांग जसु प्रवर पुष्फचूलिका, मूलिका पाप आतंक केरी ॥ सु० १ ॥ अशुभ किंपाक सम दुकृतफल भोगवी, नरकमें गरक थया जेह प्राणी ॥ सुकृतफल भोगवी स्वर्गमां जे गया, तास वक्तव्यता इहां आणी ॥ सु०२॥ दोय श्रुतखंधने वीश अध्ययन वलि, वीस उद्देस इहां जिन प्रयुंजे ॥ सहस संख्यात पद कुंद मचकुंद जिम, बहुल परिमल भ्रमर चित्त गुंजे॥ सु०॥३॥ सरस चंपकलता सुरभि सहुने रुचै, अन्य उपगारनी बुद्धि माटै ॥ सूत्र उपगार तेहथी सबल जाणियै, जेहथी पुरुष सुख अचल खाटै ॥ सु० ४ ॥ बंध ने मोक्षना बेउं कारणअछै, दुकृतने सुकृत जोवो विचारी ॥ दुकृतने परिहरी सुकृतने आदरी, जिनव-

चंन धारिये गुण संजारी ॥ सु० ५ ॥ म कर रे म कर निंद्या नि- गुण पारकी, नारकी तणी गति कांइ बांधै ॥ नारकी प्रकृत तज सहज संतोष जज, लाग श्रुत सांजली धरमधंधै ॥ सु० ६ ॥ सुस्क ने उःख विपाक फल दाखव्या, अंग इग्यारमें वीतरागै ॥ चिरजयो वीर शासन जिहां सूत्रथी, कवि विनयचंद्रगुण ज्योति जागै ॥ सु० ७॥

॥ अथ इग्यारै अंगकी वर्णना लिख्यते ॥

॥ ढाल वधावाकी ॥ अंग इग्यारे में सुएया, सहेली ए ॥ आज थया रंगरोल कि ॥ स० ॥ नंदीसूत्र मांहि एहनो, स० ॥ जाख्यो सर्व निचोल कि ॥ १ ॥ सहेली ए आज वधामणा ॥ आंक- णी॥ पसरी अंग इग्यारनी, स०॥ मुऊ मन मंरुप वेल कि ॥ सींचू ते हरखे करी, स०॥ अनुजव रसनी रेल कि ॥ स० २ ॥ हेज धरी जंजलै, स० ॥ कुरा बूढा कुण बाल कि॥ तो ते फल लहे फू स० ॥ स्वादें अतहि रसाल कि ॥ स० ३ ॥ हरख अपार धरी स० ॥ अहम्मदावाद मऊार कि ॥ जास करी ए अंगनी, ॥ वरत्या जय२कार कि ॥ स० ४ ॥ संवत सतर पचावनें, ॥ वरषाऋतु लजजास कि ॥ दसमी दिन सुदि पक्षमां, स० ॥ थई मन आस कि ॥ स० ५ ॥ श्रीजिनधर्म सूरी पाटवी, ॥ श्रीजिनचंद्र सूरीस कि ॥ खरतरगछना राजिया, स० ॥ राजै सुजगीस कि ॥ स० ६ ॥ पाठक रत्नखनिधान जो, स० ॥ तिलक सुपसाय कि ॥ विनयचंद्र कहे में करी, स० ॥ अंग र सिझाय कि ॥ स० ७ ॥ इति श्रीइग्यारे अंग सिझाय ॥

॥ अथ ज्ञानका पुनः स्तवन लिख्यते ॥

॥ राग घुमरी ॥ मेरे रे मन मानी ज्ञान जरी, मे० ॥ पर जप सुगुरु बताई, पांचु नेदें करी ॥ मति श्रुति अवधि अवर मन , केवल बोध वरी ॥ मे० १ ॥ तप करि अग्नि मूंस दंसनकी,

कर्मेंधनदल करी ॥ सक्रिय संजम करतामुं मिल, सिद्धि रसान धरी ॥ मे०२॥ पूरण पुन्य मिली मोहि सजनी, सकलानन्द दरी, बाल कहै अब विसरत नांही, पल छिन एक घरी ॥मे०३॥ इति पद॥

॥ पुनः आगम स्तवन ॥ २ ॥

श्रुत अतहि भलो, संघ सकल आधार नमूं श्रीभुवन तिलो ॥ आंकणी ॥ अरथें श्रीवीरजिनंद आख्यो, सूत्रें श्रीगणधरगुरु भाष्यो; तदुभयथी जे मुनिवर राख्यो ॥ श्रु० १ ॥ जेहथी जग भाव सकल जाणे, नय एकांत मुनिजन नवि ताणे, निश्चय विवहार ते मन आणे ॥ श्रु० २ ॥ जिहां अंग उपांग छै अति रूडा, छ छेद पयन्ना नहि कूडा, मूलसुत्र नंदी अनुयोग चूडा ॥ श्रु० ३ ॥ जिहां निरयुक्ती सूत्रे संगी, वलि भाष्य चूरण टीका चंगी, पंचम अंगे कही पंचांगी ॥ श्रु० ४ ॥ जिहां साधु श्रावक मारग लहिये, संवेगपखी वलि सरदहिये, ए त्रिण विन भवमारग कहिये ॥ श्रु० ५ ॥ जेहनी अनुपेहा नित करिये, उपचारे दूषण परिहरिये, आराध्यां निज अनुभव तरिये ॥ श्रुत० ६ ॥ जिन आगमना जे गुण गावे, शुद्धाशय जे मनमें ध्यावे, ते क्षमाकल्याण सदा पावै ॥ श्रु० ७ ॥ इति ज्ञान स्तवनं ॥

॥ अथ कार्त्तिक चोमासाधिकार लिख्यते ॥

॥ कार्त्तिक महीनेमें मिति कार्त्तिक सुदि १४ के दिन सब मंदरमें दर्शन करणेंको जाणा, व्याख्यान सुणना, सामायकादिक धर्मकृत्य करणा । इत्यादिक सब अधिकार आसाढ चोमासे मुजब जाणना ॥ इति कार्त्तिकचोमासा सेवनविधिः ॥

॥ अथ कार्त्तिक पूर्णमासीका अधिकार लिख्यते ॥

प्रथम कार्तिक वदि १ सें सेत्रुंजरास सुणें, निवी वा, एकासणा ब्यासणादि तप करै, दोनुं टंक पडिकमणा करै, देववंद-

नादि करै, (ॐ ह्रीं श्रीसिद्धक्षेत्र अनंतसिद्धायनमः ॥) इस मंत्रका जाप करे १०० वेर ॥ शक्ति होय तो सिद्धगिरी जात्रा करणेको जावै. कातिपूनमके दिन विस्तारसंयुक्त सिद्धगिरीकी पूजा करावै, अगाई महोछव करै, विस्तारसें देववंदनादिक विधि करै, (२१) वेर सेत्रुजरास सुणे (ॐ ह्रीं श्रीसिद्धक्षेत्र अनन्तसिद्धाय नमः) इस पदसें २१ जेती देवै. (कदास) सिद्धिगिरी जाणेकी शक्ति नही होय तो जहां सिद्धगिरीका पट्ट मंम्या होय उहां महोछव संयुक्त दर्शन करणेकूं जावै, पूजादिक सब विधि करै, उपवास करके वा चउत्थभत्त करके इस पर्वकूं आराधन करै, गुरुभक्ति करै, साहमीवछल करे. इत्यादिक विधि संयुक्त सिद्धगिरीकी सेवना करणेसें सर्व अशुभकर्म विध्वंस होय, मंगलमाला प्रवर्त्तन होय ॥ इस दिन श्रीद्राविड वारखिल्ल प्रमुख दस कोडि साधु सिद्धिस्थानक प्राप्त भए, जिससें इस दिन जो धर्मकृत्य करणेमें आता हे उसका निश्चे दशकोडि गुणा फल होता है ॥ इस भरतक्षेत्रमें सिद्धगिरीके समान दुसरा तीर्थ नही. संवत १७३२ की सालमें मेरा चतुर्मास मुंबईमें था. उहांसें कार्त्तिकमें यात्रा गया, तब सर्व बिंबोंके दरसण करके गिणती देखणेमें आई सो बारे हजार तीनसें अठावनकी संख्या मिली, और बहुत जगे चरणोंकी स्थापना हे, अनन्त साधू अणसण लेके परमपद पाए हे, इस वास्ते जो तुरत भव्यी जीव होंगें सो शुद्धभावसें इस तीर्थकों सेवेंगें, जो सेवते हे सो धन्य हे. गुर्जरदेस वासियोंकी बहुलता तार्थआसातनाकारी देवद्रव्यभक्षक जतीसाधू जो संवेगपक्षी गीतार्थोंके द्वेषी एसी वक्र वृत्तिसें जीर्णोद्धार तथा नोकारसी प्रमुखके बाहनेसें अन्य देसांतरी जात्रार्थी भव्यजीवोंका धन ठगणेकी वृत्तिसें तीर्थ सेवन अनंत संसारका भवभ्रमण समझके वर्जना, एसें दुरबुद्धियोकी पूजाव्रतपञ्च-

खाणादि द्रव्यकरणी श्रावकाचारवृत्तिरूप जाणके उनोका संगन्नी न करणा. शुद्धन्नावसें सिद्धगिरी सेवे ताकूं नमस्कार हे ॥

॥ अथ सिद्धगिरी स्तवनं ॥ १ ॥

॥ देशी गरबानी ॥ ते दिन क्यारे आवसी हे, जो रे बहिनी ॥ जासुं सिद्धाचलनी जात्र, मोरी सहियां हे ॥ पाजे चढतां प्रेमसुं हे, जो रे बहिनी ॥ गाइयै गुण अखियात, मोरी सहियां हे ॥ ते दि० १ ॥ अदन्नुत ऊंचो देहरो ए, जो रे बहिनी ॥ मूलनायक आदिनाथ, मोरी सहियां हे ॥ न्नोली न्नगत न्नली परे हे, जो रे ब० ॥ निरख्यां होय सनाथ ॥ मो० ते० २ ॥ नाही निरमल नीरसुं हे, जो रे० ॥ पहिर खीरोदक चीर, मो० ॥ केसर न्नरिय कचोलमी हे, जो रे० ॥ पूजसुं सुगुण सुधीर ॥ मो० ते० ३ ॥ रूमी रायणठांहमी हे, जो रे० ॥ आदिजिनंद उदार, मो० ॥ तिहां जगनाथ समोसरया हे, जो० ॥ पूरब निनाणू वार ॥ मो० ४ ॥ इण गिरवरियै ऊपरा हे, जो रे० ॥ सीधा साधु अनंत, मो० ॥ चोमासे रह्या दोय जिनवरा हे, जो रे० । अजित जिनेसर शांती ॥ मो० ५ ॥ चेलणातलाइ सिद्धसिला हे, जो रे० ॥ अदन्नुत उलकाऊोल, मो० ॥ सिद्धवम सेत्रुंजेनदी वहे हे, जो रे० ॥ करियै नित रंगरोल ॥ मो० ६ । इण डुंगर दीठा थकां हे, जो रे० ॥ ऊपजै परमानंद, मो० ॥ गहिरी गिरवर ठांहमी हे, जो रे० ॥ कहे नित जिणचंद ॥ मो० ते० ॥ ७ ॥ इति सिद्धाचलजी स्तवनं ॥

॥ पुनः सिद्धगिरी स्तवन ॥ २ ॥

श्रीचंद्रप्रन्नु प्राहुणो रे । ए देशी ॥ नमो रे नमो सेत्रुंजगिरी रे, त्रिकरण शुद्ध त्रिकाल रे ॥ पापपमल दूरै टलै रे, तूटे करमजंजाल रे ॥ नमो० १ ॥ पूरब निनाणू समोसरया रे, प्रथम जिनंद जगदीस रे ॥ त्रावीसम जिनवर विना रे, समवसरया

तेवीस रे ॥ नमो० २ ॥ साधु अनंत अनसण ग्रही रे, सीधा ए-हिज ठाम रे । काल अनंत वलि सीऊस्यै रे, साधू अनंती कोमि रे ॥ नमो० ३ ॥ अनंत कछ्याणक नूमिका रे, महिमावंत महंत रे ॥ सास्वतो तीरथ ए सही रे, अतिशय जास अनंत रे ॥ नमो० ४ ॥ कोमि नवांतर जे किया रे, पातिक त्रिविध ऊपाय रे ॥ से-त्रुंजै सनमुख चालतां रे, पग२ ते सहू जाय रे ॥ नमो० ५ ॥ धन दिन तेहिज जाणसूं रे, वहिस्युं सेत्रुंजे केरी वाट रे ॥ बहरी यथाविध पालस्युं रे, संघ सहित गहगाट रे ॥ नमो० ६ ॥ पग२ नछव अतिघणा रे ॥ पग२ याचकदान रे ॥ प्रेम नगत साहमीतणी रे, जीर्णोद्धार प्रधान रे ॥ न० ७ ॥ धन ते गिरिराय निरखसुं रे, व-ढती मंगलमाल रे ॥ मणि मोतीयमे वधावस्युं रे, रजत सोवन नर थाल रे ॥ नमो० ८ ॥ धन दिन ते गिर फरसस्युं रे, करस्युं पाव-न मोरी काय रे, नगति जुगति जुहारस्युं रे, नाजिनंदन जिनराय रे ॥ नमो० ए ॥ द्रव्य नाव करसुं मुदा रे, पूजा विविध प्रकार रे ॥ नावै नावना नावसुं रे, करसुं सफल अवतार रे ॥ नमो० १० ॥ रत्नत्रयी नमती नली रे, देसुं ते धर बुद्धि रे ॥ नवनव भ्रमण निवारसुं रे, लहिसुं आतमसुद्धि रे ॥ नमो० ११ ॥ त्रिध फरसन मन माहरो रे, मोहि रह्यो दिनरात रे ॥ पुन्य प्रबलथी पामियो रे, नज्जलगिरि केरी जात रे ॥ नमो० १२ ॥ नाथ धूलेवा सुपसा-यथी रे, कारज सगला सिद्ध रे ॥ कहै जिनहरष सूरीसरू रे, हो-यजो मंगल वृद्ध रे ॥ नमो० १३ ॥ इति सिद्धाचल स्त० ॥

॥ पुनः सिद्धगिरि स्तवन ॥ ३ ॥

॥ देशी पंथीमानी ॥ अंग ऊमाहो मोने अतिघणो, नेटवा विमलगिरिंद रे पंथीमा ॥ नाजिराया कुल चंदलो, जिहां वसै मरु-देवानंद रे पंथीमा ॥ वहिलुं बोले रे पंथी म्हारा वहिलुं बोले रे ॥

सेत्रुंजो छे कित्तनी दूर रे पंथीमा ॥ वहि० १ ॥ पालीताणो नगर सोहामणो, रूमी ललतासरनी पाल रे पंथीमा ॥ जिहां अंबला रे वमला घणा, फुक रही चंपलारी माल रे पंथीमा ॥ वहि० २ ॥ धन ते पंखी पारेवमा, सेत्रुंज वसिया जे मोर रे पंथीमा ॥ कमा हो करीने जे घर रहे, माणस नही ते ढोर रे पंथीमा ॥ वहि० ॥ ३ ॥ सेत्रुंज वाटे जी चालतां, झीणी२ ऊमे खेह रे पंथीमा ॥ मैला आवे संघना कापमा, निरमल थावे देह रे पंथीमा ॥ वहि० ४ ॥ ऊंचो देहरो आदिनाथलो, आगल चोक विसाल रे पंथीमा ॥ जिहां मिल२ घणा मानवी, गावे प्रभुगुण माल रे पंथीमा ॥ वहि० ५ ॥ घल केसर भर वाटका, पूजेवा जिनवर अंग रे पंथीमा ॥ फूलाईदो सोहे प्रभु सिर सेहरो, दिवलांरी ज्योति अभंग रे पंथीमा ॥ वहि० ६ ॥ ए गिरवर दीठां माहरे, ऊपजे परम आनंद रे पंथीमा ॥ मोने भेटणरो जी कोम छै, प्रेम वणे जिनचंद रे पंथीमा ॥ वहि० ७ ॥ इति श्रीसिद्धाचलजी स्तवनं ॥

॥ पुनः सिद्धगिरी स्तवन ॥ २ ॥

॥ जात्रा निनाणूं करिये विमलगिर, जात्रा० ॥ पूरव निनाणूं वार सेत्रुंज गिर, रुषभ जिनंद समोसरिये, सेत्रुंजगिर यात्रा०॥ कोमिसहस भव पातक तूटै, सेत्रुंज साम्हे मग भरये ॥ विम० जात्रा० १ ॥ चोथ छठ दोय अठम तपस्या, कर चढिये गिरवरिये ॥ विम० जा० ॥ पूंमरीक पद जपिये हरषे, अध्यवसाय शुभ धरिये ॥ वि० जा० २ ॥ पापी अभवी निजर न देखे, हिंसक पिण उधरिये ॥ वि० जा० ॥ भूमिसंथारी ने नारितणो संग, दूरथकी परहरिये ॥ वि० जा० ३ ॥ एकल आहारी ने सचित्त परिहारी, गुरु साथे पद चरिये ॥ वि० जा० ॥ पमिक्कमणा दोय विधसुं कीजे, पापपमल विष हरिये वि० जा० ४ ॥ कलिकाले ए तीरथ मोटो, प्रवहण

सम भवदरियै ॥ वि० जा० ॥ उत्तम ए गिरवर सेवंता, पदम कहै भव तरियै ॥ वि० जा० ५ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः सिद्धगिरी स्तवन ॥ ५ ॥

॥ राग प्रभाती ॥ भाग धर धन्य दिन आज सफलो गिएयो, आज मैं सजन आनंद पायो ॥ भा० ॥ हर्ष धर निजर भर विमलगिरि निरख कर, रजत मणि कनक मोतियन वधायो ॥ भा० ॥ १ ॥ पग२ उमंग धर पंथ नित पूछतां, धन्य दोय चरण जिहां चलत आयो॥ भा० ॥ आज धन दीह जागी सुकृतकी दिशा, आज धन दीह में सुजस गायो ॥ भा० २ ॥ डुर डुरग ति टरी जात्र विधसुं करी, पुन्यभंडार पोते भरायो ॥ वदत जिनराज मनरंग सुरगिरसिखर, ऋषभ जिनचंद सुरतरु कहायो ॥ भा० ३ ॥ इति पदं॥

॥ अथ मार्गशीर्ष मास मध्ये पर्वाधिकार लिख्यते ॥

॥ मिगसर महीनेमें मिती मिगसर सुद ११ सो मोनइग्यारस नामसें पर्व प्रसिद्ध हे. इस दिन १५०से कल्याणक भये हें सो लिखते हे. जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान, यह तीन कल्याणक श्रीमल्लिनाथस्वामी के भये, श्री अरअनाथ स्वामीनें दीक्षा अंगीकार करी. श्री नमिनाथस्वामीकों केवलज्ञान भया. एसें इस भरतक्षेत्रमें वर्त्तमान चोवीसीके पांचकल्याणक भये. इंस तरे पांच भरत, पांच एरवत में, चोवीसीके पांच२ कल्याणक मिलाणेसें पच्चास कल्याणक भये. अतीत, अनागत, वर्त्तमानकालकी अपेक्षासें १५०से कल्याणक भये. इस वास्ते यह दिन बड़ा उत्तम है. इस दिन मौन संयुक्त उपवास करै, अठ पहरी पोसा करकै मौनइग्यारसका गुणना करै. पोसह की शक्ति नही होय तो देसावगासि लेके गुणना करे, एसे इग्यारे वरसमें इग्यारे उपवास करे. अगर जो इग्यारस करणे की इच्छा होय तो महीनेंमें दोनों पक्षकी दो एकादसीकों इ-

ग्यारे वरस इग्यारे महीना करै. यह तपस्या करतां इग्यारे अंग ना-वसें सुणें, इग्यारै अंग लिखायके देवै, पढणेवालोंकों सहाय देवै, तपस्या ग्रहण करणेकी तथा पारणेकी विधि करै, सो गुरुमुखसें करै. (समवसरण बैठा जगवंत) इत्यादि इग्यारसका स्तवन पूर्वे लिख्या है सो पढे वा सुणै. पीछै उद्यापनमें पेंतालीस आगमकी पूजा करै. यथाशक्ति साहमीवच्छल करै, गुरुपूजा करै ॥ इति विधिः॥

॥ अथ मोनएकादशीको गुणनो लिख्यते ॥

॥ जंवुद्वीपेभरतक्षेत्रे अतीत २४ जिन पंच कल्याणक नमः ॥

॥ प्रथम ॥

४ श्रीमहायशसर्वज्ञायनमः
६ श्रीसर्वानुजूतिअर्हतेनमः
६ श्रीसर्वानुजूतिनाथायनमः
६ श्रीसर्वानुजूतिसर्वज्ञायनमः
७ श्रीश्रीधरनाथायनमः

जंवुद्वीपे भरतक्षेत्रे वर्त्तमान २४ जिन पंच कल्याणक ॥२॥

२१ श्रीनमिसर्वज्ञायनमः
१ए श्रीमल्लिअर्हतेनमः
१ए श्रीमल्लिनाथायनमः
१ए श्रीमल्लिसर्वज्ञायनमः
१० श्रीअरिनाथायनमः

जंवुद्वीपेभरतक्षेत्रेअनागत २४ जिनपंचकल्याणक० ॥३॥

४ श्रीस्वयंप्रजुसर्वज्ञायनमः

॥ धातकीखंडेपूर्वभरते अतीत २४ जिन पंच कल्याणक नमः ॥ ४ ॥

॥ द्वितीयः ॥

४ श्रीअकलंकसर्वज्ञायनमः
६ श्रीशुजंकरअर्हतेनमः
६ श्रीशुजंकरनाथायनमः
६ श्रीशुजंकरसर्वज्ञायनमः
७ श्रीसप्तनाथायनमः

धातकीखंडेपूर्वभरतेवर्त्तमान २४ जिन पंच कल्याणकनाम ॥५॥

२१ श्रीब्रह्मेंद्रसर्वज्ञायनमः
१ए श्रीगुणनाथअर्हतेनमः
१ए श्रीगुणनाथनाथायनमः
१ए श्रीगुणनाथसर्वज्ञायनमः
१० श्रीगांगीलनाथायनमः

धातकीखंडेपूर्वभरतेअनागत २४ जिनपंचक० नाम ।६।

४ श्रीसांप्रतिसर्वज्ञायनमः

६ श्रीदेवश्रुतअर्हतेनमः
६ श्रीदेवश्रुतनाथायनमः
६ श्रीदेवश्रुतसर्वज्ञायनमः
७ श्रीउदयनाथायनमः

पुष्करार्द्धपूर्वभरतेअतीते २४ जिनपंचकल्याणक० प्रथ॥७॥

४ श्रीमृदुसर्वज्ञायनमः
६ श्रीव्यक्तअर्हतेनमः
६ श्रीव्यक्तनाथायनमः
६ श्रीव्यक्तसर्वज्ञायनमः
७ श्रीकलाशतनाथायनमः

पुष्करार्द्धपूर्वभरतेवर्त्तमान२४जिनपंचकल्याणक । ८ ।

२१ श्रीअरण्यवाससर्वज्ञायनमः
१९ श्रीयोगनाथअर्हतेनमः
१९ श्रीयोगनाथनाथायनमः
१९ श्रीयोगनाथसर्वज्ञायनमः
१७ श्रीअयोगनाथायनमः

पुष्करार्द्धपूर्वभरतेअनागत२४जिनपंचकल्याणकनामः ९

४ श्रीपरमसर्वज्ञायनमः
६ श्रीशुद्धार्त्तिअर्हतेनमः
६ श्रीशुद्धार्त्तिनाथायनमः
६ श्रीशुद्धार्त्तिसर्वज्ञायनमः
७ श्रीनिष्केशनाथायनमः

६ श्रीमुनिनाथअर्हतेनमः
६ श्रीमुनिनाथनाथायनमः
६ श्रीमुनिनाथसर्वज्ञायनमः
७ श्रीविशिष्टनाथायनमः

धातकीखंडेपश्चिमभरतेअतीत २४जिनपं०ना०द्वितिय॥१०॥

४ श्रीसर्वार्थसर्वज्ञायनमः
६ श्रीहरिचन्द्रअर्हतेनमः
६ श्रीहरिचन्द्रनाथायनमः
६ श्रीहरिचन्द्रसर्वज्ञायनमः
७ श्रीमगधाधिनाथायनमः

धातकीखंडेपश्चिमभरतेवर्त्तमान २४पंचकल्यालकना० ॥११॥

२१ श्रीप्रयच्छसर्वज्ञायनमः
१९ श्रीअक्षोभअर्हतेनमः
१९ श्रीअक्षोभनाथायनमः
१९ श्रीअक्षोभसर्वज्ञायनमः
१७ श्रीमल्लिसिंहनाथायनमः

धातकीखंडेपश्चिमभरतेअनागत २४ जि०पं०क० १२

४ श्रीआदिकरसर्वज्ञायनमः
६ श्रीधनदअर्हतेनमः
६ श्रीधनदनाथायनमः
६ श्रीधनदसर्वज्ञायनमः
७ श्रीपौषनाथायनमः

६ श्रीत्रिविक्रमनाथायनमः
६ श्रीत्रिविक्रमसर्वज्ञायनमः
७ श्रीनारसिंहनाथायनमः

धातकीखंडेपूर्वएरवतेवर्त्तमान२४
जिनपंचकल्याणकनाम॥२०॥

२१ श्रीखेमंतसर्वज्ञायनमः
१९ श्रीसंतोषितअर्हतेनमः
१९ श्रीसंतोषितनाथायनमः
१९ श्रीसंतोषितसर्वज्ञायनमः
१८ श्रीकामनाथायनमः

धातकीखंडेपूर्वएरवतेअनागत२४
जिनपंचकल्याणकनाम॥२१॥

४ श्रीमुनिनाथसर्वज्ञायन
६ श्रीचंद्रदाहअर्हतेनमः
६ श्रीचंद्रदाहनाथायनम
६ श्रीचंद्रदाहसर्वज्ञाय
७ श्रीदिलादित्यनाथा

धातकीखंडे पश्चिमएरव
जिनपं०क० नाम

४ श्रीपुरुरवसर्वज्ञाय[म]
६ श्रीअवबोधअर्हते[मः]
६ श्रीअवबोधनाथा[नमः]
६ श्रीअवबोधसर्वज्ञ[यनम]
७ श्रीविक्रमेंद्रनाथ[मः]

६ श्रीवणिक्नाथायनमः
श्रीवणिक्सर्वज्ञायनमः
श्रीउदयज्ञाननाथायनमः

[पुष्क]रार्द्धपूर्वएरवतेवर्त्तमान२४
[जि]नपंचक०नाम ॥ २३ ॥

श्रीतमोकंदनसर्वज्ञायनमः
श्रीसायकाक्षअर्हतेनमः
श्रीसायकाक्षनाथायनमः
श्रीसायकाक्षसर्वज्ञायनमः
श्रीखेमंतसर्वज्ञायनमः

[पुष्]करार्द्धपूर्वएरवतेअना० २४
जिनपंचक०नाम ॥ २४ ॥

४ श्रीनिर्वाणसर्वज्ञायनमः
६ श्रीरविराजअर्हतेनमः
६ श्रीरविराजनाथायनमः
६ श्रीरविराजसर्वज्ञायनमः
७ श्रीप्रथमनाथायनमः

पुष्करार्द्धपश्चिमए०अतीत२४
जिनपं०क०ना०॥२८॥

४ श्रीअश्ववृंदसर्वज्ञायनमः
६ श्रीकुटिलअर्हतेनमः
६ श्रीकुटिलनाथायनमः
६ श्रीकुटिलसर्वज्ञायनमः
७ श्रीवर्द्धमाननाथायनमः

खंडेपश्चिमएरवतेवर्त्तमान२४

नपंचकल्याणकनाम॥२६॥

१ श्रीसुशान्तसर्वज्ञायनमः

१९ श्रीहरअर्हतेनमः

१९ श्रीहरनाथायनमः

१९ श्रीहरसर्वज्ञायनम

१८ श्रीनंदिकेशनाथायनमः

धातकीखंडेपश्चिमएरवतेअना०२४

जिनपंचकल्याणकनाम॥२७॥

४ श्रीमहामृगेंद्रसर्वज्ञायनमः

६ श्रीअसौचितअर्हतेनम

६ श्रीअसौचितनाथायनम.

६ श्रीअसौचितसर्वज्ञायनमः

७ श्रीधर्मेंद्रनाथायनमः

इति मौनएकादशी गुण

॥ अथ विधि ॥ ॥

णनेसें मेढसें माला होती है.

थोडे भवोंमें अनंतसुखकों प्राप्त इति

॥ अथ पोष मास मध्ये

॥ पोष महीनेमें मिती वद

पर्व प्रसिद्ध है. इस दिन श्रीपार्श्व

इसीसें यह दिन श्रीसंघमें परम

नाथस्वामीका अधिकार सुणे, का

हां श्रीपार्श्वनाथस्वामीका नाम

करणेको जावै, जो कभी यात्र

पुष्करार्द्धेपश्चिमएरवतेवर्त्त०

२४जिनपंचक०ना०२९

२१ श्रीनंदिकसर्वज्ञायनमः

१९ श्रीधर्मचंद्रअर्हतेनमः

१९ श्रीधर्मचंद्रनाथायनमः

१९ श्रीधर्मचंद्रसर्वज्ञायनमः

१८ श्रीविवेकनाथायनमः

पुष्कराद्धेपश्चिमएर०अना०

२४जिनपं०क० ॥३०॥

४ श्रीकलापसर्वज्ञायनमः

६ श्रीविसोमअर्हतेनमः

६ श्रीविसोमनाथायनमः

६ श्रीविसोमसर्वज्ञायनमः

७ श्रीआरणनाथायनमः

नसंपूर्ण ॥

४ कल्याणककी एकेक माला गु

६ जीव शुद्धचित्तसें गुणेंगे सो

६ मार्गशीर्ष मास मध्ये प०॥

६ श्री व्रतधर लिख्यते ॥

७ श्रीनिर्वा सो पोषदसमी नामसे

पुष्कराद्धपूर्वेका जन्मकल्याणक है,

जिनपंचक है, इस दिन श्रीपार्श्व

४ श्रीअष्टाह्निका पच्चखाण करे, ज

६ श्रीवणिकुण्ड होय वहां जात्रा

जा सकै तो जहां

श्रीपार्श्वनाथस्वामीका मंदिर होय जहां महोछव संयुक्त दरसण करणेकों जावै, जलयात्रादि महोछव करकै अष्टोत्तरीस्नात्र करावै अथवा पंचकल्याणकजीकी वा सत्तरभेदी पूजा करावै, तोरण बांधै, गीतगान नाटकादिकसें अनेक तरेके उछव करे, और (पास जिणेसर जगतिलो ए) वा (वाणी ब्रह्मा वादिनी०आदिक) पार्श्वनाथस्वामिके गुणगर्भित स्तवन पढै वा सुणे. इस पर्वका सेवन करणेसें आधिव्याधि सोग संताप सर्व दूर होंगे, अनेक तरेसें ऋद्धि वृद्धि सुख सौभाग्यकों प्राप्त होंगे ॥ (स्तवन पासजिनेसर जगतिलो) सुणे वा पढे सो उर (वाणी ब्रह्मा०) पहली लिखा है॥इति॥

॥ अथ माघ मास पर्वाधिकार लिख्यते ॥

॥ माघ महीनेमें मिती माघ वदि १३, सो मेरुतेरस नामसें पर्व प्रसिद्ध है. इस दिन श्रीऋषभदेवस्वामीका निर्वाणकल्याणक है, इस वास्ते भगवंतमहाराज इस दिनकों उत्तम कहा है. इस दिन चोविहार उपवास करे, रत्नमई पांच मेरु भगवानके आगे चढावे, वीचमें १ वडा मेरु, च्यारुंदिस छोटा च्यार मेरु, एसें पांच मेरु चढावे. एसी शक्ति नही होय तो सोनेके, चांदीके, वा घृतके मेरु करके चढावे । आगे च्यारुं दिश तरफ च्यार नंद्यावर्त्त करै, अष्टप्रकारी, सत्तरहभेदी पूजा पढायके अष्ट द्रव्य चढावे. पीछे श्री ऋषभदेवस्वामी (पारंगतायनमः) इस पदका दो हजार गुणना करै, उर जो कोइ तेरसके दिन पोसह करे तो पूजादिक सर्व विधि पारणेके दिन करै. अतिथिसंविभाग करके पारणा करै. इस तरै १३ वरस अथवा तेरे महीना तप करै. पीछै शक्ति मुजब उछवसें ऊजमणा करै, तीर्थोंकी यात्रा करै, साधर्मीवछल करै ॥ इहां दृष्टांत कहते हैं । ऐसें अयोध्यानगरीमें अनंतवीर्यराजाका पुत्र पिंगलरायकुमर गो[illegible]मुनीके पास इस पर्वका अधिकार सुणके

तपस्या करी. तपस्याके करणेसे पांगलापणेका रोग मिटा. तब तपस्या पूर्ण भयां पीछे तेरे मंदिर बनवाया, १३ रत्नमई, १३ स्वर्णमई, १३ रूपैमई प्रतिमा स्थापन करी. १३ वेर संघसमेत तीर्थोंकी यात्रा करी. तेरे वेर साधर्मी वात्सल्य किया, बहोत तरेसें ज्ञान भक्ति करी, अंतमें महसेनकुमरकों राज्य देकै श्रीसुव्रताचार्यजीके पास दीक्षा ग्रहण करी, अनुक्रमें चवदे पूर्वकों पढके सर्व कर्मोका क्षय करके अनंतसुखकों प्राप्त भया. जो भव्यजीव इस पर्वकों विधी संयुक्त सेवन करेगा सो इस भव और पर भवमें अनेक सुखकों प्राप्त होगा. इति माघ मास पर्वाधिकारः ॥

॥ अथ फाल्गुणमास मध्ये पर्वाधिकारः लिख्यते ॥

॥ फाल्गुनमहीनेमें मिती फाल्गुन सुद १४, सो तीसरे चोमासेकी चौदश नामसें पर्व प्रसिद्ध हे। इस दिनको सर्व कर्त्तव्य आपाढचोमासे तुल्य करै, सो पहली लिखा हे ॥

अब इहां विशेष होलीका अधिकार लिखते हें ॥ ॥ श्रमणभगवंत श्रीमहावीरस्वामी बारे महीनोंमें ६ बडे पर्व कहा हे. ३ तीन चोमासे, २ उली, १ पर्यूषण. जिसमें उली २ का और पर्यूषण का एवं ३ अठाईका महोछव तो प्रायें सर्वत्र होता हे. जिसमें भी जेसा वीकानेरमें खरतर गछवालोका पोथा अर्थात् पुस्तकका उछव हाथीके होदे बडे आडंबरसें होता हे वा वरघोडा पुस्तकका मुंबईमें भी होता हे. लेकिन् हस्त्यारूढ नही. और कार्तिक महोछव अन्यत्र भी बहोत जगे होता हे लेकिन् कलकत्ते जेसा महोछव स्वमतमें तथा परमतमें कहांइ भी भारतवर्षमें हमने देखा नही. दक्षणमें मलेवार तक हम गयें, पूरबमें दिल्ली लखनेउ आगरा कासी पटणा तकमें नही देखा. उगणीसें बावनके वर्षमें हमने यह उछव कलकत्तेमें देखा था, और फागुणमहोछव मकसूदाबादका बहोत अछा होता

हे. उगणीसमें सुम्तालीसमें देखा था. डुसरी जगे नही कहांइ जी देखा, लेकिन् किसीजी धर्ममहोत्सवमें आज्ञा विरुद्ध जो काम होय सो अछा नही. एक तो जगवंतके समवसरणके संग आजकलके जाग्यवानलोक धूपके मरसें रेतीके मरसें आप तो जाते नही फक्त बेसमज अदम्योंको जेजदेतेहें, वो लोक कूदते नाचते जागते समवसरणकों उछालादेते लेजातेहें उसमें कितनी आसतना होती हे, कितना कर्म बंधताहे, उसकूं सम्यक्तीजीव विचारके आप विवेक विनय संयुक्त शुद्धजावसें धर्मकाममें उद्योग करतेहें उनका दोनुं जव सफल हे. वोही महोत्सव लायकतारीफके हे इस वास्ते आत्मार्थी धर्मज्ञ पुरुष हे सो शेसका चोमासापर्वमें जाणके सर्व जगें जगवंतके धर्मका उद्योत करतेजये शुद्धध्यानरूप अग्निसें अष्ट कर्मरूपी काष्टको जलाके होली करते हें, पीछे सुबोधजलसें स्नान करके अत्यंत सुंदरताकूं प्राप्त होते हें. अब यह होलीपर्व दो प्रकारसें हें. द्रव्यें जाव जावे. सो प्रथम द्रव्य होलीका अधिकार लिखते हें॥

॥ इस फाल्गुनमहीनेमें चौदश पूर्णमाशी के दिन केइयक अज्ञानीजीव विवेकविकल जयेथके नीचजातिके परंपराको प्राप्त जये थके लकम गणे जलायके द्रव्यमई होलिका करते हें, उत्तम चोमासा धर्मपर्वका विराधना करते हें. दूसरे दिन मलमूत्र रेतीसें क्रीमा करते हें, खोटे वचन बोलते हें, गधे पर चढते हे, अनेक जीवोंकों डुःख देते हें, एसे जीव वीतरागकी आज्ञा गेमके जांम जरमोंकी कुलमर्याद करते हें, मिष्टान्न त्याग विष्टा खाते हें, दूध गेम पेसाब पीते हें. एसे पुरुष निकेवल कर्मका सघन बंधन करके डुर्गतिकों उपार्जन करते हें, अनर्थदंमसें अनंत जव संसारको स्थिती बांधते हें. इसवास्ते आत्मार्थी जव्यजीवोंकों जावहोली करणा चाहिये. सो उस मजब-प्रजुके गुणग्राम वसंतके स्तवन बोलै, रात्रीजागर-

ण करावै, मंदिरोंमें पूजा करावै, महोछव निकालै, नानाप्रकारका नाटिक करै, साहमीवछल करै, साधर्मीभाई आपसमें नाना- तरेकी क्रीमा करै ॥ आगे राजालोक भी वसंतरुतु आणेसें मदन महोछव करणेकों जाते थे, नानातरेके जल चंदन केसर अबीर गु- लालसे सहरके लोक बगीचोमें क्रीमा करते थे, इत्यादि लेख तो शास्त्रोमें वहोत जगे वांचणेमें आया हे, लेकिन् मलमूत्र राख धूमसें खेलणा, होली जलाणा, पादत्राण खाणा, भंम चेष्टा करणी, कुल मर्याद गेमणा, वमेरोकी लज्या गेमणी, एसा कृत्य उत्तम पुरु- षोंके करणे लायक नही. यह क्रीमा वाममार्गीयोकी चलाइ भई हे. इसकों प्रवृत्त भयें प्राये दो हज्जार वर्ष करीब भया. पीछे स्वामी शंकराचार्यकूं यह वात सम्मत भई तबसें धीरे२ अज्ञानी जीव ए- ककी देखादेख बहोल लोक करणे लगगये, लेकिन् एसी कर्त्तव्यता किसी भी शास्त्रमें नहीं देखणेमें आई. देखो केसी आश्चर्यकी वात हे, जब मंदिरजीमें पूजादिक महोछवका काम होता हे उस वख- त तो जाणें को फुरसत नही मिलती हे, उर होलीके दिनोंमें मा- तापिता भाई बहिन सबोंकी लज्या गेमके वहोत दिलमें खुसव- खती मानताभया पागलके माफक भांमोंकी तरे वकते फिरता हे. कोइ वैस्याउंका नाच होता होय उहां तो हज्जारुं रुपे खरच कर देतेहे. मनमें फूलते हें हमने वमा नाम किया. तत्व नजरसे देखे उर विचारे तो नाम क्या निकला, बलके अशुभगतीके पाये पूरे- मजबूत बंध करणेमें आये. एसी लज्जाया गेमके जिनमंदिरका महो- छव करो, रात्रीजागरण, नाटकादिक धर्मका उद्योत करो, एसी होली खेलो सो तुमारा दोनोंही जन्म सुधरे, . द्रव्ये उर भावे होलीका स्वरूप वांचके आत्मार्थी धर्मज्ञ । तो प्रसन्न होयगें, उर जो महामूर्ख अज्ञानीजीव होंगे सो [illegible] ोष धारण करेंगें उर

सच्ची वातकूं कुयुक्तियोंसें झूठी ठहरावेंगें, और मध्यस्थ विचारवंत तो एसा कहेंगें यह वात सच्च हे. किसका पर्व किसका खेल, निकेवल इसमें अनर्थ दंम लगता हे, लेकिन् हम इकेला क्या करें, जाइवंधोंकों एसा करते देख हमजी करते हें, हमसें रहा जाता नही. परंतु यह प्रथा वंध हो जाय तो अछो है. इस वास्ते हे जव्यजीवो इसमें समुदाणी कर्म वंधता हे. ठोमे सो धन्य हे. नरकके जाते का संग नही करणा. जेसें सरकारकी एनके जाणकार चोरी करणेवालेका तथा खूनी केदीकी संगत और वात तक नही करते उस मुजव एकका अनर्थ खेल देख उसरेकों वचना चाहिये. काम वो करणा जिस्में दोनों जवमें लाज होय. इस उयहोलीके खेलमें वमी२ लमाइयां होजाती हे. मेमता सहर होलीके ख्यालसें पुष्करणे और जोजकोंकी लमाइमें तमाम उजाम होगया. और परजवमें अरगैर बोलणेके फल सब धर्मोंमें वुरा लिखा हे. इस वावत जो जो कठोर लवज लिखा हे उसकूं वांच विवेकी मेरे पर गुस्सा नही लावेंगें. जो कुछ लिखा हे सो पूर्वाचार्योंके वचनानुसार लिखा हे. हितोपदेस समजके ठोमणेका प्रयत्न करेंगें. मेरे तो नवकारमंत्रके अमसठ अक्षर शुद्ध गुणनेवाले धर्मवंधु हे. जिसमें जी सर्व जीवायोनिसें मित्रता हे. कम या ज्यादा जो कुछ अपशव्द लिखा होय तो मिछामिडुकमं ॥१॥ इति फा० ॥ प० ॥

॥ अथ भावहोरी खेलनेके स्तवन लिख्यते ॥

॥ राग [illegible]ाल ॥ होरी खेलीयै नर [illegible] एसो दाव ॥ हो० ॥ दयामि[illegible]ई अति जली रे, तप मेवा पकवान ॥ सील अथाणो अति जलो, वारी संजम नागरपान ॥ हो० १॥ लेस्या मादल जाव मफ रे, क्रो[illegible] मान डोय ताल॥ पांच सुमतिकों अरगजो, वारी नवतत्व लेहुं गुलाल ॥ हो० २॥ सुमताकेसर घोलियें रे, दमवाको

भिमकाव ॥ ग्यान पिचरको पकरकै, वारी मुगतिवधू चित लाव ॥ हो० ३ ॥ एसा साज बणायकै रे, रूपभदेव गुण गाय ॥ श्रीजिनचंद इम खेलतां, वारी भव२ पातिक जाय॥ हो० ४॥ इति पदं ॥

॥ राग वसंत होरी तालयत् ॥ जय बोलो रे पास जिनेसरकी, ज० ॥ मस्तक मुगट सोहे मनमोहन, अंगिया सोहे केसरकी ॥ ज० १ ॥ त्रिभुवन ज्योति अखंडित तनकी, स्यामघटा जैसी जलधरकी ॥ ज० २ ॥ बालपणे प्रभु अदभुत ज्ञानी, करुणा कीधी विषधरकी ॥ ज० ३ ॥ कमठ भगाय वाय ज्युं वादल, जीत करी अपणे घरकी ॥ ज० ४ ॥ मातवामा उदरे जिन जाया, राणी अश्वसेन नरेसरकी ॥ ज० ५ ॥ अष्ट करमदल सबल खपाये, श्रेणि चढया जे शिवपुरकी ॥ ज० ६ ॥ कहै जिनचंद्र मेरे प्रभु पारस, जैसी छाया सुरतरुकी ॥ ज० ७॥ इतिपदं ॥

॥ पुनः वसंतहोरी ॥ मधुवनमें जाय मची होरी, म० ॥ ग्यान गुलाल अबीर उडावो, सुमताकेसर रंग घोरी ॥ म० १ ॥ अमृत रूप धरम जिनवरको, शुध क्षमा कहे करजोरी॥म०२॥ इति पदं॥

॥ पुनः वसंतहोरी ॥ यादव मन मेरो हर लियो रे, या० ॥ संजमदूती कान लगी जब, शिवनारी पर चित्त दियो रे ॥ या०२॥ मोह तोड गिरनार सिधाए, नव भव नेह अलग कियो रे ॥ या० ३॥ तुम हो तीन भुवनके साहिब, सुरनर कहै तुने चिरंजीयो रे ॥ या० ॥ ४ ॥ वारश् मेरो वंदना होयज्यो जग चंद कहै मन हरखियो रे ॥ या० ५ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः वसंतहोरी ॥ इक सुण लै [illegible] अरज मेरी, इ०॥ इह संसार गहर तरु सिंधु, भमर पडत जिहां भव फेरी॥ इ० १॥ क्रोधादिक बहु मगरमछ हे, ग्रहत जंतु न कर्त देरी ॥ इ० २ ॥ एसैं जलधिसें पार करो तो, तारण तरण [illegible] तेरी ॥ इ० ३ ॥

धरमजिनेसर जगपरमेसर, दूर करो दुखकी वेरी । इ० ४ ॥ परम क्षमागुण दायक लायक, अनुपम कीरत जग तेरी ॥ इ० ५॥ इति ॥

॥पुनःहोरी॥ सांवरो सुखदाई, जाकी छिव वरणी न जाई सा० ॥ श्री॥ अश्वसेन वामा नंदकी, कीरत त्रिभुवन गाई ॥ समेतसिखरगिरि मंमण प्रभुको, देख दरस हरखाई–हृदय मेरो अति हुलसाइ ॥ सां० १॥ आज हमारे सुरतरु प्रगट्यो, आज आनंद वधाई ॥ तीन भुवनको नायक निरख्यो, प्रगटी पूर्व पुन्याई–सफल मेरो जनम कहाई ॥ सां० २ ॥ प्रभुके दरस सरस विन पाये, भव२ भटक्यो में भाई ॥ अब प्रभु चरण सरण चित चाहत, बाल कहै गुण गाई ॥ प्र० सां ३ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः वसंतहोरी ॥ नेना हरखाई, आज तेरी सूरत निरखी ॥ ने० ॥ भव२ संचित पाप करम सब, देखत दूर पुलाई, सुमति वधारण कुमति विमारण, ज्ञान विमल उलसाइ ॥ आ० १ ॥ वामानंदन अति छवि सुंदर, महिमा वरणी न जाई ॥ दीनदयाल दयाकर दीजै, आनंद हरख सदाइ ॥ आ० २ ॥ इति पदं ॥

॥ राग काफीमें होरी ॥ एसें फागुण मस्त महीने चक्षोरी, देखो स्याम सखी मोपै छोरी ॥ एसें० ॥ व्रजकी सखी सब वन२ निकसी, खेलत मिल२ होरी ॥ मारे गुलाल अबीरमुठीभर, अपने प्रीतम रंगरोरी ॥ च० ए० १ ॥ फूलत फूल सभी वन२के, मधुर२ रस जोरी ॥ कलि कोयल कल करत मरत विन, प्रियतम२ गोरी ॥ च० ए० २ ॥ रस अनरस रास रसे रस, सरस दरस प्रभु मोरी ॥प्रो ।तजी कुमता ममता मन, बाल कहै कर जोरी ॥ च० ऐ० ३ ॥ इति पदं ॥

॥ राग काफी होरी ॥ नेम स्यामसें कहियो मोरी, ने०॥ समुद्रविजै शिवादेवीको नंदन, यादवकुल उदयो री ॥ तेजपूंज तनु

सावलो रूमो, कित गयो मो चित चोरी—अरज नहीं लीनी मोरी ॥ ने० १ ॥ व्याहन आए मेरे मन जाए, लाये वल दल जोरी ॥ तोरणसें रथ फेर चले हो, चढ गए गिरकी डरी—मदन महा रिपु तोरी ॥ ने० २ ॥ व्याकुल जईहुं दरस विन देखे, रहि है मुख कुं मोरी ॥ कमलनयन राजमती सखियनसें. विनती करे करजोरी—लगी है मुक्तिकी मोरी ॥ ने० ३ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनःहोरी ॥ होरी खेलो रे जविक मन थिर करकै, हो० ॥ सुमति सुरंग गुलाल मंगावो, अबीर जमावो जोली जर२के ॥ हो० १॥ ग्यान ध्यान रुफ ताल वजावो, गुण गावो प्रजु हित धरके ॥ हो० २ ॥ अनुजव अतर फूलेल मंगावो, वास दिसोदिस महम हकै ॥ हो० ३ ॥ क्रोध मान रज धूम उमावो, ज्यूं तेरा पाप सवल अरकै ॥ हो० ४ ॥ इति पदं ॥

॥ राग वसंत ॥ होरीके खेलईया, तूं तो प्रजू जज विलंब न कर रे ॥ हो० १ ॥ विनय संजारी जर पिचकारी, हांरे तूं तो शिवरामा वर वर रे ॥ हो० २ ॥ आगम लाल गुलाल जर जोरी, हांरे तूं तो खेल वसंत घर२ रे ॥ हो० ३ ॥ सील सुरंग आजूषण अंगे, हांरे तूं तो जावना वामा पहिर रे ॥ हो० ४॥ नीरंजन प्रजुना गुण गावो, हांरे तूं तो आतम अनुजव वर रे ॥ हो० ५ ॥ ग्यान विज्ञान फूली फुलवारी, हांरे तूं तो गूंजत मन मधुकर रे ॥ हो० ६ ॥ वामानंदन पास जिनेसर, हांरे तूं तो जगनायक जगगुरु रे ॥ हो० ७ ॥ श्रीजिनलाज कहै प्रजु संगै, हांरे तूं तो अनुपम जव निसतर रे ॥ हो० ८ ॥ इति पदं ॥

॥पुनः होरी ॥ वाकै ममतानें धूम मचाई, आज सुमता संग खेलेंगे होरी ॥ वा० ॥ जिन शासन वतरंग महिलमें, दीपक वोध वनाई ॥ आ० वा० १ ॥ सरधा सखी क्षमा मृडना मिल, रुजुता मुक्ति सुहाई ॥

उर अनेक सुमति सखी व्रजमें, अनुन्नव रंग रंगाई ॥आ० वा० ३॥ न्नाव सौच तप दान शील सब, निज गुण बंधु सहाई ॥ जिन गुण गान संगीत निरत धुनि, न्नक्ति जिणंद वधाई ॥ आ० वा० ३ ॥ खेलत संजम फाग मिलै सब, परम आणंद बधाई ॥ अब कुमता संग रंग करे तो, मेरे चित न सुहाई ॥ आ० वा० ४ ॥ इति पदं ॥

॥पुनः॥ समकित विन जीव जगत न्नटक्यो, स० ॥ चन्नरासी न्नव न्नमतां२, नरन्नव पायो सो दिल खटक्यो ॥ स०१॥ गरन्नावास नव मासे नीकौ, ओऊकी संगत तूं लटक्यो ॥ स० २ ॥ पुन्य संजोग मिल्यौ कुल श्रावक, ग्यान प्रकाश न्नयो घटको ॥ स० ३ ॥ विषय विकार रम्यो तरुणी संग, मायासें तेरो मन अटक्यो ॥ स० ४ ॥ तुरत संन्नाल तूं जाग रे मानवी, सूधो शिवपुरकुं सटको ॥ स० ५ ॥ रूपचंद कहै प्रन्नु गुण गावौ, स्वर्गपुरीमें नहि अटको ॥ स० ६ ॥ इति पदं ॥

॥पुनः॥ विसरे मत नाम प्रन्नूजीको, वि० ॥ प्रन्नुजीको नाम चिंतामणि सरिखो, निरमल नीर सदा निको ॥ वि० १॥ नान्न कुमर मरुदेवीको नंदन, तीन न्नुवन सिर है टीको ॥ वि० २ ॥ चतुर कुशल चित चोलसुं राच्यो, कुण लहै रंग पतंग फीको वि० ३ ॥ इति पदं ॥

॥पुनः॥ नेम निरंजन ध्यावो रे, वनमें तप कीनो ॥ ने०॥ बहुत हगासुं व्याह रचायो, जीव देख दया आणी रे ॥ व० ने०१ ॥ सब यादव मिल व्याह रचायो, पहिर जराव जरीनो रे ॥ व० ने० २ ॥ कंकण मुगट हाथसुं तोरूै, पसुवन पर चित दीनो रे ॥ व० ने० ३ ॥ जनधरन्नूषण कहै न्नविजननें, सहु जगमें जस लीनो रे व० ने० ॥ ४ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः फाग ॥ गढ गिरनारकी तलहटी, फाग खेले खेलै ने-

मकुमार ॥ ग० ॥ इक दिशि सायर जल भरयौ, दिशि दूजी गिर वर गिरनार ॥ विच सहसावन सोभतो, तिण माहे खेले नेमकुमार ॥ ग० १॥ फूल्या केवडा केतकी, विच फूल्या मरुआ मचकुंद ॥ वासे मोगरा मालती, तिण मांहै खेले नेमजिणंद ॥ ग० २ ॥ आंबा मोरया बागमें, तिण ऊपर कोयल करे टहुकार ॥ वाजे पवन दक्षिणतणी, स्यामभमरा कर रह्या रे गुंजार ॥ ग० ३॥ आंब पके नींबू पके, नारंगी पके तूत अनार ॥ काचै नेमकुमर अजूं नहीं, नारी ऊपर जसु प्यार ॥ ग० ४॥ हरि हलधर गोपि मिली, विच घेरयो श्रीनेमकुमार ॥ सोवन सीसी जलभरी, मुख ऊपर गांटे यदुनार ॥ ग० ५॥ नेम हठी हठ ना तजै, समझायो जोरें यदुनाथ ॥ रिद्धहरष वाचक कहै, वात सांभले सिवादेवी मात॥ग०६

॥ पुनः होरी ॥ धन राजुल तेरो भाग री, नेमनाथ वर पायो री सजनी ॥ ध० ॥ पहिली मैं पूजूं ऋषभजिणंद, जिण मोहि दियो सुहाग री ॥ ने० १ ॥ सोनेको छत्र धरयो सिर ऊपर, गल मोतियनकी माल री ॥ ने० २ ॥ चंपा चंपेली दोनुं मरुआ, फूल चढाऊं गुलाब री ॥ ने० ३ ॥ धूप दीप नैवद्य आरती, मुख बोलो जयकार री ॥ ने० ४ ॥ ग्यानमंदिरकी एहि वीनती, भवर दीज्यो दीदार री ॥ ने० ५ ॥ इति पदं ॥

॥ राग वसंत ॥ खेली होरी तो हो रही चंपानगरमें, फागणके दिन आये ॥ ऐ० । वासुपूजजीके नवल मंडपमें, होय रही हो सुखदाए ॥ ऐ० १ ॥ केसर घोरी भरिय कचोरी, प्रभुजीके अंगियां रचाए ॥ ऐ० २ ॥ चोवा चंदन अवर अरगजा, लाल गुलाल उडाए ॥ ऐ० ३ ॥ विविध भांतिकी पूजा रचाए, रत्नसुंदर चित लाए ॥ ऐ० ४ ॥ इति पदं ॥

॥ रागवसंत ॥ बलिहारी हुं विमलाचल गिरकी, व० ॥

निविड दुरित ज्ञर शिखर ज्ञि दुरकी, ज्ञवसागर तारण तरकी ॥ व० १ ॥ तीन ज्ञुवन तीरथ तारागण, सोज्ञा लहिय निशाकरकी ॥ व० ॥ सुंदर अनुपम अतिसय करिकै, महिमा जीती सुरगिरकी ॥ व० २ ॥ परमातम पद प्रतिबिंब तनको, वंछित पूरण सुरतरुकी ॥ व० ॥ वर सोरठ मंरूल मंरूनकी, सकल करम रज जलधरकी ॥ व० ॥ बलि बलिहारी वारंवारी, श्रीनाज्ञेय जिनेसरकी ॥ व० ३ ॥ ए गिरि उदयाचल परि जिनकी, दुति दीपै जेम दिनेसरकी ॥ व० ॥ असरण सरण प्रथम जिनवरकी, अगणित करुणासागरकी ॥ व० ४ ॥ युगलाधरम निवारणकी सहु, तीन ज्ञुवन जनहितकरकी ॥ व० ॥ सोवन वरण सरीर विराजित, वृषज्ञ लंछन सोज्ञाधरकी ॥ व० ५ ॥ सुंदर प्रज्ञुकी मोहनमूरति, देखत परमानंद ज्ञरकी ॥ व० ॥ केवलकमला प्रज्ञुकी निरंतर, पदतल नमत सुरासुरकी ॥ व० ॥ चरण सरण होयजो शिवचंदकै, ज्ञवश एहिज जिनवरकी ॥ व० ॥ ७ ॥ इति पदं ॥

॥ रागवसंत ॥ ऐसै प्रज्ञु नेमनाथ, मेरे दिल वसिया ॥ ऐ० ॥ त्रिगढमें विराजमान, डुंडुज्ञि सुणत कान ॥ अपछर मिल करत गान, तान मान रसिया ॥ ऐ० १ ॥ सिंघासण विराजै साम, जीत लिए रूप काम ॥ देख्या दिल हर्ष धाम, स्वाम नाम लसिया ॥ ऐ० २ ॥ तीन छत्र चमर सार, पंच वर्ण पुष्फ धार ॥ गहिर असोक सार, ज्ञामंरूल हसिया ॥ ऐ० ३ ॥ दिव्यधुनी मिली चंग, द्वादश वखाणै अंग ॥ अष्ट प्रतीहार संग, कुसल चित्त वसिया ॥ ऐ० ४ ॥

॥ रागवसंत ॥ संज्ञवजिन सुखकारी, हो लाला, सं० ॥ हांरे हो रे लाला ॥ सं० ॥ एक अरज अवधारो हमारी हो लाला ॥ सं० ॥ त्राता तीन ज्ञुवनके जगगुरु, दाता विरुद विचारी ॥ साता दीजै साहिब मोकूं, तक आयो सरण तिहारी हो लाला ॥ सं० १ ॥

सेनामात उयर अवतारी, जयवंत तात जितारी ॥ प्रभु पदकज लंछन अधिकारी, अश्वरतन अनुहारी हो लाला ॥ सं० २ ॥ साठ पूरव लख आयु अवगाहन, धनुष च्यारसे धारी ॥ सोवन वरण सेवे डुरितारी, सावत्थी नगरी सारी हो लाला ॥ सं० ३ ॥ समेत सिखर पर मुगत सिधाए, सहस साधु परिवारी ॥ इंद्रादिक मिल मंगल गावत, नाचत नाग कुमारी हो लाला ॥ सं० ४ ॥ त्रिकरण सुद्धसें त्रिभुवन पतिकुं, वंदना होज्यो हमारी ॥ चरणकमल सेवा चित चाहत, सुगुण सदा हितकारी होलाला ॥ सं० ५ ॥ इति पदं ॥

॥ रागवसंत होरी ॥ सारो सोरठ देस दिखावो रसिया, सा० ॥ सोरठ देसमें नीके दोय तीरथ, गढगिरनार सैत्रुंजगिरिया ॥ सा० १ ॥ रेवतगिर पर जडुपति केरा, दिख्या ग्यानकेवल रसि या ॥ सा० २॥ राजुलनारी नेमीसर हाथै, संजम लेइ भवोदधि तरिया ॥ सा० ३ ॥ सैत्रुंजगिर पर श्रीरिसहेसर, पूरव निनाणुं समोसरिया ॥ सा० ४॥ इहां अणगार अनंत अपारा, अणसण कर सिवपुर वरिया ॥ सा० ५ ॥ नाभनंदनकूं करुं जुहारा, सा० ६॥ हीण अमारने होत लगारा, ज्ञानविमल प्रभु सिर धरियां ॥ सा० ॥ ७ ॥ इति पदं ॥

॥ राग वसंत ॥ जिनराज जुहारो, क्या बैठे भव हारो रे ॥ जि० ॥ रथ पाउधारे चंद्राप्रभुजी, नयणे आय निहारो ॥ शुचि त न कर हियरा हरख भरे, प्रभु पूजो प्राण पियारो ॥ जि० क्या० १ ॥ पूरण पुन्य उदयथी पायो, नरभव सफल जमारो ॥ भवि जन मन भमरा रंग भरे, प्रभु चरणकमल चित धारो ॥ जि० २ ॥ भवडुख भंजन नाथ निरंजन, नाम लीये निसतारो ॥ ममता तज सम ता संग भेली, निज आतम काज सुधारो ॥ जि० ३॥ आज नगरमें रंग वधाई, घरघ मंगलाचारो ॥ रथ महोछव रचना रची इह, मुख

जय२ सबद उचारो ॥ जि० ४ ॥ पतित उधारण विरुद विचारी, सेवक सुगुण संज्ञारो ॥ प्रज्ञु पंकजकी हिव सरणा ग्रही, जवसा यर पार उतारो ॥ जि० क्या० ५ ॥ इति पदं ॥

॥पुनः होरी॥ मनमोहन गज गतकी गामनी, आज चली गिरनार कामनी ॥ मन० ॥ सूंदर रूप वणाय सखी सब, शिखर सैल जेसें चमके दामनी ॥ आ० १ ॥ नेमप्रज्ञुको व्याह मनायो, मोसें प्रीत लगाइ आमनी ॥ आ० ॥ तोरण आय चले मोहि छोडी, कोन चूक मोपै काढी जामनी ॥ आ० ॥ २ ॥ में न तजूंगी नव जव केरी, प्रीत वणी जेसी इंडु यामिनी ॥ आ० ॥ राजुल पहली प्रीतमसेती, बाल कहै जई सुमति गामिनी ॥ आ० म० ॥ ४ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः होरी ॥ रंग लग्यो गुरु ज्ञान, होरी चेतन खेले ॥ रं० ॥ शील सुरंगी चीर मंगाये, पहिरे आप सुजान ॥ हो० रं० १॥ पर मंदिर तज अविचल लीजे, धर्म दया धर ध्यान ॥ हो० रं० २ ॥ हिल मिल आप परम रस चाखे, सुमत सखी पहिचान ॥ हो० रं० ३ ॥ ज्ञान गुलाल लाल रंग लागै, सोहै अदज्ञुत वान ॥ हो० रं० ४ ॥ सुमति अबीर उडाय जगतमै, वैठे शिवपुर थान ॥ हो० रं० ५ ॥ अनुज्ञव राग मगन गुण गावै, तप जप सुंदर थान ॥ हो० रं० ६ ॥ एसा खेल जविकजन धारै, वंछित पावै दान ॥ हो० रं० ७ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः होरी ॥ चिदानंद खेले फाग, हो हो होरी आई ॥ मनमृदंग वजै तन मांही, गावत आगम राग ॥ हो० १ ॥ ज्ञान गुलाल सदा रंग लागै, खेलत सुमत सुहाग ॥ हो० ॥ समकित केसर चीर रंगाउ, पहिरो मनवैराग॥ हो० २॥ लाख चोरासी रामत मांडी, च्यारुं गतिसें जाग ॥ हो० ॥ अविचल सुख पंचमगति

पावै, योग जतन कर जाग ॥ हो० ३ ॥ एसा खेल भविकजन धारै, पावै भवजल थाग ॥ हो० ॥ चेतनता सुध होय जगतमें, समकितके रंग लाग ॥ हो० ४ ॥ इति पदम् ॥

पुनः होरी ॥ होरी खेलो नेमसें धाय२, डुरजनकी लाज मेरी करे रे बलाय ॥ हो० ॥ ज्ञानगुलाल अबीर उडावो, क्षमा करो रंग लाय २ ॥ डु० हो० १ ॥ शील संजम व्रत पान मिठाई, ध्यान धरूंगी मैं गाय गाय२ ॥ डु० हो० ॥ अष्ट कर्मकी खेह उडावो, ज्ञान हियामें लाय २ ॥ डु० हो० ३ ॥ जगतचंदकी अ- रंज वीनती, सरण गही मैं तेरी आय२ ॥ डु० हो० ४॥ इति पदं ॥

॥पुनः होरी॥ मेरी घटकी गागरिया रंगसे भरी, शिवपुरकी वात पूछूं कवकी खरी ॥ मे० ॥ परमजोत प्रभु सिद्धशिला पर, परमातम निज ध्यान धरी ॥ मे० १॥ मोहन रंग भरयो रंग शी- वपुर, अजर अमर पद सुख करी ॥ मे० २ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः होरी ॥ बावो ऋषभ बेठे अलबेसर, मारो गुलाल मुठी भरके ॥ बावो० ॥ मुठी भरकै पसली भरकै, बावो० ॥ चू- आ२ चंदन और अगरजा, केसरका मटका भरके ॥ बावो० १ ॥ रतनजडित शिर छत्र विराजे, अंगी जमाव जरी जरकै ॥ बावो० २ ॥ बांहे बाजूबंध व हिरखा विराजै, फूलनके गजरे सरके ॥ बा० ३ ॥ नाभिराया मरुदेवीको नंदन, रमिये भवि आदीसरसें ॥ बा० ४॥ आदिखान हे दास तुमारो, तार लीओ अपणे करके ॥ बावो० ६॥

॥ पुनः होरी राग टप्पो ॥ गिरिराजकुं हमारी वंदना रे, जिनराजकुं हमारी वंदना रे ॥ भवःदुख वारण शिवसुख कारण, देखत भवनही फंदना रे ॥ जि० १ ॥ नाभिराय मरुदेवीको नंद- न, प्रणमुं ऋषभ जिनंदना रे ॥ गि० २ ॥ निशि वासर प्रभु ध्यान तुमारो, जिम चातक दिल चंदना रे ॥ जि० ३ ॥ चतुर कुशल कहै

शरण तुमारो, सिद्धगिरि कर्म निकंदना रे ॥ गि० ४॥ इति पदं ॥

॥पुनः होरी॥ दरशन कीयो आज शिखरगिरिको, द० ॥ देख्यो मधुवन शीतानालो, नीर वहे है अति नीको ॥ द०१ ॥ बीस कोसर्थी दरसन दीगे, जागो जरम सकल जियको ॥ द० २ ॥ वीसे टूंके वीस गोमटजी, तामे चरण जिनेसरको ॥ द० ३ ॥ अब जिनवरके शरणे आयो, रसतो पायो मुगतिपदको ॥ द० ४ ॥इ०

॥ पुनःहोरी ॥ सिद्धगिरिजीको दरसण करलै, संघयात्रा—संघयात्रा करणसें पाप कटत हे, सिद्ध० ॥ कोटि अनंता इण गिरि सीधा, ताकूं शीस नमाय ले ॥ संघ० १ ॥ रुषन्न जिनेश्वरजीको दरशन, शुद्ध आतम पावन करलै ॥ संघ० २ ॥ रूपचंद कहे नाथ निरंजन, जवश्का उुख हरलै ॥ संघ० ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः होरी ॥ मोहे अपने रंगमें रंगदे, मेरे साहिब आदि जिनंद चंद ॥ मोहे० ॥ रंग तूंही रंग रे ज तूंही है, संजम रंग मोहि रंगदे ॥ मेरे सा० मो० १ ॥ रंग मिथ्यात लग्यो हे अनादिको, सो अब इनकूं खिनदे ॥ मेरे सा० मो० २ ॥ रत्नत्रयी रुद्धि तेरी में देखी, सो अब मुजकुं सजदे ॥ मेरे सा० मो० ३ ॥ ज्ञान दर्शन चारित्र रंग हे, बा विच केवल धरदे ॥ मेरे० मो०४॥ जूधरदास कहे समकित दे, आप समान मोहि करदे ॥ मेरे० मो०५॥

॥ पुनःहोरी ॥ मेरे पारसप्रजुजीके रंगमंरूपमें, खेलत संत वसंत ॥ ज्ञान गुलाल विवेक अरगजा, विनय अबीर विलसंत ॥ ॥ मे० १ ॥ प्रजुगुण प्रेम पिचरकी बूटत, समता सखिय मिलंत ॥ आगम लहर फूली फुलवारी, मुनिवर भ्रमर गुंजंत ॥ मे० २ अंग आजूषण पंचेंडिय वस, गुरुसेवास लहंत, वार जावना गुहिर कसूंबा, पीवत मन हरखंत ॥ मे० ३ ॥ अदजूत पंच माहाव्रत वागा, पहिरे तन स्हंत ॥ कहे जिनचंद प्रजुकी कृपासें, नी-

रखे नवल वसंत ॥ मेरे० ४ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनःहोरी ॥ रंग मच्यो जिनद्वार चालो खेलिये होरी, रं० ॥ पास प्रभु दरबार रे ॥ चा० ॥ फागणके दिन च्यार रे, चा० कनक कचोरी केसर घोरी, पूजो विविध प्रकार रे ॥ चा० १ ॥ कृष्णागरकी धूप घटत हे, परिमल महके अपार रे ॥ चा० २ ॥ लाल गुलाल अबीर उमावत, पासजीके दरबार रे ॥ चा० ३ ॥ जर पिचकारी गुलाबकी छिरको, वामादेवी कुमार रे ॥ चा० ४ ॥ ताल मृदंग वीणा मफ बाजे, जेरी जुंगल रणकार रे ॥ चा० ५ ॥ सब सखियन मिल नाटक करकै, गावत मंगल सार रे ॥ चा० ६ ॥ रत्नसागर प्रभु जावना जावै, मुख बोलै जयकार रे॥ चा० ७ ॥

॥ पुनःहोरी ॥ नेमजीसें कहियो मोरी, सामरेसें कहियो मोरी ॥ तोरण आए किण जरमाए, गेरू चले अजिमानी ॥ हां रे लाला गे० ॥ पशुवनके शिर दोष चढायो, तोमी प्रीत पुरानी-दया दिलमें नहि आणी ॥ सा० १ ॥ चूक पमीसो मुंहसें कहियो, ना करिये सोधाणी ॥ आठ जवोकी प्रीत बंधाणी, नवमे चले क्युं ज्यानी—श्याम तेरी सूरत पिछाणी ॥ सा० २ ॥ या जोरी जुगमें नेह लागी, राजुल गुलकी वामी ॥ वीनती सुणकै अमर पद दीजै, रंग विजय सुख दानी—आवा जर गमन छिदानी ॥ सा० ३॥ इ०॥

॥ पुनःहोरी ॥ महाराजा तोरे मंदिरमें बरसै रंग, जिन० ॥ श्रीचिंतामणि पासजी, तोरे० ॥ ज्ञान गुलाल अबीर अरगजा, सुमता चीर सुचंग ॥ श्रीचिं० तोरे० १ ॥ अनुजव लहर फुली फुलवामी, दिन२ वढते रंग ॥ श्रीचिं० तोरे० २ ॥ उपशम वागा अंग अनोपम, शुक्ल ध्यानके संग ॥ श्रीचिं० तो० ३ ॥ अमरचंद चिंतामणि चित धर, तुमसुं अविहम रंग । श्रीचिं० तो० ४ इ०॥

॥ पुनः होरी ॥ तोरी अंगिया वण हे सुरंग, श्रीचिंतामणि

पास प्रभूजी, तोरी० ॥ सुविवेकी श्रावक मिल आये, आणी भाव अभंग ॥ श्रीचिं० तोरी० १ ॥ अहवंधीकी भांत भली हे, बुंटिया नवश् रंग ॥ श्री० ॥ जरकस जामो खूब बन्यो हे, कोर केवमा संग ॥ श्रीचिं० २ ॥ मस्तक मुगट काने दोय कुंमल, बाजूबंध सुचंग ॥ श्रीचिं० ॥ फूलनकी गल माल सोभत है, सौरंग वास सुगंध ॥ श्रीचिं० ३॥ त्रिभुवन साहब तखत विराजै, महिरबान मनरंग ॥ श्रीचिं० ॥ सुरनर याकी सेवा करत है, रात दिवस धर रंग ॥ श्रीचिं० ४ ॥ सुनिजर हैं साहिबकी सब पर, संघ हे सकल सुरंग ॥ श्रीचिं० ॥ भावना भावो जिनगुण गावो, अमर घणै उछरंग ॥ श्रीचिं० ५ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः होरी ॥ चिंतामणि चित ध्यावो रे, वंछित फल पावो ॥ चिं० ॥ सकल भविक जन मिल कर आवो, राग फाग गुण गावो रे ॥ वंछित० १ ॥ अबीर गुलाल लाल संग लावो, भर२ मुठियां उमावो रे ॥ वंछित० चिं० ॥ कुंकुम केसरकुं छिमकावो, भाव शुक्ल भल भावो रे ॥ वंछि० चिं० २ ॥ अंगी चंगी पुहप बनावो, दीपक ज्योति दीपावो रे ॥ वंछित० चिं० ॥ दरस सरस करके सुख पावो, पुण्य भंमार भरावो रे ॥ वंछित० चिं० ३ ॥ वाजित्र वाजा विविध वजावो, नृत्य संगीत नचावो रे ॥ वंछित० चिं० ॥ अमरसिंधुर आनंद बधावो, जिनजीसें लय लावो रे ॥ वं० चिं० ४ ॥

॥ पुनःहोरी ॥ मत मारो पिचकारी रे, में तो सगरी भीज गई ॥ म० ॥ ताल मृदंग वजत मनमांहि, गावत आगम राग ॥ लाल में तो स० १ ॥ ज्ञान गुलाल सदा रंग लागे, खेलत सुमति सोहाग ॥ लाल में० २ ॥ समकितकेसर चीर रंगाउं, पहिरुं मन वैराग ॥ लाल में० ३ ॥ लख चोरासी रामत गेरुं, च्यारों गति सोहाग ॥ पिया में तो० ४ ॥ एसा खेल खेले सब प्यारी, शिव-

सुंदरी वर मांग ॥ लाल में० ५ ॥ ज्ञानसागर प्रभु विविध प्रकारे, इण विध खेले फाग ॥ पिया में० ६ ॥ इति पदं ॥

॥पुनः होरी॥ नेम मिले तो वातां कीजिये, हो प्यारे जिन-जी, नेम० ॥ मे हुं तुमारी खिजमतगारी, प्रेमका प्याला पीजीये॥ हो० ने० १॥ हम हे केतकी तुम हो २ भमरा, फिर वासना लीजीये ॥ हो० ने० २ ॥ में हूं धरती तुम हो मेहला, कबहु तो मिलना कीजीयै ॥ हो० ने० ३॥ नेम राजुल मिल मुगति सिधाए, रूपचंद पद दीजीयै ॥ हो० ने० ४ ॥ इति पदं ॥

॥पुनः होरी॥ आतम तत्व विचारो ज्ञानसें, करम कटै ज्युं शुक्ल ध्यानसें ॥ आ० ॥ पुदगल जीव स्वरूप पिछाण्यो, ममता मिट गई सारी जानसें ॥ कर्म क० आ० १ ॥ क्रोधादिक अरि अंधकार सम, नास भयो सब ज्ञानभानसें ॥ कर्म क० आ० २॥ परमातम पद पावत सोई, विनय भजत पद अचल थानसें॥ कर्म० आ० ३॥

॥ पुनः होरी॥ लाल तेरे नयनोकी गति न्यारी, एतो उपसमरसकी क्यारी ॥ लाल ते० ॥ काम क्रोधादिक दोष रहित हे, नयन भये अविकारी ॥ निद्रा सुपनदशा नहिं यामें, दर्शनावरण निवारी ॥ लाल ते० १ ॥ ओर नयनमें काम क्रोध हे, बहोत भरी हे खुमारी ॥ पर धन देख हरणकी इच्छा, यामें हे हुसियारी ॥ लाल ते० २ ॥ एसा लछन हे नयनोंमें, क्युं पामे भव पारी, योही विचार करो दिल अपनें, होत कर्मसें भारी॥ लाल ते० ३ ॥ धर्म विना कोई सरणा नही हें, एसो निश्चै धारी ॥ विनय कहै प्रभु भजन करो नित, योही तारनहारी ॥ लाल ते० ४ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः होरी ॥ दर्शन विन जीवसंसार भम्यो, द० ॥ चोरासी लख योनिमें भटकत, लहि मानवभव युंही गम्यो ॥ द० १ ॥ पुन्य उदय श्रावक कुल पायो, घटमें ज्ञान उद्योत भयो ॥ द०

२॥ माया ममतामें निश दिन तूं, विषय विकारसुं नहिं विरम्यो॥ द० ३ ॥ सार विवेक धार रे चेतन, जटकत जवमें क्युं जरम्यो ॥ द० ४ ॥ कहत क्षमाकल्याण निरंतर, जज जगवंत तेरो पाप शम्यो ॥ द० ५ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः होरी ॥ मत बेमो मोने यूंही रे, कोइ चूक बतावो ॥ म० । अबीर गुलाल जावसें रमतां, हमसुं कदिय न खेलो रे ॥ कोइ० म० १॥ रथ फेरी प्रजुजी घर आये, चढिया गढ गिरनारी रे ॥ को० म० २ ॥ वहुत हगासुं व्याह मनायो, जीव देख दया आणी रे ॥ को० म० ३ ॥ राजुल कन्नी अरज करत हे, एक वार फिर जोवो रे ॥ कोइ० म० ४ ॥ नेमराजुल दोनुं मुगत सिधाए, पहली राजुल नारी रे ॥ कोइ० म० ५ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनःहोरी ॥ अटक्यो चित्त हमारो री, जिन चरण कमलमें ॥ अट० ॥ शीतलनाथ जिनेसर साहिब, जिनवर प्राण आधारो री ॥ जि० अ० १ ॥ माता नंदादेवीको नंदन, दृढरथ नृपको प्यारो री ॥ जि० अ० २ ॥ श्रीवन्न लंबन जनम नहिलपुर, कुल इक्ष्वाग उदारो री ॥ जि० अ० ३ ॥ नेउ धनुष शरीर सुसोजित, कनक वरण अनुकारो री ॥ जि० अ० ४ ॥ एक लक्ष पूरब आयु कहिये, नाम लिआं निसतारो री ॥ जि० अ० ५॥ दीनदयाल जगत प्रतिपालक, अब मोहे पार उतारो री ॥ जि० अ० ६ ॥ हरखचंदके साहिब सच्चे, हुं तो दास तुमारो री ॥ जि० अ० ७ ॥ इति पदं ॥

॥ मंगल स्तवनं ॥ मंगल राजै गिरनार, नेमपद मंगल है देवा ॥ म० ॥ मंगल राजेमती पद मंगल, मंगल रहनेमि धार ॥ ने० १ ॥ मंगल गणपति मंगल पाठक, सब तपसी विच सार ॥ ने० २ ॥ मंगलधन धन्नामुनि नायक, मंगल सब अणगार ॥ ने० ३ ॥ जय २ खेमकुसल गुरु जंपै, आनंदघन अवतार ॥ ने० ४ ॥ इति पदं॥

॥ इम मास द्वादश तप सुसंग्रह विधिप्रपासें संग्रही, अति सुगम भाष प्रकाश करतां भव्यजन मन गहगही ॥ निधि वाण नंद सुचंद विक्रम माघ सुदि पूनम सही, श्रीवृहत्खरतर गछ पाठक रामगणि विधि इम कही ॥ १ ॥

अथ पंच कल्याणक टिपनिका स्वरूप मुच्यते ॥

॥ जिस महीनेमें जितने दिन भगवंत के कल्याणकके है सो सर्व भव्यजीवोंके सेवन करणे योग्य है, लेकिन् कोण तिथिकूं कोणसा कल्याणक सेवन करणा सो जाणे विगर सेवन कर सकते नही (ओर विशेषमें) पंच कल्याणककी तपस्या करणेवाले भव्यजीवोंके अवस्य पंचकल्याणककी टीप गुणें विगर काम चलता नही, इस वास्ते गुणने मुजब विधिप्रपासें पंच कल्याणककी टीप लि०

॥ अथ पंच कल्याणककी टीप लिख्यते ॥

कार्तिककृष्णपक्षे ॥ ५

५ श्रीसंभवनाथजीसर्वज्ञाय०
१२ श्रीपद्मप्रभुजीअर्हतेनमः
१२ श्रीनेमनाथजीपरमेष्टिनेन०
१३ श्रीपद्मप्रभुजीनाथायनमः
३० श्रीवर्द्धमानजीपारंगतायन०

मार्गशीर्षकृष्णपक्षे ॥ ४

५ श्रीसुविधनाथजीअर्हतेनमः
६ श्रीसुविधनाथजीनाथायन०
१० श्रीवर्द्धमानजीनाथायनमः
११ श्रीपद्मप्रभुजीपारंगतायनमः

पोषकृष्णपक्षे ॥ ५ ॥

१० श्रीपार्श्वनाथजीअर्हतेनमः

कार्तिकशुक्लपक्षे ॥ २ ॥

३ श्रीसुविधनाथजीसर्वज्ञाय०
१२ श्रीअरनाथजीसर्वज्ञायनमः

मार्गशीर्षशुक्लपक्षे ॥ ए ॥

१० श्रीअरनाथजीअर्हतेनमः
१० श्रीअरनाथजीपारंगताय०
११ श्रीअरनाथजीनाथायनमः
११ श्रीमल्लिनाथजीअर्हतेनमः
११ श्रीमल्लिनाथजीनाथायनमः
११ श्रीमल्लिनाथजीसर्वज्ञायन०
११ श्रीनमिनाथजीसर्वज्ञायन०
१४ श्रीसंभवनाथजीअर्हतेनमः
१५ श्रीसंभवनाथजीनाथायन०

११ श्रीपार्श्वनाथजीनाथायनमः
१२ श्रीचंद्राप्रभुजीअर्हतेनमः
१३ श्रीचंद्रप्रभुजीनाथायनमः
१४ श्रीशीतलनाथजीसर्वज्ञाय०

माघकृष्णपक्षे ॥ ५ ।

६ श्रीपद्मप्रभूजीपरमेष्टिने०
१२ श्रीशीतलनाथजीअर्ह०
१२ श्रीशीतलनाथजीना०नमः
१३ श्रीऋषभदेवजीपारंगता०
३० श्रीश्रेयांसजीसर्वज्ञायम०

फाल्गुनकृष्णपक्षे ॥ १०

६ श्रीसुपार्श्वनाथजीसर्वज्ञाय०
७ श्रीसुपार्श्वनाथजीपारंगता०
७ श्री चंद्रप्रभूजीसर्वज्ञायन०
९ श्रीसुविधनाथजीपरमेष्टिने०
११ श्रीऋषभदेवजीसर्वज्ञायनमः
१२ श्रीश्रेयांसजीअर्हतेनमः
१२ श्रीमुनिसुव्रतसर्वज्ञायनमः
१३ श्रीश्रेयांसजीनाथायनमः
१४ श्रीवासुपूज्यजीअर्हतेनमः
३० श्रीवासुपूज्यजीनाथायनमः

चैत्रकृष्णपक्षे ॥ ५

४ श्रीसुपार्श्वनाथजीपरमेष्टिने०
४ श्रीपार्श्वनाथजीसर्वज्ञाय०
५ श्रीचंद्रप्रभूजीपरमेष्टिने०

पोषशुक्लपक्षे ॥ ५ ॥

६ श्रीविमलनाथजीसर्वज्ञाय०
९ श्रीशांतिनाथजीसर्वज्ञा०
११ श्रीअजितनाथजीसर्व०
१४ श्रीअभिनंदनजीसर्वज्ञा०
१५ श्रीधर्मनाथजीसर्वज्ञा०

माघशुक्लपक्षे ॥ ९

२ श्रीअभिनंदनजीअर्ह०
२ श्रीवासुपूज्यजीसर्वज्ञा०
३ श्रीविमलनाथजीअर्ह०
३ श्रीधर्मनाथजीअर्हतेनमः
४ श्रीविमलनाथजीना०न०
८ श्रीअजितनाजीअर्ह०
९ श्रीअजितनाथजीनाथा०
१२ श्रीअभिनंदनजीनाथा०
१३ श्रीधर्मनाथजीनाथाय०

फाल्गुणशुक्लपक्षे । ५

२ श्री[illegible]नाथजीपरमेष्टिने०
[illegible] श्री[illegible] [illegible]जीपरमेष्टि०
८ श्रीसंभवनाथजीपरमेष्टि०
१२ श्रीमल्लिनाथजीपारंग०
१२ श्रीमुनिसुव्रतजीनाथाय०

चैत्रशुक्लपक्षे । ८

३ श्रीकुंथुनाथजीसर्वज्ञा०
५ [illegible]तनाथजीपारं०

८ श्रीआदिनाथअर्हतेनमः
८ श्रीआदिनाथजीनाथाय०
वैशाखकृष्णपक्षे ॥ ९
१ श्रीकुंथुनाथपारंगतायनमः
२ श्रीशीतलनाथजीपारंगता०
५ श्रीकुंथुनाथजीनाथायनमः
६ श्रीशीतलनाथजीपरमेष्ठि०
१० श्रीनमिनाथजीपारंगताय०
१३ श्रीअनंतनाथजीअर्हतेन०
१४ श्रीअनंतनाथजीनाथायन०
१४ श्रीअनंतनाथजीसर्वज्ञा०
१४ श्री कुंथुनाथजीअर्हतेन०
ज्येष्टकृष्णपक्षे ॥ ८ ॥
८ श्रीमुनिसुव्रतजीअर्हते०
९ श्रीमुनिसुव्रतजीपारंग०
१३ श्रीशांतिनाथजीअर्ह०
१३ श्रीशांतिनाथजीपारंग०
१४ श्रीशांतिनाथजीन[illegible]
आषाढकृष्णपक्षे ॥ ३ ॥
४ श्रीआदिनाथजीपरमे०
७ श्रीविमलनाथजीपार०
९ श्रीनमिनाथजीनाथा०
श्रावणकृष्णपक्षे । ४
३ श्रीश्रेयांसजीपारंग०
७ श्री अनंतनाथजीपने

५ श्रीसंभवनाथजीपारंग०
५ श्रीअनंतनाथजीपारंग०
९ श्रीसुमतिनाथजीपारं०
११ श्रीसुमतिनाथजीसर्व०
१३ श्रीवर्द्धमानजीअर्हतेनमः
१५ श्रीपद्मप्रभूजीसर्वज्ञाय०
वैशाखशुक्लपक्षे ८
४ श्रीअभिनंदनजीपरमे०
७ श्रीधर्मनाथजीपरमे०
८ श्रीअभिनंदनजीपारंग०
८ श्रीसुमतिनाथजीअर्हते०
१० श्रीवर्द्धमानजीसर्वज्ञाय०
१२ श्रीविमलनाथजीपारंग०
ज्येष्टशुक्लपक्षे ॥ ४ ॥
५ श्रीधर्मनाथजीपारंगता०
९ श्रीवासुपूज्यजीपरमेष्ठि०
१२ श्रीसुपार्श्वनाथजीअर्ह०
१३ श्रीसुपार्श्वनाथजीनाथा०
आषाढशुक्लपक्षे ३
६ श्रीवर्धमानजीपरमेष्ठि०
८ श्रीनेमनाथजीपारंगता०
१४ श्रीवासुपूज्यजीपारंग०
श्रावणशुक्लपक्षे ५
२ श्रीसुमतिनाथजीपरमे०
५ श्रीनेमनाथजीअर्हते०

८ श्रीनमिनाथजीअर्ह०	६ श्रीनेमिनाथजीनाथाय०
९ श्रीकुंथुनाथजीपरमे०	८ श्रीपार्श्वनाथजीपारंग०
भाद्रपदकृष्णपक्षे ॥ ३ ॥	१५ श्रीमुनिसुव्रतपरमेष्टि०
७ श्रीचंद्रप्रभूजीपारंग०	भाद्रपदशुक्लपक्षे १
७ श्रीशांतिनाथजीपरमे०	९ श्रीसुविधनाथजीपारं०
८ श्रीसुपार्श्वनाथजीपरमे०	आश्विनशुक्लपक्षे १
आश्विनकृष्णपक्षे ॥ २	१५ श्रीसुविधिनाथपरमेष्टि०
१३ श्रीमहावीरजीगर्भाय०	
३० श्रीनेमनाथजीसर्वज्ञा०	

इति श्रीपंचकल्याणक टीप संपूर्ण। गर्भापहार षष्ठमप्यस्ति ॥

॥ अथ पंच कल्याणक विधि ॥

॥ प्रथम शुभ दिन शुभ घरू। गुरुके पास पंच कल्याणक तप ग्रहण करै. उपवास (वा) आंबील एकासणादिकका पच्चखाण करै, तीन टंक देववंदन करै, पडिक्कमणा करै. जिस दिन जो महाराजका कल्याणक होय उसका २००० गुणना करै. और पहली लिखा जो पंच कल्याणकका स्तवन सो सुणै या पढै. जहां भगवंतकी कल्याणक भूमि होय उहां वडे महोछवसें संघ समेत यात्रा करणेकों जावे. उहां विधी संयुक्त सर्व भगवंतोके पंच कल्याणकका उछव करै. जो शक्ति नहिं होय तो शासनपति श्रीमहावीरस्वामीके षट् कल्याणकका उछव करै ॥ अब २३ भगवंतकी अपेक्षायें पांच, श्रीवीरप्रभूके अपेक्षायें षट् कल्याणक संक्षेप उछव विधि लिख्यते॥ च्यवन कल्याणककों (परमेष्टिनेनमः) कहियै. इस दिन चवदे स्वप्नादिककी पूजा करायके च्यवन कल्याणादिकका उछव करै, हीरा चढावै ॥ १ ॥ जन्म कल्याणककूं (अर्हतेनमः) कहणा. इस दिन जलजात्रादिकका महोछव करके अष्टो-

त्तरी स्नात्रादिक करावै, वस्त्र चढावै ॥ २ ॥ दिक्षा कल्याणककों (नाथायनमः) कहणा. इस दिन समवसरण निकालै, अशोक वृक्षादिकके नीचै स्थापन करकै दिक्षाका उछव करै, घृत गुड वस्त्रादिक चढावै, शक्ति मुजब दान देवै ॥ ३ ॥ केवलज्ञान कल्याणककों (सर्वज्ञायनमः) कहणा. इस दिन समोसरणमें भगवंतकों विराजमान करकै आठ प्रातिहार्य प्रगट करै, तरे२ के उछव करै, वस्त्र आभूषण चढावै, सुपेदचंदन चर्चित गोला चढावै ॥ ४ ॥ निर्वाण कल्याणककों (पारंगतायनमः) कहियै. इस दिन निर्वाण कल्याणकके भावगर्भित उछव करै, लडू चढावै ॥ ५ ॥ और छठा गर्भापहार कल्याणकका उछव करणा होय तो च्यवनकल्याणकके उछव समान करै ॥ ६ ॥ इस मुजब सर्व कल्याणकका उछव करै. तपस्या पूर्ण होणेसें पंच कल्याणकजीकी पुजा करावै, गुरुभक्ति करै, साहमीवछल करै. इत्यादिक विधि संयुक्त यह तपस्या जो भव्यजीव करेंगें सो अनंत सुखकों प्राप्त होंगें॥ इति पंचकल्याणक तपस्याधिकारः ॥

॥ अथ पखवासेको स्तवन लिख्यते ॥

॥ सीमंधर करजो मया ॥ ए देशी ॥ जंबुद्वीप सोहामणो, दक्षिणभरत उदार ॥ राजग्रही नगरी भली, अलिकापुर अवतार ॥ १ ॥ श्रीमुनिसुव्रत स्वामिजी, समरंता सुख थाय ॥ मनवंछित फल पामियै, दोहग दूर पुलाय ॥ श्री० २ ॥ राज करै तिहां राजियो, सुमित्र नरेसर नाम ॥ पटराणी पद्मावती, शील-गुणें अभिराम ॥ श्री० ३॥ श्रावण उज्वल पूनमें, श्रीजिनवर हरिवंश ॥ माताकुक्षि सरोवरै, अवतरियो राय हंस ॥ श्री० ४॥ जेठ पढम पक्ष अठमी, जायो श्रीजिनराज ॥ जन्ममहोछव सुर करै, त्रिभुवन हरख न माय ॥ श्री० ५ ॥ शामल वरण सोहामणो, निरूपम

रूप निधान॥ जिनवर लंछन काछवो, वीस धनुष तनु मान ॥ श्री० ६ ॥ परणी नार प्रभावती, भोग पुरंदर साम ॥ राजलीला सुख भोगवै, पूरे वंछित काम ॥ श्री० ७ ॥ तब लोगांतिक देवता, आवि जंपै जयकार ॥ प्रभु फागुण वदि वारसे, लीधो संजम भार ॥ श्री० ८ ॥ शुभ फागुण वदि वारसै, मनधर निरमल ध्यान ॥ च्यार करम प्रभु चूरिया, पाम्यो केवलज्ञान ॥ श्री० ए॥ (ढाल २ ॥ सुख कारण भवियण ॥ ए देशी ॥ ततखिण तिहां मिलिया चलिया सुरनर कोडि, प्रभुना पदपंकज प्रणमैं बे कर जोडि ॥ बे कर जोडी मछर छोडी समवसरण विरतंत, माणक हेम रूपमय त्रिगडो छत्रत्रय झलकंत॥ सिंहासण बैठा तिहां स्वामी चोविह धर्म प्रकासै, वारे परखदा बैठी आगलि सुणै मन उल्हासै ॥ १० ॥ तंपने अधिकारै पखवासो तप सार, पडवाथी कीजे पनरह तिथी उदार ॥ पनरह तिथी कीजे गुरु मुख लीजै जिस दिन हुवै उपशम, श्रीमुनिसुव्रत नाम जपीजै वांदी देव उल्लास ॥ तप उजमणैं रजत पालणो सोवन पूतलो चंग, मोदकथाल देहरै मूंकी जिनवर स्नात्र सुरंग ॥११॥ तप करियै निरंतर अहुरव दर्शनो जेम, मनवंछित केरा सुख पामीजे तेम ॥ पुत्र मित्र परिवार परं अति वल्लभ भरतार, जस कीरत सोभाग वडाई महियल महिमा जाण ॥ परभव मुगति फल लहियै, ए तपनें प्रमाण ॥ १२ ॥ थिर थापी चतुर्विध संघतणो अधिकार, भरुवछ प्रमुख नगरादिक करिया विहार ॥ विहार करी प्रतिबोधे खंदक पंच सयां परिवार, कार्त्तिकसेठ जितशत्रु तुरंगम सुव्रत नाम कुमार ॥ तीस सहस वरष आउखो पालै जग दया सार, श्रीसम्मेतशिखर परमेसर पुहता मुगति मझार ॥ १३ ॥ इम पंच कल्याणक थुणिया त्रिभुवन ताय, मुनिसुव्रतस्वामी वीसमो जिनवर राय ॥ वीसमो जिनवर राय

जगतगुरु नयन्नंजण न्नगवंत, निराकार निरंजन निरूपम अजरामर अरिहंत ॥ श्रीजिनचंद विनय शिरोमणि सकलचंद गणि सीस, वाचक समयसुंदर इम पन्नणै पूरो मनह जगीस ॥ ॥१४॥ इति ॥

॥ अथ पखवासा तप विधि लिख्यते ॥

प्रथम शुन्नदिन गुरूके पास तप ग्रहण करकै सुद (१) पक्विासें पूर्णमासी तक इकसार १५ उपवास करै. जो शक्ति नहीं होयतो प्रथम सुदि पक्षकी पक्विा १, दूसरे सुदि पक्षकी दूज, एसें अनुक्रमसें पनरे सुद पक्षमें तपस्या पूर्ण करै. श्रीमुनिसुव्रतस्वामी के पांच कल्याणक न्नावगर्न्नित स्तवन पढै. गुरूका संयोग होय तो गुरूके पास सुणै. (श्रीमुनिसुव्रतस्वामी सर्वज्ञायनमः) इस पदका २००० दो हजार गुणना करै. और तप ग्रहण करणेकी तथा देववंदनादिककी विधि पहले लिखी हे उस मुजब विवेकी जीव सब तपस्याकी विधि करै. विधि संयुक्त करणेसें उत्तम फल मिलता है ॥ इति पखवासाविधि ॥

॥ अथ दश पच्चरकाण स्तवन लिख्यते ॥

॥ दूहा ॥ सिद्धारथ नंदन नमूं, महावीर न्नगवंत ॥ त्रिगमै बैठा जिनवरू, परषद बार मिलंत ॥ १ ॥ गणधर गौतम तिण समे, पूछै श्रीजिनराय ॥ दस पच्चरकाण किसा कह्या, कीधां कवण फल थाय ॥ २ ॥ (ढाल १ ॥ सीमंधर करज्यो मया ॥ ए देशी) ॥ श्रीजिनवर इम उपदिसै, सांन्नल गोयम ताम ॥ दस पच्चरकाण कियां थकां, लहिये अविचल ग्राम ॥ श्री० ३ ॥ नवकारसी बीजी पोरसी २, साढपोरसी पुरिमढ्ढ ४॥ एकासण नीवी कही ६, एकलगण देवढ्ढि॥ श्री० ४ ॥ दात ८ आंबिल ए उपवास १० ही, एहिज दस पच्चरकाण ॥ एहना फल सुण गोयमा, जूजूवा करूं वखाण ॥ श्री० ५ ॥ रतनप्रन्ना १ सर्करप्रन्ना २, वालुक तीजी जाण ॥ पंकप्रन्ना

४ तिम धूमप्रभा ५, तमप्रभा ६ तमतमं ७ नाम ॥ श्री० ६ ॥ नरक सात कही ए सही, करम कठिन कर जोर ॥ जीव करम वस ते सही, ऊपजे तिणहीज ठोर ॥ श्री० ७ ॥ छेदन भेदन ताड़ना, भूख तृषा वलि त्रास, रोम२ पीड़ा करै, परमाहम्मो तास ॥ श्री० ८ ॥ रात दिवस क्षेत्रदेवता, तिल भर नहीं जिहां सुक्ख ॥ किया करम जे भोगवै, पामे जीव बहु दुःक्ख ॥ श्री०९॥ इक दिनरी नवकारसी, जे करै भाव विशुद्ध ॥ सो वरस नरकनो आउखो, दूर करै ज्ञानबुद्धि ॥ श्री० १० ॥ नित्य करै नवकारसी, ते नर नरक न जाय ॥ न रहे पाप वलि पावला, निरमल होवे भी काय ॥ श्री० ११ ॥ (ढाल २ ॥ श्रीविमलाचल सिर तिलो ॥ ए चाल) ॥ सुण गोतम पोरसी कियां, महा मोटो फल होय ॥ भावसुं जे पोरसी करै, दुरगति छेदै सोय ॥ सु० १२ ॥ नरक मांहि जै नारकी, वरसें एक हजार ॥ करम खपावै नरकमें, करता बहुत पुकार ॥ सु० १३ ॥ एक दिवसनी पोरसी, जीव करै इकतार ॥ करम हणें सहस एकना, निहचैसुं गणधार ॥ सु० १४॥ दुरगति मांहे नारकी, दस हजार प्रमाण ॥ नरक आयु खिण एकमें, साढपोरसी करै हाण ॥ सु० १५ ॥ पुरिमड्ढ करै नित जीव जे, नरकें ते नवि जाय ॥ लाख वरस करमनें दहै, पुरिमड्ढ करम खपाय ॥ ॥ सु० १६ ॥ लाख वरस दस नारकी, पामें दुःक्ख अनंत ॥ इतरा करम एकासणें, दूर करै मन खंत ॥ सु० १७ ॥ एक कोड़ि वरसां लगै, करम खपावै जीव ॥ नीवीय करतां भावसुं, दुरगति हणे सदीव ॥ सु० १८ ॥ दस कोड़ि जीव नरकमें, जितरो करै करम दूर ॥ तीतरो एकलठाणही, करै सही चकचूर ॥ सु० १९ ॥ दात करंता प्राणियो, सो कोड़ी परिमाण ॥ इतरा वरस दुरगति तणा, छेदै चतुरसुजाण ॥ सु० २० ॥ आंबिलनो फल बहु कह्यो, कोड़ी

एक हजार ॥ करम खपावै इणपरै, जाव आंबिल अधिकार ॥ सु० २१॥ कोड़ि सहस दस वरसही, सहे दुःख नरक मझार ॥ उपवास करे इक जावसुं, तो पामे मुगति मझार ॥ सु० २२ ॥ (ढाल ३॥ केकेइ वर लाधो ॥ ए देशी) ॥ लाख कोड़ि वरसां लगे, नरके करता रीव रे ॥ गोतम गणधारी ॥ उठम तप करतां थकां, सही नरक निवारे जीव रे ॥ गो० २३ ॥ नरके वरस कोड़ि लाखही, जीव लहे तिहां डुरक रे ॥ ते डुख अठम तपहुंती, दूर करी पामे सुरक रे ॥ गो० २४ ॥ छेदन जेदन नारकी, कोमाकोड़ि वरसोइ रे ॥ कुगति कुमतिनें परिहरो, दसमें एतो फल होइ रे ॥ गो० २५ ॥ नित फासू जल पीवतां, कोमाकोड़ि वरसनो पाप रे ॥ दूर करै खिण एकमें, निश्चै होय निःपाप रे ॥ गो० २६ ॥ वलिय विशेष फल कह्यो, पांचम करै उपवास रे ॥ पामे ग्यान पांचे जला, करता त्रिजुवन परकास रे ॥ गो० २७ ॥ चवदस तप विधिसुं करै, चवदह पूरव होय धार रे ॥ इम अनेक फल तपतणा, कहतां वलि नावै पार रे ॥ गो० २८ ॥ मन वचने काया करी, तप करै जे नर नार रे ॥ इग्यारे वरस एकादशी, करतां लहै जव पार रे ॥ गो० २ए ॥ आठम तप आराधतां, जीव न फिरै संसार रे ॥ अनंत जवाना पापथी, छूटै जीव निरधार रे ॥ गो० ३० ॥ तपहुंती पापी तस्या, निसतरियो अरजुनमाल रे ॥ तपहुंती दिन एकमें, शिव पाम्यो गजसुकमाल रे ॥ गो० ३१॥ तपना फल सूत्रे कह्या, पच्चरकाणतणा दस जेद रे ॥ अवर जेद पिण छै घणा, करतां छेदे त्रय वेद रे ॥ गो० ॥ ३२ ॥ (कलशः) ॥ पच्चरकाण दस विध फल परूप्या महावीर जिणदेवए, जे करै जविअण तप अखंमित तासु सुर पय सेव ए ॥ संवत्त निधि गुण अश्व शशि वलि पोस सुदि दशमी दिने, पदमरंग वाचक शीस गणिवर रामचंद तप विधि

भणे ॥ ३२ ॥ इति दस पच्चरकाण वृद्ध स्तवनं ॥

॥ अथ दस पच्चरकाण तप विधिः ॥

॥ यह दस पच्चखाणके स्तवनमें खुलासा दस पच्चरकाणके भेद ञर बेला तेला पांचम आठम इग्यारस चौदश इत्यादिक तपस्या करणेके फल भगवंत श्रीमहावीरस्वामीके वचन मुजब उत्तम पुरुषोने रचना करीहै. इस वास्ते धर्मरागी पुरुष इस स्तवनकों पढके तपस्या करणेमें आदरवंत होता है, ञर किसीके दश पच्चरकाण तप करणेकी इच्छा होय तो पहिले दिन नवकारसी, डुसरे दिन पोरसी, इस तरै स्तवन मुजब १० पच्चरकाण दस दिवसे सेवन करै, सदा स्तवन सुणें पढै, अंतमें पूजा करावै, शक्ति माफक उद्यापन करै. इस तपस्याके प्रभावसें डुरगतिबंध दूर करके अच्छी गती पावे, महा एश्वर्यवंत होय, भाग्यवंत होय ॥ इति ॥

॥ अथ वीश स्थानक स्तवन लिख्यते ॥

श्री सिद्धाचल भेटिये ॥ ए देशी ॥ वीस थानक तप सेविये, धर कर शुभ परिणाम लाल रे ॥ तीजे भव सेव्यो थको, बांधे तीर्थंकर नाम लाल रे ॥ वी० १ ॥ तप रचना अधिकी कही, ज्ञाताअंग मझार लाल रे ॥ सुणजो भवि तुमे भावसुं, चित्तसें करिय उच्चार लाल रे ॥ वी० २ ॥ सुविहित गुरु पासे ग्रहै, वीस थानक तप एह लाल रे ॥ निरदूषण शुभ महुरते, उचरीजै ससनेह लाल रे ॥ वी०३॥ अरिहंत १ सिद्ध २ प्रवचन नमूं ३, सूरि ४ थिवर ५ उवझाय ६ लाल रे ॥ साधु ७ नाण ८ दंसण ए अरु, विनय १० नमूं उलसाय लाल रे ॥ वी० ४ ॥ चारित्र ११ बंभ १२ क्रियापदें १३, तप १४ गोयम १५ जिण १६ ईस लाल रे ॥ चारित्र १७ ज्ञानने १८ श्रुत भणी १९, नमूं तीर्थ २० पद वीश लाल रे ॥ वी० ५ ॥ वीस दिवसमें ए कही, पद गुणनो कर भेव लाल रे ॥

अथवा दिन विसा लगै, वीसे पद गुण मेव लाल रे ॥ वी० ६ ॥ एक उली षट मासमें, पूरी जो नवि होय लाल रे ॥ फेर नवी करणी पडै, पिछली निष्फल जोय लाल रे ॥ वी० ७ ॥ छठ अठम उपवाससुं, अथवा देखो शक्ति लाल रे ॥ पोसह कर आराधियै, देव वांदै निज भक्ति लाल रे ॥ वी० ८ ॥ संपूरण पद सेवतां, पोसहनो नहि जोग लाल रे ॥ तोहो सात पदै सही, पोसह करियै संजोग लाल रे ॥ वी० ए ॥ सूरी थिवर पाठक पदै, साधु चारित्र सुजाण लाल रे ॥ गौतम तीर्थपदै सही, सात थानक मन मान लाल रे ॥ वी० १० ॥ पद२ दीठ करै सद्दा, दोय२ जाप हजार लाल रे ॥ पडिकमणो दोय टंकही, करियै पूजा सार लाल रे ॥ शक्ति मुजब तप कीजियै, एक उली करो वीस लाल रे ॥ वीसावीसी च्यारसै, तप संख्या कही एम लाल रे ॥ वी० ११ ॥ जिस दिन जो पद तप करै, तिसके गुण चित धार लाल रे ॥ काउसग्गले परदक्षणा, सुख भणियै नवकारलाल रे ॥ वी० १२ ॥ जिस पदकी स्तवना सुणै, कीजै जिनपद भक्ति लाल रे ॥ पूजन शुद्ध मन साचवै, दिन२ वधती शक्ति लाल रे ॥ वी० १४॥ मृतक जनम ऋतुकालमें, कवि धार्यो उपवास लाल रे ॥ सो लेखे नाहिं लेखवो ॥ निकेवल तप जास लाल रे ॥ वी० १५ ॥ सावद्य त्यागपणो करै, सोक न धारै चित्त लाल रे ॥ शील आभूषण आदरै, मुखसुं बोलै सत्य लाल रे ॥ वी० १६ ॥ जेठ आसाढ वैशाखमें, मिगसर फागुण मांह लाल रे ॥ ए षट् मासे मांहिनें, व्रत ग्रहियै वडभाग लाल रे ॥ वी० १७ ॥ तप पूरण हुवां थकां, ऊजमणो निरधार लाल रे ॥ कीजै शक्ति विचारीनें, उछव विविध प्रकार लाल रे ॥ वी० १८ ॥ वीस२ गिणती तणा, पुस्तक पूठा आदि लाल रे ॥ ग्यानतणी पूजा करै, मुंकीजै हववाद

लाल रे ॥ वी० १ए ॥ फलवधी नगरनी श्राविका, कीधी विध चित्त लाय लाल रे ॥ जनम सफल करवा जणी, उहिज मोक्ष उपाय लाल रे ॥ वी० २० ॥ कलश ॥ इम वीर जिनवरतणी आज्ञा धार चित्त मऊार ए, सहु देख आगमतणी रचना रची तप विध सार ए ॥ वसु नंद सिद्धि चंद वरसै चैत्र मास सुहंकरू, मुनि केशरी शशि गछ खरतर जणी स्तवना मनहरू ॥ २१ ॥ इति ॥

॥ अथ वीस स्थानक तप करण विधि लिख्यते ॥

॥ तिहां प्रथम शुज्ञ महुर्त्तके दिन नंदी स्थापनापूर्वक सुविहित गुरुके पास वीस स्थानकतप विधिपूर्वक उच्चरै. एक उली दो महीनेसे लेकर ७ महीने पूरी करै. कदास ७ महीनेमें पूरी नही कर सके तो वो उली गिणतीमें नही. उर फेर नइ करणी पमती है. एक उलीके वीस पद है (तहां) कोइ वीस दिनमें वीस पद जुदा२ गिणते हे, कोईयक वीसों दिनमें एकही पद गिणते हें, दूसरै वीशों दिनमें दूसरा पद, एसें वीशों पदकी वीश उली करै. तिहां पदाराधनेके दिन प्रबल शक्तिवंत अठम तप करिकै आराधै. वीश अठमसें एक उली होय (एसें) वीस उली ४०० सें अठमसें आराधै. और उससें कम शक्ति होय तो छठ्ठसें आराधै. उससें कम शक्ति होय तो चोविहार उपवास करकै आराधै. उससें हीन शक्ति होय तो तिविहार उपवास करकै आराधै, उससें हीणशक्ति आंबिल (तथा) तिविहार एकाशणा करकै आराधै. उसमें जो शक्तिवान होय सो तो सर्व तपस्याके दिन अठ पहरी पोसह करै. हीनशक्ति दिनपोसह करै. वीसों पद पोसहसेती आराधै. जो पोसह शक्ति सर्व पदमें नहीं होय तो आचार्यपदमें १, उपाध्यायपदमें २, थिवर पदमें ३, साधूपदमें ४, चारित्रपदमें ५, गौतमपदमें ६, उर तीर्थपदमें ७, यह सात थानक पद तो पोसह करकेही आराधै, जो इतनी

जी शक्ति नहिं होय तो उस दिन देसावगासी करै, सावद्य व्यापार छोड़ै, सो शक्ति जी नही होय तो यथाशक्ति तप करके आराधै. अपणी हीणता जावे तथा मृतक जन्म के सूतकमें उपवासादि तप नही गिणे जावै, स्त्रियां जी ऋतुसमयका तप नही गिणे, तथा तपके दिन पोसह सहित करै तो वहोत श्रेयकारी है, वो अगर नहीं हो सके तो तपके दिन उज्जय टंक पड़िक्कमण करै, तीन टंक देववंदन करै, दो हजार एक पदका जाप करै, ब्रह्मचर्य पालै, जूमि शयन करै, तपके दिन अति सावद्य व्यापार नही करै, असत्य नहि बोलै, सब दिन तप पदके गुण कीर्त्तनमें रहै, तथा तपके दिन पोसह करे तो पारणेके दिन जिनजक्ति करकै पारणा करै, जो तपके दिन पोसह नही होय तो उसी दिन श्रीजिनजक्ति करै करावै, जावना जावै तथा तपके दिन तप पदके गुण जेद प्रमाण संख्यासें काउसग्ग करै. इतनाही तद्गुण स्मरणपूर्वक खमासमण देइ वंदणा करै. उस पदका गुण याद करकै उदात्त स्वरसें स्तवना करै, हर्षित रहै॥

॥ अथ वीस स्थानक गुणना और काउसग्गका प्रमाण लिखते है॥

(णमो अरिहंताण) २००० गुणना लोगस्स १२ का काउसग्ग ॥ १ ॥ (णमोसिद्धाणं) २००० गुणना लोगस्स १५ का काउसग्ग ॥ २ ॥ (णमो पवयणस्स) २००० गुणना लोगस्स ७ का काउसग्ग ॥ ३ ॥ (णमो आयरिआणं) दो हजार गुणना लोगस्स ३६ का काउसग्ग (णमो थेराणं) दो हजार गुणना लोगस्स १५ का काउसग्ग ॥ ५ ॥ (णमो उवज्झायाणं) दो हजार गुणना लोगस्स २५ का काउसग्ग ॥ ६ ॥ (णमो लोए सव साहूणं) दो हजार गुणना लोगस्स २७ का काउसग्ग ॥ ७ ॥ (णमो नाणस्स) दो हजार गुणना लोगस्स ५ का काउसग्ग ॥ ८ ॥ (णमो दंसणस्स) दो हजार गुणना लोगस्स १७ का

काउसग्ग ॥ ए ॥ (णमो विणयसंपन्नाणं) दो हज़ार गुणना लोगस्स १० का काउसग्ग ॥ १० ॥ (णमो चारित्तस्स) दो हज़ार गुणना लोगस्स ६ का काउसग्ग ॥ ११ ॥ (णमो बंजवय धारीणं) दो हज़ार गुणना लोगस्स ए का काउसग्ग ॥ १२ ॥ (णमो किरिआणं) दो हज़ार गुणना लोगस्स २५ का काउसग्ग ॥ १३ ॥ (णमो तवस्सीणं) दो हज़ार गुणना लोगस्स १५ का काउसग्ग ॥ १४ ॥ (णमो गोयमस्स) दो हज़ार गुणना लोगस्स १७ का काउसग्ग ॥ १५ ॥ (णमो जिणाणं) दो हज़ार गुणना लोगस्स १० का काउसग्ग ॥ १६ ॥ (णमो चरणस्स) दो हज़ार गुणना लोगस्स १२ का काउसग्ग ॥ १७ ॥ (णमो नाणस्स) दो हज़ार गुणना लोगस्स ५ का काउसग्ग ॥ १० ॥ (णमो सुअनाणस्स) दो हज़ार गुणना लोगस्स १० का काउसग्ग ॥ १ए ॥ (णमो तिनस्स) दो हज़ार गुणना लोगस्स ५ का काउसग्ग करै ॥ २० ॥ इति वीस स्थानक गुणना संपूर्णम् ॥

इत्यादि विधि संयुक्त वीशों उलीमें सर्व पदके उछव महोछव प्रनावना ऊजमणापूर्वक करै. जिनशासनके उन्नतीके वास्ते इतनी शक्ति नहीं होय तो एक उली तो विशेष उछवादिक संयुक्त करणी चाहियै. इहां विधिप्रपाक ग्रंथसें वीश स्थानक सेवनविधि संक्षेप मात्रसें लिखी है. जो गुरुका संयोग होय तब तो विस्तारसें वीशों पदकी जुदी२ विधि गुरुके मुखसें समजके करै. जो गुरूका संयोग नहि होय तो विवेक संयुक्त इस विधिकों देखके वीस स्थानक तपकों सेवन करै, वीस स्थानकका स्तवन सुणें वा पढै, वीस स्थानकजीकी पूजा करावै, अपणी शक्ति माफक वीस२ ज्ञानोपकरण करावै, देवपदका देवखाते लगावै, ज्ञानपदका ज्ञानखाते लगावे, गुरुपदका गुरुखाते लगावे, सब तीर्थोंकी यात्रा करै,

साहमी वच्छल केर, इत्यादिक इत्थें उर नावे विधि संयुक्त शुद्ध नावसें जो नव्यजीव यह वीस स्थानक पदकों सेवन करेंगें सो जिन नाम कर्माकों उपार्जन करके तीसरे नव अनंत सुखकों प्राप्त होंगें, इत्यलंविस्तरेण ॥ इति वीस स्थानक तप उली विधि सं० ॥

॥ अथ वीस स्थानक मंडल पूजन लिख्यते ॥

णमोणंतविन्नाणसदंसणाणं, सदाणंदियासेसजंतूगणाणं ॥ नव नोजविच्छयणेवारणाणं, णमोबोहियाणंवराणंजिणाणं ॥ १ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हद्भ्योनमः ॥ १ ॥ इति प्रथमपदे जिनेंद्रपूजा ॥ अथ सिद्धपूजा ॥ लोगग्गनागोपरिसंठियाणं, वुद्धाणसिद्धाणमणिंदियाणं ॥ निस्सेसकम्मक्खयकारगाणं, णमोसयामंगलधारगाणं ॥ ॥२॥ ॐ ह्रीं श्रीं सिद्धेभ्योनमः ॥ २ ॥ अथ तृतीय पद ॥ अणंतसंसुद्धगुणाकरस्स, दुक्खंधयारुग्गदिवाकरस्स ॥ अणंतजीवाणदयागिहस्स, णमो२ संघचनविहस्स ॥ ॐ ह्रीं श्रीं प्रवचनायनमः ॥ ३ ॥ अथ चतुर्थ पद ॥ कुवादिकेलीतरूसिंधुराणं, सुरीसराणं-सुणिबंधुराणं ॥ धीरत्तसंतज्जियमंदराणं, णमोसयामंगलमंदिराणं ॥ ४ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं आचार्येभ्योनमः ॥ ४ ॥ अथ पंचम पद ॥ सम्मत्तसंयमपतितनविजन अतिदढथिरकरतानला ॥ अनगुणअद्भुषित गुणविभूषित चंद्रकिरणसमोज्जला ॥ अष्टाधिकादससहसलीलांगरथ रुचिरधाराधरा, नवसिंधुतारणप्रवरकारणनमोथिवरमुनीवरा ॥ ५ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं स्थविरायनमः ॥ अथ छठा पद ॥ सबोहिबीजंकुरुकारणाणं, णमो२वायगावारणाणं ॥ कुबोहिदंतीहरिणेसराणं ॥ विग्घोघसंतावपयोहराणं ॥ ६ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं उपाध्यायेभ्यो नमः ॥६॥ अथ सातमा पद ॥ संतज्जियसेसपरीसहाणं, निस्सेसजीवाणदयागिहाणं ॥ सन्नाण पज्जायतरूवणाणं, णमो२होउतवोधणाणं ॥ ७ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं सम्यग्साधुभ्योनमः ॥ ७ ॥ अथ अष्टम पद ॥ वदवपज्जा

यगुणाकरस्स, सयापयासीकरणोधुरस्स ॥ मिछत्तअन्नाणतमोहरस्स, णमो२ नाणदिवायरस्स ॥ ८ ॥ ॐ ह्रीँ श्रीँ सम्यग्ज्ञानाय नमः ॥ ८ ॥ अथ नवम पद ॥ अणंतविन्नाणसुकारणस्स, अणंतसंसारविदारणस्स ॥ अणंतकम्मावलिधंसणस्स, णमो२निम्मलदंसणस्स ॥ ए ॥ ॐ ह्रीँ श्रीँ सम्यग्दर्शनाय नमः ॥ ए ॥ अथ दशम विनय-पद ॥ आणंदियासेसजगज्जणस्स, कुंदिंदुपादामलताचणस्स ॥ सुधम्मजुत्तस्सदयासयस्स, णमो२श्रीविणयालयस्स ॥ १० ॥ ॐ ह्रीँ श्रीँ सम्यग्विनयेनमः ॥ १० ॥ अथ इग्यारम चारित्र पद ॥ कम्मोघकंतारदवानलस्स, महोदयानंदलयाजलस्स ॥ विन्नाणपंकेरुहकारणस्स, णमोचरित्तस्सगुणापणस्स ॥ ११ ॥ ॐ ह्रीँ श्रीँ सम्यग्चारित्राय नमः ॥ ११ ॥ अथ द्वादशम चारित्र पद ॥ सग्गापवगाग्गसुहप्पयस्स, सुनिम्मलाणंतगुणालयस्स ॥ सव्वव्वयाभूषणभूषणस्स, नमोहिशीलस्सअदूसणस्स ॥ ॐ ह्रीँ श्रीँ सम्यग्ब्रह्मचर्येनमः ॥ १२ ॥ अथ तेरमें क्रिया पद ॥ विशुद्धलक्षणविभूषणस्स, सुलद्धिसंपत्तिसुपोषणस्स ॥ णमोसदाणंतगुणप्पदस्स, नमो२सुद्धक्रियापदस्स ॥ १३ ॥ ॐ ह्रीँ श्रीँ सम्यग्क्रियायै नमः ॥ अथ चवदमा तप पद ॥ लद्धीसरोजावलितावणस्स, सुरूवसंलग्गसुपावणस्स ॥ अमंगलानोकुहडुद्दवस्स, नमो२निम्मलसत्तवस्स ॥ १४ ॥ ॐ ह्रीँ श्रीँ सम्यग्तवसे नमः ॥ १४ ॥ अथ पनरमा गौत्तम पद ॥ अणंतविन्नाणविन्नाकरस्स, डुवालसंगीकमलाकरस्स ॥ सुलद्धवासाजयगोयमस्स, नमोगणाधीस्सरगोयमस्स ॥ १५ ॥ ॐ ह्रीँ श्रीँ गौतमायनमः ॥ अथ सोलम पदे जिनपूजा ॥ मणुसत्तवातिसयासयाणं, सुरा२धी सरवंदियाणं ॥ रवींदुबिंबामलसग्गुणाणं, दयाधणाणंहिनमोजिणाणं ॥ १६ ॥ ॐ ह्रीँ श्रीँ जिनेन्द्र्योनमः ॥ अथ सतरमें चारित्तधारीपद ॥ सव्विंदियापारविकारहारी, अकारणासेसजणोवगारी ॥ महान-

वातंकरणापहारी, जयोसदाशुद्धचरित्तधारी ॥ १७ ॥ ॐ ह्रीँ श्रीँ सम्यग्चारित्रधारीभ्यो नमः ॥ १७ ॥ अथ अगारमें ज्ञानपदपूजा ॥ शुद्धक्रियामंगलमंगणस्स, संदेहसंदोहविखंगणस्स ॥ मुत्तीनपादा नसुकारणस्स, नमोहिनाणस्सजसोधणस्स ॥ १८ ॥ ॐ ह्रीँ श्रीँ सम्यग्ज्ञानाय नमः ॥ १८ ॥ अथ उगणीसमें श्रुतपद ॥ अन्नाणव ल्लीवनवारणस्स, सुबोहिवीजांकुरकारणस्स ॥ अणंतसंसुद्धगुणाल- यस्स, नमोदयामंदिरलव्वयस्स ॥ १९ ॥ ॐ ह्रीँ श्रीँ सम्यग्श्रुतये नमः ॥ १९ ॥ अथ वीसमें तीर्थपद ॥ तुभ्यंनमःसकलविश्ववशं कराय, तुभ्यंनमःस्त्रिजगतीजनशंकराय ॥ तुभ्यंनमःभुवनमंगल मंगनाय, तुभ्यंनमोस्तुजिनपंकविखंगनाय ॥ २० ॥ ॐ ह्रीँ श्रीँ स म्यग्तीर्थपदेभ्योनमः ॥२०॥ ध्वजासमेत अष्ट द्रव्य चढावै (पीछै) ६४ इंद्रपूजा अखरोट चढावै ॥ ॐसौधर्मेंद्रायनमः १ ॥ ॐ इशाणें द्रायनमः २ ॥ ॐसनत्कुमारेंद्रायनमः ३ ॥ ॐमाहेंद्रायनमः ४ ॥ ॐब्रह्मेंद्रायनमः ॥ ५ ॥ ॐलांतकेंद्रायनमः ६ ॥ ॐशुक्रेंद्रायनमः ॥ ७ ॥ ॐसहस्रारेंद्रायनमः ॥ ८ ॥ ॐप्राणतेंद्रायनमः ॥ ९ ॥ ॐअ- च्युतेंद्रायनमः ॥१०॥ ॐचंद्रेंद्रायनमः ॥११॥ ॐसूर्येंद्रायनमः॥१२॥ ॐचमरेंद्रायनमः ॥ १३ ॥ ॐवलींद्रायनमः ॥ १४ ॥ ॐधरणेंद्राय नमः॥१५॥ ॐभूतानेंद्रायनमः ॥१६॥ ॐवेणुदेवेंद्रायनमः॥ १७ ॥ ॐवेणुदालींद्रायनमः ॥१८॥ ॐहरिकांतेंद्रायनमः॥१९॥ ॐहरिस्स हेंद्रायनमः ॥ २० ॥ ॐअग्निशिखेंद्रायनमः ॥ २१ ॥ ॐअग्निमाण वेंद्रायनमः ॥ २२ ॥ ॐपूर्णेंद्रायनमः ॥ २३ ॥ ॐविशिष्टेंद्रायनमः ॥ २४ ॥ ॐजलकांतेंद्रायनमः ॥ २५ ॥ ॐजलप्रभेंद्रायनमः ॥ २६ ॥ ॐअमितगतींद्रायनमः ॥ २७ ॥ ॐमितवाहनेंद्रायनमः ॥ २८ ॥ ॐवेलवेंद्रायनमः ॥ २९ ॥ ॐप्रभंजनेंद्रायनमः ॥ ३० ॥ ॐघोषें द्रायनमः ॥ ३१ ॥ ॐमहाघोषेंद्रायनमः ॥ ३२ ॥ ॐकालेंद्रायनमः

॥ ३३ ॥ ॐमहाकालेंद्रायनमः ॥ ३४ ॥ ॐसरूपेंद्रायनमः ॥ ३५ ॥ ॐप्रतिरूपेंद्रायनमः ॥३६॥ ॐपूर्णभद्रेंद्रायनमः ३७॥ ॐमाणभद्रेंद्राय नमः ॥ ३८ ॥ ॐभीमेंद्रायनमः ॥ ३९ ॥ ॐमहाभीमेंद्रायनमः ॥ ४०॥ ॐकिन्नरेंद्रायनमः ॥४१॥ ॐकिंपुरुषेंद्रायनमः ॥४२॥ ॐसत्पुरुषें द्रायनमः॥४३॥ॐमहापुरुषेंद्रायनमः॥४४॥ ॐअमितकायेंद्रायनमः ॥ ४५॥ ॐमहाकायेंद्रायनमः ॥४६॥ ॐगीतरतींद्रायनमः ॥४७॥ ॐगीत-यशेंद्रायनमः ॥ ४८ ॥ ॐसन्निहितेंद्रायनमः ॥ ४९ ॥ ॐसामानि-केंद्रायनमः ॥ ५० ॥ ॐधात्रेंद्रायनमः ॥ ५१ ॥ ॐविधात्रेंद्रायनमः ॥ ५२ ॥ ॐऋषिंद्रायनमः ॥ ५३ ॥ ॐऋषिपालतेंद्रायनमः ॥ ५४ ॥ ॐइश्वरेंद्रायनमः ॥ ५५ ॥ ॐमहेश्वरेंद्रायनमः ॥ ५६ ॥ ॐवत्सेंद्रा-यनमः ॥ ५७ ॥ ॐविसालेंद्रायनमः ॥ ५८ ॥ ॐहास्येंद्रायनमः ॥ ५९ ॥ ॐश्रेयइंद्रायनमः ॥ ६० ॥ ॐहास्यस्तेंद्रायनमः ॥ ६१ ॥ ॐपदगेंद्रायनमः ॥ ६२ ॥ ॐपदगपतेंद्रायनमः ॥ ६३ ॥ ॐमहाश्वे-येंद्रायनमः ॥ ६४ ॥ इतिचोसठइंद्रनामपूजा ॥ अथ १६ विद्या-देवीपदे १६ सुपारी चढावै ॥ ॥ ॐरोहिणयैनमः ॥ १ ॥ ॐ-प्रज्ञप्तैनमः ॥ २ ॥ ॐवज्रश्रृंषलायैनमः ॥ ३ ॥ ॐवज्रांकुशयैनमः ॥ ४ ॥ ॐचक्रेश्वर्यैनमः ॥ ५ ॥ ॐपुरुषदत्रायैनमः ॥ ६ ॥ ॐका-ल्यैनमः ॥ ७ ॥ ॐमहाकाल्यैनमः ॥ ८ ॥ ॐगौर्य्यैनमः ॥ ९ ॥ ॐ गंधार्य्यैनमः ॥ १० ॥ ॐमहाज्वालायैनमः ॥ ११ ॥ ॐमानव्यै-नमः ॥ १२ ॥ ॐवैरोट्यायनमः ॥ १३ ॥ ॐअछुप्तायैनमः ॥ १४ ॥ ॐमानस्यैनमः ॥ १५ ॥ ॐमहामानस्यैनमः ॥ १६ ॥ इति षो-ड्श विद्यादेवी नाम पूजाः ॥ ॥ अथ २४ यक्षपदे सो-पारी चढावै ॥ ॥ ॐब्रह्मशांतियैनमः ॥ २४ ॥ ॐपा-र्श्वयक्षायनमः ॥ २३ ॥ ॐगोमेधायनमः ॥ २२ ॥ ॐभृकुटयैनमः ॥ २१ ॥ ॐवरुणायनमः ॥ २० ॥ ॐकुवेरायनमः ॥ १९ ॥ ॐय-

ॐँ ह्रीं ... ह्रायनमः ॥ १८ ॥ ॐँ ह्रीं गंधर्वायनमः ॥ १७ ॥ ॐँ ह्रीं गरुडायनमः ॥ १६ ॥ ॐँ ह्रीं किन्नरायनमः ॥ १५ ॥ ॐँ ह्रीं पातालायनमः ॥ १४ ॥ ॐँ ह्रीं षण्मुखायनमः ॥ १३ ॥ ॐँ ह्रीं कुमारायनमः ॥ १२ ॥ ॐँ ह्रीं यक्षराजायनमः ॥ ११ ॥ ॐँ ह्रीं ब्रह्मएयेनमः ॥ १० ॥ ॐँ ह्रीं अजितायनमः ॥ ए ॥ ॐँ ह्रीं त्रिजयायनमः ॥ ८ ॥ ॐँ ह्रीं मातंगायनमः ॥ ७ ॥ ॐँ ह्रीं कुसमायनमः ॥ ६ ॥ ॐँ ह्रीं तुंबुरयैनमः ॥ ५ ॥ ॐँ ह्रीं यक्षनायकायनमः ॥ ४ ॥ ॐँ ह्रीं त्रिमुखायनमः ॥ ३ ॥ ॐँ ह्रीं महायक्षायनमः ॥ २ ॥ ॐँ ह्रीं गोमुखायनमः ॥ १ ॥ इति २४ यक्ष नाम पूजा ॥ ॥ अथ २४ यक्षणी नाम लि० ॥ ॐँ ह्रीं चक्रेश्वर्यैनमः ॥ १ ॥ ॐँ ह्रीं अजितबलायैनमः ॥ २ ॥ ॐँ ह्रीं दुरितायैनमः ॥ ३ ॥ ॐँ ह्रीं कालिकायैनमः ॥ ४ ॥ ॐँ ह्रीं महाकाल्यैनमः ॥ ५ ॥ ॐँ ह्रीं श्यामायैनमः ॥ ६ ॥ ॐँ ह्रीं शांतायैनमः ॥ ७ ॥ ॐँ ह्रीं ज्वालाकुटयैनमः ॥ ८ ॥ ॐँ ह्रीं सुतारकायैनमः ॥ ए ॥ ॐँ ह्रीं अशोकायनमः ॥ १० ॥ ॐँ ह्रीं मानव्यैनमः ॥ ११ ॥ ॐँ ह्रीं चंडायनमः ॥ १२ ॥ ॐँ ह्रीं विदितायैनमः ॥ १३ ॥ ॐँ ह्रीं अंकुशायैनमः ॥ १४ ॥ ॐँ ह्रीं कंदपार्यैनमः ॥ १५ ॥ ॐँ ह्रीं निर्वाएयैनमः ॥ १६ ॥ ॐँ ह्रीं बलायैनमः १७ ॥ ॐँ ह्रीं धारिएयैनमः ॥ १८ ॥ ॐँ ह्रीं धरएप्रियायैनमः ॥ १ए ॥ ॐँ ह्रीं नरदत्तायैनमः ॥ २० ॥ ॐँ ह्रीं गांधार्यैनमः ॥ २१ ॥ ॐँ ह्रीं अंबिकायैनमः ॥ २२ ॥ ॐँ ह्रीं पद्मावत्यैनमः ॥ २३ ॥ ॐँ ह्रीं सिद्धायकायैनमः ॥ २४ ॥ इति ॥ अथ नव निधान नाम ॥ ॐँ ह्रीं नैसर्प्पकायनमः १ ॥ ॐँ ह्रीं पांडुकायनमः २ ॥ ॐँ ह्रीं पिंगलायनमः ३ ॥ ॐँ ह्रीं सर्व्वरत्नायनमः ४ ॥ ॐँ ह्रीं महापद्मायनमः ॥ ५ ॥ ॐँ ह्रीं कालायनमः ॥ ६ ॥ ॐँ ह्रीं महाकालायनमः ॥ ७ ॥ ॐँ ह्रीं माणवायनमः ॥ ८ ॥ ॐँ ह्रीं शंखायनमः ॥ ए ॥ इति नव निधान पदे ए कलश चढावै ॥ अथ दश दिग्पालादि नाम ॥ ॐँ ह्रीं विजयस्वामिनेनमः ॥ १ ॥ ॐँ ह्रीं क्षेत्रपालायनमः ॥ २ ॥ ॐँ ह्रीं चक्रेश्वर्यैनमः ॥ ३ ॥ ॐँ ह्रीं धरणेंद्रायनमः ॥ ४ ॥ ॐँ ह्रीं पद्मावत्यैनमः ॥ ५ ॥ ॐँ ह्रीं इंद्रायनमः ॥ १ ॥ ॐँ ह्रीं अग्नयेनमः ॥ २ ॥ ॐँ ह्रीं यमायनमः ॥ ३ ॥

ॐनैरुतायनमः ॥ ४ ॥ ॐवरुणायनमः ॥ ५ ॥ ॐवायव्वैनमः ॥६॥ ॐकुबेरायनमः ॥ ७ ॥ ॐईशानायनमः ॥ ८ ॥ ॐनागायनमः ॥ए॥ ॐब्रह्मणेनमः ॥ १० ॥ इति दशदिग्पालः ॥ ॐसूर्यायनमः ॥ १ ॥ ॐचंद्रायनमः ॥ २ ॥ ॐसोमायनमः ॥ ३ ॥ ॐबुधायनमः ॥ ४ ॥ ॐबृहस्पतयेनमः ॥ ५ ॥ ॐशुक्रायनमः ॥ ६ ॥ ॐशनैश्चरायनमः ॥ ७ ॥ ॐराहवैनमः ॥ ८ ॥ ॐकेतवैनमः ॥ ए ॥ इति नवग्रह नाम ॥ इहां वीस स्थानक मंमल पूजनकी विधि विशेष लिखी है । सो नाममात्र स्थापन पूजनकी हे, इस उपरांत मंमल प्रतिष्ठा बलबाकुलादिककी संपूर्ण विधी नवपद मंमल पूजामें लिखआए हे उस मुजबही करणी । फेर विशेष विधो कराणी होय तो विद्वज्जन गुरूकों पूछके करणी ॥ इति वीशस्थानक मंमल पूजा वि०सं॥

॥ अथ रोहणीतप स्तवन लिख्यते ॥

॥ शाशण देवत सामणी ए मुफ सानिध कीजै, जुलो अक्षर जगति जणी समफाई दीजै ॥ मोटो तप रोहण तणो ए जिणरा गुण गाउं, जिम सुख सोहग संपदा ए वंछित फल पाउं ॥ १ ॥ दक्षिण जरते अंगदेस है चंपानयरी, मघवा राजा राज्य करै तिण जीता वयरो ॥ पाटतणी राणी रूवमी ए लखमी इण नामै, आठ पूत्र जाया जिसें ए मनमें सुख पामे ॥ २ ॥ रोहिणी नामे कन्यका ए सबकुं सुखकारी, आठां पूत्रां ऊपरां ए तिण लागे प्यारी ॥ वाधै चंदतणी कला ए जिम पख ऊजवालै, तिम ते कुमरी धाय माय पांचै प्रतिपालै ॥ ३ ॥ कुमरी रूपे रूवमी ए घर अंगण वैठी, दीठी राजा खेलती ए तिण चिंता पैठी ॥ तीन जुवन विच एहवी ए नही दूजी नारी, रंजा पदमा गवर गंग इण आगल हारी ॥ ४ ॥ पुरुष न दीषै कोइ इसो जिणनें परणाउं, आंख्या आगल साल वधै तिण चयन न पाउं ॥ देशदेशना राजवी ए ततखिण तेमाया,

सबल सजाई साथ करी नरपति पिण आया ॥ ५ ॥ वीतशोक राजातणो ए छै कुमर सोभागी, कन्याकेरी आंखडी ए तिणसेती लागी ॥ कन्ना देखै सकल लोक चढिया केइ पाला; चित्रसेनरे कंठ ठवी कुमरी वरमाला ॥ ६ ॥ देव अनै देवांगना ए जपै जैजेकार, रलियायत थयो देखने ए सारो संसार ॥ कर जोडी कहै लोक व खत कन्यारो जाडो, वीतशोकनो कुमर थयो सिर ऊपर लाडो ॥ ७ ॥ इम विवाह थयो भलो ए दीया दान अपार ॥ घर आया परणी करी ए हरख्यो परिवार ॥ वीतशोक निज पुत्र भणी अपणो पाट दीधो, आपण संजम आदरी ए जगमें जस लीधो ॥ ८ ॥ (ढाल--प्रभु प्रणमुं रे पास जिणेसर थंभणो ॥ ए देशी) ॥ तिण नगरी रे चित्रशेन राजा थयो, सुख मांही रे केतलो काल वही गयो ॥ इण अवसर रे आठ पुत्र हूवा भला, चढते पख रे चंद्र जिसी चढती कला ॥ (उल्लालो) चढती कला हिव राय बैठो पास बैठी रोहणी, सातमी भूमी कंतसेती करै क्रीडा अतिघणी ॥ आठमो बालक गोद ऊपर रंगसूं राणी लियो, पुत्रने प्रीतम आंख आगल देखतां हरखे हियो ॥ ए ॥ (चाल) इक कामण रे गोख चढी इष्ट पडी, शिर पीटे रे दीन स्वरे रोवे खडी ॥ बूढापण रे मन गमतो बालक मूओ, हुं एकज रे तिण अधिकेरो दुख हुओ ॥ (उल्लालो) दुख हुवो देखी रोहिणी हिव कहै इम प्रीतम भणी, ए नार नाचै अनै कूदै कहो किम मोटा धणी ॥ एहवो नाटक आज तांइं में कदे देख्यो नही, मुझने तमासो अने हासो देखतां आवे सही ॥ १० ॥ (चाल) इण वचनै रे रीसाणो राजा कहै, तूं पापण रे परतणी पीडा नवि लहै ॥ ए दुखणी रे पुत्र मुओ तडफड करै, जब वीतेरे वेदना जाणीजै तरै ॥ (उल्लालो) जाणै तरै तूं वात दुखनी गरबगहली कामनी, इम

कही राजा हाथ झाल्यो नेहना बालकनणी ॥ सातमा नूंयथी तलै नाख्यो तिसै हाहारव थयो, रोहणी हसती कहै प्रीतम पूत्र नीचै किम गयो ॥ ११ ॥ (चाल) हिव राजा रे पूत्रतणै शोकै करी, थयो मुरछित रे रोवै अति आंख्या नरी ॥ पमतो सुत रे सासणदेवत झालियो, कंचनमय रे सिंहासण वैसारियो ॥ (नल्लालो) वैसारियो कर जोम आगे करै नाटक देवता, गोदे खिलावै केइ हसावै पायपंकज सेवना ॥ अपनो नूपतने अचंनो देख ए कारण किसो, जो कोइ ग्यानी गुरु पधारै पूछियै सांसो इसो ॥ १२ ॥ (चाल) चिंतवतां रे चारतिया आया जिसै, राजा पिण रे पुहतो एने तिसे ॥ सुण देशना रे पूछे प्रश्न सोहामणो, कहो स्वामी पूरवनव बालकतणो ॥ (नल्लालो) बालकतणो नव नूप पूछै कहै इण पर केवली, रोहणी राणीनो नवांतर अने राजानो वली ॥ श्रीगुरु पासे पाछलै नव रोहणी तप आदस्यो, तपतणे सगते साधुनगते तुम्ह नवसायर तस्यो ॥ १३ ॥ (चाल) कहै राजा रे रोहणितप किम कीजियै, विधि नाखो रे जिम तुम पासे लीजीयै ॥ तब मुनिवर रे विधि रोहणीरा तपतणी, इम जंपे रे चित्रसेन राजानणी ॥ (नल्लालो) राजानणी विधि एह जंपै चंद रोहणतप आवियै, नपवास कीजे लाऩ लीजै नली नावना नावियै ॥ बारमा जिनवरतणी प्रतिमा पूजियै मनरंगसुं, इम सात वरसा लगे कीजै तजी आलस अंगसुं ॥ १४ ॥ (ढाल—वीर सुणो मोरी वीनती ॥ ए देशी) ॥ तप करियै रोहणितणो, वलि करिये हो नजमणो एम ॥ तप करतां पातिक टलै, तिण कीजे हो तपसेती प्रेम ॥ त० १५ ॥ देव जुहारी देहरे, तिण आगे हो कीजे वृक्ष अशोक ॥ गुणनो बारम जिनतणो, नला नेवज हो धरियै सहु थोक ॥ त० ॥ १६ ॥ केशर चंदन चरचियै, कीजे आगे हो आठे मंगलीक ॥

विधसुं पुस्तक पूजियै, ते पामे हो शिवपुर तहतीक ॥ त० १७ ॥ सेवा कीजै साधूनी, वलि दीजे हो मुंह माग्या दान ॥ संतोषीजे साहमी, मनरंगे हो करश पकवान ॥ त० १८ ॥ पाटी पोथी पूंछना, मिस लेखण हो झिलमिल सुजगीस, नवकरवाली वीटणा, गुरु आगे हो धरो सत्ताईस ॥ त० १९ ॥ चोथो व्रत पिण तिण दिने, इम पाले हो मन आण विवेक ॥ इण विध रोहणि आदरै, ते पामे हो आनंद अनेक ॥ त० २० ॥ (ढाल—धरम करो जिनवर तणो ॥ ए देशी) ॥ इम महिमा रोहणतणी, श्रीग्यानी गुरु परकासे रे ॥ चित्रसेन ने रोहणी, वासुपूज्य तीर्थंकर पाले रे ॥ इ० २१ ॥ इण परि रोहण आदरी, ऊपर ऊजमणो कीधो रे ॥ चित्रसेन ने रोहणी, मन सूधै संजम लीधो रे ॥ इ० २२ ॥ आठै पूत्रे आदरी, दिख्या बारम जिन आगे रे ॥ वलि नानाविध तप तपै, धरमतणी मति जागे रे ॥ इ० २३ ॥ करि अणसण आराधना, लहि केवल शिवपद पाया रे ॥ जिन वाणी आणी हिये, प्रभु चरणां चित लाया रे ॥ इ० २४ ॥ मनमोहन महिमा नीलो, में तवियो शिवपुरगामी रे ॥ मन मान्या साहिबतणी, हिव पुन्यें सेवा पामी रे ॥ इ० २५ (कलश) ॥ इम गगन डुगमुनि चंद्र वरसे (१७२०) चोथ श्रावण सुदि भली ॥ में कही रोहणतणी महिमा सुगुरु मुख जिम सांभली ॥ वासुपूज्य अमने थया सुप्रशन चित्तनी चिंता टली, श्रीसार जिनगुण गावतां हिव सकल मन आस्या फली ॥ २८ ॥ इति रोहणीतप स्तवन संपुर्ण ॥

॥ अथ रोहणीतप विधिः ॥

॥ शुभ दिन गुरुके पास रोहणीतप ग्रहण करै, रोहणी नक्षत्रके दिन उपवास करै, बारमा श्रीवासुपूज्य स्वामीका पूजन करै, आगै अष्ट मंगलीक रचना करै, अष्ट द्रव्य चढावै, देव वंदना-

दिक करकै धर्मोपदेश सुणै (श्रीवासुपूज्य स्वामी सर्वज्ञायनमः) इसका दो हजार गुणना करै. एसें सात वरस तप करणेंसें सुख सौभाग्य वधेगा, पूत्रादिकका शोक संताप न होगा. विशेष अधिकार स्तवनसें जाणना ॥ इति रोहण तप विधिः ॥

॥ अथ छम्मासी तप स्तवन लिख्यते ॥

॥ गौतमस्वामी रे बुध दो निरमली, आपो करिय पसाय ॥ महावीरस्वामी जै जै तप किया, तेहनो कहिसुं विचर ॥ वलि२ वांदु वीरजी सुहामणा ॥ १ ॥ भावठ भंजण सेव्यां सुख करै, गातां नव निधि थाय ॥ बारे वरसां वीरजी तप कियो, दूर करै सहु पाप ॥ व० २ ॥ बे कर जोडी ए हूं वीनवूं, श्रीजिनशासन राय ॥ नाम लियांथी नव निधि संपजे, दरिशण डुरित पुलाय ॥ व० ३॥ नव चोमासा जिनजीरा जाणिये, एक कीयो छम्माश ॥ पांचे ऊणा छ वलि जाणियै, बारकेकोजीमाश ॥ व० ४ ॥ बहुत्तर माशखमण जग जीपता, छ दो मासी रे जाण ॥ तीन अढाई दो दो कीया, दो दोढ माशी वखाण ॥ व० ५ ॥ भद्र महाभद्र-शिवगति जाणियें, उत्तम एहना प्रकार ॥ विचमें पारणो स्वामी नहि कियो, नहि कीयो चोथो आहार ॥ व० ६ ॥ लिहुं उपवासे प्रतिमा वारमी, कीधा बारे जी माश ॥ दोयसें वेला जिनजीरा जाणियै, इण गुणतीस विलास ॥ व० ७ ॥ तीनसे पारणा जिनजीरा जाणिये, तीन गुणतीस पचास ॥ एहमें स्वामी केवल पामिया, पाम्या मुगति आवास ॥ व० ८ ॥ कलश ॥ इन वीर जिनवर सयल सुखकर अतहि डुक्कर तप करी, संयमसु पाली कर्म टाली स्वामी शिव रमणी वरी॥ सेवक पभणें वीर जिनवर चरण वंदित तुमतणा, संसार कूप पडंत राखो आपो स्वामी सुख घणा ॥ ७ ॥ इति छम्मासी स्तवन ॥

॥ अथ छम्मासी तप विधिः ॥

॥ शासनके अधिपती श्रीमहावीरस्वामी सर्वसें उत्कृष्ट छम्मासी तप किया. इस वास्ते इस वखतमें संघयण बल पराक्रम के हीनपणेंसें इकसार छम्मासी तप नहिं कर सकतेहैं तोभी छम्मासीके १८० उपवास करणेसें जघन्य छम्मासी तपके फलकों जीव प्राप्त होता है. उर देव वंदनादि क्रिया करै, स्तवन छम्मासीतपका सुणै, इस स्तवनमें वीरप्रभूके सर्व तपस्याकी संख्या कही है. (श्रीमहावीरस्वामीनाथायनमः) इसका २००० गुणना करै. वीर प्रभूके नामका तीर्थ होय उहां यात्रा करणेकों जावै, शुद्ध भावना भावै, शक्ति मुजब उद्यापन करै. इस तपस्याके प्रभाव लघुकर्मी जीव होकर अनंतसुखकों प्राप्त होय ॥ इति छम्मासी तप विधि ॥

॥ अथ बारेमाशी तप स्तवन लिख्यते ॥

॥ दान उलट धरी दीजीयै ॥ ए देशी ॥ त्रिभुवन नायक तूं धणी, आदि जिनेसर देव रे ॥ चौसठ इंद्र करै सदा, तुझ पदपंकज सेव रे ॥ त्रिभु० १ ॥ प्रथम भूपाल प्रभु तूं थयो, इण अवसरपणी काल रे ॥ तुझ सम अवर न को प्रभु, तूं प्रभु दीनदयाल र ॥ त्रि० २ ॥ प्रथम तर्थंकर तूं सही, केवलज्ञान दिणंद रे ॥ धर्म प्रज्ञापक प्रथम तूं, तूंही है प्रथम जिनंद रे ॥ त्रि० ३ ॥ अंतर अरि जे आतमतणा, काल अनादि थिति जेह रे ॥ ते तप शक्तियें तैं हण्या, आत्म वीरज गुण गेह रे ॥ त्रि० ४ ॥ ताहरी शक्ति कुण कह सकै, जेहनो अंत न पार रे ॥ द्वादश माशनो तप कर्यो, तेह अपानक सार रे ॥ त्रि० ५ ॥ एह उत्कृष्ट तप वरणव्यो, आगममें जिनराज रे ॥ ते करवूं अति आकरुं, तप विना किम सरे काज रे ॥ त्रि० ६ ॥ तीनसै साठ उपवास ते, ते इण पंचम काल रे ॥ अवसर आदरै क्रम विना, ते पिण भवि सुविसाल रे ॥

त्रि० ७ ॥ ए तप गुरुमुख आदरै, शास्त्रतणे अनुसार रे ॥ पडिक्क मणादिक ज्ञावथी, शुद्ध क्रिया मन धार रे ॥ त्रि० ८ ॥ चित्त समाधि शुज्न ज्ञावथी, धरे ताहरो ध्यान रे ॥ ते नर उत्तम फल लहै, कवि लहै उत्तम ग्यान रे ॥ त्रि० ए ॥ काल अनादि संसारमें, जन्म मरणतणा डुःख रे ॥ ते लहे धर्म पाया विना, तप विना किम हुवे सुख रे ॥ त्रि० १० ॥ हिव लह्यो नरज्ञव पुन्यथी, वलि लह्यो श्रीजिन धर्म रे ॥ तत्वनी रुचि थइ हे मुऊ, हिव मिट्यो मनतणो ज्ञर्म रे ॥ त्रि० ११ ॥ ज्ञव२ एक जिनराजनो, सरण हो ज्यो सुखकार रे ॥ कुगुरु कुदेव कुधर्मनो, मैं कियो हिवै परिहार रे ॥ त्रि० १२ ॥ दर्शन ज्ञान चारित्र ए, मोक्षमारग सुविशाल रे ॥ ज्ञव२ जे मुऊ संपजै, तो फलै मंगलमाल रे ॥ त्रि० १३ ॥ श्रीजिनशाशन तप कह्यो, ते तप सुरतरू कंद रे ॥ धन२ जे नर आदरै, काटै ते करमनो फंद रे ॥ त्रि० १४ ॥ कलश ॥ इम नाज्ञिनंदन जगत वंदन सकल जन आनंदनो, मैं थुण्यो धन दिन आजनो मुऊ मात मरुदेवी नंदनो ॥ संवत सुनेत्राकास निधि शशि नयर श्रीवालूचरै, श्रीजिनसौज्ञाग्य सुरिंद के सुपशाय विजय विमल वरै ॥ १५ ॥ इति श्री बारे माशी तप स्तवन संपूर्ण ॥

॥ अथ बारे माशी तप विधिः ॥

॥ प्रथम तीर्थंकर श्रीऋषज्ञदेवस्वामी उत्कृष्ट बारै मासी तपस्या करी. इस वास्तै ज्ञव्यजीव बारैमाशी तपस्याका ज्ञाव लायकै (३६०) तीनसेसाठ उपवास करै. जिस दिन व्रत होय उस दिन देववंदनादि क्रिया करै, बारे माशी तपका स्तवन सुणै ॥ (श्रीऋषज्ञदेवस्वामीनाथायनमः ॥) इसका २००० गुणना करै. तपस्या पूर्ण होनेसें सिद्धगिरी यात्रा करणेकों जावै. शक्ति माफक उद्यापन उछव करै. इस तपस्याके प्रशाद ज्ञव्यजीवोके कज्ञी डुख

दौर्भाग्यकी प्राप्ति न होय, सदा तपतेज वढता रहै ॥ इति बारैमा.
श्री तपस्या विधिः ॥

॥ अथ अठाईस लब्धि स्तवन लिख्यते ॥

॥ दुहा ॥ प्रणमुं प्रथम जिनेसरु, शुद्ध मने सुखकार ॥ लवधि अठावीस जिन कही, आगमने अधिकार ॥ १ ॥ प्रश्नव्याकरणें प्रगट, भगवतीसूत्र मझार ॥ पन्नवणा आवस्यके, वारू लवधि विचार ॥ २ ॥ आंविल तप कर ऊपजे, लवधां अठावीस ॥ एहिव परगट अरथसुं, सांभलज्यो सुजगीस ॥ ३ ॥ (ढाल ॥ सफल संसारनी ॥) अनुक्रमें हेव अधिकार गाथातणे, लवधिना नाम परिणाम सरिषा भणे ॥ रोग सहु जाय जसु अंग फरस्यां सही, प्रथम ते लवधि छै नाम आमोसही ॥ ४ ॥ जासु मल मूत्र औषध समा जाणियै, वीय विप्पोसही लवधि वखाणियै ॥ श्लेष्म औषध सारिखो जेहनो, तीजी खेल्लोसही नाम छै तेहनो ॥ ५ ॥ देहना मैलथी कोढ दूरे हुवै, चोथो जल्लोसही नाम तेहनो ठवे ॥ केश नख रोम सहू अंग फरस्यां सही, रहै नही रोग सव्वोसही ते कही ॥ ६ ॥ एक इंद्रिय करी पांच इंद्रियतणा, भेद जाणे तिका नाम संभिन्नसुना ॥ वस्तु रूपी सहू जाणियै जिण करी, सातमी लब्धि ते अवधिग्याने करी ॥ ७ ॥ (ढाल ॥ आव्यो तिहां नरहर ॥ ए चाल ॥) हिव आंगुल अढियै ऊणो मानुषक्षेत्र, संज्ञा पंचेंद्रि तिहां जे वसय विचित्र ॥ तसु मननो चिंतित जाणे थूल प्रकार, ते ऋजू मति नामे अष्टम लवधि विचार ॥ ८ ॥ संपूरण मानुषक्षेत्रे संज्ञा वंत, पंचेंद्रिय जे छै तसु मन वातां तंत ॥ सूखम परजायें जाणे सहू परिणाम, ए नवमी कहियै विपुलमती सुभ नाम ॥ ९ ॥ जिण लवधि प्रभावें ऊमी जाय आकाश ॥ ते जंघाविज्जाचारण लब्धि प्रकाश ॥ जसु वचन सरापै खिणमें खेह थाय, ए लवधि

इग्यारमी आसीविस कहिवाय ॥ १० ॥ सहु सूखम बादर देखै लोकालोक, ते केवल लबधी बारमिये सहू थोक ॥ गणधर पद लहियै तेरम लबधि प्रमाण, चवदम लबधे करी चवदे पूरब जाण ॥ ११ ॥ तीर्थंकर पदवी पामे पनरमी लबधि, सोलम सुखदाई चक्रवर्त्तिपद रिद्ध ॥ बलदेवतणो पद लहियै सतरमी सार, अढारमी आखा वासुदेव विस्तार ॥ १२ ॥ मिसरी घृत खीरे मेल्या जेह सवाद, एहवी लहे वाणी उगणीशम परसाद ॥ जाणियो नवि जूलै सूत्र अरथ सुविचार, ते कुष्ट कबुद्धी बीसम लबधि विचार ॥ १३ ॥ एके पद जाणियां आवै पद लख कोड, इकवीसमी लबधी पयाणुसारणी जोड ॥ एके अरथे करी ऊपजै अरथ अनेक, बावीसम कहियै बीजबुद्धि सुविवेक ॥ १४ ॥ (ढाल ॥ कपुर हुवै अति ऊजलो रे ॥ ए चाल ॥) सोलह देशतणी सही रे, दाहक सगति वखाण ॥ तेह लबधि तेवीसमी रे, तेजोलेस्या जाण ॥ चतुर नर सुणज्यो ए सुविचार ॥ आगमने अधिकार, च० ॥ वारू लबधि विचार ॥ च० ॥ एआंकणी ॥ १५ ॥ चवद पूरबधर मुनिवरू रे, ऊपजंता संदेह ॥ रूप नवो रचि मोकले रे, लबध आहारक एह ॥ च० १६ ॥ तेजोलेश्या अगनमी रे, उपशमवा जलधार ॥ मोटी लबधि पचवीसमी रे, शीतोलेश्या सार ॥ च० १७ ॥ जेण सगतिसुं विकुरवै रे, विविध प्रकारै रूप ॥ सदगुरु कहे छवीसमी रे, वैक्रिय लबधि अनूप ॥ च० १८ ॥ एकण पात्रे आदमी रे, जीमाडे केइ लाख ॥ तेह अखीणमहानसी रे, सत्तावीसमी साख ॥ च० १९ ॥ चूरै सेन चक्रीसनी रे, संघादिकने काम ॥ तेह पुलाक लबधी कही रे, अठावीशमी नाम ॥ च० २० ॥ तेज शीत लेश्या बिहुं रे, तेम पुलाक विचार ॥ भगवतीसूत्रमें जाषियो रे, ए बिहुनो अधिकार ॥ च० २१ ॥ पन्नवणा आहारनी रे, कलपसूत्र गणधार ॥ तीन१ इक२ मिली रे,

वारू आठ विचार ॥ च० १२ ॥ प्रश्नव्याकरणे सही रे, बाकी ब वधां वीश ॥ साजलतां सुख ऊपजै रे, दोलत हुवै निशदीस ॥ च० १३ ॥ (कलश) संवत सत्तरैसे बवीसे मेरुतेरस दिन नलै, श्रीनगर सुखकर लूणकरणसर आदिजिन सुपसाउलै ॥ वाचना चारज सुगुरु सानिध विजय हरख विलासए, श्रीधर्मवर्द्धन स्तवन नणतां प्रगट ग्यान प्रकास ए ॥ १४ ॥ इति २८ लब्धि स्तवनं ॥

॥ अथ अठाइस लब्धि तप विधिः ॥

॥ शुन्न दिन गुरुके पास २८ लब्धि तप ग्रहण करै. अन क्रमसें २८ नपवास करै, स्तवन सुणे. जिस दिन जो लब्धिका न पवास होय नसही नामका गुणना करै. तप पूर्ण होणेसें शक्ति मुजब नद्यापन करै. इस तपस्यासें निर्मल बुद्धि नत्पन्न होय, सदा आनंद रहै. इति २८ लब्धितप विधि संपूर्ण ॥

॥ अथ १४ पूर्व स्तवन लिख्यते ॥

॥ ढाल ॥ बे कर जोमी ताम ॥ ए देशी ॥ जिनवर श्री वर्द्धमान, चरम तीर्थंकर, प्रह ऊठी प्रणमुं मुदा ए ॥ श्रुतधर श्री गणधार, सूरि शिरोमणी, नमतां नव निधि संपदा ए ॥ १ ॥ चवदे पूर व नाम, सूत्रे जूजूवा, वीरजिनंदे नाषिया ए ॥ ते हिव सुगुरु पसा य, वरणविस्युं इहां, आगममें जिम नपदिस्याए ॥ २ ॥ पहिला पूर्व नत्पाद १, दूजो अग्रायणी २, वीर्यवाद ३ तीजो नमूं ए ॥ अस्ति, नास्तिप्रवाद ४, सत्ता जाणियै, नारग रयण पंचम ५ गिणुं ए ॥ ॥ ३ ॥ बठो सत्यप्रवाद ६, सत्तम आतम ७, कर्मप्रवाद अठम गिणो ए ८ ॥ प्रत्याख्यानप्रवाद ९, नामे नवम, विद्याप्रवाद दशमो कह्यो ए १० ॥ ४ ॥ इग्यारम नाम कल्याण ११, प्राणायु बारमो १२, क्रियाविशाल तेरम नणो ए १३ ॥ बिंदुसार १४ इण नाम, चवदे ए कह्या, सास्त्र थकी मैं संग्रह्या ए ॥ ५ ॥ (ढाल २ ॥ श्री

विमलाचल शिर तिलो ॥ ए देशी ॥) उत्पाद पूर्व सोहामणो, कोटी पद परिमाण ॥ षट नाव प्रगट छै ते जिहां, त्रिपदी नाव विनाण ॥ १ ॥ सर्व द्रव्यपर्ययतणो, जीव विशेष प्रमाण ॥ दूजो पूर्व अग्रायणी, छिन्नुं लख पद जाण ॥ २ ॥ पद लख सत्तर जेहनी, संख्या परगट एह ॥ वीर्य प्रबलता जीवनी, नापी तीजै तेह ॥ ३ ॥ चोथे पूर्वे जे कह्यो, अस्ति नास्ति प्रवाद ॥ पद संख्या साठ लाखनी, सप्तनंगी स्याद्वाद ॥ ४ ॥ ग्यान प्रवाद पद पंचमो, सूत्रे आण्यो जोम ॥ मत्यादिक पण नेदसुं, पद संख्या इक कोमि ॥ ५ ॥ सत्यप्रवाद छठो कहूं, नाषुं सत्य स्वरूप ॥ संख्या पद इक कोमनी, नाषी अगम अनूप ॥ ६ ॥ नित्यानित्यपणो इहां, आतम द्रव्य सुनाव ॥ छवीस पद कोम जेहना, सूत्रै आण्या नाव ॥ ७ ॥ कर्म प्रवादतणो हिवै, प्रगटपणें अधिकार ॥ लाख असी पद जेहना, कोमी इग निरधार ॥ ८ ॥ नवमो पूर्व कहुं हिवै, नामे प्रत्याख्यान ॥ लाख चोरासी जेहना, पद संख्या चित आन ॥ ए ॥ अतिशय गुण संयुत नणी, साधन साध्य निदान ॥ विद्या अनुपम सातसै, कोमी वरस लख जान ॥ १० ॥ कल्याण नाम इग्यारमो, छवीस कोम प्रमाण ॥ ज्योतिषशास्त्र विचारणा, चोविह देव कल्याण ॥ ११ ॥ प्राणायु पद बारमो, छप्पन्न लख इग कोमि, प्राण निरोधन जे क्रिया, शास्त्रे आण्यो जोम ॥ १२ ॥ ख्यायिक्यादिक जे क्रिया, छंद क्रिया सुविसाल ॥ पद संख्या नव कोमनी, तेरमी क्रिया विशाल ॥ १३ ॥ लोकसारबिंदु चवदमो, नामे अरथ निहाल ॥ पद संख्या इग कोमनी, लाख पचवीस संनाल ॥ १४ ॥ लोकप्रत्यय देखण नणी, संख्या गज परिमाण ॥ सोले सहस अरु तीनसै, उर तयासी जाण ॥ १५ ॥ पूरब संख्या ए कही, गुणमालाश्री देव ॥ आगें बुधजन सोधज्यो, वाकी देश विशेष ॥ १६ ॥

(ढाल ॥ वीर जिनेसर उपदिसै ॥ ए चाल) सूत्रे गुंथे गणधरा, अरथेअरिहंत जाखे रे ॥ ते श्रुतज्ञान नमूं सदा, पाप तिमर जिम नासै रे ॥१॥ वाणी रे जिणंदनी, सुणज्यो चित हित आणी रे, तत्व रमणता अनुसरै, संपूरण गुण खाणी रे ॥ वा० २ ॥ विषय कषाय तजी करी, ग्यान जगत उर धारी रे ॥ विधि संयुत जिनमंदिरै, प्रजु मुख पाश जुहारी रे ॥ वा० ३ ॥ तप जप संजम आदरी, श्री श्रुतज्ञान निधानो रे ॥ सद्गुरु चरण नमी करी, संवरजोग प्रधानो रे ॥ वा० ४॥ अक्षत लेइ ऊजला, गुंहली सुंदर कीजे रे ॥ नाण दंसण चारित्रनी, ढिगली तीन धरीजे रे ॥ वा० ५ ॥ चवद पूर्व व्रत इण परें, सुगुरु संजोगे लेई रे ॥ विधिसुं पुस्तक पूजीयै, चित अति आदर देई रे ॥ वा० ६ ॥ इम तप संपूरण थयां, ऊजमणो हिव कीजे रे ॥ घर सारू धन खरचने, नरजव लाहो लीजे रे ॥ वा० ७ ॥ पूठा परत विटांगणा, पूरब नाम प्रमाणो रे ॥ नवकरवाली कोथली, लेखण ठवणी जाणो रे ॥ वा० ८ ॥ देहरै देव जुहारने, आरती मंगल कीजे रे ॥ सनात्रपूजा वलि साचवी, तत्व सुधारस पीजे रे ॥ वा० ए ॥ इण पर तप आराधतां, डुरगति कारण वेदे रे ॥ चवदह रज्जु सिरोमणी, जीव अकथगति वेदे रे ॥ ॥ वा० १० ॥ तप आराधन विधि जणी, आगम वचने जोइ रे ॥ जवियण पिण तुमे आदरो, ज्युं जवभ्रमण न होई रे ॥ वा० ११॥ (कलश) इम सयल सुखकर गछ खरतर तपै रवि जिम क्रांत ए, सौजाग्यसूरि मुणिंद इण पर कह्यो पूर्व वृतंत ए ॥ संवत अगारै बरस विंशूं नयर श्रीबालूचरै, ए स्तवन जणतां श्रवण सुणतां सफल मनवंछित फलै ॥ १२ ॥ इति चवद पूर्व स्तवन संपूर्ण ॥

॥ अथ १४ पूरब तप विधि लिख्यते ॥

॥ चवदै पूर्वकी तपस्याके १४ उपवास करे. जिस दिन जो

पूर्वका उपवास होय उसी पूर्वका नामसे (२०००) गुणना करै, स्तवन सुणे, इस स्तवनमें १४ पूर्वके नाम और विधि सर्व लिखी है इस मुजब विवेकी जीव गुरूसें समझकें करै. यह तपस्याके करणेसैं ज्ञानावरणादि कर्मका क्षयोपशम होय, शुभ ज्ञानका उदय होय ॥ इति १४ पूर्व तप विधिः ॥

॥ अथ तिलक तपस्या स्तवन लिख्यते ॥

॥ दूहा ॥ सासण देवी सारदा, वाणी सुधारस वेल ॥ बालक हित भणी बगसियै, सुबुधि सुरंगी रेल ॥ १ ॥ नवम अंग जिन पूजतां, मन लहि शुभ परिणाम ॥ तप तिलके फल पामिये, दवदंती गुणधाम ॥ २ ॥ (ढाल ॥ वीर जिणेसर उपदिसै ॥ ए देशी) कमला जिम कुंरूणपुरै, भुजबल नरपति भीमो रे ॥ प्रदमनी पदम सुवासना, श्वेतगज स्वप्ने नीमो रे ॥ पदम० १ ॥ परतख्य फल ए पुन्यना, प्रसवी सुता पूरै माशे रे ॥ दवदंती नाम दीपतो, गुणमणि बुद्धि प्रकाशै रे ॥ पद० २ ॥ चौसठ कला विचक्षणा, रूप गुणे करी रंभा रे ॥ देवगुरु धर्म दीपावती, व्रतधारी दृढ बंभा रे ॥ प० ३॥ प्रतिमा पूजै शांतनी, देवे दीधी त्रिकालो रे ॥ मात पिता प्रमोदसुं, स्वयंवर वरमालो रे ॥ प० ४ ॥ उवझायाधिप श्रीनिषदनो, नल लिखियो निलाडै रे ॥ आनंदसु पंथ आवतां, पूरब पून्य उघाडै रे ॥ प० ५ ॥ मझम रयणी तम भरी, मधुरवकुंल इहां वनमें रे ॥ मणि भाले तेज दिनमणी, जाअत देखी अहो मनमें रे ॥ प० ६ ॥ ग्यानधारी गुरु कोइ मिलै, पूछियै एह प्रसन्नो रे ॥ कर्म बलै मुनि आविया, परीसह जीत मदन्नो रे ॥ प० ७ ॥ पंच जीत पंच पालता, टालता दुस्सह सबला रे ॥ संजम शुद्ध संभालतां, उद्यम शिवसुख कमला रे ॥ प० ८ ॥ दुहा ॥ मणि तेजें मुनि तरुतये, रथ थकी स्त्री भरतार ॥

देवै तीन प्रदक्षणा, त्रिविधसुं चरण जुहार ॥ ए ॥ देशना सुण पावन थया, ज्ञान सुधारस पाय ॥ को तप परन्नव तिलक है, कहिये श्रीमुनिराय ॥ १० (ढाल—ज्ररत नृप ज्रावसुं ए ॥ ए देशी)॥ मधुर स्वरे मुनिवर कहे ए, नाणी गुरु सुपसाय, दीपक सहू लोकना ए ॥ कर्म शुन्नाशुन्न परन्नवै ए, इह न्नव फल निपजाय, करम गति वंकमी ए ॥ ११ ॥ उहिनाण न्नव प्रागनो ए, नृप सुणे निरमल न्नाव, समकित साहीयो ए ॥ धर्मवती को नृपवधू ए, जाणयो है तत्व प्रस्ताव, साची जिन वाचना ए ॥ १२॥ चोथ प्रमुख नृप चूंपसूं ए, किरिया शुद्ध करी एह, न्नले चित न्नावसुं ए ॥ ॥ नवांग पूजे तिलकसुं ए, चाढै जिन चोवोस, रयण कंचण जड्या ए॥ १३॥ तिलकरसें पामियो ए, समकित एह सतीस, जनम सफलो गिणे ए ॥ न्नगवन तप विधि न्नाखियै ए, लन्न कहै बोध वरीस, पीहर षट्कायना ए ॥ १४ ॥ आदिनाथ अरिहंतना ए, पट् उपवास कहीस, त्री चोवीहारस्युं ए॥चोथ दोय जिन वीरना ए, अजितादिक वावीस, आग्या गुरु शिर वही ए ॥ १५ ॥ पोषथ त्रीस तीने थया ए, पूजन तिलक चढाय, तारक जगदीसने ए ॥ उद्यापन संघ न्नक्तिसुं ए, जन्म सफल नरराय, सूधे मन साधियै ए॥ १६॥ सुण वाणी समकित ग्रहै ए, पय प्रणमी गुरु वीर, चित्त ऊमाहीयो ए ॥ इण पर जे न्नवि आदरै ए, थायै चरम शरीर, मूल सुख शासतो ए ॥ १७॥ (कलश) श्रीशांति दाता त्रि जगत्राता न्नविक ध्याता सुखकरा, इम सतीय साध्यो तप आराध्यो सुजस वाध्यो शिवघरां ॥ आगमे आखै सूरीय साखै सुगुरु न्नाखै सुण थया, शुद्ध ध्यावै न्नविक न्नावै विजय विमल जिनवर कया ॥ १८ ॥ इति ॥

॥ अथ तिलकतपस्या विधि ॥

॥ शुन्न दिन गुरुके पास तिलकतपस्या ग्रहण करकै तीस

उपवास करै. प्रथम श्रीऋषभदेवस्वामीके ७ उपवास करै, जब (श्री ऋषभदेवस्वामी सर्वज्ञायनमः) इस पदका १००० गुणना करै. फेर श्री महावीरस्वामीके २ उपवास करै, तब (श्रीमहावीरस्वामी सर्वज्ञायनमः) इस पदका १००० गुणना करै. और श्री अजितनाथस्वामीकों आद लेकै (२२) बाईस भगवंतोका बाईस उपवास करे. जब उन२ भगवंतोंके नामसे दो दो हजार गुणना करे, और सर्व विधि स्तवन मुजब करे॥ इति तिलकतपस्या विधिः॥

॥ अथ शोलिये तपका स्तवन ॥

वीर जिनेसर भाषियो रे लाल, सहु व्रतमें सिरताज, भवि प्राणी रे॥ कषायगंजन तप आदरो रे लाल, इणथी पातिक जाय॥ भ० वी० १॥ कोम वरष तप आदरे रे लाल, क्रोध गमावे फल तास॥ भ०॥ मान करे जे प्राणिया रे लाल, ते जगमें न सुहाय॥ भ० वी० २॥ व्रतमें माया आदरी रे लाल, स्त्रीपणो पायो मल्लिनाथ॥ भ०॥ रूप परावृत कीया घणा रे लाल, आषाढभूति गणिका साथ॥ भ० वी० ३॥ च्यार कषाय छे मूलगा रे लाल, उत्तम सोले भेद॥ भ०॥ इम भव२ भमतो थको रे लाल, जीव पामे बहु खेद॥ भ० वी० ४॥ एकासण व्रत जे करे रे लाल, लाख वरस दुख हाण॥ भ०॥ नीवी व्रत दूजो कह्यो रे लाल, ए धारो जिनवर वाण॥ भ० वी० ५॥ आंबिलनो फल बहु कह्यो रे लाल, उपजै लबधि अपार॥ भ०॥ उपवास करतां भावसुं रे लाल, पामे भवनो पार॥ भ० वी० ६॥ इम दिन शोले तप करो रे लाल, पूरण व्रत ए थाय॥ भ०॥ देव गुरु पूजा करै रे लाल, मन वंछित फल थाय॥ भ०॥ नर सुर रिद्धि पिण भोगवे रे लाल, निश्चे मुगति जाय॥ भ० वी० ७॥ इति॥

॥ अथ शोलिये तपकी विधि लिख्यते ॥

॥ क्रोध १, मान २, माया ३, लोभ ४, यह च्यार कषायमें

अनंतानुबंधी १, अप्रत्याख्यानी २, प्रत्याख्यानी ३, संज्वलन ४, इस मुजब एकेक कषायके च्यार४ भेद करणेसें १६ होते है, इनोंको दूर कर-णेकों प्रथम एकासणा १, निवि २, आंबिल ३, उपवास ४, इस अनुक्रमसें १६ दिन तप करै, स्तवन सुणे, तप पूर्ण होणेसें यथा शक्ति उद्यापन करै ॥ इति शोलिया तप विधिः ॥

अथ पैतालीस आगम तप विधि ॥

गुरूके पास शुभ दिन पैंतालीस आगमतप ग्रहण करै, २ दूज, ५ पांचम, ११ इग्यारस, इत्यादिक ज्ञानतिथिके दिन अनुक्र-मसें उपवास वा एकाशणा करै, जिस दिन जो आगमका तप होय उसी आगमका गुणना करै, सिद्धांत लिखावै, सिद्धांत सुणै, पढनेवालोंकों साहाय करै, अपणी शक्ति मुजब सर्व ठिकाणे ज्ञा-नकी वृद्धि करै (प्रणमुं श्रीगुरु पाय) इत्यादि ज्ञानके स्तवन सुणे, सो आगे लिखा है, एसें तपस्याके ४५ दिन पूर्ण होणेसें पैंतालीस आगमकी पूजा करावै, मंदिर उपाश्रयमें ज्ञानोपगरण चढावै. इस तपस्याके करणेसें मुर्खपणा दूर हो के शुद्ध आत्मज्ञा नकी प्राप्ती होय ॥

अब ४५ आगमका गुणना लिख्यते ॥

॥ प्रथम इग्यारै अंग ॥

१ श्रीआचारांगजीसूत्रायनमः
२ श्रीसुयगडांगजीसूत्रायनमः
३ श्रीठाणांगजीसूत्रायनमः
४ श्रीसमवायांगजीसूत्राय०
५ श्रीभगवतीजीसूत्रायनमः
६ श्रीज्ञाताधर्मकथाजीसूत्रा०
७ श्रीउपासगदशाजीसूत्रा०
८ श्रीअंतगडदशाजीसूत्रा०
९ श्रीअणुत्तरोववाइजीसूत्रा०
१० श्रीप्रश्नव्याकरणजीसूत्रा०
११ श्रीविपाकजीसूत्रायनमः॥

॥ अथ बारै उपांग नाम ॥

१ श्रीउववाईजीसूत्रायनमः
२ श्रीरायपसेणीजीसूत्रायन०

३ श्रीजीवाभिगमजीसूत्राय० ४ श्रीपन्नवणाजीसूत्रायनमः
५ श्रीजंबूद्वीपपन्नत्तीसूत्राय० ६ श्रीचंदपन्नत्तीसूत्रायनमः
७ श्रीसूरपन्नत्तीजीसूत्राय० ८ श्रीकप्पियाजीसूत्रायनमः
९ श्रीकप्पवडिंसियाजीसूत्रा० १० श्रीपुप्फियाजीसूत्रायनमः
११ श्रीपूप्फचूलियाजीसूत्राय० १२ श्रीवन्हिदसाजीसूत्रायनमः

॥ अथ छ छेदका नाम गुणना ॥

१ श्रीव्यवहारछेदसूत्रायनमः २ श्रीवृहत्कल्पजीसूत्रायनमः
३ श्रीदसाश्रुतस्कंधजीसूत्राय० ४ श्रीनिशीथजीसूत्रायनमः
५ श्रीमहानिशीथजीसूत्राय० ६ श्रीजीतकल्पजीसूत्रायनमः

॥ अथ दस पयन्ना नाम गुणनो ॥

१ चोसरणपयन्नाजीसूत्रायन० २ संथारपयन्नाजीसूत्रायनमः
३ श्रीतंदुलपयन्नाजीसूत्रायन० ४ श्रीचंदाविज्झियासूत्रायनमः
५ श्रीगणविज्झियासूत्रायनम० ६ श्रीदेवविज्झियासूत्रायनमः
७ श्रीवीरथुवोजीसूत्रायनमः ८ श्रीगछाचारजीसूत्रायनमः
९ श्रीज्योतिष्करंडजीसूत्राय० १० श्रीमहापच्चख्काणजीसूत्रा०

॥ मूल सूत्रके नामका गुणना ॥

१ श्रीआवस्यकजीसूत्रायनमः २ श्रीउत्तराध्ययनजीसूत्राय०
३ श्रीउघनिर्युक्तीजीसूत्रायन० ४ श्रीदशमीकालिकजीसूत्रा०
१ श्रीअनुयोगद्वारजीसूत्राय० २ श्रीनंदीसूत्रजीसूत्रायनमः

॥ अथ पैंतालीस आगम स्तवन लिख्यते ॥

॥ दूहा ॥ चोवीसे श्रीतीर्थपति, नमूं देव अरिहंत ॥ अर्थ प्रकाशै गणपपुर, द्वादश अंग महंत ॥ १ ॥ त्रिपदी लहि गणपति रचै, सूत्र अर्थ संजोग ॥ अक्षररूपै सारदा, प्रणमूं त्रिकरण योग ॥ २ ॥ टीका कर्त्ता जगतगुरु, सूत्र करै गणधार ॥ पंचागी युत वि- स्तरै, नय निक्षेप विचार ॥ ३ ॥ दुषम काल दुर्भिक्षसें, भूले बा- रम अंग ॥ कंठ पाठसें लिखत कर, रचना रची अभंग ॥ ४ ॥

खंदिल अरु देवर्द्धि गणि, आचारज सय पंच ॥ चोरासी आगम लिखै, कोटि ग्रंथ तज खंच ॥ ५ ॥ काल दोषसें अब मिलै, आगम पैंतालीस ॥ ताको मुनि विवरण करै, माने विसवावीस ॥ ६ ॥ (ढाल ॥ जगतगुरु त्रिसला नंदनजी ॥ ए देशी)॥ आचारांग पहिलो कह्यो जी, मुनि आचार विचार ॥ सुयगडांग दूजोअछै जी, पाषंडी निरधार ॥ जगतगुरु जाखै वीर जिनंद ॥ १ ॥ दस गणा गणांगमे जी, समवायांग संख्यात ॥ सहस ठत्तीस जल प्रश्नो जी, जगवई अंग विख्यात ॥ ज० २ ॥ धर्मकथा ज्ञाता जणी जी, दस श्रावक व्रतधार ॥ दसाउपासक सातमो जी, अंग कह्यो निरधार ॥ ज० ३ ॥ अंतगड केवली जे थया जी, वरणन अष्टम अंग ॥ पंचानुत्तर जे गया जी, अणुत्तरोवाई चंग ॥ ज० ४ ॥ अंगुष्ठादिक प्रश्ननो जी, प्रश्नव्याकरण नाम ॥ सुख दुःखना फल जाषिया जी, सूत्र विपाके ताम ॥ ज० ५ ॥ अढार सहस आचारांगमें जी, पद संख्या परिमाण ॥ वर्ण संख्याते पद हुवे जी, गण दुगुण सब जाण ॥ ज० ६ ॥ उववाई उपांगमे जी, कोणिक अंबड रूप ॥ वर्णन नगरी आदि दे जी, सांजल जविजन चूंप ॥ ज० ७ ॥ सूरियाज पूजा करी जी, जिन प्रतिमा नवरंग ॥ द्रव्य जाव विहुं जेदसूं जी, रायप्रश्नी चित चंग ॥ ज० ८ ॥ जीवतणो अजिगम सही जो, विजयदेव प्रस्ताव ॥ जीवाजिगम तीजो कह्यो जी, सुर कृत वहु विध जाव ॥ ज० ए ॥ पन्नवणामें जाणज्यो जी, जीवाजीव विचार ॥ जंबूद्वीपनी वर्णना जी, नाम थकी गुण धार ॥ ज० १० ॥ सूर चंद्र विग्रह गती जी, पन्नत्ती विहुं जाण ॥ कप्पिया कप्पवडिंसियाजी, पुप्फिया नाम वखाण ॥ ज० ११ ॥ पुप्फचूलिया जाणीये जो, वन्हिदशा इण नाम ॥ नामथी अर्थ पिछाणज्यो जी, सांजलता सुख धाम ॥ ज० १२ ॥ (ढाल २ ॥ ख्याली लाल,

अणवट रंग लागो ॥ ए देशी) ॥ छेदतणा प्रायश्चितना जी, भेद भए ए जाण ॥ बृहत्कल्प विवहारमें जी, भाष्यो भगवंत ज्ञान ॥ सुज्ञानी लाल इणसुं नित राचो ॥ राचो२ रे भविक दिलदार, इणसुं नित राचो ॥ सुज्ञा० १ ॥ महानिशीथे भाषियो जी, जिनपूजा विहुं भेद ॥ श्रावक द्रव्ये भावसूं जी, मुनिवर भाव उमेद ॥ सुज्ञा० २ ॥ जीतकल्प वलि निसीत छे जी, उर दशाश्रुतस्कंध ॥ दश पयन्ना जाणिये जी, चौसरण संथार प्रबंध ॥ सु० ३ ॥ तंडुलवयाली चंदाविज्जया, गणविद्या अभिधान ॥ देवविज्जया वीरथुवो जी, गच्छाचार निधान ॥ सु० ४ ॥ ज्योतिकरंम, महा पच्चख्काण जी, च्यार सूत्र छे मूल ॥ आवश्यक दशमीकालिक जी, उत्तरध्ययन अमूल ॥ सु० ५ ॥ च्यारे अनुयोगे करी जी, रचना सूत्रे जाण ॥ तेह न्याय निक्षेपथी जी, अनुयोगद्वार प्रधान ॥ सू० ६ ॥ द्रव्यानुजोग उए द्रव्यनी जी, चर्चा विधि विस्तार ॥ चरण करण अनुयोगमें जी, मुनि श्रावक आचार ॥ सू० ७ ॥ गणतानुयोग गणना करी जी, पृथ्वी गिरि विमाण ॥ वर्गमूल घनमूलथी जी, जाणो चतुरसुजाण ॥ सु० ८ ॥ धर्मकथा अनुयोगमें जी, धर्मकथा दृष्टांत ॥ ए च्यारों विस्तारोथा जी, पेंतालीस सिद्धांत ॥ सु० ए॥ (ढाल तीसरी ॥ सांगानेर विराजै ॥ ए देशी) ॥ सुणा२ गोतमवाणी, इम वीर वदे गुणखाणी रे, भवियां आगमसुं मन लावो ॥ मन कल्पित वात म गावो रे ॥ भ० आ० १॥ नंदीसूत्र चिरनंदो, यामें पंचज्ञानने वंदो रे ॥ भ० आ० ॥ ज्ञानना भेद वखाण्या, मति अगावीसे आण्या रे ॥ भ० आ० २॥ श्रुत चवदे वीसां भेदे, ए मिथ्यामतने छेदे रे ॥ भ० आ० ॥ अवधिछ असंख्य प्रकारे, मनपर्यव दुय भेद धारे रे ॥ भ० आ० ३ ॥ केवल एक प्रकासै, ए सब विधि नंदी भासे रे ॥ भ० आ० ॥ एतो सहु आगमनी नूंद, स्या-

द्वाद शंगनी बूंद रे ॥ न० आ० ४ ॥ अंग उपांगनी टीका, कर्त्ताने नमूं निरभीका रे ॥ भ० आ० ॥ प्रथम शीलांगाचारी, श्रीअभय देव बलिहारी रे ॥ भ० आ० ५ ॥मलयगिरी गुरुस्वामी, इत्यादि कने सिर नामी रे ॥भ०आ०॥ सामान्य विशेषे भाखी, निश्चय वि वहार छै साखी रे ॥ भ० आ० ६॥ उत्सर्ग वचन छे केइ, अपवाद वचनने लेइ रे ॥ भ० आ० ॥ इक मनसुं आराधो, मन वंछित स गला साधो रे ॥ भ० आ० ७ ॥ (ढाल ४॥ मंगल कमला कंद ए ॥ ए देशी)॥ पैंतालीस आगमतणी ए, हिव तप विध सुणज्यो हित भणी ए ॥ दूज पांचम एकादसी ए, ज्ञानतिथि तपथी कर्म जाय खसी ए ॥ १ ॥ शक्ति छते उपवास ए, आंबिल निविथी उ ल्लास ए ॥ एकासण अथवा करै ए, इम पैंतालीस दिन आचरे ए ॥ २ ॥ जाप करै दो हजार ए, देववंदन पूजन सार ए ॥ प्रतिक्र मण करै दोनुं टंक ए, आगम सुणै अर्थ निसंक ए ॥ ३॥ उजमणो हित चित करेए, गुरु भक्ति चित्तसुं आदरे ए ॥ भक्ति करै साहमीतणी ए; जे पढय पढावै ते भणी ए ॥४॥ अन्न वस्त्र पुस्तक करै दान ए, तिण मनुष्य जनम परिमाण ए ॥ ते पामे श्रुतज्ञान ए, क्रमथी लहै पद निरवाण ए ॥ ५ ॥ (कलश) शुभ नंद सर निधि चंद्र वरषै माघ सुदि पंचमी दिने, वर नयर वीकानेर सुंदर वृहत्खरतर गण घणे ॥ गणधार कीर्ति सुरिंद पाठक रामगणि ऋद्धिसार ए, इ म करिय स्तवना सुय महोदय सदा जयकार ए ॥ १ ॥ इति ॥

॥ अथ ११ गणधर तपस्या विधिः ॥

॥ शुभ दिन गुरुके पास ११ गणधर तप ग्रहण करै. ११ दिन उपवास वा एकासणा करै. जिस दिन जो गणधर माहारा जंका तप होय उसी नामका २००० गुणना करै ॥

॥ अथ इग्यारे गणधरोंका नाम गुणनो ॥

१ श्रीइंद्रभूतिगणधरायनमः   २ श्रीअग्निभूतीगणधरायनमः

३ श्रीवायुजूतिगणधरायनमः ४ श्रीव्यक्तजूतिगणधरायनमः
५ श्रीसुधर्मास्वामीगणधराय० ६ श्रीमंमितस्वामीगणधराय०
७ श्रीमोर्यपूत्रजीगणधरायनमः ८ श्रीअकंपितजीगणधराय०
ए श्रीअचलजीगणधरायनमः १० श्रीमेतार्यजीगणधरायनमः
११ श्रीप्रजावजीगणधरायनमः

॥ यह ११ गणधर जगवंत श्री महावीरस्वामीके शिष्य जातिके ब्राह्मण थे, विद्यमान द्वादसांगीके रचना करणेवाले जये. इस वास्ते मंगल जाणके यह तपस्या करै. गणधरपद्की आराधना करै, गोतमरास सुणे, पूर्ण होणेसें गणधरोंकी पूजा करावै, आचार्य उपाध्यायादिककी जक्ति करै, यथाशक्ति परमान्न जोजनसे साहमी वच्छल करै ॥ इति एकादश गणधर तपविधिः ॥

॥ अथ सर्व तपस्या प्रथम गुरुके पास ग्रहण करै सो विधि ॥

प्रथम ५ साथिया करै (नमंतसामंत) यह गाथा पढके शक्ति मुजब ज्ञान पूजा करै, इरियावही पमिक्कमे, एक लोगस्सका काउसग्ग करै, पार के प्रगट लोगस्स कहै, नीचा वैठके मुंहपत्ती पमिलेहै, दो वांदणा देवै, स्थापनाजीको खमासमण देई (जगवान अमुक तप गहणत्थं चेश्यं वंदावेह) एसा कह चैत्यवंदन करै, णमोत्थुणं इत्यादि अरिहंतचेश्याणं अन्नत्थु० कह ४ थुई कहै, चोथी गाथा कहके नीचा वैठके णमोत्थुणं कहै, फेर खमा होके (श्रीशांतिनाथस्वामी आराधनार्थं करेमिकाउसग्गं अन्नत्थू०) कहके १ लोगस्सका काउसग्ग करै, पार के नमोर्हतसिद्धा० कहके (श्रीमतेशांतिनाथाय, नमःशांतिविधायिने ॥ त्रैलोक्यस्यामराधीस, मुकुटाज्यर्चितांह्रये ॥ १ ॥ यह थुई कहके (शांतिदेवताआराधनार्थंकरेमिकाउसग्गं अन्नत्थु०) कहै, एकेक नवकाराका काउसग्ग करै, थुई पढै, (शांतिःशांतिकरःश्रीमान्, शांतिदिशतुमेगुरुः ॥ शांतिरेवसदातेषां,

षेषांशांतिर्गृहे २ ॥१॥) पीछे श्रुतदेवताकी क्षेत्रदेवताकी नुवनदेवताकी स्तुति काउसग्ग एकेक नवकारका करके अनुक्रमसें कहै. पीछे शासनदेवताका काउसग्ग एक नवकारका करै (यापातिशासनंजैनं, संघप्रत्यूहनाशनी ॥ साभिप्रेतसमृध्यर्थं, नूयाच्छासनदेवता ॥१॥) पीछे समस्त वैयावृत्ति कर आराधनार्थं करेमि काउसग्गं अन्नत्थु० एक नवकारका काउसग्ग करै, पार कै (श्रीशक्रप्रमुखायक्षा, जिनशासनसंस्थिताः ॥ देवान्देव्यस्तदन्येपि, संघरक्षंत्वपायतः) यह थुई कहकै नीचा बैठके नमोत्थुणं कहै, जयविराय पर्यंत चैत्यवंदन करै. फेर खमासमण देके (नगवन् अमुक तप गहणत्थं करेमि काउसग्गं) एक लोगस्सका काउसग्ग करै, पार के प्रगट लोगस्स कहै, खमासमण देके ३ नवकार गुणे. फेर खमासमण देकै (इच्छकार नगवन् अमुक तप ग्रहण दंडक उच्चरावो जी) गुरु कहै (उच्चरावेमो) पीछे (अहसंनंतेतुह्माणंसमीवे अमुकतवंउपसंपज्जित्ताणंविहरामि ॥ तंजहा दव्वउ कालउ नावउ दव्वउणं अमुकतवं खित्तउणंइच्छावा अन्नछदा कालउणं जावपरिमाणं नावउणं जावंगहेणंनगहिज्जामि जावछलेणंनछलिज्जामि सन्निवाएणंनन्निज्जामि जावअसेणवा केणइरोगायंकादिपरिणामवसेण एसोमेपरिणामोनपरिवज्जइ तावमेएसतवो अन्नछरायानियोगेणं गणानियोगेणं बलानियोगेणं देवानियोगेणं गुरुनिग्गहेणं वित्तीकंतारेणं अन्नत्थणानोगेणं सहस्सागारेणं महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि॥) जो तप ग्रहण करै उसी तपका नाम लेके गुरुके पास ३ वेर यह पाठ सुणे, गुरु नहीं होय तो थापनाचार्यजी समक्ष तीन वार यह पाठ पढै, पीछे गुरु कहे (हत्थेणं सुत्तेणं अत्थेणं तदुनयेणं सम्मं धारणीयं गुरुगुणेहिंवुड्ढाहि नित्थारगपारगाहोहि) एसो गुरु कहै. पीछे खमासमण देके गुरुमुखे पच्चखाण करै अथवा गुरु नहि होय

तो आप मुखे करै. इति सर्व तपस्या ग्रहण विधिः संपूर्ण ॥

॥ अथ सर्व तप पारणविधिः लिख्यते ॥

प्रथम ज्ञानपूजा करके इरियावही पडिक्कमे, अमुक तवपा० मुहपत्ती पडिलेहे २ वांदणा देवै (इच्छाकारेण संदिस्सह भगवन् तुम्हे अम्हं अमुक तप पारावेह) गुरु कहे (पारावेमो) इच्छामिख-मासमणो० इच्छाकारेण संदिस्सह भगवन् अमुक तप निरकमणत्थं करेमि काउसग्गं अन्नत्थू० कहके १ नवकारका काउसग्ग करे, स्तुतिकी गाथा कहे, पीछे णमोत्थूणं कहै, बेठके भगवन् अमुक तप करतां अविधि आशातनायें करी जो कोइ दूषण लागो होय सो मन वचन कायायें कर मिच्छामिदुक्कडं. और ज्ञानभक्ति इत्यसें भावसें किया होय सो प्रमाण फल दायक होणा. गुरु कहे (नित्थारगपारगाहोह) पीछे पच्चरकाण करै, अमुक तप आलोयण निमित्तं करेमि काउसग्गं अन्नत्थू० कहके ४ लोगस्सका काउसग्ग करै, प्रगट लोगस्स कहै, पीछे उपगरण पात्र भक्त पानादिकसें साधुभक्ति करै. अपनी शक्ति मुजब जैनशास्त्रके पढणेवाले तथा पढाणेवाले विद्यागुरुको भक्ति करै, साहमी वच्छल करै, पहरावणी करै, पीछे याचकोंका दान सन्मान करै ॥ इति सर्व तपस्या पारण विधि ॥

॥ अथ उपधान तप स्तवन लिख्यते ॥

॥ श्रीमहावीर धरम परगासै, बैठी परखद बारजो ॥ अमृत वचन सुणी अति मीठा, पामे हरख अपार जी ॥ १ ॥ सुणो२ श्रावक उपधान वह्या विन, किम सुझे नवकार जी ॥ उत्तराध्ययन बहुश्रुत अध्ययने, एह भण्यो अधिकार जी ॥ सु० ॥ २॥ महानिशीत सिद्धांत मांहे पिण, उपधान तप विस्तार जी, अनुक्रम सुद्ध परंपर दीसे, सुविहित गच्छ आचार जी ॥ सु० ॥ ३ ॥ तप उपधान वह्यां विन किरिया, तुच्छ अलप फल जाण जी, जे

उपधान वह्यां नर नारी, तेहनो जनम प्रमाण जी ॥ सु० ॥ ४ ॥ तप उपधान कह्यो सिद्धांने, जो नवि माने जेह जी ॥ अरिहंतदेव-नी आण विराधे, भमस्ये भव२ तेह जी ॥ सु० ॥ ५ ॥ अयज्या घाट समा नर नारी, विन उपधाने होय जी ॥ किरिया करता आदेश निरदेश, काम सरे नहि कोय जी ॥ सु० ६ ॥ इक घेवरने खांडे भरियो, अतिघणो मीठो थाय जी ॥ एक श्रावक उपधान वहे तो, धन२ ते कहिवाय जी ॥ सु० ७ ॥ (ढाल २) ॥ नवकारतणो तप पहिलो वीसठ जाण, इरियावहीनो तप बीजो वीस ठ आण ॥ इण विहुं उपधाने निश्चे नाण मंडाण, वारे उपवासे गुरु मुख वे वे वाण ॥ ८ ॥ पैंत्रीसठ त्रीजो णमोत्थुणं उपधान, त्रिण वायण उगणीस तप उपवास प्रधान ॥ अरिहंतचेई तप चोथो चोकठ एह, उपवास अढाई वाण एक गुण गेह ॥ ९ ॥ पांचमो लोगस्स तप अठावीसठ नाम ॥ साढापनरह उपवास वायण त्रिण ठाम ॥ पुक्खरवरदी तप छठो छकठ सार, साढात्रण उपवासे वाण एक सुविचार ॥ १० ॥ सिद्धाणंबुद्धाणं सातमो उपधान म्हाल, उपवास करै इक चोविहार ततकाल ॥ एक वाणि करै वलि गुरुमुख सरस रसाल, गच्छनायक पासे पहरै माल विशाल ॥ ११ ॥ माल पहरण अवसर आणी मन उछरंग, घर सारू वारू खरचै धन बहु भंग ॥ अति उच्छव कीजै राती जोगो दिल खोल, गीत गान गवा वै पावे अति रंगरोल ॥ १२ ॥ (ढाल ३ ॥) ए साते उपधान, विधिसौं जे वहै, ते सूधो किरिया करै ए ॥ खिण न करै परमाद, जीव जतन करइ, पूंजि२ पगलां भरै ए ॥ १३ ॥ न करै क्रोध कषाय, हठ२ हसै नहीं, मरम केहनो नवि कहै ए ॥ नाणे घरनो मोह, उत्कृष्टी करै, साधुतणी रहणी रहै ए ॥ १४ ॥ पहुर सीम सिझाय, करि पोरसि भणी, ऊंचै स्वर बोलै नही ए ॥

मन मांहे नावे एम, धन२ ए दिन, नरनव मांहि सफल सही ए ॥ १५ ॥ जे साते उपधान, विध लेती वहै, पहिरै माल सोहामणी ए ॥ तेहनी किरिया शुद्ध, बहु फल दायक, करम निर्जरा अति-घणी ए ॥ १६ ॥ परनव पामे ऋद्धि, देवतणां सुख, बत्तीसबद्ध नाटक पभै ए ॥ लाने लील विलास, अनुक्रम शिवसुख, चढती पदवी जे चढै ए ॥ १७ ॥ (कलश) इम वीर जिनवर नुवन दिनयर माता त्रिसला नंदणो, उपधानना फल कहै उत्तम नवि-य जन आनंदणो ॥ जिनचंद युगपरधान सदगुरु सकलचंद मुनी सरो, तसु सीस वाचक समयसुंदर नणै वंछित सुखकरो ॥ १८॥ इति सात उपधान गर्भित स्तवन संपूर्ण ॥

॥ अथ संघ मालारोपण विधि लिख्यते ॥

प्रथम मालारोपणके मुहुर्त्तके पहिले दिन मध्यान्ह समें सु-हागणस्त्री चांदी आदिके थालके अंदर कुंकुमका साथिया करके ऊपर चावलोंका करै, पांच सुपारी १ नालेर धरके माला पधराके सुहागणस्त्री अपणें हाथसें सिर पर धरै, पीछै सब संघ समेत गीत गाते वाजित्र वाजते गुरु पास आवै, सधवस्त्री गुंहली करै, ओर स्त्रियां गहुंली गावै, पीछै गुरु ऊर्ध्व सांससें वर्द्धमान विद्यासे मंत्रकर वासक्षेपसें माला प्रतिष्टित करै. यथा ॥ ॐह्रींणमोअरिहंताणं । ॐह्रींणमोसिद्धाणं । ॐह्रींणमोआयरियाणं । ॐह्रींणमोउवज्झायाणं । ॐह्रींणमोलोएसव्वसाहूणं । ॐह्रींणमोअरहउ नगवउ वद्धमाणसा-मिस्स ॥ जएविजये जयंते अपराजिए सवठसिद्धिए ॐ ह्रीं ठः ठः ठः स्वाहाः ॥ इति वर्द्धमानविद्याः ॥ पीछै वाजित्र वाजते स्वस्थानके आवै, बाजोट पर थाल रखै, धूप दीप संयुक्त रात्रीजागरण करै, श्रीफलादिककी प्रनावना करै, पीछै मालाग्राहक प्रनात समें प्रति-क्रमण करके पमिलेहण देववंदनादि करके जिनपूजा करै, पीछै

मुहुर्त्तकी वखत वाजित्रादि उत्सव संघ समेत गुरु पास आवै, पाच श्रीफल रोक द्रव्य हाथमें लेके पहले जो नांदकी थापना करी है-नांद कहीये समोसरणका चित्रपट सो वरूी ववणी पर मोलीसे लपेटके थापे सो उस नांदके च्यारों खूणो पर च्यार साथिया कुंकुं उर चावलोका करके नारेल उर रोक मोहर वगेरे भेट करै. साथियों पर अच्छे विदामादि फल चढावे. पीछे मालाग्राहक चरवला मुहपत्ती हाथमें लेके गुरूके संग इरियावही पडिक्कमे. पीछै श्रावक खमासमण देके श्रावकमुहपत्ती पडिलेहै, फेर खमासमण देके इच्छकारभगवन् तुह्मे अम्मं संघपति मालाआरोहावणि देववंदा मणि वासनिक्षेप करो. तव गुरु वासक्षेप करै. पीछै फेर खमास मण देई तुह्मे अह्मं संघपति माला आरोहावणी देववंदावो, गुरु कहे वंदेह, श्रावक इच्छं कही गुरुके साथ देववंदन करै ॥

॥ अथ देववंदन विधिः ॥

॥प्रथम खमासमण देके इच्छा० भगवन् चैत्यवंदन करुं. गुरु कहे करेह. पीछै गुरु चैत्यवंदन वोलै. श्रावक णमोत्थुणं कहै अरिहंत चेइयाणंक० कहके एक नवकारका काउसग्ग करै, नमोऽर्हत्सिद्धा० कहके गुरु स्तुति कहै. यथा ॥ अर्हतनोतुसश्रेय। श्रियंयध्याननोनरैः । अप्येंद्रीसकला त्रेहि । रहंसासहसोच्यते ॥ १ ॥ पीछै लोगस्सउज्जो० सवलोए० वंदणव० अन्नत्थु० कहके १ नवकारका० स्तुति कहै. उमितिमंतायं । शासनस्यनतासदायदंह्रीच । आश्रियंतेश्रियांते । भवतोऽजिनापातु ॥ २ ॥ पीछै पुक्करवर० वंदन० कहके १ नवकारका० स्तुति कहै. नवतत्वयुतात्रिपदी । मिश्रेतारुचिज्ञानपुण्यशक्तिमता, वरधर्मकीर्त्तिविद्या । नद्यास्याजैनगीर्जीयात् ॥ ३ ॥ पीछै सिद्धाणंबुद्धाणं० ततः श्रीशांतिनाथ आराधनार्थं करेमि काउसग्गं वंदणव० अन्नत्थु० कहकै एक लोगस्सका काउसग्ग करै, नमोऽर्हत्० स्तुति कहै ॥ श्री

शांतिश्रुतशांति । प्रशांतिकोवशांतिमुपशांति । नयतुसदायस्यपदा । सुशांतिदाःशांतिजिने ॥ ४ ॥ ततः द्वादशांगीआराधनार्थं क० वं० एक नवकारका० पारके नमोर्हत्सि० ॥ सकलार्थसिद्धिसाधन । बीजो .पांगासदास्फुरडुपांगा । जवतादनुपद्दतमद्दा । नमोपद्दाद्वादसांगीव ॥ ५ ॥ ततः सुयदेवयाए आराधनार्थं करेमि काउसग्गं अन्नत्थु० कहके १ नवकारका० नमोर्हत्सि० ॥ वदवदतीवागवादनी । जगवतिकःश्रु तगमेछु । रंगत्तरंगमितिवर । तरणीस्तुज्यंनमइतिहः ॥ ६ ॥ ततः शासनदेवता निमित्तं करेमि का० अन्नत्थु० १ नवकारका० स्तुति॥ उपसर्गविलयवियन । निरत्तीजिनशासनावनैकरता । द्रुतमिहसमिही- तत्कृते । स्युशासनेदेवताजवतु ॥ ७ ॥ पीछै समस्त वेयावच्चकरा- णं शंतिकराणं सम्मदिठिसमाहिकराणं अन्नत्थू० १ नवकारका का- उसग्ग स्तुति०॥ संघत्रयेगुरुगुणोघनिधेसुवैया । व्रत्यादिकृत्यकरणैक निबद्धकक्षा । तैशांतयेसहजवंतुसुरासुरीजिः । सद्दृष्टयोनिखिलविघ्न विघातदक्षा ॥ ८ ॥ प्रगटपणे एक नवकार नमोत्थुणं जावंतिचे० नमोर्हत्सि० कहकै स्तवन कहै ॥ ऊँमितिनमो जगवउ । अरिहंत सिद्धाचारियउवझाए । वरसव्वसाहूमुणिसंघ । धम्मतित्थयपवयण स्स ॥ १ ॥ सप्पणवनमोतहजगवइ । सुयदेवयाइसुहयाए । सिव संतिदेवयाय । सिपवयणवदेवयाणंच ॥ २ ॥ इंदागणीयमनेरइया । वरुणोवायुकुवेरईसाणा । वंजोनागुत्तिदशम । मवियसुदिसाणपाला ण ॥ ३ ॥ सोमयमवरुणवेसमण । वासवाणंतहयपंचएहं । तहलोगपा- लयाणं । सुराई गहाणयनवन्हं ॥ ४ ॥ साहंतस्ससमरकं । मझमिणंचेव- धम्मणुठाणं । सिद्धिमविग्घंगछउ । जिणाणंनवकारउजणियं ॥ ५ ॥ इति स्तवनं ॥ जयवीराय कहै पीछै जगवान आगे पम्हा करकेमालाग्राह क गुरुकूं द्वादशावर्त्त वंदनार्थे वांदे, पीछै खमा होके कहै इच्छाकार ज० तुझे अह्मं संघपति मालाआरोहावणी उद्देसावणी नंदीसूत्र

संभलावणी काउसग्ग करावो. गुरु कहे करेह. इच्छं. संघपतिमाला धारो० उद्दे० करेमि काउसग्गं अन्नत्थु० कहके १ लोगस्सका का० प्रगट लोगस्स कहे, गुरुजी काउसग्ग करे. पीछे मालाग्राहक खमा समण देइ इच्छाकार भगवन् नंदीसूत्र संभलावो, तब गुरु खडा होकर हाथमें वासक्षेप लेके तीन नवकार सुणावे, नित्थारगपार गाहोह कहके मस्तक पर वासक्षेप करे, पीछे श्रावक खमासमण देके इच्छा० संघपति माला उद्देसउ, गुरु कहे उद्देसउं. फेर श्रावक इच्छामि० इच्छाका० किंभणामी, गुरु कहे वंदित्त पवेह. खमासमण देके इच्छं तुह्मे अह्मं संघपति मालाउद्दिठ इच्छामो अणुसठिं उद्दिठ२ ख मासमणाणं हत्थेणं सुत्तेणं अत्थेणं तदुभयेणं जोगकरीजाहि गुरु गुणावुद्धीजाहि नित्थारगपारगाहोह. फेर खमासमण देई तुह्माणं पवेइए संदिसह साहुणंपवेमी, गुरु कहे पवेह. पीछे खमासमण देके तीन नवकार गुणता भया नांदकूं तीन प्रदक्षिणा देवे वासक्षेप चढावे. गुरु १ प्रदक्षिणा देवे. पछे मालाग्राहक मूहपत्ती पडिलेहै, खमासमण देके इच्छाका० तुह्माणंपवेइयं संदिसहभगवन् काउसग्गं करेमी इच्छामी० इच्छाका० भगवन् तुह्मे अह्मं संघपति माला उद्दे सावणी आरोहावणी करेमिकाउसग्गं अन्नत्थु० कहके १ लोगस्सके काउसग्ग प्रगट लोगस्स कहै पीछे खमासमण देके वेसणो संदिसाउं दूजे खमासणे वेसणो ठाउं, पीछे खमासमण देके जो विधि करत अविधि आसातना लागी होय ते सहु मन वचन कायायें करी मि इति नांदकी क्रिया ॥ पीछे मालाग्राहक भगवानके नव अंग नव र पिया मोहर वगेरे चढाके नमस्कार करे, मुहुर्त्तकी वखत मंदरजी बाहिर जमीन खुली होय तो भगवानके सनमुख सर्व संघ आय खडा रहे, पीछे मालाग्राहक गुरुके पास आके नव अंग पूजा करे, न रुपिया मोहर आदि ज्ञान निमित्ते भेट धरे. पछे गुरु उर्ध्वश्वासे माला

हाथमें लेके ७ नवकार गुणै, पीछै जो माला पहिरावै जिसकों माला पहिरणेवाला यथाशक्ति पहरामणी करै. माला पहिराणेवाला ऊर्ध्व-श्वासें करी संघपतिकों माला पहिरावै, दोनुं जणें ८ दिन तक सच्चित्त कुशीलादिकका गुरु पासे पच्चखाण करै, पीछै मंदरजी पर चढाणे-की धजा सो संघपति थालमें लेके मंदिरजीके बाहिरकर तीन प्र-दक्षणा देकर गुरु पास वासक्षेप पूजन कराके मंदिरजीके ऊपर चढावै, पीछै सर्व संघके सामने गुरु धर्मोपदेस देवै, साधर्मी वात्स-ल्य करै ॥ इति संघपत्ति मालारोपण विधिः ॥

॥ अथ उपधान तप विधि लि० ॥ नित्यकर्त्तव्यता यथा ॥

॥ नित्यकर्त्तव्यता कुछ तो शास्त्रोके लिखतसें कुछएक दे-देखणेमें आई जो परंपरा सो लिखते हैं ॥ उपधानवाला श्रावक विगयोमेंसें एक घीहीज लेता हे उर विकृती नहीं लेता १, उप-धानमें तीस विगयोंकी नीवीतोंमेंसें एकही नीवीता लेणा का-रणयोगसें खांड वगेरे लेणेकी जयणा २, उत्कट इत्यादिक नही लेणा ३, घी तेलका वघारया साग भी नहीं लेणा धूंगारया हुवा लेणा ४, हरासाग नीलोती नहि लेणा ५, तलाहुवा पापड सीरा वडे वगेरे नहि लेणा ६, अन्न पुरषणेवाली रात्री प्रायश्चित करणेसें स्त्री शुद्ध होती है अन्यथा नही ७, अन्न पुरषणेवाली स्त्री फटावस्त्र अथवा कारीलगावस्त्र नहि पहरे ८, भोजन करणेकी जगा झाडू वगेरे देणेवाली व्रत प्रायश्चित करै अखंडित वस्त्र रखे तो शुद्ध ९, जितने वस्त्रादि उपकरण तप प्रवेशके प्रथम दिन पासमें रखे हैं वो सब भोगाभोगकी दोनों वखत पडिलेहणा करणी १०, जीमणके ठिकाणे जो जो थाली कटोरा वगेरे रखे हे वो सब भोजन करे जिस दिन पादोनपोरसीमें पडिलेहणाकी वखतही पडिलेहणा दुसरी वखत अन्यदा नही ११, कदाचित् हार कुंडलादिक गहणा अपणे

शरीरसें उतारके अपणे घरादिकमें रखा होय तब विना उपधान-वाली जो स्त्री अठपहरी पोसा लिया हुवा होय तिसके हाथसें रातका दिनका नही वह उपधानवालीकूं देवै उर वोही स्त्री प्रभात समें उनके कहे मुजब ठिकाणे धरदेवै १२, उपधानमें सर्व वस्त्र आप अथवा मालकणके हाथसें पडिलेह्यां शुद्ध होय १३, सब क्रिया अनुष्ठानादिक आदेस निर्देसादिक मालकणके आदेससें शुद्ध होय १४, क्रिया अनुष्ठानकी कराणेवाली मालकण भी दोनुं वखत पडिक्कमण करै रात्री प्रायश्चित्त करै सात वेर देव वांदे तब शुद्ध होय अन्यथा नही १५, रजस्वलाके तीन दिन तपमें नहीं गिणे जाय १६, महास्वध्याय संबंधी आसोज सुदिकी तथा चैत्र सुदिकी सातम आठम नवम दिन तीन तपस्यामें नहीं गिणे जाय १७, प्रतिक्रमणमें प्रभात समें नवकारसीकाही पच्चख्काण करै पीछे क्रिया करती वखत गुरूके पास उपवास १ अथवा आंबिल २ नीवी ३ अथवा एकासणेका ४ करै १८, पच्चख्काण पारती वखत पहली नवकारसी पारै पीछै उपवासादिक पारै १९, पहले दो उपधान तप ग्रहण करणेके दोनों दिन नंदीके आडंबरसें देरी हो जाती है इस वास्ते अठपहरी पोसा वण नहि आता इस वास्ते तीसरे पहरकी पडिलेहण किये बाद सर्वोपगरणोकूं पडि-लेहके रातकूं निश्चै पोसा लेणा २०, प्रभातसमें उपधानवाही गुरु-के पास आयके इरियावही पडिलेहके पोषध वपुन सामायक लेके वस्त्र पडिलेहणा उर अंग पडिलेहणा करै, पीछै मुहपत्ती पडिले-हके (उहीपडिलेहणसंदिस्साउं उहीपडिलेहणकरूं) एसे खमासण दोय देवे पीछे छव वंदन दिये बाद खमासमण दश देवै उसका क्रम एसे हैं वहुवेलसंदिस्साउं १ वहुवेलंकरूं वैसणोसंदि० वैसणो-ठाउं० सिझायसं० सिझायक० पांगरणोसं० पांगरणोपडिगहुं

कहासणोसं० कहासणोपमिग्गहूं) एवं१० ॥ २१, पीछै वंदन दियां वाद सुख तप पूछा २२, सांझकूं जी यही क्रिया करणी लेकिन इतना विशेष हे पट पमिलेहणा उर अंग पमिलेहणा तो करै परंतु उपधि पमिलेहण नही करै, पीछै गुरुवंदन छव दिये वाद खमासमण दस देवै (उहीपमिलेहणासंदिस्सा० उहीपमिलेहणकरूं सिझायसं० सिझायक० वैसणोसंदिस्सा० वैसणोठाउं) बाकी पहलीकी तरै २२, न्यारा पमिक्कमणा होणेसें पाछीवंदना सुखतपपूछना पर्यंत क्रिया सव करदेना २३, माला पहरणेमें सांझकूं माला मंत्रायके अपने घर रात्रीजागरण करकै प्रज्ञातसमें आचार्य पास माला पहरणी तिसके वाद दिन दश तक दशाहिका करणी उहां पोसा नही लिया हुआ जी हे तो जी तिविहार एकासणा करताजया निरारंजी होकर रहै २४, सजी उपधान उत्कृष्ट विधिसें वहना, उसके अजावमें श्रावक एकांतर उपवास उर साधुओंने उपवास आमल निवी एकासणा करकै उतनेही उपवासकी संख्या पूर देणी लेकिन् दिन संख्याका नियम नहीं हे ॥ इति नित्यकर्त्तव्यता समयसुंदरोपाध्याय कृत संस्कृतोपरिअस्मद् कृत जाषा संपूर्ण ॥

॥ अथ उपधान तप विधि लिख्यते ॥

पंच मंगल श्रुत नवकार जिसका उपधान वहणेवाला वारे उपवाश अथवा चोवीस आंबिल ३५ नीवी अमतालीस एकासणा करके १२ उपवासको पैठ पूर कर पीछै पांच अध्ययनकी वाचना नमो अरिहंताणंसें लेके नमो लोएसव्वसाहूणं तककी १ वाचना एक दिनमें लेवे, तिसके वाद तीन अध्ययनकी वाचना एसोपंचनमोक्कारो १, सव्वपावप्पणासणो २, मंगलाणंच०३ वेसिं पढमंहवइमंगलं ॥ एवं ३, अध्ययनकी दूसरे दिन एक वाचना करै, फेर इस नवकारके आठ अध्ययनोंकी एकही वाचना एक दिनमें लेवे तो छवतो आंबिल करै,

फेर तेला करे; तेलेके पारणे आंबिल करै, फेर तेला करै, फेर आंबि ल करे, फेर तेला कर पारणा करके आठ अध्ययनोंकी एकही दिनमें वाचना लेवे. आठ आंबिल ३ तीन तेला मिलाणेसे उपवास १२ नये. यह पंच मंगल नवकारका पहिला उपधान अविधिसें करे तो पोसा २० वीस करै उपवास १२ करै, विधिसुं वहे तो १६ पोसा उपवास १२॥ यह पहिला वीसरूतप २०॥ अब दूसरा इरियावहीका उपधानमें आठ अध्ययन तीन अंतकी चूला उसमें नी अगलेकी तरेही १२ उपवासादिक पीछे इच्छाकारेणसंदिस्सहसुं लेकर जेमे जीवाविराहिया तक एक वाचना लेणी, एगेंदियासें लेकर ठामिकाउसग्गं तक दूसरी वाचना देणी, उर एकही वाचना लेणी होय तो पहली तरे आठ आंबिल ३ तेला करके लेवै ॥ इरियावहिया श्रुतस्कंधका तप वीसरू नामका अविधिसें पोसा २० उपवास १२, विधिसुं वहे तो पोसा १६ उपवास १२॥ ॥ अब तीसरा नावारिहंतका तीसरा उपधान उगणीस उपवासकी पैठपूरकर वाचना ३ लेवे सो इस मुजब. पहली १ तेला करै पीछै नमोत्थुणंसे लेकर गंधहत्थीणं तक पहिली वाचना लेवे, फेर १६ आंबिल करै, लोगुत्तमाणंसें लेकर धम्मवरचाउरंतचक्कवट्टीणं तक दूसरी वाचना लेवै २, पीछै सोले आंबिल करके अप्पडिहयवरणाण सें लेकर सवेतिविहेणवंदामि तक तीसरी वाचना लेवै ३, यह तीसरा उपधान नमोत्थुणका पैंत्रीसरू नामका जिसमें उपवास १९ विधिसुं वहे तो पोसा ३५, अविधिसुं करता पोसा उपवास ॥ ॥ अथ चोथा स्थापना अरिहंत श्रुतस्कंधका उपधान अध्ययन तीन. जिसमें पहली १ उपवास कर ३ आंबिल तीन करै. अरिहंतचेइआणं इहांसें लेकर वंदणवत्तियाए अन्नत्थउससीएणं अप्पाणंवोसिरामि तक १ वाचना लेणी. यह थापनारिहंतका

चोथा उपधान चउक्कम नामका जिसमें पोसा ४ उपवास १॥ अढाई ॥ ॥ नामारिहंत चउवीसत्थेका पहले तेला करै, पीछे लोगस्सउज्जोयगरे इहांसे लेके चउवीसंपिकेवली तक पहली वाचना लेवै, फेर बारे आंबिल करके उसभ्रमजियंचवंदे इहांसे लेकर पासंतहवद्धमाणंच तक दूसरी वाचना देणी, फेर तेरे आंबिल करके एवमएअभित्थुआसे लेकर सिद्धासिद्धिंममदिसंतु तक तीसरी वाचना लेवै. ए नामारिहंत चउवीसत्थेका अठावीसम्नाम तप विधिसुं वहतां दिन २८ पोसा २८ उपवास साढापनरे एकांतर करै, अविधि करता दिन अठाईस पोसा २८ उपवास साढासतरे ॥ ५॥ सुत्रार्थश्रुतस्कंध पहली १ उपवास पीछे ५ आंबिल पीछे पुक्करवरदीवड्ढेसें लेकर सुयस्सभगवउकरेमिकाउसग्गं तक एक वाचना देणी. यह छठा उपधान श्रुत्रार्थक नाम छक्कम पोसा ६ उपवास साढातीन ॥६ ॥ ॥ अथ सिद्धार्थकश्रुतस्कंध सातमा उपधान पोसह समेत चोविहार उपवास १ करै, पीछे सिद्धाणंबुद्धाणंसें लेके तारेइनरंवनारिंवा तक एक वाचना देणी. यह सातमा उपधान मालाका तप ॥ ७ ॥

॥ अथ उपधान तप प्रवेश विधि लिख्यते ॥

॥ जब वहोत श्रावक अथवा वहोत श्रावकणीयां उपधान वहे तब तो संघके नामसे चंद्रमा अच्छा देखणा, संघकी कुंभरासी है. अगर एक श्रावक अथवा एकही श्रावकणी उपधान वहे तो अपणे नामसें चंद्रबल लेवै तथा उपधानवाही सांझकूं वाचनाचार्यके पास आयके इरियावही पडिक्कमके खमासमण देके कहे (अमुक उपधान तपे पवेसह) गुरु कहे (पवेसामो, नवकारसी करणा अंग पडिलेहण संदिस्साणा) तब उपधानवाही कहे (तहत्ति) इहां क्षमाश्रमण दिये बाद चोवीहार करै, चाहेपाणी पीवे वा अथवा भोजन

फरो व्यवस्था नहीं है, अथ किसी ज्नी कारण करके सांऊकूं खमासण नहीं दिया होय तो तब पमिकमणेके वखतसे पहली पिछली रातकूं ज्नी खमासण देणा काल वखत पमिक्कमणा करणा नवकारसीका पच्चरकाण मालकण पास करणा पीछे सूर्य नदय ज्नये वाद वाचनाचार्य पास आणा. तहां पहले दो नपधानमें (नवकारके नर इरियावहीके) तो प्रारंज्नमें अवस्य नंदीकी स्थापना करणी नर नंतक्षेप ज्नी इन दोनों नपधानोंका नंदीमेंही करणा. इस नपरांत वाकी नपधानोंमें नंदीका नियम नही हे. तिसके वाद प्रज्नातसमें पहले नतक्षेप करणा, तिसके वाद पोसा सामायक लेणा, पीछै दो वांदणा देके पच्चरकाण करणा, फेर मुहपत्नीपूर्वक सुखतप पृछा वांदणा दोय देवै ॥ इति नपधान तप प्रवेश विधि ॥

॥ अथ नपधान तप नत्क्षेप विधिः लिख्यते ॥

॥ पहले इरियावही पमिक्कमके मूहपत्ती पमिलेहके दो वांदणा देवे, खमासण देके नपधानवाही कहे (पहले नपधानमें पंच मंगल महासुयरकंध तवं नरिकवह) गुरु कहै (नरिकवामो) पहले पंच मंगलनपधान महाश्रुतकंध नखेवावणियं नंदीपवेसावणियं कानसग्गं करावेह, गुरु कहै करावेमो. पहले नपधान पंच मंगल महासुयस्कंध नस्केवावणियं नंदिपेवसावणियं करेमिकानसग्गं अन्नबनससिएणं इत्यादि कानसग्गमें चंदेसुनिम्मलयरा तक चिंतवै, पार के प्रगट लोगस्स कहे, पीछै खमासण देके पहले नपधान पंच मंगल महा श्रुतस्कंध नस्केवावणियं चेइयाइंवंदावेह, गुरु कहे वंदावेमो, वासक्षेपंकरावेह, गुरु कहे करेमो. पीछै वासक्षेपपूर्वक संपूर्ण चैत्यवंदन करै, एसें सर्व नपधानोंमें नत्क्षेप जाणना. इतना विशेष हे पहले दो नपधानो का नत्क्षेप नंदीमेंही करणा वाकी नपधानोके विषे सो जव नंदी होय जव तो नंदीमें करे जो नंदी नही थापे तो प्रातसमे प्रवेश

के दिन उत्क्षेप करणा, लेकिन् जो जो उपधान वहे उस२ का नामोच्चारण करणा ॥ इति उत्क्षेप विधिः ॥

॥ अथ वाचना विधिः ॥

॥ सांझकूं पहिले चोविहारका पच्चख्काण कर इरियावही पडिकमके मुहपत्ती पडिलेहके दो वांदणा देवै पहले उपधान पंच मंगल महा श्रुतस्कंधका प्रथम वाचना प्रतिग्रहण निमित्तं करेमि काउसग्गं अन्नत्थू० कहके काउसग्ग सागरवरगंभीरा तक लोगस्स विचारे, पार के प्रगट लोगस्स कहे, दोय खमासमण देके इच्छाकारेणसंदिस्सह पहिले उपधान पंचमंगल० प्रथम वाचना प्रतिग्रहणार्थं चेइयाइ वंदावेह, गुरु कहे वंदावेमो. वासक्षेपकरावेह, करावेमो. पीछे गुरु वासक्षेप करै, पीछै चैत्यवंदन करै, पीछै खमासण देके उपधानवाही दोनुं हाथोंमें मुहपत्ती लेके मुखकूं ढांककर अर्द्धवनतगात्री होयके चार तीन पांचों अध्ययनोंकी वाचना देवे, वाचनामें मिच्छामिदुक्कडं एसें सब जगे वाचनाभिलाप जाणना ॥ १ ॥ इति वाचना विधिः ॥

॥ अथ तपः संपूर्ण क्रिया निक्षेप विधिः ॥

॥ अथ तपस्या पूर्ण होय उस आखरी दिनकों सांझकूं चोविहार करके अथवा प्रभातसमें इरियावही पडिक्कमके मुहपत्ती पडिलेहके दो वांदणा देके उपधानतपवाही कहै—इच्छाकारेण तुम्हे अम्हं अमुक तवंनिख्खिवह, गुरु कहे निख्खिवामो. फेर खमासण देके कहे—इच्छाकारेण संदिस्सह भगवन् अमुक तप निख्खिवणत्थं काउसग्गं करावेह, गुरु कहे करावेमो. इच्छामि० अमुक तप निख्खिवणत्थं करेमि काउसग्गं अन्नत्थू० कहके एक नवकारका काउसग्ग करके खमासण देवै, अमुक तप निख्खिवणत्थं चेइयाइं वंदावेह. वंदावेमो गुरु कहे. पीछै संपूर्ण चैत्यवंदन करै ॥ इति निक्षेप विधि ॥

॥ अथ पडिपुन्ना विगय पारण विधि लिख्यते ॥

प्रभातसमें गुरूके पास आयके न्यारा प्रतिक्रमण किया इस

वास्ते मुहपत्ती पडिलेहके वंदन ब्व देवे (दो वांदणा देवै इसकूं ब्व वंदन कहते हे) गुरूके साथ पडिकमणा कीया होय तो वांदिणा दोयही देवै. पीछै गुरु कहे पवेयणंपवेह एसा कहके कहे पडुपुन्नोविगयपारणयंकरेहत्ति, पीछै अपणी इच्छानुसार पच्चखाण करे पीछै गुरूके सामने कहे उपधानमें अन्नक्ति आसातना करी होय तस्स मिच्छामिदुक्कडं ॥ इति ॥

॥ अथ क्षमाश्रमण विधि लिख्यते ॥

॥ उपधान वहणेवाला प्रभातसमें गुरू पास आयके गुरूकी आज्ञासें इरियावही पडिकमके आगमन आलोचकर पोसा सामायक लेके दोय खमासणपूर्वक पडिलेहणा उर अंगपडिलेहणा करे, पीछै मुहपत्ती पडिलेहके पहिले खमासणासें उहीपडिलेहणसंदिस्साएमि, दूसरी खमासण देके उहीपडिलेहणकरूं, पीछै मुहपत्ती पडिलेहके गुरूकूं ब्व वंदन देवै पीछै गुरु कहे—पवेयणं पवेयह. उपधानवाही कहे. इच्छा० अमुक उपधान निमित्तं निरुंहंवातवंकरावेह. गुरु कहे उपवासे आंबले निरुंदेति एकाशणे, एसा कहे, पीछै दश खमासणासें अनुक्रमसें कहै—बहुवेलंसंदिस्सावेमि १, बहुवेलंकरेमि २, बइसणं संदिसावेमि ३, बइसणं ठाएमि ४, सज्झायंसंदिस्साएमि ५, सज्झायंकरेमि ६, पांगरणोसंदिसाउं ७, पांगरणोपडिग्गहूं ८, कट्ठासणोसंदिस्साउं ९, कट्ठासणोपडिग्गहूं १०. पीछै मुहपत्ती पडिलेहके दो वांदणा देवै, गुरु कहे सुखतप. उपधानवाही कहे, तुमारे प्रसाद ॥ इति प्रभात विधि ॥ अब तीसरे पहरकी पडिलेहणा भये बाद स्थापनाके आगे मालकणीके हुकमसें इरियावही पडिक्कमके पहले खमासणासें पडिलेहण करूं १, दूसरी खमासणासें पोसहसाला प्रमार्जुं २, एसा कहके मुहपत्ती पडिलेहे, एसें दो खमासण देणेपूर्वक अंग पडिलेहणा उर मुहपत्ती पडिलेहे. इहां अंग शब्द करके

कटिपट्ट (अर्थात् कणदोरा जाणना) एसा गीतार्थ कहते हैं. पीछे वसति प्रमार्जकर तहां जो उसही दिन भोजन कीया होय तब तो पहरे वस्त्र पडिलेहे, बाकीके अवशेष वस्त्र नहीं पडिलेहे, जो उस दिन उपवास होय तब तो एकभी वस्त्र नहीं पडिलेहे. पीछे गुरु पास आयके इरियावही पडिक्कमके पडिलेहणा १, अंगपडिले हणा २, फेर गुरूके सामने करे. पीछे सिझायसंदिस्साएमि सिझा यंकरेमि आठ नवकार गुणे. पीछे मुहपत्ती पडिलेहके छव वांदणा देवै. पीछै त्रिविहार अथवा चोविहारका पच्चख्काण कर दस खमा सण अनुक्रमसैं इस मुजब देवे—उहीपडिलेहणसंदिस्साउं १, उही पडिलेहणकरुं २, सिझायसंदिस्साउं ३, सिझायकरुं ४, बइसणो संदिस्साउं ५, वैसणोठाउं ६, कठासणोसंदिस्साउं ७, कठासणोप डिग्गहुं ८, पांगरणोसंदिस्साउं ए, पांगरणोपडिग्गहुं १०. पीछे मुह पत्ती पडिलेहके दो वांदणा देकर सुखतप पूछै, पीछै सर्वोपगरण पडिलेहे, मातृका (पालसिया) प्रमुख पडिलेहै, तथा जिस दिन भोजन करै उस दिन पूण पहरकी पडिलेहणकी वखत थाली क टोरादिक सर्व उपभोगके पात्रादिक पडिलेहै, उपवासके दिन नहीं पडिलेहे ॥ इति तीसरे प्रहर क्रिया विधि ॥ तथा पाखीपडिकम णामें असिझाइका काउसग्ग नही करे तो आवती पख्की तक सर्व ... गंतकी असिझाई होय, इरियावहीका पाठ भी गुणणा नहीं सूझै. इस वास्ते असिझाईमें भी असिझाईका काउसग्ग करणा. युगप्रधान श्रीजिनचंद्रसूरजी महाराजनैं महोपाध्याय श्रीसागर चंद्रगणिकूं पूछा तब एसाही जवाब दिया योगारंभकी यह विधी है ॥ इहां चउमासीमें योगारंभमें वर्षकी महीनेकी शुद्धिका मुहु र्त्त नहि देखणा, दिन शुद्ध देखणा ॥ मृडधुवचरक्षिपैः । वारेभौमं शनिंविना ॥ आद्याटनंतपोनंद्या । लोचनादिसुभं२ ॥ १ ॥ इति

आचारदिन करे ॥

॥ अथ उपधान तप विवरन गाथा ॥

॥ श्रीमुहपत्तीपन्नासं । अठारसआसणम्मिपडिलेहा ॥ दंडे पत्तेसोलस । कप्पेपणवीसगोअमा ॥ १ ॥ पणत्रीसचोलपट्टे । गुरु कंवलतइयच्चेवसंथारे ॥ कठासणेअठारस।जपेदंडेअपंचेव ॥२॥ इति॥ प्रतिलेखणा विचारः ॥ पणउववासायाम । अठ्यंकुणइअठमंअंते ॥ नवकारउवहाणं । इत्तियमित्तंइरियाए ॥ १ ॥ सक्कठयंमितहएगं । अठमंअंबिलाणवत्तीसं ॥ अरिहंतच्चेइयउए । चउत्थमायामतियगं च ॥ २ ॥ चउवीसउएअठम । मेगंपणवीसहुंतिआयामा ॥ नाण अयंमिचउठं । आयामापंचउवहाणं ॥ ३ ॥ चउवीसंउववासा । एगासीअंबिलाणसव्वंगं ॥ पंचोत्तरंचपोसहसय । मुवहाणेसुजाणेसु ॥ ४ ॥ बारसवारसएगो, पणवीसअढाइपाणपन्नरस ॥ अठ्यउववासा । सव्वंगसढचउसठी ॥५॥ नवकारसहियपोरसी । पुरमढअवढएगउ ज्जंतेहिं ॥ इगठाणयनिविगई । विलेहिंअठं वलेणंच ॥ ६ ॥ पणया लाचउवीसं । सोलसचउ१हिअठहिकमेणं ॥ चउइउहियएगेणय । आयरणाहोइउववासे ॥७॥ इति उपधान तपोगाथाविधि संपूर्ण ॥

॥ अथ ऋषिमंडल मंडल पूजा लिख्यते ॥

॥ प्रथम २४ तीर्थंकरोंके नामकी चिठियां लिखके बीच मंडलमें २४ कोठोमें धरे. इति चतुर्विंशति तीर्थंकराः ह्रीँ नमः १ क्रों नमः ववववववववववववववव १, वववववववववववववव २, वववववववववववववव ३, वववववववववववववव ४, ॐ ह्रीँ अर्हद्भ्योनमः ॐ ह्रीँ सिद्धेभ्योनमः ॐह्रीँ आचार्येभ्योनमः ॐह्रीँ उपाध्यायेभ्योनमः ॐह्रीँ सर्वसाधुभ्योनमः ॐह्रीँ ज्ञानेभ्योनमः ॐह्रीँ दर्शनेभ्योनमः ॐह्रीः चारित्रेभ्योनमः ॥ इति प्रथम वलय १॥ दूसरी वलयमें दश दिगपालोके नामकी दस चिठी दश कोठोंमें धरे॥ इति द्वितिय वलय २॥

तीसरी वलयमें नव ग्रहोके नामकी नव कोठेमें नव चिठियां ॥ इति तृतिय वलय ॥ इसके उपरांत अकारादिक सोले स्वर ककारादिक तेतीस वर्ण इंद्रभूति आदि इग्यारे गणधरोके नाम ॐह्रीं युक्त लिखें. पीछे अरुतालीश लब्धिपद ॐह्रींअर्ह एसा आदिमें देकर लिखें ॥ अरुतालीश लब्धिपदोंके नाम नवपद मंडलपूजामें लिखे हे उस मुजब लिखे. पीछे चोवीस तीर्थंकरोके पिता ॐनाभयेनमः १ इत्यादि लिखे. पीछे ॐमरुदेवायैनमः इत्यादि चोवीस तीर्थंकरोंके माताका नाम लिखे ॥ पीछे ॐह्रियैनमः १, ॐश्रियैनमः २, ॐधृत्यैनमः ३, ॐलक्ष्म्यैनमः ४, ॐगोर्यैनमः ५, ॐचंड्यैनमः६, ॐसरस्वत्यैनमः ७, ॐजयायैनमः ८, ॐअंबायैनमः ९, ॐविजयायैनमः १०, ॐक्लिन्नायैनमः ११, ॐअजितायैनमः १२, ॐनित्यायैनमः १३, ॐमदद्रवायैनमः १४, ॐकामांगायनमः १५, ॐकामबाणायैनमः १६. ॐसानंदायनमः १७, ॐनंदमालियेनमः १८, ॐमायात्यैनमः १९, ॐमायाविन्यैनमः २०, ॐरौद्र्यैनमः २१, ॐकालायैनमः २२, ॐकाल्यैनमः २३, ॐकालप्रियायैनमः २४. एसें श्रीदेव्यादि चोवीसोके २४ कोठेमें नाम लिखे. इसके बाद २४ यक्ष उर २४ यक्षणीका नाम लिखे. १६ विद्यादेवीका नामकी स्थापना लिखे, पीछे नव निधानोके नाम लिखे, फेर चोसठ इंद्रोके नाम लिखे. पहली वीशस्थानक मंडलपूजामें लिखा हे उस मुजब. इस मुजब लिखके अष्ट सिद्धिका नाम लिखे ॐअणिमसिद्धयेनमः १, ॐगरिमसिद्धयेनमः २, ॐलघिमसिद्धियेनमः ३, ॐप्राकाम्यसिद्धयेनमः ४, ॐमहिमसिद्धियैनमः ५, ॐईसित्वसिद्धयेनमः ६, ॐविसित्वसिद्धयेनमः ७, ॐप्राप्तसिद्धयैनमः ८, इति अष्ट सिद्धिः नामानि ॥ ॐश्रीधरणेंद्ररक्षतुः १, श्रीपद्मावतीरक्षतु २, श्रीगौतमस्वामिनेनमः ३, श्रीवैरोव्यारक्षतु ४. इति श्रीऋषिमंडल पूजन विधि संपूर्ण. उण पदोंमें

द्रव्य नवपदमंडल वीस स्थानक मंडलपूजा मुजब चढावे ॥

॥ अथ शांतिक पूजाविधि सर्व उपद्रव शांत्यर्थ लिख्यते ॥

॥ शुभ दिन शुभ मुहुर्त्तमें जिनमंदिरमें समवसरण पर जिनप्रतिमा स्थापन करावै, आगे पंचपरमेष्ठीपट्ट स्थापन करे तथा भगवनाके दहिणे पासे दश दिग्पालपट्ट और वांये पासे नव ग्रह का पट्ट स्थापन करै. पीछै एक वडा एक छोटा मट्टीआदिकका हंडा ऊपर खडी सपेदमट्टी पोतके चार२ केसर कुंकूका साथिया करै. पीछै ऊंची नीची दोय टिवची काठकी [illegible]वै, नीची टिवची पर मोटा हंडा धरै, ऊंची पर छोटा हंड[illegible]सर[illegible] हंडेके तले एक छि-द्र करै, दोनुं मटकाके अंदर साथिया करे, वडे मटकेकी टिवची नीचे चावलका साथिया करै, ऊपर नालेर रुपिया थापनाका धरै, दोनुं मटका ऊपर मोलीसूत्र वटके पंचरंगी खजली एकेक खूणे २१ इकीस२ पोकर च्यारों कोणोंमें ८४ खजली पोके तणी बां-धे, नालेरके आकार मोलीसूत्रको दडो नीचला मोटा हंडामें लटकतो रखके ऊपरकी मोली छोटा हंडाके छिद्रमें पोकर ऊपर जो चौ खूणी तणी वांधीदे जिसके बीचमें गांठ देवे, पीछे जो संघ समुदायकी तरफसें शांतिक पूजा होय तो मंदिरजीका कलश लेवै और एक जणेकी तरफसें होय तो शांति कराणेवालेके घरसें-ती सधवस्त्री जिसका माता पिता सासू सासरा चारों मावित्र जीता होय, जिस स्त्रीकुं अछा वस्त्र आभूषण पहिरायके कलसके अंदर कुंकूमकेसरका साथिया करके चावल सुपारी पंचरत्न की पोटली धरके मुख पर नारेल ढकणे माफक खडा धरके ऊपर लाल कसुंमल वस्त्र मोलीसें बांधे, ऊपर कलशाके च्यारों तर फ च्यार साथिया कर स्त्रीके मस्तक पर रखके गीत गानपूर्वक वा जित्रादि अनेक उच्छव समेत जिनमंदिरमें लावे, समवसरणके स-

मुख चावलोंका साथिया करके ऊपर कलश स्थापन करै, पीछै पांच दश जणा द्रव्ये भर लावे अपणा अंग शुद्ध करै, गुरुके पास से केसर मंगायके तिलक करै. इत्यादि सर्व विधी इहांसे आगे नव ग्रह दश दिग्पालका आह्वान [illegible] तिसे देववंदन वगेरे करे सो सब विधि पूर्वे लिखी है [illegible] के बलबाकुल सब देके पीछै सुंदर अंगोपांगवाले [illegible] पुत्रादि संयुक्त विवेकगुणधारक आठ स्नात्रिया मुखकोश बांधके तीन२ नवकार गुणे, जिसमें दो स्नात्रिया दो नालीवाला कलश हाथमें लेके मटकाके दोनुं तरफ खरा रहै, एक स्नात्रिया धूप खेवता रहै, १ स्नात्रिया फूल चंदन वासक्षेप चढाता रहै, दो स्नात्रिया लोटोंमें जल भरके दोनुं तरफ धारा देणेवाले कलशोको पूरता रहै, दो जणे दोनुं तरफ चमर ढु लता रहै. प्रथम गुरु आदि सकल संघ सात२ नवकार गुणे, स्नात्रिया एकेक नवकार गुणके एकेक धारा देवै, एसैं सात धारा दे चूके तव गुरु मधुरस्वरें स्पष्ट अक्षरोंसें नमोर्हत्सिद्धाचा० कहके अजितशांति प्रमुख साते स्मरण गुणें. पीछै भक्तामर वमीशांति छोटीशांति गुणें, तथा सकल संघमें जिसको साते स्मरण वृद्धशां ती आती होय तब तो गुरुके संग अपणे मनमे गुणता रहै, जो नहि आवे तो संघ सर्व नवकारमंत्र गुणता रहै, जहां तक साते स्मरण शांति गुणे तहां तक अखंम ऊपरले छोटे कलशोंसें धारा देता रहै, छींक कोई नही करै, आपसमे दुसरी संसारी विकथा न करे, साते स्मरणादि सर्व गुणे पीछै तीन नवकार गुणके कलस धरे, पीछे नीचेके दूंमेमेसें जिनप्रतिमाकूं निकालके अछी तरे अंगलूहणा करके केशर पुष्पादिकसें पूजा करै, भगवान की अछी तरे अंगी रचना करै, नानाप्रकारका नैवद्य फल चढाके आरती ऊतारे, मंगलदीपक करै. पीछै शांतिजल सर्व संघ लगावे,


अपणे घरोंमें जावे, शांतिपूजाकी मोली गुरूके पाससे लेके राखकी बांधे. इससें संपूर्ण संघमें नगरमें देशमें मरी आदिक सर्व रोग दोष दूर होके शांतिक होय. अनेक प्रकारसें ऋद्धि वृद्धि सुख सौभाग्यकी प्राप्ति होय. पीछे पंचपल्लवाकुल परातमें रक्खा था सो लेके गुरु पूर्वोक्त नवग्रहदिग्पालपट्ट मंगल विसर्जन विधि पूर्वे लिखी हे उस मंत्रोंसें विसर्जन करके जावे. शांतिक पूजा विधि सं०

॥ अथ पंच तीर्थ आरती लिख्यते ॥

॥ पहली आरती प्रथम जिणंदा, सत्रुंजय मंडण ऋषभ जिणंदा ॥ जय२ आरती आदि जिनंदकी ॥ दुसरी आरती मरुदेवी-नंदा, जुगला धरम निवार करंदा ॥ ज० १ ॥ तीसरी आरती त्रिभुवन मोहे, रत्नसिंघासण म्हारा प्रभुजीने सोहे ॥ ज० ॥ चोथी आरती नित्य नई पूजा, देव ऋषभदेव अवर न दूजा ॥ ज० २ ॥ पंचमी आरती प्रभुजीने भावे, प्रभुजीना गुण सेवक इम गावे ॥ ॥ ज० ३ ॥ आरति कीजै प्रभु शांतिजिनंदकी, मृग लंछनकी में जाउं बलिहारी ॥ जय२ आरति शांति तुमारी ॥ विश्वशेन अचिराजीको नंदा, शांतिजिनंद मुख पूनमचंदा ॥ ज० ४ ॥ आरति कीजै प्रभु नेमजिनंदकी, शंख लंछनकी में जाउं बलिहारी ॥ आ० समुद्रविजय शिवादेवीकों नंदा, नेमिजिणंद मुख पूनमचंदा ॥ आ० ५ ॥ आरति कीजै प्रभु पाशजिणंदकी, फणिंद लंछनकी में जाउं बलिहारी ॥ आ० ॥ अश्वशेन वामाजीके नंदा, पाशजिनंद मुख पूनमचंदा ॥ आ० ६ ॥ आरति कीजै महावीर जिनंदकी, सिंह लंछनकी में जाउं बलिहारी ॥ आ० ॥ सिद्धारथ त्रिसलाकों नंदा, वीरजिणंद मुख पूनमचंदा ॥ आ० ७ ॥ आरति कीजे चोवीश जिनंदकी, चोवीस जिणंदकीमें जाउं बलिहारी ॥ आ० ॥ चरण कमल नित सेवित इंदा, चोवीश जिणंद मुख पूनमचंदा ॥ आ० ८ ॥

भई, उस शाखामें जगत्पुज्य श्रीसाधूगुणसें विराजमान
ीलगणिः परमगुरु भये, जिनोके शिष्य पंडित श्रीकुशलनि
मुनिः भये, उन परमपुरुषसाधूजी माहाराजका चरणाऊचं
क उ० श्रीरामलालगणिः ने शिष्यमंडली पं। क्षेमचंदमुनिः चि।
चंद अमरचंदादि शिष्योके तथा पाठशाला श्रीबीकानेर वास्तव्य
क विद्यार्थियोके लिये पंच प्रतिक्रमणादि नित्यकर्त्तव्य सर्व जी
के उपगारार्थ छपायके प्रसिद्ध करा हे.

ठिकाणा पुस्तक मिलणे का बीकानेर बडा उपासरा विद्या
ला उ। श्री। परमोपगारी युक्तिवारिधिः। रामलालजी गणिः ॥



करजोडी सेवक इम बोलें, नहि कोइ माहरा प्रभुजीने तोले ॥ इति॥

॥ अथ चक्रेश्वरीदेवी आरती लिख्यते ॥

॥ जय२ आरती देवी तुमारी, नित्य प्रणमुं हुं तुम चरणारी ॥ ज० १ ॥ श्रीसिद्धाचल गिरि रखवाली, नाम चक्केसरी जग सौख्याली ॥ ज० २ ॥ सुविहित गछनी शासनदेवी, सकल संघने सुख करेवी ॥ ज० ३ ॥ निलवट टीलडी रत्न विराजै, काने कुंडल दोय रवि शसि छाजै ॥ ज० ४ ॥ बांहे बाजूबंध बोरखा सोहे, नीलवर्ण सहु जनमन मोहे ॥ ज० ५ ॥ सोवनमय नित्य चूडी खलके, पाये घूघरडा घमघमघमके ॥ ज० ६ ॥ वाहन गरुड चढया बहु प्रेमे, तुझ गुण पार न पामु केमे ॥ ज० ७ ॥ चूनडी जडामां देह अति दीपे, नवसरा हारे जग सहू जीपे ॥ ज० ८ ॥ नित२ मानी आरती ऊतारे, रोग सोग भय दूर निवारे ॥ ज० ९ ॥ तसु घर पूत्र पुत्रादिक छाजै, मन वंछित सुख संपद राजे ॥ ज० १०॥ देवचंद मुनि आरति गावे, जय२ मंगल नित्य वधावै॥ज० ११॥इति॥

॥ अथ चोपड खेलण विचार स्तवन ॥

॥ राग सोरठी ॥ अरे माहरा प्राणीया, चतुरनर, चोपड इण विध खेल रे ॥ अशुभ करम मल झरके च० ॥ जाजम कर वैराग रे, बडीय बिछायत बैस जो च० ॥ जद्दु नहीं कुमतिको लाग रे॥ अरे० १ ॥ दान शील तप भावना च०, चोपड एह पसार रे ॥ आठ दाव इक बोलमें च०, आठं० ॥ [illegible] निवार रे ॥ अरे० [illegible] देव गुरु धर्म तीनूं भला च० ॥ श्री[illegible] जाण रे ॥ [illegible] हाथे क्रिया च०, भजल लेइ२॥ एसी [illegible] अ० ३ ॥ [illegible] चारित्र भला च०, तीनुंइ गु० ३ इति; नहीं [illegible] नव त[illegible] घरो च०, ए सब सोला स[illegible]चिहुं उर मन व[illegible] [illegible] दे च०, पोबारा व्रत धार रे [illegible] गिरना सदा में [illegible]

कर हिये विचार रे ॥ अ० ५ ॥ षट् काया ठकमी पमी च०, हिर-
दे दया विचार रे ॥ पुन्य उदय पंजमी पमी च०, पंच महाव्रत धार
रे ॥ अ० ६ ॥ च्यार तीन काया पच्या च०, सातुं विसन निवार
रे ॥ जे छुरगति दायक सही च०, बांधे अनंत संसार रे ॥ अ०
७ ॥ चिहुं गति धाजी लग रही च०, छुख सह्या जरपूर रे ॥
करम कटै सुख ऊपजै च०, रतनसागर कहे सूर रे ॥ अ०८॥इति

॥ अथ सेत्रुंज खेलन विचार स्तवन लिख्यते ॥

॥ सेत्रुंज खेल खिलारी, सब समऊ देख सेत्रुंजकी घात,
लख दोउं दल अपणे परायेकी जात ॥ काउ विध कर मोह बाद-
स्याकों मात, जब जाणु तोय चतुर खेल खिलार ॥ हे से० १ ॥
आठुं कर्म पियादे आगे ऊकतेही आवै, काम क्रोध गज चलत थंज्ञ
त नहीं थंज्ञै ॥ लोज ऊंठ चारुं खूटकी मरोम चल ध्यावै, मान
माया के तुरंग चाल चपल दिखावै ॥ मिथ्यामत सो वजीर वीर
याके ढंग गाम्हो, वाके मारवैकों दा[illegible] अपणे संजार ॥ हे से० २ ॥
तेरे ग्यान सो वजीर वीर तेरे ढंग गाम्हो, आगें अंग समकित
के पियादे हलकारो ॥ स[illegible]ग सांढिया सवार पर सांढियाको
मारो, सत्य वचन तुरंग[illegible]सुं तुरंग निवारो ॥ क्षमा शील दोय
फील राखो दलके अग[illegible]ो, पर दल कर मारो तिनमें संहार ॥
हे से० ३॥ जप तप स[illegible]व्रत याके घेरे चिहुं उर, जब वाके चल-
[illegible]गइ रहै नही गेर[illegible] तेरी होगी जीत दूजो हारेगो
[illegible]ा सुजशको [illegible]बंधेगो मोम्ह, गम्हे इंद्र धरणेंद्र
[illegible] वर, तेरे [illegible] गुण अगाह ॥ हे से० ४ ॥
[illegible]लन

[illegible] स्तवन लिख्यते ॥
[illegible] महरदी करणा हो, टु० ॥ मैं

हुं अधम पापकी मूरत, मेरा दोस न धरणा हो ॥ टु० १ ॥ अ-ष्ट ज्ञवनको प्रीत हमारी, नवमे ज्ञव निरवाहना हो ॥ टु० ॥२ ॥ रूपचंद ज्ञगतनकी वीनती, आवागमन निवारणा हो ॥ टु० ३ ॥ इति पदम् ॥ पुनः ॥ लोक चवदके पार किनारे, पूरण ब्रह्म-का वासा हे ॥ लो० ॥ पैंतालीस लाख जोजनकी शिल्ला, फिटक रतन उजासा हे ॥ लो० ॥ निरमल जोत विराजे साहिब, ग्यान ध्यान परकासा हे ॥ लो० १ पंच वरणकी धजा फरूके, क्या कहूं अजब तमासा हे ॥ नाथ निरंजन नाम तुमारो, उरनकी क्या आसा हे ॥ लो० २ ॥ चोसठ इंद्र ख-मे वाके द्वारे, खिजमत वंदा खासा हे ॥ रूपचंद कहे नाथ निरं जन, चरणकमलका दासा हे ॥ लो० ३॥ इति पदम् ॥ पुनः ॥ सखि सब बनठन, सखी० ठाढे नाज्ञि नृपतजूके द्वारे आगे ॥ स० ॥ रिपन्नकुमरको जनम ज्ञयो हे, मंगल मुरक उच्चारै री ॥ स० १ ॥ ताल मृदंग रबाब मधुरी धुनि, वीणा वाजे सुर तारे ॥ नाचत हा व ज्ञाव करी राजत, ता[illegible] लेतसुर तारे री ॥ स० २॥ सुरवनिता मिल गाई वधाई, मोति [illegible] सवारे ॥ जगबंधव जगपतिकुं निर [illegible] आनंद हर्ख अपारे [illegible] स० ३ ॥ इति पदम् ॥ पुनः [illegible] जन तेंमे दरस पर [illegible] कर [illegible] हो जि० ॥ तुम विन ज्ञव२में [illegible] दा, अब मेंमी उर [illegible] गु० [illegible] ॥ हो० १ ॥ अष्ट करम मेंमे [illegible] हे है, उनकूं वे[illegible] ॥ या० ॥ [illegible] सरण गहे आणा [illegible] [illegible] द गुण[illegible] सीमें, १ ॥ श्री[illegible] पदम् ॥ [illegible] ॥ इति [illegible] जिनंदनमें वेर २॥ एसी [illegible] ॥ [illegible] या रे, म्हा० [illegible] ॥ जाइ जू[illegible] ३ इति; नदी [illegible] सा री, विध गुंथत अक्षत ३ चिहुं उर मन व [illegible] ॥ [illegible] ख ॥ [illegible] दी[illegible] म्हा० २ ॥ [illegible] गिरना सदा मैं [illegible]

ऋषभदास पूरो आस गुण गाउं रे ॥ म्हा० ३ ॥ इति पदं ॥

पुनः ॥ मन लीनो हमारो जिनचरणा रे, पोत जलधि भवतरणा रे ॥ म० ॥ आदि पुरुष जगतारण निसुएयो, कर्म विकट घन हरणा रे ॥ म० १ ॥ नाभि तात मरुदेवी माता, नंद ऋषभ सुखकरणा रे ॥ म० २ ॥ सिल्पादिक प्रगटन जग तत्पर, कुमतांगन दल टरनां रे ॥ म० ३ ॥ सारंग दृग शशि वदन मनोहर, अंग कनक सम वरणा रे ॥ म० ४ ॥ श्रीजिनहंस सूरीश्वर जंपै, जिन समरण दिल धरणा रे ॥ म० ५ ॥ इति पदं ॥

॥ राग झिंझोटी ॥ २ ॥ ॥ अजित अजित जिन ध्यान, म्हारे मन रे अ० ॥ जितशत्रु विजयाको नंदन रे, वंदन त्रय युत ज्ञान ॥ म्हारे० १ ॥ त्रिहुं जगतारन टारन अघको रे, वारुं तन धन ज्यान ॥ म्हा० अ० २ ॥ जिन वचनामृत पान करीजै रे, केवल निरमल ग्यान ॥ म्हा० अ० ३ ॥ श्रीजिनहंस सूरि प्रभु पाए रे, निवृत्ति पुरंदर स्थान ॥ म्हा० अ० ४ ॥ इति पदं ॥ पुनः ॥ यह अरजी मोरी सहियां, मोहे तारले गहव[illegible]हिया ॥ य० ॥ मैं नांहि जाणूं सहियां, य० ॥ मैं तारण [illegible] [illegible]ढयायो है, मैं यातें शरणो गहियां, इनतें भवार लहियां ॥ य[illegible] निवारे ॥ इन करमनके वश हुयकै, मैं भटक्यो चिहुं गति म[illegible]र दल य० मो० २ ॥ हित करकै दा[illegible] निहारै, करजोडि पडि [illegible] याके घेरेशव देति क्युं न सहियां ॥ य० मो० ३ ॥ इति प[illegible]

तेरी [illegible]

[illegible]धेगो मो[illegible] गो[illegible]राय अरज सु[illegible] गुण[illegible]गने, दिलभर दरशण [illegible]रसण दीजै, सकल करम [illegible]हन पभणे, प्रईकजी प्रण[illegible] ॥ तु मे[illegible] प्रभु इण दिल

चसणावे, तेंम्हा तो गुण सुर गावंदा हो ॥ प्र० १ ॥ संतके सागर गुणके आगर, जोही ध्यावे सो पावंदा हो ॥ प्र० २ ॥ तुमहो तत्वज्ञानके दाता, भविजन ताप मिटावंदा हो ॥ प्र० ३ ॥ कहे जिनचंद एसे प्रभु मेरे, चरणकमल चित्त ध्यावंदा हो ॥ प्र० ४ ॥ इति पदं ॥ पुनः ॥ हम जाणतहैं तुम तारोगे, हम० ॥ नाभिराय मरुदेवीकों नंदन, मेरी उर निहारोगे ॥ हम० १ ॥ आदि जिनेसर अंतरजामी, स्वामी कबु न विचारोगे ॥ हम० २॥ जगजीवन जगतारक तुमहो, एही विरुद संभारोगे ॥ हम० ३ ॥ श्रीजिनसौभाग्य सूरिंदके साहिब, भवजल पार उतारोगे ॥ ह० ४ ॥ इति पदं॥ पुनः ॥ पंथीम्हा पंथ चलेगो, प्रभु भजले दिन चार ॥ पं० ॥ फूठी काया फूठी माया, फूठो सब परवार ॥ पं० १ ॥ बालपणेमें खेल गमायो, जोवन मायाजाल ॥ पं० २ ॥ वृढापण आयो धरम न पायो, पीछे करत पुकार ॥ पं० ३ ॥ क्या ले [illegible] रहत [illegible]या ले जायगो, पाप पुण्य दोय लार ॥ पं० ४ ॥ दया [illegible] जोरे [illegible] आधार ॥ पं० ५ ॥ इति पद [illegible] कित भू [illegible] शांति सुहाई रे, भवजल [illegible]

जोम्हे थांरे कोण जुमेगो ॥ पाप जवा [illegible] णो कर जाणो, प्रभुजी तूं तारण संसार ॥ जो० [illegible] ॥ [illegible] से नहि बानो ॥ राग भलायो नवकार ॥ जो० ३ कर [illegible] सुभाव [illegible] ॥ प्र [illegible] जो० [illegible] भव२ देज्यो दीदार ॥ जो० ॥ गु० [illegible] हो सुगु० [illegible] नक मोर पर्प [illegible]

॥ राग खंभायची ॥ या० ॥ [illegible] दान व्रत

॥ भ्रमत२ लख चौरासीमें, १ ॥ श्रीजि [illegible] लखकी, केसें० १ ॥ ए रिपु कर्म वैर२॥ एसी [illegible] प्र० [illegible] या ॥ म० केसें० २ ॥ जो जी [illegible] ० ३ इति; नद [illegible] सा काज स [illegible] ॥ म० केसें० ३ चिहुं उर मन व [illegible] रख वाजे ठेजें [illegible] हा० ॥ सरणाईभु गिरना सदा में [illegible]

है ॥ महा० १ ॥ इंद्राणी मिल मंगल गावै, मोतियन चोक पुरावै है ॥ महा० २ ॥ सेवग प्रभुजीसैं अरज करै है, चरणारी सेवा प्यारी लागे है ॥ महा० ३ ॥ इति पदं ॥

॥ राग अमाणो १ ॥ मोतनकी माला जिन गल सोहे, मोति० ॥ मस्तक मुगट सोहे मनमोहन, कुंमल लागत वाला ॥ ॥ जि० १ ॥ भजोरी भजो तुम लोक सहरके, नहिय भजै सो काला, माणक पर प्रभु महिर करो तो, अपणा विरुद संभाला ॥ जि० २ ॥ इति पदं ॥

॥ राग सोरठ ॥ रहे तुम आज क्यूं जीवन छुराय, रहे० ॥ जीय जीवन सखियन में प्यारी, हारी हा हा खाय ॥ र० १ ॥ अविरत घूंघट पट उघारी, अनुभव मुख निरखाय ॥ र० २ ॥ भव परणित परिपाक इतै पर, आई धाई माय ॥ र० ३ ॥ अति आग्रह स[illegible]० ३॥ सारकूं, जीवन कंठ लगाय ॥ र० ४ ॥ [illegible] ॥ म्हा० अ० ४य वांकमी करमगति जाय ना अरजी मोरी सहियां, मोहे तारले गहौनहार सो होय रही ॥ हे माय जाणूं सहियां, य० ॥ मैं तारण र[illegible]ण [illegible]हनकूं, राजुलकों तब चाह हियां, इनतैं उवार लहियां ॥ य० [illegible] निवा[illegible] बिलख मुरझाय रही ॥ हुयकै, मैं भटक्यो चिहुंगति म[illegible]र दल पतिभगता, जानत सकल दाश [illegible]हारैं, करजोमि पमि [illegible] याके हल, पावक कुंममें धीज दही ॥ ॥ य० मो० ३ ॥ इति प[illegible]

गगकाफी [illegible]को[illegible]

[illegible] तेर[illegible]णिकराजा, निज सुत कोणक [illegible]धेगतकी, आपणकी अपघात [illegible]भनकमें राजा, अकल कथा [illegible] भटसीकी, नवल सरवमें [illegible] पुनः ॥ [illegible] प्यारो ॥ ॥ ग्यान जग[illegible] [illegible]गुण

। वामादेवी मात रहै न लेस ॥ म्हा० १ ॥ मोह तिमिर दुख नागकूं तारण, ज्ञान वढावत हेत ॥ चंद फतै नित एही चाहै, रजोमीने वीन खेत ॥ म्हा० २ ॥ इति पदं ॥ पुनः ॥

ग रमत हे, मैं केसे मनाऊं री ॥ मे० ॥ सोतन राजा विन, न रमतां, मोहि न बुलावै री ॥ मे० १ ॥ हाहा करत जत फिरैया परत हूं, कोइ पिया मिलावै री ॥ विरहानल अति मेरे पिया विन, कोन बुझावै री ॥ मे० २ ॥ सुमता नंद, सोहत नुभव आयो, सव परठ सुणावै री ॥ ग्यानसार प्यार ० ४॥ इति ॥ मिल, सोरठ गावै री ॥ मे० ३ ॥ इति पदं ॥

॥ राग सोरठमलार ॥ वरषित वचन ॥ वा

मेरो, व० ॥ श्रीश्रुतज्ञान गगनतैं झमटी, ग्यानघटा वरो रे कवु कर- १॥ स्याद्वादनय विजुरी चमकित, देखत कुम शकूं दुरु सेवा सु- ॥ अरथ विचार गुहर धुनि गरजित, रहत न गछे जूआ झूठ पर गु० ॥ २ ॥ श्रद्धा नदी चढी अति जोरे ा दरजा ॥ ए० २ ॥ भरभर्यो सुमतारससागर, समकित भू शांति सुहाई रे, भवजल प्रगटे पुन्य अंकुरे चिहुं दिस, पाप जवा णो कर जाणो, प्रभुजी इया भविजन, बोलत भक्ति ॥ रसैं नहि ठानो ॥ रा संजम खेती, भविक कसान करे ह सुभाव सहज स्वभाव फली ॥ हो सुगु० हो सुगु० मैं रंग, वन्यो हे म्हारे ॥ या० ॥ नक मोर पप मीको संग ॥ व० या० १ ॥ श्रीदि दान व्रत आ अंग अंग ॥ व० या० २॥ एसी सवकी, मे प्रसाद अभंग ॥ व० या० ३ इति; नद या

॥ रागमलार चिहुं उर मन व सा धन गरजै ॥ चि० ॥ नेमप्रभु गिरना सदा में

रसै ॥ चि० १ ॥ दादुर मोर सोर सुण श्रवणों, नयन भए घन
जरसै ॥ चि० २ ॥ ढूंढत ढुंढ सकल वन२में, कबहुं पिया ना दर
सै ॥ चि० ३ ॥ सो दिन सफल जाणेगें सजनी, दिवस घरी जिन
फरसै ॥ चि० ४ ॥ इति पदं ॥ पुनः ॥ मोरवा पपइया बोले
पीउ२ घनमें, नेमपिया रहे सहसावनमें, मो० ॥ निशि अंधियारी
कारी विजुरी झरावे, दूजी विरह व्याकुल भई तनमें ॥ मो० १॥
वरषित गरजत दादुर, सोर करत रहे नदियां रनमें ॥
काला, मा० ाणंद यह सम देखण चाहे, राजुल भई विरागण ठि
जि० २ ॥ इ ३ ॥ इति पदं ॥
॥ राग विहाग॥ समझ नर जीवन थोरो, थोरो थोरो थोरो
॥ जीय जीवन युघटत छिन२ही, गलत जात जेसें उरो ॥ स० १॥
अविरत घूंघट ेन भरोसो, छिन मासो छिन तोरो ॥ जो कवु
॥ भव परणित पुनपरहो जिम झोरो ॥ स० २ ॥ तन धन
३ ॥ अति आग्रह ज२ घनघोरो ॥ रूपचंद त्रसनाको बांध्यो,
१-ा-दर्ग्याने ॥ म्हा० ३॥ इति पदं ॥ पुनः॥ मत कर मा
अरजी मोरी सहियां, मोहे ॥ म० ॥ वेलूकी भीत ज्रसको मोती,
जाणूं सहियां, थ० ॥ मैं त ॥ म० १ ॥ नदियां गहरी नाव पुरा
हियां, इनतें उवार लहियां ॥ चंद कहे नाथ निरंजन, आखर जंगल
हुयके, मैं भटक्यो चिहुं गति ॥ पदं ॥
दाश निहारे, करजोडि पडि
॥ यह मो० ३ ॥ इति प न जोउं थारी वाटडी, घर आवोनी
रागकाफी ठेको ा तुझ लाख है, मेरे तूंही अमोला
ोरे लालनका, मेरा लाल अमोला ॥
का क्या मोला नि० २ ॥ कोन सुणे
ा ॥ तेरे मुख दीठे टलै, मेरे मनका
क कहे हितकर तुं, सुमतासु न बो

रा ॥ आणंदघन प्रभु आवसी, सेजमी रंगरोला ॥ नि० ४॥ इति पदम्॥

॥ राग जैवंती ॥ आज तो हमारे भाग, वीरप्रभु आए ई ॥ आ० ॥ चंदना खमी डुवार, चितसें करे विचार ॥ देखत दी ार हीया, हरख भराये हे ॥ आ० १ ॥ आज मेरी आस फली, फली मेरी रंगरली ॥ विकसी आतम कली, प्रभु पात्र पाए हे ॥ आ० २ ॥ धन दिन आज मेरो, गयो सब कर्म फेरो ॥ सुकृत बहु ोरो, भगवान दिल भाए हे ॥ आ० ३॥ सिद्धारथराय नंद, सोहत रदचंद ॥ कहे जिनचंद चित, आनंद वधाये हे ॥आ० ४॥ इति ॥

॥ राग परज ॥ बावरो रे आज मनवो मारो ॥ बा ाप रंगीला वाकी रंगीली, उर रंगीलो वाको सांवरो रे कहु कर- ॥ आप न आवे वारी न लिख भेजे, प्रीत करणकूं डरु सेवा सु- ा० २॥ आनंदघन पिया निज घर आवे, मिट गये जूआ जूठ पर ॥ आ० ३ ॥ इति पदं ॥ ा दरजा ॥ए० २॥

॥ राग जंगलो ॥ ऋषभ विहारी, ांति सुहाई रे, भवजल ऋ०॥ प्रथम तीर्थंकर,प्रथम जिनेसर, ०१ ॥ धनुष पांचसें मान, मनोहर णो कर जाणो, प्रभुजी ऋ० २ ॥ नाभिराय मरुदेवा क सुभाव रसें नहि बानो ॥ राग ० ॥ ऋ० ३॥ जुगलाधरम निवा हो सुगु० ॥ ऋ० ४॥ केवल पाय प्रभु मुग भक मोर पप ॥ ऋ० ५ ॥ आनंदघन प्रभु ए दान व्रत ारी हो ॥ ऋ० ६ ॥ इति पदं ॥ णार लखकी, टरे रे, सु० ॥ चित कहु जंगन या ॥ सु० १ ॥ ऊपर बाज मातभरक नहि ॥ मैं मन व ० ३॥ होणहार वश मस्य कार सदा मैं ॥ होत पदारथ भावी भ-

॥ उदय करम गत देख जगतकी, जिनवर क्युं न भजै रे । मु० ५ इति पदं ॥ पुनः ॥ सहियो री मिल चालो प्रभु पूजन काज, स० ॥ समवसरण विच आप विराजै, वीरनाथ महाराज ॥ स० ॥ १ श्रेणक भूप चेलणाराणी, भक्ति करत है आज ॥ स० २॥ निज२ द्रव्य लिये पुर के जन, उमंग२ शुभ साज ॥ स० ३ ॥ वे प्रभु दीन दयाल जगतके, हितकर धर्म जिहाज ॥ स० ४॥ इति पदं ॥

॥ राग कहरवो ॥ मनवा जिनंद गुण गाय रे, म० ॥ या जिनजीके दरस परसतैं, दुखदोहग मिट जाय रे ॥ म० १ ॥ सद गुरु वचन परतीत मानले, आतमसुं लय लाय रे ॥ म० २ ॥ भव ॥ जीय कुं सुखदाई, आनंद वंछित पाय रे ॥ म० ३ ॥ इति पदं ॥ अविरत है चलो देखो री मधुवनको राव, च० ॥ वामानंदन ॥ भव परणि सिर पर रे वाके चमर धुराय ॥ च० १ ॥ तारण २ ॥ अति आनंदके, भेटै सहु भवि चित सुख पाय ॥ च० २॥ ४-५ दर्शन ॥ त्यागो, कब फरसुं वाके मन वच काय ॥ च० अरजी मोरी सहियां, मो: ! राखुं रे हमारा घटमैं, जिनराज जाणूं सहियां, य० ॥ मैं ता ॥ जाके प्रभाव मेरा, अज्ञानका अंधेरा, हियां, इनतैं उवार लहियां ॥ सूरत तेरी रागै, पेख्या विभाव हुयकै, मैं भटक्यो चिहुं गति ॥ मुद्रा प्रमोदकारी, रूपभ दास निहारै, करजोडि पडि रे ॥ हो० ३ ॥ त्रैलोक्यनाथ तुम ॥ य० मो० ३ ॥ इति पदं मैं सनाथ हमही ॥ हो० ४ ॥ प्र रागकाफी ताको तुरि भाखै, दिल मांझ याही राखै य० तेरे रै ला

लन का क्या म

ना ॥ तेरे सको चाह लग्यो, सखी

नक कहै नमें जाय प्रभु दीक्षा लीनी,

ाय चढे प्रभु गिरनार ऊपर,

अब केसैं विसराज्ञा रे ॥ ते० २ ॥ चैनविजै कहै धन२ राजुल, प्रभु चरणां चित लाजा रे ॥ ते० ३ ॥ इति पदं ॥ पुनः थांरे मुखमारी हो वारी राज, प्यारी छवी वरणी न जाय ॥ था० ॥ शीस मुगट सोहै सिर टीको, काने थारे कुंडल सोहाय ॥ था० १ ॥ मोहनगारी सूरत थांरी, देख्यां म्हारो मनमो लोभाय ॥ थां० २ ॥ झरकत नेण भए दोउं निरखत, थांसु प्रभु प्रीतमी लगाय ॥ था० ३ ॥ भव२ पाशजिनंदजी की सेवा, एसी म्हारे दिलमेमें चाव ॥ थां० ४ ॥ बाल कहे तुमही प्रभु मेरे, मेरे तुम्हही सुहाय ॥ थां० ५ ॥ इति पदं ॥

राग काफी कानमो ॥ एसी विध तेने पाइ रे, कछु करनी करजा ॥ ए० ॥ [illegible] भव जैनधर्म रुचि, सुगुरु सेवा सुखदाई रे, जसु पाति[illegible] हाणी, ज[illegible] ए० १ ॥ हिंसा जूआ झूठ पर तिरिया, परिग्रह म[illegible] थाणी ॥ जा[illegible] घट जायगा दरजा ॥ ए० २ ॥ तप जप शंजम श[illegible] ग उधराणी [illegible] सुमति सुहाई रे, भवजल निधि तरजा ॥ ए० [illegible] सुध वि[illegible]

रागकालिंगमो ॥ [illegible] ए [illegible] सुख[illegible] णो कर जाणो, प्रभुजी मो० ॥ मैं मतिहीण महा [illegible] एक [illegible] पसें नहि गानो ॥ राग द्वेष अरु मोह महा मद, वा[illegible] सुभाव [illegible] ॥ प्र[illegible] मो० [illegible] हो सुगु० [illegible]

ए रिपु कर्म पमयो मुझ केमेरा [illegible] भक मोर पप[illegible] गोभ दाग्रह मांहि अलूज्यो, ज्युंारा, [illegible] दान व्रत भववाशी तुं सिववासी, ज५ ॥ [illegible] [illegible] रखकी, साम संभारो, तो हिव विणा जंग न [illegible] या सदाई शिवसुख दाता, [illegible] मात मरक नह [illegible] सा सूरिने निज वर, दीजे सु[illegible] ॥ मैं मन व[illegible] रख

रागभैरवी ॥ वी[illegible] कार सदा मैं [illegible]

मेहरवान भई रे ॥ वी० ॥ आप नही आवै बोधा पठावै, तेरी सूरत कुरवान भई रे ॥ वी० १ ॥ साशशनायक एही अरज है, दीजै दरस वको वेर भई रे ॥ वी० २ ॥ आस दासको पूरण कीजै, चरण सरण लपटाय रही रे ॥ वी० ३ ॥ इति पदं ॥

राग विभास॥ भोर भयो अव जाग बावरे, भो० ॥ कोन पुन्य तें नरभव पायो, क्यूं सूतो अव पाय दाव रे ॥ भो० १ ॥ धन वनिता सुत तात भ्रातकों, मोह मगन ए विकल भाव रे ॥ भो० २ ॥ कोइ न तेरो तूं नही काको, इह संजोग अनाद सुभाव रे ॥ भो० ३॥ आरज देस उत्तम गुरु संगत, पाइ तें वहु पुन्य प्रभाव रे ॥ भो० ४ ॥ ग्यानसार जिन मारग पायो, क्यूं डूबै अव पाय नाव रे ॥ भो० ५ ॥ इति पदं ॥

राग खट॥ जाग रे सव रै [illegible] जा ॥ [illegible]० ॥ उदयो उदयाचल रविमंडल, पुन्यकाल क्यूं [illegible] फल चोरी [illegible] १ ॥ कमलखंड वन२ विकसानी, अशुभ न [illegible] दान कर [illegible] ॥ जा० २ ॥ चेतन धर्म अनादि तुमारो, जड [illegible] ३ ॥ इति [illegible] राणी ॥ जा० ३ ॥ तुम कुल दोय अवस्था पइयें [illegible] जाके [illegible] जड नीसाणी ॥ जा० ४ आतम रूप संभार आ[illegible]गति [illegible] सूर [illegible] घर कुमति घराणी ॥ जा० दाश । सुध वुध [illegible] पकि [illegible] तें घट वध होत कहाणी ॥ यह मो० ६ ॥ इति प[illegible] ग्यानसार पद निजर जथा [illegible] सना [illegible]

रागकाफी [illegible] तु [illegible] भारे [illegible] सखी मेरे मन भावनो, [illegible] का क्या [illegible] ॥ तोरणसें रथ फेर च[illegible] ॥ तेरे [illegible] । सां० १॥ नव भव नेह [illegible] क कहै [illegible] रावणो ॥ आनंद राजुल [illegible]

राग ललित ॥ आज ऋषभ्न घर आवै, देखो माई आ० ॥ रूप मनोहर जगदानंदन, सबहीके मन भावै ॥ दे० १ ॥ केइ मुगताफल माल विसाला, केइ मणि माणक लावै ॥ दे० २ ॥ हय गय रथ पायक केई कन्या, ले प्रभु वेग वधावै ॥ दे० ३ ॥ श्रीश्रेयांसकुमर दानेसर, इक्षुरस वहिरावै ॥ उत्तमदान अधिक अमृतफल, साधुकीरत गुण गावै ॥ दे० ४ ॥ इति पदं ॥

रागरामकली ॥ अंगण कलप फल्यो री, हमारे माई अं० ॥ रुद्धि वृद्धि सिद्धि सुख संपति दायक, श्रीशांतिनाथ मिल्यो री ॥ ह० अं० १ ॥ केशर चंदन मृगमद घोली, मांहे बरास मिल्यो री ॥ पूजत श्रीशांतिनाथजीकी प्र[illegible]ता, अलग उदेग टल्यो री ॥ ह० अं० २ ॥ शरणे राख [illegible] आज रे साहिब, ज्युं पारेवो पल्यो री ॥ समयसुंदर कहे [illegible]वकार ॥ आज [illegible]हिसुं सुहलो री ॥ ह० अं० ३ ॥ इति पदं ॥

[illegible] तरण जि[illegible]राज [illegible] मोरा आतमराम, जिनमुख जोवा जइये रे, [illegible]तारो करो रे [illegible] [illegible]दरसण छै अति दोहलो, थे [illegible] सोहीलो [illegible]हारो [illegible] [illegible] भव एहवो, जुम्बो [illegible]खी दि[illegible]णो रे ॥ [illegible] सुख [illegible] मरी [illegible] खयबटको म[illegible] ट[illegible] हाथ अमोलखचो रे गयो [illegible] एक घरी ॥ [illegible] कायाघट [illegible] पाशजिणंदजीसुं, राजे [illegible] सुभाव धरी ॥ सु० [illegible] पूर[illegible] [illegible]ानीता मारा चेतन, कर[illegible] [illegible] हो सुगु० ३ ॥ गुरु[illegible] [illegible]चंद लहीने, कर तूं सिद्ध व[illegible]ारा, [illegible] [illegible]नक मोर पप[illegible] ओभ[illegible] [illegible]रो ॥ [illegible]ज मन ना[illegible] [illegible] ५ ॥ [illegible] [illegible] दान व्रत धारै, सुरनर करत हे सेज [illegible] जंगन [illegible] [illegible] लखकी, [illegible] या

॥ घ[illegible] [illegible]मातभरक नहें [illegible] सुगु [illegible] सा

राग कलव हरलै रे ॥ [illegible] ॥ में मन व[illegible] [illegible] रख मुनिजन अरू धरले रे ॥ प० [illegible]कार सदा में [illegible]

पति वन्दे सुरपति, वासुदेव बलदेव ॥ नमत ब्रह्मा रुद्र नारद, शेष मणिधर सेव ॥ भ० २ ॥ असरण शरण है विरुद जाको, भक्ति-वच्छल भेव ॥ राजसिंह प्रभु ऋषभ सिर पर, नाथ है नितमेव ॥ भ० ३ ॥ इति पदं ॥

ताल घुमरी ॥ आवो नेम रहजावो सदन, हमकों न संतावो रे ॥ आ० ॥ व्याहन आये सझके सजन, पशुवनको सुन देख रुदन ॥ गिरनारी चले निज छांडी वतन, तकसीर बतावो रे ॥ आ० १ ॥ पूनम जेसे चंदवदन, मनमोहन मूरत स्यामवरण ॥ मेरी नीकी लगी नव भवकी लगन, मत छेह दिखावो रे ॥ आ० २ ॥ संयमदूती लागी [illegible] रवण, प्रभुकुं सिखाये नीके भ्रमन ॥ सब झूठे पड्गे कोलवच[illegible] फेरी न जावो रे ॥ आ० ३ ॥ कपूर कहै प्रभुजीके चर[illegible] वैराग धरण ॥ लेडं दोन्ह नेम जिनजीकी शरण, [illegible] गावो रे ॥ आ० ४ ॥ इति पदं ॥

र छि [illegible] पदं ॥ [illegible] जाग रे सब रै [illegible] ल क्यूं [illegible] द फल

पुनः कीर[illegible] जिन सूरत प्यारी रे ॥ की० ॥ अ[illegible] अजुअ न[illegible] ल दान [illegible] पति करत अहोनिशि वंदन [illegible] ई तुमारो, जरू [illegible] र३ ॥ इ[illegible] ॥ दरसण[illegible] य अवस्था पइयें ॥ जाके [illegible] ारी रे ॥ की० १ ॥ अंतु [illegible] घ कदंब [illegible] घन तरु परिमल ॥ बीच [illegible] रूप संभार आ[illegible] हु गति [illegible] रे ॥ की० २ ॥ सांवली [illegible] दाश [illegible] रजानि पनि [illegible] री ॥ [illegible] गाजै ॥ प्रभु अतिशय [illegible] ॥ यह मो० ३ ॥ इति प[illegible] ॥ सुंदर सुभग

रागकाफी [illegible] को [illegible] तुम्हारि भा, सखी [illegible] जीव जनी मन प्रे- [illegible] दं ॥
[illegible] का क्या [illegible] ॥ तोरणा [illegible] भये अगीवान,
[illegible] भा ॥ तेरे ॥ सां० १ [illegible] वा समोसरणा,
[illegible] क कहे [illegible] रावणो ॥ आ[illegible] सरणा, दूर
[illegible] नीको पावनो ॥

दुख होतें जनम मरण ॥ बैठ नव न नयण रतना जरी रे, अनु
शिवपुरमें हुवा अपमान, मरो अब सकूं रे, पलक न कीजे जेज
॥ नाम जो जिनके दान देते, आठुं कार्त्तिक सुदि निधि सार ॥
तिनके चरण सेते, शशी सुमताकों तुं संघ जयकार ॥ नि० ६ ॥
सूर, वरे वो नव नव सुख नरपूर। ली जिम लीन ॥ रुद्धसार जिन
जिन नूर हुवे दुखदूर, करो नव सु० ७ ॥ इति पदं ॥

॥ खेमटा ॥ लीजै पार्श्वनाथ स्तवनं ॥

प्रनु तुमसें मिली ॥ , अगहन मुख देख्यो गोमी पारसको, मेरो ज
ल रही सहजानंद नवि चंदगो ॥ अन्य देवकूं बहुत में ध्यायो, तो
प्रनु आनन, मुख शिखर नणे आजरे में० १॥ नव२ नटकत शरणे
अगोचर तेरी महि जेसें वणे लाज ॥ आज रे में० २॥ कमठ हरा
मुझकूं आश दी स तिहारो, नवकार ॥ आजरे में० ३ ॥ रूप
लग रही लगन सु हन, जगबंध तरण जिह्राज ॥ आजरे ॥
सुनिजर प्रतिपाल सु अवतारो करो रे वेनें अरज कर
५ ॥ गंज अजीम सुव निहारो सदा पुनः
ने० प्र० ६ ॥ इति पदं ॥ सुख भरी खयकर शि०

॥ राग पीलू ॥ आयो एक घरी ॥ ६
शरणागत तेरी ॥ आ० ॥ ते सुनाव धरी ॥ सु० गमें
फिरयो धरती सब हेरी ॥ ही सुगु० ३ ॥ भरी
ब, आन नई तुमसें नट तारा, नक मोर पप गोनत
वीर पारसनाथ, ५ ॥ दान व्रत
शिवपुर ॥ राग खांबाज ॥ जंगन लखकी,
गु मन नरण करले रे ॥ घ० माल भरक नह या
नो के रम सब हरले रे ॥ ॥ में मन व सा
न गुणयेमें धरले रे ॥ घ० हार, सदा में रख
है पवस ४

घंट वाजै घनननननन, इंद्रलोक हरखन्नयो ॥ जनमे वर्द्धमानकुंवर, वीतराग तननननन ॥ घं० १ ॥ मृदंग ताल गुण विसाल, झलरी नाद झुनननन ॥ घं० २ ॥ रूपचंद राग रंग, होत ध्यान मगनननन ॥ घं० ३ ॥ इति पदं ॥ निरंजन सांइयां रे, सांइ मेरा टुकला मुजरा लै ॥ तुम तीरथके देवता जी, हम केशरदा गेल ॥ कनककचोली हाथमें जी, पूजा करुं रंगरोल ॥ नि० १ ॥ तुम अंबरदा मेहला प्रन्नु, हम गिरवरदा मोर ॥ रुमझुम२ मेहला वरसे, ठम२ नाचै मोर ॥ नि० २ ॥ हमगुण काली कोयली जी, प्रन्नुगुण आंवा मोर ॥ मांजरके परतापसे कांइ, करवा लागी सोर ॥ नी० ३ ॥ तुम हो मोतीयनकी लरी रे, हमगुण झूंमा ज्ञोर ॥ रूपचंद दिलदार मयाकर, तुम विन देव न और ॥ नि० ४ ॥ ...

राग कल्याण ॥ एसे सहर विच कोनसा ... प्रेम जमो निज

नीर्जीवन पवनके कांगरे, दस दरवाजे ... करी, कंचन वरण सुवा

पुनः ... र, नगरकूं करत ... भुवन रमण केलास ॥ व०

की० ॥ ... द तुमारो, जस ... चेतन ... अमृतालीश उदार ॥ व० ॥ का

... दरसण ... य अवस्था पइयें ॥ जाके ... र ऋद्धिसार ॥ व० था० ११ इति॥

... कदंब ... ॥ ... ॥

... रूप संसार आ ... ॥

... भुवन ... बहुं गति ... तु ...

... सुध बुध ... आज ॥ ए चालमें)

दाश ... करजा ... पर ... ॥ ... राज ॥ नि० ॥ अन्नि

॥ य० मो० ३ ॥ इति पदं ... मै सनां रावै, प्र ... कारण कारज नीपजे

रागकाफी ... तु ... रि ... पावै ... तल तोलवा रे, सम

घं०, तेरे ... ॥ ... रे, भक्त सुधारण का

... लन ... का क्या ... इति पदं

... आ ॥ ते ... कीरत मुख संत॥

... हारो, निज

... क कहै ... ३ ॥ कल्पवृक्ष

गिरनारी. दीपत मोहन वेलमियां ॥ र० ३॥ रूपचंद कहै नाथ नि- क्तवधू गुण वेलमियां ॥ र० ४॥ इति पदं ॥ विराजो , विराजो मंदिरमें, प्रभु गोमीचा पारसनाथ ॥ वि० ॥ चंदन ओर अरगजा, केशरमें गरकाव ॥ वी० १ ॥ शिर गो छत्र विराजै, मोतियमे तपे रे निलाम ॥ वी० २ ॥ भव रमें आण पमाहुं, बांह पकम मुऊ तार ॥ वी० ३ ॥ रूपचंद नाथ निरंजन, आवागमन निवार ॥ वी० ४ इति पदं ॥ किण देखा हमारा स्वामी, स्वामी अंतरजामी रे ॥ कि० ॥ भवकी प्रीत प्रकाशी, नवमें गया शिवगामी रे ॥ कि० १ ॥ सावनकी कुंजगलीनमें, मिले मोहे अंतरजामी रे ॥ कि० २ ॥ आयो, गिरनारके ऊपर, नारी तारी केवल पामी रे ॥ कि० ३॥ वण नागकूं तारण गीनो, कहुंवू आज शिरनामी रे ॥ कि० ४ ॥ चंद कहै नाथ निरंजन, अवधू सो जोगी गुरु मेरा, इति पदं ॥ पुन [illegible] रुवर एक मन [illegible] विन [illegible] अरज कर स्वामी अंतरजामी [illegible] पुनः ज्ञानी ध्यानी [illegible] खयकर शि० वलिहारी ॥ [illegible] एक घरी ॥ हे न्यारी ॥ कि० ३ [illegible] सुभाव धरी ॥ सु० [illegible] कि० ४॥ नाथ निरं [illegible] हो सुगु० ३ ॥ [illegible] मुजरा साहिब न्यारा, [illegible] कनक मोर पप [illegible] मु० ॥ साहिब सु अ० ॥ ५ ॥ [illegible] दान व्रत मु० १ ॥ केशर चं ॥ चलणा आंगन [illegible] रखकी, वजाउं अगर उखेतकाल, मात भरक नहं [illegible] या वाजित्र वजाउं ॥ ॥ च० १ ॥ में मन [illegible] सा हरखित, दास मिलके, कार सदा में [illegible]

फंदा तोम मोहकी फासी ॥ जिनचंद्र सूरीश्वर विजयराजके सर सन ॥ श्रीसां० ३ ॥ पाठक हितवल्लभ चैत्य प्रतिष्ठा कीनी, श्री संघ सदा कल्याण भक्ति बुध दीनी ॥ सन् उगणी सय अमृताल माघ सुद लीनी, सुभ वस्तपंचमी कुशल निधान नवीनी ॥ लक्ष्मी वरदायक श्रीपारस पद चीनी, ऋद्धसार कहै सुखकार भक्ति रस पीनी॥ भइ कंचन काया प्रभु चरणनके फरसन ॥ श्रीसां० ४इति॥

॥ अथ लावणी नेमनाथजीकी ॥

नेमनाथ मोरी अरज सुणीजै, मेहुं दासी चरणोंकी, तोरण आये फेर मत जाउ, तुमकूं सोगन जादवकी ॥ ने० १ ॥ जान लेइ तुम व्याहन आए, लारे सेना माधवकी ॥ छप्पन्न कोम जादव मिल आए, ए अवसर नही फिरणेकी ॥ ने० २ ॥ रथ फेरी गिरवरकुं सिधाए, हमकुं छांमी नव भवकी ॥ मेरे सामरे श्याम सलूणे, मैं इहां नही अब रहणेकी ॥ ने० ३ ॥ सुण जिनजी मैं तोकुं कहतहुं, देखूं शोभा गिरवरकी ॥ मातापिता बांधव सब छंमी॥ जासुं संगे यादवकी ॥ ने० ४ ॥ हाथ जोरके वीनवै राजुल, बात सुणो पियु मुझ घरकी, हमकुं छोम चले गिरधारी, अब हे पीतम सरणेकी ॥ मा[illegible]० ५ ॥ नेम कहे तुम सुण हो राजुल, विषयारस [illegible] कोरधी ॥ यह संसार असार निरंतर, कर करणी [illegible] झलकै ॥ पियुजी पासे संयम लीयो, जिनसें क[illegible] करीने उत्तम कीनी, यह भव पार ऊतरणे[illegible] ॥ [illegible] राजुल नारी, पोंहता सेज परमप[illegible] पहुंचाए, येही शोभा हे जिनकी ॥ ने० [illegible] का[illegible] लावणी, जिनसें काया ऊद्धरणेकी [illegible] ॥ सुखकार [illegible] धूप है, फिर फेरा नाहिं [illegible] ॥ ने० [illegible] कहै [illegible] चंपा [illegible]

॥ अथ जिनदासजी कृत १० पद तथा लावणीओ ।

॥ अरे तुम जपो मंत्र नवकार, जीनोसें उतरो भव पार ॥ होय तेरी कायाको आधार, सफल कर ले ओ अवतार ॥ ध्यान तुम मनमें धरो नर नार, खाण दुख की संसार ॥ करो प्रभु निहाल अभी जिनदास, रखो प्रभु मुज चरणके पास॥१॥सरकजा कुमति नार काली, तेरी संगतसें गई लाली ॥ बिन समताकी में टाली, आतमा तपमें नहिं घाली॥अनंत भव दुख बांध्या खाली, वेदना निगोदकी झाली॥अमरपद जिनदास मांगे, फि०॥ अरु प्रभुजीकूं लागे ॥ २ ॥ शीश नित नमुं नाभिनंदन आणकर बोढ्यो केशर चंदन ॥ करत सब इंद्रादिक वंदन, कहा ही धर्म ॥ अब मनु ॥ साध्यो तें शिवपुरको साधन, सर्व जीवन। अब० १ ॥ में सुरनर गुण जिनदास गावै, शीश चरणेनं० ॥ मारे शिव समताका सुख या मेरा हसकर, चढावुं चंदन चले कुदेव भला कर ध्याया, भलाए सकर, पाप दल दूर गया खसकरन विषय भोग भाया ॥ में पम्चा हटाया कर्मोंका लसकर॥श्रीजिनगो० ॥ पण लग्यो अंत जब आय लिया वासा ॥४॥ समज मन छेब परमाद धर्म कर भाई रे, धर्म० कणवाला॥ वस्या तेरे हिये कुमर लही तुं सुकृत कर रे, तुं सु० ॥ ला ॥ फेर तो ममताकी मालामें धर रे, तुं करमकी माला काट थासें दे दिया ताला, देखो भिार २ कहुं लोय जगतसें तर रे ॥ तुं गणधर प्रेमपती, मुझे वरदानर रे, ज० ॥ तुं सीख सुगुरुकी मान थमती ॥ पूठ पर खम्हे जागततिरिया कर जान बैन अर भाई सो ने मिटी मेरी दुर्गतिकी सब गती मुझ मन भायो सदा गुण गीत, गन पद भक्तिसें पावै ॥ ६ ॥ ।करो नरक नहीं जाउं ॥ अं० ॥ ज्यां भरती कुमति नारी ॥ दहि० ॥ में मन वच काया आ० ॥ कामी संसारी ॥ इनोकी हं कार॥ सदा में चाउं ॥ सानंद, ग्नि

धरमधारी ॥ तु तुम परमारथ पाया, शरण अब जिनदास आ
या ॥ ७ ॥ चेत नर निगोदका वासी, कराई जगमें तें हांसी ॥
कुमतिकी गले फांसी, सुमतिसुं रखी हे उदासी ॥ कुमतिकी
वसी सेजखासी, मान रह्यो ममताकूं मासी ॥ हियो
खोल अतकूं परखो, करो जिनदास आप सरखो ॥ ८ ॥
अमर तेरी जिंदगानी, शीख सूत्रोंकी नहिं मानी ॥ किया
नेमनिर्ग्रंथज्ञानी, कानसें लगी कुमति रानी ॥ जगतमें ऊन
आये फेर मत आती तेरी दुरगतिकी गानी ॥ सेवक तोरा जिनदास
लेइ तुम व्याहन अनही काजे ॥ ए ॥ सफल नर तेरी जिंदगानी,
मिल आए, ए अवसर री ॥ किया निज गुरु निर्ग्रंथज्ञानी, कानसें
वरकुं सिधाए, हमकुं गंमगतमें अधिक चढ्यो पाणी, गती तेरी
ऐ, मैं इहां नही अब रहणेकी ॥ जिनदास वाजै, सुधारोगे तुमही
कुं कहतहुं, देखूं शोभा गिरवरकी ।
जासुं संगे यादवकी ॥ ने० ४ उठकर अपणें, जिन मंदिर जइये॥
बात सुणो पियु मुझ घरकी, ही० चल० ॥ चरण जिनवरजी
अब हे पीतम सरणेकी ॥ मा० ॥ करम सब तन मनका मेटो
ए हो राजुल, विषयारस ... कोई जिनवरका गुण भज लीजै, सम
तर, कर करणी ... नहि ... फलभक्तीका लहिये रे—लाभ० ॥
लीयो, जिनसें क... या दरम्यान ... ॥ ... रणो०, तज तामस तन मनका
भव पार ऊतरणे ... र बोलो—मेरी जान री० ॥
हता सेज परमपद ... व जिनध... रका खोलो ॥ मौनकर तन
हे जिनकी ॥ ने० ... का ... भना, जगे ... वन दिन प्यारतणा संगी रे,
काया उद्धरणेकी ... ग्रा ॥ सुखकेर काया पडी नंगी ॥ प्रीत सब
... ॥ ने० ... ॥ चंप... क कहे ... खरची खूटी, चेतनसें काया

जगतमें रहता उदासी रे ज०, परख्या में जिनराज कटी मेरी डुर गतिकी फासी ॥ तजो सब धंदा—मेरी ज्या० त० ॥ जिनवर मुख पूनमचंदा, जिनदास तुमारा बंदा ॥ मेरे एक जिन दर्शन चहिये रे—मे० ॥ च० ४ ॥ इति पदं ॥

पुनः ॥ तुम भजो जिनेसर देव, मुगतिपद पाईरे—मु० ॥ अब अचल अखंडित ज्योति सदा सुखदाईरे ॥ मैं रुल्यो चोरासी मांहि भूल्यो मैं भरम, भूल्यो०॥ म्हारे उदय अनंता डुख बांध्या जब कर्म ॥ मैं कदियक हूउ रंक फिरयो तज शरम, फि०॥ अरु कदियक राजा भयो गरथको गरम ॥ जब गरब आणकर बोल्यो पारका मर्म, पण निर्मल जगमें जैन कियो नही धर्म ॥ अब मनुष्य जनममें चेत घडी शुभ आई रे, घ० ॥ अब० १ ॥ मैं सुरनर का सुख वार अनंती पाया, अनं० ॥ मारे शिव समताका सुख हाथ नहिं आया ॥ मैं कुगुरु अने कुदेव भजा कर ध्याया, भला० ॥ मैं उलज्यो अनादि अज्ञान विषय भोग भाया ॥ मैं पड्या लोभके फंद जोडतो माया, जो० ॥ पण लग्यो अंत जब आय कालने खाया ॥ अब परहर सब परमाद धर्म कर भाई रे, धर्म० अ० २ ॥ अब डुर्लभ अवसर लही तुं सुकृत कर रे, तुं सु० ॥ अब दानशील तप भाव हीयामें धर रे, तुं करमकी माला काट आप परिहर रे, पा०॥अब वार २ कहुं तोय जगतसें तर रे ॥ तुं निर्मल नयणे देख जगतमें भर रे, ज० ॥ तुं सीख सुगुरुकी मान अज्ञानी नर रे ॥ अब पर तिरिया कर जान बैन अर भाई सो ने वे० ॥ अ० ३ ॥ अब जिनवर मुझ मन भायो सदा गुण गीत, गा सदा० ॥ अब इतनं [illegible] करो नरक नही जाउं ॥ अ[illegible]० ॥ मांही देव जिनेसर नेम[illegible] हि० ॥ में मन वच काया [illegible] आ० ॥[illegible]

ध्याउं ॥ ए दया, कि[illegible] कार सदा मैं चाउं ॥ सानंद[illegible]

चोरासी के माहि फेर नही आउं ॥ यूं अरज करै जिनदास, कीरत ए गाई रे ॥ की० अव० ४ ॥ इति ॥

॥ अथ सुमति कुमतिकी लावणी ॥ हांरे तूं कुमति कलेसण नार, लगी क्यूं केरू, ल० ॥ चल सरक खमी रह दूर तुझें कुण ठेरू ॥ हांरे तुं सुमतीको भरमायो, मुझे क्युं छोडी, मुझे० ॥ मेरी सदा शाश्वती प्रीत छिन कर्मे तोडी ॥ तुझ विन सूनी मेरी सेज, कहुं करजोडी, क० ॥ उठ चलो हमारी संग सुखे रहो पोढी ॥ युं झुर२ कुमति आंसु आंखसे रेरू, आं० च०१ ॥ हां रे तेरी नरक निगोदकी सेज, सेति में रुलो, सेति० ॥ पकड्यो साचो जिनराज, संग तेरो छूटो ॥ तेरो मूरख माने वात, हियाको फूटो, हिया० ॥ मैं सहज हुवो हुं दूर तार तेरो टूटो ॥ तुम करो दूरसे वात आव मत नेरू, आ० च० २ ॥ मेरी अनंतकालकी प्रीत पलक नहिं पाली, पल० ॥ सुमती के लागो संग मुझें क्यों टाली ॥ तुं सुमतीको सिरदार, सुणावे गाली, सु० ॥ तेरी हम दोनूं हे नार गोरी उर काली ॥ तूं हम कूं ठेले दूर सुमतिकुं तेरू, सु० च० ॥ ३ ॥ अब कुमतीको लल चायो, रती नाहिं झिगियो, र० ॥ सुणकर सूत्रनकी शीख, साच होय लगियो ॥ चेतन कुमतीकी सेज, दूरसुं भगियो, दू० ॥ जिनराज वचनको ग्यान, हिये में जगियो ॥ जिनदास कुमति तुं वात खोटी मन खेरू, खो० ॥ च० ४ ॥ इति पर्द ॥

॥ पुनः ॥ तुम तजो जगतका ख्याल, इसकका गाना, इस० हता से अलप कमर खूट जाय, नरक उठ जाणा ॥ तें दिना चार हे जिनर्क च लिया हे वासा, लि० ॥ तेरे सिर पर वैरी काल, करे काया नाश ॥ मैं बोलूं साची वात, झूठ नहीं पासा, झू० ॥ तूं सूता [illegible] निंद, किसी कर आसा ॥ अब [illegible]ची देव जिनराज खलक [illegible]ना, खल० ॥ तेरे जोबन सुखाका रंग, झूठ सब

आसा ॥ अब हिये धरो मेरी सीख, समझ रे दिवाना, स० तु० ॥ १ ॥ अब बुरी भलो सब वात, मोन कर रीजे, मो० ॥ ए मुख मीठा संसार भेद नहीं दीजे ॥ कर वीतराग विसवास, हिये धर लीजै, हिये०॥ पण नीच नारका संग मांहे मत भीजै ॥ अब सात विसनको संग, प्रीत मत कीजै, प्री० ॥ तोहे दुरगति दे पोहचाय तेरो तन छीजे ॥ तुं सुख दुखका सिरदार, रंक नह राना, रं० तुं०२ ॥ तुं विसरगया जुग वीच, नाम जिनवरका, ना० ॥ पच रह्या कुटंबके काज, किया फंद घरका ॥ तें दया धरम विन खोया, जनम सब नरका, ज० ॥ तेरे पल्ले बांध्या पाप, कसाई सरखा, अब लिया नहीं तें लाभ, वखत पर करका, व०॥तेरी वीती वात सब जाथ जनम युं खरका ॥ अब सुणो शीख सूतरकी सुलट रे स्याना, सु० ॥ तुम० ॥ ३ ॥ तेरी चरण सेज पर पोढ्या, आनंद दिल आया, आ० ॥ मेरी भगी भूख सब प्यास सुधारस पाया ॥ मेरे सिर पर तुम शिरदार, जिनेसर राया, जि० ॥ मैं चाहुं चरणकी सेव सफल कर काया ॥ अब द्यो दोलत दरसणकी, मेरे एहि माया, मे०॥ यूं अरज करे जिनदास अलख गुण गाया ॥ अब बुरा कुगुरु उपदेश सुणो मत काना, सु० तुम० ४॥इति पदं ॥

॥ पुनः नेमनाथजी की लावणी ॥ दे गया दगा दिलदार, सुणो मेरी माई, सु० ॥ जग रही नेम दरसनकी, सरस असनाइ ॥ अब अजब अलो जो नेम, मेरे शिर छाजे ॥ ॥ मे० ॥ जादवकी देखी ज्यान, जगत सब लाजे ॥ एसो नेम नवल इक वींद, अनोखो बाजे, अ०॥ सुरनर सब गावै गीत, गनन में गाजे ॥ अब दोम्दर सब दुनियां, देखणे आई, दे० ॥ १ ॥ अब चढा नेम ते गिरवर रे । ॥ [illegible]रकर, आ० ॥ [illegible] आये सुरंगा साज, किवले वनखंड में० ४॥ इति परमानंद, ॥ [illegible]

हिया न्नरकर, ह० ॥ ले गयो पती नेमनाथ, मेरो मन हरकर ॥ सखी सुख संपत अंगणमें, आज चल आई, आ० हे० २ ॥ अब इण अवसरमें सूरत, स्यामकी लागी, स्या० ॥ पशुअनकी सुणी पुकार, दया दिल जागी ॥ जिन ली परवतकी वाट, तृष्णाकूं त्यागी, शिवरमणीके शिर वींद, वण्यो वैरागी ॥ अब महल चढी राजुलकूं, खमी गिटकाई, ख० दे० ३ ॥ अब रेतीके सखरमें, टिके नही पाणी, टि० ॥ जिनगुण गाया नहीं जाय, अलप जिंदगानी ॥ अब कठन जीव डुरगतको, बन्यो मेंदानी, ब० ॥ जिनदास करो न्नव पार, दया दिल आणी ॥ अब शरण सतीके बैठ लावणी गाई ॥ ला० ॥ दे० ४ ॥ इति पदं ॥

॥ अथ मगसी पार्श्वनाथकी लावणी ॥

मुलक वीच मगसी पारसका बाज रह्या झंका, मुगति गढ जीत लिया वंका रे, मु०॥ मुल०॥ करमदल बलकूं क्षय कीया रे, क० ॥ मुगतिमहलमें केलि करै, अनुन्नव अमृत पीया ॥ शाशता जीया, माहाराज शा० ॥ कल्याणक कारज कीया, अमरापुर पदवी लीया, कमठ जसका करगये फंका रे, क० ॥ मुल० १ ॥ प्रन्नु पारस न्नजले न्नाई रे, प्रन्नु पा० ॥ न्नाव न्नमरका मेट जोत तेरी जगमें सवाई ॥ टेककूं टालो, महाराज टे० ॥ चंचल चितसे मत चालो, गुमान गरवकूं गालो, गरवसे धूर मिली लंका रे, ग० ॥ मु० २ ॥ मेरे शुन्न न्नाग्य उदय आया रे, मेरे० ॥ इण पंचम आरा मांहि प्रन्नु मगसी पाया, पापसे झरता, महाराज पाप० ॥ न्नवि जीव ध्यान दिल धरता, श्रावक नित समरण करता, मरण डुख मिटया मेरे शंका रे, म० ॥ मु० ३ ॥ महिमा मगसीकी अब जाणी रे, का० ॥ नहि क्षमी मेरे [illegible] रब विना पाणी ॥ में [illegible] वर न्नाच्या, [illegible]सी कर आसा ॥ अब [illegible] [illegible]ा, खल० ॥ तेरे [illegible] जोवन [illegible]ास जिनंदसें राच्या, म-

गसीपारश हे साचा, करो मत मनमें कोइ संका रे ॥क० मु० ४ ॥

॥ उपदेश लावणी ॥ सुकृतकी वात तेरे हाथ रती ना रही रे, पुदगलमें मान्यो सुख कलपना कही रे ॥ सु० ॥ जग मांहे जैन निज सार संघाते आवै, संघा० ॥ इसकुं तजकर क्युं वैठो, विषय गुण गावै ॥ अमृतकूं अलगो ढोल, विसन विष खावै, वि०॥ मुगतीको मारग मेट, उवटमें जावै ॥ थारी तुछ जिंदगानी मांहि, विकल वुध उई रे ॥ पु० १ ॥ थारे धन दोलत भंडार भरयां हे मोती, भ-रया० ॥ सत्रु सज्जन सब बने, जगत हुय गोती ॥ कोइ मसलें तेल फूलेल, धोवे कोइ धोती, धो० ॥ सन्मुख उठ आवै, अबला तेरो मुख जोती ॥ एसी संपत छिन मांहि सरब क्षय उई रे, स० ॥ पुद० ॥ २ ॥ तें खटरस खाया खूब, खजाना खोया, ख० ॥ निसदिन सु-खभर सुंदरकी, सेजमें सोया ॥ सजिया शोले सणगार, नारिसें मोह्या, ना० ॥ तें अंतरघटका मैल रती ना धोया ॥ या नरक नि-गोदकी वाट, पकड़ कर लही रे, प० ॥ पु० ३ ॥ मन मातो आठ मद मांहि, गरवसें वोले, ग० ॥ में सुख संपतको नाथ मेरे कुण तोले । दुर्बल करता पोकार, पलक नही खे वीनवै, चाकर हुय रह्या हजूर चमर सिर ढोलै, अब
यो हाथ, चेत तूं सही रे, चे० ॥पु०४॥ कायासें जन धारी है ॥
इ चंगी, व० ॥ पलभर परवारयो पुन्यतणो री है ॥ करूं२
परभवकी वाट, होय कुण संगी, हो० ॥ ते काल आचारी है ॥
काया पड़ी नंगी ॥ जिनदास कहे करमोंसें है ॥ करूं२ में० २॥
॥ पु० ५ ॥ इति पदं ॥ ॥ पुनः धारी है ॥ निभव अरु
तुम तजकर राजुल नार, त करूं२ में० ३ ॥ संवेगी
में नमुं नेमके पाय गया गिरवर रे । ॥ ग्यान ध्यानसें शिवपद
पल्ले लागी, तुम त्याग चलै वनखंड में० ४॥ इति पदं ॥ आरि

सतवंती भावसैं त्यागी, भा० ॥ थारे अंतरघटमैं ज्योत ज्ञानकी जागी ॥ यूं रोती राजुल नार नेण भर२ रे, ने०॥ मैं० १ ॥ मैं अरज करूं करजोड़, करो मन परसन, करो०॥ मेरे सिर पर तुम सिरदार, देजो मोहे दरसन ॥ अब सुख सखियनका देख, लग्यो मन तरसन, ल० ॥ मेरे आवै नयणमें नीर लग्यो नित वरसन ॥ मेरे नेम मिल-नकी आस, मिलूं क्यूं कर रे, मि० ॥ मैं० २ ॥ मैं नहि कीनी त कसीर, चले क्यूं रूठै, च० ॥ मेरे घरमैं कुटुंब परिवार चार दिस चूंटे ॥ मैं रहूं जो घरके मांहि, जोवन जम लूंटे, जो० ॥ मैं चलुं पियाके संग, प्रीत क्यूं तूटे ॥ मेरे नेम विना नहीं डर, जगतमें वर रे, ज० ॥ मैं० ३ ॥ तुम तारी राजुल नार, मुगतमें मेली, मु० ॥ पीछै नेम गये निरवाण, करम सब ठेली ॥ मैं नित ऊठे परभात, नमुं पद पहेली, न० ॥ मेरे नेम विना नहिं डर जगतमें बेली ॥ युं अरज करे जिनदास सुणो जिनवर रे, सु० ॥ मैं० ४ ॥ इति पदं ॥

पुनः ॥ उपदेशकी ॥ आप समझका घर नहिं पाया, दूजेकुं क्या समझावै ॥ वंका फिरे जिनदास जगतमें, हीयो हाथमें नहि आवै ॥ वी लीया, द चाहनकी चितमें, चानक अधिकी आय लगे, इंद्रीका पारस भजले ग्यो, ग्यानकला कहो केसें जगें ॥ तृष्णाने जग लूंट सवाई ॥ टेककूं टा री परधनकुं ठगै ॥ खाय२ लोही मांस वधायो, गरवकूं गालो, गरवसे पगे ॥ विषय विपतकी करै चूंथणी, चरचासैं शुभ भाग्य उदय आय। ही० आ० १ ॥ अपने अवगुणकूं नहीं देखै, मगसी पाया, पापसे डरत. हिंसाहीमे हूओ हजूरी, दया दूर दिलसें दिल धरता, श्रावक नित स प मेरो मन, अवगुणके रसकूं चाखे ॥ का रे, म० ॥ मु० ३ ॥ मरणे जिनवर किम राखे ॥ ठग फा-का॥ नहि ऊधरी मेरी रसी कर ग्रस इनकूं ध्यावे ॥ वं० ही० आ० ॥ वर जाच्या, ना, खल० ॥ तेरो तमा, अजान होय सो मोहि पत्तै ॥

नही गाममे रुख अंबको, एरंड अंब सरिखो सूझै ॥ पारख नहीं है हीये ग्यानकी, गुण अवगुण कूं कुण बुझै, गाडर देख कहै मुझ घरमें, कामधेनु इतनी दूझै ॥ एसी मेरी अविनीत आतमा, अवगुण किम गाया जावै ॥ वं० ही० आप० ३ ॥ क्रोध मान मायामें भातो, लोभ मांहे लपट्यो रहतो ॥ गरथ गुमानी गमको गरजी, पीड पारकी नहिं सहतो ॥ भगति नहीं गुरु देव धरमकी, कठन वचन मुखसें कहतो, अंतर आंट न खुलै हियाकी, पूठ परमपदकूं देतो ॥ स्वांग सजी जिनदास जैनको, माल मुलकको ठग खावै ॥ वं० ही० आप ४ ॥ इति पदं ॥

अथ सुगुरुकी लावणी ॥ नमूं२ मैं गुरु निग्रंथकूं, वे जिन मुद्राधारी हे ॥ पुलक ऊपर प्रेम न करता, मनकी ममता मारी हे ॥ न० १ ॥ गरब गालकर गुपति गोपवे, गत निग्रंथकी न्यारी हे॥ कनक कामनीके नही भोगी, वे पूरा ब्रह्मचारी हे ॥ न० २ ॥ छै कायके जीव अनाथी, उनके वे हितकारी हे ॥ करम काटकर केवल पावै, ज्ञानगरभ गुण भारी हे ॥ न० ३ ॥ शुध्ध श्रद्धासें सुमती सेवी, निज आतमकूं तारी हे ॥ जिनवरकूं जिनदास वीनवै, उनके चरण बलिहारी हे ॥ न० ४ ॥ इति पदं ॥

पुनः॥ करूं२ मैं एसे सदगुरु, थिवर कल्प जिन धारी हे ॥ सरधा शुद्ध सदा उपदेशी, भविजनके उपगारी हे ॥ करूं२ मैं० १ ॥ च्यार निक्षेपे सप्त भंग नय, देश काल आचारी हे ॥ विरताविरती सर्व विरतके, धार धरावणहारी हे ॥ करूं२ मैं० २॥ सत्य सनातन कुल अरु गणके, परंपराके धारी हे ॥ निन्हव अरु पाखंड खंडते, जैनधर्म जयकारी हे ॥ करूं२ मैं० ३ ॥ संवेगी अरु संवेगपक्षी, मुनी जती गुणकारी हे ॥ ग्यान ध्यानसें शिवपद साधे, कहे पाठक रूद्दसारी हे॥ करूं२ मैं० ४॥ इति पदं ॥ अथ

॥ अथ कुगुरूकी लावणी ॥ तजुं२ में उन कुगुरुकुं, कनक कामनी धारी हे ॥ ज्ञान ध्यानकी वात न जाणे, अष्ट करमसें न्यारी हे ॥ तजूं० १ ॥ करी कपाल वभूत लपेटी, शिर पर जटा वधारी हे ॥ कान फाडकर मुद्रा पहरे, उसके घरमें नारी हे ॥ तजूं० २ ॥ जोग लेइ जग जीव विणासे, वे मद मांस आहारी हे ॥ कूडा पंथ जगतकूं करतां, मुखसें कहे आचारी हे ॥ तजूं० ३ ॥ कहूं उगुण कुगुरूका कव लग, साथ नही संसारी हे ॥ आप डुबे उरनकूं डुवावै, डुर्गतिका अधिकारी हे ॥ तजूं० ४ ॥ समकित श्रद्धा जैनधर्मकी, नहीं कुगुरूकूं प्यारीरे, जिनवरकुं जिनदास वीनवै, कुगुरू संग खुआरी हे ॥ तजूं० ५ ॥ इति ॥

आत्मलघुता लिख्यते ॥ यो जिनदास झूठो रे झूठो, येने लेइ लाकडी कूटो ॥ यो० ॥ सुकृत सामो पग नहीं भरतो, ग्यान हियाको खूटो ॥ सुधारयो सुधरे नही घडतां, जैसो लकडको ठुंठो ॥ यो० १ ॥ भणवा गुणवाका गुण नाहिं आया, कोरोही पकड्यो पुठो ॥ गपोडा सुणकर लोक पूजता, ए अलग मालको ठूंठो ॥ यो० २ ॥ पंडित गुरुकी सोबत पाई, चेत्यो ना हीयाको फूटो, साचा नरको संग न करतो, कूड कपट नहीं छूटो ॥ यो० ३ ॥ झूठोही बोले झूठोही चालै, कपट करे एक मूठो ॥ साचो एह असार देखके, जिनदास सबसुं रूठो ॥ यो० ४ ॥ इति पदं ॥

॥ अथ वैराग्य लावणी लि० ॥ जब तन दोस्ती है इह मस्ती, काया मंगलकी ॥ सासोस्वास समर ले साहिब, आउ घटे तनकी ॥ खबर नही हे जुगमें पलकी, सुकृत करणा होय सो करले, कुण जाणे कलकी ॥ ख० १ ॥ तारामंडल रवी चंद्रमा, [illegible]ठी चलाचलकी ॥ दिवस च्यारका चमत्कारहे, बीजलियां [illegible]की ॥ ख० ॥ सु० ॥ २ ॥ यो जग हे सपणेकी माया, उस

बूंद जलकी ॥ विणस जावता वार न लागै, दुनिया जाय खलकी ॥ ख० ३ ॥ हंसा या देहीमें जब लग, खुसी हे मंगलकी ॥ हंसा छांड चले जब देही, मिटिया जंगलकी ॥ ख० ४ ॥ मनभावत तन चंचलहस्ती, मस्ती हे बलकी ॥ सदगुरु अंकुश दीया आनके, वार्ता जई थलकी ॥ ख० ५ ॥ मात पिता सुत बंधव जाई, सब जन मुतलबकी ॥ काया माया सबे कारमी ॥ ए तेरे कबकी ॥ ख० ६ ॥ झूठ कपट कर माया जोमी, कर वार्ता छलकी ॥ बोझकी गांठ बंधी सिर तेरे, केसे होय हलकी ॥ ख० ७ ॥ देव धरम साहिबका समरण, ए वाता सलकी ॥ राग द्वेष ऊपजै नही जिनकूं, वीनती अखैमलकी ॥ ख० ८ ॥ इति पदं ॥

पुनः। अरज हमारी सुणो, दीनपति, कोन जांत तिरणा॥ हम दुखी फिरत संसार चतुर गति, सो तुमसें निरणा, दीनपति को० ह० १ ॥ घोराघोर तरकके जीतर, नानादुख जरना ॥ मारन ताडन छेदन जेदन, डर देह धरणा ॥ दीनप० २ ॥ कबहुक तिरयंच जोनि पायकै, गले फास परना ॥ क्षुधा तृषा अरु शीत उष्णता, मार मार करना ॥ दी० ३ ॥ देव विजूति पायके सुंदर, देख२ झूरना ॥ जब माला मुरझावण लागी, सोच किये मरणा ॥ दीनप० ४ ॥ मनुष्या जनम पायके जक्यो, कहुं नांही थिरना ॥ साहिब तुम सरणागत राखो, जनम मरण हरना ॥ दीनप० ५ ॥

॥ मुक्ति जाणेकी डिगरी ॥

दूहा ॥ तीर्थंकर महावीरने, कौशल गणधर साज ॥ कानून प्ररुप्पा हे दया, सब जीवन हित काज ॥ १ ॥ दान शील तप जावना, असल खुलासा सार, जिण पुरषां धारण किया, पोहच्या मुगति मझार ॥ २ ॥ चवदै सहस साधु हुआ, आर्या छत्तीस हजार, लाखा श्रावक श्राविका, पाया जवजल पार ॥३॥ (चारि

रंफ़ेके ख्यालकी) मेरी अदालत प्रभुजी कीजीवै ॥ जिनसासन नायक, मुगती जाणेकी डिगरी दीजियै ॥ जिन० ॥ खुद चेतन मुदई बनाहे, आठुं करम मुदाला ॥ हावा रसता मुगति मारगका, धोखा दे जाय टाला जी ॥ जि० १॥ तप कागद इस्टांम लिया, तलवाणा क्षमा विचारी ॥ सिझाय ध्यान मजवून वणाकर, अरजी आन गुजारी जी ॥ जि० २ ॥ मैं जाता था मुक्तिमारगमें, करमोंने आ घेरा ॥ धोखा देकर राह भुलाया, लूंट लिया सब मेरा जी ॥ जि० ३ ॥ वहोत खराव किया करमोंने, चौरासीके मांही ॥ दुख अनंता पाया मेने, अंत पार कछु नांही जी ॥ जि० ४॥ सच्चे मिले वकील कानूनी, पंच महाव्रतधारी ॥ सूत्र देख मसोदा कीना, तव मैं अरजी मारी जी ॥ जि० ५ ॥ पांचे सुमती तीन गुप्ति ए, आठुं गवा बुलावो ॥ शील असेसर वडा चौधरी, उसकूं पूछ मंगावो जी॥ जि० ६ ॥ अरजी गुजरी चेतन तेरी, हूआ सफीना जारी ॥ हाजर आवो जुआव लिखावो, लावो सावूती सारी जी ॥ जि० ७ ॥ आठुं मुदा है हाजर आये, मोह मुगत्यार बुलाये ॥ च्यार क़षायरु आठे मदकूं, साथ गवाहीमें लाये जी ॥ जि० ८ ॥ (टेर मुदायलेकी) ॥ जिनशासन नायक, कूवा दावा है चेतन जीवका, जि० ॥ हमनें नही वहकाया इसकूं, ए हमरे घर आया ॥ करजा लेकर हमसे खाया, एसा फरेव मचाया जी ॥ जि० ९ ॥ विषयभोगमें रमिया चेतन, घाटा नफा न जाणा ॥ करजदार जव लारे लागा, तव लागा पिस्ताना जी ॥ जि० १० ॥ हाजर खडे गवाह हमारे, पूछियै हाल जु सारा ॥ विना लियां करजा चेतनसें, कैसें करे किनारा जी ॥ जि० ११ ॥ (टेर मुदईकी) ॥ चेतन कहै सतावी मांही, सुण शासनकी हार ॥ इमानदार हैं गवाह मारै. जाणे सव संसार जी ॥

जि० मे० १२ ॥ मैं चेतन अनाथ " ॥ (दुहा–साखी) उग्रसेनजी
जीव अनंते राह चलतकूं, लूंट चोराजीव करि एकठा, वाम्हो अ-
१३ ॥ बम्हे२ पंडित इन लूंटे, एर त्यारी ॥ नेम० ३ ॥ नेमजी
उर पाप कराया, एसा करज च कुरलाए ॥ नेमजी वचन फुर-
सल एन सरकारी सूत्रमें, मदहा–साखी) याको जोजक होवसी,
हिंसा कहकर; उलटा जीव फ सुणी नेमजी, थरहर कांपे देह ॥
अर्थसें वेद पढाया, हिंसक थनेम० ४॥ पीछेसें राजुलदे आई, हाथ
खाकर, एसा मुझे सतायाजकहां तूं जावे मेरी जाई, उर वर हेरूं
वताया, तपस्या सेती छिगामेरे तो वर एकही, हो गया नेमकुमार ॥
जाल फेलाया जी ॥ जि० टी करो विचार ॥ दीक्षा जद राजुलने
अपील होण न पावे ॥ ध्यां सबही समझावै, हियै राजुलके न-
जावै जी ॥ जि० मे० १छो दरसावै, मेरे मन नेमकुमर जावै ॥
कों समझाया ॥ चेतनकीकण दोरझा, तोझ्या नवसर हार ॥ काजल
या जी ॥ जि० मे० १एो सब सिणगार ॥ सहेल्यां सबही विल-
सेती दिलाया, जि० ॥ सुणा सब शोले सिणगारा, आभूषण रत्न-
पाई ॥ फागुण सुदि दशम सबही सुख खारा, छोडकर चाली निर
जि० मे० २० ॥ इति ॥ पिता परवारकूं, तजतां न लागी वार ॥
॥ अथ अजाय चढि गिरनार ॥ झूरति छोडि मा
साहब अदालत पर ल पशुवनकि आई, त्याग जब किनो
लाए है ॥ शील दे सिख गिरनारे जाई, पशुवनके बंधन छुडवाई
वारण सत्त श्रावगण राजुल गिरनारपें; लिनो संजमदान ॥ नवलराम
ग्यो है मोहोसल ताकुपन्यो केवलग्यान ॥ जिनोकि किरिया बुध
है ॥ रोसकी रसूम इति पदं ॥
सत्यार लटकाये हैं नाथजीका चोमासा लिख्यते ॥
थी, तबके कुछ स्वावागनमें कारि, राजलकं विरह दुख जारि

॥ ढा० ॥ चौमासा लग्या रस भिना, अलि अषाढ रंग महिना ॥ च्यारुं तरफसें वादल पिना, विजलिने चमकणा किना ॥ दिल होत धमकता लिना, में अवला सखी पति हीना ॥ (जमाना) सरररर चलत समीर, थरररर करत सरीर ॥ मररररर मरत समीर ॥ अलि केसी करुं तदवीर, वुरी तकदीर, पीया विन प्यारी ॥ राजुलकूं वि० १ ॥ श्रावणमें श्याम घनघोर, जरजोर वोलते मोर ॥ दाडुर मिल करते दोर, पिउ२ पपइया सोर ॥ जम लग्यो वूंद जमकोर, विच चमके दा मनी कोर ॥ (जमावनी) खमममम रवधनमाला, तमममम जल परनाला, अमममम नाला खाला, में दुखी हुई वेहाल, हीयेमें साल, हुई जलधारी ॥ राजु० २ ॥ भाद्रवमें पवन प्राचीना, वाद लमें धनुष रंगीना ॥ जंगलमें नदी स्वर भीणा, ज्युं वाजे मनोहर वीणा ॥ अव एसें कहो क्या जीना, प्रीतमनें मुजे दुख दीना ॥ (जमाना) युं विलपत मुख मुरभाई, सखियन मिल दौड जगाई, यूं विलखत वचन सुनाई ॥ सखी देखो पीयाकी रीत, तोडके प्रीत, गये गिरनारी ॥ रा० ३ ॥ आश्विनमें जरा नही धीर, याडुचंद भये वे पीर ॥ उठ चली नेमके तीर, काटनकूं कर्म जंजीर ॥ प्रीतमसें लीयो अकसीर, व्रत संजम समकित हीर ॥ (जमाना) शिव राजुल नेम सिधाए, इंद्रादिक जसु गुण गाये, भविजन मिल शीश नमाए॥ मुनि कहे कपूराचंद, प्रेमसे वंद, जाऊं वलिहारि ॥ राजु० ४ ॥

॥ सुमति कुमतिका विवादरूप लावणी ॥

चिदानंद महाराज राज हे, प्रितम दोनुं प्यारीका ॥ झगडा दिल धरकर सुण लेणा, सुमति कुमति दोउं नारीका० ॥ चि० ॥ कहंति सुमता सुणरी शोकन मोह लिया प्रितम प्यारा, अविरत उ- कषाय इस्कमें जाल गया सुधवुध सारा ॥ तूं वैरण हे जनम२की

तेरा संग लगे खारा, तेरे वसमें हो गया प्रीतम पलक नहीं होता न्यारा ॥ कहुं खराबी कब लग तेरी तेरा चरत छंदगारीका ॥ झगमा दि० १ ॥ कहती कुमता सुणरी सुमता मेरा संग अनादीका, वो मेरा प्रीतम इस्क जमर हे, इंद्री पांच सवादीका ॥ कर सिणगार कसाय सोलके राग रंग उनमादीका, मैंहुं मोह-रायकी ललनी वो प्रीतम सहजादीका ॥ तेरे पास नही आवेगा बालम वो हे फूल हजारीका ॥ झ० २ ॥ सुण रे वैरन वात हमारी तेरे संग दुख पावेगा, तेरा महल पातालखोकमें जहां वो वास वसावेगा ॥ संगतके फल उसकूं लगेगा फिर पीछे पछतावेगा, आखिर छेह देवेगी वैरण केसें प्रीत निभावेगा ॥ मैं समजावुंगी प्रीतम मेरा जो मानें दिलदारीका ॥ झ० ३ ॥ कुमता बोली बात सुमतसें तेरे संग क्या होणा हे, नही जहां वस्ती सूना मंदिर सुख दुख दोई खोणा हे ॥ खाणा पीणा नही जहां पर राग रंग नही सोणा हे, नही उजाला नही अंधेरा शिल्ला सहज विछोना हे ॥ एसा मेरा जोग छोमके सहे न दुख अणगारीका ॥ झ० ४ ॥ कहती सुमता सुण मेरे प्रीतम इसकी संगत नही करणा, टुंक इक सोच करो दिल भीतर वात अरज दिलमें धरना ॥ निगोद इसकी बोत कठिन हे स कारण बांके नहिं पमना, पहली सुखसें फिर दुख उपजे वो वनारीसुं मरणा ॥ रतन तीनका तूं हे भोगी मुगति महल शिणगारो हे ॥ झ० ५ ॥ एसे बोल सुणे ताके चिदानंद उ, मुगतिमहलगोमें आंसु जर रोती प्रीतमका त्या पछा ॥ माणी) हे तूं चंपावो साजन सोकणकी सुणके ना, में अबलासेंमुख चंद मधुरधुसें होय तुमरा जल्ला ॥ मैंहुं री जनमरकी, हे तूं लागे सबकीका ॥ झ० ६ ॥ तजके संग तनारीका सुम २ ॥ कपटी साज, संजमसे सिणगार वणाकर

शील सुगंध लगाया हे ॥ प्रीत रीतसे सदा मगन हुय मुगतिमें हल जव पाया हे, सीख सुरंगी मानो जन विजन अपणां दिल सम झाया हे ॥ कहे रामरुद्धिसार प्यारसें तजो ख्याल संसारीका ॥ झ० ७ ॥ इति पदं ॥ नेमप्रभूकी लावणी ॥ सज शोले सिणगार हुई हुसीयार सहेल्या सारी, चली राजुल गिरनारी रे०॥ कर केसरिया वेस छिटक रह्या केश, अजब नखराली, खुली तो जेसे केसर क्यारी रे ॥ गल मोतियनको हार, वणी तो दिलदार हंस जेसी चाली, मधुर मुख वैण उच्चारी रे॥ (उठावणी) नेणा-नमें कजरा हद नीका, सिर सोहै रतनोका टीका ॥ चंदवदन सा हुसन परीका, लगी पियासें लगन, मगन दिल सघन घटा जेसें कारी ॥ चलीतो रा० १ ॥ करे पियासें अरज गरज मेरी सुण वालम दिल वाते, गुने विन क्युं छिटकाते रे ॥ में चरणनकी दाश रहो मेरे पाश जोवने मदमाते, जोड कर शीश नमाते रे ॥ (उठावणी) आठ भवनकी प्रीत हमारी, आप पिया में प्रीतम प्यारी ॥ साजन प्रीत निभा इकतारी, तेरे विना नहीं चैन, नींद नहीं रैन, सभी तो लगे खारी [illegible] ॥ सजके खुव वरात साथ लिये राम कृष्णासे आई, पहा [illegible] लगन लगाई रे ॥ अब क्या देखी खोट लगा दिल [illegible] ॥ (आई, कहो मुझकूं सम झाई रे ॥ (उठावणी) [illegible] वजन मिले शीश नमाए दिलमें अरज हमरी लाणा, सु[illegible] वलिहारि ॥ राजु० १ ॥ मेह लग्या तुमसे नेह [illegible] रूप लावणी ॥

ज्ञान एक घर ध्यान स[illegible] म दोनुं प्यारीका ॥ झगमग विजली जेसी चमक [illegible] दोउं नारीका० ॥ चि० ॥ खिर जावे रे॥ (उठा[illegible] लिया प्रितम प्यारा, अविरत उ- प्रेम उसीसे करणा, [illegible] ॥ तूं वैरण हे जनम२की

मान, ज्यान धोखेकी समझले सारी ॥ च० ४ ॥ गुणवंतोका संग रहे नित रंग समझले स्याणी, जगत थोडी जिंदगानी रे ॥ चली जाय सब खलक पलकका नहीं जरोसा जाणी, करो सुकृतकी निसाणी रे ॥ (जुडावणी) इतना कह्या जब दिल समझाया, अविचल राजुल नेह लगाया, सदा मुगतिमें वास वसाया, कहे राम रुद्रसार, करो तो एसा प्यार, नाम रहे जारी ॥ चली० ५ ॥ इति पदं ॥

पुनः ॥ चंदावदनी मुखसे केती गिरनारीकूं जावोगे, राजुल कन्नी अरज करत हे प्रीतम कब घर आवोगे ॥ डुष जर गाती मनमें चिंता नेणामें आसुं झरते, हाथ जोडके राजुल कन्नी वार वार विनती करते ॥ ज्यान वणाई व्याहन आए घर२में आनंद वरते, किस विध गांम चले गिरनारी मेरी दया नहिं दिल धरते ॥ में चरणाकी खासी जो दासी तुम विन मेरे नही सरते, ज्यूं सागरमें जल विन मछली प्राण घडी पलमें हरते ॥ (जुडावणी) हे तुं महिर निजर कर आव फेर रथला रे, तूं चंदवदन दीदार मुझे दिखला रे ॥ हे तूं दिलकी घूंडी खोल चूक चतला रे, हे तुं मोहनगारा प्यारे हे जी मुझकूं साथ निजावोगे ॥ रा० १ ॥ डुखसुं जरी वातां मत वोलो राजुल मन धीरज धारो, एकर थांसु मिलणे कारण मुगतीमहलमें मन मारो ॥ जर नार [illegible] शिवनारीसुं मन प्यारो, पांच सखी ले साथ सिजोगी मुगति महल [illegible] शिणगारो ॥ कवल वचन थांसुंमें कीनो रा[illegible] सुमताके चिदानंद ज, मुगतिमहलमें आसां हे सुंदर सोच फिकरकूं पकड्या पल्ला ॥ म[illegible]णी) हे तुं चंपकली सी नार जोवन मतवाली, [illegible]ल्ला, में अबला [illegible]मुख चंद मधुरधुनिवाली ॥ हे तूं शील सलूणी [illegible]ासी जनम२की, हे तूं लागे सबकों प्यारी हे जी मुझकूं कदि न कुमतनारीका सुम[illegible] २ ॥ कपटी साजन हसकर बोले मनकी [illegible]सी

नहि खोलै, या दुनिया मुतलबकी गरजी विन मुतलब मुख नहिं बोले ॥ सहज प्रीतकी रीत लगाणी फिर निभणी मुसकल होलै, धन्न मानव जो प्रीत निभावै तर२ अथकी रंगरोलै ॥ अरज वीनतो करके राजुल वचन रसीला अणमोले, जलदी आयजो नेमकुमरजी सुगतिमहलमें रमझोलै ॥ (झमावणी) हेवा चंदकपूर अपूरव ख्याल बणावै, हेवा नरनारी मन रंग रागसुं गावै ॥ हेवा झांझ ताल डफ ढोल मृदंग बजावै, हेवा आनंद हर्ष वधावै है जो मन वंछितफल पावेगे ॥ रा० ३ ॥ इति पदं ॥ पुनः ॥ कोइ देखया रे हो सांवलिया साहिब प्यारा लागे रे० ॥ अश्वसेन घर जनम लियो अवतारी रे, वामानंदन नीलवरण सुखकारी रे, चंद वदन मनमोहन मूरति प्यारी रे ॥ हांरे० सु० कोइ० १ ॥ बालपणे प्रभु अदभुत ग्यान सवाई रे, कमठ सठा शठ मान हरयो दुखदाई रे, मंत्र दियो हितकारी नाग सहाई रे ॥ हां० नाग० को० २ ॥ सिर पर मुगट श्रवण कुंडल छद भारी रे, कर श्रीफल भुजबंध झलक छबि न्यारी रे, गल मोतियनको हार बण्यो गुलझारी रे ॥ हांरे गु० को० ३ ॥ पतित उधारण तारण विरुद वडाई रे, पारस२ नाम जपो वरदाई रे, चंद कपूरा प्रणमें प्रेम वधाई रे ॥ हांरे प्रे० को० ४॥

॥ अथ केसरियानाथ लावणी ॥

सुणजो बातां राव सदाशिव, मत चढ जाणा धूलेवा ॥ यदुपति जनका बडा अडंगा, मत वेडो तुम उन देवा ॥ सु० १ ॥ सकतावत चुंडावत बोले, हमही नोकर उनहीका ॥ त्रीभुपति वाकूं हाथ जोडै, तीन भुवन शिर है टीका ॥ सु० २ ॥ स्वर्ग मृत्यु पाताल सवेही, सुरनर वाकूं ध्यावत हैं ॥ इंद्र चंद्र मुनि दर्शन आवें, मनकी मोजां पावत है ॥ सु० ३ ॥ गया राज उनहीसें पावें, निर्धनियाकुं धन देवे ॥ बांझ खिलावे सुंदर लडका, सदा

सुखी जो प्रभु सेवे ॥ सु० ४ ॥ तारे जिहाज समुद्रमें जाके, रोग निवारे भवरुका ॥ भूप भुजंग मद्दर करि नदियां, चोरन बंधन अरिदवका ॥ सु० ५ ॥ धौं धौं धौं धौं धोंसा वाजे, दशो दिशामें दे फंका ॥ भाग तातिया नहीं भलाइ मत वतलाओ गढ वंका ॥ ॥ सु० ६ ॥ राणांजीके कुमरावकी, मानत नहिं हे ये वातां ॥ थांरा कीया थेहीज पावो, म्हे नहिं आवां थां सायां ॥ सु० ७ ॥ मूंव मरोम चढा अभिमाने, जहर भरा हें निजरूमें ॥ रुषभदेव हे साहिब सच्चा, देख तमासा फजरूमें ॥ सु० ८ ॥ मयाराम सुत भणे मूलचंद, वम्हे सितंवर तुम देवा ॥ फोज विखरगई घर२ घोमां, लज्जा राखो तुम देवा ॥ सु० ९ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥ केसरियानाथ महात्म लावणी ॥

॥ दूहा ॥ आदि करण आदिम जगत, आदि जिनंद जिनराज ॥ धूलेवनाथ जाचो धणी, वरणुं श्रीमहाराज ॥ १ ॥ (चाल लावणी) काश्यपगोत इक्ष्वाकु वंशमें, मरुदेवा जननी जायो ॥ नाभि नरेसर वंश उजालन, आदि धर्म जस प्रगटायो ॥ १ ॥ चोसठ सुरपति देव देवी मिल, मंदिर गिरपें न्हवरायो ॥ इसो रुषभ निधि प्रगट कल्पतरु, सुरनर मुनिजन नित ध्यायो ॥ २ ॥ खम्गदेशमें नगर धुलेवें, जास दुदामा घुरता हे ॥ जाकी महिमा अपरंपारा, कविजन कीरत करता हैं ॥ ३ ॥ आदौ मुरत काल असंख्यकी, पूजी सुरगण असुरिंदा ॥ सुरपति नरपति वंदित पद युग, वलि पूजत सूरज चंदा ॥ ४ ॥ लाख इग्यार हजार पंचासी, वरस पांचसे पच्चासा ॥ इतने वरस पर लंकागढमें, पूजित रावण गुणरासा ॥ ५ ॥ रामचंद्र शीता अरु लछमन, ए मुरत पूजन लाए ॥ नयरी अयोध्या जाते अधविच, नयर उजेणी ठहराए ॥ ६ ॥ प्रजापाल नरपतिकी तनया, सुंदरि मयणा धरमनकी, श्री

पकरम अरु आपकरमकी, नई लराई मरमनकी ॥ ७ ॥ आपकरमके ऊपर नृपनें कुष्टी वरपें परणाई ॥ मयणा चिंते कांई नवाई, करम लिखी सो वन आई ॥ ८ ॥ इक दिन जिनपूजन गुरुवंदन, आई श्रीजिनमंदिरपें ॥ वंदन पूजन करके इक चित, ध्यान धरे मनकंदरपें ॥ ए ॥ (मोतीदाम छंद) तूंहि अरिहंत तूंहि जगवंत, तूंहि जिनराज तूंही जग संत ॥ तूंहि जगनाथ तूंहि प्रतिपाल, तूंही मनमोहन तूंही दयाल ॥ १ ॥ तुंहि जवजंजन जाव सरूप, तूंहि अरिगंजन रंजन जूप, तुंही अविनासी तूंही वीतराग, तूंही माहाराज तूंही वरुजाग ॥ २ ॥ तूंही गुणधाम तूंहि विसराम, तूंहि नवनिद्ध तूंहि वम्न नाम ॥ तूंही अघनाश तंहि अविनाश, तूंही मतिवंत तूंही मतिवास ॥ ३ ॥ तूंही गुण केवल रूप अनंत, तूंही जगतारन तारण संत ॥ तूंही जग ध्येय तूंही जग ध्यान, तूंही चिदरूप तूंही जगवान ॥ ४ ॥ तूंही मम तात तूंही मम मात, तूंही मम भ्रात तूंही मम गात ॥ तूंही सरणागत राखणहार, तूंही डुख दोहग टालणहार ॥ ५ ॥ (चाल लावणी) ॥ करूं अरज एक तोपें जिनपति, कंत कुष्टसें नही मरते ॥ पूरव करमके लिखत लेख जे, किसके टारे नहीं टरते ॥ १ ॥ पण तुफ शासन जगत हेलना, जगत ढंढेरा वाजत हे ॥ आपकर्म अरु जैनधर्मके, फल पाई यों लाजत हे ॥ २ ॥ यो डुख मोसें सह्यो जात नही, आदिनाथ जग रखपाला ॥ करुणाकरके रोग निवारण, गुण कीजे जग प्रतिपाला ॥ ३ ॥ यक्ष प्रसन्न हुय फल बीजोरो, हाथतणो फल तव दीनो ॥ मयणा तव उल्लास जई मन, चिंते सब कारज सीनो ॥ ४ ॥ नौ दिन नमण नीर तनु फरसें, कुष्टरोग सब नासत हे ॥ कामदेव अरु अमर समोवरु, श्रीपाल सोहावत हे ॥ ५ ॥ या कीरत प्रजु तिहारी जूतल,

प्रगट प्रबल है जस तेरो ॥ आसू चैत्र मासमें महिमा, देशरमें प्रभु तेरो ॥ ६ ॥ फिर वागड़देश वड़ोद नगरमें, जग पर प्रभु करुणा कीनी ॥ कितने वरस लग महीमें महिमा, अविचल भूतल ऋद्धि दीनी ॥ ७ ॥ दिल्ली पर तुरकान भयो तब, पातस्याह लश्कर ल्वा आयो ॥ बूत भूत पत्थरकी मूरत, जड़मुल्लासें उखरायो ॥ ॥ ८ ॥ बहुत दीनां लग की विलराइ, आको यों वाचा बोले ॥ देव हिंदको वड़ो जागतो, यूं बोलत फिर२ डोले ॥ ए ॥ सुनो वात काजी मुल्लां तुम, एक वातसें त्रासेगा ॥ गौ ब्राह्मण प्रतिपाल कहाई, गो वधसें ये नासेगा ॥ १० ॥ गो वध करण लगे जब निज रे, देख सके क्यों प्रतिपाला ॥ करण युद्ध जब भये महाबल, शस्त्र झड़ोझड़ विकराला ॥ ११ ॥ (दूहा) महा युद्ध करणे लगे, घाव चोरासी अंग ॥ करी मलोखा गारूली, आये धुलेव सुरंग ॥ १ ॥ (चाल लावणी ॥) गांव धूलेवा वंशजालमें, गुप्त रहे हैं प्रभु धरती ॥ गाय एक कोड़ी वनियनकी, आइ वाहां चरती२ ॥ स्रवे तिहां पयधारा शिर पर, सांझ समें फिर नही दूजै ॥ रीस करी तब गोपालन पर, गौपाल थरहर धूजै ॥ दूजे दिन गौ लारे आयो, लह्यो भेद कह्यो वनियनपें ॥ शेठ आय जब नजरे देख्यो, चकित भयो है तन मनपें ॥ ३ ॥ मध्यरातमें सुपनो दीनो, ऋषभनाथकी मूरत है ॥ वहिर निकासो करो लापसी, भीतर मूरत पूरत है ॥ ४ ॥ नव दिनमें सब घाव मिलासी, मत काढे तूं नव दिनमें ॥ कियो सेठने हुकम प्रमाणे, आये संघ बहु ब दिनमें ॥ ५ ॥ केइ उपवासी केइ व्रतधारी, केइ अलुआणे पांव चलै ॥ केइ लोककूं दुःकर बाधा, कब प्रभुको दरशन मिले ॥ ६ ॥ यूं सब लोकां दरस तरसकी, कहे लोक मूरति काढो ॥ लाओ२ महाराजकी मूरत, संघ सबे लीनो आड़ो ॥ ७ ॥ जोवरदस्तसें दिवस सातमें, लापसी

बाहिर तब कीने, अंतर२ भर त्रण रहाए, संघ लोक दर्शन दीनें ॥
॥ ८ ॥ फिर सुपनेमें द्रव्य दिखायो, संघे मिल देवल कीनो ॥
मध्य विराजे ऋषभ तखतपर, कलियुगमें यो जस लीनो ॥ ए ॥
(दूहा) संवत अढारे तेसठे, आज सदाशिव राय ॥ कियो धंगानो
डुष्टने, भाखूं वरण वनाय ॥ १ ॥ (मोतीदाम छंद ॥) सदा-
शिव राय चिंते मन एह, लूंटे बहु धाम जमी पर जेह ॥ जिहां
पति नाथ धूलेव कहाय, लखो लग द्रव्य भंमार सुणाय ॥ १ ॥
जावां अव लूंटण गाम धुलेव, ग्रहुं सब माल जई तलखेव ॥ आयो
निज फोज लेई दल गाज, तोपां दोय साथ लियां बहु साज ॥ २॥
कंपु दोय लार लिये फिरंगाण, छंगा भर साथ लिया कोकवाण ॥
तवां बहु लोक कहे माहाराज, नही इह कारण कृत्य अकाज ॥
॥ ३ ॥ एतो वह जाजल देव कहाय, रहे नहीं लाज ति
हारिय काय ॥ तवां फिर बोले शदाशिव भूप, ग्रहां सब माल,
अवां चढी चूप ॥ ४ ॥ इसो कहि आवत दुष्ट करूर, कीयो नज
राणह नाथ हजूर ॥ राख्यो नही नाथ तवे नजराण, भयो मन
चक्रितमान गिलाण ॥ ५ ॥ तवां मन चिंत भंमारी बुलाय, मीठे
वच बोल सबे ललचाय ॥ लई संग आय मुकाम मझार, कियो
तब कूच लई सब लार ॥ ६ ॥ करे तब गाम पुकार२, भंमारी सबे
इ पुकार२ ॥ करो अव बाहर नाथ दयाल ॥ गयो किहां आज
गरीब निवाज ॥ चढो अब वाहर राखण लाज ॥ ७ ॥ (दुहा)
इण समें कोड सेठको, वाहण तारण काज ॥ भये अधिष्ठायक
नाथजी, भेरुं गये वहागाज ॥ १ ॥ सुणो अरज पृथ्वीनाथजी
सहेर धुलेव मझार ॥ कियो अकारज दुष्टने, शीघ्र चलो जन तार
॥ २ ॥ आए तुरत महाराजजी, करवा जन संभाल ॥ दो घोडे
दोनुं चढे, भेरुं अरु प्रतिपाल ॥ ३ ॥ जिह्न कोप आपे कियो, दु-

शं दिशि फौज हजार ॥ मार२ चो तरफतें, भई लमाई त्यार ॥ ४ ॥ (भुजंग प्रयात छंद) कूकू कुकू कुकू वहे कोकवाणं, सणासं सणासं तीर तरकस्स वाणं ॥ धुवाके धमाके वहे नाल गोला, जिसा कर्कसा जम्मरा नयनमोला ॥ १ ॥ किते अंगपें शस्त्ररा घाव लागे, किते मारतें कंपते दूर भागे ॥ किते दंतपें तिरण लेवे वराका, कितें थरथरे भास होवे तिराका ॥ २ ॥ किते रघुल्लाइलल्ला पुकारे, किते दीन होके खुदापें संभारे ॥ कितें नाथपें केसरा खून माणै, किते नाथकूं जागती ज्योत जाणै ॥ ३ ॥ सदाशिवनें घाव लागे अटारो, पुनी भाउ जसवंत दोनुं संहारो ॥ वमो कोप जाणी सबे फोज भाजी, हुई केशरीनाथकी जीत वाजी॥४॥ सदाशिवने आखरी अटक लीनो, सवापांचसें रकमरो खून दीनो ॥ इसो नाथ धूलेवरो मर्दगाजी, सदा केशरानाथरी जीत वाजी ॥५॥ (दूहा) या विध कलियुग जग जणा, तारया केई जिनराज ॥ दीपविजय कविराजकूं, महेर करो महाराज ॥ १ ॥ (मोतीदाम छंद) तूंही नवनिद्ध तूंही अष्टसिद्ध, तूंही मनवंछित वंछित रुद्ध॥ तूंही सिरदार तूंही किरतार, तूंही सरणागत दीनदयाल ॥ २ ॥ तूंही कामकुंभ तूंही कामधेन, तूंही सुरवृक्ष तूंही मम शेन ॥ तूंही दक्षिणावर्त्त दायक देव, तूंही विसराम तूंही वष्ट सेव ॥ ३ ॥ तूंही मम प्राण आधार जरूर, तूंही मम इछित दायक नूर ॥ तूंही मम भूप तूंही पतसाह, तूंही मम रुद्ध भंमार अगाह ॥ ४ ॥ तूंहि मम मंत्र तूंहि मम यंत्र तूंही मम सत्य तूंही मम तंत्र ॥ तूंही गछनायक तूंही [illegible] पज्य तूंही जगपूज्य ॥ ५ ॥ (लावणी चाल [illegible] चदनबाल र ॥ राज [illegible]

नृप आवत है, केशरमें [illegible] ॥ जिन मु० ४ ॥ [illegible] मुहा [illegible] ॥ १ ॥ सहर परगणे देश [illegible] व ॥ समवसरण देइ देशन [illegible] ता [illegible] आज

मूसल वरु राणा हाजर, पूरै इछित सब मनकी ॥ २ ॥ जलवट थलवट वाटघाटमें, रण रावल डुख दूर हरै, इक चित्त ध्यानें जे नित समरे, अखय खजाना अन्नर न्नरे ॥ ३ ॥ धिधिमप धिधिमप धपमप धपमप, ताल पखावत राजत हे ॥ गमगम दौ गमगम दौ गम-गम, धों धों नोवत वाजत हे ॥ ४ ॥ हिंदूपति पतशाह ऊदेपुर, न्नीमसिंहके राजनमें ॥ एह लावणी खूब वणाई, सकल संघके सागनमें ॥ ५ ॥ संवत अढार पच्चोत्तर वरषै, फागुण सुदि तेरश दिवसै ॥ मंगलके दिन दीपविजयकूं, दरशन परशन दो नलसे ॥ ६ ॥ (कलश—छप्पय छंद) समवशरण जग शरन, तीन लोक कलिमल हरन ॥ धुनि वरसत जलधरन, न्नरण पौष पावन करन॥ जुगलधर्म नीती हरन, सब करम छेद घनजरन ॥ मोहमल्ल अरि दरन, सुकनु वरन शुद्ध चरन, इंद चंद पदजुगल सेवन, जगत विरुद तारनतरन ॥ दीपविजय कविराज वहाडुर, ऋषन्ननाथ असरनशरन ॥ १ ॥ ऋषन्ननाथ महाराज, सवे डुख दालिद न्नंजन ॥ ऋषन्ननाथ महाराज, सबे न्नूप मनरंजन ॥ ऋषन्ननाथ पृथ्वीनाथ, समरथो बाहर धाये, ऋषन्ननाथ पृथ्वीनाथ, मंगल नाम गवाये॥ दीपविजय कविराज बहाडुर ॥ खलके मुलक हाजर रहै, कलिजुग जयो देव तुं, सुरनर सब कीरत कहै ॥ २ ॥ इति पदं ॥

॥ अथ आरती लावणी ॥

आरति करुं श्रीपार्श्वप्रन्नूकी, जन्म वनारशी हे जिनका, घननं घननं वाजे घंटघण [illegible] ध्यान धरुं जिनवरका ॥ आ० १ ॥ जव कमठासुर वेहागाज ॥ १ ॥ [illegible] घटा विजुरी चमका ॥ गिरु [illegible] धुंलव मकार ॥ कियो अकारज [illegible] काजन शंका ॥ आ० २ ॥ ॥ २ ॥ आए तुरत महाराजजी, करवा [illegible]धर चित्त चमका ॥ फण दोनुं चढे, [illegible] अरु प्रतिपाल ॥ ३ ॥ [illegible] प्रन्नु तन ढंका ॥ आ० ३

जब प॰ पंथि सिणगारे, ताथेइ नाचत ले फिरका ॥ धमकश धौं मा॰ , घननं घुग्घरके घरका ॥ आ० ४ ॥ धी धी धी कट नौ, धौं धौंकट डुंडुंन्नि धौंका ॥ या विध गीत संगीत बजन १ ान करै जिनका ॥ आ० ५ ॥ तननं तरररर तंत ताल ६ मौं मौं करते ंका, झेरण फेरणके ऊनकारे, ऊागऊदी ऊंका ॥ आ० ६॥ सुरनर इंद् सब जै जै करते, जीवत श जिनका ॥ अमृत उदय तिण वेर भयो सुख, को है तिनका ॥ आ० ७ ॥ इति पदं ॥

आदि जिनेशर पारणो ॥

आदिकियो पारणो, आ रस सेलडी ॥ आ० ॥ घडा एकसेलडी, रस भरिया छै नीका ॥ उलटभाव श्रेयांश वहिदिवीआहूकारे ॥ आ० ॥ १ ॥ देव डुंडुभी वाज रही है, वरखा ॥ वारे माससूं कियो पारणो, गई भूख सब ।आ० २ ॥ रुद्धि सिद्धि कारज मनोका-मना ॥ घर२ ंडुनिया हरख वधामणा सिरे, आखा त्रीज तिवार रे। श्रीसेत्रूंजा सिद्धक्षेत्र हे, मोटो कहिये धाम ॥ श्रीसंघव पूरे मोटा स्वामि रे ॥ आ० ४ ॥ संकट काटो विघन्खो मेरी लाज ॥ बे करजोडी नानु कहता, रुषभ्रे ॥ आ० ॥ ५ ॥ इति पदं ॥

॥ नी ाणी ॥

श्रीअजीतनाथ महा नवाज, जरूर जिनवर । ॥ सेवक शिरनामे, तन ॥ कर माफी मोरा ्जलियो रांक, अन ॥ आ मु० ४ ॥ एवा ्ली दुख दवमें ॥ को ॥ जिन ॥ ॥ १ ऊ केरू ॥ ल० ॥ व ॥ समवसरण देइ दे

स्या नरने नार ॥ जि० ५ ॥ चोवीशमा जिनेसरू रे, मुकतितणा दातार रे ॥ करजोमी कवियण एम नणे, मारो नवनो फेरो टाल ॥ जिन मु० ६ ॥ इति पदं ॥

॥ अथ रुषभदेव स्तवनं ॥

॥ पोढो२ जी रुषन्न विहारी, निद्रा वश नयण तिहारे ॥ पो० ॥ प्रन्नु आलस अंग हुलसाई, पूठे मरुदेवा माई ॥ पो० १॥ प्रन्नु नंदा सुमंगला राणी, जन रुच२ सेज बिछाणी॥ पो० २ ॥ प्रन्नु नवलसु नेह सनेहा, प्रन्नु मनवंछित फल देहा ॥ पो० ३ ॥ प्यारे सेवक हितकर गावै, मनवंछित फल पावै ॥ पो० ४ ॥ अजर अमर पद पावै, करजोमी शीश नमावै ॥ पो० ५ ॥ इति ॥

॥ मंगल स्तवन ॥ राग सामेरी ॥

॥ कीजै मंगल च्यार, आज घरे नाथ पधारया ॥ कीजै० ॥ पहिले मंगल प्रन्नुजीकूं पूजूं, घसी केसर घनसार ॥ आ० १ ॥ बीजुं मंगल अगर उखेवुं, कंठै ठवुं फूलहार ॥ आ० २ ॥ त्रीजे मंगल आरती उतारूं, घंट बजाउं रणकार ॥ आ० ३ ॥ चोथे मंगल प्रन्नुगुण गाउं, नाचू थै थैकार ॥ आ० ४ ॥ रूपचंद कहै नाथ निरंजन, चरण कमल जाउं वार ॥ आ० ५ इति पदं ॥

॥ अथ सिद्धाचल स्तवनं ॥

॥ सिद्धाचल गिरि नेटो रे, नविजन सुखकारा ॥ सि० ॥ प्रथम जिनंदे ए गिरिना गुण, नाख्या विविध प्रकारा ॥ इण गिरि साधु अनंता सीधा, एहनी हुं बलिहारा रे ॥ न० सि[illegible] १ ॥ रु[illegible] जिनेश्वर पूर्व निनाणूं, समवसरया सुखकारा ॥ [illegible] रेश्रा[illegible]ण तल जद प्रन्नु नेट्या, पाप पंक मल हारा रे ॥ न० [illegible] २ ॥ अ[illegible] थे बिंब मनोहर अदन्नुत, दरशण अतही उ[illegible] ॥ मूलना ॥ २ [illegible] एह जिनेश्वर, पूजन उख नहु वारा रे ॥ [illegible] [illegible]० ३ ॥ [illegible]ति पदं

मात चक्केसरी गिरवर ऊपर, चक्र हस्त विच धारा ॥ दुष्ट निवारण सुमति वधारण, राजत संघ रखवाला रे ॥ ज० सि० ॥ ४ ॥ खरतर गछ नायक सुख दायक, कीरत जग विसतारा ॥ गुण आगर राजत अति सुंदर, हंस सूरि गुणधारा रे । ज० सि० ५ ॥ संवत उगण वत्तीसे कार्तिक, शुक्ल पक्ष मनुहारा ॥ पंचमी दिन मन हर्ष धरीने, जात्र करी जयकारा रे ॥ ज०सि०६॥धर्मशील पदपंकज सेवक, कुशल निधान उदारा ॥ ताल पशाये गिरवरना गुण, पन्नणे मुनि रूद्धसारा रे ॥ ज० सि० ७ ॥ इति पदं ॥

॥ अथ नवपदजीकी लावणी ॥

जगतमें नवपद जयकारी, पूजतां रोग टले नारी ॥ प्रथम पद तीर्थपती राजैं, दोष अष्टादशकूं त्याजैं ॥ आठ प्रातीहारज गाजे, जगत प्रन्नु गुण बारै साजे ॥ (दोहा-साखी) अष्ट करम-दल जीतके, सकल सिद्ध ते थाय ॥ सिद्ध अनंता नजो बीजे पद, एक समय शिव जाय ॥ प्रगट नयो निज स्वरूप नारी ॥ ज० १ ॥ सूरिपदमें गौतम केशी, उपमा चंद सूरज जेशी ॥ उमारयो राजा परदेशी, एक नव मांहे शिव लेशी ॥ (दोहा-साखी) चोथे पद पाठक नमूं, श्रुतधारी उवझाय ॥ सब साहु पंचम पदे, धन धन्नो मुनिराय ॥ वखाण्यो वीरजिणंद नारी ॥ ज० २ ॥ द्रव्य षट्की श्रद्धा आवै, सम संवेगादिक पावै ॥ विना यह ग्यान नहीं किरिया, [illegible] नदरशनसें सब तिरिया ॥ (दुहा-साखी) ज्ञान पदारथ [illegible] पदमें आतमराम ॥ रमता रम्य अध्यातमें, निजपद सा[illegible] ॥ देखता वस्तु जगत सारी ॥ ज० ३ ॥ जोगकी महिमा [illegible] जाणी, चक्रधर छोरी सब राणी ॥ व्रती दश रम करी सोहे [illegible] प श्रावक सब मन मोहे ॥ (दुहा-सा[illegible] करम निकाचि[illegible] खवा, तप कुमार कर ध्याय ॥ क्षमा [illegible]

सुरंग घन वरसत होरी, पारसप्रभुजीके पाश रे ॥ आ० ॥ कीरत वाग गगन जिनमंदिर, सजल घटा सुविलास रे ॥ श्याम मनोहर तन छवि दमकत, चमकत दामनी भास रे ॥ आ० १ ॥ प्रभु आनन अमृतरश धारा, झरी लगी इक राश रे ॥ चात्रक रटत वचन मन मेरो, प्राण प्रभूकी आश रे ॥ आ० २ ॥ खेंच कवाण इंद्रधनुषनकी, हिलमिल भमर भजास रे ॥ अपछर गान करत सुर वनिता, कोयल वचन उल्लाश रे ॥ आ० ३ ॥ थिर चित्त लाल गुलाल कुमकुमा, प्रेम अविर सुवाश रे ॥ तन मन प्रीत भरी पिचकारी, षेलूं प्रभूसें कर हास रे ॥ आ० ४ ॥ सहज गुलाव फूल चुन चोसर, गुंथ मणी गुणवास रे ॥ कुशल निधान धरो छवियनपें, रुद्धसार प्रभु दास रे ॥ आ० ५ ॥ इति पदं ॥

॥ अथ रुषभदेवका बारेमासो लिख्यते ॥

मरुदेवाजी सोच करत हे मनमें, मेरा रुषभ गया क्युं वनमें, प्रथम महीना जी लग्या आशाढ चोमाशा, इंदर वरषणकी आशा ॥ मरुदेवाजी मनमें भई उदासा, प्रभु रुषभ गये वनवासा ॥ (दूहा–साखी) रुषभ प्रभु वनकूं गये, जगत सुधारण काज ॥ भरतादिक सो पूत्रकूं, वांट दिया सब राज ॥ पूत्र तुम सबही जी मगन होय रहे धनमें ॥ मे० १ ॥ सावण महीना जी झिरमिर मेहला वरसे, मेरे पूत्र विना जी तरसे ॥ भरतादिक जी सौ पूत्रनके झरसें, मेरा नंद निकल गया घरसे ॥ (दूहा–साखी) नगर अयोध्या युं झुरै, गये कहां महाराज ॥ दे उलंभा भरतकूं, मेरा पूत्र मिलावो आज ॥ अजीतो मेरे सुत विन जी प्राण निकलसी छिनमें ॥ मे० २ ॥ भादू महिना जी तज धन दोलत माया, वो गया इकेली काया ॥ भरतादिक रे तुम मनमें हरखाया, राज ये विना कमाये पाया ॥ (दूहा–साखी) नित न[illegible] नाटक होत हे,

कर रहै भोगविलाश ॥ सब माया या ऋषभकी, छोड़ गया वन-वास ॥ हेजी जगतारण जी दुखी होयगा तनमें ॥ मे० ३॥ आसू महीने जी सूरतकी छिव लागी, वो होयगया वैरागी ॥ धनके सब लोभी जी पूत्र भये नीरागी, कभी खबर न लो वड़भागी ॥ (दूहा–साखी) भरत कहे सुण मात जी, मत कर वृथा विलाप ॥ तीन लोक तारण तरण, आवेगें प्रभु आप ॥ इंद्र पद सेवे जी नहीं हे रती विघनमें ॥ मे० ४ ॥ काती महिना जी कब वो ऋषभ घर आवैं, मोहे नेणा आण वतावै ॥ नही कागद जी मुझकूं पूत्र पठावै, मेरा जीव बहोत दुख पावै ॥ (दूहा–साखी) झुरती निशदिन पूत्रकों, रो रो खोइ आंख ॥ उड़कर मिलती ऋषभसें, जो देत विधाता पांख॥ मोर पपइया जी मगन ज्युं रहते घनमे ॥ मे० ५ ॥ मिगसर महीना जी भरत बाहुबल भाई, आपसमें करे लड़ाई ॥ भरत यूं कहता जी मानो मेरी दुहाई, सब सैन्या चढ-कर आई ॥ (दूहा–साखी) बारा वरस लड़ते भये, इंद्र दिये समझाय ॥ चक्रवर्ति वनता गये, भये चंद्रयश राय ॥ हे जी तो तप कारण जी खड़े बाहुबल रनमें ॥ मे० ६ ॥ पोसका महीना जी पड़े ठंडका पाला, रुत आया कठिन सियाला ॥ कहां होगा जी ऋषभ जगत प्रतिपाला, मैं रटुं ऋषभकी माला ॥ (दूहा–साखी) कोइ परवतकी कंदमें, होगा मेरा नंद ॥ ठंड तापकी विपतमें, सहै वहोत दुख धंद ॥ भरत मेरे सुतका जी नही फिकर तेरे मनमें ॥ मे० ७॥ माहका महीना जी किसें कहूं दुख मेरा, सब पूत्र विना अंधेरा ॥ पूत्र घर आवो जी देखूंगी मुख तेरा, कोइ देवे ऋषभका वेरा ॥ (दूहा–साखी) इंद्रादिक जाकूं नमें, रहे सदा करजोर ॥ राज रमणकी [illegible], वो गया छिनकमें छोड़ ॥ एसा निरमोही जी पटका विरह [illegible] ॥ [illegible] ॥ मे० ८ ॥ फागण महीना जी नीर नयणमें

भरतो, सूने मन घरमें फिरती ॥ भरत यूं केता जी सोच फिकर क्यूं करती, रहे निशदिन मुझसें लरती॥ (दूहा—साखी) भरत विविध तर भांतसों, कहता बात बनाय ॥ वनपालक उद्यानके, दीवी वधाइ आय ॥ प्रभू पधारे जी सेवित हे मुनिजनमें ॥ मे० ए॥ चैतका महीना जी हय गय रथ सब त्यारी, सिणगारी सेन्या सारी ॥ भरत कर जोड़े जी मरुदेवा मनुहारी, चल देख पूत्र सुखकारी ॥ (दोहा—साखी) इंद्रध्वज आगे चले, भामंडल हे लार ॥ चोसठ चमर सुरपति करै, डुंडुभी गगन मझार ॥ एसो सुत तेरो जी विलसे सुख सुरगणसें ॥ मे० १० ॥ माश वैशाखां जी मरुदेवा मन हरखै, जब ऋषभप्रभू मुख निरखै॥ नैंणपट उघड्या जी वीत राग पद सरखै, चढ शुक्ल ध्यानकूं परखै ॥ (दूहा—साखी) गज ऊपर मुगती गई, श्रीमरुदेवी मात ॥ पहली शिव जननी दई, एसें ऋ- षभ सुजात ॥ जगत सुख कारण जी विचरै प्रभु मगनमें ॥ मे० ११ ॥ जेठका महीना जी रुत गरमीकी आई, में ऋषभ चरण घई लाई, दरस नित तेरो जी मुझकूं हे सुखदाई ॥ शिवा प्रेम सदा मन भाई ॥ (दूहा—साखी) धरम शील आधारसें, कुशल सदा आनंद ॥ रुद्धसार जिन नामसें, हरे डुरित डुख धंद ॥ हे जी तो मन सुध कर जी राखौ जिन चरणनमें ॥ मे० १२ ॥

॥ अथ नेमनाथजीका बारे मासा ॥

(मोह लियो माहाराज कूंवरी वो मथुरावाली एचाल) ॥ सावण महीने नेम पिया मोहे व्याहनकूं आये, उग्रशेन घर वटत वधाई सब मंगल गाये ॥ संग हे राम कृष्ण भाई, तोरणसें रथ फेर सि- धाए, सरम नहीं आई ॥ जगतमें लोक करे हासी—मोह लियो शिवरमणी शोकन प्रीतम अविनाशी ॥ १ ॥ [illegible] दू महीने गगन बीच पीया इंदर चढ आयो, वैरण बीज [illegible] ने मोपें जोनन

गरणायो ॥ सखी मोकूं विरहा संतायो, मोर पपइया बोले पापी, मदन सदन गयो ॥ तीज विन प्रीतम यूं जासी ॥ मोह लि०२॥ आसू महीने आश पीयाकी मिलणेकी लागी, तेल चढी मोकूं छिटकाई दया नहीं जागी ॥ कंत तुम निरमोही सागी, विना गुने तकशीर कंत मोहे, केसें तुम त्यागी ॥ प्रीतकी झारी गले फासी– मोह लि० ३ ॥ काती कंत गयो सहसावन खवर नहीं लीनी, उत्तम प्रीत रीत नही साजन ये तुम क्या कीनी॥ पशुनकी दयापें चित दीनी, रूस चले माहाराज गुने विन, अंतरंग भीनी॥स्याम तोकुं मति ये क्या आसी–मोह लि० ४ ॥ मिगसर मोहन तीन लोक पति नार और धारी, शिवरमणीके मिलणे वावत करी कंत त्यारी ॥ पिया तुम चढगये गिरनारी, अनंत लोग भोगी सो कामण, लगी तुमें प्यारी॥ पीया मैं चरणनकी दासी–मोह लि०५॥ पोश पीया उलंभा देती हिये नहीं धारो, नहीं छोडूंगी संग नाथ अब चाहे सो कर झारो॥ वचन जो लगे तुमें खारो, एक वेर घर अंगण आवो फेर तजूं लारो ॥ शखी सब मिलकर समझासी–मो० ६ ॥ माह महीने रुत सरदीकी ठंड वहोत वाजै, सेज लगे नागण सी मुझकों नेम नही लाजै ॥ मदनको कटक कोण भांजै, नहीं वरून कूं गैरत किसकी, तुमकूं यह छाजै ॥ पिया विन करुं मैं गति काशी–मो० ७ ॥ फागण फाग घरोघर खेले दंपति सुख माणै, मैं अबला तरसुं विन प्रीतम जियकी जिय जानें ॥ कौन संग मैं खेलूं होरी, एक विना यो सब जग सूनो, नहीं बाला जोरी ॥ कंत मैं दरशनकी प्यासी–मो० ८ ॥ चेत मास फूली वनराई कोयल सोर करै, एसे निरमोहीसे करके कहो कुण फंद पडै ॥ प्रीत जिन नव भवकी तोरी, राजुल तज सिणगार हार कूं मदन मान मोडी ॥ नेम विन हो रही उदासी–मो० ९ ॥ माश

वैशाख आंख यूं उलजै प्रीतमकी मनमें, उग्रशेन महाराज दुलारी गइ सहसावनमें ॥ देखण शिवादेवीके नंदा, इंद चंद शेवित पदपंकज मुख पूनमचंदा ॥ आज शखी प्रीतम घर आसी—मो० १० ॥ जेठ माश गरमी रुत लूआं बाजे कंत बुरी, नही रैण सुख चैन शखीरी चल रही प्रेमछुरी ॥ पाप कोइ पूरब उदे आया, छोड चलै घनस्याम आज मैं दरशण सुख पाया ॥ तजी मैं सब घरकी फासी—मो० ११ ॥ माश असाढ सखी संग राजुल नेम चरण सेव्या, घर करणी भव तिरणी होकर धंद सबी मेव्या ॥ प्रीत तुम अजर अमर राखी, रूद्सार आधार तुमारो प्रेम शिवा शाखी ॥ जगत जन गुण तेरा गासी—मो० १२ ॥ इति पदं ॥

॥ अथ छुटकर स्तोत्र लिख्यते ॥

॥ अथ श्री शीतलजिन स्तोत्र ॥

सकल मंगल केलि निवेशिनं, सहृदयं हृदयं गम देशनं ॥ अभिन तोत्तम भक्ति सुरेश्वरं, नमत शीतलनाथ जिनेश्वरं ॥ १ ॥ सहज सुंदर सद्गुणमंदिरं, विमल केवल बोध विकश्वरं ॥ अति सुवर्ण सुवर्ण समद्युतं, प्रवर वंधुर लक्षण संयुतं ॥ २ ॥ युग्मं ॥ यदिय भक्तिर्भविनां भवेभवे, भवेदभीष्टार्थ निदानमद्भुतं ॥ सएव नंदात्म समुद्भवो जिनः, समर्चनीयः खलु शीतलः प्रभु ॥ ३ ॥ कर्मा भितसान् भवितः सुशीतलान्, कुर्वन्मुदा वाक् सुधया दयापरः ॥ सदेव देवो भवतात् सदैवमे, सदिष्ट सिद्ध्यै जिनराज शीतलः ॥ ४ ॥ अधिगत शिवशर्मा वीत मोहादि कर्मा, दृढरथ तनुं जन्मा सर्वतः साध धर्मा ॥ त्रिदश महित मूर्त्तिः स्फुर्त्तिमत् पुण्यकीर्त्तिः, जयतु गत भवार्त्तिः शीतलः सौम्यमूर्त्तिः ॥ ५ ॥ इति

॥ अथ श्री पार्श्वजिन स्तोत्र ॥

॥ विशदगुण विचित्रं सच्चरित्रं दधानो, दलित दुरित राशि

र्विश्व विश्वाघदातः ॥ प्रकट महिमरम्यो डुर्मती नाम गम्यो, जय तु जिनपतिः श्रीपार्श्वचिंतामणीशः ॥ १ ॥ कमठ कुमतिवल्ली मूल मुन्मूल यन्ती, पदम कृत पदाब्जेयस्य भृंगीव पद्मा ॥ अवि कृतमति कायोत्सर्ग मुद्रान्वितोसौ, जगति बहुमतोस्मान् पातु वामांग जन्मा ॥ २ ॥ अविचल मणि बिभ्रत् सत्फणानां सहस्रं, बहुल विमल भास्वद्भूषणोभासि गात्रः ॥ गुरुतर वर भक्त्या सक्त चित्ताङ्गभाजां, भवतु शिव समृद्ध्यै चाश्वसे निर्जिनेंद्रः ॥ ३ ॥ कुपित करि मृगेश व्याल दावानलाब्धि, प्रहरणगदगुह्यातंक शंका प्रहर्त्ता ॥ विकशित्त मुख पद्मः सत्पुरेसूरताख्ये, जयतु भुजग लक्ष्मी भ्राजमानो जिनेंद्रः ॥ ४ ॥

॥ अथ समस्यामयी शंखेश्वर पार्श्व जिन स्तुतिः ॥

यस्य ज्ञान दया सिंधो, र्दर्शनं श्रेय से ध्रुवं ॥ सश्रीमान्या र्श्व तीर्थेशो, निषेव्यः सततं सतां ॥ १ ॥ वामा सूनोर्यशः पुंजैः, रघाधस्या नघा गुणः ॥ स्मर्यंते येन सस्मार्यो, भवेत् प्राचीन वर्हि पां ॥ २ ॥ विहाय विषयाशक्तान्, संसारिक सुरासुरान् ॥ सेव्यता मकृयो धीराः, पार्श्वदेवो परः प्रभुः ॥ ३ ॥ जिनाः सवार्थ दानेन, येन कल्पद्रुमा अपि ॥ भवेदभ्यर्चितो लोके, स श्रिये चामृतायच ॥ ४ ॥ संस्तुतो मधुर श्लोकैः, जैन लाभ प्रदायकः ॥ कल्याण कारको भूयात्, श्रीमान् शंखेश्वरः प्रभुः ॥ ५ ॥ इति

॥ अथ विविध यमक युक्त श्रीपार्श्व जिन स्तुतिः ॥

लक्ष्मी निदानं गुरु कर्मदानं, सद्धर्म दानं जगते ददानं ॥ यक्षेश पार्श्वं शित पाद पार्श्वं॥ नुवामी पार्श्वं भवभेद पार्श्वं ॥ १ ॥ स्मेरातसी सून सम प्रभावा, सम प्रभावा भवदीय मूर्त्तिः ॥ विभाति वामां प्रभव त्रिलोके, भव त्रिलोकेन समर्चनीयः ॥ २ ॥ तवेश पत्पंकज मादरेण, हृद्याद्धाना जनतादरेण ॥ मुक्ता भवेदेक

पदे पराया, निर्वेश वनसौख्य परंपरायाः ॥ ३ ॥ निःशेष भूवर्षित दान वारि, यन्मानसेत्वं धियसे सदैव ॥ सएव गव्युत्तम दानवारो, प्रोच्चारितोदाम यशाः सदैवः ॥ ४ ॥ देवाधिदेवाधि हरस्त्वमेव, सुज्ञान सुज्ञानभिवुद्ध रूपः ॥ सारांग सारांग वितीर्णभूयः, कल्याण कल्याण कृदं गभाजां ॥ ५ ॥ येरर्च्यसेत्वं वर वैद्यराज, मनोभिरा- मैः सुमनोभिरामै ॥ कर्माभिधे रुझित भूघनास्ते, विसारि लोकेश विसारि लोके ॥ ६ ॥ इत्थंते जिन पुंगवस्य भगवन् प्रोदाम धामा न्वितं, पादाब्जं परभाग भृत् त्रिभुवन स्तुत्यंस्तुवन्तोनिशं ॥ दक्षं कर्म विपक्ष पक्ष दलने भव्या भवंतु क्षमाः, कल्याणाश्रय मुक्ति माप्नु मखिलंतीर्त्वा भवाम्भोनिधिं ॥ ७ ॥ इति

॥ अथ शंखेश्वर जिन स्तवन ॥

शालिनी छंदः ॥ गौम्भोग्रामे स्तंभने चारु तीर्थे, जीराव- ल्या पत्तने लोद्रवाख्ये ॥ वाणारस्यां चापि विख्यात कीर्तिं, श्रीपा- र्श्वेशं नौमि शंखेश्वरस्थं ॥ १ ॥ इष्टार्थानां स्पर्शने पारिजातं, वामा देव्या नंदनं देव वंद्यं ॥ स्वर्गे भूमौ नागलोके प्रशिद्धं ॥ श्री पा० ॥ २ ॥ भित्वा भेद्यं कर्म जालं विशालं, प्राप्यानन्तं ज्ञान रत्नं चिरत्नं ॥ लब्धा मंदानंद निर्वाण शौख्यं ॥ श्रीपार्श्व० ३ ॥ विश्वाधी शं विश्वलोके पवित्रं, पापागम्यं मोक्ष लक्ष्मी कलत्रं ॥ अंभोजाक्षं सर्वदा सुप्रसन्नं ॥ श्रीपार्श्वे० ४ ॥ वर्षे रम्यं खंग दोर्भाग चंद्र, संख्ये मासे माधवे कृष्ण पक्षे ॥ प्राप्तं पुण्यैर्दर्शनं यस्य तंच, श्रीपा० ५ ॥ इति

॥ अथ पार्श्व जिन सोत्र ॥

विशद सद्गुण राजि विराजितं, घनवना घननाद विभा तं ॥ भजत भक्ति भरेण रमेश्वरं, जगति पार्श्व जिनेश ॥ १ ॥ विविध वर्ण विभूपित विग्रहाः, विदित दुर्द्दम दर्प्पक नि

वसु युगार्क मिताः सुकृताकराः, जिनवराः प्रभवंतु शिवंकराः ॥२॥ रुचिरवर्ण निबद्ध मनिन्दितं, सुमनसा प्रकरै रभिवंदितं ॥ निखिल साधुजनाः खलुनिर्मिदं, जिनमतं नमतां चितशर्मदं ॥ ३ ॥ सकल ग्रंथ सरोज विकाशिका, कुमति संतमसोच्चय नाशिका ॥ जिन-वरानन पद्म गतोन्मुदा, भवतु वाग्जिनलाभ शुभार्थदा ॥ ४ ॥

अथ श्री गोडीपार्श्व नाथ जिन स्तोत्रः ॥

श्रीमत्पार्श्व जिनेश्वरस्य विलसद्ज्ञानामृतांभोनिधेः, सद्भा-वेन परस्वरूप विरते मुक्त्यास्पदेतस्थुषः ॥ सद्भुत प्रतिबिंब तस्तु-सुतरां गोडीपुरोद्भासिनः, सोल्लासंप्रणिपत्य सत्यमनसां तत्रैवनित्यं स्मरे ॥ १ ॥ यत्पादांबुज दर्शनोत्सुकधियो भव्याव्रजंतोध्वनि, स्पृश्यंतेनहि दुष्टजंतुनिवहे र्वन्यैर्नवातस्करैः ॥ नैवोज्वालदवानलै र्जलचराकीर्णैर्जलैर्जातुनो, सःश्रीपार्श्वविभुर्थ्यचिन्त्यमहिमा हृश्यो-नकेषांभवेत् ॥ २ ॥ हित्वान्तःकरणभुतं कुटिलतां मोहादिनोद्भा-वितां, धृत्वानिर्मलभावनांचविधिनायद्भक्तिमातन्विता ॥ लभ्यन्ते नरराज निर्जरवरश्रेणीसुखानिक्रमा, न्मुक्तिश्रीरपिसैवशुद्धमनसा संसेव्यतांविश्वयाः ॥ ३ ॥

॥ अथ चतुर्विंशती जिनस्तवनं ॥

॥ आद्यः श्रीऋषभस्ततोजितजिनः, श्रीशंभवस्तीर्थकृत् ॥ सुश्रीमानभिनंदनश्चसुमतिः, श्रीसद्मपद्मप्रभः ॥ पृथ्वीकुक्षिभवसुपा र्श्व, जिनपस्तीर्थेशचंद्रप्रभः ॥ सर्वज्ञःसुविधिर्जिनोमुनिमतः, श्री शीतलसौम्यदृक् ॥ १॥ श्रेयांशप्रभुवासुपूज्यविमलानंतेशधर्मेश्वराः, शांतिःकुंथुररस्ततोजितरिपुर्मल्लिर्जिनःसुव्रतः ॥ अर्हंतोनमिनेमिशुद्ध मुनिपौविश्वत्रेयेविश्रुतौ, श्रीमत्पार्श्वजिनःप्रसिद्धमहिमा श्रीवर्द्धमान प्रभुः ॥ २ ॥ एतेश्रीजिनपुङ्गवाःपरमश्रिद्रूपाश्चतुर्विंशति, निःशेषो-त्तमभव्यजंतुहृदयांभोजप्रबोधोद्यताः ॥ वंद्यन्तेसुरवृंदवंद्यविशदश्लो

कव्रजानिर्ण्णय, श्रीसंपत्तिनिवासविक्रमपुरेसद्भक्तितःप्रत्यहं ॥ ३ ॥

॥ अथ मंगलाष्टकलिख्यते ॥

श्रीमन्नम्रसुरासुरेंद्रमुकुटप्रद्योतिरत्नप्रभा, भास्वत्पादनखेंदव-प्रवचनांभोधीऽथ्यवस्थायिनः ॥ येसर्वेजिनसिद्धसूरिसुगतास्तेपाठका-साधवः, स्तुत्यायोगिजनैश्चपंचगुरवःकुर्वंत्तुमेमङ्गलं ॥ १ ॥ सम्यग्द र्शन बोधवृत्तममलं रत्नत्रयंपावनं, मुक्तिश्रीनगरायनं जिनपते स्व-र्गापवर्गप्रदः ॥ धर्म्मःसूक्तिसुधाश्चचैत्यमखिलं जैनालयंश्चालयं प्रोक्तंतत्त्रिविधंचतुर्विधममीकुर्वंतुमेमंगलं ॥ २ ॥ नाभेयादिजिना धिपा स्त्रिभुवनेख्याताश्चतुर्विंशतिः, श्रीमन्तोभरतेश्वरप्रभृतयोयेच क्रिणो द्वादश ॥ येविष्णुप्रतिविष्णुलांगलधराः सप्ताधिकाविंशती, त्रैलोक्येभयदा त्रिषष्टिपुरुषाः कुर्वंतुमेमङ्गलं ॥ ३ ॥ कैलाशेवृषभस्य निर्वृतिमहीवीरस्यपावापुरी, चंपायां वसुपूज्यसज्जिनपतेः सम्मेदशे लेर्हतां ॥ शेषाणामपिचोर्ज्जयन्तशिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो, निर्वाणा विनयःप्रसिद्धविभवाः कुर्वंतुमेमङ्गलं ॥ ४ ॥ ज्योतिर्व्यंतरभावनाम रगृहे मेरौकुलाशैस्थिता, जंबुशाल्मलिचैत्यशाखिषुतथावक्षाररूप्पा दिषु ॥ इक्ष्वाकारगिरौचकुंमलनगेद्वीपेचनंदीश्वरे, शैलेयेमनुजोत्तरे जिनगृहाः कुर्वंतुमेमङ्गलं ॥ ५ ॥ योगर्भावतरोजयत्यर्हतांजन्माभि-षेकोत्सवे, योजातः परिनिक्रमेवचभवो यःकेवलज्ञानभाक् ॥ यःकै-वल्यपुरप्रवेशमहिमा संभावितः स्वर्गिभिः, कल्याणानिचतानिपंच सततंकुर्वंतुमेमङ्गलं ॥६ ॥ येपंचौषधिरुद्धयः श्रुततपोरुद्धिंगतापंचये, येचाष्टांगमहानिमित्तकुशलायेष्टौविधाचारणा ॥ पंचज्ञानधराश्चयेपि वलिनोयेबुद्धीरुद्धीश्वरा, सप्तैतेसकलाश्चतेगणभृताकुर्वंतुमेमंगलं ॥७॥ देव्याश्चाष्टजयादिकाद्विगुणिताविद्यादिकादेवता, श्रीतीर्थंकरमातृका-श्चजनकायक्षाश्चयक्षीश्वराः द्वात्रिंशन्निदशाग्रहानिधिसुरा दिक्कन्यका श्चाष्टधा, दिक्पालादशइत्यमीसुरगणाः कुर्वंतुमेमङ्गलं ॥ ८ ॥ इत्थं

श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदंकल्याणकालेर्हतां, पूर्वाण्हेपिमहोत्सवेपिसततं श्रीसौख्यसंपत्करं ॥ येशृण्वंतिपठंतितैश्चमनुजै र्द्धर्मार्थकामान्विता, लक्ष्मीराश्रयतेविपायरहिताः कुर्वंतुमेमङ्गलं ॥ ए ॥ इति मंगलाष्टकं संपूर्ण ॥

॥ अथ परमात्मा स्तोत्रः ॥

शिवं शुद्ध बुद्धं परं विश्वनाथं, नदेवं नबंधु नेकर्म नकर्ता ॥ न अंगं नसंगं नइच्छा नकामं, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं ॥ १ ॥ नबंधो नमोक्षो नरागादि लोकं, नजोगं नभोगं नव्याधि नशोकं ॥ नक्रोधं नमानं नमाया नलोभं ॥ चिदा० ॥ २ ॥ नहस्तौ नपादौ नघ्राणं नजिह्वा, नचक्षुर्नकर्णं नवक्रं ननिद्रा, ॥ नस्वादं नखेदं नवर्णं नमुद्रा, चि० ॥ ३ ॥ नजन्मं नमृत्यु नमोहं नचिंता, नक्षुद्रं नभीतं नकृष्यं नतुंदा ॥ नस्वामी नभृत्यं नदेवो नमर्त्या, चि०४॥ त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्वव्यापं, हृषीकेश विद्धंस कर्म्मारिजालं ॥ नपुण्यं नपापं नअक्षानप्राणं, चि० ॥ ५ ॥ नबाल्यं नवृद्धं नविद्धि नमूढा, नछेद्यं नभेद्यं नमूर्तिर्नमीहा ॥नकृष्णं नशुक्लं नमोहं नतंद्रा, चि० ॥ ६ ॥ नआद्यं नमध्यं नमंत्यं नमन्या, नद्रव्यं नक्षेत्र नदृष्टो नभव्वा ॥ नगुर्वो नशिष्यो नआद्यो नदीनं, चि० ॥ ७ ॥ इदं ज्ञानरूपं स्वयं तत्ववेदी, नपूर्णा नशून्यं सचैतन्यरूपं ॥ अन्योन्निन्निसं नपरमार्थ्य कं, चि० ॥ ८ ॥ आत्मारामगुणाकरं गुणनिधिश्चैतन्यरत्नाकरं, सर्वेभूतगतागते सुख दुख ज्ञातात्वया सर्वगं ॥ त्रैलोक्याधिपति स्वयं स्वमनसा ध्यायंति योगेश्वराः, वंदेतं हरिवंश हर्ष हृदयं श्रीमानभूदच्युतः ॥ ए ॥ इति श्रीपरमात्मा स्तोत्रं ॥

अथ नमस्कार स्तोत्रं ॥

दर्शनं देव देवस्य, दर्शनं पाप नाशनं ॥ दर्शनं स्वर्ग सोपानं, दर्शनं मोक्षसाधनं ॥ १ ॥ दर्शनेन जिनेंद्राणां, साधूनां वंदनेनच ॥

तिष्ठति चिरंपापं, छिद्र हस्ते यथोदकं ॥ २ ॥ दर्शनं जिनसूर्य स्य, संसार ध्वांतनाशनं ॥ बोधनं चित्त पद्मस्य, समस्तार्थ प्रकाश कं ॥ ३ ॥ दर्शनं जिनचंद्रस्य, सद्धर्मामृत वर्षणं ॥ जन्मदाघ वि- नाशाय, वृंहणं सुखवारिधेः ॥ ४ ॥ जिनेभक्ति२, जिनेभक्ति दिने२ ॥ सदामेस्तु२, सदामेस्तु भवे२ ॥ ५ ॥ नहित्राता२, नहित्रा ता जगत्रये ॥ वीतराग समोदेवो, नभूतो नभविष्यति ॥ ६ ॥ अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम ॥ तस्मात्सर्व प्रयत्नेन, रक्ष२ जिनेश्वर ॥ ७ ॥ वीतराग मुखंदृष्ट्वा, पद्मराग सम प्रभं ॥ नैकजन्म कृतं पापं, दर्शनेन विनश्यति ॥ ८ ॥ अर्हंतो मंगलं नि- त्यं, सिद्धा जगति मंगलं ॥ मंगलं साधवो मुक्तं, धर्म्मः सर्वत्र मंगलं ॥ ९ ॥ लोकोत्तमा इहार्हंतः, सिद्धालोकोत्तमाः सदा ॥ लो कोत्तमो यतीशानां, धर्मोलोकोत्तमोर्हतां ॥ १० ॥ शरणं सर्वदार्हं तः, शिद्धा शरण मंगलं ॥ साधवः शरणं लोके, धर्म्म शरण मर्हं तां ॥ ११ ॥ इति नमस्कार स्तोत्र संपुर्ण ॥

॥ अथ तपगच्छ समाचारी विशेष विधि संग्रह ॥

॥ तत्र पुन्यप्रकाश आलोयण वृद्ध स्तवन लिख्यते ॥

॥ दूहा ॥ सकल सिद्धिदायक सदा, चोवीशे जिनराय ॥ स द्गुरु सामिनी सरसती, प्रेमे प्रणमुं पाय ॥ १ ॥ त्रिभुवनपति त्रि सलातणो, नंदन गुण गंभीर ॥ शासननायक जगजयो, वर्द्धमान धर्मवीर ॥ २ ॥ इक दिन वीर जिनंदनें, चरणें करी परिणाम ॥ भविक जीवना हित भणी, पूछै गोयमस्वामि ॥ ३ ॥ मुगति मा रग आराधियै, कहो किण पर अरिहंत ॥ सुधा सरस तब वचन रस, भाखे श्रीभगवंत ॥ ४ ॥ अतीचार आलोइयें, व्रत धरीये गु रु साख ॥ जीव खमावो सयल जे, योनि चोरासी लाख ॥ ५ ॥ विधिसुं वलि वोसराविये, पाप स्थानक अढार ॥ च्यार शरण नित

अनुसरै, निंदो दुरित आचार ॥ ६ ॥ शुन्न करणी अनुमोदियै, न्ना व न्नलो मन आणि ॥ अणशण अवसर आदरी, नवपद जपो सुजाण ॥ ७ ॥ शुन्नगति आराधनतणा, ए छे दश अधिकार ॥ चित्त आणीने आदरो, जिम पामो न्नव पार ॥ ८ ॥ (ढाल ॥ १ ॥ ए छिंडी किहां राखी ॥ इस चालमें) ज्ञान दरिशण चारित्र तप वीरज, ए पांचे आचार ॥ एहतणा इह न्नव पर न्नवना, आलोइये अतीचार रे ॥ प्राणी ज्ञान न्नणो गुणखाणी, वीर वदे इम वाणी रे ॥ प्रा० ज्ञा० १॥ गुरु उलविये नही गुरु विनयें, काले धरी बहुमान ॥ सूत्र अर्थ तदुन्नय करी सूधा, न्नणिये वही उपधान रे ॥ प्रा० ज्ञा० २॥ ज्ञानोपगरण पाटी पोथी, ठवणी नोकरवाली ॥ एहतणी कीधी आशातना, ज्ञान न्नक्ति न संन्नाली रे ॥ प्रा० ज्ञा० ॥ ३ ॥ इत्यादिक विपरीतपणाथी, ज्ञान विराध्युं जेह ॥ आ न्नव पर न्नव वलिय न्नवोन्नव, मिछादुक्कड तेहरे ॥ प्रा० समकित ल्यो शुद्ध जाणी ॥ ४ ॥ जिनवचने शंका नवि कीजै, नवि परमत अन्निलाष ॥ साधुतणी निंदा परहरजो, फल संदेह म राखी रे ॥ प्रा० स० ५ ॥ मूढपणुं छंडो परसंसा, गुणवंतने आदरिये ॥ साहमीने धर्मे करि थि[illegible] न्ना[illegible] न्नगति प्रन्नावना करिये रे ॥ प्रा० स० ६ ॥ संघ चैत्य प्रा[illegible]तणे जे, अवर्णवाद मन लेख्यो ॥ द्रव्य देवको जे विणसा[illegible] ॥ वि[illegible]संतां उवेख्यो रे ॥ प्रा० स० ७ ॥ इत्यादिक विपरी[illegible]० ६ ॥[illegible] समकित खंड्युं जेह ॥ आ न्नव प०, मि० ॥ प्रा० [illegible] [illegible] चि[illegible] आणी ॥ ८ ॥ पांच सुमति त्रिण गुप्ति विराधी, [illegible] प्रा० ॥ [illegible]नमा[illegible] ॥ साधुतणे धरमे प्रमादे, अशुद्ध वचन मन [illegible] [illegible] चा० ९ ॥ श्रावकने धर्मे सामायक, पोसहमां मन [illegible] [illegible]आ[illegible]यणापूर्वक जे आठे, प्रवचनमाय न पाली रे ॥ प्रा० चा० [illegible] [illegible]त्यादिक विपरीतपणाथी, चारित्र डहोळ्युं

ज्ञेइ ॥ आज्ञव०, मिच्छा० ॥ प्रा० चा० ११ ॥ बारे भेदे तप नवि कीधो, छते योगे निज शकते ॥ धर्मे मन वच काया वीरज, नवि फोरविउं ज्ञगते रे ॥ प्रा० चा० १२ ॥ तप वीरज आचारे इण पर, विविध विराध्या जेह ॥ आज्ञव०, मिच्छामि० ॥ प्रा० चा० १३ ॥ वलिय विशेषें चारित्र केरा, अतीचार आलोइये ॥ वीरजिनेसर वचन सुणीनें, पाप मैल सवि धोइये रे ॥ प्रा० चा० १४ ॥ (ढाल २)

पृथ्वी पाणी तेउ, वाउ वनस्पती, ए पांचे थावर कह्या ए ॥ करी करसण आरंज्ञ, खेत्र जे खेम्रीया, कूआ तलाव खणाविया ए ॥ १ ॥ घर आरंज्ञ अनेक, टांका ज्ञोयरां, मेम्री माल चिणाविया ए ॥ लींपण गूंपण काज, इण पर परपरे, पृथ्वीकाय विराधिया ए ॥ २ ॥ धोयण नाहण पाणी, फीलण अप्पकाय, छोती धोती कर दूहव्या ए ॥ ज्ञाठीगर कुंज्ञार, लोह सोवनगरा, ज्ञाम्भूंजा लिहालागरा ए ॥ ३ ॥ तापण सेकण काजे, वस्त्र निखारण, रंगण रांधण रसवती ए ॥ इणि परे कर्मादान, परिपरे केलवी, तेउ वाउ विराधियाए ॥ ४ ॥ वाम्री वन आराम, वावी वनस्पती, पान फूल फल चूंटीया ए ॥ पौंहक पापम्री शाक, सेक्या सूकव्या, छेद्या छूंद [illegible] आथिया ए ॥ ५ ॥ अलशीने एरंम्र, घाणी घालीने, घणा तिलादिक [illegible] रीया ए ॥ घाली कोलू मांहि, पीली सेलम्री, कंद मूल फल [illegible] ॥ ६ ॥ इम एकेंद्री जीव, हण्या हणाविया, हणतां [illegible] या ए ॥ आज्ञव परज्ञव जेह, वलिय ज्ञवोज्ञव, ते [illegible] कर्म ए ॥ ७ ॥ क्रमी सरमिया कीम्रा, गाम्रर गंम्रो [illegible] लशीआ ए ॥ वाला जलो चूम्रेल, विचलितरसत [illegible] सुखना ए ॥ ८ ॥ इम बेइंद्री जीव, जे मैं दूहव्या [illegible] उद्देही जूं लीख, मांकम्र मंकोम्रा, चांचम्र [illegible] गद्दहिया पीवेल, कानखजुरम्रा, गींगोल [illegible] ॥ [illegible] तेइंद्री जीव,

जे में दूहव्या, ते मुज मिछा० ॥ १० ॥ माखी मछर मास, मसा पतंगिया, कंसारी कोलियावडा ए ॥ ढीकण विछु तीड, जमरा जमरीय, कौंता बग खडमांकडी ए ॥ ११ ॥ इम चोरेंद्री जीव, जे में दूहव्या, ते मुज० ॥ जलमां नांखी जाल, जलचर दूहव्या, वनमां मृग संतापीया ए ॥ १२ ॥ पीडया पंखी जीव, पाडी पासमां, पोपट घाल्या पांजरे ए ॥ इम पंचेंडी जीव, जे में दू०, ते मुज० ॥ १३ ॥ (ढाल ३ ॥ प्राणी वाणी हितकरी जी ॥ ए चाल) क्रोध लोन जय हासथी जी, बोला वचन असत्य ॥ कूड करी धन पारका जी, लीधा जेह अदत्त रे ॥ जिनजी मिछामि डुक्कड आज, तुम्ह साखे महाराज रे ॥ जिनजी मि० ॥ देई सारू काज रे ॥ जिनजी मि० ॥१॥ देव मनुज तिर्यंचना जी, मैथुन सेव्या जेह ॥ विषयारस लंपटपणे जी, घणुं विटंब्यो देह रे ॥ जि० २ ॥ परिग्रहनी ममता करी जी, जव२ मेली आथि ॥ जेह जिहां ते तिहां रही जी, कोइय न आवे साथ रे ॥ जि० ३ ॥ रयणी जोजन जे कर्या जी, कीधा जक्क अजक्क ॥ रसना रसनी लालचें जी, पाप कर्या परतक्क रे ॥ जि० ४ ॥ व्रत लेई वीसारीया जी, वलि जांग्या पच्चरकाण ॥ कपट हेतु किरिया करी जी, कीधा आप वखाण रे ॥ जि० ५ ॥ त्रिण ढाले आठे दूहे जी, आलोया अतीचार ॥ शिवगति आराधनतणो जी, ए पहिलो अधिकार रे ॥ जि० ६ ॥ (ढाल ४ ॥ साहेलडीनी देशी ॥) पंच महाव्रत आद[illegible] साहेलडी रे ॥ अथवा ल्यो व्रत बार तो ॥ यथा शक्ति व्रत [illegible] ग० ॥ पालो निरतीचार तो ॥ १ ॥ व्रत लिया संजारीयै, [illegible] यमै धरिय विचार तो ॥ शिवगति आराधनतणो, सा[illegible] गो अधिकार तो ॥ २ ॥ जीव सबै खमावियै सा० ॥ यो॥ शि[illegible] लाख तो ॥ मनशुद्धे करो खामणा, सा०॥

कोईसुं रोष न राख तो ॥ ३ ॥ सर्व मित्र करी चिंतवो, सा० ॥ कोइय न जाणो शत्रु तो ॥ राग द्वेष इम परिहरो, सा० ॥ कीजे जन्म पवित्र तो ॥ ४ ॥ साहमी संघ खमाविये, सा० ॥ जे उप नी अप्रीत तो ॥ सज्जन कुटंब करी खामणा, सा० ॥ ए जिनशासन रीत तो ॥ ५ ॥ खमिये अने खमाविये, सा० ॥ एहीज धर्म नो सार तो ॥ शिवगति आराधनतणो, सा० ॥ ए त्रीजो अधिकार तो ॥ ६ ॥ मृषावाद हिंसा चोरी, सा० ॥ धन मुर्छा मैथुन्न तो ॥ क्रोध मान माया तृष्णा, सा० ॥ प्रेम द्वेष पैशून्य तो ॥७॥ निंदा कलह न कीजीयै, सा० ॥ कूडा न दीजै आल तो ॥ रती अरती मिथ्या तजो, सा० ॥ माया मोस जंजाल तो ॥ ८ ॥ त्रिविध२ वोसराविये, सा० ॥ पाप स्थान अढार तो ॥ शिवगति आराधनतणो, सा० ॥ ए चोथो अधिकार तो ॥ ९ ॥ (ढाल ५ मी ॥ हवे निसुणो इहां आवीया ए ॥ ए चाल ॥) जनम जरा मरणे करी ए, ए संसार असार तो ॥ कस्या कर्म सहु अनुभवे ए, कोइय न राखणहार तो ॥ १ ॥ शरण एक अरिहंतनु ए, शरण सिद्धभगवंत तो ॥ शरण धर्म श्रीजैननो ए, साधु शरण गुणवंत तो ॥ २ ॥ अवर मोह सवि परिहरी ए ॥ चार शरण चित्त धार तो ॥ शिवगति आराधनतणो ए, ए पांचमो अधिकार तो ॥ ३ ॥ आभव परभव जे कस्या ए, पाप कर्म केइ लाख तो ॥ आत्म साखे निंदिये ए, पडिक्कमियें गुरु साख तो ॥ ४ ॥ मिथ्यामत वर्ताविआ ए, जे भाख्या उत्सूत्र तो ॥ कुमति कदाग्रहने वसे ए, वलि उत्थाप्या सूत्र तो ॥ ५॥ घड्या घडाव्या जे घणा ए, घरटी हल हथियार तो ॥ भव२ मेली मूंकीया ए, करता जीव संहार तो ॥ ६ ॥ पाप करीने पोषीया ए, जनम२ परिवार तो ॥ जन्मांतर पोहतां पछी ए, कोइय न कीधी सार तो ॥ ७ ॥ आभव

परजव जे कस्या ए, इम अधिकरण अनेक तो ॥ त्रिविध२ वोसि रावियें ए, आणी हृदय विवेक तो ॥ ८ ॥ दुःकृत निंदा इम करी ए, पाप कस्या परिहार तो ॥ शिवगति आराधनतणो ए, ए छठो अधिकार तो ॥ ए ॥ (ढाल ७ठी ॥ आदि तुं जोइने आपणी ॥ ए चाल ॥) धन२ ते दिन माहरो, जिहां कीधो धर्म ॥ दान शीयल तप आदरी, टाल्या दुष्कर्म ॥ ध० १ ॥ शेत्रुंजादिक तीर्थ नी, जे कीधी यात्र ॥ जुगते जिनवर पूजिया, वलि पोष्या पात्र ॥ ध० २ ॥ पुस्तक ज्ञान लिखावियां, जिणहर चिन चैत्य ॥ संघ चतु र्विध साचव्या, ए साते क्षेत्र ॥ ध० ३ ॥ पडिक्कमणा सुपेरे कस्या, अनुकंपा दान ॥ साधु सूरि उवझायनें, दीधा बहुमान ॥ ध० ४ ॥ धर्मकारज अनुमोदियें, इम वारोवार ॥ शिवगति आराधनतणो, सातमो अधिकार ॥ ध० ५ ॥ जाव जलो मन आणीयें, चित्त आ णी ठाम ॥ समता जावे जावियें, ए आतमराम ॥ ध० ६ ॥ सुख दुख कारण जीवने, कोइ अवर न होइ ॥ कर्म आप जे आचस्या, जोगवियें सोय ॥ ध० ७ ॥ समता विण जे अनुसरे, प्राणी पुन्य काम ॥ गरि ऊपर ते लीपणुं, ऊखर चित्राम ॥ ध० ८ ॥ जाव जली परे जावियें, ए धर्मनो सार ॥ शिवगति आराधनतणो, आठमो अधिकार ॥ ध० ए ॥ (ढाल ७ मी ॥ रैवत गिरि ऊपरे ॥ ए चाल) हवे अवसर जाणी करीय संलेखण सार, अणसण आदरियें पच्चरकी च्यार आहार ॥ ललुता सवि मूंकी गंमी ममता अंग, ए आतम खेले समता ज्ञान तरंग ॥ १ ॥ गति च्यारे कीधा आ हार अनंत निःशंक, पण तृपति न पाम्यो जीव लालचीउ रंक ॥ दुलहो ए वली२ अणशणनो परिणाम, एहथी पामीजे शिवपद सुरपद ठाम ॥ २ ॥ धन धन्ना शा[illegible]तजइ खंधो मेघकुमार, अणशण आराधी पाम्या जवनो पार ॥ शि[illegible]मंदिर जास्ये करी एक [illegible] आराधन केरो

ए, नवमो अधिकार ॥ ३ ॥ दशमें अधिकारें महा मंत्र नवकार, मनथी नवि मूंको शिवसुख फल सहकार ॥ ए जपतां जाये दुर्गति दोष विकार, सुपरे ए समरो चवद पूरबनो सार ॥ ४ ॥ जन्मांतरे जाता जो पामे नवकार, तो पातिक गाली पामे सुर अवतार ॥ ए नवपद सरखो मंत्र न कोई सार, इह नव ने परनव सुख संपति दातार ॥ ५ ॥ जुओ नील नीलणी राजा राणी थाय, नवपद महिमाथी राजसिंह महाराय ॥ राणी रतनवती बेहु पाम्या छे सुर जोग, इक नवथी लेस्ये सिद्धवधू संजोग ॥ ६ ॥ श्रीमतीने ए वली मंत्र फल्यो ततकाल, फणधर फीटीने प्रगट थई फूलमाल ॥ शिवकुमरे योगी सोवनपुरसो कीध, इम एणे मंत्रे काज घणाना सिद्ध ॥ ए दश अधिकारे वीर जिनेसर नाख्यो, आराधनकेरो विधि जिणे चित्तमां राख्यो ॥ तिणे पाप पखाली नवनय दूरे नांख्यो, जिन विनय करंता सुमति अमृतरस चाख्यो ॥ ८ ॥ (ढाल ८ मी ॥ नमो नवि नावसुं ए ॥ ए चाल) सिद्धारथराय कुल तिलो ए, त्रिशला मात मल्हार तो ॥ अवनी तले तुमे अवतर्या ए, करवा अम्ह उपगार ॥ जयो जिन वीरजी ए ॥ १ ॥ मैं अपराध कर्या घणा ए, कहता न लहुं पार तो ॥ तुम्ह चरणे आव्या नणी ए, जो तारे तो तार ॥ ज० २ ॥ आश करीने आवियो ए, तुम चरणे महाराज तो ॥ आव्याने उवेखस्यो ए, तो किम रहस्यै लाज ॥ ज० ३ ॥ करम अलूफण आकरा ए, जनम मरण जंजाल तो ॥ हुं छुं एहथी उन्नग्यो ए, छोडव देवदयाल ॥ ज० ४ ॥ आज मनोरथ मुझ फल्या ए, नाग दुःख दंदोल तो, तूठो जिन चोवीशमो ए ॥ प्रगट्या पुन्य कल्लोल ॥ ज० ५ ॥ नव२ विनय तुम्हारडो ए, नाव नगत तुम्ह पाय तो ॥ देव दया करि दीजीये ए, [illegible] ए, सुपसाय ॥ ज० ॥ ७ ॥ (कलश) इय

तरण तारण सुगति कारण, दुःख निवारण जग जयो ॥ श्रीवीर जिणवर चरण थुणतां, अधिक मन उह्लट थयो ॥ १ ॥ श्रीविजयदेव सूरिंद पटधर, तीरथ जंगम इण जगे ॥ तपगछपति श्रीविजयप्र भसूरि, सूरि तेजे झगमगे ॥ २ ॥ श्रीहीरविजय सूरी शिष्य वाचक, कीर्तिविजय सुरगुरु शमो ॥ तश शिष्य वाचक विनय विजयें, थुण्यो जिन चोवीशमो ॥ ३ ॥ सय सत्तर संवत उगणतीसे, रही रानेर चोमाश ए ॥ विजयदशमी विजय कारण, कियो गुण अभ्यास ए ॥ ४ ॥ नरभव आराधन सिद्धिसाधन, सुकृत लील विलास ए ॥ निर्जरा हेते स्तवन रचियुं, नामे पुण्य प्रकाश ए ॥ ५ ॥ इति श्रीवीरजिन पुण्य प्रकाश आराधना स्तवन संपूर्ण ॥

॥ अथ भरहेसरनी सिझाय लिख्यते ॥

भरहेसर बाहुबली, अभयकुमारोअ ढंढणकुमारो ॥ सिरिअ अणियाउत्तो ॥ अयमत्तो नागदत्तोअ ॥ १ ॥ मे अज्जथूलिभद्दो, वयर रिसि नंदिसेण सीहगिरी ॥ कयवन्नोअ सुकोसल, पुंडरिओ केसि करकंडू ॥ २ ॥ हल्ल विहल्ल सुदंसण, सालि महासालि सालिभ दोअ ॥ भद्दोअ दसन्नभद्दो, पसन्नचंदोअ जसभद्दो ॥ ३ ॥ जंबूपहू वंकचूलो, गयसुकमालो अवंतीसुकमालो ॥ धन्नो इलाइपुत्तो, चिलाइपुत्तोअ बाहुमुणी ॥ ४ ॥ अज्जगिरि अज्जरक्खिय, अज्जसुहत्थी उदाय गोमणगो [illegible] माल सूरि संबो, पज्जुन्नो मूलदेवोय ॥ ५ ॥ पभवो विन्हुकुम [illegible] कुमारो दढपहारोअ ॥ सिज्जंस कूरगडुअ, सिज्जंभव मेहकु [illegible] ॥ ६ ॥ एमाइ महासत्ता, दिंतु सुहं गुण गणेहि संयुत्ता [illegible] ॥ [illegible] ग्गहणे, पावपबंधा विलयजंति ॥ [illegible] सा चंदणबाला [illegible] मयणरेहा दमयंती ॥ [illegible] ॥ वसज्जा, नंदा भद्दा [illegible] दत्ता का [illegible] ॥ ७ ॥ राईमई रिसिदत्ता [illegible] रीतहगंपभ्भा सिरीदेवी [illegible] सवीअ [illegible] मिगावई [illegible] आ माहा [illegible]

॥ ए ॥ बंभी सुंदरी रुप्पिणी, रेवई कुंती शिवा जयंतीय ॥ देवीई होवई धारणी, कलावई पुप्फचूलाय ॥ १० ॥ पउमावईय गोरी, गंधारी लखमणा सुसीमाय ॥ जंबुवई सच्चभामा, रुप्पिणी कन्हह महिसीउ ॥ ११ ॥ जरकाय जरकदिन्ना, भूआतह चेव भूअ दिन्नाय ॥ सेणा वेणा रेणा, भअणीओ थूलभद्दस्स ॥१२॥ इच्चाई महासईओ, जयंती अकलंक शील कलिआउ ॥ अज्ज विवज्जई जासिं, जस पडहो तिहुअणे सयले ॥ १३ ॥ इति सत्तासतीउनो सिझाय

॥ अथ मन्हजिणाणं सिझाय ॥

मन्हजिणाणंआणं, मिच्छंपरिहरहधरसम्मत्तं ॥ छव्विहआवस्सयंमि, उज्जुत्तोहोइपयदिवसं ॥ १ ॥ पव्वेसुपोसहवयं, दाणंशीलं तवोअभावोअ ॥ सज्झायनमुक्कारो, परोवयारोअजयणाअ ॥ २ ॥ जिणपूआजिणथुणिणं, गुरूथुअसाहम्मिआणवच्छलं ॥ ववहारस्सयसुद्धी, रहयत्तातित्थयत्ताय ॥ ३ ॥ उवशमविवेकसंवर, भासासमिईछज्जीवकरुणाय ॥ धम्मियजणसंसग्गो, करणदमोचरणपरिणामो ॥ ४ ॥ संघोवरिबहुमाणो, पुत्थयलिहणंपभावणा तित्थे ॥ सड्ढाणकिच्चमेअं, निच्चंसुगुरुवएसेणं ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ सकल तीर्थवंदना ॥

सकल तीर्थ वंदू करजोड, जिनवर नामे मंगल कोड ॥ पहेले स्वर्गे लाख बत्तीस, जिनवर चैत्य नमुं निशदीस ॥१॥ बीजे लाख अठावीश कह्या, त्रीजे बार लाख सद्दह्या ॥ चोथे स्वर्गे अड लख धार, पांचमे वांदूं लाखज च्यार ॥ २ ॥ छठे स्वर्गे सहस पचास, सातमे चालीस सहस प्रासाद ॥ आठमे स्वर्गे छ हजार, नव दशमे [illegible] जिन चोवे शत चार ॥ ३ ॥ अग्यार [illegible] ॥ [illegible]से सार, नव [illegible] विनय तुम्हारा [illegible] ॥ पांच अनुत्तर स[illegible] पाय [illegible] लाख चोरासी हरि दीजीये [illegible] ए [illegible] ॥ [illegible] ॥ जिननरभुवनेश्य

अधिकार ॥ लांबा सो योजन विस्तार, पच्चास ऊंचा बहोत्तर धार ॥ ५॥ एकसो असी बिंब परिमाण, सन्ना सहित इक चैत्ये जाण ॥ सो कोम बावन कोम संनाल, लाख चोराणुं सहस चोंआल ॥ ६ ॥ सातसे ऊपर साठ विसाल, सवी बिंब प्रणमुं त्रिण काल ॥ सात कोमने बहोत्तर लाख, नुवनपतीमां देवल नाख ॥ ७ ॥ एकशो अशी बिंब प्रमाण, इक२ चैत्ये संख्या जाण ॥ तेरसे कोमि निव्याशी कोमि, साठ लाख वंदू करजोम ॥ ८ ॥ बत्रीशे ने ओगणसाठ, तिर्छालोकमां चैत्यनो पाठ ॥ त्रण लाख एकाणुं हजार, त्रणशें वीश ते बिंब जुहार ॥ ए ॥ व्यंतर ज्योतषीमां वलि जेह, शाश्वता जिनवर वंदू तेह ॥ ऋषन्ना चंद्रानन वारिखेण, वर्द्धमान नामे गुणशेण ॥ १०॥ समेतशिखर वंदू जिन वीश, अष्टापद वंदू चोवीश ॥ विमलाचल ने गढगिरनार, आबू ऊपर जिनवर जुहार ॥ ११ ॥ शंखेश्वर केशरियो सार, तारंगे श्रीअजित जुहार ॥ अंतरीक वरकाणो पाश, जीरावलो ने थंन्नणपाश ॥ १२ ॥ गाम नगर पुर पाटण जेह, जिनवर चैत्य नमुं गुणगेह ॥ विहरमान वंदू जिन वीश, सिद्ध अनंत नमुं निशदीश ॥ १३ ॥ अढी द्वीपमां जे अणगार, [illegible] सहस शीलांगना धार ॥ पंच महाव्रत सुमती सार, पाले पला[illegible]चाचार ॥ १४ ॥ बाह्य अभ्यंतर तप उजमाल, ते मुनि वंदू गु[illegible] माल ॥ नि[illegible]२ ऊठी कीर्त्ति करूं, जीव कहे नवसायर तरूं ॥ १ ॥ इति [illegible]

॥ अरिं ॥ ३ [illegible]त स्तोत्र ॥

सकलार्हत्प्रतिष्ठाना ॥ गह[illegible] [illegible]गवश्रियः ॥ नूर्नुवःस्वस्त्रज-शान, मार्हत्यंप्रणि[illegible]तुस्मरो हिणी[illegible] [illegible]कृतिद्रव्यन्नावैः, पुनत ॥ व-गज्जनं ॥ क्षेत्रेकाले[illegible]दत्ता काली म[illegible] [illegible]समुपास्महे ॥ [illegible]रीतहगं-मंपप्त[illegible]वीनाम्, मा[illegible]पवीञ वरुद्धा [illegible] [illegible] आ माहा[illegible]

मिनंस्तुमः ॥ ३॥ अर्हंतमजितंविश्व, कमलाकरभास्करं ॥ अम्लान-
केवलादर्शे, संक्रांतजगतंस्तुवे ॥ ४ ॥ विश्वभव्यजनाराम, कुल्या-
तुल्याजयंतुताः ॥ देशनासमयेवाचः, श्रीशंभवजगत्पतेः ॥ ५ ॥
अनेकांतमतांभोधि, समुल्लासनचंद्रमाः ॥ दद्यादमंदमानंदं, भगवान
भिनंदनः ॥ ६ ॥ द्युशत्कीरीटशाणाग्रो, त्तेजितांघ्रिनखावलिः ॥
भगवान्सुमतिस्वामी, तनोत्वभिमतानिवः ॥ ७ ॥ पद्मप्रभप्रभोर्देह,
भासःपुष्णंतुवः श्रियं ॥ अंतरंगारिमथने, कोपाटोपादिवारुणाः॥८॥
श्रीसुपार्श्वजिनेंशाय, महेंद्रमहितांह्रये ॥ नमश्चतुर्वर्णसंघ, गगना-
भोगभास्वते ॥ ९ ॥ चंद्रप्रभप्रभोश्चंद्र, मरीचिनिचयोज्वला ॥ मुर्त्ति-
र्मुर्त्ति सितध्यान, निर्मितेवश्रियेस्तुवः ॥ १० ॥ करामलकवद्विश्वं, कलं-
यन्केवलश्रियां ॥ अचिंत्यमहात्म्यनिधिः, सुविधिर्वोधयेस्तुवः॥ ११॥
सत्वानांपरमानंद, कंदोद्भेदनवांबुदः ॥ स्याद्वादामृतनिस्यंदी, शीतलः
पातुवोजिन ॥ १२ ॥ भवरोगार्त्तजंतूना, मगदंकारदर्शनः ॥ निः-
श्रेयसश्रीरमण, श्रेयांसः श्रेयसेस्तुवः ॥ १३ ॥ विश्वोपकारकीभूत,
तीर्थकृत्कर्मनिर्मितिः ॥ सुरासुरनरैः पूज्यो, वासुपूज्यःपुनातुवः॥ १४॥
विमलस्वामिनोवाचः, कतकक्षोदसोदराः ॥ जयंति त्रिजगच्चेतो,
जलनैर्मल्यहेतवः ॥ १५ ॥ स्वयंभूरमणस्पर्द्धि, करुणा[illegible] ॥
अनंतजिदनंताव, प्रयच्छतुसुखश्रियं ॥ १६ ॥ कल्पद्रु [illegible] सधर्म्माण,
मिष्टप्राप्तौशरीरिणां ॥ चातुर्द्धाधर्मदेष्टारं, धर्मना[illegible] ॥ १॥ [illegible] ॥ १७ ॥
सुधासोदरवाग्ज्योत्स्ना, निर्म्मलीकृतनर[illegible]खः [illegible] मृगलक्ष्मातमःशांत्यै,
शांतिनाथजिनोस्तुवः॥ १८ ॥ श्रीकुंथु [illegible] न, सनाथोतिशयर्द्धि-
[illegible] सुरासुरनृनाथाना, मेकनाथ [illegible] ॥ १९ ॥ अरनाथस्तुभ
जिन [illegible] ॥ [illegible] ॥ २० ॥
विनय [illegible] हस्ति, मल्लंमल्लिमभि
[illegible] ॥ २१ ॥ [illegible] त्रिभुवननाथस्य

देशनावचनैस्तुमः ॥२२॥ कुर्वतोनमतांमूर्ध्नि, निर्मलीकारकारणं ॥ वारिप्लवाइवनमेः, पांतुपादनखांशवः ॥ २३ ॥ यदुवंशसमुद्रेंदुः, कर्म्मकक्षहुताशनः ॥ अरिष्टनेमिर्भगवान्, भूयाद्वोऽरिष्टनाशनः ॥ ॥ २४ ॥ कमठेधरणेंद्रेच, स्वोचितंकर्म्मकुर्वति ॥ प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः, पार्श्वनाथःश्रियेऽस्तुवः ॥ २५ ॥ श्रीमतेवीरनाथाय, सनाथायाद्भुतश्रिया ॥ महानंदसरोराज, मरालायार्हतेनमः ॥ २६ ॥ कृतापराधेपिजने, कृपामंथरतारयोः ॥ ईषद्बाष्पार्द्रयोर्भद्रं, श्रीवीरजिननेत्रयोः ॥ २७ ॥ जयतिविजितान्यतेजाः, सुरासुराधीशसेवितःश्रीमान् ॥ विमलस्त्रासविरहित, स्त्रिभुवनचूडामणिर्भगवान् ॥ २८ ॥ वीरः सर्वसुरासुरेंद्रमहितो, वीरंबुधाःसंश्रिता ॥ वीरेणाभिहतःस्वकर्मनिचयो, वीरायनित्यंनमः ॥ वीरात्तीर्थमिदंप्रवृत्तमतुलं, वीरस्यघोरंतपो ॥ वीरेश्रीधृतिकीर्ति कांतिनिचयः, श्रीवीरभद्रंदिशः ॥ ॥ २९ ॥ अवनितलगतानांकृत्रिमाकृत्रिमानां, वरभुवनगतानांदिव्यवैमानिकानां ॥ इहमनुजकृतानांदेवराजार्चितानां, जिनवरभुवनानांभावतोहंनमामि ॥ ३० ॥ इति ॥

॥ अथ शांतिकर स्तोत्र लिख्यते ॥

संतिकरं संतिजिणं, जगसरणं जयसिरीइदायारं ॥ समरामिभत्तपालग, निव्वाणीगरुडकयसेवं ॥ १ ॥ ॐसनेमो विप्पोसहिपत्ताणं, संतिसामि पायाणं ॥ ज्रौंस्वाहा मंतेणं, सव्वाशिवदुरिअहरणाणं २ ॥ ॐसंतिनमुक्कारो, खेलोसहि माइलद्धिपत्ताणं ॥ सोंह्रींनमोसहि, पत्ताणंचंदेइसिरिं ॥ ३ ॥ वाणीतिहुअणसामिणी, सिरिस्करायगणिपिडगा ॥ गहदिसिपालसुरिंदा, सयाविरक्खंतुजिणे ॥ ४ ॥ रक्खंतुममरोहिणी, पन्नत्तीवज्जसिंखलासया ॥ वज्जंकुसिचक्केसरी, नरदत्ता काली महाकाली ॥ ५ ॥ गोरीतहगंधारी महजाला माणवीअ वइरुट्टा [illegible] रीने ज चदे, [illegible] मा[illegible]

माणसिआउ देवीउ ॥ ६ ॥ जरकागोमुहमहाजरका, तिमुहजरके सुतुंबरूकुसुमो ॥ मायंगविजयअजिउ, बंनोमाणुउसुरकुमारो ॥७॥ उम्मुहपायालकिन्नर, गरुलोगंधव्वतहयजरिकंदो ॥ कुवेरवरुणोन्निउडी गोमेहोपासमायंगो ॥ ८ ॥ देवीउचक्केसरी, अजिआउरिआरि कालीमहाकाली ॥ अच्चुअसंताजाला, सुतारयासोअसिरिवच्छा ॥ए॥ चंमाविजयंकुसिपन्नइत्ति, निव्वाणिअच्चुआधरणी ॥ वइरुट्टछु- त्तगंधारी, अंबपउमावईसिध्धा ॥ १० ॥ इयतित्थरक्कणरया, अन्नेविसुरासुरीचउहावि ॥ व्यंतरजोइसिपमुहा, कुणंतुरक्कंसयाअं- म्हं ॥ ११ ॥ एवंसुदिठ्ठिसुरगण, सहिओसंघस्ससंतिजिणचंदो ॥ मज्झविकरेउरक्कं, मुणिसुंदरसूरिथुअमहिमा ॥ १२ ॥ इअसंतिना हसम्मदिठ्ठी, रक्कंसरइतिकालंजो ॥ सव्वोवद्दवरहिओ, सलहइसुह संपयंपरमं ॥ १३ ॥ तवगच्छगयणदिणयर, जुगवरसिरिसोमसुंदरगुरू णं ॥ सुपसायलद्धगणहर, विज्जासिद्धिंन्नणइसीसो ॥ १४ ॥ इति॥

॥ अथ श्रीसीमंधरजिन चैत्यवंदन लिख्यते ॥

सीमंधर परमातमा, शिवसुखना दाता ॥ पुरकलवई वि[illegible] यें जयो, सर्व जीवना त्राता ॥ १ ॥ पूर्वविदेह पुंमरीगणी, नयरी यें सोहे ॥ श्रीश्रेयांश राजा तिहां, न्नवियणना मन मोहे ॥ २ ॥ चउद सुपन निर्मल लही, सत्यकीराणी मात ॥ कुंथु अर जिन अंतरें, श्रीसीमंधर जात ॥ ३ ॥ अनुक्रमें प्रन्नु जनमिया, वली योवन पावै ॥ मात पिता हरखे करी, रुकमणी परणावै ॥ ४ ॥ न्नोगवी सुख संसारना, संजम मन लावे, मुनिसुव्रत नमी अंतरें, दीक्षा प्रन्नु पावै ॥ ५ ॥ घाती कर्मनो क्षय करी, पाम्या केवल नांण ॥ वृषन्न लंडने शोन्नता, सर्व न्नावना जाण॥६॥ चोराशी जस गणधरा, मुनिवर एकसो कोमि ॥ त्रण न्नुवनमां जोयतां, नहि कोई एहनी जोमि ॥ [illegible]निदश लाख कह्या केवली प्रन्नजीनो

परिवार ॥ एक समय त्रण कालना, जाणै सर्व विचार ॥ ८ ॥ उदय पेढाल जिनांतरे ए, थाशै जिनवर सिद्ध ॥ जशविजय गुरु प्रणमतां, शुभ वंछित फल लीध ॥ ९॥ इति चैत्यवंदनं ॥ पुनः ॥ श्रीसीमंधर जगधणी, आ भरते आवो ॥ करुणावंत करुणा करी, अमने वंदावो ॥ १ ॥ सकल भक्त तुमे धणी ए, जो होवे अम नाथ ॥ भवोभव हूं छूं ताहरो, नहीं मेलूं हवे साथ ॥ २ ॥ सयल संग छंडी करी ए, चारित्र लेइशुं ॥ पाय तुमारा सेविने, शिवरमणी वरिसुं ॥ ३ ॥ ए अलजो मुझनें घणो ए, पूरो सीमंधरदेव ॥ इहांथकी हूं वीनवूं, अवधारो मुझ सेव ॥ ४ ॥ इति ॥

॥ अथ सिद्धगिरी चैत्यवंदन लिख्यते ॥

विमल केवल ज्ञान कमला, कलित त्रिभुवन दिनकरं ॥ सुरराज संस्तुत चरण पंकज, नमो आदि जिनेश्वरं ॥ १ ॥ विमल गिरिवर श्रृंग मंडण, प्रवर गुणगण भूधरं ॥ सुर असुर किन्नर कोडि सेवित; नमो० ॥ २ ॥ करती नाटक किन्नरीगण, गाय जिन गुण मनहरं ॥ निर्जरावलि नमें अहनिशि, नमो० ॥ ३ ॥ पुंडरीक गणपति सिद्धि साधी, कोडि पण मुनि मनहरं ॥ श्रीविमल गिरिवर श्रृंग सीधा, नमो० ॥ ४ ॥ निज साध्य साधन सुरिंद मुनिवर, कोडिनंत ए गिरिवरं ॥ मुक्तिरमणी वर्या रंगै, नमो० ॥ ॥ ५ ॥ पातालनर सुरलोक मांही, विमलगिरिवर ते परं ॥ नहि अधिक तीरथ तीर्थपति कहे, नमो० ॥ ६ ॥ इम विमलगिरिवर शिखर मंडण, दुःख विहंडण ध्याईयै ॥ निज शुद्ध सत्ता साधनार्थं, परम ज्योतिनेंपाइए ॥ ७ ॥ जित मोह कोह विछोह निद्रा, परम पद स्थिति जयकरं ॥ गिरिराज सेवा करण तत्पर, पद्मविजयसु हितकरं ॥ ८ ॥ इति पदं ॥ पुनः ॥ श्री शत्रुंजय सिद्धक्षेत्र, दीठै दुर्गति वारै ॥ भाव धरीनें जे चढै, तेने भ[illegible]

ऊतारै ॥ १ ॥ अनंत सिद्धनो एह ठाम, सकल तीरथनो राय ॥ पूर्व नवाणूं रूषन्नदेव, ज्यां ठविया प्रन्नु पाय ॥ २ ॥ सूरजकुंम सोहामणो, कवमयक्ष अन्निराम ॥ नान्निराया कुलमंमणो, जिनवर करुं प्रणाम ॥ ३ ॥ इति द्वितिय चैत्यवंदन ॥

॥ अथ श्रीपरमात्मा चैत्यवंदन लिख्यते ॥

परमेसर परमातमा, पावन परमिठ ॥ जय जगगुरु देवाधिदेव, नयणें में दिठ ॥ १ ॥ अचल अकल अधिकार सार, करुणा रश सिंधु ॥ जगती जन आधार एक, निःकारण बंधु ॥ २ ॥ गुण अनंत प्रन्नु ताहरा ए, किमही कह्या न जाय ॥ राम प्रन्नु जिन ध्यानथी, चिदानंद सुख थाय ॥ ३ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीसोमंधर जिन स्तवन ॥

सुणो चंदाजी, सीमंधर परमातम पासे जावजो ॥ मुऊ वीनतमी, प्रेम धरीनें इण पर तुमे संन्नलावजो ॥ जे त्रण्य न्नुवन ना नायक ठे, जस चोसठ इंदर पायक ठे, नाण दरशण जेहना क्षायक ठे ॥ सुणो० ॥ १ ॥ जेनी कंचनवरणी काया ठे, जश धोरी लंठन पाया ठे, पुंमरीगणी नगरीनो राया ठे ॥ सुणो० ॥ २ ॥ बार पर्षदा मांहि विराजे ठे, जश चोत्रीश अतिशय ठाजे ठे, गुण पेंत्रीस वाणीयें गाजे ठे ॥ सुणो० ॥ ३ ॥ न्नविजनने ते पमिबोहे ठे, तुम अधिक शीतलगुण सोहे ठे, रूप देखी न्नविजन मोहे ठे ॥ सुणो० ॥ ४ ॥ तुम सेवा करवा रसियो ठूं, पण न्नरतमां दूरे वसिओ ठूं, महा मोहराय कर फसियो ठूं ॥ सुणो० ॥ ५ ॥ पण साहिब चित्तमां धरियो ठे, तुम आणा खमग कर ग्रहियो ठे, तब कांइक [illegible] ऊथी मरियो ठे ॥ सुणो० ॥ ६ ॥ जिन उत्तम पूठ हवे पूरो, [illegible] पद्मविजय थाऊं शूरो, तो वाधे मुऊ मन अति नूरो ॥ [illegible] ॥ इति पदं ॥

॥ अथ श्रीसिद्धगिरी स्तवन लिख्यते ॥

आंखड़ियें रे में आज सेत्रुंजो दीठो रे, सवालाख टकानों दिहाड़ो रे, लागे मुंनें मीठो रे ॥ सफल थयो म्हारा मननो उमा हो, वालामारा, भवनो संशय भाग्यो रे ॥ नरक तिर्यंच गति दूर निवारी, चरणे प्रभुजीनें लाग्यो रे ॥ शेत्रुं० १ ॥ मानवभवनो लाहो लीधो, वाला० देहड़ी पावन कीधी रे ॥ सोना रूपानें फूलड़े वधावी, प्रेमें प्रदक्षणा दीधी रे ॥ शेत्रुं० २ ॥ दूधड़े पखालीनें केशर घोली, वा० श्रीआदीश्वर पूज्या रे ॥ श्रीसिद्धाचल नयणे जोतां, पापमेवासी ध्रुज्या रे ॥ शेत्रुं० ३ ॥ स्वयमुख सुधर्मा सुरपति आगे, वा० वीरजिनंद इम बोले रे ॥ त्रण भुवनमां तीरथ मोटुं, नहिं कोइ सेत्रुंजा तोले रे ॥ शेत्रुं० ४ ॥ इंद्र सरीखा ए तीरथनी, वा० चाकरी चित्तमां चाहे रे ॥ कायानी तो कासल टाले, सूरजकुंडमां नाहे रे ॥ शेत्रुं० ५ ॥ कांकरे२ श्रीसिद्धक्षेत्रे, वा० साधु अनंता सीधा रे ॥ ते माटे ए तीरथ मोटुं, उद्धार अनंता कीधा रे ॥ शेत्रुं० ६ ॥ नाभिराया सुत नयणे जोतां, वा० मेह अमीरश वूठ्या रे ॥ उदयरतन कहे आज म्हारे पोते, श्री आदीश्वर तूठ्या रे ॥ शेत्रुं० ७ ॥ इति ॥

पुनः ॥ विमलाचल नित वंदियै, कीजै एहनी सेवा ॥ मानू हाथ ए धर्मनो, शिवतरु फल लेवा ॥ वि० १ ॥ उज्जल जिन गृहमंडली, तिहां दीपै उत्तंगा, मानुं हिमगिरि विभ्रमें ॥ आई अंबर गंगा ॥ वि० २ ॥ कोइ अनेरुं जग नही, ए तीरथ तोले ॥ इम श्रीमुख हरि आगलै, श्रीसीमंधर बोलै ॥ वि० ३ ॥ जे सगलां तीरथ कऱ्या, जात्राफल लहियैं, तेहथी ए गिरि भेटतां, शतगणुं फल लहियै ॥ वि० ४ ॥ जनम सफल होय तेहनो, जे ए गिरि वंदे ॥ सुजश विजय संपद लहे, ते नर चिरनंदे ॥ वि० ५ ॥ इति पदं ॥

॥ अथ श्रीपंचतीर्थ स्तवन ॥

श्लोक ॥ श्रीशत्रुंजयमुख्यतीर्थतिलकं श्रीनाभिराजांगजं, वंदेरैवतशैलमौलिमुकुटं श्रीनेमिनाथंयथा ॥ तारंगेप्यजितंजिनं भृगुपुरे श्रीसुव्रतंस्थंभने, श्रीपार्श्वप्रणमामिसत्यनगरे श्रीवर्द्धमानंत्रिधा ॥ १ ॥ वंदेऽनुत्तरकल्पतल्प भुवनेग्रैवेयकेव्यंतरे, ज्योतिष्कामरमंदरा द्रिवसतो स्तीर्थंकरानादरात् ॥ जंबूपुष्करधातकीपुरुचके नंदीश्वरे कुंडले, येचान्येपिजिनानमामिसततं तानकृत्रिमाऽकृत्रिमान् ॥२॥ श्रीमद्वीरजिनास्यपद्मह्रदतो निर्गम्यतेगौतम, गंगावर्त्तनमेत्ययाप्रतिभवे मिथ्यात्ववैताढ्यकं ॥ उत्पत्ति स्थितिसंहृति त्रिपथगा ज्ञानांबुधावृद्धिगा, सामेकर्ममलंहरत्व विकलं श्रीद्वादशांगीनदी ॥ ३ ॥ शक्रश्चंद्ररविग्रहाश्चधरण ब्रह्मेंद्रशांत्यंबिका, दिग्पालाः सकपर्दिगो सुखगण श्चक्रेश्वरीभारती ॥ येन्येज्ञानतपक्रियाव्रतविधिः श्रीतीर्थयात्रादिषु, श्रीसंघस्यतुराचतुर्विधसुरा स्तेसंतुभद्रंकराः ॥ इति श्रीपंचतीर्थ स्तवनं ॥

॥ अथ नेम राजुल सिझाय ॥

(नदी यमुनाके तीर उडे दोय पंखीया ॥ ए देशी) पिउजी पिउजी रे नाम जपुं दिन रातियां, पिउजी चल्या परदेश तपे मोरी छातियां, ॥ पगपग जोती वाट वालेसर कब मिले, नीर विछोह्या मीन के ते ज्युं टलवले ॥ १ ॥ सुंदर मंदिर सेज साहिब विण नवि गमे, जिहां रे वालेसर नेम तिहां मारूं मन भमें ॥ जो होव सज्जन दूर तोही पासे वसै, किहां सायर किहा चंद देखी मन उल्लसै ॥ २ ॥ निस्नेहीसुं प्रीत म करजो को सही, पतंग जलावै देह दीपक मनमें नही ॥ माणसतणो विजोग म होजो केहनें, साले रे सूल समान हियामां तेहने ॥ ३ ॥ विरह व्यथानी पीड जोवनवय अति दहै, जेहनो पिउ परदेश ते माणस दुःख सहै ॥

फुरी२ पंजर कीध काया कमला जिसी, हजुअ न आव्यो नेम मि ली नयणें हसी ॥ ४ ॥ जेहने जेहसु रंग टाव्यो ते नवि टलै, चकवा रयणी विजोग ते तो नयणे मिलै ॥ आंबा केरो स्वाद निंबू ते नवि करै, जे नाह्या गंगा नीर ते छीलर किम तरे ॥५॥ जे रम्यां मालतीफूल धतुरे किम रमे, जेहने घीसुं प्रेम ते तेले किम जमे ॥ जेहने चतुरसुं नेह ते अवरने सुं करै, नवजोवन तजी नेम वैरागी थै फरै ॥ ६ ॥ राजुल रूपनिधान के पोहती सहसावने, जइ वां द्या प्रभु नेम संजम लेई एक मनें ॥ पाम्या केवलज्ञान के पोहती मनरली, रूपविजय प्रभु नेम भेटे आशा फली ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ आउखा सिझाय लिख्यते ॥

आउखो तूटाने सांधो को नही रे, तिण कारण म करो जीव प्रमाद रे ॥ जरा आव्याने शरणुं को नहीं रे, हिंसा छोडाने दया पाल रे ॥ आ० १ ॥ कुटंब कबीला नारी कारणे रे, मूरख संच्या बहुला पाप रे ॥ चोरतणी परे छंडी फूरसे रे, सहीसे इह लोक परलोक संताप रे ॥ आ० २ ॥ ऊंचा चिणाव्या मंदिर मालि या रे, दे दे धरतीमें ऊंडी नीव रे ॥ एक दिन अणजाण्युं ऊठी चालवूं रे, सुख दुःख सहसे आपणो जीव रे ॥ आ० ३ ॥ चक्र वर्त्ती हर बल राणो केशवो रे, जोजो बली इंद्र सुरानो नाथ रे ॥ फगीरने नवेही आथम्या रे, जोजो कोइ अचरजवाली वात रे ॥ आ० ॥ ४ ॥ अथिर संसार तजी मुनि नीसरया रे, करता मुनि [illegible] तेह विहार रे ॥ भारंडपंखीनी दीधी उपमा रे, न धरे मम- [illegible]ह लगार रे ॥ आ० ५ ॥ चारित्र पाले रूडी रीतसुं रे, देवे मुनि अपणो उपदेश रे, तिको मुनिवर सिधासी मोक्षने रे, जश लेई इहलोक परलोक रे ॥ आ० ६ ॥ शब्द रूप देखी समता धरो रे, म करो मुनि [illegible]नुं अभिमान रे, रूषी चोथमल सूत्र

देखीने रे, जोरु करी जालोर मझार रे ॥ आव० ७ ॥ इति ॥

॥ अथ पंचतीर्थी चैत्यवंदन लिख्यते ॥

आदिदेव अरिहंत नमूं, समरूं तारूं नाम ॥ ज्यां ज्यां प्रतिमा जिनतणी, त्यां त्यां करूं प्रणाम ॥ १ ॥ शेत्रुंजय श्रीआदिदेव, नेम नमूं गिरनार ॥ तारंगे श्रीअजितनाथ ॥ आबू रुपभ जूहार ॥ २ ॥ अष्टापदगिरि ऊपरे, जिन चोवीशी जोय ॥ मणिमय मूरति मानसुं, भरते भरावी सोय ॥ ३ ॥ समेतशिखर तीरथ वडूं, ज्यां वीशे जिन पाय ॥ वैभारकगिरि ऊपरे, श्रीवीर जिनेश्वरराय ॥ ४ ॥ मांडवगढनो राजियो, नामे देव सुपाश ॥ रुपभ कहे जिन समरतां, पोहचै मननी आश ॥ ५ ॥ इति पदं ॥

॥ अथ दुज तिथीको चैत्यवंदन ॥

दु विध धर्म जिन उपदिस्यो, चोथा अभिनंदन ॥ बीजे जन्म्या ते प्रभु, भवदुःख निकंदन ॥ १ ॥ दु विध ध्यान तुम्हे परिहरो, आदरो दोय ध्यान ॥ एम प्रकाश्युं सुमतिजिन, ते चविया बीज दिन ॥ २ ॥ दोय बंधन राग द्वेष, तेहने भवि तजिये ॥ मुझ परे शीतल जिन कहे, बीज दिन शिव भजिये ॥ ३ ॥ जीवाजीव पदार्थनुं, करो नाण सुजाण ॥ बीज दिने वासुपूज्य परे, लहो केवलनाण ॥ ४ ॥ निश्चय नय व्यवहार दोय, एकांत न ग्रहियें ॥ अरजिन बीज दिने चवी, एम जिन आगलि कहिये ॥ ५ ॥ वर्त्तमान चोवीशीये, एम जिनकल्याण ॥ बीज दिने केई पामिया, प्रभु नाण निर्वाण ॥ ६ ॥ एम अनंत चोवीशीयें, हुआ बहुत कल्याण ॥ जिन उत्तम पद पद्मने, नमतां होय सुख खाण ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ ग्यानपंचमीको चैत्यवंदन ॥

त्रिगडै बैठा वीरजिन, भाखै भविजन आगे ॥ त्रिकरणसुं त्रिहुं

लोक जन, निसुणो मनरागे ॥ १ ॥ आराहो नवि नावसें, पांचम अजुवाली ॥ ज्ञान आराधन कारणे, येहज तिथि निहाली ॥ २ ॥ ज्ञान विना पशु सारिखा, जाणो इण संसार ॥ ज्ञान आराधनथी लहुं, शिवपद सुख श्रीकार ॥ ३ ॥ ज्ञान रहित क्रिया कही, काशकुशम उपमान ॥ लोकालोक प्रकाशकर, ज्ञान एक प्रधान ॥ ४ ॥ ज्ञानी सासोसासमें, करै कर्मनो खेह ॥ पूर्व कोडी वरसा लगै, अज्ञाने करे तेह ॥ ५ ॥ देश आराधक क्रिया कही, सर्व आराधक ज्ञान ॥ज्ञानतणो महिमा घणो, अंग पांचमे नगवान ॥६॥ पंच माश लघु पंचमी, जावजीव उत्कृष्टी ॥ पंच वरस पंच माशनी, पंचमी करो शुन्न दृष्टी ॥ ७ ॥ एकावनही पंचनो ए, काउसग्ग लोगस्स केरो, ऊजमणूं करो नावशुं ए, टाले नव फेरो ॥ ८ ॥ इण परे पंचम आराहिये ए, आणी नाव अपार ॥ वरदत्त गुणमंजरी वरे, रंगविजय लहो सार ॥ ए ॥ इति पंचमी चैत्य-वंदन सपूर्णम् ॥

॥ अथ अष्टमी चैत्यवंदन लिख्यते ॥

महा सुदि आठमने दिने, विजया सुत जायो, तेम फागुण वदि आठमें, संनव चव आयो ॥ १ ॥ चइतर वदनी आठमें, जनम्या ऋषनजिणंद ॥ दीक्षा पिण ए दिन लही, हुआ प्रथम मुनिचंद ॥ २ ॥ माधव सुदि आठम दिने, आठ कर्म कस्या दूर ॥ अन्निनंदन चोथा प्रनू, पाम्या सुख नरपूर ॥ ३ ॥ एहीज आठम [illegible]नली, जनम्या सुमतिजिणंद ॥ आठ जाति कलशे करी, न्हव-[illegible]वे सुर इंद ॥ [illegible] ॥ जन्म्या जेठ वदि आठमें, मुनिसुव्रतस्वामी ॥ नेम आषाढ सु[illegible] आठमें, पंचमी गति पामी ॥ ५ ॥ श्रावण वदिनी आठमें, न[illegible]न जन्म्या जगनाण ॥ तिम श्रावण सुदि आठमें, पासजीनो निर्वा[illegible] ॥ ६ ॥ नाद्रवा वदि आठम दिने, चविया

स्वामी सुपास ॥ जिन उत्तम पद पद्मने, सेव्यांथी शिववास ॥७॥

॥ अथ एकादशीनुं चैत्यवंदन लिख्यते ॥

शासननायक वीरजी, प्रनु केवल पायो, संघ चतुर्विध थापवा, महसेन वन आयो ॥ १ ॥ माधव सित एकादशी, सोमल द्विज यज्ञ ॥ इंद्रनुति आदे मिल्या, एकादश विज्ञ ॥ २ ॥ एकादशसें चतु गुणाँ, तेहनो परिवार ॥ वेद अर्थ अवलो करै, मन अन्निमान अपार ॥ ३ ॥ जीवादिक संसय हरी ए, एकादश गणधार ॥ वीरें थाप्या वंदियें, जिनशासन जयकार ॥ ४ ॥ मल्लि जन्म अर मल्लि पास, वर चरण विलासी ॥ ऋषन्न अजित सुमती नमी, मल्लि घनघाति विनाशी ॥ ५ ॥ पद्मप्रन्न शिव वास पास, नवन्नवना तोमी ॥ एकादशी दिन आपणी, ऋद्धि सघली जोमी ॥ ६ ॥ दश क्षेत्रें त्रिहु कालनां, देढसें कल्याण ॥ वरस इग्यार एकादशी, आराधो वर नाण ॥ ७ ॥ अग्यार अंग लखावियें, एकादश पाठा ॥ पूंजणी ठवणी विंटणी ॥ मसी कागल काठा ॥८॥ अग्यार अव्रत छांमवा ए, वहो पमिमा अग्यार ॥ खिमाविजय जिनशासनें, सफल करो अवतार ॥ ए ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीमंधर जिन स्तुति लिख्यते ॥

॥ सीमंधर जिनवर सुखकर साहिब देव, अरिहंत सकलनी न्नाव धरी करूं सेव ॥ सकलागम पारग गणधर न्नाषित वाणी, जयवंती आणा ज्ञानविमल गुणखाणी ॥ १ ॥ (यह थुई च्यार वखते पण कहवाय छे)

श्रीसीमंधर देव सुहंकर, मुनि मन पंकज हंसाजी ॥ कुंथु अरजिन अंतर जनम्या, तिहुअण जश परसंसाजी ॥ सुव्रत नमि अंतर वर दीक्षा, शिक्षा जगतनि रासें जी ॥ उदय पेढाल जिनांतरमां प्रन्नु, जासे शिवन्नहु पासे जी ॥ १ ॥ त्रत्रीस चउसठि

चउसठि मलिया, इगसय सठि उक्किठा जी ॥ चउ अड अड मिली मध्यम काले, वीश जिनेसर दिठा जी ॥ दो चउ च्यार जघन्य दश जंबू, धायई पुक्कर मझारे जी ॥ पूजो प्रणमो आचारांगे, प्रवचनसार उद्धारेजी ॥ २ ॥ सीमंधर वर केवल पामी, जिनपद खवण निमित्ते जी ॥ अर्थनी देशन वस्तु निवेशन, देतां सुणत विनीतें जी ॥ द्वादश अंग पूरब युत रचिया, गणधर लब्धि विकसिया जी ॥ अपज्जवसिय जिनागम वंदो, अक्षर पदना रसिया जी ॥ ३ ॥ आणा रंगी समकित संगी, विविध भंग व्रतधारी जी नेह संघ तीरथ रखवाली, सहु उपद्रव हरनारीजी ॥ पंचां- गासनदेवी, देती तस जश ऋद्धी जी ॥ श्रीशुभ वीर कार्य सकलमां सिद्धी जी ॥ ४ ॥ इति ॥

॥ अथ बीजतिथीकी स्तुति ॥

सकल मनोहर बीज दिवस सुविशेष, राय राणा प्र- तणी जिहां रेख ॥ तिहां चंद्र विमानें शाश्वत जिनवर जे बीजतणे दिन प्रणमुं आणी नेह ॥ १ ॥ अभिनंदन चदन शीतल शीतलनाथ, अरनाथ सुमतिजिन वासुपूज्य शिव साथ ॥ इत्यादिक जिनवर जन्म ज्ञान निरवाण, हुं बीजतणें दिन प्रणमुं ते सुविहाण ॥ २ ॥ परकास्यो बीजे द्विविध धर्म भग- वंत, जेम विमला कमला विउल नयण विकसंत ॥ आगम अति अनुपम जिहां निश्चय व्यवहार, बीजे सवि कीजें पातिकनो परि- हार ॥ ३ ॥ गजगामिनी कामिनी कमल सुकोमल चीर, चक्के- सरी केसरी सरस सुगंध सरीर ॥ करजोडी बीजे हुं प्रणमुं तस पाय, इम लब्धिविजय कहे पूर मनोरथ माय ॥ ४ ॥ इति दूज थुई ॥ ॥

॥ अथ पंचमी स्तुति ॥

श्रावण सुदि दिन पंचमी ए, जनम्या नेमजिनंद तो ॥ इ... शौल-

रण तनु शोभतो ए, मुख शारदको चंद तो ॥ सहस वरस प्रभु आउखो ए, ब्रह्मचारी भगवंत तो ॥ अष्ट करम हेले हणी ए, पोहता मुक्ति मभार तो ॥ १ ॥ अष्टापद आदिजन ए, पहोत्या मुक्ति मभार तो ॥ वासुपूज्य चंपापुरी ए, नेम मुक्ति गिरनार तो ॥ पावापुरी नगरीमां वली ए, श्रीवीरतणुं निर्वाण तो ॥ समेत-शिखर वीश सिद्ध हुआ ए, शिरवहुं तेहनी आण तो ॥ २ ॥ नेमनाथ ज्ञानी हुवा ए, भाखे सार वचन्न तो ॥ जीवदया गुण वेलडी ए, कीजै तास जतन्न तो ॥ मृषा न बोलो मानवी ए, चोरी चित्त निवार तो ॥ अनंत तीर्थंकर इम कहे ए, परहरियै परनार तो ॥ ३ ॥ गोमेद नामे यक्ष भलो ए, देवी श्रीअंबिका नाम तो ॥ शाशन सानिद्ध जे करे ए, करै वलि धर्मना काम तो ॥ तपगच्छ नायक गुण निलो ए, श्रीविजयशेन सूरिराय तो ॥ रिष-भदास पाय सेवतां ए, सफल करे अवतार तो ॥ ४ ॥ इति ॥

॥ अथ अष्टमी स्तुति ॥

मंगल आठ करी जस आगल, भाव धरी सुरराजाजी ॥ आठ जातिना कलश करीने, न्हवरावे जिनराजा जी ॥ वीरजिनेश्वर जन्म महोत्सव, करतां शिवसुख साधे जी ॥ आठमनुं तप करतां अम घर, मंगलकमला वाधे जी ॥ १ ॥ अष्ट करम वयरी गजगंजन, अष्टापद परें बलीया जी ॥ आठमें आठ सुरूप विचारी मद आठे तस गलिया जी ॥ अष्टमी गति परे पहुंता जिनवर, फरस आठ नहि अंग जी ॥ आठमनुं तप करतां अम घर, नित्य श वाधै रंग जी ॥ २ ॥ प्रातीहारज आठ विराजे, समवसरण जिन राजे जी ॥ आठमे आठ सो आगम भाखी, भवि मन [illegible] अंत भांजे जी ॥ आठे जे प्रवचननी माता, पाले निरतीचारो जी रमां भाखुरले दिन अष्ट प्रकारे, जीव दया चित धारो जी ॥ ३ ॥

प्रकारी पूजा करीने, मानवभव फल लीजे जी ॥ सिद्धाइ देवी जिनवर सेवी, अष्ट महासिद्धि दीजेजी ॥ आठमनुं तप करतां लीजे, निर्मल केवलज्ञान जी ॥ धीरविमल कवि सेवक नय कहे, तपथी, मोक्ष कल्याण जी ॥ ४ ॥ इति ॥

॥ अथ एकादशीनी स्तुति ॥

एकादशी अति रूवडी, गोविंद पूछे नेम ॥ कोण कारण पर्व मोटुं, कहो मुजसुं तेम ॥ १ ॥ जिनवर कल्याणक अतिघणा, एकशो ने पच्चास ॥ तेणे कारणें ए पर्व मोहोटुं, करो मौन उपवास ॥ १ ॥ अगिआर श्रावकतणी प्रतिमा, कही ते जिनवर देव ॥ एकादशी एम अधिक सेवो, वनगजा जिम रेव ॥ चोवीश जिनवर सयल सुखकर, जैसा सुरतरु चंग ॥ जेम गंग निर्मल नीर जेहवुं, करो जिनसुं रंग ॥ २ ॥ अगियार अंग लखावियें, अगियार पाठां सार ॥ अगियार कवली विंटणा, ठवणी पूंजणी सार ॥ चावखी चंगी विविध रंगी, शास्त्रतणे अनुसार ॥ एकादशी इम ऊजमो, जेम पामिये भव पार ॥ ३ ॥ वर कमल नयणी कमल वयणी, कमल सुकोमल काय ॥ भुजदंड चंड अखंड जेहनें, समरतां सुख थाय ॥ एकादशी एम मन वशी, गणि हर्ष पंडित शीश, शासनदेवी विघन निवारो, संघतणा निश दीश ॥ ४ ॥ इति ॥

॥ अथ चवदशनी स्तुतिः ॥

स्नातस्याप्रतिमस्यमेरुशिखरे, शच्याविभोः शैशवे ॥ रूपालोकनविस्मया, हृतरसभ्रांत्या भ्रमच्चक्षुषा ॥ उन्मृष्टंनयनप्रभा धवलितं, क्षीरोदकाशंकया ॥ वक्त्रंयस्यपुनःपुनःसजयति, श्रीवर्द्धमानोजिनः ॥ १ ॥ हंसांसाहतपद्मरेणुकपिश, क्षीरार्णवांभोभृतैः ॥ कुंभैरप्सरसांपयोधरभर, प्रस्पर्धिभिःकांचनैः ॥ येषांमंदररत्नशैल-

शिखरे जन्माभिषेकः कृतः ॥ सर्वैः सर्वसुरासुरेश्वरगणै, स्तेषांनतोहं क्रमान् ॥ २ ॥ अर्हद्वक्त्रप्रसूतंगणधररचितं, द्वादशांगंविशालं ॥ चित्रंबव्हर्थयुक्तंमुनिगणवृषभै, र्धारितंबुद्धिमद्भिः ॥ मोक्षाग्रद्वारभूतंव्रतचरणफलं, ज्ञेयभावप्रदीपं ॥ भक्त्यानित्यंप्रपद्येश्रुतमहमखिलं, सर्वलोकैकसारं ॥ ३ ॥ निष्पंकव्योमनीलद्युतिमलसदृशं, बालचंद्राभदंष्ट्रं ॥ मत्तंघंटारवेणप्रसृतमदजलं, पूरयंतंसमंतात् ॥ आरूढोदिव्यनागंविचरतिगगने, कामदःकामरूपी ॥ यक्षःसर्वानुभूति र्दिशतुममसदा, सर्वकार्येषुसिद्धिं ॥ ४ ॥ इति ॥

॥ अथ कल्याणकंद सर्वदिन स्तुति ॥

कल्लाणकंदं पढमं जिणंदं, संतितउ नेमजिणं मुणिंदं ॥ पासं पयासं सुगणिक्कठाणं, भत्तीइवंदे सिरिवद्धमाणं ॥ १ ॥ अपार संसार समुद्दपारं, पत्ताशिवं दिंतु सुइक्कसारं ॥ सव्वे जिणंदा सुरविंद विंदा, कल्लाणवल्लीण विसालकंदा ॥ २ ॥ निव्वाणमग्गे वरजाण कप्पं, पणासियासेस कुवाइदप्पं ॥ मयंजिणाणं सरणं बुहाणं ॥ नमामि निच्चंतिजगप्पहाणं ॥ ३ ॥ कुंदिंदु गोक्खीर तुसारवन्ना, सरोज हत्था कमलेनिसन्ना ॥ वाएसिरी पुत्थयवग्ग हत्था ॥ सुहाय सा अम्ह सयापसत्था ॥ ४ ॥ इति ॥

॥ अथ शत्रुंजय स्तुति ॥

॥श्रीशत्रुंजयगिरि तीरथ सार, गिरवरमांहे जिम मेरु उदार, ठाकुर राम अपार ॥ मंत्रमांहे नवकारज जाणूं, तारामांहे जिम चंद वखाणूं, जलधर मांहे जल जाणूं ॥ पंखीमांहे जिम उत्तम हंश, कुलमांहे जिम रुषभनो वंश, नाभितणो जे अंश ॥ क्षमावंतमांहे जेम अरिहंता, तपसूरा मुनिवर महंता, शत्रुंजयगिरि गुणवंता ॥ १ ॥ रुषभ अजित संभव अभिनंदा, सुमतिनाथ मुख पूनमचंदा, पद्मप्रभ सुखकंदा ॥ श्रीसुपार्श्व चंद्रप्रभ सुविधी. शीतल

श्रेयांस सेवो बहु बुद्धी, वासुपूज्य मति शुद्धी ॥ विमल अनंत जिन धर्म ए शांती, कुंथु अर मल्लि नमुं एकांती, मुनिसुव्रत सुद्ध पंथी ॥ नमी पास ने वीर चौवीश, नेम विना ए जिन त्रेवीश, सिद्धगिरि आव्या ईश ॥ २ ॥ भरतराय जिन साथे बोलै, स्वामी शत्रुंजयगिरि तोले, जिननुं वचन अमोले ॥ ऋषभ कहै सुणो भर तराय, छहरी पालंता जे नर जाय, पातिक भूको थाय ॥ पशु पं खी जे इण गिरि आवै, भवबीजे ते सिद्ध ज थावै, अजरामर पद पावै ॥ जिनमतमें सेत्रुंजो वखाएयो, ते मैं आगम दिलमांहे आएयो, सुणता सुख भर आएयो ॥ ३ ॥ संघपति भरत नरेसर आवे, सोवनतणां प्रासाद करावै, मणिमय मूरति गवै, नाभिरा- य मरुदेवी माता, ब्राह्मी सुंदरी बहिन विख्याता, मूर्त्ति नवाणुं भ्राता ॥ गोमुख नें चक्केसरीदेवी, शेत्रुंजय सार करै नित्यमेवी, तपगछ ऊपर हेवी ॥ श्रीविजयसेन सूरीश्वरराया, श्रीविजयदेव सूरी प्रणमी पाया, ऋषभदास गुण गाया ॥ ४ इति ॥

॥ अथ सीमंधरजिन स्तुतिः ॥

महाविदेह क्षेत्रे सीमंधरस्वामी, सोनाना सिंहासण जी, रूपाना कोशीला विराजै रत्नना दीवा दीपे जी ॥ कुंकुंमवर्णी गहूंली विराजै मोतीना अक्षत सार जी, त्यां वैठा सीमंधरस्वामी बोलै मधुरी वाणी जी ॥ १ ॥ केसरचंदन भरी रे कचोली क स्तूरी बरास जी, पहली रे पूजा अमारी रे होजो ऊगमतें परभात जी॥

॥ अथ पंचिंदिय संवरणो ॥

॥ पंचेंदिय संवरणो, तह नव विह बंभचेर गुत्तिधरो ॥ च उविह कसाय मुक्को, इय अठारस गुणेहिं संजुत्तो ॥ १ ॥ पंच म हव्वय जुत्तो, पंच विहायारपालण समत्थो ॥ पंच समई तिगुत्तो, छत्तीस गुणेहिं गुरूमज्झ ॥ २ ॥

॥ अथ सामायक पारवानी गाथा ॥

॥ सामाइयवयजुत्तो, जावमणेहोइनियमसंजुत्तो ॥ छिन्नइअ सुहंकम्मं, सामाइयजत्तियावारा ॥ १ ॥ सामाइअंमिउकए, समणो इवसावउहवइजह्मा ॥ एएणकारणेणं, बहुसोसामाइअंकुज्जा ॥ २ ॥ सामायक विधें लीधु विधें पारिउं विधि करतां जे अविधि हुओ होइ ते सवे हुं मन वचन कायायें करी मिछामि डुक्कडं ॥ दश मनना दश वचनना बारे कायाना एवं बत्तीस दूषणामांहे जे कोइ दूषण लागो होय ते सहू मन वचन कायायें करी मिछामि डुक्कडं ॥

॥ अथ पोसह पारवानी गाथा ॥

॥ सागरचंदोकामो, चंदवडिंसोसुदंसणोधन्नो ॥ जेसिंपोसह पडिमा, अखंडिआजीविअंतेवि ॥ १ ॥ धन्नासलाहणिज्जा, सुलसा आणंदकामदेवाय ॥ जेसिंपसंसइभयवं, दढव्वयंतंमहावीरो ॥ २ ॥ पोसह विधे लीधुं विधें पारियुं विधि करतां जो कोइ अविधि हुउ होय ते सवि हुं मन वचन कायायें करी मिछामि डुक्कडं ॥

॥ अथ जगचिंतामणि चैत्यवंदन ॥

॥ इछाकारेण संदिस्सह भगवन् चैत्यवंदन करूं, इछं ॥ जग चिंतामणि जगनाह जगगुरु जगरक्खण ॥ जगबंधव जगसत्थवाह, जगभाव वियक्खण ॥ अठावय संठविअरूव, कम्मठ विणासण ॥ चउवीसं पि जिणवर जयंतु, अप्पडिहय शाशण ॥ १ ॥ कम्मभूमिहिं२ पढम संघयण ॥ उक्कोसय सत्तरिसउ, जिणवराण विहरंत लप्भई ॥ नवकोडिहिं केवलिण, कोडि सहस्स नव साहू गम्मई ॥ संपइ जिणवर वीस मुणि, विहुं कोडिहिं वरनाण ॥ समणहकोडी सहस दोअ, थुणि जअ निच्च विहाणि ॥ २ ॥ जयउसामी२ रिसहसत्तुंजि उज्जिंत पहू नेमजिण ॥ जयउ वीर सच्च उरमंडण, भरुअच्छहि मुणिसुव्वय ॥ महुरिपास

छद उरिय खंमरा, अवर विदेहिं तित्थयरा ॥ चिहुं दिसि विदिसि जंकेवि, तीआणागय संपइअं, वंउ जिण सवेवि ॥ ३ ॥ सत्ताणवइ सहस्सा, लरका छपन्न अठ कोमीउ, बत्तीसय बासीआइ, तिय लोए चेइए वंदे ॥ ४ ॥ पन्नास कोमि सयाइं, कोमी बायाल लरक अमवन्ना ॥ उत्तीस सहस असियाइं, सासय बिंबाइ पणमामि ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ अतीचारनी ८ गाथा ॥

नाणंमि दंसणंमिअ, चरणंमि तवेअ तहय विरियंमि ॥ आयरणं आयारो, इअ एसो पंचहा नणिउ ॥ १ ॥ काले विणए वहुमाणे, उवहाणे तहय निन्हवणे ॥ वंजण अत्थ तडुनय, अठविहो नाण मायारो ॥ २ ॥ निस्संकिअ निक्कंखिअ, निवि त्तिगिहा अमूढ दिठीअ ॥ उववूह थिरी करणे, वछल पन्नावणे अठ ॥ ३ ॥ पणिहाण जोगजुत्तो, पंचहिंसमईहिं तिहिं गुत्तीहिं ॥ एस चरित्ता यारो, अठविहो होइनायवो ॥४॥ बारसविहंमिवि तवे, अभिंतर बाहिरे कुशल दिठे ॥ अगिलाइ अणाजीवी, नायवा सो त वायारो ॥ ५ ॥ अणसण मुणो यरिआ, वित्ती संखेवणं रसच्चाउ काय किलेसो संली ण याय, वझो तवो होइ ॥ ६ ॥ पायछित्तं विणउ, वेयावच्चं तहेव सझाउ ॥ जाणं उस्सग्गोविय, अभिंतर उ न वो होइ ॥ ७ ॥ अणगूहिअ बल विरिओ, परिक्कमइ जो जहुत्त मा जुत्तो ॥ जुंजइअ जहाथामं, नायवो वीरियायारो ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ अथ विशाललोचन ॥

॥ विशाललोचनदलं, प्रोद्यद्दंतांशुकेशरं ॥ प्रातर्वीरजिनेंद्रस्य, मुखपद्मंपुनातुवः ॥ १ ॥ येषामभिषेककर्म कृत्वा, मत्ता हर्षभरात् सुखं सुरेंद्राः ॥ तृणमपि गणयंति नैव नाकं, प्रातः संतु शिवाय ते जिनेंद्राः ॥२॥ कलंकनिर्मुक्तममुक्तपूर्णतं, कुतर्कराहुग्रसनं सदोदयं॥

अपूर्वचंद्रं जिनचंद्रभाषितं, दिनागमे नौमिवुधैर्नमस्कृतं ॥ ३ ॥ इति ॥

॥ अथ सुयदेवतानी स्तुतिः ॥

सुअ देवयाए करेमि काउसग्गं० सुअ देवया भगवई, ना णावरणीअकम्म संघायं ॥ तेसिं खवेउ सययं, जेसिं सुअसायरे भत्ती १

॥ अथ खेत्रदेवतानी स्तुति ॥

॥ जीसे खित्ते साहू, दंसण नाणेहिं चरण सहिएहिं ॥ साहंति मुख्कमग्गं, सा देवी हरउ दुरियाइं ॥ १ ॥ इति

॥ अथ सामायकलेवानो विधि ॥

॥ प्रथम उंचे आसणे पुस्तक प्रमुखनी थापना मूकीने श्रावक श्राविका कटासणुं मुहपत्ती चरवलो लई शुद्ध वस्त्र पहरी जग्या पूंजी कटासण ऊपर बेशी मुंहपत्ती डावा हाथमां मुख पासे राखी, जमणो हाथ थापनाजी सन्मुख राखी एक नवकार गणी (पंचिंदिअ) कही इच्छामि खमासमण देई इरियावहिया तस्सुत्तरी अन्नत्थुससिएणं कहे, १ लोगस्सको अथवा च्यार नवकारनो काउसग्ग करे (पारी) प्रगट लोगस्स कहे, खमासमण देई इच्छाकारेण संदिस्सह भगवन् सामायक मुंहपत्ती पडिलेहुं इच्छं । इम कही मुंहपत्ती तथा अंगनी पडिलेहणना पच्चास बोल कही मुंहपत्ती पडिलेहीए पछी खमासमण देई इच्छाकारेण संदिसह भगवन् सामायक संदिस्साउं इच्छं । वली खमासमण देई इच्छा० सामायकठाउं इच्छं । एम कही वे हाथ जोडी एक नवकार गणी इच्छाकार भगवन् पसाय करी सामायकदंडक उच्चरावोजी, पछी गुरु प्रमुख वडेल करेमिभंते कहे, पछी खमासमण देई इच्छा० वेसणो संदिसाउं । खमा० इच्छा० वेसणोठाउं, खमा० इच्छा० सिझाय, संदिस्साउं खमा० इच्छा० सिझाय करुं इच्छं, एम कही त्रण नवकार गणवा । पछी वे घडी सझाय धर्मध्यान करवुं ॥ इति सामायक लेवानी विधि ॥

॥ अथ सामायकपारवानो विधिः ॥

॥ खमासमण देइ इरियावही पडिक्कम्याथी (यावत्) लो गस्स सूधी कहो खमा० इच्छा० मुंहपत्ती पडिलेहुं एम कही मुंह पत्ती पडिलेही खमासमण देई इच्छा० सामायकपारुं यथाशक्ति, वली खमासमण देई इच्छा० सामायकपार्युं तहत्ती कही पछी ज मणो हाथ चरवला ऊपर अथवा कटासणा ऊपर थापी एक नव कार गणी सामाइयवयजुत्तो० कहिए, पछी जमणो हाथ थापना सामो सवलो राखीने एक नवकार गणिए ॥ इति सामायक पार वानो विधि ॥

॥ अथ दैवशिक प्रतिक्रमण विधि ॥

प्रथम सामायक लीजे, पछी पाणी वावर्युं होय तो मुहपत्ती पडिलेहवी अने आहार वावर्यो होय तो वांदणा बे देवा, तिहां बीजा वांदणामां आवस्सियाए ए पाठ नही कहिवो. पछी यथाशक्ति पञ्चक्काण करवुं, पछी खमासमण देई इच्छा० कही वमेरायें अथवा पोते चैत्यवंदन कहवुं, पछी जंकिंचि० नमोत्थुणं० कही ऊजा थईने अरिहंतचेइयाणं० कही एक नवकारनो काउसग्ग करी नमोर्हत्० क हीनें प्रथम थुई कहवी, पछी लोगस्स० सव्वलोए अरिहंतचेइयाणं कही एक नवकारनो काउसग्ग पारीनें बीजी थुई कहवी, पछी पुरकरवरदी० कही सुअस्सजगवउ करेमिकाउसग्गं वंदण० कही एक नवकारनो काउसग्ग पारी त्रीजी थुई कहवी पछी सिद्धाणंबुद्धाणं० कही वेयावच्चगराणं० करेमि काउसग्गं अनत्थू० कही एक नवका रनो काउसग्ग पारी नमोर्हत्कही चोथी थुई कहवी पछी वेसोनें नमोत्थुणं कहै, पछी चार खमासमण देवापूर्वक जगवान् आचार्य उपाध्याय सर्वसाधुज्यः प्रते थोजवंदन करीयै. पछी इच्छाकारेण० दैवसिक प्रतिक्रमणठाउं एम कही जमणोहाथ चरवला अथवा कटा-

मणा ऊपर थापीने इच्छं सव्वस्सवि देवसिय० कहेवुं, पछी ऊभा थई करेमिभंते इच्छामिठामिकाउसग्गं जोमेदेवसिउ० तस्सउत्तरी० कहीने अतीचारनी आठ गाथानो काउसग्ग करवो, आठ गाथा न आवडे तो आठ नवकारनो काउसग्ग करवो. ते काउसग्ग पारीनें लोगस्स कहेवुं, पछी बैसीनै त्रीजा आवश्यकनी मुंहपत्ती पडिलेहीने वांदणा बे देवा, पछी ऊभा थईने इच्छाकारेण० देवसियं आलोउं इच्छं आलो एमि जोमेदेवसिउ० कहीने सातलाख कहवा. पछी अढार पाप स्थानकआलोइये, सव्वस्सविदेवसिअ कहीने बेसवुं, बेसीनें एक नव कार गणी करेमिभंते इच्छामिठामिपडिक्कमिउं कहीने वंदित्तु कहेवुं पछी वांदणा बे देवा, पछी अब्भुट्ठिओमिअभिंतर देवसिअं खामीनें वांदणा बे देवा, पछी ऊभा थई आयरियउवज्झाए कहीने करेमि भंते० इच्छामिठामि० जोमेदेवसिउ० तस्सउत्तरी० कही बे लोगस्स अथवा आठ नवकारनो काउसग्ग करवो, ते पारीने लोगस्स कही सव्वलोए अरिहंतचेइयाणं वंदणवत्ति० कही एक लोगस्स अथवा च्यार नवकारनो काउसग्ग पारीने पुक्खरवरदी० सुअस्सभ गवउ करेमिकाउसग्गं० वंदण० कहीने एक लोगस्स अथवा च्यार नवकारनो काउसग्ग करवो, ते पारीने सिद्धाणंबुद्धाणं० कही सुय देवयाए करेमिकाउसग्गं अनत्थु० कही एक नवकारनो काउसग्ग करवो, ते पारी नमोऽर्हत्कही पुरुषे सुयदेवयानी पहेली थुई कहवी अने स्त्रिये कमलदलनी पहली थुई कहवी. पछी खेत्रदेवतानी बीजी थुई स्त्रिये तथा पुरुषे बन्नेए एकज कहवी. पछी १ नवकार प्रगट गुणी बैसीने छठा आवश्यकनी मुंहपत्ती पडिलेहीनें बे वांदणा दीजै, पछी सामायक चउवीसत्थो वंदनक पडिक्कमणुं काउ सग्ग अने पच्चक्खाण करंतुंजो एम ए छए आवश्यक संभारवा. पछी इच्छामो अणुसट्ठिं नमोखमासमणाणं० कही नमोऽर्हत् कही पुरुष

नमोस्तुवर्द्धमानाय कहे अने स्त्रिया संसारदावानी त्रण थुई कहे पछी नमोत्थुणं कही स्तवन कहवुं, पछी वरकनक कही भगवान आदे वांदवा, पछे जमणो हाथ उपधी ऊपर थापी अढ्ढाइज्जेसु क- हेवुं, पछी देवसिअपायच्छित्तनो काउसग्ग च्यार लोगस्स अथवा शोलनवकारनो करवो, काउसग्ग पारी प्रगट लोगस्स कही वेसीने खमासमण देई इच्छा० सिझायसंदिस्साउं, बीजुं खमासमण देई इच्छा० सिझायकरूं एम सिझायनो आदेश मांगी एक नवकार गणी सिझाय कहवी, पछी एक नवकार गणी खमासमण देई दुःखक्- खयकम्मक्खयनो काउसग्ग च्यार लोगस्सनो संपूर्ण अथवा शोल नवकारनो करवो, ते एक जणे अथवा पोत पारीने नमोऽर्हत्कही लघुशांति कहीने प्रगट लोगस्स कहे, पछी इरियावही० तस्सउ- त्तरी० कही एक लोगस्स अथवा च्यार नवकारनो काउसग्ग करी प्रगट लोगस्स कहेवो, पछी चउक्कसाय० नमोत्थुणं० कही जावंति बे कहीने उवसग्गहरं० जयवीयराय कही मुंहपत्ती पडिलेहवी पछी इच्छामि० इच्छाका० सामायकपारूं यथाशक्ति इच्छामि० इच्छाका० सामायकपार्युं तहत्ति कही पछी जमणो हाथ उपधि ऊपर थापी एक नवकार गणीने सामाइयवयजुत्तो० कहेवुं, पछी आपेली था- पना होयतो एक नवकार गणी उठे. ए देवसि प्रतिक्रमण विधि कह्यो, बाकी अंतरविधि मोहटाथी समजवो ॥ इति देवशी प्रति- क्रमण विधिः ॥

॥ अथ राई प्रतिक्रमण विधिः ॥

प्रथम पूर्वली रीते सामायक लेवुं पछी इच्छामि० इच्छाका० कही कुसमिणनो दुसमिणनो च्यार लोगस्सनो अथवा शोल नवकारनो काउसग्ग करी पारी प्रगट लोगस्स कहवो; पछी खमास- मण देई जगचिंतामणीनुं चैत्यवंदन जयवीगराय सुधी कहेवुं, पछी

च्यार खमासमणपूर्वक ज्ञगवान आचार्य उपाध्याय अने सर्वसाधू प्रत्येके वांदवा, पछी खमासमण वे देई सज्जायनो आदेश मांगी एक नवकार ज्ञणीने ज्ञरहेसरनी सज्जाय कहीने फरी १ नवकार गणवो, पछी इच्छकारसुहराईनो पाठ कहवो, पछी इच्छाका० राईपमिक्कमणेठाउं कहीने जमणो हाथ ऊपधी ऊपर थापीने पछी इच्छं सव्वस्सविराईय डुच्चिंतिय० कही नमोत्थुणं तथा करेमिज्नंते कही इच्छामिठामिकाउसग्गं० तस्सउत्तरी० कही एक लोगस्स अथवा च्यार नवकारनो काउसग्ग पारीने प्रगट लोगस्स कही सव्वलोएअरिहंत० कही एक लोगस्स अथवा च्यार नवकारनो काउसग्ग करवो, पछी पुक्खरवरदी० सुअस्स० वंदणव० कही अतीचारनी आठ गाथानो अथवा न आवमे तो आठ नवकारनो काउसग्ग पारी सिद्धाणंवुद्धाणं कहीने त्रीजा आवश्यकनी मुंहपत्ती पमिलेही वांदणा वे देवा तिहांथी लेनें अप्नुठिउमिखामी वादणा वे दीजे तिहां सूधी देवशीनी रीते जाणवुं, पण जे ठिकाणे देवसियं आवे ते ठिकाणे राईयं कहेवुं, पछी आयरियउवज्झाए० करेमिज्नंते० इच्छामिठामि० तस्सउत्तरी कही तपचिंतामणी करतां न आवमे तो च्यार लोगस्स अथवा शोल नवकारनो काउसग्ग करवो, ते पारी प्रगट लोगस्स कही छठा आवश्यकनी मुंहपत्ती पमिलेही वांदणा वे देवा, पछी सकल तीर्थवंदन करीने यथाशक्तियें पच्चक्खाण करवुं, पछी इच्छाकारेण संदिस्सह ज्ञगवन् सामायकचउवीसत्थो वंदनक पमिक्कमण काउसग्ग पच्चक्खाण करयुं छेजी, एम ठ आवश्यक संज्ञारवा, पछी पच्चक्खाण करवुं होयतो करवुं छेजी अने धारवुं होयतो धारवुं छेजी, एम कहवुं, पछी इच्छामोअणुसहिं० नमोखमासमणाणं० नमोर्हत्० कहीने विशाललोचन० नमोत्थुणं० अरिहंतचेइयाणं० कही एक नवकारनो काउसग्ग पारी नमोर्हत्कही कल्याणकंदनी प्रथम थोय

कहवी, पछी लोगस्स० पुरकरवरदी० सिद्धाणंबुद्धाणं कही अनुक्रमे च्यार थोयो कहवी, पछी नमोत्थुणं कही जगवान् आदि चारने च्यार खमासणे वांदवा, पछी जमणो हाथ ऊपधि ऊपर थापी अड्ढाइज्जेसु कहेवुं पछी सीमंधरस्वामीनुं चैत्यवंदन स्तवन० जयवीराय० काउसग्ग० थोय पर्यंत कहीये तिहांसुधी करवुं, पछी खमासणपूर्वक श्रीसिद्धाचलजीनुं चैत्यवंदन स्तवन जयवीराय काउसग्ग० अने थोय कहवी, पछी सामायक पारवानी विधियें सामायक पारवुं इति ॥

॥ अथ पक्खी प्रतिक्रमण विधिः ॥

प्रथम दैवसिक प्रतिक्रमणमां वंदित्तु कही रहियै तिहांसूधी सर्व कहेवुं पण चैत्यवंदन सकलार्हत्नुं कहेवुं अने थोयो स्नातस्यानी कहेवी, पछी खमासमण देईने इच्छाकारेण संदिस्सह जगवान् देवसियं आलोइयंपडिक्कंता इच्छा० पक्खियमुंहपत्ती पडिलेहुं एम कही मुंहपत्ती पडिलेहीये, पछी बांदणा बे दीजै, पछी इच्छाकारेण० संबुद्धाखामणेणं अब्भुट्ठिओहं अब्भिंतर पक्खियंखामेउं इच्छं खामेमिपक्खियं पन्नरसदिवसाणं पन्नरसराइयाणं जंकिंचिअप्पत्तियं० कही इच्छाकारेणसं० पक्खिअंआलोएमि इच्छं आलोएमि जोमेपक्खिअअइयारोकओ कही इच्छा० पक्खी अतीचार आलोऊं. एम कही वृद्ध अतीचार कहीये, पछी एवंकारे श्रावकतणें धर्में श्रीसमकितमूलबारव्रत एकसो चोवीस अतीचारमांहे जे कोई अतीचार पक्षदिवसमांहे सूक्ष्म बादर जाणतां अजाणतां हुओ होय ते सवे हुं मनकर वचनकर कायायेंकरी मिच्छामिदुक्कडं ॥ सव्वस्सविपक्खिअदुच्चिंतिअ दुब्भासिय दुच्चिट्ठिय इच्छाकारेण संदिस्सह जगवन् तस्स मिच्छामिदुक्कडं ॥ इच्छाकारिजगवन् पसाओ करी पक्खी तपप्रसाद कराओ जी, एम उच्चार करीने आवी रीते कहीये, चउत्थेणं एकउ-

पचाश बेआंबिल त्रणनीवि च्यारएकाशणां आठबेआसणा बेहजार सज्झाय करी यथाशक्ति तप प्रवेश करयो होयतो पइठी कहीए, करवो होयतो तहत्ति कहीये, न करवो होयतो अणबोल्या रहीयै पठी वांदणा बे दीजै, पठी इच्छाकारे० पत्तेयखामणेणं अब्भुठिओहं अभिंन्तर पक्खिअं खामेउं इच्छं खामेमिपक्खियं पन्नरसदिवसाणं पन्नरसराइआणं जंकिंचिअप्पत्तियं० पठी वांदणा बे दीजै पछी देवसियआलोइयपडिक्कंता इच्छाका० जगवन् पक्खियंपडिक्कमुं समपडि क्कमामि इच्छं एम कही करेमिजंतेसामाइयं० कही इच्छामिपडिक्क मिउं जोमेपक्खिउ० कहवो पठी खमासमण देई इच्छाका० प क्खीसूत्र पढुं, एम कही त्रण नवकार गणी साधु न होयतो त्रण नवकार गणीने श्रावक वंदित्तु कहै, पठो सुयदेवयानी थोय कहवी पठी हेठा बैसी जमणोढींचण ऊंचो राखी एक नवकार गणी क रेमिजंते० इच्छामिपडि० कही वंदित्तु कहेवुं०, पठी करेमिजंते इ च्छामिठामिकाउसग्गं जोमेपक्खिउ० तस्सउत्तरी० अन्नत्थू० कहीने (१२) बार लोगस्सनो काउसग्ग करवो, ते लोगस्स चंदेसुनिम्मल यरा सूधी कहवा अथवा अडतालीस नवकारनो काउसग्ग करी पारवो, पारीने प्रगट लोगस्स कही मुंहपत्ती पडिलेहीने वांदणा बे दीजै, पठी इच्छाका० समाप्तिखामणेणं अब्भुठिओहं अभिंतर० पक्खिअंखामेउं इच्छं खामेमिपक्खिअं पन्नरसदि० कही पठी खमा सण देई इच्छाका० कही पक्खीखामणाखामूं एम कही खामणा च्यार खामवा पठी देवसीप्रतिक्रमणामां वंदितु कह्या पछी बे वां दणा देईने तिहांथी ते सामायक पारीये तिहांसूधी सर्व देवसीनी पेठे जाणवु, पण सुयदेवयानी थुईने ठिकाणे ज्ञानादि थोयो कहवी स्तवन अजितशांतिनुं कहवुं, सज्झायने ठिकाणे उवसग्गहरं तथा संसारदावानी थुई च्यार कहेवी अने लघुशांतिने ठिकाणे मोटी

शांति कहेवी ॥ इति पक्की प्रतिक्रमण विधी ॥

॥ अथ चउमासी प्रतिक्रमण विधि ॥

ये उपरनां कह्या प्रमाणे सर्व विधी करवी पण एटलो विशेष, बार लोगस्सना काउसग्गने ठिकाणे वीस लोगस्सनो काउसग्ग करवो अने पक्कीना आगारने ठिकाणे चउमाशीना कहवा, यथातपने ठेकाणे छठ्ठं वे उपवास च्यार आंबिल छनीवी आठ एकाशणा शोल वेआसणा च्यारहजारसझाय, ए रीते कहीये ॥ इति ॥

॥ अथ संवत्सरी प्रतिक्रमण विधिः ॥

ए पण उपर लख्या मुजब एटलो विशेष पण पक्कीना बार लोगस्सने ठिकाणे चालीश लोगस्सनो काउसग्ग अथवा एकशो शाठ नवकारनो काउसग्ग करवो, अने तपने ठिकाणे अठमभत्त एटले त्रणउपवाश छआंबिल नवनीवी बारएकाशण चोवीश वेआसणा अने छहजार सिझाय ए रीते कहवुं अने पक्कीना आगारने ठिकाणे संवत्सरीना आगार कहवा ॥ इति पंचप्रतिक्रमण विधिः सं०

॥ अथ पडिलेहण करवानो विधी ॥

नवकार पंचिंदिय कही इरियावही पडिक्कमवी. थापना होय तो नवकार पंचिंदिय न कहवुं, पछी उस्सउत्तरी कही एक लोगस्स अथवा चार नवकारनो काउसग्ग करी प्रगट लोगस्स कही उभे पगे वैसी मुहपत्ती चरवलो कटासणुं उत्तरासण धोतीउं कंदोरो आदिनुं पडिलेहण करवुं, पछी काजो काढी जीव कलेवर सचित्त आदि जोवुं, पछी काजो काढनार थापनाजी सन्मुख उभो रही इरियावही पडिक्कमे पछी काजो परठववा जग्या सोधी त्रणवार अणुजाणहजस्सुग्गो कही काजो परठवे, पछी त्रण वार वोसिरे कहे ॥ इति पडिलेहण करवानो विधी ॥

॥ अथ पच्चरकाण पारवानो विधि ॥

प्रथम इरियावही पडिक्कमिये, पछी जगचिंतामणीनुं चैत्य वंदन जयवीयराय सूधी करवुं पछी मन्हजिणाणंनी सिझाय कह वी, मुहपत्ती पडिलेही इच्छामि० इच्छाका० पच्चरकाणपारूं यथाश क्ति० इच्छामि० इच्छाका० पच्चरकाणपारयुं तहत्ति एम कही जमणो हाथ चरवला अथवा कटासणा ऊपर थापी एक नवकार गणी प च्चरकाण करयुं होय ते कहेवुं, ते लखिये छिये ॥ उग्गए सूरे नमोका रसहियं पोरसिं साढपोरसिं गंठिसहियं मुठिसहियं पच्चरकाणकरयुं चउविहार आंबिल नीवी एकासणुं बेआसणुं करयुं तिविहार पच्च रकाण फासियं पालियं सोहियं तीरिअं कीट्टिअं आराहिअं जंचन आराहियं तस्समिच्छामिदुक्कडं ॥ एम कही १ नवकार गणवो ॥इति॥

॥ अथ श्री सीमंधरजिन स्तवन ॥

पुरकलवइ विजयें जयो रे, नयर पुंडरीगणी सार ॥ श्री सीमंधर साहिबा रे, राय श्रेयांसकुमार ॥ जिणंदराय धरज्यो धर्म सनेह ॥ (आंकणी)। मोहोटा नाना अंतरो रे, गिरुआ नवि दाखंत ॥ शशि दरिशण सायर वधे रे, कैरव वन विकसंत ॥ जि० २॥ गाम कुगाम न लेखवे रे, जग वरसत जलधार ॥ कर दोय कुसुमें वा सियो रे, गया सवि आधार ॥ जि० ॥ ३ ॥ रायने रंक सरिखा गणे रे, उद्योतें शशि सूर ॥ गंगाजल ते बिहुं तणा रे, ताप करे सवि दूर ॥ जि० ॥ ४ ॥ सरिखा सहुने तारवा रे, तिम तुमे छो माहाराज ॥ मुझसुं अंतर किम करो रे, बांह ग्रह्यांनी लाज ॥ जि० ॥ ५ ॥ मुख देखी टीलुं करे रे, ते नवि होय प्रमाण ॥ मुजरो माने सवितणो रे, साहिब तेह सुजाण ॥ जि० ॥ ६ ॥ वृषभलंछन माता सत्यकी रे, नंदन रुकमणी कंत ॥ वाचक जश इम वीनवे रे, भयभंजण भगवंत ॥ जि० ॥ ७ ॥ इति पदं ॥

॥ अथ बीजनुं स्तवन ॥

(॥ फतमल पाणीभाने जाय ए देशी ॥) ॥ प्रणमी शारदमाय, शासन वीर सुहकरूं जी ॥ बीज तिथी गुणगेह, आदरो भवियण सुंदरू जी ॥ १ ॥ एह जिन पंच कल्याण, विवरीने कहूं ते सुणो जी ॥ माहा सुदि बीजे जाण, जन्म अभिनंदनतणो जी ॥ २ ॥ श्रावण सुदिनी हो बीज, सुमति चव्या सुरलोकथी जी ॥ तारण भवोदधि तेह, तस पद सेवे सुर थोकथी जी ॥ ३ ॥ समेतशिखर शुभ गण, दशमा शीतल जिन गणुं जी ॥ चैत्र वदिनी हो बीज, वरया मुक्ति तस सुख घणुं जी ॥ ४ ॥ फाल्गुन मासनी बीज, उत्तम उज्वल मासनी जी ॥ अरनाथ तस च्यवन, कर्मक्षयें तव पासनी जी ॥ ५ ॥ उत्तम माघ ज मास, शुदि बीजें वासुपूज्यनो जी ॥ एहिज दिन केवलनाण, शरण करो जिनराजनो जी ॥ ६ ॥ करणीरूप करो खेत, समकित बीज रोपो तिहां जी ॥ खातर किरिया हो जाण, खेड समता करी जिहां जी ॥ ७ ॥ उपशम तद्रूप नीर, समकित छोड प्रगट होवे जी ॥ संतोष करी अहो वाड, पच्चख्काण व्रत चोकी सोवे जी ॥ ८ ॥ नासे कर्म रिपु चोर, समकित वृक्ष फल्यो तिहां जी ॥ मांजर अनुभवरूप, उतरे चारित्र फल जिहां जी ॥ ९ ॥ शांति सुधारश वारी, पान करी सुख लीजीये जी ॥ तंबोल सम ल्यो स्वाद, जीवने संतोष रस किजीये जी ॥ १० ॥ बीज करो बावीश मास, उत्कृष्टी बावीस मासनी जी ॥ चोविहार उपवास, पालियें शील वसुधासती जी ॥ ११ ॥ आवश्यक दोय वार, पडिलेहण दोय लीजीये जी ॥ देववंदन त्रिण काल, मन वच कायायें कीजीये जी ॥ १२ ॥ उज्जमणुं शुभ चित्त, करी धरीयें संजोगथी जी ॥ जिनवाणी रस एम, पीजीये श्रुत उपयोगथी जी ॥ १३ ॥ एणि विध करियें हो बीज,

राग ने द्वेष दूरे करे जी ॥ केवलपद लहि तास, वरे मुक्ति जलट धरे जी ॥ १४ ॥ जिनपूजा गुरुजक्ति, विनय करी सेवो सदा जी ॥ पद्मविजयनो शिष्य, जक्ति पामे सुख संपदा जी ॥ १५ इति बीजतिथीनुं स्तवनं ॥

॥ अथ पंचमीनुं वृद्ध स्तवन ॥

(॥ पुण्य प्रशंसीये ॥ ए देशी ॥) सुत सिद्धारथ जूपनो रे, सिद्धारथ जगवान ॥ बारह परखदा आगले रे, जाखे श्रीवर्द्धमानो रे ॥ १ ॥ जवियण चित्त धरो ॥ मन वच काय अमायो रे, ज्ञान जक्ति करो ॥ ए आंकणी ॥ गुण अनंत आतमत-णारे, मुख्यपणे तिहां होय ॥ तेमां पण ज्ञानज वडुं रे, जिणथी दंसण होय रे ॥ ज० २ ॥ ज्ञाने चारित्र गुण वधे रे, ज्ञाने उद्योत सहाय ॥ ज्ञाने थिवरपणुं लहे रे, आचारज उवझाय रे ॥ ज० ३ ॥ ज्ञानी श्वासोश्वासमां रे, कठिण करम करे नाश ॥ वह्नि जेम इंधन दहे रे, क्षणमां ज्योति प्रकाशो रे ॥ ज० ४ ॥ प्रथम ज्ञान पछे दया रे, संवर मोह विनाश ॥ गुणठाणांग पगथालीये रे, जेम चढे मोक्ष आवासोरे ॥ ज० ५ ॥ मइ सुअ उहि मणपज्जवा रे, पंचम केवलज्ञान ॥ चउ मुंगा श्रुत एक छे रे, स्व पर प्रकाश निधान रे ॥ ज० ६ ॥ तेहना साधन जे कह्या रे, पाटी पुस्तक आदि ॥ लखे लखावे साचवैरे, धर्मी धरी अप्रमादो रे, ॥ ज० ७ ॥ त्रिविध आशातना जे करे रे, जणतां करे अंतराय ॥ अंधा बहेरा बोबमा रे, मुंगा पांगुल थाय रे ॥ ज० ८ ॥ जणतां गुणतां न आवडे रे, न मले वल्लज चीज ॥ गुणमंजरी वरदत्त परे रे, ज्ञान विराधन बीज रे ॥ ज० ९ ॥ प्रेमे पूछे परखदा रे, प्रणमी जगगुरु पाय ॥ गुणमंजरी वरदत्तनो रे, कहो अधिकार पसायो रे ॥ ज० १० ॥ इति ॥

(॥ ढाल २ ॥ कपूर होये अति ऊजलो रे ॥ ए देशी ॥)

जंबुद्धिपना भरतमां रे, नयर पदमपुर खास ॥ अजितसेन राजा तिहां रे, राणी यशोमती तास रे ॥ १ ॥ प्राणी आराधो वर ज्ञान, एहिज मुक्ति निदान रे ॥ प्रा० आ० ॥ ए आकणी ॥ वरदत्त कुंवर तेहनो रे, विनयादिक गुणवंत ॥ पितरें भणवा मूंकिओ रे, आठ वरस जब हुंतरे ॥ प्रा० २ ॥ पंमित यत्न करे घणो रे, मात्र भणावण देत ॥ अक्षर एक न आवडे रे, ग्रंथतणी शी चेत रे ॥ प्रा० ३ ॥ कोढे व्यापी देहडी रे, राजा राणी सचिंत ॥ श्रेष्ठी तेहीज नयरमां रे, सिंहदास धनवंत रे ॥ प्रा० ४ ॥ कपूरतिलका गेहनी रे, शीले शोभित अंग ॥ गुणमंजरी तस बेटडी रे, मुंगी रोगे व्यंग रे ॥ प्रा० ५ ॥ शोल वरसनी सा थई रे, पामी यौवनवेश ॥ डुर्भग पण परणे नही रे, मात पिता धरे खेद रे ॥ प्रा० ६ ॥ तेणे अवसरे उद्यानमां रे, विजयशेन गणधार ॥ ज्ञानरयण रयणायरु रे, चरण करण व्रतधार रे ॥ प्रा० ७ ॥ वनपालक भूपालने रे, दीध वधाइ जाम ॥ चतुरंगी सेना सजी रे, वंदन जावे ताम रे ॥ प्रा० ८ ॥ धर्मदेशना सांभले रे, पुरजन सहित नरेश ॥ विकशत नयन वदन मुदा रे, नहिं प्रमाद प्रवेश रे ॥ प्रा० ९ ॥ ज्ञान विराधन परभवे रे, मूरख पर आधीन ॥ रोगें पीड्या टलवले रे, दीसै डुःखीया दीन रे ॥ प्रा० १० ॥ ज्ञान सार संसारमे रे, ज्ञान परम सुख देत ॥ ज्ञान विना जगजीवडा रे, न लहे तत्व संकेत रे ॥ प्रा० ११ ॥ श्रेष्ठी पूछे मुणिंदने रे, भाखो करुणावंत ॥ गुणमंजरी मुझ अंगजा रे, कवण कर्म विरतंत रे ॥ प्रा० १२ ॥ इति ॥

(ढाल ३ ॥ सूरती महिनानी देशीमां)

धातकीखंडना भरतमां, खेटक नयर सुगाम ॥ व्यवहारी

जिनदेव छै, घरणी सुंदरी नाम ॥ १ ॥ अंगज पांच सोहामणा, पुत्री चतुरा चार ॥ पंमित पासे सीखवा, तातें मुंक्या कुंमार ॥२॥ बालस्वन्नावें रामतें, करतां दहाम्ा जाय ॥ पंमित मारे जादरे, मा आगल कहे आय ॥ ३ ॥ सुंदरी सुखिणी सीखवे, जणवानुं नही काम ॥ पांम्यो आवे तेम्वा, तो तस हणजो ताम ॥ ४ ॥ पाटी खम्यिा लेखणा, बाली कीधा राख ॥ शठने विद्या नवि रुचै, जेम करहाने ज्ञख ॥ ५ ॥ पाम्ा परे मोहोटा थया, कन्या न दीये कोय ॥ सेठ कहे सुण सुंदरी, ए तुऊ करणी जोय ॥ ६ ॥ त्रटकी न्नाखे न्नामिनी, बेटा बापना होय ॥ पुत्री होये मातनी, जाणे छै सहु कोय ॥ ७ ॥ रे रे पापणि सापणी, सामा बोल म बोल ॥ रीसाली कहे तादरो, पापी बाप निटोल ॥ ८ ॥ शेठें मारी सुंदरी, काल करी ततखेव ॥ ए तुऊ बेटी ज्ञपनी, ज्ञान विराधन हेव ॥ ए ॥ मुर्छागत गुणमंजरी, जातीसमरण पामि ॥ ज्ञान दिवाकर साचो, गुरुने कहे शिर नामि ॥ १० ॥ शेठ कहे सुणो स्वामी, केम जाये ए रोग, गुरु कहे ज्ञान आराधो, साधो वंछित योग ॥ ११ ॥ ज्ज्वल पंचमी सेवो, पंच वरस पंच मास ॥ नमो नाणस्स गणणुं गुणो, चोविहार ज्ञपवास ॥ १२ ॥ पूरब ज्त्तर सन्मुख, जपिये दोय हजार ॥ पुस्तक आगल ढोइये, धान्य फलादि ज्दार ॥१३॥ दीवो पंच दीवटतणो, साथियो मंगल गेह ॥ पोसहमान करी सके, तेण विधि पारण एह ॥ १४ ॥ अथवा सौन्नाग्यपंचमी, ज्जवल कार्तिक मास ॥ जावज्जीव लगे सेविये, ऊजमणा विधि खास ॥ १५ इति ॥

(॥ ढाल चोथी ॥ एकवीसानी देशीमां ॥)

पांच पोथी रे, ठवणी पाठा विटांगणा ॥ चावखी दोरा रे, पाटी पाटला वर तणा ॥ मसी कागल रे, कांबी खम्यिा लेखणी॥

कवली ऊबली रे, चंद्रुआ ऊरमा पूंजणी ॥ १ ॥ (त्रूटक) प्रासाद प्रतिमा तास जूषण, केसर चंदन ऊबली ॥ वासकूंपी वाला कूंची, अंगलूहणा गवऊी ॥ कलश थाली मंगलदीवो, आरती नें धूपणा ॥ चरवला मुंहपत्ती साहमी वञ्चल, नोकरवाली थापना ॥ ॥ २ ॥ (ढाल) ज्ञान दरिसण रे, चरणना साधन जे कह्या, तप संयुत रे, गुणमंजरीयें सद्दह्या ॥ नृप पूछे रे, वरदत्त कुंवरनें अंग रे ॥ रोग उपनो रे, कवण करमना जंग रे ॥ ३ ॥ (त्रूटक) मुनिराज जासै जंबुद्दीपें, जरत सिंहपुर गाम ए ॥ व्यवहारी वसु तास नंदन, वसुसार वसुदेव नाम ए ॥ वन मांहे रमतां दोय बंधव, पुण्य योगें गुरु मल्या ॥ वैराग्य पामी जोग वामी, धर्म धामी संवरया ॥ ४ ॥ (ढाल) लघु बांधव रे, गुणवंत गुरु पदवी लहै, पणसय मुनिने रे, सारण वारण नितु दिये ॥ कर्म योगे रे, अशुज उदय थयो अन्यदा, संथारे रे, पोरसी जणी पोढ्यो यदा ॥ ५ ॥ (त्रूटक) सर्वघाति निंद व्यापी, साधु मांगे वायणा ॥ ऊंघमां अंतराय थातां, सूरि हूआ दूमणा ॥ ज्ञान ऊपर द्वेष जाग्यो, लाग्यो मिथ्या जूतऊो ॥ पुण्य अमृत ढोली नांख्यो, जस्यो पापतणो घऊो ॥६ (ढाल) मन चिंतवे रे, कां मुऊ लागुं पाप रे ॥ श्रुत अज्यासो रे, तो एवऊो संताप रे ॥ मुऊ बांधव रे, जोयण खायण सुखें करे ॥ मूरखना रे, आठ गुणो मुख उच्चरे ॥ ७ ॥ (त्रूटक) वार वासर कोई मुनिने, वायणा दीधी नही ॥ अशुज ध्याने आयु पूरी, जूप तुऊ नंदन सही ॥ ज्ञान विराधन मूढ जऊपणुं, कोढनी वेदन लही ॥ वृद्ध बांधव मानसरवर, हंसगति पाम्यो सही ॥ ८ (ढाल) वरदत्तने रे, जातिस्मरण ऊपनो ॥ जव दीठो रे, गुरु प्रणमी कहे शुज मनो ॥ धन्य गुरुजी रे, ज्ञान जगत्त्रय दीवऊो ॥ गुण अवगुण रे, जासन जे जग परवऊो ॥ ए ॥ (त्रूटक)

ज्ञान पावन सिद्धि साधन, ज्ञान कहो किम आवके ॥ गुरु कहे तपथी पाप नासै, टाढ जेम घन तावके ॥ नूप पन्नणे पूत्रने प्रन्नु, तपनी शक्ति न एवको ॥ गुरु कहे पंचमी तप आराधो, संपदा ह्यो वेवकी ॥ १० ॥ इति ॥

(ढाल पांचमी ॥ मेंदी रंग लागो ॥ ए देशी ॥)

सद्गुरु वयण सुधारसे रे, नेदी साते धात ॥ तपसुं रंग लागो, गुणमंजरी वरदत्तनो रे, नाठो रोग मिथ्यात्व ॥ त० १ ॥ पंचमी तप महिमा घणो रे, पसर्यो महियल मांही ॥ त० ॥ कन्या सहस सयंवरा रे, वरदत्त परण्यो त्यांही ॥ त० ॥ २ ॥ नूपें कीधो पाट वी रे, आप थयो मुनि नूप ॥ त० ॥ नोम कांत गुणें करी रे, वर दत्त रवि शशिरूप ॥ त० ॥ ३ ॥ राज रमा रमणीतणा रे, नोगवे नोग अखंड ॥ त० ॥ वरसें२ ऊजवे रे, पंचमी तेज प्रचंड ॥ त० ॥ ४ ॥ नुक्तनोगी थयो संजमी रे, पाले व्रत खटकाय ॥ त० ॥ गुणमंजरी जिनचंद्रने रे, परणावे निज ताय ॥ त० ॥ ५ ॥ सुख विलसी थई साधवी रे, वैजयंते दोय देव ॥ त० ॥ वरदत्त पण ऊपनो रे, जिहां सीमंधर देव ॥ त० ॥ ६ ॥ अमरसेन राजा घरे रे, गुणवंत नारी पेट ॥ तप० ॥ लक्षण लक्षित रायने रे, पुण्यें कीधो नेट ॥ तप० ॥ ७ ॥ शूरसेन राजा थयो रे, सो कन्या न रतार ॥ त० ॥ सीमंधर सामी कने रे, सुणि पंचमी अधिकार ॥ त० ॥ ८ ॥ तिहां पण ते तप आदर्युं रे, लोक सहित नूपाल ॥ त० ॥ दश हजार वरसां लगे रे, पाले राज्य ऊदार ॥ त० ॥ ९ ॥ चार महाव्रत चुंपसुं रे, श्रीजिनवरनी पास ॥ त० ॥ केवल धरि मुक्ते गयो रे, सादिअनंत निवास ॥ त० ॥ १० ॥ रमणी विजय शु नापुरी रे, जंबुविदेह मफार ॥ त० ॥ अमरसिंह महीपालने रे, अमरावती घरनार ॥ त० ॥ ११ ॥ वैजयंत थकी चवी रे, गुणमं-

जरीनो जीव ॥ त० ॥ मानससर जेम हंसलो रे, नाम धर्युं सुग्रीव ॥ त० ॥ १२ ॥ वीसे वरसे राजवी रे, सहस चोरासी पूत्र ॥ त० ॥ लाख पूरव समता धरे रे, केवलज्ञान पवित्र ॥ त० ॥ १३ ॥ पंचमी तप महिमा विषे रे, न्नाषै निज अधिकार ॥ त० ॥ जेणे जेहथी शिवपद लह्युं रे, तेहनो तस उपकार ॥ त० ॥ १४ ॥ इति ॥

(ढाल छठ्ठी ॥ करकंडुने करुं वंदना ॥ ए देशी)

चोवीश दंमक वारवा, हूं वारी ॥ चोवीशमो जिनचंद रे, हूं वारी लाल ॥ प्रगट्यो प्राणतस्वर्गथी, हुं० ॥ त्रिसला उर सुखकंद रे ॥ हुं० १ ॥ माहावीरनें करुं वंदना, हुं० ॥ ए आंकणी ॥ पंचमी गतिनें साधवा, हुं० ॥ पंचम नाण विलाश रे, हुं० ॥ माहा निशीथ सिद्धांतमां, हुं० ॥ पंचमी तप प्रकाश रे, हुं० मा० २ ॥ अपराधी पण उधरयो, हुं० ॥ चंमकोसियो साप रे, हुं० ॥ यज्ञ करंता बांह्मणा, हुं० ॥ सरखा कीधा आपरे हुं० मा० ॥ ३ ॥ देवानंदा ब्राह्मणी, हुं० ॥ रिषन्नदत्त वली विप्रे, हुं० ॥ व्यासी दिवश संबंधथी, हुं० ॥ कामित पूरयो क्षिप्र रे ॥ हुं० मा० ४ ॥ कर्मरोगने टालवा, हुं० ॥ सवि औषधनो जाण रे, हुं० ॥ आदरयो में आसा धरी, हुं० ॥ मुज ऊपर हित आणि रे, ॥ हुं० मा ५ ॥ श्रीविजयसिंह सुरीसनो, हुं०, सत्यविजय पन्यास रे, हुं० ॥ शिष्य कपूरविजय कवि, हुं० ॥ चंद किरण जस जास रे, ॥ हुं० मा० ६ ॥ पास पंचासरा सान्निध्धे, हुं० ॥ खिमाविजय गुरु नाम रे, हुं० ॥ जिनविजय कहे मुज हजो, हुं० ॥ पंचमी तप परिणाम रे ॥ हुं० मा० ७ ॥ (कलश) इय वीर लायक विश्व नायक सिद्धिदायक संस्तव्यो, पंचमी तप संस्तवन टोडर गुंथी निज कंठे ठव्यो ॥ पुन्य पाटण खेत्र मांहे सत्तर त्राणुं संवत्सरे, श्रीपार्श्वे जन्मकल्याण दिवसें सकल न्नवि मंगल करे ॥ ८ ॥ इति

॥ अथ अष्टमीनुं स्तवन लिख्यते ॥

॥ हांरे मारे गाम धरमना साढापचवीश देश जो, दीपे रे त्या देस मगध सहुमां शिरे रे लो ॥ हांरे मारे नगरी तेहमां राजगृही सुविशेष जो, राजे रे त्यां श्रेणिक गाजे गज परे रे लो ॥१॥ हांरे मारे गाम नगर पुर पावन करता नाथ जो, विचरंता तिहां आवी वीर समोसरया रे लो ॥ हां० चउद सहस मुनिवरना साथे साथ जो, सूधा रे तप संयम शियले अलंकरया रे लो ॥ २ ॥ हां० फूल्या रसभर फूल्या अंब कदंब जो, जाणुं रे गुण शलिवन हसि रोमंचियो रे लो ॥ हां० वाया वाय सुवाय तिहां अविलंब जो, वासे रे परिमल चिहुं पासे संचियो रे लो ॥ ३ ॥ हां० देव चतुर्विध आवै कोडाकोड जो, त्रिगडुं रे मणि हेम रजतनुं ते रचे रे लो ॥ हां० चोसठ सुरपति सेवे होडाहोड जो, आगे रे रस लागे इंद्राणी नचे रे लो ॥ ४ ॥ हां० मणिमय हेम सिंहासण बेठा आप जो, ढाले रे सुर चामर मणिरतनें जड्या रे लो ॥ हां० सुणतां दुंदुभि नाद टले सवि ताप जो, वरसे रे सुर फूल सरस जानू अड्या रे लो ॥ ५ ॥ हां० ताजे तेजे गाजे घन जेम लूंब जो, राजे रे जिनराज समाजे धर्मने रे लो ॥ हां० निरखी हरखी आवे जन मन लूंब जो, पोषे रे रस न पडे धोखे भर्ममां रे लो ॥ ६ ॥ हां० आगम जाणी जिननो श्रेणिक राय जो, आव्यो रे परवरियो हय गय रथ पायगें रे लो ॥ हां० दइ प्रदक्षिणा वंदी बेगो गय जो, सुणवा रे जिनवाणी मोटे भायगे रे लो ॥ ७ ॥ हां० त्रिभूवननायक लायक तब भगवंत जो, आणी रंजन करुणा धर्मकथा कहे रे लो ॥ हां० सहज विरोध विसारी जगना जंत जो, सुणतां रे जिनवाणी मनमां गहगहे रे लो ॥ ८ ॥ इति ॥ (॥ ढाल बीजी ॥ वालम वहेला रे आवजो ॥ए देशी ॥)

वीर जिनवर एम उपदिसै, सांजलो चतुरसुजाण रे ॥ मोहनी नींदमां कां पमो, उलखो धर्मनां गण रे ॥ १ ॥ विरति ए सुमति धरी आदरो, (ए आंकणी) परिहरो विषय कषाय रे ॥ बापमा पंच परमादथी, कां पमो कुगतमां धाय रे ॥ वि० २ ॥ करी सको धर्म करणी सदा, तो करो ए उपदेश रे ॥ सर्व काले करी नवि सको, तो करो पर्व सुविशेष रे ॥ वि० ॥ ३ ॥ जूजूआ पर्व खटना कह्या, फल घणा आगमें जोय रे ॥ वचन अनुसारे आराधतां, सर्वथा सिद्धि फल होय रे ॥ वि० ॥ ४ ॥ जीवने आयु परजवतणुं, तिथिदिनें बंध होय प्राय रे ॥ तेह जणी एह आराधतां, प्राणिउं सद्गति जाय रे ॥ वि० ॥ ५ ॥ तेहवे अष्टमी फल तिहां, पूछे गौतमस्वामि रे ॥ जविक जीव जाणवा कारणे, कहे वीरप्रनु ताम रे ॥ वि० ॥ ६ ॥ अष्ट महासिद्धि होय एहथी, संपदा आठनी वृद्धि रे ॥ बुद्धिना आठ गुण संपजै, एहथी आठ गुण सिद्धि रे ॥ वि० ७ ॥ लान होय आठ पमिहारनो, अठ पवयण फल होय रे ॥ नाश अठ कर्मनो मूलथी, अष्टमीनुं फल जोय रे ॥ वि० ॥ ८ ॥ आदि जिन जन्म दीक्षातणो, अजितनो जन्म कल्याण रे ॥ च्यवन संजवतणो एह तिथें, अनिनंदन निर्वाण रे ॥ ॥ वि० ॥ ए ॥ सुमति सुव्रत नमि जनमीया, नेमनो मुक्ति दिन जाण रे ॥ पासजिन एह तिथें सिद्धा, सातमा जिन च्यवन माण रे ॥ वि० ॥ १० ॥ एह तिथि साधतो राजिउ, दंमवीरज लह्यो मुक्ति रे ॥ कर्म हणवा जणी अष्टमी, कहे सूत्र निर्युक्ति रे ॥ वि० ॥ ११ ॥ अतीत अनागत कालना, जिनतणा केइ केइ कल्याण रे ॥ एह तिथें वलि घणा संजमी, पामसे पद निर्वाण रे ॥ वि० ॥ १२ ॥ धर्म वाशित पशु पंखिआ, एह तिथें करे उपवास रे ॥ व्रतधारी जीव पोसो करै, जेहने धर्म अन्यास रे ॥ वि० ॥ १३ ॥

ज्ञांखियो वीरे आठमतणो, ज्ञविक हित एह अधिकार रे ॥ वि
मुखे ज्ञच्चरी प्राणिया, पामसे ज्ञवतणो पार रे ॥ वि० ॥ १४
एहथी संपदा सवि लहै, टले कष्टनी कोम्ह रे ॥ सेवजो शिष्य बु
प्रेमनो, कहे कांति कर जोम्ह रे ॥ वि० ॥ १५ ॥ (कलश) एः
त्रिजग ज्ञासन अचल शासन वर्द्धमान जिनेश्वरू, बुध प्रेम गुरु सु
पसाय पामी संथुण्यो अलवेसरू ॥ जिन गुण प्रसंगे ज्ञण्यो रंगे
स्तवन ए आठमतणो, जे ज्ञविक ज्ञावे सुणे गावै कांति सुख पावे
घणो ॥ १ ॥ इति अष्टमी वृद्ध स्तवन संपूर्ण ॥

॥ अथ एकादशी स्तवन लिख्यते ॥

॥ जगपति नायक नेमजिनंद, द्वारिकानगरी समोसरया ॥
जगपति वंदवा कृष्णनरिंद, जादव कोम्हिसुं परिवरया ॥ १ ॥ जग
पति धीगुण फूल अमूल, ज्ञक्तिगुणें माला रची ॥ जगपति पूजी
पूछै कृष्ण, क्षायिक समकित शिव रुचि ॥ २ ॥ जगपति चारित्र
धर्म अशक्त, रक्त आरंज्ञ परिग्रहे ॥ जगपति मुऊ आतम उद्धार,
कारण तुम विन कोण कहे ॥ ३ ॥ जगपति तुम सरिखो मुऊ
नाथ, माथे गाजे गुणनिलो ॥ जगपति कोय उपाय बताय,
जेम करे शिववधू कंतलो ॥ ४ ॥ नरपति उज्ज्वल मागशिर मास,
आराधो एकादशी ॥ नरपति एकशो ने पच्चाश, कल्याणक तिथि
उल्लसी ॥ ५ ॥ नरपति दश क्षेत्रे त्रिण काल, चोवीशी त्रीशे म
ली ॥ नरपति नेउ जिनना कल्याण, विवरी कहूं आगलि वली ॥
॥ ६ ॥ नरपति अर दीक्षा नमि नाण, मल्ली जन्म व्रत केवली ॥
नरपती वर्त्तमान चोवीशी, माहे कल्याणक आवली ॥ ७ ॥ नरप
ति मौनपणें उपवास, दोढसो जपमाला गणो ॥ नरपति मन वच
काय पवित्र, चरित्र सुणो सुव्रततणो ॥ ८ ॥ नरपति दाहिण धा
तकीखंम्ह, पश्चिम दिशि इक्षुकारथी ॥ नरपति विजय पाटण अ

निधान, साचो नृप प्रजापालथी ॥ ए ॥ नरपति नारी चंद्रावती तास, चंद्रमुखी गजगामिनी ॥ नरपति श्रेष्ठी शुर विख्यात, शीयल सलीला कामिंनी ॥ १० ॥ नरपति पुत्रादिक परिवार, सारे भूषण चीवर धरी ॥ नरपति जाये नित्य जिनगेह, नमन स्तवन पूजा करै ॥ ११ ॥ नरपति पोषै पात्र सुपात्र, सामायक पोषध करै ॥ नरपति देववंदन आवश्यक, काल वेलाये अणुसरे ॥ १२ ॥ इति (ढाल बीजी) एक दिन प्रणमी पाय, सुव्रत साधुतणा री ॥ विनयें वीनवे सेठ, मुनिवर करि करुणारी ॥ १ ॥ दाखो मुझ दिन एक, थोडो पुण्य कियो री ॥ वाधे जिम वडबीज, शुभ अनुबंधी थयो री ॥ २ ॥ मुनि भाषै महाभाग्य, पावन पर्व घणा री ॥ एकादशी सुविशेष, तेहमां सुण सुमना री ॥ ३ ॥ सित एकादशी सेव, मास इग्यार लगे री ॥ अथवा वरस इग्यार, उजवी तप शुभ वेगे री ॥ ४ ॥ सांभलि सद्गुरु वेण, आनंद अति उल्लस्यो री ॥ तप सेवी उजवीय, आरणस्वर्ग वस्यो री ॥ ५ ॥ एकवीश सागर आय, पाली पुन्यवसे री ॥ सांभल केशवराय, आगलि जेह थसे री ॥ ६ ॥ सोरीपुरमां सेठ, समृद्धदत्त वसे री ॥ प्रीतिमती प्रिया तास, पुण्यें जोग जड्यो री ॥ ७ ॥ तस कूखें अवतार, सूचित शुभ स्वप्ने री ॥ जनम्यो पुत्र पवित्र, उत्तम ग्रह शुकने री ॥ ८ ॥ नाल निक्षेप निधान, भूमिथी प्रगट हवो री ॥ गर्भ दोहद अनुभाव, सुव्रत नाम ठव्यो री ॥ ए ॥ बुद्धि उद्यम गुरु जोग, शास्त्र अनेक भण्यो री ॥ योवन वय अगियार, रूपवती परण्यो री ॥ ॥ १० ॥ जिनपूजन मुनिदान, सुव्रत पच्चरकाण धरे री ॥ अगियार कंचन कोड, नायक पुण्य भरे री ॥ ११ ॥ धर्मघोष अणगार, तिथि अधिकार कहे री ॥ सांभलि सुव्रतसेठ, जाती स्मरण लहे री ॥ १२ ॥ जिन प्रत्यग्र मुनि साख, भक्ते तप उच्चरे री ॥ एक

दशी दिन आठ, पहोरो पोसो धरे री ॥ १३ ॥ इति ॥ (ढाल त्रीजी) पत्नी संयुतें पोसह लीधो, सुव्रतशेठे अन्यदा जी ॥ अवसर जाणी तस्कर आव्या, घरमां धन लूंटे तदा जी ॥ १ ॥ शासनत्न के देवीशक्तें, थंन्नाणा ते वापमा जी ॥ कोलाहल सुणि कोटवाल आव्यो, नृप आगल धरया रांकमा जी ॥२॥ पोसह पारी देव जुहारी, दयावंत लेइ न्नेटणा जी ॥ रायने प्रणमी चोर मूंकावी, शेठे कीधा पारणा जी ॥ ३ ॥ अन्य दिवश विश्वानल लागो, सोरीपुरमां आकरो जी ॥ सेठजी पोसह समरस बैठा ॥ लोक कहे हठ कां करो-जी ॥ ४ ॥ पुण्यें हाट वखारो शेठनी, नगरी सहू प्रशंसा करे जी ॥ हरखे सेठजी तप ऊजमणुं, प्रेमदा साथे आदरे जी ॥ ॥ ५ ॥ पूत्रनें घरनो न्नार न्नलावी, संवेगी शिर सेहरो जी ॥ चउ नाणी विजय शेखर सूरी, पासे तपव्रत आदरे जी ॥ ६ ॥ एक खटमासी च्यार चोमाशी, दोलय ठठ सो अठम करे जी ॥ वीजा तप पिण बहुश्रुत सुव्रत; मौनएकादशी व्रत धरें जी ॥ ७॥ एक अधम सुर मिथ्यादृष्टि; देवता सुव्रतसाधुने जी ॥ पूर्वोपार्जित कर्म उदेरी, अंगे वधारे व्याधिनें जी ॥ ८॥ कर्मे नमियो पापे जमियो, सुर कहे जाउ औषधन्नणी जी॥ साधु न जाये रोष न्नराये, पाटु प्रहारें हणयो मुनि जी ॥९॥ मुनि मन वचन काय त्रियोगे, ध्यान अनल दहे कर्मनें जी ॥ केवल पामी जितपदरामी, सुव्रत नेम कहे श्यामनें जी ॥ १०॥ (ढाल चोथी) कान पयंपै नेमने ए, धन्य२ यादव वंश, जिहां प्रन्नु अवतरया ए ॥ मुफ मन मानस हंस, जयो जिन नेमने ए ॥ १ ॥ धन्य शिवादेवी मावमी ए, समुद्रविजय धन्य तात, सुजात जगतगुरु ए ॥ रत्नत्रयी अवदात ॥ ज० २ ॥ चरण विराधी ऊपनो ए, हुं नवमो वासुदेव ॥ जयो०॥ तिणे मन नवि उल्लसे ए, चरण धरमनी सेव ॥ जयो० ॥ ३ ॥

हाथी जेम कादव गळ्यो ए, जाणुं उपादेय हेय ॥ ज० ॥ तोपण हुं न करी सकुं ए, दुष्ट कर्मना जेय ॥ ज० ॥ ४ ॥ पण शरणो बलियातणो ए, कीजे सीझै काज ॥ ज० ॥ एहवा वचनने सांभली ए, बांह-ग्ह्यानी लाज ॥ जयो० ५ ॥ नेम कहे एकादशी ए, समकित युत आराध ॥ ज० ॥ थाईस जिनवर बारमो ए, आवी चोवीशीयें लाध ॥ जयो० ६ ॥ (कलश) इय नेम जिनवर नित्य पुरंदर रेवताचल मंडणो, बाण नंद मुनि चंद वरसे राजनगरे संथुण्यो ॥ संवेग रंग तरंग जलनिधि सत्यविजय गुरु अनुसरी, कपूरविजय कवि क्षमाविजय गणि, जिनविजय जयसिरी वरी ॥ १ इति ॥

अथ माहावीरस्वामीनुं हालरिउं प्रारंभ ॥

माता त्रिशला झुलावै पुत्र पालणें, गावे हालो हालो हालरुवानां गीत, सोना रूपानें वली रत्नें जडियुं पालणुं, रेसम दोरी घूघरी वागे छुमछुम रीत ॥ हालो हालो हालो हालो मारा नंदने ॥ १ ॥ जिनजी पार्श्वप्रभुथी वरस अढीशें अंतरे, होसे चोवीशमो तीर्थंकर जिन परमाण ॥ केशीस्वामी मुखथी एवी वाणी सांभली, साची साची हुइ ते मारे अमृतवाण ॥ हा० ॥ २ ॥ चौदे स्वप्ने होवै चक्री के जिनराज, बीता बारे चक्री नहि हुवे चक्रीराज ॥ जिनजी पास प्रभुना श्रीकेशी गणधार, तेहने वचनें जाण्या चोवीशमा जिनराज ॥ मारी कूखे आव्या तारण तरण जिहाज, मारी कूखें आव्या त्रण्य भुवन सिरताज ॥ मारी कूखें आव्या संघ तीरथनी लाज, हुंतो पुण्यपनोती इंद्राणी थई आज ॥ हा० ॥ ॥ ३ ॥ मुझनें मोहलो उपन्यो जे बेसुं गजअंबाडीयें, सिंहासण पर बेसुं चामर छत्र धराय ॥ ए सहु लक्षण मुझने नंदन ताहरा तेजनां, ते दिन संभारूनें आनंद अंग न माय ॥ हा० ॥ ४ ॥ कर-

तल पगतल लक्षण एक हजार नें आठ छै, तेहथी निश्चय जाएया जिनवर श्री जगदीश ॥ नंदन जमणो जंगें लंछन सिंह विराजतो, में पहले सुपनें दीठो विसवावीश ॥ हा० ॥ ५ ॥ नंदन नवला बंधव नंदीवर्द्धनना तमें, नंदन भोजाइयोना देवर छो सुकमाल, ह ससें भोजाइयो कहो देवर माहरा लाडका, हसशे रमशे नें वली चूंटी खणशे गाल ॥ हसशे रमशे नें वली ठुंसा देसे गाल ॥ हा० ॥ ६ ॥ नंदन नवला चेडाराजाना भाणेज छो, नंदन नवला पां- चसें मामीना भाणेज छो, नंदन मामलिआना भाणेजा सुकमाल ॥ हशशे हाथे उछाली कहीने नाहना भाणेजा, आंख्युं आंजीनें वली टवकुं करसे गाल ॥ हा० ॥ ७ ॥ नंदन मामा मामी लावशे टोपी आंगलां, रतनें जडिया झालर मोती कशबीकोर ॥ नीला पीला नें वलि राता सरवे जातिना, पहेरावशे मामी मारा नंदकि शोर ॥ हा० ॥ ८ ॥ नंदन मामा मामो सुखडलो सहु लावशे नंदन गजुवे भरसे लाडू मोतीचूर ॥ नंदन मुखडा जोईने लेशे मामी भामणा, नंदन मामी कहेशे जीवो सुख भरपूर ॥ हा० ॥ ॥ ए ॥ नंदन नवला चेडा मामानी साते सती, मारी भत्रीजी ने बैन तमारी नंद ॥ ते पण गूंफे भरवा लाखणलाई लावशे, तुमनें जोइ जोइ होशे अधिको परमानंद ॥ हा० ॥ १० ॥ रमवा काजे लावशे लाखटकानो घूघरो, वली शूडा मैना पोपट नें गजराज ॥ सारस हंस कोयल तीत्तर नें वलि मोरजी, मामी लावशें रमवा नंद तमारे काज ॥ हा० ॥ ११ ॥ छप्पन कुमरी अमरी जलकलशें नवरावीआ, नंदन तुमनें अमनें केली घरनी मांहि ॥ फूलनी वृष्टि कीधी योजन एकने मंडले, बहु चिरंजीवो आशीष दीधी तुमने त्यांहि ॥ हा० १२॥ तमनें मेरुगिरिवर सुरपतिये नव- राविआ, निरखी हरखी सुकृत लाभ कमाय ॥ मुखडा ऊपर वारुं

कोटी कोटी चंद्रमा, वली तन पर वारुं ग्रहगणनो समुदाय ॥ हा० १३ ॥ नंदन नवला जणवा नीशाले पण मूकशुं, गज पर अंबाडी बेसाडी मोहोटे साज ॥ पसली जरशुं श्रीफल फोफल नागरवेलशुं, सूखडली लेशुं नीशालीआने काज ॥ हा० १४ ॥ नंदन नवला मोहोटा थाशोने परणावशुं, वहु वर सरखी जोडी लावशुं राजकुमार ॥ सरखा वेवाई वेवाणूंने पधरावशुं, वर वहू पोंखी लेशुं जोइ जोईने दीदार ॥ हा० १५ ॥ पीयर सासर मा-रा बेउं पक्ष ऊजला, माहरी कूखे आव्या तात पनोता नंद, मा-हरे आंगण वूठा अमृत डुधे मेऊला ॥ माहरे आंगण फलिया सुरतरु सुखना कंद ॥ हा० १६ ॥ इणिपरे गायुं माता त्रिशला सुतनुं पालणुं, जे कोइ गाशे लेशे पूत्रतणा साम्राज ॥ बिलीमोरा नगरें वरणव्युं वीरनुं हालरुं, जय२ मंगल होजो दीपविजय कविराज ॥ हा० १७ ॥ इति पदं ॥

॥ अथ निंदावारक सिझाय ॥

निंदा म करजो कोइनी पारकी रे, निंदाना बोल्या महा पाप रे ॥ वयर विरोध वाधे घणो रे, निंदा करतां न गणे मायबाप रे ॥ निं १ ॥ डुर बलंती कां देखो तुम्हें रे, पगमां ब लती देखो सहु कोय रे ॥ परना मेलामें धोया लूगडां रे, कहो केम ऊजला होय रे ॥ निं० ॥ २ ॥ आप संज्ञालो सहुको आपणो रे, नींदानी मूंको परी टेव रे, ॥ थोडे घणे अवगुणे सहु जरया रे, के-हना नलिया चूए केहना नेव रे ॥ निं० ॥ ३ ॥ निंदा करे ते थाये नारकी रे, तप जप कीधुं सहु जाय रे ॥ निंदा करो तो कर-जो आपणी रे, जेम छूटकवारो थाय रे ॥ निं० ॥ ४ ॥ गुण ग्रह-जो सहुको तणो रे, जेहमां देखो एक विचार रे ॥ कृष्ण परे सुख पाम्शो रे, समयसुंदर सुखकार रे ॥ निं० ॥ ५ ॥ इति ॥

अथ देववांदवानो विधिः ॥

प्रथम इरियावही पडिक्कमवाथी मांडीनें यावत् लोगस्स कही पछी उत्तरासण करी चैत्यवंदन नमोत्थुणं कही अरधुं जयवीराय आभवमखंडा सूधी हाथ जोडी कहै, वली चैत्यवंदन कहीनें नमोत्थुणं कही यावत् चार थोयो कहीये छीये तिहां सूधी बधूं कहेवुं, पछी नमोत्थुणं कही वली च्यार थोयो कहीये त्यांसूधी बधूं कहेवुं, पछी नमोत्थुणं तथा बे जावंती कही स्तवन कही अरधुं जयवीअराय आभवमखंडा सूधी कही पछी चैत्यवंदन कही नमोत्थुणं कही आखो जयवीअराय कहेवो. इहां सवारे देववांदवा तेमां मन्ह जिणाणंनी सझाय कहेवी, अनें मध्यान्हें तथा सांझें देववांदवामां सझाय न कहेवी ॥ इति देववांदवानो विधिः ॥

॥ अथ ज्ञानविमलजी कृत चउमाशी देववंदन विधिः ॥

॥ प्रथम इरियावही पडिक्कमी काउसग्ग करी लोगस्स० कही एक खमासमण देइ इच्छाका० श्रीऋषभजिन आराधनार्थं चैत्यवंदन करुं, एम कही चैत्यवंदन करै ॥ (श्री आदिजिन चैत्यवंदन लिख्यते) ॥ प्रथम जिनेसर ऋषभदेव, सवठथी चविया ॥ वदि चउथें आषाढनी, शक्रे संस्तविया ॥ अठमी चैत्रह वदितणी, दिवसे प्रभु जाया ॥ दीक्षा पिण तिणहिज दिनें, चउ नाणी थाया ॥ फागुण वदि इग्यारसी ए, ज्ञान लहे शुभ ध्यान ॥ महा वदि तेरशे शिव लह्या, परमानंद निधान ॥ १ ॥ इहां नमोत्थुणं० अरिहंत चेइयाणं० वंदणवत्तिया कही एक नवकारनो काउसग्ग पारी मुझ क्रमथी कहिये ते लखिये छीये ॥ (॥ अथ थोय जोडो प्रारंभ ॥) ऋषभजिन सुहाया, श्री मरुदेवी माया, कनक वरण काया, मंगला जास जाया ॥ वृषभ लंछन पाया देव नर नारी गाया, पणसय धणु काया ते प्रभु ध्यान ध्याया ॥ १ ॥ ए तीरथ जाणी जिन

त्रेवीश उदार, एक नेम विना सवि समवसरया निरधार ॥ गिरि कडणें आया पोहता गढ गिरनार, चैत्रीपूनम दिनें ते वंदू जयकार ॥ २ ॥ ज्ञाताधर्मकथांगे अंतगड सूत्र मझार, सिद्धाचले सीधा घोव्या बहु अणगार ॥ ते माटे ए गिरि सवि तीरथ सिरदार जिन भेटे थावे सुख संपत्ति विस्तार ॥ ३ ॥ गौमुख चक्केसरी शासननी रखवाल, ए तीरथ केरी सांनिध करै संभाल ॥ गिरुओ जस महिमा संप्रति कालै जास ॥ श्री ज्ञानविमल सूरी नामें लील विलास ॥ ४ ॥ इति ॥ इहां नमोत्थुणं जावंती बे कही नमोऽर्हत्कही स्तवन कहेवुं ॥

॥ अथ आदिजिन स्तवन प्रारंभ ॥ ललनानी देशी ॥

आदिकरन अरिहंत जी, उलगडी अवधार ललना ॥ प्रथम जिनेसर प्रणमीयें, वंछित फल दातार ललना ॥ आदि करण अ० ॥ १ ॥ उपगारी अवनीतले, गुण अनंत भगवान ललना ॥ अविनाशी अकल कला, वरते अतिशय धाम ललना ॥ आ० ॥ २ ॥ गृहवासे पण जेहनें, अमृतफलनो आहार ललना ॥ ते अमृतफलनें लहे, ए जुगतुं निरधार ललना ॥ आ० ॥ ३ ॥ वंश इक्षाग छे जेहनो, चढतो रश सुविशेष ललना ॥ भरतादिक थया केवली, अनुभव फल रस देख ललना ॥ आ० ॥ ४ ॥ नाभिराय कुलमंडणों, मरुदेवी सर हंस ललना ॥ ऋषभदेव नित वंदिये, ज्ञानविमल अवतंस ललना ॥ आ० ॥ ५ ॥ इति श्री ऋषभजिन स्तवनं ॥ पछी जयवीअराय अर्धो कहेवुं, एक खमासमण देई इच्छा० श्री अजितनाथजी आराधनार्थं चैत्यवंदन करुं ॥

॥ अथ श्री अजितनाथ चैत्यवंदन ॥

शुदि वैशाखनी तेरशें, चविया विजयंत ॥ माह सुदि आठमें जनमिया, बीजा श्री अजित ॥ माह शुदि नवमें मुनि थया,

पोषी इग्यारस ॥ उज्वल उज्वल केवली, थया अकृय कृपारस ॥ वैशाख शुक्ल पंचमी दिने ए, पंचम गति लह्या जेह ॥ धीर विमल कविरायनो, नय प्रणमें धरी नेह ॥ २ ॥ इति ॥ पछी नमोत्थुणं अरिहंतचे० ॥ कही एक नवकारको काउसग्ग करके थुईनी गाथा कहै. इसी तरै सर्वत्र विधि करवी ॥ ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ अजित जिनपतीनो, देह कंचन जरीनो ॥ जविक जन नगीनो, जेहथी मोह लीनो ॥ हुं तुझ पद लीनो, जेम जल मांहे मीनो ॥ नवि होय ते दीनो, ताहरे ध्यान पीनो ॥ १ ॥ इति अजित थोय ॥ ॥ अथ श्री शंभवनाथ चैत्यवंदन ॥

सातम ग्रैवेयक थकी, चविया श्री शंभव ॥ फागुण सुदि आठम दिनें, शुदि चवदशी अभिनव ॥ १ ॥ मृगशिरमासें जनमीया, तणी पूनम संजम ॥ कार्त्तिक वदी पंचमी दिने, लहे केवल निरूपम ॥ २ ॥ पंचमी चैत्रनी ऊजली ए, शिव पोहता जिनराज ॥ ज्ञानविमल प्रभु प्रणमतां, सीझै सगला काज ॥ ३ ॥ इति चैत्यवंदन ॥ ॥ अथथोयप्रारभ्यते ॥ जिन शंभव वारू, लंछने अश्व धारू ॥ भवजलनिधि तारू, कामगद तीव्र दारू ॥ सुर तरुपरी वारू, दुसमाकाल मारू ॥ शिवसुखकिरतारू, तेहना ध्यान सारू ॥ १ ॥ इति थोय समास ॥ ॥ अथ श्री अभिनंदन चैत्यवंदन ॥ जयंतविमानथकी चव्या, अभिनंदनराया ॥ वैशाख सुदि चोथे माघ, सुदि बीजे जाया ॥ माहा शुदि बारशे अहिय दिख्य, पोष सुदि चउदश ॥ केवल शुदि वैशाखनी, आठमें शिवसुख रश ॥ चउथा जिनवरनें नमी ए, चउगति भ्रमण निवार ॥ ज्ञानविमल गणपति कहै, जिनगुणनो नही पार ॥ ३ ॥

॥ अथ स्तुति प्रारभ्यते ॥ ॥ अभिनंदन वंदो, साम्यमाकंद कंदो ॥ नृप संवरनंदो, घर्षिताशेष फंदो ॥ तमतिमिरदिणंदो, लंछने

वानरिंदो ॥ जस आगल मंदो, सौम्य गुण सारदिंदो ॥ १ ॥ इति थोय ॥ ॥ अथ श्रीसुमतिनाथ चैत्यवंदन ॥ श्रावण सुदि बीजे चव्या, मेहलीने जयंत ॥ पंचमीगति दायक नमुं, पंचम जिन सुमति ॥ शुदि वैशाखनी आठमें, जनम्या तिम संजम ॥ शुदि नवमी वैशाखनी, निरुपम जस शमदम ॥ चैत्र इग्यारश ऊजली ए, केवल पामे देव ॥ शिव पाम्या तिणें नवमियें, नय कहे करो तस सेव ॥ १ ॥ इति चैत्यवंदन ॥ ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ सुमति सुमति आपे, दुःखनी कोडि कापे ॥ सुमति सुजन व्यापे, बोधिनुं बीज व्यापे ॥ अविचलपद थापे, जाप दीप प्रतापे ॥ कुमति कदही नावें, जो प्रभुध्यान व्यापे ॥ १ ॥ इति थोय ॥ ॥ अथ श्रीपद्मप्रभु चैत्यवंदन ॥ नवम ग्रैवेयकथी चव्या, माहा वदि छठदिवसें ॥ कार्ती वदि बारसे जनम, सुरनर सवि हरखे ॥ वदि तेरस संजम ग्रहे, पद्मप्रभस्वामी ॥ चैत्रीपूनम केवली, वलि शिवगति पामी ॥ मृगशिर वदि इग्यारसें, रक्तकमल सम वान ॥ नयविमल जिन राजनुं, धरियै निरमल ध्यान ॥ १ ॥ ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ पद्मप्रभु सोहावे, चित्तमां नित्य आवे ॥ सुगति वधू मनावे, रक्त तनुं कांति फावे ॥ दुःख निकट नावे, संतती सौख्य पावे ॥ प्रभु गुणगण ध्यावे, अष्ट महासिद्धि थावे ॥१॥ अथ श्री सुपार्श्वजिन चैत्यवंदन ॥ छठा ग्रैवेयकथी चवी, जिनराज सुपास ॥ भादरवा वदि आठमें, अवतरिया खास ॥ जेठ शुक्ल बारसो जण्या, तस तेरसे संजम ॥ फागुण वदि छठे केवली, शिव लहे तस सत्तमि ॥ सत्तम जिनवर नामथी ए, साते इति समंत ॥ ज्ञानविमल सूरि नितु लहे, तेज प्रताप महंत ॥ १ ॥ ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ फले कामित आशे, नामथी दुःख नाशे ॥ म

हिम मदि प्रकाशे, सातमा श्रीसुपासें ॥ सुरनर जस दास, संप दानो निवाश ॥ गाय नवि गुणरास, जेहना धरी उल्लास ॥ १ ॥ इति ॥ ॥ अथ श्रीचंद्रप्रभ जिनचैत्यवंदन ॥ चंद्रप्रभ जिन आठमा, चंद्रप्रभ शम देह ॥ अवतरीया विजयंतथी, वदि पंचमी चैत्रेह ॥ पोष वदि बारसें जनमिया, तस तेरसे साध ॥ फागुण वदनी सातमें, केवल निराबाध ॥ भाद्रव सातम शिव लह्या ए, पूरी पूरण ध्यान ॥ अड महासिद्धि संपजे, नय कहै जिनअभिधान ॥ २

॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ ॥ शुभ नरगति पामी, उद्यमें धर्म धामी ॥ जिन नमो शिरनामी, चंद्रप्रभ नाम स्वामी ॥ मुझ अंतरजामी, जेहमां नहिय खामी ॥ शिवगति अनुगामी, ते दिन पुण्यें पामी ॥ १ ॥ इति ॥ ॥ अथ सुविधनाथचैत्यवंदन ॥ गोरा सुविधि जिणंद नाम, बीजुं पुष्फदंत ॥ फागुण वदि नवमें चव्या, महेली सुर आनंत ॥ मृगशिर वदि पंचमे जण्या, तस छठ दिक्षा ॥ काती शुदि त्रीजें केवली, दिये बहु परें शिक्षा ॥ शुदि नवमी भाद्रवा तणी ए, अजर अमर पद होय ॥ धीर विमल सेवक कहे, ए नमतां सुख होय ॥ १ ॥ इति ॥ ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ सुविधि जिन भदंत, नाम वलि पुष्फदंत ॥ सुमति तरुणि कंत, संतथी जेह संत ॥ कीयो कर्म अंत, लब्धि लीला वरंत ॥ भव जलधि तरंत, ते नमीजे महंत ॥ इति ॥ ॥ अथ श्रीशीतलनाथ चैत्यवंदन ॥ प्राणतकल्पथकी चव्या, शीतल जिन दशमा ॥ वदि वैशाखनी छठे, आणि दाघ ज्वर प्रशम्या ॥ माहा वदि बारस जनम दिख्या, तस बारसें लीध ॥ वदि पोष चवदश दिने, केवली पर सिद्ध ॥ वदि बीजै वैशाखनी एं, मोक्ष गया जिनराज ॥ ज्ञानविमल जिनराजथी, सीझे सगला काज ॥ १ ॥ इति ॥ ॥ अथ थोय

प्रारभ्यते ॥ ॥ सुण शीतल देवा, वालही तुझ सेवा ॥ जेम गज मन रेवा, तूंही देवाधिदेवा ॥ पर आणव देवा, शम है नित्य मेवा ॥ सुख सुगति लहेवा, हेतु दुःख खपेवा ॥ १ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीश्रेयांश जिनचैत्यवंदन ॥ ॥ अच्युतकल्पथकी चव्या, श्रेयांश जिनंद ॥ जेठ अंधारी दिवस छठे, करत बहु आनंद ॥ फागुण वदि बारसे, जनम दीक्षा तस तेरस ॥ केवली माह अमावशि, देशन चंदनरस ॥ वदि श्रावण त्रीजे लह्या ए, शिवसुख अक्षय अनंत ॥ सकल समीहित पूरणो, नय कहे ए भगवंत ॥ १ ॥ इति ॥ ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ सवि जिन अवतंस, जास इक्षागवंश ॥ विजित मदन कंश, शुद्ध चारित्र हंश ॥ कृतभय विध्वंश, तीर्थनाथ श्रेयांश ॥ वृषभ ककुद अंश, ते नमुं पुन्य वंश ॥ १ ॥ अथ श्रीवासुपूज्य चैत्यवंदन ॥ प्राणतथी इहां आविया, ज्येष्ट सुदी नवम ॥ जनम्या फागुण चौदशी, अमावशी संजम ॥ माह शुदि बीजे केवली, चौदशि आषाढी ॥ शुदि शिव पाम्या कर्म कष्ट, सवि दूरे काढी ॥ वासुपूज्य जिन बारमा ए, विद्रुमरंगे काय ॥ श्रीनयविमल कहे इसुं, जिन नमतां सुख थाय ॥ १ ॥

॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ वासुदेव नृप तात, श्रीजयादेवी मात ॥ अरुणकमल गात, महिष लंछन विख्यात ॥ जस गुण अवदात, शीत जाणें निवात ॥ होय नित सुख शात, ध्यावतां दिवस रात ॥ १ ॥ इति ॥ ॥ अथ विमलनाथ चैत्यवंदन ॥ ॥ अष्टम कल्पथकी चव्या, माधव सुदि बारस ॥ शुदि महा त्रीजें जण्या, तस चोथें व्रत रस, शुदि पोष छठें लह्या, वर निर्मल केवल ॥ वदि सातमि आषाढनी, पाम्या पद अविचल ॥ विमल जिणेसर वंदियें ए, ज्ञानविमल करी चित्त ॥ तेरसमो जिन नितु दिये, पुण्य परिघल वित्त ॥ १ ॥ इति ॥ ॥ अथ

थोय प्रारम्यते ॥ विमलश् आवे, वंदतां दुख जावै ॥ नव निधि घर आवै, विश्वमां मान पावै ॥ सुधर लंछन कावै, रोमि रस्वेद यावै ॥ नु विनति जणावै, स्वामिनुं ध्यान ध्यावै ॥ १ इति॥
॥ अथ श्रीअनंतनाथ चैत्यवंदन ॥ प्राणतथकी चविया इहां, श्रावण वदि सातम ॥ वैशाख वदि तेरसी, जनम्या चवदसें व्रत ॥ वदि वैशाखे चवदसि, केवल पुण्य पाम्या ॥ चैत्र शुदि पंचमी दिने, शिववनिता काम्या ॥ अनंत जिनेश्वर चउदमाए, कीधा दुष्मन अंत ॥ ज्ञानविमल कहे नामथी, तेज प्रताप अनंत ॥ १४॥
॥ अथ थोय प्रारम्यते ॥ अनंत जिन नमीजें, कर्मनी कोटि छीजे ॥ शिवसुख फल लीजें, सिद्धि लीला वरीजे ॥ बोधिबीज मोह दाजें, एटलुं काज कीजै ॥ सुफ मन अति रीझै, स्वामिनुं कार्य सीझ ॥ ॥ १ ॥ ॥ अथ धर्मनाथ जितचैत्यवंदन ॥ ॥ वैशाख सुदि सातमें, चविया श्रीधर्म ॥ विजयथकी माहमाशनी, शुदि त्रीजें जनम ॥ तेरसमाही ऊजली, लिये संजमभार ॥ पोषिपूनसें केवली, गुणना भंडार ॥ जेठी पांचम ऊजलीए, शिवपद पाम्या जेह ॥ नय कहे ए जिन प्रणमतां, वाधे धर्म सनेह ॥ १५ ॥
॥ अथ थोय प्रारम्यते ॥ धर्म जिनपतीनो, ध्यानरसमांह भीनो ॥ वररमण सचीनो, जेहने वर्ण लीनो ॥ त्रिभुवन सुख कीनो, लंछने वज्र दीनो, नवि होय ते दीनो, जेहने तूं वसीनो ॥ ॥ १ ॥ ॥ अथ श्री शांतिनाथ चैत्यवंदन ॥ भाद्रवा वदि सातम दिने, सवठथी चविया ॥ वदि तेरस जेठे जणया, दुःखदोहग शमीया ॥ जेठि चवदस वदि दिने, लीये संजम वेस ॥ केवल उजल पोसनी, नवमी दिन खेम ॥ पंचम चक्री परवडा ए सोलमा श्री जिनराज ॥ जेठ वदि तेरशें शिव लह्या, नय कहे सारो काज ॥ १६ ॥ ॥ अथ थोय प्रारम्यते ॥ जिनपति

जयकारी, पंचमो चक्रधारी ॥ त्रिभुवन सुखकारी, सूत जय ई वारी ॥ सहस चउसठि नारी, चउद रत्नाधिकारी ॥ जिन शांति जीतारी, मोहे हस्ति मृगारी ॥ १ ॥ शुभ केशर घोली, मांहे कपूर चोली ॥ पेहरी शीत पटोली, वासियें गंध धूली ॥ भरी पुष्प पटोली, टालीयें दुःख होली ॥ सवि जिनवर टोली, पूजीयें भाव भोली ॥ २ ॥ शुभ अंग इग्यार, तेम उपांग बार ॥ वलि मूल सूत्र चार, नंदी अनुयोगद्वार ॥ दश प्रयन्न उदार, छेद खट वृत्ति सार ॥ प्रवचन विस्तार, भाष्य निर्युक्ति सार ॥ ३ ॥ जय जय जय नंदा, जैन दृष्टी सुरिंदा ॥ करै परमानंदा, टालता दुःख धंदा ॥ ज्ञानविमल सूरिंदा, साम्य माकंदकंदा ॥ वर विमल गिरिंदा, ध्यानथी नित्य भद्दा ॥ ४ ॥ इति ॥ ॥ अथ स्तवन प्रारंभ ॥ मोतीभानी देशी ॥ सकल समीहित सुरतरुकंदा, शांतिकरण श्री शांतिजिणंदा ॥ साहिबा जिनराज हमारा, मोहना जिनराज हमारा ॥ सा० ॥ त्रिकरण शुद्ध चरण तुझ विलगो, पलक मात्र न रहुं हिव अलगो ॥ सा० ॥ १ ॥ विलगो ते अलगो केम जाशे, भंभ्यो पण तुम्हें नवि भंभाशे ॥ सा० ॥ प्रभु तुम्हे कोइशुं भेद न लावो, वीतराग कही सवि समभावो ॥ सा० ॥ २ ॥ बीजा अवर कहो एम समभे, पण गौरु दीधाथी रीभे ॥ सा० ॥ बालकना हठथी नवि चाले, जे मांगे ते मावित्र आले ॥ सा० ॥ ३ ॥ भक्ति खांची मनमांहे आण्यो, सहज स्वभावें पण में जाण्यो ॥ सा० ॥ माहरे एक प्रतिज्ञा साची, तुम पद सेवा अंके जाची ॥ सा० ॥ ४ ॥ कबजे आव्या तो छूटीजे, जेह मुंह मागे तेहिज दीजे ॥ सा० ॥ अभेदपणे जो मनमां मलशो, कबजेथी प्रभु तो नीकलशो ॥ सा० ॥ ५ ॥ अक्षयभाव निधी तुम पाश, आपी दासनें पूरो आश ॥ ज्ञानविमल समकित प्रभुताई, दीधी साहब एह व

माई ॥ सा० ॥ ६ ॥ इति पदं ॥ ॥ अथ श्रीकुंथुनाथ चैत्य-वंदनं ॥ श्रावण वदि नवमी दिने, सर्वार्थथी चविया ॥ वदि चवदश वैशाखनी, जिन कुंथु जणाया ॥ वदि पंचमी वैशाखनी, लीये संजमभार ॥ शुदि त्रीजे चैत्रहतणी, लहे केवल सार ॥ प ढिवा दिन वैशाखनी ए, पाम्या अविचल ठाण ॥ छठा चक्री जय करू, ज्ञानविमल सुखखाण ॥ १७॥ ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ जिन कुंथु दयाला, छाग लंछन सुहाला ॥ जश गुण शुभमाला, कंठे पेहरो विशाला ॥ नमति भवि त्रिकाला, मंगल श्रेणी माला ॥ त्रिभुवन तेजाला, ताहरे तेज माला ॥ १७ ॥ इति थोय ॥

॥ अथ श्रीअरनाथ चैत्यवंदन ॥ ॥ सरवारथथी आविया, फागुण शुदि बीजें ॥ मृगशिर शुदि दशमी जण्या, अरदेव नमी जे ॥ मृगशिर सुदि एकादशी, संजम आदरियो ॥ काती उज्जल बारसें, केवलगुण वरियो ॥ शुदि दशमी मृगशिरतणी ए, शिवपद लहे जिननाथ ॥ सातमचक्रीनें नमूं, नय कहे जोडी हाथ ॥ १८ ॥ ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ ॥ अरजिन ए जुहारुं, क र्मनो क्लेश वारूं ॥ अहनिश संभारूं, ताहरो नाम धारूं ॥ छत्त ज यजयकारुं, प्राप्त संसार सारुं ॥ नवि होय ते सारुं, आपणो आप तारूं ॥ १८ ॥ इति ॥ ॥ अथ श्रीमल्लिनाथ चैत्यवंदन ॥ चव्या जयंतविमानथी, फागुण शुदि चउथें ॥ मृगशिर सुदि इग्या रसें, जनम्या निर्ग्रंथे ॥ ज्ञान लह्या एकण दिनें, कल्याणक तीन ॥ फागुण शुदि बारसें, लहे शिव सदन अदीन ॥ मल्लि जिनेसर नीलडा ए, नगणीशमा जिनराज ॥ अणपरण्या अणभूपपद, भव जल तरण जिहाज ॥ १९ ॥ ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ जिन मल्ली महिला, वान छे जेह नीला, ए अचरज लीला, स्त्री पणें नाम पीला ॥ कुसम सवि पीढ्या, स्वामि जो छे रसीला ॥

अविचल सुखलीला, दीजिये मुज रंगीला ॥ १९ ॥ इति मल्लि स्तुति ॥ ॥ अथ मुनिसुव्रत जिनचैत्यवंदन ॥ अपरा जितथी आविया, श्रावण सुदि पूनम ॥ आठम जेठ अंधारडी, थयो सुव्रत जनम ॥ फागुण सुदि बारसें व्रत; वदि बारसें ज्ञान ॥ फागुणनी तेम जेठ नवमी, कृष्णै निर्वाण ॥ वर्ण श्याम गुण उजला, तिहुयण करे प्रकाश ॥ ज्ञानविमल जिनराजना, सुरनरनायक दास ॥ २ ॥ ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ मुनिसुव्रतस्वामी हुं नमूं शीश नामी, मुज अंतरजामी कामदाता अकामी ॥ दुःखदोहग वामी पुण्यथी शेव पामी, शम्या सर्वदारामी राज्यता पूर्ण पामी ॥ १ ॥ इति ॥ ॥ अथ श्रीनमिनाथचैत्यवंदन ॥ आशो सुदि पूनम दिने, प्राणतथी आया ॥ श्रावण वदि आठम दिने, नमीजिनवर जाया ॥ वदि नवमी आषाढनी, थया तिहां अणगार ॥ मृगशिर सुदि इग्यारसें, वर केवल धार ॥ वदि दशमी वैशाखनो ए, अक्षय अनंता सुक्ख ॥ नय कहे श्रीजिन नामथी, नाशे दोहग दुःक्ख ॥१॥ ॥ अथ थोय प्रारभ्यते॥ नमी जिनवर मानो, जेह नही विश्व छानो ॥ सुत वप्रा मानो, पुण्यकेरो खजानो ॥ कनककमल वानो, कुंज ठे जे कृपानो ॥ सवि भुवन प्रमानो, तेहशुं एक तानो ॥ २१ ॥ ॥ अथ श्रीनेमीनाथ चैत्यवंदन ॥ ॥ अपराजितथी आविया, कार्त्ती वदि बारस ॥ श्रावण शुदि पंचमी जणया, यादव अवतंस ॥ श्रावण सुदि छठे संजमी; आसोज अमावस नाण ॥ शुदि आषाढनी आठमें, शिवसुख लहे प्रमाण ॥ अरिठनेमी अणपरणीया ए, राजीमतीना कंत ॥ ज्ञानविमल गुण एहना, लोकोत्तर वृत्तंत ॥२२॥ इति ॥ ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ गया शस्त्रागारें, शंख निज हाथ धारे ॥ कियो शब्द प्रचारे, विश्व कंप्यो तिवारे ॥ ह

संशय धारे, एहनी कोइ सारे ॥ जयो नेमकुमारे, आजथी ब्रह्मचारे ॥ १ ॥ चार जंबुद्वीपे, विचरंता जिनदेव ॥ अड धातकीखंडे, सुरनर सारे सेव ॥ अड पुष्करअरधे, इणि परे वीश जिनेश ॥ सं प्रति ए सोहे, पंच विदेह निवेश ॥ २ ॥ प्रवचन प्रवहण शम, भ वजलनिधिने तारे ॥क्रोधादिक मोटा, मछतणा भय वारे ॥ जिहां जीव दयारस, सरस सुधारस दाख्यो ॥ भवि भाव धरीनें चित्त करीनें चाख्यो ॥३॥ जिनशाशन सानिध्य, कारी विघन विडारे ॥ समकित दृष्टी सुर, महिमा जास वधारे ॥ शेत्रुंजगिरि सेवो, जिम पामो भ व पार ॥ कवि धीरविमलनो, शिष्य कहे सुखकार ॥ ४ ॥ इति॥

॥ अथ स्तवन प्रारंभ ॥ ॥ रहो रहो रे यादव दो घडीयां, दो घडीयां दो चार घडीयां ॥ रहो रहो० ॥ मोज मदिरा ण शिवादेवी जाया, तुमें हो आधार अडवडियां ॥ रहो० १ ॥ नाह विवाह चाह करी आए, क्युं जावत फिर रथ चढियां ॥ रहो० २॥ पशुय पुकार सुणीय कीय करुणा, छोड दीए पशु पंखी चिडियां ॥ रहो० ३ ॥ गोद विछाउं में वली जाउं, करुं वीनती चरणे पडियां ॥ रहो० ४ ॥ पीयुं विन दीहा ते वरिस समोवड, न गमे स्वपनमें सेजडियां ॥ रहो० ५ ॥ विरह दिवानी विलपति जोवन, वाडी वन घर सेरडियां ॥ रहो० ६ ॥ अष्ट भवांतर नेह निभाव त, नवमें भव ते वीछडीया ॥ रहो० ७ ॥ सहसावनमांहे स्वामी सुणीने, राजुल रेवतगिर चढियां ॥ रहो० ८ ॥ पीयु करे निज शिरें हाथे देवा, व्रत चाखे चारित्र सेलडियां ॥ रहो० ए ॥ जादव वंश विभुषण नेमजी, राजुल मीठी वेलडियां ॥ रहो० १० ज्ञान विमल गुणे दंपती निरखत, हरखत होत मेरी आंखडीयां ॥ रहो० ११ इति पदं ॥

॥ अथ श्रीपार्श्वनाथ चैत्यवंदन ॥

॥ कृष्ण चोथ चैत्रहतणी, प्राणतथी आया ॥ पोष वदि दशमी ज-

नम, त्रिभुवन सुख पाया॥ पोष वदि इग्यारसें, लई मुनिवर पंथ॥ कमठासुर उपसर्गनो, टाल्यो पलीमंथ॥ चैत्र कृष्ण चोथह दिनें ए, ज्ञानविमल गुण नूर॥ श्रावण शुदि आठमें लह्या, अविचल सुख भरपूर॥२३॥इति॥ ॥अथ थोय प्रारभ्यते॥ जलधर अनुकारे, पुण्यवल्ली वधारे॥ कृत सुकृत संचारे, विघनने जे विदा रे॥ नवनिधि आगारे, कष्टनी कोडि वारे॥ मुझ प्राणाधारे, मात वामा मल्हारे॥ १ ॥ अर जनम सुहावे, वीर चारित्र पावे॥ अ नुभव लय लावै, केवलज्ञान पावै॥ षट् जे कल्याण, संप्रति जे प्रमाणे॥ सवि जिनवर भाण, श्रीनिवासाहि ठाण॥ २ ॥ दशवि धि आचार, ज्ञानना जिहां विचार॥ दश सत्त प्रकार, पच्चक्का णादि विचार॥ मुनि दश गुणधार, जे भथा जिहां उदार॥ ते प्रवचन सार, ज्ञानना जे आगार॥ ३ ॥ दश दिशी दिशिपाला, जे महा लोगपाला॥ सुरनर महिमाला, शुद्धदृष्टी कृपाला, नयवि मल विशाला, ज्ञान लच्छी मयाला॥ जय मंगलमाला, पास नामे सुखाला॥ ४ ॥ ॥अथ स्तवन प्रारंभ॥ ॥थारे मा थे पंचरंगी पाग सोनानो ठेगलो मारूजी॥ प्रभु पास जिनेसर भुवन दिनेसर संकरो, साहिबजी॥ लीला अलवेसर धीरममंदिर भूधरो॥ साहिबजी॥ तुं अगम अगोचर कृत शुचि सुंदर संवरो, सा०॥ पद नमित पुरंदर तनुछवि निरमल जलधरो॥ सा० १॥ तूं अकथ अरूपी ब्रह्म सरूपी ध्यानमां, सा०॥ ध्याये जे जोगी तुम गुण भोगी ज्ञानमां॥ सा०॥ व्यवहार प्रकाशी निश्चय वासी निजमतें, सा०॥ जिन आतम दरसी अमल अजेसी नयमतें॥ सा०. २॥ षट् दर्शन भासे युक्ति निरासें शासनें, सा०॥ स्याद्-वाद विशालें सहज समाजे भावने॥ सा०॥ तूं ज्ञाननें ज्ञानें आतमध्यानें आतमा, सा०॥ परमागम वेदी भेद अभेद नही त-

मा ॥ सा० ३ ॥ एक अनेके बहुत विवेके देखियें, सा० ॥ आतम तत्तकामी अगुण अकामी लेखिये ॥ सा० ॥ सवि गुण आरामी गें बहुनामी ध्यानमां, सा० ॥ आपे गतनामी अंतरजामी ज्ञानमा ॥ सा० ४ ॥ तूं अनियतचारी नियत विचारी योगमां, सा० ॥ अध्यातम सेली एम बहु फेली आगमें ॥ सा० ॥ तूं धर्म सन्यासी सहज विलासी समगुणें, सा० मोहारि विनाशी तूं जितकाशी कवि भणे ॥ सा० ५ ॥ ज्ञानदर्शनक्षायक गुणमणी लायक नाथ है, सा० ॥ दुर्गति दुःखघायक गुणनिधि दायक हाथ है ॥ सा० ॥ जित मनमथ सायक त्रिभुवन नायक रंजणो, सा० ॥ अनेकांती एकांती तूं वेदांती अगंजणो ॥ सा० ६ ॥ ध्यानानल योगें पुद्गल भोगें ते दह्या, सा०॥ अंतररिपु हणिया मूलथी खणिया न वि रह्या ॥ सा० ॥ तूं हेतू समीयो सुरवर नमीयो सहु कहे, सा० ॥ ए जगथी न्यारो चरित्र तुमारो कुण लहे ॥ सा० ७ ॥ इम तुम गुण थुणियें कर्मने हणिये पलकमां, सा० ॥ पण नवि अवगणियें सेवक गणिये ललकमां ॥ सा० ॥ वामाचे नंदा त्रिभुवन इंदा संथुणे, सा० ॥ ज्ञानविमल सूरिंदा तुम पय वंदा गुण भणे ॥ सा० ॥ ८ ॥ इति ॥ ॥ अथ श्रीवर्द्धमान जिनचैत्यवंदन ॥ शुदि आषाढ छठ दिवसें, प्राणतथी चविया ॥ तेरस चैत्रह शुदि दिने, त्रिसलायें जणिया ॥ मृगशिर वदि दशमी दिने, आपे संजम आराधै ॥ शुदि दशमी वैशाखनी, वर केवल साधै ॥ काती कृष्ण अमावशी ए, शिवगति करै उद्योत ॥ ज्ञानविमल गौतम लहै, पर्व दीपोत्सव होत ॥ २४ ॥ इति ॥ ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ लह्यो भवजल तीर, धर्म कोटीर हीर ॥ दुरति रज समीर, मोह मूसार सीर ॥ दुरित दहन नीर, माण ॥ कप्पें सग्ग कर पणसय धणु माणुं, सासय असास्य

मेरुथी अधिक धीर ॥ चरम श्रीजिनवीर, चरण कल्पद्रु कीर ॥ ॥ १ ॥ इम जिनवर माला, पुण्य नीर प्रवाला ॥ जगजंतु दयाला, धर्मनी शास्त्रशाला ॥ कृत सुकृत सुगाला, ज्ञानलीला विशाला ॥ सुरनर महिपाला, वंदता है त्रिकाला ॥ २ ॥ श्रीजिनवर वाणी, द्वादशांगी रचाणी ॥ सुगुण रयणखाणी, पुण्य पीयूष पाणी ॥ नवम रस रंगाणी, सिद्ध सुखनी नीसाणी ॥ दुह पीलण घाणी, सांभलो भाव जाणी ॥ ३ ॥ जिनमत रखवाला, जे वली लोगपाला ॥ समकित गुणवाला, देव देवी कृपाला ॥ करो मंगलमाला, टालीने मोहहाला ॥ सहज सुख रसाला, बोध दीजै विशाला ॥ ॥ ४ ॥ अथ स्तवन प्रारंभ ॥ आज गइ थी हुं समव सरणमें ॥ ए चाल ॥ वंदो वीर जिनेसरराया, त्रिशलामाता जाया जी ॥ हरि लंछन कंचन सम काया, मुझ मनमंदिर आया जी ॥ वंदो वी० ॥ १ ॥ दूषम समयें शासन जेहना, शीतल चंदन गाया जी ॥ जे सेवंता भविजन मधुकर, दिन२ होत सवाया जी ॥ वंदो० २ ॥ ते धन्य प्राणी सदगति जाणी, जस मनमां जिन आया जी ॥ वंदन पूजन सेवन कीधी, ते काजननी माया जी ॥ वंदो० ३ ॥ कर्म कठिन भेदन बलवत्तर, वीर विरुद जिन पाया जी ॥ एकलमल अतुलीबल अरिहा, दुसमन दुर गमाया जी ॥ वंदो० ४ ॥ वंछित पूरण, संकट चूरण, मातपिता तूं सदा या जी ॥ सिंहपरे चारित्र आराधी, सुजस निशान वजाया जी ॥ वंदो० ५ ॥ गुण अनंत भगवंत विराजै, वर्द्धमान जिनराया जी ॥ धीरविमल कवि सेवक नय कहै, शुद्ध समकित गुणदाया जी ॥ वंदो० ६ ॥ इति ॥ इहां पूरण जयवीयराय कहेवो ॥

॥अथ श्री शाश्वता अशाश्वता जिन चैत्यवंदन॥ सकल मंगलकार एही, सिद्ध सकल पय गण ॥ स्याद्वाद साधन पद एही,

अध्यातम गुणठाण ॥ १ ॥ (सही ए नमो जिणाणं) २ (ए आंकणी) बिहुंतेर लख्क सगकोमि जवणवई, सासय जिण हर माणं ॥ तेरशें नव्याशी कोमी, सगसठ बिंबह परिमाणं ॥ सही० ॥३॥ मेरु वैताढ्य वखारा कंचन, यमक कुंम इह जाणुं ॥ एकत्रीश ओगण्यासी जिनवर, मानवलोके वखाणुं ॥ स० ॥ ४ ॥ त्रिलख इक्याशी सहस चारसो, ब्यासी अधिक बिंब जाणुं ॥ रुचक कुंमल नंदीसर प्रमुखें, सुंदर अशी चेइयाणुं ॥ स० ॥५॥ अम शत सय सहस चालीसा, बिंबतणुं परिमाणं ॥ सरवाले बत्तीससें गुणसठी, तिर्यक्लोके चेइयाणं ॥ स० ॥ ६ ॥ प्रतिमा त्रण लख सहस एकाणुं, चउ सय तेवीस परिमाणं ॥ साठ चौवारा अवर त्रिवारा, रुचक कुंरू नंदी ठाणं ॥ स० ॥ ७ ॥ बार देवलोकें नव ग्रैवेयकें, अनुत्तर पंच विमाणं ॥ लाख चोराशी सहस सत्ताणुं, त्रेवीश चेइ जाणुं ॥ स० ॥ ८ ॥ एकसो बावन कोमि लख चोराणुं, सहस चमालीस आणुं ॥ सातशें साठ ऊपर उर्द्धलोकें, जिन पमिमा मन आणुं ॥ स० ॥ ए ॥ त्रिज्जुवनमांहे सासय जिनहर, सगवन्न लख बसें व्यासी ॥ आठ कोमि अथ प्रतिमा संख्या, सुणजो समकितवासी ॥ स० ॥ १० ॥ पन्नरशें कोमी, बेंतालीश कोमी, तेम अठावन्न लख्का ॥ बत्रीश सहस अशी वलि साधिक, सासयबिंबनी संख्या ॥ स० ॥ ११ ॥ एकसो वीश त्रिवारे प्रतिमा, चोमुखें शत चौवीश ॥ पांच सन्ना तिहां साठ वधारो, एकशत अशी जगीश ॥ स० ॥ १२ ॥ रुषज्ज चंड्रानन नें वर्द्धमान, वारिखेण चउ नामे ॥ व्यंतर ज्योतिषी मांहे असंख्या, जिनघर पमिमा माने ॥ स० ॥ १३ ॥ सकल सुरासुर ज्ञावना ज्ञावे, समकितगुण दीपावे ॥ परित्त संसार करी शिव जावे ॥ कुमति ते मन ज्ञावे ॥ स० ॥ १४ ॥ पाताले ने तिर्यक्लोके, पणसय धणु पमि

जाए ॥ स० ॥ १५ ॥ तीर्थ विशेष वली शासय विणु; सेत्रुंजादिक बहुला ॥ ते सविहूनें त्रिविधे नमतां, पातक जाये सगला ॥ स० ॥ १६ ॥ ज्ञानविमल प्रभु नाम जपंता, लहिये कोमि कल्या ए ॥ मनहं मनोरथ सगला सीझे, जनम सफल सुविहाण ॥ स० ॥ १७ ॥ भयहर भगवंताएं जयत्तुर, नमो जिणाणं सही ए ॥ नमो अविचल आदिगराणं, सही ए नमो अरिहंताएं ॥ सही० ॥ १८ ॥ इति श्री सर्व जिन नमस्कारः ॥ इहां एक लोगस्सको काउसग्ग चंदेसुनिम्मलयरा सूधी एक जण करे, ते काउसग्ग पारी पछी चार थोयो कहेवी ते लखिये छिये ॥

॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ रुषभदेव नमुं गुण निर्मला, उधमांहे जिम भेली सीतोपला ॥ विमल शीलतणा सिणगार छै, भवर मुझने चित्त रुचै ॥ १ ॥ जेह अनंत थया जिन केवली, जेह हवे विचरंता जे वली ॥ जेह असासय सासय त्रिहुं जगे, जिन पमिमा प्रणमुं नित्त झगमगे ॥ २ ॥ सरस आगम क्षीर महोदधी, त्रिपदी गंग तरंग करी वधी ॥ भविक देह सदा पावन करे, दुरित तापर जोमल अपहरे ॥ ३ ॥ जिनपशासन भासन कारिका, सुर सुरी जिनआणा धारिका ॥ ज्ञानविमल प्रभुतायें दीपता, दुरित दुष्टतणा भय जीपता ॥ ४ ॥ इति शाश्वत अशाश्वत जिनस्तुति ॥ ॥ अथ विधिः ॥ इहां एक जण मोटी शांति कहे (अने) बीजा सर्व काउसग्गमां सांभलै ॥ पछी सर्वे जण काउसग्ग पारीने प्रगट एक लोगस्स पूरो कहै ॥ पछी बेसीनें एकवीश नवकार प्रगटपणें सर्व जण गणे, पछी सर्वे जण मुखथकी आवी रीतें कहे--श्रीशेत्रुंजायनमः १ श्री पुंमरीकायनमः २ श्रीसिद्धक्षेत्रायनमः ३ श्रीविमलाचलायनमः ४ श्री सुरगिरयेनमः ५ श्रीमहागिरयेनमः ६ श्रीपुण्यराशयेनमः ७ श्री

पर्वतायनमः ८ श्रीपर्वतेंद्रायनमः ए श्रीमहातीर्थायनमः १० श्री शाश्वतायनमः ११ श्रीदृढशक्तयेनमः १२ श्रीमुक्तिनिलायनमः १३ श्रीपुष्पदंतायनमः १४ श्रीमहापद्मायनमः १५ श्रीपृथ्वीपीठाय नमः १६ श्रीसुरत्नगिरयेनमः १७ श्रीकैलाशगिरयेनमः १८ श्री पातालमूलायनमः १ए श्रीअकर्मकत्रेयनमः २० श्रीसर्वकामपूरणा यनमः २१ ॥ ए सिद्धगिरीना २१ नाम सर्वने सुखे प्रगट कहीने. हवे पांचतीर्थना पांच स्तवन कहवा ते लखिये छिये ॥

॥ प्रथम सिद्धगिरी स्तवन ॥ ॥ साहेलडीयानी देशी ॥

नीलडी रायणतरूतले, साहेलडियां ॥ पीलडा प्रभुजीना पाय, गुणमंजरीया ॥ ऊजले ध्याने ध्याइयें, सा० ॥ एहीज मुग ति उपाय ॥ गु० १ ॥ शीतली छायाये बेसीये, सा० ॥ रातडो करी मनरंग ॥ गु० ॥ नाही धोई निर्मल थई, सा० ॥ पहेरी व स्त्रादिक चंग ॥ गु० ॥ २ ॥ पूजीये सोवन फूलडे, सा० ॥ नेह धरीने एह ॥ गु० ॥ ते त्रीजे नवे शिव लहे, सा० ॥ थाये निर्म ल देह ॥ गु० ॥ ३ ॥ प्रीत धरी प्रदक्षणा, सा० ॥ दीए एहने जे सार ॥ गु० ॥ अनंग प्रीति होए जेहनें, सा० ॥ नवश तुम आ धार ॥ गु० ॥ ४ ॥ कुसुम पत्र फल मंजरे, सा० ॥ शाखा थड ने मूल ॥ गु० ॥ देवतणा वासाछे, सा० ॥ तीरथनें अनुकूल ॥ गु० ॥ ५ ॥ तीरथ ध्यान धरी मनें, सा० ॥ सेवो एहने उछाह ॥ गु० ॥ ज्ञानविमल गुरु नाखियो, सा० ॥ शत्रुंजा महातम्य मांहि ॥ गु० ॥ ६ ॥ इति श्रीसत्रुंजा स्तवनं ॥

॥ अथ श्रीगिरनारतीर्थ स्तवनं ॥

देसी कामनी होय के कामे व्यापियो, होला० कामें० ॥ ए चाल ॥नेम निरंजन देव के सेव सदा करूं, हो लाल के ॥ सेव०॥

अहनिश ताहरूं ध्यान के दिल मांहे धरूं हो लाल, दि० ॥ शंखे लंछन गुणखाण के अंजन वान छे हो लाल के अं० ॥ राजिमतीना कंत के परण्या विशुद्ध छे हो० प० ॥ १ ॥ तूंहीज जीवनप्राण के आतमराम छे हो० आ० ॥ माहरे परम आधार के ताहरूं नाम छे हो० ता० ॥ समुद्रविजयना नंदन नितु नितु वंदता हो० नि० ॥ कीजीये करुणावंत के कर्मनिकंदना हो० क० ॥ २ ॥ जोत्या मनमथ राज रही गढ उपरे हो० र० ॥ पहेरी शील सन्नाह उदास एसी धरे हो० उदा० ॥ सवि जिनवरमां स्वामि तुझे अधिकुं करयुं हो० तु० ॥ कुमरपणे धरी धीर महाव्रत उच्चरयुं हो० मा० ॥ ३ ॥ आठ भवांतर नेह जे तेह उवेखीनें हो० ते० ॥ करुणा कीधी केवल पशुवां देखीने हो० पशु० ॥ पूरण पाली प्रीत वली निज नारने हो० व० ॥ आपी संजमभार पहोंचाडी पारनें हो० पो० ॥ ४ ॥ जण जणशुं जे प्रीत करे ते जन घणा हो० करे० ॥ निरवाहे धरी नेह के ते विरला सुण्यां हो० ते वि० ॥ राजमतीनो कंत वखाणे कविजना हो व० ॥ तुझे तो दीधा छेह के तेहना थिर मना हो० ते० ॥ ५ ॥ जादवनाथ सनाथ करो मुझनें सदा हो० क० ॥ हित मुझ शिर हाथ होवे जम संपदा हो० हो० ॥ जलि२ मरे पतंग दीवाने मन नहीं हो० दो० ॥ नाणे मन असवार घोडो दोडे सही हो० घो० ॥ ६ ॥ सबला साथे प्रीत निबलनें नवि कही हो० नि० ॥ विण लागी जे थोडी किहां जाओ वही हो० कि० ॥ जे सज्जनशुं होय ते भीनन भंजीये हो० भी० ॥ तुमचा सुनि ज्यारे होए तो कर्मन भंजीये हो० क० ॥ ७ ॥ तो डुसमन होय दूर कोणे नवि गंजीये हो० को० ॥ प्राणाधार पवित्र के दरशन दीजीए हो० द० ॥ ज्ञानविमल सुख पूर मलीनें कीजीए हो दा० म० ॥

॥ ८ ॥ इति पदं ॥

॥ अथ श्रीआबूतीर्थ स्तवन ॥

॥ चालो चालोने राज गिरधर रमवा जइये ॥ ए चाल ॥

॥ आवो आवोनें राज श्रीअर्बुद गिरिवर जइये ॥ श्रीजिनवरनी भक्ति करीनें, आतम निर्मल थइये ॥ आवो० ॥ विमलवसीना प्रथम जिनेसर, मुख निरखे सुख पइयें ॥ चंपक केतकी प्रमुख कुसमवर, कंठे टोडर ठविये ॥ आ० ॥ १ ॥ जिमणें पासे लूणग वसही, श्रीनेमीसर नमिये ॥ राजीमतीवर नयणे निरखी, दुःख दो हग सवि गमियें ॥ आ० ॥ २॥ सिद्धाचल श्रीऋषभ जिनेसर, रैवत नेम समरिये ॥ अे दो वसीनी यात्रा करतां, बिहुं तीरथ चित्त धरिये ॥ आ० ३ ॥ मंडप मंडप विविधि कोरणी, निरखी हियडै ठरियै ॥ श्रीजिनवरना बिंब निहाली, नरभव सफलो करिये ॥ आ० ४ ॥ अचिचलगढ आदीश्वर प्रणमी, अशुभकरम सब हरिये ॥ पास शां ति निरखी जब नयणें, मन मोह्यो डुंगरीयें ॥ आ० ५ ॥ पाजे चढतां भजम बांधे, जेम घोडे पाखरीयें ॥ सकल जिनेसर पूजी केशर, पापमल सवि हरियें ॥ आ० ६ ॥ एकण ध्यानें प्रभुनें ध्यातां, मनमांहे नवि डरिये, ज्ञानविमल कहै प्रभु सुपसायें, सकल संघ सुख करियें ॥ आ० ७ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीअष्टापद गिरि स्तवनं ॥

॥ अष्टापदगिरि यात्रा करणकुं, रावण प्रतिहरी आया ॥ पुष्पक नामें विमाने बैशी, मंदोदरी सुहाया ॥ १॥ श्रीजिन पूजियें लाल, समकित निर्मल कीजै ॥ नयणे निरखी हो लाल, नरभव सफलो कीजे ॥ हीयडै हरखी लाल, समता संग करीजे ॥ (आंकणी) चउमुख चउगति हरण प्रशादं, चउवीशें जिन बैठा ॥ चउदिशि सिंहासन सम नाशा, पूरब दिशि दोय जिठा ॥ श्री० २

॥ संभव आदे दक्षिण चारे, पश्चिमे आठ सुपासा ॥ धर्म आदि उत्तरदिशि जाणो, एवं जिन चउवीशा ॥ श्री० ३ ॥ वैगा सिंहतणे आकारै, जिनहर भरते कीधा ॥ रयणबिंब मूरत थापीनें, जग जशवाद प्रसिद्धा ॥ श्री० ४ ॥ करे मंदोदरी राणी नाटक, रावण तांत बजावै ॥ मादल वीणा ताल तंबूरो, पगरव ठमठमकावै ॥ श्री० ५ ॥ भक्तिभावें एम नाटक करतां, तूटी तंत विचालै ॥ सांधी आप नसा निजकरली, लघुकलासुं ततकालें ॥ श्री० ६ ॥ द्रव्य भावशुं भक्ति न खंडी, तो अक्षयपद साध्युं ॥ समकित सुरतरु फल पामीनें, तीर्थंकर पद लाध्युं ॥ श्री० ७ ॥ इणि परें भविजन जे जिन आगें, बहुपरे भावनाभावें ॥ ज्ञानविमल गुण तेहना अहनिश, सुरनर नायक गावै ॥ श्री० ८ ॥ इति पदं ॥

॥ अथ श्रीसमेतसिखर स्तवनं ॥

॥ समेतसिखरगिरि भेटीये रे, मटवा भवना पास ॥ आतमसुख वरवा भणी रे, ए तीरथ गुण निवास रे ॥ भवियां सेवो तीरथ एह, समेतशिखर गुणगेह रे ॥ भवि० से० १ ॥ (आंकणी) समेतसिखर कलपें कह्यो रे, वीश टुंक अधिकार ॥ वीश तीर्थंकर शिव वस्या रे, बहु मुनिने परिवार रे ॥ भ० से० २ ॥ सिद्धक्षेत्र मांहे वस्या रे, भाखे नय व्यवहार ॥ निश्चय निज स्वरूपमांहे रे, दोय नय प्रभुजीना सार रे ॥ भ० से० ३ ॥ आगमवचन विचारतां रे, अति दुर्गम नय वाद ॥ वस्तु तत्व जिणे जाणिये रे, ते आगम स्याद्वाद रे ॥ भ० से० ४ ॥ जयरआयनणी परे, जात्रा करो मनरंग ॥ भवदुःखने देइ अंजली रे, थायें सिद्धवधूनो संग रे ॥ भ० से० ५ ॥ समकितयुत यात्रा करे रे, तो शिव हेतु थाय ॥ भवहेतु किरिया त्यागथी रे, आतमगुण प्रगटाय रे ॥ भ० से० ६ ॥ जेह समें समकित थयो रे, तेह समये होय नाश ॥ ज्ञान

विमल गुरु भाखियो रे, आवश्यकभाष्यनी वाण रे ॥ भ० से० ॥ ७ ॥ इति चौमाशी देववंदन विधि ॥

॥ अथ श्रीपर्युषणपर्व स्तुति ॥

॥ सत्तरभेदी जिन पूजा रचीनें, स्नात्र महोच्छव कीजै जी ॥ ढोल दमामा भेरी नफेरी, झल्लरि नाद सुणीजैजी ॥ वीरजिन आगल भावना भावी, मानवभव फल लीजै जी ॥ परव पजूसण पूरब पुन्यें, आव्या इम जाणीजैं जी ॥ १ ॥ मास पास वली द-शम डुवालश, चत्तारी अठ कीजै जी ॥ ऊपर वलि दश दोय क रीनें, जिन चौवीश पूजीजै जी ॥ वडाकल्पनो छठ करीनें, वीर-वखाण सुणीजे जी ॥ पडवानें दिन जन्म महोच्छव, धवल मंगल वरतीजै जी ॥ २ ॥ आठ दिवस लगे अमार पलावो, अठमनुं तप कीजै जो ॥ नागकेतुनी परे केवल लहियै, जो शुभ भावे रहिये जी ॥ तेलाधर दिन त्रण्य कल्याणक, गणधरवाद वदीजैं जी ॥ पास नेमीसर अंतर त्रीजे, ऋषभ चरित्र सुणीजैजो ॥ ३ ॥ बारशें सूत्र नें समाचारी, संवत्सरी पडिक्कमियें जी ॥ चैत्यप्र-वाडी विधिसुं कीजै, सकल जंतुनें खामीजै जो ॥ पारणानें दिन सामीवछल, कीजै अधिक वडाई जी ॥ मानविजय कहे सकल मनोरथ, पूरो देवी सिद्धाई जी ॥ ४ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री नेमनाथजीको बारामासो ॥

॥ सीयाले खाटू भली रे लाल ॥ ए चाल ॥ ॥ तोर-णथी रथ फेरीयो रे लाल, नीठुर नेमकुमार ॥ प्रेम विलूधी पद-मणी रे लाल, वीनवै राजुलनार ॥ हो रंगीला नेम सुण माहरी अरदाश ॥ १ ॥ सहीवांसुं राजुल कहे हो लाल, मगसिर नावो पीऊ ॥ प्रीतम विन हिव माहरो हो लाल, धीरज न धरे जीव ॥ हो० २ ॥ पोस महीनो आवियो हो लाल, आयो मो दुख देण ॥

नो सूरतने सांवला हो लाल, देखण तरसै नैण ॥ हो० ३ ॥ माहमहीने सी पडे हो लाल, प्रीउ संग पोढै नारी ॥ प्रीतम विण हूं एकली रे लाल, केम रहूं निरधार ॥ हो० ४ ॥ होली खेले हेतसुं हो लाल, फागुणमें नर नारी ॥ हुं किणसुं खेलूं हिवे हो लाल, पाश नही भरतार ॥ हो० ५ ॥ चेतमहीने चांदणी रे लाल, संजोगण सुख देण ॥ विरहणीनें वालम विना रे लाल, रोवत जावै रैण ॥ हो० ६ ॥ वनहरिया वैशाखमें रे लाल, सांजर रही महकाय ॥ अरज सुणो अबला तणी हो लाल, तपत मिटावो आय ॥ हो० ७ ॥ जेठ तपे लू आकरो हो लाल, दाझै कोमल गात ॥ ससनेही साहिब विना हो लाल, कुण पूछै सुख वात ॥ हो० ॥ ८ ॥ आसाढे कालो घटा हो लाल, झलमि आयो मेह ॥ कंत मिल्या निज नारसुं रे लाल, धरती मिलिया मेह ॥ हो० ॥ ए ॥ श्रावण चमके दामनी हो लाल, घन वरसे झरला-इ ॥ इण रुत सूनां एकली हो लाल, क्यूं कर रैण बिहाई ॥ हो० ॥ १० ॥ काली कालाहण मिली हो लाल, भाद्रवै वर खंत ॥ अरज सुणीनें साहिबा हो लाल, पूरो मो मन खंत ॥ हो०॥११॥ आसोजे आंसू झरै हो लाल, नाह विना निसदीश ॥ सार न पूछी साहिबे हो लाल, राखि रह्यो मन रीश ॥ हो० ॥ १२ ॥ काती दृढ वाली करी हो लाल, जाय मिली गिरनार ॥ देखी मुख निज नाहनो हो लाल, सफल गिणे अवतार ॥ हो० ॥ १३ ॥ संयम ले पिउ संहथे हो लाल, पामे भवनो पार ॥ इण पर पाले प्रीतमी हो लाल, धन २ ते नर नारि ॥ हो० ॥ १४ ॥ जे कीधी पशु ऊपरे हो लाल, मो पर करज्यो देव ॥ चंद भणो चो करि दया हो लाल, प्रभु चरणारी सेव ॥ हो० ॥ १५ ॥ इति श्रीनेम राजुल बारेमासो संपूर्ण ॥

॥ अथ आदिजिन आरती ॥

अपछरा करती आरती जिन आगे, हांरे जिन आगे रे जिन आगे, हांरे ए तो अविचल सुखडा मागे, हांरे नाभीनंदन पास ॥ ॥ अप० ॥ १ ॥ ताथेई नाटक नाचती पाय ठमकै, हांरे दोय चरणे झांझर झमकै ॥ हांरे सोवनना घूघरो घमके, हांरे लेती फुदरडी बाल ॥ अप० ॥ २ ॥ ताल मृदंग ने वांसली डफ वीणा, हांरे रूडा गावंती स्वर झीणा ॥ हांरे मधुर सुरासुर नयणां, हांरे जोती मुखडुं निहाल ॥ अप० ॥ ३ ॥ धन्य मरुदेवी मातनें प्रभु जाया, हांरे तोरी कंचनवरणी काया ॥ हांरे मे तो पूरव पून्यें पाया, हांरे तोरो देख्यो दीदार ॥ अ० ॥ ४ ॥ प्राणजीवन परमेश्वर प्रभु प्यारो, हांरे प्रभु सेवक हूं छुं तारो, हांरे भवोभवना दुखडा वारो, हांरे तुमे दीनदयाल ॥ अ० ॥ ५ ॥ सेवक जाणी आपणो चित्त धरजो, हांरे मोरी आपदा सघली हरजो ॥ हांरे मुनि माणक सुखिउं करजो, हांरे जाणी पोतानुं बाल ॥ अ० ॥६॥ इति ॥

॥ अथ नेम राजोमती सिझाय ॥ देशी उमादे भटीयाणीरी ॥

पहली तो समरूं हो सिद्ध बुद्धरी दाता सारदा, लागुं गुरां रे पाय ॥ प्रभुगुण गास्यां हो नेमीसर साहिब जिनतणा, सुभमत आपो मोरी माय ॥ १ ॥ सोरीपुरहुंतो हो नेमीसर साहिब थे चढ्या, जान करी याडाय ॥ हसतो तो सिणगारया हो नेमीसर साहिब थे भला, घोडलांरी गिणती न काय ॥ २ ॥ वाजा तो अधिका हो नेमीसर साहिब वाजता, आया तोरण बार ॥ महिल चढीने हो राजुल जोवे हरखसुं, मनमांहे हरख अपार ॥ ३ ॥ आंख फरुके हो सहेलो मारी जीमणी, फिरताइ दीसे छै भरतार ॥ वामो तो भरीयो हो नेमीसर साहिब जीवनो, पशुवाणी पुणी रे पुकार ॥ ४ ॥ झलो तो रथनें हो नेमीसर साहिब राखी-

यो, ए पशु बांध्या छै किण काज ॥ गोरो तो होसी हो नेमीसर साहिब तुमतणो, सारथी कहे छै महाराज ॥ ५ ॥ थोरा तो सुखनें हो इण राजुल नारीरे कारणें, होसी हो जीवानो संहार ॥ जीव बंध्याने हो नेमीसर साहिब छोडिया, जीव सवे तिण वार ॥ ६ ॥ अणपरणी राजुल हो नेमीसर साहिब छोडने, जाय चढया गिरनार ॥ आठे तो करमांसुं हो नेमीसर साहिब जीतवा, लीधो संजमभार ॥ ७ ॥ राजुल तो झूरे हो नेमीसर साहिब एकली. जल विन मछली जेम ॥ नव भवारो हो नेमीसर साहिब छोडनें, नेम विन जीवुं केम ॥ ८ ॥ सहियां तो समझावै हो राजुल दुःख मत करो, एतो कालो छै भरतार ॥ पाछे तो राजुल भाषै हो सहेली मारी थे सुणो, इण भव ए भरतार ॥ ए ॥ राजुल तो चाली हो नेमीसर साहिब वांदवा, साथे तो घणुं रे परिवार ॥ गिरनारे चढतां हो सब आगे पाछै नीकल्या, एकली रही छै राजुल नार ॥ १० ॥ मेहा तो वरस्या हो नेमीसर साहिब अतिघणा, भीज्या छै सबि सिणगार ॥ गुफा तो देखी हो राजुल नारी अति भली, चीर निचोवै राजुल नार ॥ ११ ॥ गहणा तो वाज्या हो राजुलनारीरे अंगना, घूघरना झणकार ॥ झणका तो सुणिया हो रहनेमी वैठे ध्यानमें, खोली छै पलक तिणवार ॥ १२ ॥ रूपे तो मोह्यो हो रहनेमी वैठो ध्यानमें, कहै सुंदर करो मोसुं प्यार ॥ बोली तो सुणकर हो राजुल अंग ढांकियो, मांने छोडी छै नेमभरतार ॥ १३ ॥ भोजन तो जीम्यो हो रहनेमी खीरखांडनो, उलटी करै नांखे तेम ॥ वेनें तो माणस हो रहनेम पाछो नही भखै, भखसी काग कुत्ता जेम ॥ १४ ॥ हूं तो माता हो रहनेम थारे सारखी, हुं वडा भाईनी नार ॥ पाय तो धरस्यो हो रहनेम माहरे ऊपरां, तो पडस्यो थे नरक मझार ॥ १५ ॥ एहवा तो व-

थने हो रहनेम राजुल पाए नम्यो, पाप खमावै वारंवार ॥ कपडा तो पहरया हो राजुलनारी आपणा, पुहती छै प्रभु दरबार ॥ १६ ॥ राजुल तो हरखे हो नेमीसर साहिब वांदिया, वांदीनें लीधो संजमभार ॥ केवल तो पामी हो नेमीसर साहिब निरमलो, पुहती छै मुगति मझार ॥ १७ ॥ केवल पामी हो नेमीसर साहिब आगलै, मिलिया छै मुगति मझार ॥ माणिक्य रंगे हो नेमीसर साहिब गाईयो, म्हारा आवागमण निवार ॥ १८ ॥ इति सिझाय संपूर्ण ॥

॥ अथ सिद्धपद वर्णन सिझाय ॥

श्रीगौतमस्वामी पूछा करे, विनय करी शीस नमाय प्रभूजी॥ अविचल थानक मैं सुण्यो, कृपा करी मोय बताय प्रभूजी ॥ शिवपुरनगर सोहामणुं ॥ १ ॥ आठ करम अलगा करी, सार्या आतम काज प्रभूजी ॥ छूटा संसारना दुख थकी, रहवानो किहां ठाम प्रभूजी ॥ शि० ॥ २ ॥ वीर कहे उर्द्ध लोकमां, सिद्धशिलातणो ठाम हो गोतम ॥ स्वरगपुरीने ऊपरे, तेहना बार नाम हो गोतम ॥ शि० ३ ॥ लाख पिस्तालीस जोजना, लांबी पोहली जाण हो गोतम ॥ आठ जोजन जाडी बिचै, बेहे माखीपंख माण हो गोतम ॥ शि० ४ ॥ ऊजला हार मोतीतणा, गोदुग्ध संख प्रमाण हो गोतम ॥ ते थकी ऊजली अतिघणी, उलटो छत्र संठाण हो गोतम ॥ शि० ५ ॥ अरजनस्वर्ण शम दीपती, घटारी मठारी जाण हो गोतम, फटकरतन थकी निरमली, सुंआली अत्यंत वखाण हो गोतम ॥ शि० ६ ॥ सिद्धशिला उलंघी गया, अधर रह्या सिद्धराज हो गोतम ॥ अलोकसुं जाई अड्या, सार्या आतकाज हो गोतम ॥ शि० ॥ ७ ॥ जनम नहीं मरण नहीं, नहीं जरा नहीं रोग हो गोतम ॥ वैरी नहीं मित्र नहीं, नहीं संजोग विजोग हो गोतम ॥ शि०

॥ ८ ॥ भूख नहीं तिरखा नही, हरख नहीं नहीं सोक हो गो॰ तम ॥ करम नहीं कांया नहीं, विषयारस नहीं योग हो गोतम ॥ शि० ए ॥ शब्द रूप रस गंध नही, फरस नहीं नही वेद हो गोतम ॥ बोले नही चाले नहीं, मोनपणूं नही खेद हो गोतम ॥ शि० १०॥ गाम नगर ए को नहीं, वसती नही ऊजाड हो गोतम ॥ काल तिहां वरते नहीं, नहीं रात दिवस तिथि वार हो गोतम ॥ शि० ११ ॥ राजा नहीं परजा नहीं, नही ठाकुर नहीं दास हो गोतम ॥ मुक्तिमें गुरु चेलो नहीं, नहीं लघु वडाई वास हो गोतम ॥ शि० १२ ॥ अनंता सुखमें झिलरह्या, अरूपी ज्योत प्रकाश हो गोतम ॥ सहु कोईनें सुख सारिखा, सगलानें अविचल राज हो गोतम ॥ शि० १३ ॥ अनंता सिद्ध मुगते गया, वली अनंता जाय हो गोतम ॥ अवर जग्या रूंधे नही, जोतमां जोत समाय हो गोतम ॥ शि० १४ ॥ केवलज्ञाने सहित छै, केवलदर्शन खास हो गोतम, क्षायकसमकित दीपता, कदय न होवे उदाश हो गोतम ॥ शि० १५ ॥ सिद्धस्वरूप जे ओलखे, आणी मन वैराग हो गोतम ॥ शिवरमणी वेगे वरी, नवि कहे सुख अथाग हो गोतम ॥ शि० १६ ॥ इति सिद्धिपद वर्णन सिझाय संपूर्ण ॥

॥ अथ नेमनाथजीरो सिलोको ॥

समरुं सारदनें गुणपते राणी, विघन टालो द्यो अविरल वाणी ॥ कहुं सिलोको नेमिनाथकेरो, जादववंस मांहे वडेरो ॥ १ ॥ नगरी सोरीपुर पृथ्वीमें दीपे, रिद्धे समृद्धे अलकानें जीपे ॥ राजा समुद्र विजे शिवादे राणी ॥ सीले रूपे कर अधिकी वखाणी ॥ २ ॥ तेहनोजी अंगज नेमजीनाथो, मुगतरमणसुं घाले छै बाथो ॥ आणंद घणें वसंत आयो, कुली बत्तीसें फाग जगायो ॥ ३ ॥ रमवाजा सारू चलिया गोपालो ॥ डफ चंग वाजे उडे गुलालो ॥ सुखमणा

शणी राधा सतभामा, बीजाही गोपी मिलर रामा ॥ ४ ॥ नेम-नाथजीरो व्याह मंमायो, कुमरी राजुलनो सगपण करायो ॥ राजानैं परजा अति सुख पायो ॥ ५ ॥ उग्रसेनराजा घरे वधाई, जादवरायरी जानज आई ॥ ढोलनैं वरघू सखरी सरणाई, भुंगलनै भेरी सखरी सझाई ॥ ६ ॥ ताल कंसाल कुहके करनाला, गोरी जी गावै गीत रसाला ॥ रथ वहलै वाजै घूघरमाला, मदझरता मैंगल झाकझमाला ॥ ७ ॥ इण विधसुं कुंवरी परणन आयो, ला भी राजीमती वेस वणायो ॥ मसतक मोती मांग भराई ॥ सीस फूलांरी ज्योत सवाई ॥ ८ ॥ सुविसाले भाले टीकोजी सोहै, अ णियाली आंष्यां काजल मोहै ॥ काने हंकोटा जमावकेरा, नकवे-सर मोती भलके भलेरा ॥ए॥ दाम्मिमकुलियां दांत दत्तीसे, वदनी बोलै सार छत्तीसै ॥ डुलमी तिलमी गल मोत्यांरी माला, कुच ऊपर कसिया कुंच रसाला ॥ १० ॥ चूमै नैं गहणें जाइ न वखाणी, रू पैकर गोरी जीपे इंद्राणी ॥ झांझरनैं नेवर घूघर घमकंती, हंसा तो जीपै सुंदर हालंती ॥११॥ हाथेजी पगे पोथीजी दीधी, सुधामे देही गर काव कीधी ॥ फाबंते कपमै सखियां वणाई, राजूल राखी नार न काई ॥ १२ ॥ मृगानैणी सोहै जोवनवालो, सारीखी सखियां ति ण विचालो ॥ इण विधसुं पदमण परणन आयो, मदसिरी रूपें मदन हरायो ॥ १३ ॥ मदमाता राता करता गहगाटो, कोमजी ग्यानैं जादव थाटो ॥ घणुं मछराला महा अभिमानी ॥ केसरिये वागै मिलिया छै जानी ॥ १४ ॥ डुरदंत कुंवर हरिवंस केरा, बीजाही जानी भूपति भलेरा ॥ धक्को मारे तो मेरु धूजामै, जातां कालनैं झाल पछमै ॥ १५ ॥ तिहां माहे नेमजी महाबलवंतो ॥ अनंता सुरपतिसुं जोर अनंतो ॥ तारागणमांहे शोभे जु चंदो, तिण विध मांहे नेमजिणंदो ॥ १६ ॥ तिण वेला देखी पसुअ डुमाया, अण-

परण्या नेमजी पाछाजी आया ॥ धिग२ संसार मायाजंजालो, जामणने मरण महा विकरालो ॥ १७ ॥ इण अनुक्रम नेमजी चारत लीधो, आपरो नाम अविचल कीधो ॥ नेमजी राजुल बाल ब्रह्मचारी, जिणरो शिलोको गावै नरनारी ॥ १८ ॥ इति श्रीनेम नाथजीरो सिलोको संपूर्ण ॥

॥ अथ चोढालिया प्रारंभ ॥

॥ विजयसेठ विजयासेठाणीका चोढालिया लिख्यते ॥

प्रह ऊठी रे पंच परमेष्ठि सदा नमूं, मनसूधे रे तेहने चरणे नित नमूं ॥ धुरि तेहने रे अरिहंत सिद्ध वखाणिये, आचारज रे उपाध्याय मन आणिये ॥ (उल्लालो) आणिये निज मन भाव सुद्धे, उपाध्याय नमूं वली ॥ जे पनरह करमभूमिमांहे, साधु प्रणमुं ते वली ॥ जिम कृष्णपक्ष नें शुक्ल पक्ष वलि शील पाल्यो ते सुणो, भरतारने स्त्री विन्हे तेहनो चरित भावेसुं भणो ॥ १ ॥ (ढाल) भरतक्षेत्रे रे समुद्र तीर दक्षिणदिसे, कच्छदेसै रे विजयसेठ श्रावक वसै, शीलव्रत रे अंधारापक्षनो लियो, बालापणे रे एहवो निश्चै मन कियो ॥ (उल्लालो) मन कियो एहवो तेण निश्चै पक्ष अंधारे पालस्युं, हुं शील निश्चै एह विरुद्ध विषय शेवा टालस्युं ॥ इकअठे सुंदर रूप विजया नाम कन्या ते वली, पिण शुक्ल पक्षनो शील लीधो सुगुरु जोगे मनरली ॥ २ ॥ (ढाल) कर्मजोगे रे मांहोमांहे विहुंतणो, शुभ दिवसे रे हुओ विवाह सुहामणो ॥ तब विजया रे सोले शृंगार भला करी, पिउमंदर रे पोहती मन उल्लट धरी ॥ (उल्लालो) मन धरी उल्लट अधिक पहुती पिया पासे सुंदरी, ते देखि हरखे सेठ बोलै शील निश्चो संभरी ॥ मुझ शील निश्चो पखअंधारे तेहना दिन तीन छै, ते नेम पालो शुक्ल पक्षे हुं भोग भोगविस्युं पछै ॥ ३ ॥ (चाल) इ[illegible] सांभल रे वि-

जया मन विलखी थई, पिउ पूछे रे किम चिंता तुझने जई ॥ तब विजया रे कहे शुक्लपक्ष व्रतमें लियो, व्रत चोथे रे बालापण निश्चो कियो ॥ (उल्लालो) बालपणेंमें कियो निश्चो शुक्लपक्ष व्रत पालस्युं, तो उजल पक्ष हिव शील पाली नियम दूषण टालस्युं ॥ तुम्हे अवर नारी परणने हिव शुक्लपक्ष सुख भोगवो, कृष्णपक्ष निज नियम पाली अभिग्रह इम जोगवो ॥ ४ ॥ (ढाल) तव वलतो रे तसु भरतार कहे इसो, विषधारस रे कालकुटविष हे तिसो ॥ ते दंपी रे शीलव्रत दोनुं पालस्यां, एह वार्त्तारे माता पिता न जणावस्यां ॥ (उल्लालो) मातपिता जव जाणस्ये तव दिख्य लेस्यां धर दया, इम अभिग्रह लेईनें ते भावचारित्रिया थया ॥ एकत्र सय्या सयन करतां खड्गधारा व्रत धरे, मन वचन काया करी सूधो शील वेउं आचरै ॥ ५ ॥ (ढाल २) विमल केवली एक, चंपा नयरीए, ततखिण आवी समोसर्‌या ए ॥ आणी अधिक विवेक, श्रावक जिणदास, कहै विनयगुण परि-वर्‌यो ए ॥६॥ सहस चोरासी साधु, मुझ घर पारणो, करै मनो-रथ तो फलै ए ॥ केवल ज्ञान अगाध, कहे श्रावक सुणो, एह वात तो नवि मिलै ए ॥ ७ ॥ किहा एतला अणगार, किहां वलि सूझतो, भातपाणी नहिं एतलो ए ॥ तो हिव तेह विचार, करो तुम्हे जिम तिम, फल अम्ह हुवै तेतलो ए ॥ ८ ॥ अछै हिवे कछ-देश, सेठ विजय वली, विजया भार्या तसु घरै ए ॥ भावयती ग्रहवास, तेहनें भोजन, दीधां फल हुवे तेतलो ए ॥ ए ॥ जिण दास कहै भगवंत, ते मांहे एतला, कुण गुण कुण व्रत छै घणा ए ॥ केवली कहै अनंत, गुण तसु शीलना, कृष्ण शुक्लपक्ष व्रतत णा ए ॥१०॥ ॥ ढाल ३ ॥ दान कहै जग हूं वडो ए ॥ देशी ॥ केवलीनें मुख सांभली, श्रावक ते जिनदास रे ॥ कछदेसें हिव

आवियो, पूरे निज मन आस रे ॥ ११ ॥ धन२ शील सुहामणो, शील शमो नही कोय रे ॥ शीलै देव सानिध करै, शीलथी शिव सुख होई रे ॥ ध० ॥१२॥ सेठ विजय विजयाभणी, भगतसुं भोजन देई रे ॥ सहस चोरासी साधुना, पारणानो फल लेई रे ॥ ॥ ध० ॥ १३ ॥ मातपिता पूछै तेहनें, एहनो शील वखाण रे ॥ केवलीने मुख जिम सुण्यो, तिम कहै तेह गुणजाण रे ॥ ध० ॥ ॥ १४ ॥ सहस चोरासी साधुनें, पारणो दीये कोइ भाय रे ॥ कृष्ण शुक्लपक्ष दंपती, भोजननो फल थाय रे ॥ ध० ॥ १५ ॥ मातपिता जब जाणियो, प्रगट हूवो संबंध रे ॥ सेठ विजय विजया लियो, चारित्र अप्रतिबंधो रे ॥ ध० ॥ १६ ॥ ॥ ढाल ४ ॥ केवलीनें पासे, चारित्र लेइ उदार ॥ मनममता मूंकी, पालै निरतीचार ॥ १७ ॥ आठ करम खपावी, पाम्यो केवल ज्ञान ॥ ते मुगते पहुंता, दंपत्ती सुगुण सुजाण ॥ १८ ॥ तेहना गुण गावै, भावे जे नर नार ॥ ते वंछित सुख लहै, पहुंचै भवनें पार ॥१९॥ ॥ कलश ॥ इम कृष्णपक्ष नें शुक्लपक्षें शील पाल्यो निरमलो, ते दंपतीना भाव शुद्धें सदा शुभगुण सांभलो ॥ जिम दुरिय दोहग दूर जाये सुक्ख आये बहु परे, वलि सकल मंगल मनह वंछत कुशल नित घर अवतरे ॥ २० ॥ इति शील चोढालिया संपूर्ण ॥

॥ अथ इखुकारराजा भृगप्रोहित चोढालिया लिख्यते ॥

महिलांमे बैठी राणी कमलावती, झीणी तो उडै मारग खेह ॥ जोवै तमासो इखुकार नगरमें, कौत्तक उपनो मनमें एह ॥ सांभल रे दासी आज नगरमें वहदो किम घणो ॥ १ ॥ कांतो परधान सखी झंझीया, कां केइ लूंट्या राजा गांव ॥ कां कोइ गारूयो धन नीसरयो, गारुा रह्या छै गामो गाम ॥ सां० ॥ आ० ॥ ॥ २ ॥ नातो परधान बाईजी झंझिया, ना कोई राजा लूंट्या

गांव ॥ भग्गपुरोहित धन तज नीसरयो, राजारे धन लेवा चाव ॥ सांभल हे राणी हुकम करो तो कोइ गाभो इहां धरां ॥ ३ ॥ बेटां तो तिणारा संजम लियो, वरज्यो घणेंाही पितामात ॥ ते पिण चारित्र लेवा ऊमह्या, भग्गू जसा तिणें मोह ललचात ॥ सांभल हे रा० ॥ ४ ॥ इन सुण कमलावतीराणी इम कहे, इहां तो कमी नहीं काय ॥ सांभलनें राणी माथो धूणीयो, राजारी म मता नही ठाय ॥ सा० दासी राजानें ए वाता जुगती नही ॥ ५ ॥ महिलांसूं राणी कमलावती, आई छै राजारे हजूर ॥ वचन कहे राजानें आकरा, जाणे पोरस चढियो छोलै सूर ॥ सां० हो राजा ब्राह्मण छोडी ऋद्धि क्यूं आदरो ॥ ६ ॥ करजोडी कमला कहै, सां भल कंत सुज़ान ॥ ब्राह्मण जे ऋद्धि परिहरि, ते तो घर आंहे म त आण ॥ सांभल हो राजा० ७॥ ए ऋद्धिसुं अपणे कांइ घणो हुसी, राजारा मोटा छै भाग ॥ वमियें आहाररी वांछा कुण करै, कै कुतरा कै काग ॥ सांभल हो रा० ८ ॥ वमियो आहार पीछो नर भखै, नही परसंसवा जोग ॥ भग्गूप्रोहित ऋद्धि तज नोसरयो, थे जाणयो छै असी म्हारे भोग ॥ सां० राजा० ॥ ९ ॥ संकलपियोडो पाछो किम लियै, सांभल हो महाराज ॥ दान दियो थे पहिलां हाथसुं, ते पूठो लेतां नावै थांने लाज ॥ सांभल रा० १० ॥ निश्चे तो मरणो राजाएक दिने, छोडीनें काम विशेष ॥बीजो तो जगमें सरणो को नही, तारै जिनजीरो धर्म एक ॥ सांभलहो रा० ११ ॥ सगलै जगतरो धन भेलो करी, थे घालो भंडारारे मांहि ॥ तोपिण त्रसना राजा पापणी, त्रिपत न मनरो थाय ॥ सान्भल हो राजा० १२ ॥ सांभलनें इखुकारराजा बोलीयो, तूं आपैनी वचन संभाल ॥ का तनें राणी झोलो वाजियो, का काई कीधी मतवाल ॥ सांभल हो राणी राजानें करडा वचन

न बोलीयै ॥ १३ ॥ नातो राजाजी छोलो वाजीयो, ना कोइ कीधी मतवाल ॥ ब्राह्मणरो वमियो धन थे आदरो, वरजण आई हो नृपाल ॥ सांभल हो रा० १४ ॥ वलतो राजा राणीने इम कहै, इसरूी वैरागण थाय ॥ अजूं तो निजरां आवै नही, तूं बैठो छै घर मांय ॥ सांभल हे राणी० १५ ॥ नखरवाली तो दीसे नही, इसरूी आई छै मतवाल ॥ हुंतो घर छोडीने नीसरी, थे पिण छोडो हो नृपाल ॥ सांभल हो राजा आग्या देवो तो संजम आदरुं ॥१६॥ रतन जडतरो राजा पिंजरो, तिणमें सुवटियो पडियो फंद ॥ इण रीते हूं थांरे राजमें, रहिनें पांमु आणंद ॥ सांभल हो राजा आग्या० १७ ॥ सनेहरूपीया तांतण तोडनें, आरंभ धनसुं रहस्यां दूर ॥ विरकत थई मौनपणें रह्या, थे पिण होयज्यो सूर ॥ सां० रा० आ० १८ ॥ दव तो लागी हो राजा वन मझै, हिरण ससा बले मांय ॥ गिरधपंखी ज्युं आमिष देखनें, मनमांहे हरखित थाय ॥ सां० रा० राग द्वेषरा भागा लग रह्या १९ ॥ मांहोमांहि खेधोईसको, दश प्राण रहित कीधो काल ॥ दुस्मन तो मनमें हरख पाम्यो घणो, जाणे ते माहरो मिटियो साल ॥ सां० राजा राग द्वे० २० ॥ इण दृष्टांते लोभी मूरख थका, मुरछ रह्या भोगमांहि ॥ पहिलाने दुखियो देखी चेते नही, लागी राग द्वेषरी लाय ॥ सांभल हो राजा रा० २१ ॥ मांसरी बोटी पंखीरी चांचमें, नर पासै पंखी पडियो आय ॥ आमिष सम भोग छोडनें, चारित्र लेस्यां चित लाय ॥ सांभल रे प्राणी संयमथी सुख पामियै २२ ॥ महल पिलंगादिक अथिर छै, ते पाम्या छे आपणे हाथ ॥ कामभोगमें रकत होय रह्या, ते तज होय सांनाथ ॥ सांभलरे प्रा० २३ ॥ पांचे इंद्रीयारा भोग छोडने, द्रव्य भावे हलक थाय ॥ सहज वायु पंखीनी परें, विचरस्यां आपणी दाय ॥

सांभल रे प्रा० २४ ॥ गिरधपंखी ज्युं भोग जाणज्यो, ए काम बधारै संसार ॥ साप ज्युं मोर थकी डरतो रहै, ज्युं पापसुं संकस्यां इण वार ॥ सांभल रे प्रा० २५ ॥ शोक तजी संतोषसुं, लेस्यां संयमभार ॥ ममता तजी समता ग्रहो, करस्यां उग्र विहार ॥ सांभल रे प्रा० २६ ॥ तन धन जोबन कारमो, चंचल वीज समान ॥ खिण २ खूटै आउखो, मूरख करै रे गुमान ॥ सांभल रे प्रा० २७ ॥ हस्ती ज्युं बंधण तोडनैं, आपे वन सुखे जाय ॥ करमबंध तूटै संयम लियां, सुणो कहुं हुं महाराय ॥ सांभल हो रा० सं० २८ ॥ इम सुणनैं इखुकारराजा चैतियो, छोडीनैं मोटको राज ॥ कायरनैं तो ए तजतां दोहिलो, विप्र सहित सारयां काज ॥ सांभल हो राणी सं० ॥ २९ ॥ मोह न राख्यो परिग्रह ऊपरै, पायो जिनधरम सुजाण ॥ तपस्या सगलांही आदरी, उत्कृष्टो पराक्रम आण ॥ ॥ सां० प्रा० सं० ॥ ३० ॥ सुध संयम पालै सदा, सुमति गुपति दयाल ॥ भमरानी परै करै गोचरी, रिषि टालै दोष बयाल ॥ सां० प्रा० सं० ॥ ३१ ॥ तारण तरण जिहाज छै, भव्यजीवनैं उतारे पार ॥ केवलज्ञान उपायनैं, सुख पाम्या श्रीकार ॥ सां० प्रा० सं० ॥ ३२ ॥ मोह निवारी प्राणी समझनैं, निरमल भावना भाव ॥ छए जणा थोडा कालमैं, सुगति विराज्या जाय ॥ सां० प्रा० सं० ॥ ॥ ३३ ॥ राजा सहित राणी कमलावती, भृगुपुरोहित जसा नार ॥ भृगुप्रोहितना दोय दीकरा, शिवसुख पाम्यो सार ॥ सां० प्रा० सं० ॥ ३४ ॥ इति इखुकार राजा भृगुप्रोहित अधिकार संपूर्ण ॥

॥ अथ दान शील तप भाव चोढालियो लिख्यते ॥

॥ दुहा ॥ प्रथम जिनेसर पाय नमी, पामी सुगुरु प्रशाद ॥ दान शील तप भावना, बोलिस बहु संवाद ॥ १ ॥ वीरजिनंद समोसरयां राजगृही उद्यान ॥ समवसरण देवैं रच्यो, बैठा श्रीवर्द्धमान ॥ २ ॥

बैठी बारे परखदा, सुणवा जिणवर वाण, दान कहे प्रनु हुं वमो, मुऊने प्रथम वखाण ॥ ३ ॥ सांनलजो सहुको तुमें, कुण छै मुऊ समान ॥ अरिहंत दीक्षा अवसरे, आपे पहिलुं दान ॥ ४ ॥ प्रथम पहुर दातारनो, ले सहु कोइ नाम ॥ दीवारी देवल चढै, सीधे वंछित काम ॥ ५ ॥ तीर्थंकरनें पारणे, कुण करस्यै मुऊ होम ॥ वृष्टि करुं सोनातणी, साढीबारे कोमि ॥ ६ ॥ हुं जग सगलो वस करूं, मुऊ मोटी छै वात ॥ कुण२ दानथकी तिरया, ते सुणज्यो अवदात ॥ ७ ॥ ॥ ढाल ॥ १ ॥ ललनाकी देशी ॥ धनसारथवाह साधुनें, दीधुं घृतनो दान ललना ॥ तीर्थंकर पद मैं दियो, तिणें मुऊनें अनिमान ललना ॥ १ ॥ दान कहै जग हूं वमो, मुऊ सरिखुं नहि कोय ललना ॥ ऋद्धि समृद्धि सुख संपदा, दाने दोलत होय ललना ॥ दा० ॥ २ ॥ सुमुख नाम गाथापती, पमिलान्यो अणगार ललना ॥ कुमर सुबाहू सुख लहै, ते तो मुऊ उपगार ललना ॥ दा० ॥ ३ ॥ मासखमणनें पारणे, पमिलान्यो ऋषिराय ललना ॥ शालिनद्र सुख नोगवै, दानतणें सुपसाय ललना ॥ दा० ॥ ४ ॥ पांचसें मुनिनें पारणो, देतो वोहरी आण ललना ॥ नरत थयो चक्रवर्त्ति नलो, ते पण मुऊ फल जाण ललना ॥ दा० ॥ ५ ॥ आप्या उमदना बाकला, उत्तम मात्र विशेष ललना ॥ मूलदेव राजा थयो, दानतणा फल देख ललना ॥ दा० ॥ ६ ॥ प्रथम जिनेश्वर पारणें, श्रीश्रेयांशकुमार ललना ॥ सेलमीरस वहरावियो, पाम्यो नवनो पार ललना ॥ दा० ॥ ७ ॥ चंदनबाला बाकुला, पमिलान्या महावीर ललना ॥ पंचदिव्य परगट थया, सुंदर रूप शरीर ललना ॥ दा० ॥ ८ ॥ पूरव नव पारेवडूं, शरणें राख्यूं सूर ललना ॥ तीर्थंकर चक्रवर्त्तिपणें, प्रगटयो पुन्य पमूर ललना ॥ दा० ९ ॥ गजनव शशलो

राखीयो, करुणा कीधी सार ललना ॥ श्रेणिकने घर अ वतर्यो, अंगज मेघकुमार ललना ॥ दा० १० ॥ इम अनेक में उधर्या, कहतां नावे पार ललना ॥ समयसुंदर प्रभु वीरजी, मुझ पहिलो अधिकार ललना ॥ ॥ दोहा ॥ शील कहे सुण दान तुं, किस्यो करै अहंकार ॥ आडंबर आठे पहुर, याचकसुं विवहार ॥ १ ॥ अंतराय वलि ताहरै, भोगकरम संसार ॥ जिनवर कर नीचो करै, तुझने पड्यो धिक्कार ॥ २ ॥ गर्व म कर रे दान तूं, मुझ पूठै सहु कोय ॥ चाकर चाले आगले, तो स्युं राजा होय ॥३॥ जिनमंदिर सोनातणो, नवो निपावे कोय ॥ सोवन कोटी दानदिये, शीयल समो नहि कोय ॥ ४ ॥ शीले संकट सहु टले, शीले जश शोभाग ॥ शीले सुर सानिध करै, शील वड्यो वैराग ॥५॥ शीलै सर्प न आभडै, शीले शीतल आग ॥ शीले अरि करी केसरी, भय जावै सब भाग ॥ ६ ॥ जनम मरणना भय थकी, में छोड्या अनेक ॥ नाम कहूं हिव तेहना, सांभलजो सुविवेक ॥ ७ ॥ ॥ ढाल २ ॥ पासजिनंद जुहारिये ॥ ए देशी ॥ शील कहै जग हूं वड्यो, मुझ वात सुणो अति मीठी रे ॥ लालच लावै लोकनें, मैं दानतणी वात दीठी रे ॥ शी० १ ॥ कलह कारण जग जाणीयें, वलि विरती नही पण कांई रे ॥ ते नारद मैं सीझव्या, मुझ जुओ ए अधिकाई रे ॥ शी० २ ॥ बांहे पहिरया बैरखा, शंखराजा दूषण दीधो रे ॥ काप्यो हाथ कलावती, ते मैं नवपल्लव कीधो रे ॥ शी० ३ ॥ रावणघर शीता रही, तो रामचंद्रे घर आणी रे ॥ शीतानो कलंक उतारीयो, मैं पावक कीधूं पाणी रे ॥ शी० ४ ॥ चंपाबार उघाडिया, वली चालणियें काढयुं नीरो रे ॥ सतीय सुभद्रा जस थयो, मैं तसु कीधी भीरो रे ॥ शी० ५ ॥ राजा मारण मांडीयो, राणी अभयायें दूषण दाख्या रे ॥ शुली सिंहासण

में कियो, में शेठ सुदर्शन राख्यो रे ॥ शी० ६ ॥ शील सन्नाह मंत्रीसरें, आवतां अरिदल थंन्न्यो रे ॥ तिहां पिण सानिध में करी, वली धरम काज आरंभ्यो रे ॥ शी० ७ ॥ पहिरण चीर प्रगट किया, में अठोत्तरसो वारो रे ॥ पांफवनारी द्रौपदी, में राखी माम नजारो रे ॥ शी० ८ ॥ ब्राह्मी चंदनबालिका, वलि शीलवती दवदंती रे ॥ चेफानी साते सुत, राजीमती सुंदर कुंती रे ॥ शी० ९ ॥ इत्यादिक में ऊधरथा, नर नारीना वृंदो रे ॥ समयसुंदर प्रनु वीरजी, पहिले मुऊ आनंदो रे ॥ शी० १० ॥ ॥ दूहा ॥ तप बोल्यो त्रटकी करी, दानने तूं अवहील, पिण मुऊ आगल तुं किसुं, सांनल रे तूं शील ॥ १ ॥ सरसा नोजन तें तज्या, जगमें मीठा नाद ॥ देहतणी शोन्ना तजी, तुऊमां किस्यो सवाद ॥ २ ॥ नारी थकी फरतो रहे, कायर किस्युं वखाण, कूफ कपट बहु केलवी, जिम तिम राखे प्राण ॥ ३ ॥ को विरलो तुऊ आदरे, नंफो सहु संसार ॥ आप एक तूं नांजतो, बीजा नांजे चार ॥ ४ ॥ करम निकाचित तोफवा, नांजु नवनय नीम ॥ अरिहंत मुऊने आदरे, वरस ठम्मासी सीम ॥ ५ ॥ रुचक नंदीसर ऊपरे, मुऊ लबधे मुनि जाय ॥ चैत्य जुहारे शाश्वता, आनंद अंग न माय ॥ ६ ॥ मोटा जोयण लाखना, लघु कुंथु आकार ॥ हय गय रथ पायकतणा, रूप करे अणगार ॥ ७ ॥ मुऊ कर फरसे उपशमे, कुष्टादिकना रोग ॥ लब्धि अठावीस ऊपजे, उत्तम तप संजोग ॥८॥ जे में तारया ते कहूं, सुणजो मन उल्लास ॥ चमत्कार चित पामसो, देशो मुऊ साबास ॥ ९ ॥ ॥ ढाल ३ ॥ नणदलरी देशी ॥ दृढप्रहार अति पापीयो, हत्या कीधी चार हो सुंदर ॥ ते पिण तिण नव ऊधरयो, मूक्यो मुगति मफार हो सुंदर ॥ १ ॥ तप सरखो जग को नही, तप करे कर्मनूं सूफ हो सुंदर ॥ तप

करवूं अति दोहिलूं, तपमां नही को कूम हो सुंदर ॥ त० २ ॥
सात माणस नित मारतो, करतो पाप अघोर हो सुंदर ॥ अर्जुन
माली में ऊधरचो, छेद्या कर्म कठोर हो सुंदर ॥ त० ३ ॥ नंदिषे
णनें में कियो, स्त्रीवल्लभ वसुदेव हो सुंदर ॥ बहुत्तर सहस अंतेउरी,
सुख भोगवे नित्यमेव हो सुंदर ॥ त० ४ ॥ रूप कुरूप काले घ
णो, हरिकेशी चंमाल हो सुंदर ॥ सुरनर कोमी सेवा करे, ते मैं
कीधी चाल हो सुंदर ॥ तप० ५ ॥ विष्णुकुमर लब्धे कियुं, ला
ख योजननो रूप हो सुंदर ॥ श्रीसंघ केरे कारणे, ए मुझ शक्ति
अनूप हो सुंदर ॥ त० ६ ॥ अष्टापद गौतम चढ्या, वांद्या जिन
चोवीस हो सुंदर ॥ तापस पिण प्रतिबूझव्ये, तिण मुझ अधिक
जगीस हो सुंदर ॥ त० ७ ॥ चौद सहस अणगारमां, श्रीधन्नो अ
णगार हो सुंदर ॥ वीर जिणंद वखाणीयो, ए पण मुझ अधिकार
हो सुंदर ॥ त० ८॥ कृष्ण नरेसर आगले, दुक्करकारक एह हो सुं
दर ॥ ढंढण नेम प्रसंसीयो, मुझ महिमा सवि तेह हो सुंदर॥ त०
९॥ नंदिषेण विहरण गयो, गणिका कीती हास हो सुंदर॥ वृष्टि करी सोव
ननणी, में तसु पूरी आस हो सुंदर ॥ त० १० ॥ इम बलभद्र प्रमुख
बहू, तारचा तपसी जीव हो सुंदर ॥ समयसुंदर प्रभु वीरजी,
पहिलो मुझ प्रस्ताव हो सुंदर ॥ त० ११ ॥ दूहा ॥ भाव कहे
तप तूं किसुं, ठेमथुं करे कषाय ॥ पूर्वकोमी जो तप तपै, क्षणमां
खेरूं थाय ॥ १ ॥ खंधक आचारज प्रतें, तें बाल्यो सवि देश ॥
अशुभ नियाणो तूं करे, क्षमा नही लवलेश ॥ २ ॥ द्वीपायन
ऋषि दूहव्या, सांब प्रद्युम्न सनाद ॥ तें तब क्रोध करी तिहां, किधो
द्वारिका दाह ॥३॥ दान शील तप सांभलो, म करो कूठ गुमान ॥
लोक सहूको साख दे, धर्मे भाव प्रधान ॥ ४ ॥ आप नपूंसक गो
त्रिणहे, ये व्याकरणी साख ॥ काम सरै नहि कोइ तुं, भाव भणे मैं

पारख ॥५॥ रस विन कनक न नीपजै, जल विन तरुअर वृद्ध ॥ रसवति रस नही लवण विण, तिम मुज विण नही सिद्ध ॥६॥ मंत्र यंत्र मणि औषधी, देवधर्मगुरु सेव ॥ जाव विना ते सवि वृथा, जाव फलै नितमेव ॥७॥ दान शिल तप जे तुमें, विध २ कह्या वृत्तांत ॥ तिहां जो जाव न हुंततो, कोई सिद्धी नव हुंत ॥ ८ ॥ जाव कहे में एकलें, तारया बहु नर नार ॥ सावधान थइ सांजलो, नाम कहूं निरधार ॥९॥ (ढाल चोथी ॥ कपूर हुवै अति ऊजलो रे, एदेशी) ॥ काननमें काउसग्ग रह्यो रे, प्रश्नचंद ऋषिराय ॥ ते में कीधो केवली रे, ततखिण करम खपाय ॥ १ ॥ सोजागी सुंदर, जाव वमो संसार ॥ एतो बीजो मुज परिवार, सो० ॥ दानादिक विण एकलो रे, एलापोहचाडूं जवपार ॥ सो० २ ॥ वंश ऊपर चढ खेलतो रे, एलापूत्र अपार ॥ केवलज्ञानी में कियो रे, प्रतिबोध्यो परिवार ॥ सो० ३ ॥ जूख तृषा खमें अतिघणी रे, करतो कूर आहार ॥ केवल महिमा सुर करै रे, कूरगडू अणगार ॥ सो० ४ ॥ लाजथी लोज वाधे घणो रे, आण्यो मन वैराग ॥ कपिल थयो मुनि केवली रे, ते मुजनें सोजाग ॥ सो० ५ ॥ अर्णिकासुत गछनो धणी रे, खीणजंघा वलि जाण, कीधो अंतगम केवली रे, गंगाजल गुण खाण ॥ सो० ६ ॥ पनरेसें तापसजणी रे, दीधी गौतम दिक्ख ॥ ततखिण कीधा केवली रे, जो मुज मांनी सीख ॥ सो० ७ ॥ पालक पापीये पीलीया रे, खंधकसूरीना शिष ॥ जनममरणथी ऊगरया रे, आपे मुज आशीष ॥ सो० ८ ॥ चंमरुद्दने चालतां रे, दीधो दंम प्रहार ॥ नवदीक्षित थयो केवली रे, ते गुरु पिण तेणी वार ॥ सो० ९ ॥ धनरथकारक साधुनें रे, पमिलाज्यो उलास ॥ मृगलो जावना जावतो रे, पोहतो स्वर्ग आवास ॥ सो० १० ॥ मृगावतीनें निज अपराध खमावती रे, मूंक्यो मनथी मान ॥

में दियुं रे, निर्मल केवलज्ञान ॥ सो० ११ ॥ मरुदेवी गज ऊपरे रे, देखी पूत्रनी ऋद्धि ॥ मुझनें मनमांहे धस्योरे, ततखिण पामी सिद्ध ॥ सो० १२ ॥ वीर वंदन चाढ्यो मारगे रे, चांप्यो चपल तुरंग ॥ दर्दुर नामे देवता रे, तेह थयो मुझ संग ॥ सो० ॥ १३॥ प्रभु पाय पूजन नीसरी रे, दुर्गला नामे नार ॥ कालधर्म विचमां करी रे, पोहती स्वर्ग मझार ॥ सो० ॥ १४ ॥ छायानी शोभा कारमी रे, रूप किसुं अभिमान ॥ भरत आरीसाभुवनमां रे ॥ पाम्यो केवलज्ञान ॥ सो० ॥ १५ ॥ आषाढभूति कलानिलो रे, प्रगट्यो भरतसरूप ॥ नाटक करतां पामियो रे, केवल ज्ञान अनूप ॥ सो० ॥ १६ ॥ दीक्षादिन काउसग्ग रह्यो रे, गजसुकमाल मसाण ॥ सोमल शीस प्रजालीयो रे, सिद्धि गयो शुभ झाण ॥ सो० ॥ १७ ॥ गुणसागर थयो केवली रे, सांभल पृथ्वीचंद ॥ पोते केवल पामियो रे, सेव करे सुर इंद ॥ सो० ॥ १८ ॥ इम अनेक में उधर्या रे, मूंक्या शिवपुरवास ॥ समयसुंदर प्रभु वीरजी रे, मुझने प्रथम प्रकास ॥ सो० ॥ १९ ॥ ॥ दूहा ॥ वीर कहे तुमें सांभलो, दान शील तप भाव ॥ निंदा छे अति पापणी, धर्म कर्म प्रस्ताव ॥ १ ॥ परनिंदा करतां थकां, पापे पिंड भराय ॥ वेढ राड वाधे घणी, दुर्गति प्राणी जाय ॥ २ ॥ निंदक सरिखो पापीयो, भूंडो कोइय न दिठ ॥ वलि चंडाल समो कह्यो, निंदक वदन अदिठ ॥ ३ ॥ आदि प्रशंसा आपणी, करतो इंद नरिंद ॥ लघुता पामे लोकमां, नासे निजगुण वृंद ॥ ४ ॥ को केहनी म करो तुम्हे, निंदाने अहंकार ॥ आप आपणें गामे रहो, सहुको भलो संसार ॥ ५ ॥ तोपण अधको भाव छे, एकाकी समरत्थ ॥ दान शील तप त्रिणें भला, पण भाव विना अकयत्थ ॥ ६ ॥ अंजन आंखे आंजता, अधिको आणो रेख ॥ रजमांहे

तज काढतां, अधिको जाव विशेष ॥ ७ ॥ जगवंत इंम जंजण जणी, चारे सम्यान गणंत ॥ चार करी मुख आपणा, चउ विध धर्म जणंत ॥ ८ ॥ ॥ ढाल ५ मी ॥ वीर जिणेसर इम जणे रे, वेठी परखदा बार, धर्म करो तुमें प्राणिया रे, जिम पामो जव पार रे ॥ धर्म हीये धरो ॥ १ ॥ धर्मना चार प्रकारो रे, जवियण सांजलो ॥ धर्म मुक्ति सुखकारो रे ॥ धर्म० ॥ धर्मथकी धन संपजे रे, धर्मथकी सुख होय, धर्मथकी आरति टले रे, धर्म समो नहि कोय रे ॥ ध० ॥ २ ॥ डुर्गति पमतां प्राणिया रे, राखे श्रीजिनधर्म ॥ कुटंब सहुको कारमो रे, मति जूलो जवि जर्म रे ॥ ॥ ध० ॥ ३ ॥ जीव जिके सुखिआ हूआ रे, वलि होसे बे जेह ॥ ते जिनवरना धर्मथी रे, पत कोई करो संदेह रे ॥ धर्म० ॥ ४ ॥ सोलेसे ग्रसठ समे रे, सांगानेर मफार, पद्मप्रजु सुपसानले रे, एह जण्यो अधिकारो रे ॥ ध० ॥ ५ ॥ सोहमसामी परंपरा रे, खरतर गछ कुलचंद ॥ युगप्रधान जग परगमो रे, श्रीजिनचंद मुनींद रे ॥ ध० ॥ ६ ॥ तास शिष्य अति दीपतो रें, विनयवंत जसवंत ॥ आचारज चढती कला रे, जिनसिंह सूरि महंत रे ॥ ध० ॥ ७ ॥ प्रथम शिष्य श्रीपूज्यना रे, सकलचंद तस शीस ॥ समयसुंदर वाचक जणे रे, संघ सदा सुजगीस रे ॥ ध० ॥ ८ ॥ दान शीयल तप जावना रे, सरस रच्यो संवाद ॥ जणतां गुणतां जावसुं रे, ऋद्धि समृद्धि सुप्रसाद रे ॥ ध० ॥ ए ॥ इति दान शील तप जाव चोढालिया संपूर्ण ॥

॥ अथ महावीरस्वामीको छंद लिख्यते ॥

सेवो वीरनें चित्तमां नित्य धारो, अरि क्रोधनें मन्नथी को वारो ॥ संतोषवृत्ती धरो चित्तमांही, राग द्वेषथी दूर थाउ उठांही ॥ १ ॥ पड्या मोहना पासमां जेह प्राणी, शुद्धतत्त्वनी वात विठलो

जाणी ॥ मनुजन्म पामी वृथा कां गमो छो, जैनमार्ग छंमी जुलां कां ज्ञमो छो ॥ २ ॥ अलोजी अमानी निरागी तजो छो, सलोजी समानी सरागी जजो छो ॥ हरि हरादि अन्यथी शुं रमो छो, नदीगंग मुकी गलीमां पमो छो ॥ ३ ॥ केइ देव हाथे असि चक्रधारा, केइ देव घाले गले रुंममाला ॥ केइ देव उत्संगे राखेछे वामा, केइ देव साथे रमे वृंद रामा ॥ ४॥ केइ देव जपे लेइ जपमाला, केइ मांस जक्षी महा विकराला, केइ योगणी जोगिणी जोग मांगे, केइ रुद्रणी ठागनो जोग मागे ॥५॥ इसा देव देवी तणी आश रा खे, सदा मुक्तिने सुखने केम चाखे ॥६॥ जदा लोजना थोकनो पार नाव्यो, तदा मथनो विंछुत्र मन न्नाव्यो ॥ ६ ॥ जे देवलां आपणी आस राखे, तेह पिंमने मन्नसुं लेश्र चाखे ॥ दीन हीननी जीम ते केम न्नाजे, फूटो ढोल होवे कहो केम वाजे ॥ ७ ॥ अरे मूढ भ्राता जजो मोक्षदाता, अलोजी प्रजुने जजो विश्वख्याता ॥ र- त्नचिंतामणी सारिखो एह साचो, कलंकी काचना पिंमसुं मत्त राचो ॥ ८ ॥ मंदबुद्धि जेह प्राणी कहेछै, सवि धर्म एकत्व जूलो ज्ञमेछै ॥ किहां सर्षवाने किहां मेरुधीरं, किहां कायराने किहां शू- रीरं ॥ ए ॥ किहां स्वर्णथालं किहां कुंज्ञखंमं ॥ किहां कोद्रवान ...क्षीरमंमं ॥ किहां क्षीरसिंधु किहां क्षारनीरं, किहां कामधेनु ...गखीरं ॥ १० ॥ किहां सत्यवाचा किहां कूमवाणी, किह ...हां रायराणी ॥ किहां नारकीने किहां देवज्ञोगी, किहां ...कुष्टरोगी ॥ ११ ॥ किहां कर्म घाती किहां कर्म ...स्वामी जजो अन्य वारी ॥ जिसी सेजमां स्वप्न- ...चे मंदबुद्धी धरो जेह स्वामी ॥ १२ ॥ अथिर ...ाचे, जना मूढमां श्रेष्टसुं इष्ट छाजै ॥ तजो ...रासो, सजो पुण्य पोसी जजो ते अरोसो

॥ १३ ॥ गति चार संसार अपार पामी, आव्या आस धारी प्रभु पाय स्वामी ॥ तूंही२ तुंही प्रभु परमरागी, भवफेरनो शृंखला मोह भागी ॥ १४ ॥ मानीये वीरजी है एक अर्ज मोरी, दीजै दासकूं सेवना चरण तोरी ॥ पुन्य उदय हुओ गुरु आज मेरो, विवेकें लह्यो में प्रभु दर्श तेरो ॥ १५ ॥ इति ॥

॥ अथ नवकारका छंद लिख्यते ॥

॥ दूहा ॥ वंछित पूरे विविधपर, श्रीजिनसासन सार ॥ निश्चे श्रीनवकार नित, जपतां जैजैकार ॥ १ ॥ अड़सठ अक्षर अधिक फल, नवपद नवेनिधान ॥ वीतराग सैंमुख वदे, पंच परमेष्टि प्रधान ॥ २ ॥ एकज अक्षर एक चित्त, समरयां संपति थाय ॥ संचित्त सागर सातनां, पातक दूर पुलाय ॥ ३ ॥ सकल मंत्र सिर मुकटमणि, सदगुरु भाषित सार, सोभवियां मन शुद्धसें, नित्त जपिये नवकार ॥ ४ ॥ (छंद हाटकी) नवकार थकी श्रीपाल नरेसर पाम्यो राज्य प्रसिद्ध, समसान विषे शिव नाम कुमरने सोवनपुरुषो सिद्ध ॥ नवलाख जपंता नरक निवारै, पामे भवनो पार ॥ सो भवियां भत्ते चोखे चित्ते नित जपियै नवकार ॥ ५ ॥ बांधी वड़साखा ठींके बैसी हेठल कुंड हुताश, तस्करने बलि मंत्र समप्यों श्रावक उड्यो तेह आकाश ॥ विधि रीते जप्यां विषधर विष टाले ढाले अमृतधार ॥ सो० ६ ॥ बीजोरा कारण राय महाबल व्यंतर दुष्ट विरोध, जेणें नवकारें हत्या टाली पाम्यो यक्ष प्रतिबोध ॥ नवलाख जपंता थायै जिनवर एहवो छै अधिकार ॥ सो० ७ ॥ पल्लीपति सीख्यो मुनिवर पासें महामंत्र मन शुद्ध, परभव ते राजसिंह पृथ्वीपति पाम्यो परघल रिद्ध ॥ ए मंत्रथको अमरापुर पुहुतो चारुदत्त सुविचार ॥ सो० ८ ॥ सन्यासी कासी तप साधंतो पंचाग्नि परजाले, दीठो श्रीपासकुमारे पन्नग अधबलतो

ते टाले ॥ संन्नलाव्यो श्रीनवकार स्वयंमुख इंद्रनुवन अवतार ॥ सो० ए ॥ मनशुद्धे जपतां मयणासुंदरि पामी प्रिय संजोग, इण ध्याने कुष्ट टव्युं उंबरनुं रगतपित्तनो रोग ॥ निश्चेसुं जपतां नवनिधि आवै धर्मतणो आधार ॥ सो० १० ॥ घटमांहे कृष्णन्नुजंगम घाव्यो घरणी करवा घात, परमेष्टि प्रन्नावे हारफूलनो, वसुधामांहि विख्यात ॥ कमलावतियें पिंगल कीधो पापतणो परिहार ॥ सो० ११ ॥ गयणांगण जाती राखी गिहणी पाम्री बाण प्रहार, पद पंच सुणंता पांमुपतधर ते अइ कुंता नार ॥ ए मंत्र अमोलख महिमा मंदिर न्नवडुख न्नंजणहार ॥ सो० १२ ॥ कंबल ने संबल कादव काढ्या सकट पांचसें माल, दीधे नवकारे गया देवलोके विलसे अमरविमान ॥ ए मंत्रथकी संपति वसुधामां लही विलसै जैनविहार, सो० १३ ॥ आगे चोवीसी हुइ अनंती होसे वार अनंत, नवकारतणी कोई आद न जाणै, इम न्नाखै न्नगवंत ॥ पूरवदिसि चारे आदि प्रपंचे समरयां संपति सार ॥ सो० १४ ॥ परमेष्टी सुरपद ते पिण पामे जे कृत कर्म कठोर, पुंमरगिरि ऊपर प्रत्यक्ष पेख्यो मणिधर नें इक मोर ॥ सद्गुरु सन्मुख विधियें समरंता सफल जनम संसार ॥ सो० १५ ॥ सूली आरोपण तस्कर कीधो लोहखरो परसिद्ध, तिहां सेठे नवकार सुणाव्यो पाम्यो अमरनी ऋद्धि ॥ सेठने घर आवी विघ्न निवारयो सुरें करी मनुहार ॥ सो० १६ ॥ पंच परमेष्टी ज्ञानज पंचह पंच दान चारित्र, पंच सिज्झाय महाव्रत पंचहुं पंचसमति समकित्त, पंच प्रमाद विषय तजो पंचह पालो पंचाचार ॥ सो० १७ ॥ (कलश ॥ छप्पय) नित्य जपिये नवकार सार संपत्ति सुखदायक ॥ सिद्ध मंत्र ए शाश्वतो एम जंपै जगनायक ॥ श्रीअरिहंत सुसिद्ध सुद्ध आचार्य न्नणीजै, श्रीउवज्झाय सुसाधु पंच परमेष्टि थुणीजै ॥ नवकार सार संसार

है कुशल लाभ वाचक कहै, एक चित्तै आराधता ऋद्धि सिद्धि वंछित लहै ॥ १ ॥ इति ॥

॥ अथ घग्घर नीसाणी लिख्यते ॥

सुख संपति दायक सुरनरनायक, परतिख पास जिनंदा हे ॥ जाकी छवि कांति अनोपम ऊपित, दीपत जाण दिनंदा हे ॥ मुख-ज्योति झिगामिग झिगमग२, पूरण पूनमचंदा हे ॥ सब रूप सरूप वखाणहि भूपत, तूंही त्रिभुवन नंदा हे ॥ १ ॥ करुणासागर लोक सबे मिल, जाका जस्स थुणंदा है ॥ तेरी खिजमत्त करे इकचित्तसुं तो सेवक धरणिंदा हे ॥ तें जलता आग निकाल्या नाग, किया वड्भाग सुरिंदा हे ॥ तो चरणां आय रह्या लपटाय, कला अति केलि करंदा हे ॥ २ ॥ इक दिन्न महा रन वन पंचागनि, ताप सताप तपंदा हे ॥ फल फूल आहारी ऊद्धाधारी, अल्प अहार लियंदा हे ॥ सब भेष सन्यासी रहे उदासी, अविनासी ध्यावंदा हे ॥ दिसि च्यारां दिठी बले अंगीठी, सूरज ताप तपंदा हे ॥ ३ ॥ महिमा वद्धारी सब नर नारी, जाकूं आय नमंदा हे ॥ एती सुण वत्तां धरिय उकत्तां, पुत्तां पास जिनंदा हे ॥ वामादे अक्खै कुण तो पक्खे, मेरा हूंस पूरंदा हे ॥ तिहां चालो पुत्तां जिहां अवधुत्तां, जो गारंभ जगंदा हे ॥४॥ जननी मन आसा पूरण पासा, ऐरापत्ति सऊंदा हे ॥ गल घूग्घरमाला जाण हेमाला, दंत्ताला ऊपंदा हे ॥ वर वीर घंटाला मद मतवाला, झोलाली झलकंदा हे ॥ ५ ॥ पंचरंगी पक्खर सझी सक्खर, ढालांसु ढलकंदा हे ॥ धतकारे धत्ता मत्ता अंकुस, मावत शीस दियंदा हे ॥ गंगातट आये खम्मे रहाए, प्रभु ज्ञानी आखंदा हे ॥ ६ ॥ रे रे अभिमानी तप अज्ञानी, पावक जीव जलंदा हे ॥ तिहां फाड़ फुफाड़ दिखाले लक्कड़, वड़ फणधर नागंदा हे ॥ नवकार सुणाया सुरपद पाया, तापस जस घटंदा हे ॥

तिण किया नियाणा तप खजाणा, कोरूी सहे वेचिंदा हे ॥ ७ ॥
हुयके क्रोधातुर आतुर सो कमठासुर धुर उपजंदा हे ॥ अश्वसेन
सुतन महाराज विषय दुख, जाणत आप तजंदा हे ॥ पंचमुठी
लोच किया आलोच, मनासुं सोच अफंदा हे ॥ प्रनु अप्रतिबंध वि-
हार कियो तव, रलवन वास वसंदा हे ॥ ८ ॥ उपशम अणगारे
काउसग्ग मफारे, कमठासुर दाव लहंदा हे ॥ वरू असुराणा वली
हेराणा, पिडाण विलोक धुखंदा हे ॥ करि आतस क्रोध विचार
विरोध, महा अनिमान धरंदा हे ॥ वादल मतवाली नीली काली,
वायु महा वाजिंदा हे ॥ ए ॥ रवि किरणा कोट रही रज ओट,
दिवाकर तेज छिपंदा हे ॥ कर घोर घटा चिकटा उमटी, अरु वाजू
गाजंदा हे ॥ गरूाटा वाटा सुणिया थाटा, ऐरापति लाजंदा हे ॥
हुआ अकाला धुर वरसाला, बीजलिया घीवंदा हे ॥ १० ॥ मोटी
धारांसुं आरावांसुं, यों अंबू वरसंदा हे ॥ चल्ले जल खाला नदियां
नाला, हेमाला हालंदा हे ॥ दरियाव उलहां केतो फुहां, पाणी नहि
मावंदा हे ॥ दिगपाल दहल्लां धरिय उत्थल्लां, खोणीपत्ति खिसंदा
हे ॥ ११ ॥ वरूे पाहारूां रूंगी रूारूां, लरूारूां ढाहंदा हे ॥ सम
ढाहंदी रेल वहंदी, जाणक जग रेलंदा हे ॥ बहु वासर बूठा जाण
रुिरुठ, रूूठ मन असुरेंदा हे ॥ तेवीशम राया वनमें पाया, काउ
सग्ग कहा करंदा हे ॥ १२ ॥ उवसग्गाहंदी केल करंदी, पाठा
नांहि मुरूंदा हे ॥ धरि मनमें ध्याना क्रोध न माना, निश्चल ध्यान
धरंदा हे ॥ प्रनु नासा तांइ नही आई, तोही नांहि खुनंदा हे ॥
देवारज जेसा धीर पएसा, पावस पीरू सहंदा हे ॥ १३ ॥ तिण
अवसर वरदां धरणी धरदां, आसण वेग चलंदा हे ॥ तिण अवधि
प्रयुंजी दीठे प्रनुजी, तन मन अति उलसंदा हे ॥ तिहां पदमा-
वती देव सकत्ती, सुं मिल वेग वहंदा हे ॥ हुयके हेराना वैठ वि

माना, पांवां आय लगंदा हे ॥ १४ ॥ फणनाग हजारां कर विस तारा. छत्र झगावंदा हे ॥ ले आपण खंधे प्रेम निबंधे, पूरब प्रीत सुखंदा हे ॥ इंद्राणीनारी सब सिणगारी, जोवन अंग फिल कंदा हे ॥ १५ ॥ राकापति वयणी मिरगानयणी, सूंदर रूप सो हंदा हे ॥ आयाखा कज्जल झलके विज्जल, खूब वणाव वणंदा हे ॥ नकवेसर नत्थां लाल सुकत्थां, विच मोती झलकंदा हे ॥ नंदण पाटंबर झीणो अंबर, आभूषण झलकंदा हे ॥ १६ ॥ उर कंचु कसिया तन हुलसिया, कामघटा गहरंदा हे ॥ पहिरण तन्न खूवा हरिया डूव, सोलेही सोहंदा हे ॥ कटिमेखल कड़ियां सोने जड़ियां, हीरा बीच हलकंदा हे ॥ १७ ॥ घमके घूघरियां पाए धरियां, पग नेवर रणकंदा हे ॥ ले झांझर ताला ताल कंसाला, पखावज्ज वाजंदा हे ॥ कुहके करनाला वीच रसाला, जंगी ढोल घुरंदा हे ॥ वाजे सरणाई सखरी घाई, नगारा रोझंदा हे ॥ १८ ॥ पनमा वै रुहा आय ठलहां, नाटिक मिल नाचंदा हे ॥ तत्ताथेइ२ तान तझझा, रस भेद रमंदा हे ॥ दिन तीन वितीता तोहि न वीता, पावस जल पसरंदा हे ॥ १९ ॥ धरणीधर जाणया ग्यान पिछाणया, कमठासुर कोपंदा हे ॥ नागादी पत्ती आखया रत्ती, कित्ती रीस आवंदा हे ॥ रे मुढा धिग चित्त विणठा, क्यूं नांही समझंदा हे ॥ साहिब बलवंता जोर अनंता, तूं तो नहि जाणंदा हे ॥ २० ॥ ए क्षमासागर गुणके आगर, तीनूं लोक नमंदा हे ॥ असमांन खमाई रीस उराई, हिक्काइ वजरंदा हे ॥ कित्ती बहु गल्लां पड़े दहल्लां, धमहक देह धूजंदा हे ॥ धरणेंद्र मराया तब ते आया, पावां आय लगंदा हे ॥ २१ ॥ कर जोड़ि खमाया सीस नमाया, जगनायक जिनचंदा हे ॥ तूं साहिब सच्चा तो गुण रच्चा, मेरा दिल खुलंदा हे ॥ तैं रीस न धरियां किणही विरियां, तूंही अचल गिरंदा हे ॥

कमठासुर किती बहु विनती, निज अपराध खमा दे ॥ २२ ॥ सुरपती सिधाये निजघर आये, प्रभुके गुण समरंदा है ॥ सुध संजम पाले दोष निहाले, तब केवल उपजंदा है ॥ समेतशिखर पर चढके ऊपर, सिद्धपुरी पोहचंदा है ॥ तेरी कीरती जग ऊपत्ती, पार न को पावंदा हे ॥ २३ ॥ तूं सच्चा रखके भेद परखके गुमानी मोरंदा है ॥ तूं अंतरजामी तूं बहुनामी, सुरनर सेव करदा हे ॥ तूं दीवाणा तूं खूमाणा, तूं मोजी मकरंदा हे ॥ तूं अल्लापीर फकीर मुसाफर, तूं जोगी तूं जिंदा है ॥ २४ ॥ तूं काजी मुल्ला मरद अटल्लां, तूंही शेष फरींदा है ॥ तेंही ऊपाया धंदे लाया, मायामें मुलकंदा है ॥ तूं बूढा बाला मद मतवाला, तूं पक्का वाजंदा हे ॥ तूं कच्चा कवला सबतें सबला, सच्चा मऊ रहंदा है ॥ २५ ॥ बाबागोसांई भेद न पाई, भीऊ पच्यां आवंदा है ॥ तूं नारायण जोगपरायण, माधव तूंही मुकंदा है ॥ तूं कवलाधारी तूं अवतारी, तूं देवा देवंदा है ॥ तूं एकां थप्पे एक उथप्पे, थिति निज सुख थापंदा हे ॥ २६ ॥ तो देवल मझां लोकति संझा, सीरणिय वाटंदा हो ॥ गुण गीत पयासे कीरत भासे, ऊणे सुर गवंदा है ॥ कालागरु अगरसुं मलयागर, धूपेऊा धुखंदा हे ॥ कुंकुम कसतूरी केसर पूरी, चंदनसुं चरचंदा हे ॥ २७ ॥ मरुआ मचकुंदा फूला हंदा, टोमर कंठ ठवंदा हे ॥ चंपा गुलाबां भरीया ठाबां, परमल तिहां वासंदा हे ॥ कसावोई चंगी रचिये अंगी, फूलां बीच फाबंदा हे ॥ आभूषण धरियां तन ऊपरियां, कुंमल कान ऊिगंदा हे ॥ २८ ॥ सूरत सोहंदी मूरत हंदी, दीठां नैण ठरंदा हे ॥ तेरी बलि जाउं मोजां पाउं, वीनती तूंहि सुणंदा हे ॥ २९ ॥ क्या कहूं गल्लां हुकम अदल्लां, समकित मन उलसंदा हे ॥ सिद्धांदा वासा तिहा रहासा, तुऊ सेवक विलसंदा हे ॥ घग्घर नीसांणो पास वखाणी

गुण जिनहर्ष कहंदा हे ॥ ३० ॥ इति श्रीघग्घर नीसाणी संपूर्ण ॥

॥ अथ दादा गुरुदेव स्तवन प्रारंभ ॥

॥ विशे ऋद्धि समृद्धि मिली, शुभ योगे पुण्यदशा सफली ॥ जिन कुशल सूरि गुरु अतुलबली, मनवंछित आपे दादो रंग रली ॥१॥ गल लील समें विपुला, नवनवा महोछव राजेला॥ सुपसाथैं गुरु ऋती कला, सुकलीणी पुत्रवती महिला ॥ २ ॥ सबही दिन थाये नवला, सद वासकपूरतणा कुरला ॥ हय गय रथ पायक बला, किल्लोल करे मंदिर कमला ॥ ३ ॥ वींजै चमर नि साण घुरै नर बै दरबार खमा पुहरै ॥ जय२ करजोमी उचरै, सा निद्ध गुर सब काज सरै ॥ ४ ॥ सरसा भोजन पान सदा, सुख रोग दुकख न होय कदा ॥ अविचल झलट अंग मुदा, गुरु कूरम दृष्टि प्रसन्न सदा ॥ ५ ॥ घमघम माद्दल नाद घुमें, बत्तीसे नाटक रङ्गरमे । प्रगट्यो पुण्य प्रताप हमें, सबला अरियण ते आय नमें ॥ ध्या ॥ ६ ॥ तनसुख मनसुख चीरतणें, पहिरें वेलाउल होयरनें ॥ धया वो कुशल गुरु एक मनें, जृंभक सुर मंदिर भरे घनें ॥ ७ ॥ तत खण दृण खंच्यो आवे, करि स्यामघटा मेह वरसावे ॥ तिसीयां लोय तुरत पावे, जलदाता त्रिजग सुजश गावे ॥ ८ ॥ लहिरयां जल कल्लोल करै, प्रवहण भवसायर मझ फरे ॥ वूरूता वाहण जे समरे, ते आपद निश्चेसुं उबरै ॥ ९ ॥ खरूखरू खरूग प्रहार वहे, ते खेसो दामनि जिम समसेल सहे ॥ कुशल२ गुरु नाम कहे, ते खेमकुशल रिण मझ लहे ॥ १० ॥ थुंभ सकल परचा पूरै, श्रीनाग पुरै संकट चूरै ॥ मंगलोर अधिके नूरै, देरावर भय टालै दूरै ॥११॥ वीरमपुर वाने रुघरै, खंभायतपुर विक्रमनयरै ॥ जिणचंद सूर पाटे पवरै, जसु कीरति महीमंडल पसरै ॥ १२ ॥ पूरब पश्चिम दक्षण आगे, नत्तर गुरु दीपै शोभागे ॥ दहदिशि जन सेवा मागे;

श्रीखरतरगच्छनी महिमा जागै ॥१३॥ पुर पट्टण जनप्रद ठाम, ... ईजै कुशल नयर गामै ॥ पूजै जे नर हितकामे, ते चक्रवर्त्ति पदवी पामे ॥ १ ॥ श्रीजिनकुशल सूरि साखै, सेवकजनने सुखिया राखै ॥ समरयां गुरु दरशण दाखै, श्रीसाधुकीरति पाठक न्नाखै ॥ १५ ॥ इति पदं ॥

॥ अथ श्रीजिनदत्त सूरि सद्गुरु उत्पत्ति स्तवन

॥ वर लाठ विलाश सुवाश मिले, गुरु नामें मननी आश फलै ॥ दोषी डुस्मन दूर टलै, सहसा बहु संपति आश फलै ॥ १ ॥ जय२ जिनदत्त सूरिंद यती, श्रुतधार कृपालक शीलवती ॥ जसु नामे न रहै पाप रती, जेहनी महिमा जगमांहे अती॥ २ ॥ शुन्न मंगल लील विलाश सदा, डुख रोर डुकाल न होय कदा ॥ आराध्यां आवै सुगुरु मुदा, सुप्रशन हाजर होय जदा तदा ॥ ३ ॥ जिण जीती चोसठ जोगणियां, वश बावन खेतलवीर कियां ॥ जसु नामे न पडे वीजलियां, न्नूत प्रेत न कर सके छलबलियां ॥ ४ ॥ जिण सिंध सवालख दिस साधी, पंच पीर नदी जिण पुल बांधी ॥ उपगार कीयां कीरत लाधी, वरसात लीयां गुरु सिद्ध वाधी ॥ ५ ॥ सुत मुगल कियो सरजीत बहु, पाये लागा नर नार सहू ॥ जिण साधी विद्या वेशालहू ॥ प्रतिबोधी श्रावक कीध सहू ॥ ६ ॥ वडनगरे ब्राह्मण द्वेष धरी, मृत गाय लइ जिण चैत्य धरी ॥ गुरु मंत्रबलें जीवत उधरी, विप्रवेद सहू गुरु पाय परी ॥ ७ ॥ वज्रमय थंन्नो दोय खंड कियो, पोथी परगट परन्नाव थियो ॥ विद्या सोवनवरणे सझियो, वर नयर उज्जेणी सुजश लियो ॥ ८ ॥ गुरु हुंबड वंसे जीवदया, मंत्री वाछग परसिद्ध थया ॥ वाहडदे कूखै जनम न्नणूं, ते चवदे विद्या जाण थयूं ॥ ९ ॥ इग्यार बत्तीसै जनम न्नणूं, इग्यार इगतालै दिक्ष गुणुं ॥

गुणवर इग्यारे गुणहत्तरै, स्वर्गे वारेसै इग्यारै ॥ १० ॥ जिनचंद्र सूरी पटोधरणं, परभाव उदेसर भयहरणं ॥ नवनिधि लछमी संपति करणं, वलि विकट संकट आरती हरणं ॥ ११ ॥ थुंभ सकल श्रीअजमेरे, गढसंभो वर वीकानेरे ॥ सुखदायक श्रीजेशल मेरे, दीपे गुरु गाजीखान केरे ॥ १२ ॥ सुलतान नगर महिमा सागे, भावठ दालिद दूरे भागे ॥ मेरे असमालखानके सोभागे, गुरु पुर२में कीरति जागे ॥ १३ ॥ धन२ जे सद्गुरु ध्यान धरे, तेरनवन पूजा जेह करे ॥ गछ खरतरनी महिमा पसरै, कवि सूरि उदय जिनकीरति करै ॥ १४ ॥ इति पदं ॥

॥ अथ सद्गुरु श्रीजिनकुशल सूरजी उत्पत्ती स्तवन ॥

रिसह जिनेसर सो जयो, मंगल केलि निवास ॥ वासुव वंदिय पायकमल, जग सहू पूरै आस ॥ १ ॥ (चोपाई) चंद कुलांवर पूनमचंद, वंदो श्रीजिनकुशल मुणिंद ॥ नाम मंत्र जसु मह्लिम निवास, जो समरै तसु पूरै आस ॥ २ ॥ मरुमंडल सवि- याणो गाम, धण कण कंचन अति अभिराम ॥ जिहां वसै जि- ह्लागर मंत्र, जैतसिरी जसु घरणी कलत्र ॥ ३ ॥ जसु तेरसे रीसे जन्म, सेतालें सिरिसंजम रम्म ॥ पाटण संतहत्तरे जसु पाट, लिख्यासिये तसु सुरगे वाट ॥ ४ ॥ भूमंडल सरगे पायाल, अचि- राचिर युग इण कलिकाल ॥ प्रभु प्रताप नवि माने लोय, मैं नवि नयणे दीठो जोय ॥ ५ ॥ निरधन लहे धन धन्न सुवन्न, पुत्रहीण पामें वहु पुत्र ॥ असुखी पामे सुख संतान, एक मनां करतां गुरु ध्यान ॥ ६ ॥ गुरु समरण आपद सवि टलै. संपत्त संति सुख संप- ति मिलै ॥ आधी व्याधी चिंता संताप, ते वैरि नवि संसै व्याप ॥ ॥ ७ ॥ पाप दोष नवि लागे तिहां, गुरु समरण उच्छंगा जिहां ॥ सेवंता सुरतरुनी छांह, निश्चै दालिद मेटे बांहि ॥ ८ ॥ निसदूर

विसहरं विस नरनाह, भूत प्रेत ग्रह व्यंतर राह ॥ प्रभु नामें ते न करै पीड़, भाजै भावठ भवभय भीड़ ॥ ९ ॥ रोग सोग सवि नासै दूर, अंधकार जिम ऊगै सूर ॥ मूरख फीटी पंडित थाय, प्रभु पसाय दुख दुरिय पुलाय ॥ १० ॥ दिन२ जिनशासन उद्योत, जिहांअछै भवसायर पोत ॥ सो सदगुरु में भेट्यो आज, रलियरंग सब सीधा काज ॥ ११ ॥ ॥ ढाल ॥ आज घरअंगण सुरतरु फलियो, चिंतामणि करकमलै मिलियो, छंदयो परमानंद घरे ॥ १२ ॥ आज दीह में धन्न गिणियो, जुगपवरागम जो में थुणियो, चंद्रगच्छ महिमा निलो ए ॥ १३ ॥ कांइ करो पृथ्वीपति सेवा, कांइ मनावो देवी देवा, चिंता आणो कांइ मने ॥ १४॥ वार२ एक चित्त भणीजै, श्रीजिनकुशल सूरि समरीजै, सरै काज आयास विन ॥ १५ ॥ संवत चवद इक्यासी वरसै, मुलक वाहण पुरमें मन हरसै, अजिय जिणेसर पर भुवणें ॥ १६ ॥ कीयो कवित्त ए मंगल कारण, विघन हरण बहु पाप निवारण, कोइ मत संसो धरो मनें ॥ १७ ॥ जिम२ सेवे सुरनरराया, श्रीजिनकुशल मुनीसर पाया, जयसागर उवझाय थुणे ॥ १८ ॥ इम जो सद्गुरु गुण अभिनंदै, रुद्धि समृद्धि सो चिरनंदै, मनवंछित फल मुज हुवो ए ॥ १९ ॥ इति पदं ॥ ॥ पुनः ॥ आयो सहु श्रीसंघ आश घरे, गुरु मोन ग्रह्यां कहो केम सरे ॥ दरशन वहिलो सद गुरु दाखो, निज सेवक जाण महिर राखो ॥ १ ॥ इय विखमी विरियां आयवणी, केहवी करिये तुझ अरज घणी ॥ हिव अलगा छो तो वेगा आवो, हिव ढील घणीभर म करावो ॥ २ ॥ तूं सद गुरु खरतर गच्छ साचो, कोइय न जाणे तुझने काचो ॥ इण संकटमें आलश म करो, दादा दुसमननें दूर करो ॥ ३ ॥ कोइ चूक पड़ी सदगुरु हमसुं, तो त्यूं कहस्यो तिण पर खमसुं ॥ हिवणा हूं

थे मत ताणो; निश्चे पोतानो कर जाणो ॥ ४ ॥ आयो सब श्रीसंघ आगा लगै, पाछा किम जात्रा इणे पगे ॥ इण पर करियै गुरु अरज इसी, हिव सगला मेलो करो खुसी ॥ ५ ॥ जिनकुशल सूरीसर जंग चालो, अपणायत वेगा आवो ॥ अगला विरुद संभालो, परघल निज डेरू प्रतिपालो ॥ ६ ॥ गुण गाम गंगाणे ए गायो, सुणतां सदगुरु वेगो आयो ॥ राजी हुय सगला रंगरली; जिनचंदनी आस्या सफले फली ॥ ७ ॥ इति पदं ॥ पुनः ॥ सदगुरुजी थे सांभलो, श्रीजिनदत्त सूरीस हो ॥ सेवकने सांनिध करो, पूरो मनह जगीस हो ॥ १ ॥ दोलति दो हो दादाजी संपति दो ॥ आंकणी ॥ दोलत दो गुरु माहरा, आंहरा विरुद अनेक हो ॥ थां समरयां संकट टलै, एहीज दादाजी ताहरी टेक हो ॥ दो० २ ॥ जीती चोसठ जोगणी, वस कियां बावन वीर हो ॥ सिंधमांहे तैं साधीया, पंचनदी पंच पीर हो ॥ दो० ॥ ३ ॥ पडिकमणामांहे बीजली, बलीर झबकाय हो ॥ थे मंत्री राखी तिका, तूठी वर दे जाय हो ॥ दो० ॥ ४ ॥ उछव करतां उछवमें, मूंज मुगलरो पूत हो ॥ जाप करीनें जीवाडियो, संघ मांहे राख्यो दादे सूत हो ॥ दो० ५ ॥ बडनगररे ब्राह्मणें, देहरें धरी मृतगाय हो ॥ परप्रवेश विद्या बलै, पिशुन लगाया दादे पा यो ॥ दो० ६ ॥ विक्रमपुर व्यापी मरी, दूर कीया तें सहू दुःख ॥ परवार पिण पोतें कीयो, सहुनें दियो दादे सुख हो ॥ दो० ७ ॥ अंबड हाथे अक्षरै, थे प्रगट्या ततखेव हो ॥ जुगप्रधान जग जयो, आखै अंबिकादेव हो ॥ दो० ॥ ८ ॥ थांभो वज्र विदारनें, पोथी परगट कीध हो ॥ विद्या सोवनअक्षरे, उजेणीमांहि लीध ॥ दो० ॥ ९ ॥ इम विरुद घणा छै ताहरा, कहतां नावे पार ॥ भागसंजोगे दादो भेटियो, अमरचंदियां आधार हो ॥ दो० ॥

॥ १० ॥ हुं तूं सेवक ताहरो, थे आपो धन रुद्ध हो ॥ कनककीरत सुपसाउलै, लाभनदय सुख सिद्ध हो ॥ दो० ११ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥ दादा चिरंजीवो, सेवकजन सुखदाई, दरशण सदा देवो ॥ दादो दीनदयाल सदा दाता, दादो समरयां आपे सुखशाता, दादो जगबंधव जगगुरु त्राता ॥ दा० ॥ १ ॥ दादो परचा जग सगले पूरे, दादो सेवकनां संकट चूरे, दादो दुरित हरै सहूनी दूरे ॥ दा० ॥ २ ॥ दादो अलगांथी जात्री आवे, दादो देखीने ते सुख पावे, म्हारा दादाजीनी जोरु कोइ नावे ॥ दा० ॥ ३ ॥ दादो राजनगरमांहे राजे, जिहां सुजशनगारा नित वाजे, दादो ओगाला सेहर गाजे, दा० ॥ ४ ॥ दादा घस केसर सूकरु घोली, हाथे लेइ सोवन क चोली, पूजो दादाजीनें मिलश टोली ॥ दा० ॥ ५ ॥ दादो आरतियां आरति टाले, दादो सेवगजनने प्रतिपालै, दादो जिन सासन नित ऊजवालै ॥ दा० ॥ ६ ॥ दादो महिमावंत माहाराजा, दादो राजै खरतर गछ राजा, दादो समरयां सफल करै काजा ॥ दा० ७ ॥ दादो कुशलसूरिंद बहु गुणधारी, दादो परतिख सुरतरु अवतारी, जाउं दादाजीनी हूं वलिहारी ॥ दा० ॥ ८ ॥ दादो श्रीजिनचंदसूरिंद पाटै, दादो गाजे गुणियन गेहगाटै, जसु थांन सोहे जग थिरथाटै ॥ दा० ॥ ए ॥ दादा महिर निजर मुझ पर करियै, दादा आरति पोरा दुख हरियै, दादा जिम जग जयकमला वरिये ॥ दा० १० ॥ दादा सेवगनें सानिध करज्यो, दादा दुस्मणनें दूरे हरज्यो, जिनचंदना मनवंछित फलज्यो ॥ दा० ॥ ११ ॥ इति पदं ॥

पुनः गाजै जिनकुशल गमालै, सेवकनां संकट टाले हो ॥ गा० ॥ १ ॥ परतिख गुरु परचा पूरै सेवकनी चिंता चूरे हो ॥ गा० ॥ २ ॥ छतरीनितरी छबि- गाजे विग्में शिर थुंभ विराजे हो ॥ गा० ॥ ३ ॥ फूलरे यात्री मि.

आवै, दादोजी दीठां सुख पावे हो ॥ गा० ॥ ७ ॥ केशर घस भरिय कचोली, मांहे वलि मृगमद घोली हो ॥ गा० ॥ ५ ॥ पूजो पग नीर पखाली, गावो गुण गीत रसाली हो ॥ गा० ॥ ६ ॥ दादोजी दुखियां सुख देवै, निरधनियां नित धन देवे हो ॥ गा० ॥ ७ ॥ हय हाथी रथपति बहुला, गुरु नामे पामे कमला हो ॥ ॥ गा० ॥ ८ ॥ सकजा सुत सुंदर नारी, पामे परिकर सुखकारी हो ॥ गा० ॥ ९ ॥ अलगांथी रोग गमावै, गुरु पूज्यां वंछित पावै हो ॥ गा० ॥ १० ॥ पावै गुरु तिसियां पाणी, तिण वेला जलधर आणी हो ॥ गा० ॥ ११ ॥ ग्रह गोचर चोर जंजालै, पीड़ा हुवै आलेमालै हो ॥ गा० ॥ १२ ॥ बाजै जग जशना बाजा, राजै खरतर गछ राजा हो ॥ गा० ॥ १३ ॥ जसु जैतसिरी वर माता, जिल्हा गरमंत्र विख्याता हो ॥ गा० ॥ १४ ॥ संवत सतरेसे इक्यासी, कातीपूनम परकासी हो ॥ गा० १५ ॥ सहु संघ सहित सुविलासै, अधिके हर हेत उल्लासे हो ॥ गा० ॥ १६ ॥ इम यात्रा करी आणंदे, जिनभक्ति जतीसर वंदे हो ॥ गा० ॥ १७ ॥ इति पदं ॥ पुनः सदाइ मेरे श्रीजिनकुशल गुरू ॥ कुशल करण कलिमांहे प्रगट्यो, खरतर गछ वरू ॥ स० ॥ बावनोचंदन मृगमद मेलो, पूजो प्रेम भरू ॥ सं० १ ॥ चिंता चूरण विघ्न विडारण, दालिद दूरहरू ॥ स० २ ॥ दिन२ साहिब चढते वानें, ध्यावो ध्यानधरू ॥ स० ॥ बाजे जेहना जशना बाजा, ठावी ठामे जरू ॥ स० ॥ ३ ॥ संवत अढारसमें अरूसठे, मिगसरमास थिरू ॥ स० ॥ संघ सहित श्रीसदगुरु भेटें, श्रीजितहर्ष सरू ॥ स० ॥ ४ ॥ नाम गजासै चरण नमंता, तूठे कल्पतरू ॥ स० ॥ पाठक श्रीविद्याहेम गणिनें, उदयरत्न करू ॥ स० ॥५॥ इति पदं ॥ पुनः आयो आयो जी, समरंता दादोजी

आशा ॥ संकट देख सेवककूं सद्गुरु, देराउरतैं ध्यायो जी ॥ ...६
॥ १ ॥ दादा बरसे मेहनैं रात अंधेरी, वाय विरा सबलो वायो ॥
पंचनदी हम बैठे बेरी, दरीवै चित्त डरायो जी ॥ स० ॥ २ ॥
दादा जखजणी पोहचावण आयो, खरतर संघ सवायो ॥
समयसुंदर कहे कुशल कुशलगुरु, परमानंद सुख पायो जी ॥ स०
॥ ३ ॥ इति पदं ॥ राग लहुरी ॥ भाया भक्तिसुं पूर रह्यो रे,
दुर्जन सब दुर दह्यो रे ॥ भा० ॥ मेरे मनमें भक्ति वैरागी, चित्त
परणित लगनसुं लागी ॥ मेरी भाग्यदशा अब जागी, जीया हो
भा० ॥ १ ॥ सब सज्जन मिलकर आवो, गुरुचरणे चोक पूरावो ॥
वलि अक्षत थाल बधावो, जीहा हो भा० ॥ २ ॥ गुरु महिमावंत
सवाई, गुरुनाम सदा सुखदाई ॥ गुरु सेव्यां पाप पुलाई, जीवा
हो भा० ॥ ३ ॥ घस केसर भरके कचोली, मांहे मृगमद कुंकुम
घोली ॥ गुरु पूज रचो भर फोली, जीया हो भा० ॥ ४ ॥ श्री
जिनहर्ष सूरीसरराजा, वाजे जग जशना वाजा ॥ सत्यरत्न करै
शुभ काजा, जीया हो भा० ॥ ५ ॥ इति पदं ॥ पुनः
॥ राग केरवो ॥ ॥ कुशल सूरिंद गुरु पूजो भवि हितसुं, कु० ॥
केशर चंदन कपूर अरगजा, भाव धरी करो पूजा चितसुं ॥ कु०
१ ॥ मोगरा लाल गुलाब मालती, मल सुध माल करै भवि रुच-
सुं ॥ कु० २ ॥ अशरण शरण परम गुरु सबो, धरम ध्यान धरो
आतम रुचिसुं ॥ कु० ३ ॥ सेवक जन प्रतिपाल जगतगुरु, आशा
पूरे गुरु घणुं दत्तसुं ॥ कु० ४ ॥ ध्यान सुधारे ज्ञान वधारे, रूप रंग
देवै नित दिन भतिसुं ॥ कु० ॥ ५ ॥ कुशल सुरिंद गुरु सानिधका
री, परतिख परचा पूरै सतसुं ॥ कु० ॥ ६ ॥ श्रीजिनहर्ष सदा
सुविलाशी, सत्यरत्न सुख एही छतसुं ॥ कु० ॥ ७ ॥ इति पदं ॥
॥ राग देशी चलत ॥ ... करो रे उछाह, श्रीजिनकुशल